

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी

संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल आदि प्राचीन उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन गण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्०  
डॉ० आ० ने० उपाध्ये, एम० ए०, डी० लिट्०

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय : ९ अलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७

प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५

विक्रय केन्द्र : ३६२०११ नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

भ्रूक : सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५

स्थापना : फाल्गुन कृष्ण ९, वीर नि० २४७० • विक्रम सं० २००० • १८ फरवरी सन् १  
सर्वाधिकार सुरक्षित

भारतीय ज्ञानपीठ



स्व० मूर्तिदेवी, मातेद्वरी श्री शान्तिप्रसाद जैन





# UTTARAPURĀNA

of

ĀCĀRYA GUṆABHADRA

With Hindi Translation, Appendices etc.

*Edited by*

Pt. Pannalal Jain,

Sāhityācārya

016293



**BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA PUBLICATION**

---

First Editon— V. N. S. 2480, V. S. 2011, 1954 A. D.

Second Edition—V. N. S. 2494, V. S. 2025, 1968 A. D.

Price Rs. 10/-

---

**BHĀRĀTĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ**

**JAINA GRANTHAMĀLĀ**

FOUNDED BY

**SĀHU SHĀNTIPRASĀD JAIN**

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

**SHRĪ MŪRTIDEVĪ**

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC, PHILOSOPHIC, PURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXT AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRAṂŚA, HINDI, KANNADA, TAMIL ETC, ARE BEING PUBLISHED IN THESE RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES AND CATALOGUES OF JAINA BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED.

General Editors

**Dr Hiralal Jain, M A , D Litt**

**Dr A N Upadhye, M A , D. Litt**

**Bharatiya Jnanpitha**

Head office 9 Alipore Park Place, Calcutta-27  
Publication office : Durgakund Road, Varanasi-5  
Sales office : 3620/21 Netaji Subhash Marg, Delhi-6.

---

Founded on Phalgun Krishna 9, Vira Sam. 2470, Vikrama Sam. 2000 18th  
All Rights Reserved

## Preface to the first Edition

With the publication of this part containing the Uttarapurāna by Gunabhadra, the Bhāratīya Jñāpīṭha, Banaras, has to its credit a signal achievement in presenting to the world of scholars the celebrated Sanskrit work, the Mahāpurāna (MP) or the Trisastī-laksana-mahāpurāna-samgraha (TLMPS), of Jināsena and Gunabhadra, in three handy volumes. As compared with the three or four earlier editions of this work, in part or full, with Maṅgali, Hindi and Kannada translations, this edition is characteristically superior. The Sanskrit text is critically presented after collating it from a number of MSS important readings from which are duly noted, it is accompanied, just below, by a fluent Hindi paraphrase, there is an exhaustive Introduction in Hindi which not only puts together all information about the authors but also touches some important topics from the work itself, lastly, there is an alphabetical Index of the verses. Thus this edition meets the needs of a pious reader, and goes a great way to satisfy the demands of a critical scholar.

The MP or the TLMPS, as its title indicates, is a great narrative of the ancient times, basically describing the lives of 63 Śalākāpurusas, namely, 24 Tīrthakaras, 12 Cakravartins, 6 Balabhadras, 9 Nārāyanas and 9 Pratinārāyanas recognised and honoured by Jainism. These biographies do not cover only one life of theirs, but present a detailed account of the career of their souls through various earlier births and also indicate their march on the path of religious and spiritual progress. In fact, these lives hold before the religious aspirants various facets of the spiritual career of great many souls that inspire religious confidence in others and lay down spiritual standards for them.

The entire narration is put in the mouth of Gautama and delivered in reply to the enquiry of king Śrenikā, both of whom are historical persons. These biographies of souls give many an occasion to the authors to introduce various topics of traditional and conventional character and to embody in the work mythological, religious, dogmatical, sacramental and ritualistic details; and thus make the whole work almost an encyclopaedia of Jainism. We get here a graphic description of the evolution of human society along the march of time and of what the great souls of the past did for man in the beginning. The careers of migrating souls bring before one the glimpses of the whole universe and its ideological associations. No opportunity, to introduce poetical descriptions, ethical sermons, moral exhortations, theoretical details about dreams, town-planning, polity etc., religious dogmas and practices, polemical attacks and refutations, and technical information, is ever missed with the effect that the narratives get enriched by a variety of stuff which at once demonstrates the deep learning and width of hereditary scholarship the authors of this work possessed.

The MP is a magnificent traditional history so far as the great heroes of Śramanic culture are concerned. Rich details about the Kulakaras like Nābhī, about Tīrthakaras like Vrsabha, about Cakravartins like Bharata and others are presented with deep interest. It is here that we get the tales about Rāma and Rāvana, about Kṛṣṇa and Pāṇavas, about Bāhubali, Brahmadaṭṭa, Jīvamdhara, Vasu, Nārada and many other luminaries which are of immense significance for a student of comparative mythology.

In describing the military campaign of Bharata, the author introduces important geographical information, though conventional in many details. The

descriptions of kalpavrkṣas, numerals, three worlds, various mountains, phl schools; divisions of knowledge, renunciation, rituals, samskāras, penances, tion, Samavasarana etc. have enriched the work with religious and cultu of great importance. Some socio-cultural topics deserve careful study and 1 tion. Apart from the code of layman's and ascetic's morality which is e throughout the work, we find in this work many ideas on state craft and wo dom expressed in a striking manner.

While composing this MP, Jinasena and Gunabhadra have draw deal of information from canonical tradition and post canonical texts Tiloyapannatti of Yativrsabha, as well as the Vāgartha-samgraha of Kavī sthī. Their performance proved so authoritative, magnificent and exhaus its prototypical predecessors were almost eclipsed. It may not be surprisi fore, that works like that of Kavīparamesthī came to be neglected and, in time, lost beyond recovery.

This MP has served as a model, if not necessarily a direct and source for many subsequent authors like Puspadanta, Hemacandra, Cāmundarāja, and the author of Tamil Śrīpurāna, etc. who composed the in Apabhramśa, Sanskrit, Kannada and Tamil. Besides, many Jaina au directly or indirectly indebted to this class of works for patterns of d descriptions with which they enriched their poems on select themes centri one or the other hero, a Tīrthamkara, a Cakravartin, or any individua antiquity like Bāhubali, Pradyumna, Jivamdharma etc.

The MP is divided into two parts, Ādipurāna in Fortyseven and Uttarapurāna in Twentynine Parvans : the entire work thus has S Parvans. The total Granthāgra comes to about Twenty thousand ślokaś. Ādipurāna, fortytwo Parvans and three verses more were composed by ( about twelve thousand ślokaś ) and the remaining work by his pupil Gu. The Ādipurāna covers the biography of the first Tīrthakara and first Cal and the Uttarapurāna deals with the lives of the remaining Tīrthakaras a Trisastī Puruṣas. The Uttarapurāna ( about eight thousand ślokaś ) obviously therefore becomes more enumerative than descriptive.

As an able exponent of Jainism in its manifold aspects and as a master of Sanskrit language, Jinasena occupies a unique place 1 literature by both the quantity and quality of his contributions. Ver known of his personal life. We get, however, some glimpses of his persona some of his own poetic expressions at the close of his commentary, Jay. Almost as a boy he appears to have accepted renunciation, leading a strict life and devoting himself wholly and solely to religious and scholarly life. physically weak and not quite handsome, he was strong in his penances a with intelligence, forbearance and modesty. He was an embodiment of k and spiritualism.

As a monk, Jinasena was more an institution than an individual. great disciple of a greater teacher, Vīrasena, whose Jayadhavalā *comme* completed in 837 A. D., just as his pupil Gunabhadra completed his Ma posthumously some years before 897 A. D. He belonged to the ascetic line called Pañcastūpānvaya to which belonged Guhanandi, Vrsabhanandi, Ca Āryanandi and Virasena. This Pañcastūpānvaya had once its home in t

in Eastern India; the monks of this line were perhaps the greatest custodians of the knowledge of Karma Siddhānta; and they travelled via Rajaputana and Gujarat as far as Śravaṇa Belgol in the South carrying with them the hereditary learning of the Karma doctrine and pursuing their religious path of severe penances. Virasena and Jinasena attained such a position and eminence that after them the Senānvaya or Senagana came to be mentioned as the family or line of teachers almost replacing the Pañcastūpānvaya

Jinasena lived in an age of political prosperity and stability as well as academic fertility. The contemporary kings were Jagattunga and Nrpatunga or Amoghavarsa (815-877 A. D.) of the Rāstrakūta dynasty, with their capital at Mānyakheta which became a centre of learning. Amoghavarsa was not only a mighty monarch but also a patron of letters and a man of academic aptitude and literary attainments. A Kannada work, Kavirājamārga, on poetics is attributed to him. He was a great devotee of Jinasena whose ascetic virtues and literary gifts must have captivated his mind. He soon became a devout Jaina and renounced the kingdom in preference to religious life as mentioned by him in his Sanskrit work Praśnottara-ratnamālā and as graphically described by his contemporary Mahāvīrācārya in his Gaṇitasāra-saṃgraha (See Jaina Siddhānta Bhāskara IX, and Anekānta V, page 183). His reign was victoriously prosperous and the span of his career pretty long.

After finishing his training in various branches of traditional learning like grammar, poetics, Nyāya etc under his teachers like Virasena and Jayasena, it seems, Jinasena began his literary career by composing (sometime before 783 A. D.) the Pārśvābhyudaya, a Sanskrit Kāvya, a curio in Sanskrit literature. In this poem he incorporates in every verse one or two lines of the Meghadūta of Kālidāsa in their serial order, the remaining lines being composed by himself. In this way the whole poem of Kālidāsa is subjected to the poetic art known as samasyā-pūrana. Though the stories are basically different, the lines of the Meghadūta get fitted admirably in the Pārśvābhyudaya. Composition by samasyā-pūrana puts a number of restrictions on the poet who undertakes it. Jinasena has achieved it so naturally and skilfully that while reading Pārśvābhyudaya by itself one hardly suspects that it embodies another poem of different theme as well as contexts. The Pārśvābhyudaya is a remarkable tribute to Jinasena's mastery over Sanskrit and abilities as a poet. His compliments to Kālidāsa's poem at once ennoble his personality. It is only a merited poet that can admire another poet. On this poem, Professor K B Pathak has remarked thus. 'This poem is one of the curiosities of Sanskrit literature. It is at once the product and the mirror of the literary taste of the age. The first place among Indian poets is allotted to Kālidāsa by consent of all. Jinasena, however, claims to be considered a higher genius than the author of Cloud messenger.' (The Journal of the Bombay branch of the R.A.S., No XLIX, vol. XVIII, 1892, also his ed. of Kālidāsa's Meghadūta, 2nd, ed Poona 1916, Intro. pp xxvi etc)

After completing the Dhavalā commentary on the Śatkhaṇḍāgama in 72 thousand Granthāgras, Virasena took up the Jayadhavalā commentary on the Kasāya-prābhṛta. He passed away when he had composed just 20 thousand Granthāgras. It was left consequently to his worthy disciple Jinasena to complete that commentary by composing some 40 thousand Granthāgras more (in 837 A. D.). These voluminous commentaries show their depth of learning and their mastery over the entire range

of Jainology, especially the Karma Siddhānta. These works contained all that was worth knowing in that context, practically absorbing the earlier Sanskrit and Prākṛit commentaries. The poetic abilities of Jinasena are explicit from his memorable poem, Pārgvābhyudaya, and the depth of his wide learning from his Jayadhavalā. This twofold ability of Jinasena is seen all the more blooming in his Mahāpurāṇa.

The MP, as a systematic exposition of Jain traditions and principles, is sufficiently appreciated by the specialist, but the literary qualities of this work have not attracted the attention of the students of Sanskrit literature to the extent that they deserve. Many sections of the MP present an exquisite specimen of Kāvya. Jinasena shows an intelligent acquaintance with the works of his predecessors in the field. He handles Sanskrit language with ease and facility and further invests it with dignity. The Sahasranāma shows how fully he has availed himself of both the strength and weakness of Sanskrit language, grammar and vocabulary. He is a consummate master of versification, and now and then he has attended to even poetic and metrical tricks. His descriptions are exuberantly rich and full of poetic embellishments, both of sense and sound. Professor Pathak was already attracted, though casually, by Jinasena's 'richness of fancy, copiousness of imagery and fluency of verse' seen in the MP. It is a sad event in the history of Sanskrit scholarship that Jinasena left this work incomplete. His pupil Gunabhadra, with much hesitation and after waiting for some time, but as a sacred duty to his teacher, had to complete it which was later consecrated by Lokasena, a pupil of Gunabhadra, in 897 A. D. It is a memorable event that Virasena, Jinasena and Gunabhadra formed a continued and composite academic personality ushered into existence as if for the purpose of completing three significant works of Indian literature, namely, Dhavalā, Jayadhavalā and Mahāpurāṇa which were too big and profound to be completed in one span of life by any one individual.

Besides completing his teacher's Mahāpurāṇa, Gunabhadra composed two other Sanskrit works, the Ātmānuśāsana, a religious and didactic anthology in 272 verses of different metres, and the Jinadattacarita, a poem in nine cantos.

Earnest students of Sanskrit literature in general and of Jain literature in particular feel highly obliged to Shṛīmān Seth Shānti Prasādji and his accomplished wife Shṛimatī Ramā Rāniji who founded the Bhāratīya Jñānapīṭha which is publishing important Prākṛit and Sanskrit works. Not minding the cost involved they are arranging the publication of these works with one great and laudable object that such gems of ancient Indian literature should not be allowed to be lost in oblivion. Words cannot adequately express their spirit of self-sacrifice and love of learning for its own sake. If the Jñānapīṭha Lokodaya Granthamālā aims at educating the public at large, the Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā maintains respectfully the prestige of ancient Indian learning especially in its neglected branches. Thus the Jñānapīṭha is really serving a national cause and a great cultural purpose, and all its publications are enriching our national language, Hindi.

Shri Ayodhyāprasād Goyalji is pushing the activities of the Jñānapīṭha with zeal and sincerity. Thanks are due to Pt. Pannālāl Saḥityācārya who prepared this edition of the Mahāpurāṇa with a lucid Hindi translation. We have every hope that this edition will give fresh impetus to the study of Mahāpurāṇa in its various aspects.

July 1954,

H. L. Jain,  
A. N. Upadhye.

## प्रथम संस्करणका प्रास्ताविक

आचार्य गुणभद्र कृत उत्तरपुराणके प्रकाशनके साथ जिनसेन और गुणभद्रकृत 'त्रिपष्टि-संक्षेप-महापुराण-संग्रह' अर्थात् 'महापुराण' तीन भागमें पूर्णरूपसे प्रकाशित हो गया। इस सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थको ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वत्संसारके समुच्च उपस्थित करनेका श्रेय 'भारतीय ज्ञानपीठ, काशी' को है। इससे पूर्व आधिक्य अथवा पूर्णरूपमें हिन्दी, मराठी व कन्नड अनुवादों सहित इस ग्रन्थके तीन-चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके मिलानके पश्चात् समालोचनात्मक रीतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठान्तर अंकित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत मूल पाठके साथ-साथ धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीकी सुविरचित प्रस्तावनामें ग्रन्थकारोंके सम्बन्धी समस्त ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा ग्रन्थके कुछ महत्त्वपूर्ण विषयोंका भी परिचय कराया गया है। अन्तमें पद्योंकी वर्णनक्रमसे सूची भी दी गयी है। इस प्रकार यह संस्करण धर्मनुरागियोंके स्वाध्यायके लिए और आलोचनशील विद्वानोंके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा।

महापुराण अपने चामानुसार प्राचीन कालका एक महान् आस्थान है। इसमें जैनधर्मकी मान्यता-नुसार चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण, इन त्रैलोक्यशालाका पुरुषोत्तम मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके वैदिक एक ही जीवनकाल का वर्णन नहीं है, किन्तु उनके अनेक पूर्वजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धार्मिक व आध्यात्मिक उत्थिता मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यार्थतः इव चरित्रोंद्वारा धर्मनुरागियोंके समक्ष अनेक आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धार्मिक श्रद्धा एवं आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं।

महापुराणका समस्त आस्थान महाराज श्रेणिकके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् गौतम गणधरके मुखसे प्रसूत हुआ है। गौतम गणधर और श्रेणिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें ग्रन्थकारोंके अनेक परम्परागत रूढ विषयोंके वर्णनका अवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचनामें नाना पौराणिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रायः जैनधर्मका विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके कालानुसार विकासका सजीव चित्रण तथा आधिकांश महापुरुषोंके लोक-कल्याणकारी कार्योंका परिचय मिलता है। जीवोंके जन्ममरण वर्णनोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट भाँकियाँ दिखाई देती हैं। काव्यात्मक वर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रुचिगत स्वप्नों, नगर-योजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा सिद्धांत और सदाचार एवं मत्त-मत्तान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कलात्मक आलोचनेके वर्णन करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आख्यानोंमें सुन्दर वैचित्र्य था गया है जिससे ग्रन्थकारोंकी विशाल विद्वत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डित्यका पता चलता है।

महापुराण अथम संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नामि आदि कुल-करो, वृषमादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रवर्तियों आदिके सुविरचित वर्णन बड़े रोचक ढंगसे प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मदत्त, जीवन्वर, वसु, नारद आदि अनेक महत्त्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

कविने भरतकी विजययात्राके प्रसंगमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो अनेक आलोचकोंके रुचिगत होनेपर भी उपयोगी हैं। कल्पवृक्ष, गणना, त्रैलोक्य, नाना पर्वत, दर्शन, ज्ञानमेद, वैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनोंद्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व-



की विविध घातोंसे खूब परिपुष्ट हुई है। इनमें-के अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे अध्ययन करने योग्य हैं। ग्रन्थमें सर्वत्र व्याप्त श्रावकधर्म व मुनिधर्मके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावशाली रीतिसे अभि-व्यक्त बहुत-सी राजनीति और लोक-व्यवहार-वाता भी मिलती है।

महापुराणकी रचनामें आचार्य जिनसेन और गुणभद्रने आगमिक परम्परा तथा यतिवृषभकृत तिलोय-पण्यति व कवि परमेश्वरीकृत 'वागर्थसंग्रह' जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधा-र लिया है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वांगपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्त्वविषयक पूर्व-कालीन रचनाएँ प्रायः अन्धकारमें पड़ गयीं। अतः यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि कवि परमेश्वरी जैसे ग्रन्थकारोंकी रचनाएँ उपेक्षित हो गयीं और क्रमसे कालके गालमें समा गयीं।

यह महापुराण अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि हेमचन्द्र और आशाधर, कन्नड कवि चामुण्ड-राय एवं श्रोपुराणकार तमिल कवि आदिकी रचनाओंके लिए यदि साक्षात् और एकमात्र आधार नहीं तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन लेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, प्रद्युम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुष-का चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाओंके पोषक वर्णन और विस्तारके लिए इन्हीं ग्रन्थोंके ऋणी हैं।

महापुराण दो भागोंमें विभक्त है। प्रथमभाग आदिपुराण कहलाता है और उसमें सैतालीस पर्व हैं। द्वितीय भाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पर्व हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहत्तर पर्वोंमें समाप्त हुआ है जिनका समस्त ग्रन्थाग्र लगभग बीस हजार श्लोक-प्रमाण है। आदिपुराणके व्यालीस पर्व और सैतालीसवें पर्वके तीन पद्य, जिनका श्लोक-प्रमाण लगभग बारह हजार होता है, आचार्य जिनसेन कृत हैं और ग्रन्थका शेष भाग उनके शिष्य आचार्य गुणभद्रकी रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती इन दोका ही चरित्र वर्णित हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराणमें ग्रथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठ हजार श्लोक प्रमाणमें वर्णन-विस्तारकी अपेक्षा नाम-धामोल्लेख ही अधिक है।

जैनधर्मके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेन अपनी रचनाके परिमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवल टोकाके अन्तमें उन्होंने जो कुछ पद्य-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी कुछ झलकें मिल जाती हैं। ज्ञान पढ़ता है, उन्होंने अपने शाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मचर्यके पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें ही पूर्णतः संलग्न रहे। यद्यपि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्या में सुदृढ और वृद्धि, वैयर्थ एवं विनयादि गुणों में प्रतिभावान् थे। वे ज्ञान और अध्यात्मके मूर्तिमान् अवतार ही कहे जा सकते हैं।

मुनिधर्मकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। वे वीरसेन जैसे महान् गुरुके महान् शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुकी जयधवल टोकाको शक संवत् ७५९ ( सन् ८३७ ई० ) में समाप्त किया। उसी प्रकार उनके शिष्य गुणभद्रने उनकी मृत्युके पश्चात् उनके महापुराणको शक सं० ८१९ ( सन् ८९७ ईस्वी ) से कुछ पूर्व पूर्ण किया। वे पंचस्तूपान्वय नामक मुनि सम्प्रदाय के सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गुह्यन्दी, वृषभनन्दी, चन्द्रसेन, धार्यनन्दी और वीरसेन भी हुए थे। इस पंचस्तूपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूर्व भारतमें था। अनुमानतः इसी अन्वयके मुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञावके सबसे बड़े संरक्षक थे। वे राजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें श्रवणबेलगोल तक पहुँचे। वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको लेते गये, और कठोर तपस्याके धार्मिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे। वीरसेन और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चात् उनका मुनिसम्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगण्यके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हो गया।

जिनसेनका काल राजनैतिक रथैय और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुत्थिता युग था। उनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगत्तुंग और ह्यपतुङ्ग अपरनाम अमोघवर्ष ( सन् ८१५—८७७ ) थे। इनकी राजधानी

मान्यखेठ थी जहाँ विद्वानोंका अञ्चला समागम हुआ करता था। अमोघवर्ष केवल एक प्रबल सम्राट् ही नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय बर्चोंमें शक्ति और साहित्यिक योग्यता रखते थे। अलंकार-विषयक एक कन्नडग्रंथ 'कविराजमार्ग' उनकी कृति कही जाती है। वे जिनसेनके बड़े सक्त थे और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्षके अनुयायी हो गये। उनके संस्कृतकाव्य 'प्रतीत्तरत्नमाला' तथा उनके समकालीन महावीरार्चार्थ कृत 'गणितसार संग्रह'के सुस्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। ( देखिए प्रो० हीरालाल जैन : 'राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्षकी 'जैनदीक्षा' जै० सि० भास्कर भा० १ कि० १; तथा अनेकान्त, वर्ष ५, पृ० १८३-१८७ ) उनका राज्यकाल खूब विजयी और समृद्धिशाली रहा, तथा वे दीर्घकाल तक जीवित रहे।

जिनसेनने वीरसेन और जयसेन जैसे गुरुओंसे व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि परम्परागत नाना विद्याओंको सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन् ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत काव्य पार्श्वाम्बुदयकी रचनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अतृप्ता माना जाता है। इस कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्यमें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेघदूत नामक खण्ड-काव्यकी एक या दो पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं और शेष पंक्तियाँ स्वयं बनायी हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्यमें समस्या-पूरतिके काव्य कौशल-द्वारा समस्त मेघदूतको ग्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कथाभाग परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पार्श्वाम्बुदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढंगसे बैठ गयी हैं। समस्यापूरतिकी कला कविपर अनेक नियन्त्रण लगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी रचनाको ऐसी कुशलता और चतुराईसे सम्हाला है कि पार्श्वाम्बुदयके पाठकोंको कही भी यह सन्देह नहीं हो पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक युयक् काव्यका भी समावेश है। इस प्रकार पार्श्वाम्बुदय जिनसेनके संस्कृत भाषापर अधिकार तथा काव्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व और भी ऊँचा उठ जाता है। महात् कवि ही अपनी कवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेसर के० वी० पाठकका मत है कि "पार्श्वाम्बुदय संस्कृत साहित्यकी एक अद्भुत रचना है। वह अपने युगकी साहित्यिक शक्ति की उपज और आदर्श है। भारतीय कवियोंमें सर्वोच्चस्थान सर्वसम्मतितसे कालिदासको मिला है। तथापि मेघदूतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं।" ( जर्नल, बाम्बे ब्राच, रायल एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, व्हा० १८ ( १८९२ ) तथा पाठकद्वारा सम्पादित 'मेघदूत' द्वि० संस्करण, पूना १९१६, भूमिका पृ० २३ आदि )

अपनी षट्खण्डागम-टीकाको बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण ग्रन्थाग्रमें समाप्त करनेके पश्चात् वीरसेन स्वामीने कषाय-प्राभृतपर जयधवलटीका लिखना प्रारम्भ किया। इसकी बीस हजार श्लोकप्रमाण ही रचना हो पायी थी कि उनका स्वर्गवास हो गया। अतः उस टीकाको पूरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनपर पड़ा। इन्होंने इस महान् और पवित्र ग्रन्थको अपनी चाँचीस हजार श्लोकप्रमाण रचना द्वारा सन् ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया। ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओंके गम्भीर ज्ञानो तथा जैनधर्मके समस्त अंगों और विशेषतः कर्मसिद्धान्तके महान् पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाओंमें तद्विषयक समस्त ज्ञातव्य बातोंका एवं प्रायः पूर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाशोका समावेश कर लिया गया है। जिनसेनाचार्यका काव्यकौशल उनके स्मरणीय काव्य पार्श्वाम्बुदयसे एवं उनकी विशाल विद्वत्ता उनकी अमर टीका जयधवलसे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी खूब विकसित रूपमें दृष्टि-गोचर हो रही है।

जैन पुराण और सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो महापुराणका विशेषज्ञोंद्वारा पथप्ति आदर किया जाता है; किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गुणोंकी ओर संस्कृतशोका जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं गया। महापुराणके अनेक खण्ड संस्कृत काव्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने अपने पूर्वकालीन कवियोंकी कृतियोंसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरल और स्वाभाविक

हंगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्रनाम स्तोत्र बतला रहा है कि उन्होंने संस्कृत भाषा, व्याकरण और शब्दभण्डारके सामर्थ्य और दीर्घत्व, दोनोंसे कितना अधिक लाभ उठाया है। वे पद्यरचनाके परिपक्व विद्वान् हैं और जहाँ-तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी व्यपनाया है। उनके वर्णन अति समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मक अलंकारोसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कल्पनाका उत्कर्ष, चित्रणका प्राचुर्य तथा पद्यरचनाकी बारावाहिकता आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे प्रोफेसर पाठक बहुत आकषित हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेन अपनी इस रचनाको अपूर्ण छोड़कर परलोक सिंघार गये। उनके शिष्य गुणभद्रने बड़े संकोचके साथ, कुछ काल ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तव्य समझकर, इस ग्रन्थको सन् ८९७ ईस्वीमें पूर्ण किया और गुणभद्रके शिष्य लोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा करायी। यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिन्न और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस असाधारण त्रिमूर्तिका अवतार बचला, जयधवला और महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी विधियोंको उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त ग्रन्थ एक ध्वित-द्वारा एक जीवनकालमें सम्पन्न करना असम्भव था।

अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पूर्तिके अतिरिक्त गुणभद्रने दो और संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की— एक 'आत्मानुशासन' जिसमें धार्मिक व नैतिक २७२ पद्योंका समावेश है; और दूसरी 'जिनदत्तचरित' जो चौ सगौंजा प्रबन्ध काव्य है।

संस्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोंका प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। इस प्रकाशनमें व्ययकी कोई चिन्ता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके सुन्दर रत्न अन्धकारमें पड़े न रह जावें। इस सम्बन्धमें उनके निःस्वार्थ त्याग और साहित्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना शब्दसामर्थ्यसे बाहरकी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमाला' जन-साधारणमें ज्ञान-प्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यिक विधि, और विशेषतः उसके उपेक्षित अंगोंका विनीत भावसे उत्कार और उत्कर्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान् सांस्कृतिक प्रयोजनकी पूर्तिमें संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दीकी समुन्नतिमें भी सहायक हो रहे हैं।

भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय ज्ञानपीठके कार्यको गतिशील बनाये रखनेमें बड़ी तत्परता और लगनसे प्रयत्नशील हैं।

महापुराणके इस संस्करणको हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं० पञ्चालालजी साहित्याचार्य हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

हमें पूर्ण आशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसे अध्ययन-बन्नेवण कार्यमें नव-सूक्तिदायक सिद्ध होगा।

हीरालाल जैन

आ० ने० उपाध्ये

## प्रस्तावना

### १. सम्पादनसामग्री

उत्तरपुराण का सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है।

'क' यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त हुई है। पत्रसंख्या ३१८, लम्बाई-चौड़ाई १२×५ इंच। प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३४ से ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पत्र तक प्रति अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। कागज जर्जर है, हाथ लगते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो चुका है। दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन मालूम होती है। २८२ से अन्ततक पुनः पत्र लिखाकर जोड़े गये हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिके चारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म अक्षरों-द्वारा टिप्पण भी दिये गये हैं। किन्हीं-किन्हीं श्लोकोंमें अन्वयके क्रमांक भी दिये गये हैं। लेखन प्रायः शुद्ध और सुवाच्य है। काली स्याहीसे लिखी गयी है और श्लोकांक लाल स्याहीसे दिये गये हैं। इसका सांकेतिक नाम 'क' है। इसमें १६६ वाँ पृष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं।

'ख' यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यके सौहार्दसे प्राप्त हुई है। इसकी कुल पत्र संख्या ३०९ है। पत्रोंका परिमाण १२×६ इंच है। प्रति पत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल १८१५ संवत् दिया हुआ है। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमीको इसकी प्रतिलिपि पूर्ण हुई है। दशा अच्छी है, लिपि सुवाच्य है, शुद्ध भी है, इसका सांकेतिक नाम 'ख' है। इसमें ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति नहीं।

'ग' यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है। कुल पृष्ठसंख्या ४१३ है, पत्रोंका परिमाण १०×५ इंच है। प्रति पत्रमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हैं। लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-काल १५५७ वर्ष आषाढ कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है। काली स्याहीसे लिखित है, कागज जीर्ण हो चुका है, रंग भी मटमैला हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों पर टिप्पण भी दिये गये हैं। दशा जर्जर होनेपर भी अच्छी है। इसका सांकेतिक नाम 'ग' है।

'घ' यह प्रति भी भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है। इसमें कुल पत्रसंख्या ३१३ है, पत्रोंका परिमाण १३×७ इंच है, प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। कागजकी दशा और रंगसे अधिक प्राचीन नहीं मालूम होती। लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक नाम 'घ' है।

'ङ' यह प्रति श्रीमान् पण्डित लालारामजी शास्त्री-द्वारा सम्पादित तथा अनुदित है। ऊपर सूक्ष्म अक्षरोंमें मूल श्लोक तथा नीचे कुछ स्थूलाक्षरोंमें हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं उक्त शास्त्रीजी-द्वारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे अशुद्ध हो गया है, अब यह अप्राप्य है। इसका सांकेतिक नाम 'ङ' है।

'च' यह प्रति श्रीमान् पण्डित जैनसुखदासजी न्यायतीर्थ जयपुरके सौजन्य तथा श्री अतिथयक्षेत्र महा-वीरजीके सरस्वती-मनसे प्राप्त हुई है। इसमें २७९ पत्र हैं, पत्रोंका परिमाण १२×६ इंच है, प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीच-बीचमें कठिन पदोंके टिप्पण भी आज्ञा-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-काल १८०५ है, जेठवदी पंचमी शुक्रवारको सर्वाङ्ग जयपुरमें विमलसागर यंत्रिके द्वारा लिखी गयी है। इसका सांकेतिक नाम 'च' है।

एक प्रति और

उत्तरपुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें हुई है। प्रारम्भसे लेकर नमिनाथ-

पुराण तक तो यह पं० लालारामजी शास्त्रीकृत अनुवाद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है और उसके बाद किसी हस्तलिखित प्रतिसे हुई है। यह प्रति शुद्ध मालूम होती है और जहाँ कहीं अन्य प्रतियोंसे विभिन्न पाठान्तर लिये हुए हैं। इन प्रतिके पाठोंका उल्लेख मैंने 'इत्यपि न चिन्तित्' इन शब्दों-द्वारा किया है।

## २. उत्तरपुराण

उत्तरपुराण, महापुराणका पूरक भाग है। इसमें अजितनाथको आदि लेकर २३ तीर्थंकर, सगरको आदि लेकर ११ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकमें कितने ही कथानक इतने रोचक ढंगसे लिखे गये हैं कि उन्हें प्रारम्भ कर पूरा किये बिना बीचमें छोड़नेको जी नहीं चाहता। यद्यपि आठवें, सोलहवें, बाईसवें, तेईसवें और चौबीसवें तीर्थंकरको छोड़कर अन्य तीर्थंकरोंके चरित्र अत्यन्त संक्षेपसे लिखे गये हैं परन्तु वर्णन शैलीकी मधुरतासे वह सखेप भी रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रन्थमें न केवल पौराणिक कथानक ही है किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शनादिका और दार्शनिक दृष्टिसे सृष्टिकर्तृत्व आदि विषयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है।

रचयिता गुणभद्राचार्यका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामें विस्तारसे दे चुका है अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक है।

## ३. उत्तरपुराणका रचना-स्थल—बंकापुर

उत्तरपुराणकी रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु साधनके अभावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री मुंबईकी अपने एक पत्रमें संकेत किया कि 'यदि उत्तरपुराणकी भूमिकामें उसके रचना-स्थल बंकापुरका परिचय देना चाहे तो भेज दूँ'। मैंने शास्त्रीजीकी इस कृपाको धनभ्रष्टृष्टि जैसा समझ भूमिकामें बंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह उन्हींके शब्दोंमें दे रहा हूँ—

बंकापुर, पूना-बेंगलूर रेलवे लाइनमें हरिहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशनसे १५ मीलपर धारवाड जिलेमें है। यह वह पवित्र स्थान है, जहाँपर प्रातःस्मरणीय आचार्य गुणभद्रजीने शक संवत् १८२० में अपने गुरु भगवन्विजयनसेनके विश्रुत महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराणको समाप्त किया था। आचार्य विजयन और गुणभद्र जैन सप्ताहके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमें-से हैं इस बातको साहित्य संसार अच्छी तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुतः एक अनूठा-रत्न है। उत्तरपुराणके समाप्ति-कालमें बंकापुरमें जैन वीर बंकेयका सुयोग्य पुत्र लोकादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकालवर्ष वा कृष्णराज (द्वितीय) के सामन्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी और शत्रु-विजयी था। इसकी ध्वजामें चित्तल वाचीलका चिह्न अंकित था और वह चित्तल चीलजका अनुज तथा चित्तलकेत (वकैय) का पुत्र था। उस समय समूचा वनवास (वनवासि) प्रदेश लोकादित्यके ही वशमें रहा। उपर्युक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर बंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उस जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सीमाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। राष्ट्रकूट नरेश् चतुर्गुणके लिए राज्यकार्यमें जैन वीर बंकेय ही पथप्रदर्शक था। मुकुलका पुत्र एरकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर और घोरका पुत्र बंकेय था। बंकेयका प्रपितामह मुकुल शुभतुंग कृष्णराज का, पितामह एरकोरि शुभतुंगके पुत्र ध्रुवदेवका, एवं पिता घोर चकी गोविंदराज का राजकार्य-धारण था। इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और बंकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी राजकार्य पटु तथा महाशूर थे।

चतुर्गुणको बंकेयपर श्रद्धा अथा श्री। वही कारण है कि एक लेखमें चतुर्गुण बंकेयके सम्बन्धमें

‘विततज्योतिर्निशिवासिस्त्रिवापरः’ कहा है। पहले बंकेय दत्तगके खाप्त सेनानायकके रूपमें अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र बननेके फलस्वरूप विशाल वनवास ( वनवासि ) श्रान्तका सामन्त बना दिया गया था। सामत बंकेयने ही गङ्गा राज रात्रमल्लको एक युद्धमें हरा कर बंदी बना लिया था। बल्कि इस विजयोत्सवमें भरी समा में वीर बंकेयकी वृत्तपुगके द्वारा जब कोई अमीष्ट घर मांगनेकी आज्ञा हुई तब जिनभक्त बंकेयने सगद्गद महाराज वृत्तपुगसे यह प्रार्थना की कि महाराज ! खब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी नहीं रही। अगर आपको कुछ देना ही अमीष्ट हो तो कोलनूरमें मेरे द्वारा निर्मापित पवित्र जिनमन्दिरके लिए सुचारु रूपसे पूजादि कार्य-संचालनार्थ एक भू दान प्रदान कर सकते हैं। बस, ऐसा ही किया गया। यह उल्लेख एक विशाल प्रस्तरखण्डमें शासन के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है। बंकेयके असीम धर्मप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस प्रसंगमें यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मरत्नी विजया बड़ी विदुषी रही। इसने संस्कृतमें एक काव्य रचा है। इस काव्यका एक पद्य श्रीमान् बंकटेश भीम राव आज़र बी० ए०-एल० एल० बी० ने ‘कण्ठाटकगतवैभव’ नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उद्धृत किया है। बंकेयके सुयोग्य पुत्र लोकादित्यमें भी पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर ‘उत्तरपुराण’के रचयिता श्री गुणभद्राचार्यका प्रभाव भी पर्याप्त था। इसमें सन्देह नहीं कि धर्मधुरीण लोकादित्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था। यद्यपि लोकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोंका सामन्त था फिर भी राष्ट्रकूट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्ट्य था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे। आचार्य गुणभद्रके शब्दोंमें लोकादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त प्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान् भी था। उस जमानेमें बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे। इन मन्दिरोंको चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिला था। बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहाँ पर जैनाचार्योंका वास अधिक रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमें होती थी। इसीलिए ही गङ्गानरेश नारसिंह जैसे प्रतापी शासकने वही आकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सल्लेखना व्रत सम्पन्न किया था। टंढाविप हुल्लने वहाँपर कैलास जैसा उत्तुंग एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था। इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहाँपर एक दो नहीं, पाँच महाविद्यालय भी बूढ़ थे। ये सब बीती हुई बातें हुईं। वर्तमान कालमें बंकापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन लें। सरकारी रास्तेके बगलमें सन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्वंसावशिष्ट पुराना पिला है। इस किलाके अन्दर १२ एकड़ जमीन है। यह किला बम्बई सरकारके बधामे है। वहाँपर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल रखा है। जहाँ-तहाँ खेती भी होती है। राजमहलका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है। वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूपमें दृष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोंमें आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उड़द, मूँग, जना, तुवर, कपास और मूँगफली आदि पैदा होते हैं, स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमानेमें यह स्थान वस्तुतः देखने लायक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहाँसे हटनेकी इच्छा ही नहीं हुई। किलेके अन्दर इस समय एक सुन्दर जिनालय अवशिष्ट है वहाँ वाले इसे ‘आवत्त मूस कंब गल्वसि’ कहते हैं। इसका हिन्दी अर्थ ६३ खम्भोंका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शान्तिमन्दिर और इसके ६३ खम्भ जैनोके त्रिषष्टिअष्टाकापुरषोका स्मृतिचिह्न होना चाहिए। मन्दिर बड़ा पुष्ट है और वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एक प्रतीक है। खम्भोंका पालिश इतना सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, आज भी उनमें आसानीसे मुक्त देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ बादमी धारामसे बैठ सकते हैं। छत और दीवालपर-की सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियाँ निर्दिष्ट विध्वंसकोंके द्वारा नष्ट की गयी

१. “सरस्वतीवर्णाटी विजयाङ्गा जयत्यसौ । या वैदर्भीगिरां वासः कालिदासादनन्तरम् ॥”

२. अम्बई प्रान्तके जैन स्मारक देखे ।

है। इस मन्दिरको देखकर उस समयकी कला, आर्थिक स्थिति और धार्मिक श्रद्धा आदिको आज भी विदेकी परख सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीन महत्त्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानोंको जानती भी नहीं है।

#### ४. रामकथाकी विभिन्न धाराएँ

पद्यपुराण और उत्तरपुराणकी राम-कथामें पर्याप्त अन्तर है। यह वयों और कब हुआ, कह सकना कठिन है। जब लोगोंको मालूम हुआ कि उत्तरपुराणका सम्पादन और अनुवाद मेरे द्वारा ही रहा है तब कई विद्वानोंने इस आशयके पत्र लिखे कि आप राम-कथाके मतभेदकी गुत्थी खवखव ही सुलझाइये। मेरी दृष्टि भी इस और बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेके बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुँच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चला। रामकथा की विभिन्न धाराओंपर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास' नामक ग्रन्थमें प्रकाशित 'पद्यचरित और पठम चरित' नामक लेखमें 'राम कथा की विभिन्न धाराएँ' शीर्षक एक प्रकरण लिखा है जो कि इस विषयपर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकोकी जानकारीके लिए मैं उसे यहाँ देखकके ही शब्दोंमें उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ—

रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गयी है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना-अपना महापुरुष मानते हैं।

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले वाल्मीकि मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य ( आदिकाव्य ) वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े-थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें लिपिबद्ध की गयी है। इसके सिवाय अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ।

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि वणहकारणमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। इसपर उसके धिए वे प्रतिदिन एक घड़ैमें दूधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने बाणोंकी नोकें चुभा-चुभाकर उनके शरीरका बूँद बूँद खून निकाला और उसी घड़ेमें भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीव्र है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परस्त्रियोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ धारण ही जानेसे अब उसे छुटानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक दिन विमानमें बैठकर क्रुक्षेत्र गयी और उस गर्भको जमीनमें गाड़कर वापिस चली आयी। उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली और उन्होंने उसे पाल लिया वही सीता है।

विष्णुपुराण ( ४—५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरञ्जय पुत्रलाभके लिए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाङ्गलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई।

बौद्धोंके आतक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्वजन्मकी कथाएँ लिखी गयी हैं। दशरथ जातके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकी एक कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थी। तब इस भय से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेको आज्ञा दे दी

धीरे वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गयी और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेके लिए राजी नहीं हुए। इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंकी ही सिंहासनपर रखकर उनकी बीरसे राज्य चलाते लगे। आखिर बारह वर्ष पूरे होनेपर वे लोटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके साथ विवाह करके उन्होंने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया। पूर्व जन्ममें राजा शुद्धोदन राजा दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत और सौरिपुत्र लक्ष्मण थे। इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाली बात रामका अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शक्योंके राज्य-धरानोमें राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका विवाह कर दिया जाता था। वह एक रिवाज था। इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं—एक वाल्मीकि रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका और तीसरा बौद्ध जातकका।

#### ५. जैन रामायणके दो रूप

इसी तरह जैन साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं एक तो पद्मचरिय और पद्मचरित-का तथा दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराण का। पद्मचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका सतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पूर्वमें वर्णित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है—

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम सुबाळा और लक्ष्मणकी माताका नाम कैकेयी था। भरत शत्रुघ्न किसके गर्भमें आये थे, वह स्पष्ट नहीं लिखा। केवल 'कस्यांचित् देश्याम्' लिख दिया। सीता मन्दीवरीके गर्भमें उत्पन्न हुई थी, परन्तु भविष्य वक्ताओंके यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर जमीनमें गड़वा दिया। दैवयोगसे हनुकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा जनकको मिल गयी और उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल ली। इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक यज्ञ किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुलवाया। फिर रामके साथ सीताको विवाह दिया। यज्ञके समय रावणको आमन्त्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा।

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवटी, दण्डक-वन, जटायु, शूर्पणखा, खरदुषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है। रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते हैं। सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है। लक्ष्मण एक असाध्यरोगमें ग्रहित होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्वेग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र पृथ्वी-सुन्दरको राजपदपर और सीताके पुत्र अजितजयको युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं और अपनी सीता आदि रािनियोंके साथ जिन दीक्षा ले लेते हैं।

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। शत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहलाया। आदि।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशालाकापुराणचरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा। वह बिलकुल 'पद्मचरिय' की कथाके अनुरूप है। ऐसा मान्य होता है कि 'पद्मचरिय और पद्मचरित' दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मौजूद थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका अधिक



प्रचार है और पीछे कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित करके अपने-अपने ग्रन्थ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसको भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तकी ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें भी वही कथा है।<sup>१</sup>

पद्मचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराणकी कथाका ज्ञानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे मिलती-जुळती है। उत्तरपुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, लव-कुश जन्म आदि नहीं है।

अर्थात् भारतवर्षमें रामकथाकी जो दो-तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं। पद्मचरितके कर्ताने कहा है कि उस पद्मचरितको मैं कहता हूँ जो आचार्योंकी परम्परासे चला आ रहा था और नामावली<sup>२</sup> निबद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात् उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी विमल सूरिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिङ्गिके दूसरे खण्डमें जो कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगिके क्रमसे निविष्ट था। उसमें कुछ श्रुतिनिबद्ध था और कुछ आचार्य परम्परागत था।

जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए होंगे तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिको राक्षस, वसा-रक्त-मांसका खाने-पीनेशाला और कुम्भकर्णको छह-छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि पर्वत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल डाले जाने और नगाड़े बजाये-जानेपर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाना था। उनकी यह भूमिका, इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलौकिक, उपपत्तिविरुद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावली निबद्ध ढाँचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचार्य परम्परासे आया हुआ कथासूत्र भी था। उसीके आधारपर उन्होंने पद्मचरियकी रचना की होगी।

उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रविपेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका अनुमरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थोंका उन्हे पता न हो और इसकी भी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोक-प्रचलित कथाको ही-स्वतन्त्ररूपसे जैनधर्मके सचिमें ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० १५५ है जो बहुत प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमलसूरिके ही समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्मके अनुसूक्त सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्यको गुणभद्रा-द्वारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कवि परमेश्वरकी पद्य-कथाके आधारसे लिखा था—'कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामालुं पुरोश्चरितम्।' और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या कवि परमेश्वरीको 'वाग्यसंग्रह' नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलाया है। अतएव मुनिसुव्रत तीर्थंकरका चरित्र

१. पंपकविकी कनड़ी रामायण और स्वयंभू कविकी अपभ्रंश रामायण पद्मपुराणके आधारपर लिखी गयी है। २. 'णामावलिखणिवद्ध आयरियपरंपरागयं सच्चं। वोच्छामि पद्मचरियं अहाणुगुणिं समासेण ॥८॥' ३. देखो पद्मचरिय गाथा १०० से ११६ तक।

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
४९.	नवमालिनी	५ × ४८	४२०
५०.	प्रमुदितवदना	१ × ४८	४८
५१.	जलधरमाला	६ × ४८	२८८
५२.	मञ्जुभाषिणी	१ × ५२	५२
५३.	अज्ञात नाम	२ × ५२	१०४
वह ६	असम्बाधा	१ × ५६	५६
अपेक्षा यद्	अपराजिता	१ × ५६	५६
	पञ्चमचारिण्यः पहरणकलिका	१ × ५६	५६
सं० १३६ के लगभग ही	ना	१ × ५६	५६
कि यह उस समयका है जब	५ × ६०		३००
पर दोमे-से किसी एक सम्प्रदायकी	२ × ६४		१२८
सूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे। बलि	१ × ६४		६४
कुछ दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध। इससे	४ × ६८		२७२
विचारधारा है।	१ × ६८		६८

६. अन्य कथाओंमें भा. ९ × ७२

७२

७६

८०

इकहत्तरवें पर्वमें बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रगये हैं। इसमें जिनसेन [ द्वितीय ] के हरिवंशपुराणसे कही-कही नाम तथा कथानक आदिमें भेद है। इसी प्रकार पचहत्तरवें पर्वमें जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें और आचार्य वादीभसिंहके द्वारा लिखित गद्यचिन्तामणि या अत्रतूहामणिके कथानकमें काफी विविधता है। नाम आदिकमें विविधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमें भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वादीभसिंहने पौराणिक कथानकको काव्यके ढाँचेमें ढालनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर आदिके प्रकरणको छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदिमें भेद कैसे हो गया यह समझने नहीं आता।

### ७. महापुराणका परिमाण

इस महापुराण ग्रन्थका अनुष्टुप श्लोकोंकी संख्यामें कितना परिमाण है? इसके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं—एक तो गुणभद्राचार्यने ही ग्रन्थके अन्तमें २० हजार श्लोक प्रमाण बतलाया है और दूसरा उसी श्लोकके पाठान्तरमें २४ हजार श्लोक प्रमाण बतलाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर विचार आया कि इसका एक वार निर्णय कर लेना ही उचित होगा। फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय भाग तथा उत्तर पुराणके श्लोकोंका निर्णय निम्न यन्त्रसे किया जाता है—

### ८. आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण

क्रमांक	छन्द नाम	श्लोक संख्या	अक्षर
१.	अनुष्टुप	१०४१२ × ३२	३३३१८४
२.	हरिणी	१६ × ६८	१०८८
३.	मालिनी	१०६ × ६०	६३६०
४.	स्रग्धरा	९ × ८४	७५६
५.	शाङ्खलविफ्रोडित	५१ × ७६	६१५६
६.	उपजाति	१९ × ४४	८३६
७.	इन्द्रवज्रा	४ × ४४	१७६
८.	वसन्ततिलका	५१ × ५६	४५३६

प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित करके अपने-अपने ग्रन्थ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसको भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें भी वही कथा है।

पद्मचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराणकी कथाका ज्ञानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातदो मिलती-जुलती है। उत्तरपुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, लव-कुश जन्म आदि नहीं है। १२

अर्थात् भारतवर्षमें रामकथाकी जो दो-तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें चली आ रही हैं। पद्मचरितके कर्तनि कर्ता है कि उस पद्मचरितको मैं कहता से चला आ रहा था और नामावली निबद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझ उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात् उसमें कथाके प्रथम-पिताश्री, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित विमल सूरिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका उसमें कुछ श्रुतिनिबद्ध था और कुछ आचार्य

	जब विमलसूरि पूर्वोक्त	१ × ४८	४८
	माला	५ × ४४	२२०
२६.	मन्दाक्रान्ता	७ × ६८	४७६
२७.	मत्तमयूर	७ × ५२	३६४
२८.	विद्युन्माला	२ × ३२	६४
२९.	समानिका	२ × ३२	६४
३०.	चित्रपदा	३ × ३२	९६
३१.	भुजगशशिभृता	२ × ३६	७२
३२.	रुक्मवती	१ × ४०	४०
३३.	पणव	१ × ४०	४०
३४.	उपस्थिता	१ × ४०	४०
३५.	मयूर सारिणी	१ × ४०	४०
३६.	अज्ञात नाम	२ × ४०	८०
३७.	तोटक	१० × ४८	४८०
३८.	वातोमि	१ × ४४	४४
३९.	भ्रमरविलसित	१ × ४४	४४
४०.	रथोद्धता	२ × ४४	८८
४१.	वृत्तावृत्त	१ × ४४	४४
४२.	सैनिकावृत्त	१ × ४४	४४
४३.	अज्ञात नाम	१ × ४४	४४
४४.	इन्द्रवंशा	१ × ४८	४८
४५.	पुंड्रवृत्त	१ × ४८	४८
४६.	जलोद्धतागति	४ × ४८	१७२
४७.	प्रमिताक्षरा	४ × ४८	१९२
४८.	तामरस	५ × ४८	२४०

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
४९.	नवमालिनी	५ × ४८	४२०
५०.	प्रमुदितवदना	१ × ४८	४८
५१.	जलधरमाला	६ × ४८	२८८
५२.	मञ्जुभाविणी	१ × ५२	५२
५३.	अज्ञात नाम	२ × ५२	१०४
५४.	असम्वाधा	१ × ५६	५६
५५.	अपराजिता	१ × ५६	५६
५६.	प्रह्वरणकलिका	१ × ५६	५६
५७.	इन्दुवदना	१ × ५६	५६
५८.	शाशिकला	५ × ६०	३००
५९.	ऋषभगजविलसित	२ × ६४	१२८
६०.	वाणिनी	१ × ६४	६४
६१.	शिखरिणी	४ × ६८	२७२
६२.	वंशपत्रपतित	१ × ६८	६८
६३.	कुसुमितलतावेल्लित	९ × ७२	७२
६४.	अज्ञात छन्द	१ × ७६	७६
६५.	सुवदना	१ × ८०	८०
६६.	अज्ञात छन्द	१ × ८४	८४
६७.	वियोगिनी	४ × ४२	१६८

१०९७९

३६५७४८६३२

समस्त श्लोक

११४२९ अनुष्टुप् श्लोक

शेष बचे २०

### ९. उत्तरपुराणका परिमाण

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
१.	अनुष्टुप्	७३६० × ३२	२३५५२०
२.	मालिनी	३६ × ६०	२१६०
३.	शादूलविकीर्णित	६५ × ७६	४९४०
४.	द्रुतविलम्बित	३ × ४८	१४४
५.	वसन्ततिलका	७० × ५६	३९२०
६.	स्रगधरा	५ × ८४	४१०
७.	रथोद्धता	२ × ४४	८८
८.	अपजाति	२ × ४४	८८
९.	वंशस्थ	४ × ४८	१९२
१०.	पृथिवी	९ × ६८	७०२
११.	वियोगिनी	१ × ४२	४२
१२.	हरिणी	१ × ६८	६८
१३.	स्वागता	१ × ४४	४४

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
१४.	प्रहसिणी	१ × ५२	५२
१५.	शिलरिणी	१ × ६८	६८
		७५६१	२४८४८ + ३२
			७७६४ अनुष्टुप्
१६	मात्रिक छन्द, आर्या	१४	१४
		७५७५	७७७८

आदिपुराण—११४२९ अनुष्टुप्

उत्तरपुराण—७७७८ अनुष्टुप्

१९२०७

इस प्रकार विचार करनेपर महापुराणके तीनों भागोंकी अनुष्टुप् श्लोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस हजार दो सौ सात है और यह भदन्त गुणभद्राचार्यके प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता है। पाठान्तरमे दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं है।

### १०. अनुवाद और आभार-प्रदर्शन

उत्तरपुराणके पाठ-भेद लेनेमे श्री पं० कपूरचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, श्री लक्ष्मणप्रसादजी 'प्रशान्त' साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेश्वरीदासजी, विद्यार्थी गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी आदिका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है इसलिये इन सबका आभारी हूँ। हस्तलिखित प्रतियोंके वाचनमे श्रीमान् वयोवृद्ध पं० लालारामजी शास्त्री-द्वारा अमूर्तित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आभार मानता हूँ। प्रस्तावना लेखमें श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमो एवं पं० के० भुजबली शास्त्री मूढवद्रीके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्न चाराएँ' और 'वंकापुरका परिचय' शीर्षक प्रकरण दिये गये हैं अतः मैं इनका भी आभारी हूँ। इस ग्रन्थके सम्पादन एवं अनुवाद मे दो वर्षका लम्बा समय लग गया है। दूरवर्ती रहनेके कारण मैं इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य बनारसमे देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मैं उसके संचालक और व्यवस्थापक महानुभावोंका अत्यन्त आभारी हूँ।

महापुराण, पद्मपुराण और हरिवंशपुराण ये तीन पुराण, दिगम्बर जैन प्रथमानुयोग साहित्यके अमूर्त रत्न हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमे इच्छा होती थी कि इनका आधुनिक रूपसे सम्पादन तथा अनुवाद हो जाये तो आत्म जनताका बहुत उपकार हो। इन तीन ग्रन्थोंमेंसे महापुराणका सम्पादन और अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन तथा अनुवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूँ उसकी पूर्ति कब होती है।

ग्रन्थ महान् है और मेरी बुद्धि अत्यन्त अल्प है अतएव भी गृहस्थीके भारसे दबा रहनेके कारण अनेक कार्योंमें व्यस्त रहना पड़ता है इसलिए जहाँ कहीं अनुवादमें त्रुटि होता संभव है अतः विद्वज्जनोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ।

सागर  
त्रैलोक्यपूर्णमा  
२४८० वी० नि० सं०

विनीत  
पल्लाल साहित्याचार्य

## विषय-सूची

अष्टचत्वारिंशत्तम पर्व		एकषष्टितम पर्व	
अजितनाथचरित	१	धर्मनाथ चरित	१२८
सगर चक्रवर्ती	६	मधवा चक्रवर्तीका चरित	१३४
एकोनपञ्चाशत्तम पर्व		सनत्कुमार चक्रवर्तीका चरित	१३५
सम्भवनाथ चरित	१४	द्विषष्टितम पर्व	
पञ्चाशत्तम पर्व		अपराजित बलभद्र तथा अनन्तनीर्य नारायणके	
अभिनन्दननाथ चरित	१९	अभ्युदयका वर्णन	१३८
एकपञ्चाशत्तम पर्व		त्रिषष्टितम पर्व	
सुमतिनाथचरित	२५	शातिनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका चरित	१७५
द्विपञ्चाशत्तम पर्व		चतुःषष्टितम पर्व	
पद्मप्रभ चरित	३३	कुन्धुनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका चरित	२१३
त्रिपञ्चाशत्तम पर्व		पञ्चषष्टितम पर्व	
सुवासिनाथ चरित	३८	अरहनाथ चरित	२१८
चतुःपञ्चाशत्तम पर्व		सुभौम चक्रवर्तीका चरित	२२४
चन्द्रप्रभ चरित	४४	नन्दिषेण बलभद्र, पृण्डरीक नारायण और	
पञ्चपञ्चाशत्तम पर्व		निसुम्भ प्रतिनारायणका चरित	२३०
पुष्पदन्त चरित	६६	षट्षष्टितम पर्व	
षट्पञ्चाशत्तम पर्व		मल्लिनाथ चरित	२३३
शीतलनाथ चरित	७१	पद्म चक्रवर्तीका चरित	२३८
सप्तपञ्चाशत्तम पर्व		नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण और बलीभद्र	
श्रेयांसनाथ चरित	७९	प्रतिनारायणका चरित	२४१
विजय बलभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण और		सप्तपष्टितम पर्व	
अश्वघ्नीव प्रतिनारायणका चरित	८४	मुनिसुव्रत चरित	२४४
अष्टपञ्चाशत्तम पर्व		हरिषेण चक्रवर्तीका चरित	२४८
वासुपूज्य चरित	८७	राम बलभद्र, लक्ष्मण नारायण और रावण	
द्विपृष्ठनारायण, अचल बलभद्र और तारक		प्रतिनारायणका चरित, तदन्तर्गत राजा	
प्रतिनारायणका चरित	९१	सगर, सुलसा, मधुगिङ्गल, राजा वसु,	
एकोनपष्टितम पर्व		क्षीरकदम्बक, पर्वत, नारद आदिका	
विमलनाथ चरित	९७	वर्णन	२५०
धर्म बलभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु		अष्टपष्टि पर्व	
प्रतिनारायणका चरित	१०२	राम, लक्ष्मण, रावण और अणुमान् (हनुमान्)	
संजयन्त, मेरु और मन्दर गणधरका चरित	१०५	का चरित	२७८
षष्टितम पर्व		एकोनसप्ततितम पर्व	
अनन्तनाथ चरित	१२१	नमिनाथ चरित	३३१
सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और		जयसेन चक्रवर्ती	३३७
मधुसूदन प्रतिनारायणका चरित	१२४		

<b>सप्ततितम पर्व</b>		<b>पञ्चसप्ततितम पर्व</b>	
नेमिनाथ चरित, तदन्तर्गत श्रीकृष्णकी विजय का वर्णन	३३९	राजा चेटक, चेलना आदिका वर्णन	४८२
<b>एकसप्ततितम पर्व</b>		जीवन्वर चरित	४९४
श्रीकृष्ण, बलदेव, श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ	३७५	<b>षट्सप्ततितम पर्व</b>	
खादिके भवान्तरोद्धा वर्णन	३७५	राजा श्वेतवाहनके मुनिपदका वर्णन	५३०
<b>द्विसप्ततितम पर्व</b>		अन्तिम केवली जन्म स्वामीका वर्णन	५३१
नेमिनाथ तीर्थंकर, प्रद्युम्नकुमार, पद्म बलभद्र, कृष्ण, जरासन्ध और ब्रह्मवत्त चक्रवर्ती का चरित	४०७	प्रीतिंकर मुनिका वर्णन	५४३
<b>त्रिसप्ततितम पर्व</b>		उत्सपिणी अवसपिणी कालका विशिष्ट वर्णन	
पार्श्वनाथ चरित	४२९	करते हुए कल्कयोका वर्णन	५५५
<b>चतुःसप्ततितम पर्व</b>		कल्किके पुत्र अजितंजयका वर्णन	५५७
वर्षमान स्वामीका चरित	४४३	प्रलयकाल का वर्णन	५५९
सती चन्दनाका चरित	४६६	आगाभी तीर्थंकर आदि शालाकापुरुषोका वर्णन	५६१
राजा श्रेणिक और अभयकुमारका वर्णन	४६९	महावीर भगवान्की शिष्य परमनरा	५६३
		ग्रन्थका समारोप	५६६
		प्रशस्ति	५७२
		टीकाकारकी प्रशस्ति	५७९

श्री गुणभद्रने उसीके आघातसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चायुण्डरामने कवि परसे-  
श्वरका स्मरण किया है।

नरक यह कि पद्मचरिय और उत्तरपुराणकी राममयाकी दो धाराएँ अलग-अलग स्वतन्त्र रूपसे  
निहित हुईं और वे ही माने प्रवाहित होती हुईं इस तक आयी हैं। इन दो धाराओंमें गुरु-परम्परा भेद  
भी हो सकता है। एक परम्पराने एक धाराकी अपनाना और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दयामें गुणभद्र  
लोकचामीने पद्मचरियकी धारासे परिचित होनेपर भी इस क्वालेसे उसका अंतुकरण न किया होगा कि  
धारा गुरु-परम्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हें पद्मचरियके कथायककी  
कथातक व्याप्त अच्छा मालूम हुआ हो।

रचना वि० सं० ६० से हुई है और यह जैनधर्म विनाम्बर स्वैताम्बर भेदोमे वि०  
अभिभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा  
जैनधर्म अभिभक्त था। हेम सं ग्रन्थसे कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस  
गहरी छाप लगी हो और उससे हम यह निष्कर्ष कर सकें कि विमल  
प्रतीतिहारी रूप बाहिरंग लक्ष्मीसे युक्त वे  
पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित  
रागद्वेषादिरूप मलको धो डालते हैं ॥१॥ मैं  
कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन  
प्रमाण प्राप्त हो जाता है ॥२॥ इस जन्तुद्वीपके अतिशय  
दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश है ॥३॥ उसमें  
बड़ा ही प्रभावशाली था ॥४॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध  
समुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्चर्यकी  
समी गुण अपने-आप ही आकर रहने लगे थे ॥५॥ वह राजा  
मन्त्रशक्ति और फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और

फलसिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आलस्यरहित था और अपनी सन्तानके समान  
न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था ॥६॥ धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थकी प्राप्ति होती है  
और अर्थसे काम—अभिलषित भोगोंकी प्राप्ति होती है, पुण्यके विना अर्थ और काम नहीं  
मिलते हैं यही सोचकर वह राजा जैनधर्मके द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था ॥७॥ किसी  
समय उस राजाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानवरण कपायका उदय  
दूर होकर सिर्फ संवल्लन कथायका उदय रह गया उसी समय उसे रत्नत्रयीकी प्राप्ति हुई और  
वह संसारसे विरक्त हो मन-ही-मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने लगा ॥८॥

१ वणते क०, ख०, ग०, घ० । २ पुण्यम् । ३ पुण्ये । ४ अपूर्णे । ५ मर्थकामो न भवतः ।  
६ स्वागतं ग० ।

विचिन्ता  
श्री महान् ॥ २ ॥  
सुखिमलवाहकः ॥ ४ ॥  
स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥  
जनधर्मण धार्मिकः ॥ ७ ॥  
रहस्येवमचिन्तयत् ॥ ८ ॥  
नामोमलम् ॥ ९ ॥  
वः ॥ २ ॥  
वृषते स्म यत् ॥ ४ ॥  
स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥  
जनधर्मण धार्मिकः ॥ ७ ॥  
रहस्येवमचिन्तयत् ॥ ८ ॥



आयुषो वसतिः काये कायस्थस्य<sup>१</sup> ममाप्यलम् । आयुर्जलं<sup>२</sup> गलत्याशु मितकालघटीधृतम् ॥ ३ ॥  
 ततो गलति निःशेषं न यावत्तावदेव हि । वत्स्याम्युत्सह्य सन्मार्गे जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥  
 इत्याशापाशमाच्छिद्य बहुभिः सह निस्पृहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षालक्ष्म्या वशीकृतः ॥ ११ ॥  
 तपस्यन् सुचिरं तीव्रं विस्पष्टैकादाशङ्ककः ।<sup>३</sup> नाम्नोऽन्त्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्षीन्द्रावनापरः ॥ १२ ॥  
 आयुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्ठिषु । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुरयात् स<sup>४</sup> विजयं जयी ॥ १३ ॥  
 तत्रादायाद्यसंस्थानं शुक्लेश्याद्वयान्वितः । हस्तोच्छ्रायं शुभं देहं सुवर्णादिचतुष्टयम् ॥ १४ ॥  
 मासैः षोडशभिः पञ्चदशभिश्चोच्छ्वसन् दिनैः । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दैर्मानसाहारमाहरन् ॥ १५ ॥  
 निजतेजोऽवधिष्यासलोकनालिनिजावधिः । क्षेत्रोत्थापिबलस्तत्प्रककायजविक्रियः ॥ १६ ॥  
 सातपञ्चशुभैः सौख्यमप्रवीचारमन्वभूत । सप्रवीचारसत्सौख्यात्तदनन्तगुणाधिकम् ॥ १७ ॥  
 तस्मान्मही महाभागे स्वर्गाद्गौरागमिष्यति । प्रागेव भावनोपात्ततीर्थकुञ्जाममुप्यतः ॥ १८ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुजितशत्र्वाख्यः ख्यातो गोत्रण काश्यपः ॥ १९ ॥  
 तस्य शक्राज्ञया गेहे षण्मासान् प्रत्यहं मुहुः । रत्नान्यैलविलि स्तित्स्वः कोटीः सार्धं न्यपीपतत् ॥२०॥  
 ज्येष्ठे मासि कलाशेषशशिरोहिण्युपागमे । मुहुर्ताद् ब्रह्मणः पूर्वं<sup>५</sup> दरनिद्राविलेक्षणाम् ॥ २१ ॥

इस जीविका शरीरमें जो निवास हो रहा है वह आयुर्कर्मसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीरमें स्थित हूँ तो भी कालको परिमित षड्विधोंमें धारण किया हुआ मेरा आयुरुपी जल शीघ्र ही गलता जाता है—उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह आयुरुपी जल जबतक समाप्त नहीं होता तबतक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्तिकरूँगा ॥९-१०॥  
 इस प्रकार आशारूपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निस्पृह हो गया तथा स्वाधीन होनेपर भी अनेक राजाओंके साथ दीक्षारूपी लक्ष्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया गया अर्थात् अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥११॥ जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, जिसे ग्यारह अंगोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके प्रकाशसे जगमगा रही है और जो दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमें निरन्तर तत्पर रहता है ऐसे इस विमलवाहनने तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया ॥१२॥ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेवाला वह विमलवाहन आयुके अन्तं समय पञ्चपरमेष्ठियोंमें चित्त स्थिर कर—समाधिमरण कर तैत्तिरीय सागरकी आयुका धारक हो विजय नामक अनुत्तरविमानमें पहुँचा ॥१३॥ वहाँ वह द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्लेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरस्र संस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने और पन्द्रह दिन बाद उच्छ्वास लेता था, तेतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अर्थात् लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी पदार्थोंको वह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाड़ीको उखाड़कर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी, वह उसने ही क्षेत्रमें अपने शरीरकी विक्रिया भी कर सकता था और सुखस्वरूप पंचेन्द्रियोंके द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिके अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ॥१४-१७॥ उस महाभागके स्वर्गसे पृथिवीपर अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे ही प्रतिदिन तीर्थकर नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें साकेत नगरके अधिपति इक्ष्वाकुवंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशत्रुके घरमें इन्द्रकी आज्ञासे कुवेरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वृष्टि की ॥१८-२०॥ तदनन्तर जेठ महीनेकी अमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट-

१ ममाप्यर् लं० । समापरम् ग०, क०, घ० । २ गलत्यश्च क०, ख०, ग०, घ० । ३ नाम्नोऽन्त्यं शेष क०, ख०, ग०, घ० । ४ विजयनामानुत्तरविमानम् । ५ द्रव्यतो आवतवच शुक्लेश्यासहित । ६ —मनसाहार- क०, ख०, ग०, घ० । ७ निजावधि-क्षेत्रो क०, ग०, घ० । ८ महाभागस्याश्राद्गौरागमिष्यतः क०, ख०, ग० । ९ कुवेर । १० ईपद्मिद्राकलुपितलोचनाम् ।

देवीं विजयसेनाख्यां पौडवास्वभूपर्वकम् । प्रविशन्तं विलोक्यात्मवक्त्राब्जं<sup>१</sup> गन्धसिन्धुरम् ॥२२॥  
 प्रातः पृथ्वीं स्वस्मान् देशावधि विलोचनः । जितशत्रुमहाराजः फलान्पेषामबुधुधत् ॥ २३ ॥  
 विजयादागतं देवं तद्गर्भं स्फटिकामलम् । विमलानुगसंज्ञानेन त्रितयभास्वरम्<sup>२</sup> ॥ २४ ॥  
 दशम्यां माघमासस्य शुक्लपक्षे प्रजेश्वरम् । प्रजेश्वरयोगे नीतिर्वा महोदयमसूत सा ॥ २५ ॥  
 सागरोपमकोटीनां लक्षाः पञ्चाशदुत्तरे । मुक्तिमाद्ये जिने याते तदभ्यन्तरजीविनः ॥ २६ ॥  
 तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृतेः । जन्माभिपेककल्याणमजिताख्यामकुर्वत ॥ २७ ॥  
 द्वासप्ततिगुणा लक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम् । चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधो धनुषां मतः ॥ २८ ॥  
 मर्तुः सुवर्णवर्णस्य पादो<sup>३</sup> स्वस्यायुषो गते । अजितस्य जिताशेषवाह्याभ्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥  
 पूर्वाणां लक्षया हीनं भागत्रितयमायुषः । पूर्वाङ्गमपि नार्पत्य<sup>४</sup> निजितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥  
 स्वया मंभोगसौख्यस्य पर्यन्तोऽयं ममेति वा । राज्यलक्ष्या परिष्वक्तः श्लाघ्यान् भोगानमुल्लूक सः ॥३१॥  
 स कदाचित्सुखासीनः सौधपृष्ठे विशां पतिः । उल्कामलोकतानस्यां जल्पन्तीमभ्रुवां श्रियम् ॥ ३२ ॥  
 विषयेषु तद्देवासीं विदां निर्विदिदे वरः । लक्ष्मीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेपुं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥  
 ब्रह्मलोकाचदाभ्येत्य सुराः सारस्वतादयः । मुनीश्वराः प्रशस्योच्चैस्तत्तदेवान्वादिषुः ॥ ३४ ॥

चन्द्रमाके साथ संयोग था तब ब्राह्ममुहूर्तके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे । उस समय उसके नेत्र बाकी वची हुई अल्प निद्रासे कलुषित हो रहे थे । सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे मुख-कमलमें एक मद्दोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है । जब प्रातः काल हुआ तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नांका फल पूछा और देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले महाराज जितशत्रुने उनका फल बतलाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है । वह पुत्र, निर्मल तथा पूर्व भवसे साथआनेवाले मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीननेत्रासे देदीप्यमान है ॥२१-२४॥ जिस प्रकार नीति, महान् अभ्युदयको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजयसेनाने माघ-मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेश्वरयोगमें प्रजापति तीर्थंकर भगवान्को जन्म दिया ॥२५॥ भगवान् आदिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर वर्ष वीत चुके तब द्वितीय तीर्थंकरका जन्म हुआ था । इनको आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । जन्म होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थंकर भगवान्का देवोंने मेरुपर्वतपर जन्माभिपेक कल्याणक क्रिया और अजितनाथ नाम रखा ॥२६-२७॥ इन अजित-नाथकी बृहत्तर लाख पूर्वकी आयु थी और चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी । अजितनाथ स्वामीके शरीरका रंग सुवर्णके समान पीला था । उन्होंने वाद्य और आभ्यन्तरके समस्त यन्त्रांशपर विजय प्राप्त कर ली थी । जब उनकी आयुका चतुर्थांश अर्थात् अठारह लाख पूर्व प्रमाणकाल बीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ । उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूर्यका तेज जीत लिया था । एक लाख पूर्व कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक पूर्वाङ्ग तक उन्होंने राज्य किया । 'देखो, आपके साथ सम्भोगमुखका अन्त आता है या मेरा ही अन्त होता है' इस विचारसे राज्य-लक्ष्मीके द्वारा आलिंगित हुए भगवान् अजितनाथने प्रशंसनीय भोगोंका अनुभव किया ॥२८-३१॥

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ॥३२॥ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयोसे विरक्त हो गये सोठीक ही इन्होंने शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होनेवाला है उन्हें लक्ष्मीको छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ? ॥३३॥ उसी समय सारस्वत आदि देवपियों अर्थात् लौकान्तिक देवोंने ब्रह्मस्वर्गसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि

१ मत्तहस्तिनम् । २ मनिश्रुतावधिज्ञानानि एव नेत्रत्रितयम् । ३ भास्करम् ग० । ४ चतुर्थभाग । ५ नृपतेः कार्यं नार्पत्य राज्यम् । ६ सोरा' क०, ख०, ग०, घ० ।

तेषां तदुदितं तस्य लोकस्येवाञ्जुमालिनः । स चक्षुषो यथार्थावलोकेश्चास्तहकारिताम् ॥ ३२ ॥  
 सुतायाजितसेनाय राज्याभिषेकपूर्वकम् । दत्त्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्यं भोज्यमिवोच्छ्रितम् ॥ ३६ ॥  
 लब्धनिष्कान्तिकल्याणमहाभिषेकसम्मदः । सुप्रभाशिविकारुढो ब्यूढो नरखगामरैः ॥ ३७ ॥  
 माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने सप्तपर्णद्रुमसमीपगः ॥ ३८ ॥  
 अपराह्णे सहस्रेण राज्ञामाज्ञाविधायिनाम् । सार्धं षष्टोपवासेन समास्थित स संयमम् ॥ ३९ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नो द्वितीयेऽह्नि प्रविष्टवान् । साकेतं दानिनां तोषमपूर्वमुपपादयन् ॥ ४० ॥  
 तत्र ब्रह्मा महीपालस्तस्मै दानं यथाक्रमात् । दत्त्वा सातादिभिः पुण्यैः सहापाश्र्वयपञ्चकम् ॥ ४१ ॥  
 छात्रस्थेन नयन्नव्दान्पौषे द्वादशशुद्धीः । शुद्धैकादश्यहःप्रान्तं रोहिण्यामाप्ततामगात् ॥ ४२ ॥  
 सिहसेनादयस्तस्य नवतिः स्युर्गणाधिपाः । खपञ्चसप्तवह्युक्तप्रमाणाः पूर्वधारिण ॥ ४३ ॥  
 शिक्षकाः खद्वयत्वेकद्विप्रमाणगणाः क्रमात् । शून्यद्वयचतुरन्ध्रमितास्त्रिज्ञानलोचनाः ॥ ४४ ॥  
 केवलावगमास्तत्र ते सहस्राणि विशतिः । चतुःशतैः सहस्राणां विशतिर्विकृतर्द्धयः ॥ ४५ ॥  
 शून्यपञ्चचतुर्द्धयैकमनःपर्ययवीक्षणाः । शून्यद्वयचतुर्द्धयैकैस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥  
 सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो लक्षमेकं तपोधनाः । प्रकुब्जाचार्यिकाः शून्यचतुष्कद्र्यग्निस्मिताः ॥ ४७ ॥  
 श्रावकास्त्रीणि लक्षाणि श्राविकाः पञ्चलक्षिकाः । देवा देव्यस्त्वसंख्याताः संख्यातो द्वादशो गणः ॥ ४८ ॥  
 एवं द्वादशभिर्देवैः गणैरेभिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्देतुफलभेदान् प्रपञ्चयन् ॥ ४९ ॥

की ॥३४॥ जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रोंसे हैं परन्तु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है उसी प्रकार भगवान् यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोंका कहना उनके यथार्थ अवलोकनमें सहायक हो गया ॥३५॥ उन्होंने जूठनके समान विवेकी मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्याभिषेकपूर्वक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥३६॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभानामकी पालकीपर आरूढ़ होकर सहेतुक वनकी ओर चले । उनकी पालकीको सर्वप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याधरोंने और फिर देवोंने उठाया था । माघमासके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदयरहते हुए उन्होंने सहेतुक वनमें सप्तपर्ण वृक्षके समीप जाकर सार्यकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण कर लिया—दीक्षा ले ली ॥३७—३९॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये और दूसरे दिन दानियोंको अपूर्व आनन्द उपजाते हुए साकेतनगरमें प्रविष्ट हुए ॥४०॥ वहाँ ब्रह्मा नामक राजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतियोंका बन्ध कर पञ्चाश्र्वय प्राप्त किये ॥४१॥ शुद्धज्ञानके धारक भगवान्ने बारहवर्ष छात्रस्थ अवस्थामें विताये । तदनन्तर पौषशुक्ल एकादशके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमें आप्तपना प्राप्त किया अर्थात् लोकालोकावभासी केवलज्ञानको प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये ॥४२॥ उनके सिहसेन आदि नव्वे गणधर थे । तीन हजार सात सौ पचास पूर्वधारी, इक्कीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार केवलज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाच्छ्रद्धिवाले, बारह हजार चार सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और बारह हजार चार सौ अनुत्तरवादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुब्जा आदि तीन लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों थीं । और इस तरह उनकी बारह सभाओंकी संख्या थी ॥४३—४८॥ इस प्रकार बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान् अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तारसे कथन करते थे ॥४९॥ उन

१ उच्छिष्टभोजनमिध । २ दिनद्वयोपवासेन । ३ अहर्गोचकार । ४ मनःपर्ययज्ञानसहितः । ५ ब्रह्म-महीपाले क०, ग०, घ० । ६ यथाक्रमम् क०, ख०, ग० । ७ सह सार्धम्, आप लेभे, आश्र्वयपञ्चकम् पञ्चाश्र्वयन् इतिच्छेद । ८ प्रान्त ग० । ९ पञ्चलक्षका. क०, ख०, ग०, घ० ।

'मालिनी

समवलरणलक्ष्म्या वीक्ष्यमाणः कटाक्षैः

सुकृतविकृतचिह्नैरष्टभिः प्रातिहार्यैः ।

अविहृतविहृतारिः प्राज्यचैराग्यभावः

स्वपरगुरुकृतार्थप्रार्थ्यसम्यक्प्रसिद्धः ॥५०॥

शार्दूलचिक्रीडितम्

पापैः कापि न जीयतेऽयमिति वा दुर्धादिमिश्राखिलै-

र्नामान्वर्थमवाप्तवानिति विदां स्तोत्रस्य पात्रं भवन् ।

आर्यक्षेत्रमशेषमेष विहरन् सम्प्राप्य सम्मेदक

स्थित्वा दिव्यनिनादयोगरहितस्तत्रैव पक्षद्वयम् ॥५१॥

कुर्वाणः समर्थं प्रति प्रकृतिपुञ्जावं गुणासंख्यया

स्थित्यादि च विघातयन् स्वमित्तिकं दण्डादिकं वर्तयन् ।

सूक्ष्मध्याननिरुद्धयोगविभवो विश्लिष्टदेहत्रय-

सुत्यध्यानसमाश्रयात्समुपयत्राष्टौ गुणान् श्रुद्धिभाक् ॥५२॥

आर्या

चैत्रज्योत्स्नापक्षे पञ्चम्यां रोहिणीगते चन्द्रे । प्रतिमायोगं विभ्रत्पूर्वाह्णेऽवाप मुक्तिपदम् ॥५३॥

द्रुतविलम्बितम्

विमलवाहनमाहवदुर्द्धरं दुरितदूरतपत्रणोद्यतम् ।

सुखनिधि विजये सुरसचमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम् ॥५४॥

अजितनाथ स्वामीको समवसरण लक्ष्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित चिह्नस्वरूप आठ प्रातिहार्योंसे युक्त थे, उन्होंने कर्मरूपी शत्रुओंमेंसे घातिया कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट कर दिया था और अवातिया कर्मरूप शत्रुओंको अभी नष्ट नहीं कर पाया था, उनकी वैराग्यपरिणति अत्यन्त बढी हुई थी, वे निज और परके गुरु थे, कृतकृत्य मसुष्योंके प्रार्थनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥५०॥ 'यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते है और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते है इसलिए 'अजित' इस सार्थक नामको प्राप्त हुए है' इस प्रकार विद्वानोंको स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान् अजितनाथने समस्त आर्यक्षेत्रमें विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलपर पहुँचकर दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मास तक वहाँपर स्थिर निवास किया ॥५१॥ उस समय उन्होंने प्रति-समय कर्म-प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणी निर्जरा की, उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर आदि लोकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगोंका वैभव नष्ट किया, औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंके सम्बन्धको पृथक् किया, और सातिशय विशुद्धता-को प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक चतुर्थ शुकुध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥५२॥ इस प्रकार चैत्रशुकु पञ्चमीके दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, प्रातः-कालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान् अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥५३॥

जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुर्जेय रहे फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत रहे, तदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन्द्रको है

## शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं षोडशभावनाहितमहापुण्योद्यापादकः

सद्धानात्पलकर्मजालमखिलं निर्मूल्यनिर्मलः ।

धर्मं शर्मपरम्परं प्रविदधत्ते शिवे शाश्वते

तस्माद्धर्ममुपादध्वमुज्झितमदाः शुद्धासबुद्धं बुधा ॥५५॥

तीर्थकृत्सु द्वितीयोऽपि योऽद्वितीयपदस्तुतः । स विधेयात् पुराणोरुमार्गनिर्वहणं कवेः ॥५६॥

तत्तीर्थं सगराभिल्यो द्वितीयश्चक्रवर्तिनाम् । अभूत् पुराणमेतस्य शृणु श्रेणिक धीधन ॥५७॥

द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापागमागभूषणे । विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिपः ॥५८॥

जयसेनो जनैः सेव्यो जनसेनास्य बल्लभा । रतिपेणस्तयोः सूनुरृत्तिपेणश्च तावुभौ ॥५९॥

सूर्याचन्द्रमसौ जित्वा सदा मातः कृतोदयौ । पितरौ च (न) मरुन्मार्गपृथिव्यौ वा ततः पृथक् ॥६०॥

कदाचिद्व्रतिपेणोऽभूत् कृतान्तमुखगह्वरे । केनापि हेतुना किं वा न मृत्योर्हेतुतां ब्रजत् ॥६१॥

सजानि जयसेनाख्यं सलतं चामरदुमम् । शोकाशनिरवाधिष्ट तन्मृत्युधननिर्गतः ॥६२॥

प्रलयः प्राप्तकालस्तावालिङ्ग यमाग्रगः । लब्धवन्ध्रा न तिष्ठेयुरकृत्वापकृतिं द्विषः ॥६३॥

मिषकप्रायोर्जितोपायैः शनैः संलब्धचेतनौ । गुरुणा गुरुणेनैव तेन दुःखेन बोधितः ॥६४॥

विग्रह तद्गृहं मत्वा निगृहीतुं कृताग्रहः । हन्तुं यमं समुद्युक्तस्त्वद्वि युक्तं मनस्विनाम् ॥६५॥

भव्यजीवो ! नमस्कार करो ॥५५॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओंसे महापुण्य तीर्थकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट धर्मोंके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, सुखकी परम्पराको करनेवाला है और नित्य-मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध-तथा आत्मोपज्ञ धर्मकी हे विद्वज्जनो ! सदरहित होकर उपासना करो ॥५५॥ जो तीर्थकरोंमें द्वितीय होनेपर भी पदसे स्तुत है, अद्वितीय—अनुपम है वे अजितनाथ भगवान्, कविको पुराणका विशाल मार्ग पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥५६॥

## सगर चक्रवर्तीका वर्णन

द्वितीय तीर्थकर अजितनाथके तीर्थमें सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे बुद्धिमान् श्रेणिक ! तू अब उसका चरित्र सुन ॥५७॥ इसी जन्मद्वीपके पूर्वे विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्सकावती नामका देश है । उसमें पृथिवी नगरका अधिपति, मनुष्योंके द्वारा सेवनीय जयसेन नामका राजा था । उसकी स्त्रीका नाम जयसेनाथा । उन दोनोंके रतिपेण और धृतिपेण नामके दो पुत्र थे ॥५८-५९॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमांको जीतते हुए शोभित होते थे । उनके माता-पिता आकाश और पृथिवीके समान उनसे कभी पृथक् नहीं रहते थे अर्थात् स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे ॥६०॥ एक दिन किसी कारणवश रतिपेणकी मृत्यु हो गयी सो ठीक ही है क्योंकि मृत्युका कारण क्या नहीं होता ? अर्थात् जब मरणका समय आता है तब सभी मृत्युके कारण हो जाते हैं ॥६१॥ रतिपेणकी मृत्युरूपी मेघसे निकले हुए शोक-रूपी बज्रने लतासहित कल्पवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनको बाधित किया—दुःखी किया ॥६२॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाली मूर्च्छाने उन दोनोंका आलिंगन किया अर्थात् वे दोनों मूर्च्छित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र प्राप्त करनेवाले शत्रु अप-कार किये बिना नहीं रहते ॥६३॥ जब वैद्यजनोंके श्रेष्ठ उपायोंके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो ब्रह्मस्पतिके समान श्रेष्ठगुणने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समझाया ॥६४॥ तदनन्तर वह इस शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निग्रह करनेके लिए आग्रह करने लगा । और यमराजको मारने-

१ योऽद्वितीयः पथि श्रुते क०, ग० । पथि स्तुते ख०, घ० । २ आकाशपृथिव्यो । ३ सभार्यम् । ४ लतापतेर् कल्पवृक्षमिव । ५ शोकवज्रम् । ६ मूर्च्छा ।

जीर्णपर्णवदागन्थ प्राणप्रान्ताम् परिग्रहान् । राज्यभोज्ये नियुज्यार्थं धृतिषेणं धृतायतिम् ॥६६॥  
 यशोधरगुरुद्विष्टं ह्युद्धमध्वानमाप सः । नृपैर्महाहस्ताख्येन बहुभिर्मैथुनेन च ॥६७॥  
 कालान्ते कृतसंन्यासविधिः कल्पेऽन्तिमेऽच्युते । देवो महाबलो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥६८॥  
 महाहस्तोऽपि तत्रैव मणिकेतुः सुरोऽजनि । आवथीर्योऽवतीर्णः प्राक् तस्याग्नौ बोधको भवेत् ॥६९॥  
 इति तत्र तयोरासीदयोन्म्यं संप्रधारणम् । तत्र द्वाविंशतिसागरोपमाण्यामरं सुखम् ॥७०॥  
 अनुभूयान्न साकेतनगरे कौशले नृपः । समुद्रविजयस्तस्य सुबाला रमणी तयोः ॥७१॥  
 महाबलोऽभवत्सुरिक्षत्राकुं सगराह्वय । पूर्वाणां सप्ततिर्लक्षाः तस्यायुःपरमावधिः ॥७२॥  
 चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधेन धनूर्षि सः । सर्वलक्षणसंपूणः श्रीर्माश्रामीकरच्छविः ॥७३॥  
 कुमारत्वे दगाष्टौ च लक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः । महाभाण्डलिकत्वं च तस्य तावत्प्रामाणितम् ॥७४॥  
 तदोद्पादि पटखण्डभूवक्राक्रमणक्षमम् । चक्रं कीर्तिश्च दिक्चक्रमाक्रमन्त्याचक्रिक्रमा ॥७५॥  
 आद्यचक्रिवदेषोऽपि कृत्वा दिग्विजयं चिरम् । गृह्णन् तत्सारवस्तूनि सर्वान् स्वाज्ञामजिग्रहत् ॥७६॥  
 ततो निवृत्त्य साकेतं साम्राज्यश्रीनिकेतनम् । भोगान् दशाङ्गान् निर्भङ्गं निर्विंशत्त्रावसन् सुखम् ॥७७॥  
 तस्य षट्सहस्राणि पुत्राणां कृत्तिनोऽभवन् । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यञ्जिता गुणाः ॥७८॥  
 तस्मिन् सिद्धिवने श्रीनाम्नश्चतुर्मुखयोगिनः । अन्यदाखिलमास्यासीत् केवलाधिगमस्तदा ॥७९॥  
 तत्कल्याणस्य देवेन्द्रैर्मणिकेतुः सहागतः । महाबलोऽजनि क्वेति सोपयोगोऽवधिरिवषा ॥८०॥

के लिए उद्यत हुआ सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यहाँ योग्य है ॥६५॥ वह प्राणोंका अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण है अन्तमें जिनके ऐसे परिग्रहोंको पुराने पत्तोंके समान समझने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आर्थ धृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक राजाओं और महाहस्त नामक सालके साथ यशोधरगुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमार्गको प्राप्त हुआ—दीक्षित हो गया ॥६६-६७॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे अन्तिम अच्युत स्वर्गमें महाबल नामके देव हुए ॥६८॥ जयसेनका साला महाहस्त भी उसी स्वर्गमें मणिकेतु नामका देव हुआ । वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हम लोगोंके बीच जो पहले पृथिवीलोकपर अवतीर्ण होगा—जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समझानेवाला होगा—संसारका स्वरूप समझाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा । महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कोशल देशकी अयोध्या नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी राजा समुद्रविजय और रानी सुबालाके सगरनामका पुत्र हुआ । उसकी आयु सत्तर लाख पूर्वकी थी । वह चार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान् था तथा सुवर्णके समान कान्तिसे युक्त था ॥६९-७३॥ उसके अठारह लाख पूर्व कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए । तदनन्तर महामण्डलेश्वर पद प्राप्त हुआ । उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डोंकी पृथिवीके समूहपर आक्रमण करनेमें समर्थ चक्ररत्न प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥७४-७५॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी चिर काल तक दिग्विजय किया, वहाँकी सारपूर्ण वस्तुओंको ग्रहण किया और सब लोगोंको अपनी आज्ञा ग्रहण करायी ॥७६॥ दिग्विजयसे लौटकर वह साम्राज्य-लक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमें वापस आया और निर्विघ्नरूपसे दस प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने लगा ॥७७॥ उस पुण्यवान्के साठहजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विद्यार्ताने पुत्रोंके आकारमें उसके गुण ही प्रकट किये हों ॥७८॥ किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुर्मुख नामके मुनिराज पधारो थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥७९॥ उनके कल्याणोत्सवमें अन्य देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव भी आया था । वहाँ आकर

सगरचक्रवर्त्यं च शेषैः पुण्यैरभूदसौ । इति ब्रुध्वा विशां नाथमुपगम्येदमब्रवीत् ॥८३॥  
 स्मरस्थावां वदिप्यावस्तत्वं कल्पेऽच्युताह्वये । प्राग्महीगतमत्रस्थो<sup>१</sup> बोधयत्वावयोरिति ॥८२॥  
 मनुष्यजन्मनः सारं साम्राज्यं चिरमन्वभूत् । किं भोगैर्मोगिमोगाभैर्भोगैर्भव्यैर्मिमयावहैः ॥८३॥  
 उचितं स्वविभो मुक्तावित्यस्य विमुखाऽभवत् । चक्रवर्त्सं सिद्धयध्ना काललब्ध्या विना कुतः ॥८४॥  
 ज्ञात्वा तत्तस्य वैमुल्यमन्यालापैर्न्यवतंयत् । हितेनापि न कुर्वन्ति विप्रियं क्रमवेदिनः ॥८५॥  
 विग्भोगानां दृग्भान्त्वोक्तेरेवं च्यावयतोऽवदान् । दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद् दिवम् ॥८६॥  
 उपायमेकमालोच्य ततो ग्राहयितुं पुनः । मणिकेतुर्महोपालमवर्त्तयि महोत्तलम् ॥८७॥  
 आलम्ब्य लक्षणैर्लक्ष्यं कान्त्येन्दुं भानुमामया । वामेन वपुषा कामं निजित्य विजितेन्द्रियः ॥८८॥  
 चारणत्वं समासाद्य भावयन् संयमं परम् । तस्यौ विनेन्द्रान् वन्दित्वा सगरस्य जिनालये ॥८९॥  
 दृष्ट्वा तं विस्मयापन्नो<sup>३</sup> वयस्यस्मिन्निर्यं कुत । तपस्तवेति पप्रच्छ नृपः । सोऽप्यन्यथाब्रवीत् ॥९०॥  
 यौवनं जरसा ग्रास्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम् । हेयः कायोऽशुचिः पापी दुर्धरो दुःखमाजनम् ॥९१॥  
 सर्वदानिष्टसंयोगो वियोगश्चेद्वस्तुभिः । गतोऽनादिर्भवावर्तः पुनश्चानन्त पूव सः ॥९२॥  
 कर्मारिभिरिदं सर्वं दग्ध्वा तानि तपोऽग्निना । यास्याम्यनश्वरी शुद्धिं यथाहं क्रनकोपलः ॥९३॥

उसने जानना चाहता कि हमारा मित्र महावल कहाँ उत्पन्न हुआ है ? 'इच्छा होते ही उसने अवधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिया कि वह वाकी वचने हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है । ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा और कहने लगा ॥८०-८१॥ कि 'क्यों स्मरण है ? हम दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा करते थे कि हम लोगोंके बीच जो पहले पृथिवीपर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहनेवाला साथी समझायेगा ॥८२॥ हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभूत साम्राज्यका तू चिर-काल तक उपभोग कर चुका है । अब सर्पके फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्या लाभ है ? हे राजन्-! 'अब मुक्तिके लिए उद्योग कर' । मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि मुक्तिका मार्ग काललब्धिके विना कहाँसे मिल सकता है ? ॥८३-८४॥ सगर चक्रवर्तीकी विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापस लौट गया सो उचित ही है क्योंकि अनुक्रमको जाननेवाले पुरुष अहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ॥८५॥ 'इन भोगोंको धिक्कार है जो कि मनुष्योंको इस प्रकार अपने कहे हुए वचनोंसे च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और बड़ी कठिनाईसे छोड़े जाते हैं' इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव स्वर्ग चला गया ॥८६॥ फिर कुछ समय बाद मणिकेतु देव राजाको तप ग्रहण करानेका एक दूसरा उपाय सोचकर पृथिवीपर आया ॥८७॥ उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिका रूप बनाया । वह मुनि अनेक लक्षणोंसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रभासे सूर्यको और सुन्दर शरीरसे कामदेवका जीत रहा था । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उल्लूक संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना कर सगर चक्रवर्तीके चैत्यालयमें जा ठहरा ॥८८-८९॥ उस चारण मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों धारण किया है ? चारण मुनिने भी शूठमूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापाके द्वारा प्राप्त है—प्रसनेके योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चूँकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है, और दुःखोंका पात्र है अतः छोड़नेके योग्य है । सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग और इष्ट वस्तुओंका वियोग होता रहता है । यह संसार-रूपी भँवर, अनादि कालसे वीत रही है फिर भी अनन्त हीवनी हुई है । जीवकी यह सब दशा कर्मरूप शत्रुओंके द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अग्निके द्वारा उन कर्म-शत्रुओंको जलाकर सुवर्ण पापाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा—मोक्ष प्राप्त करूँगा ॥९०-९३॥

१ बोधयित्वा ल० । २ हे ग० । ३ अस्यां दशायाम् । ४ सोऽपीत्ययाब्रवीत् क०, ख०, ग०, घ० ।

इत्युक्तः संसृतेभूयो वेपमानोऽपि नापतत् । पन्थानं निवृत्तेर्वद्धः पुत्रशृङ्खलया इदम् ॥१९॥  
 नातिद्वस्वोऽस्य संसार इत्यथास्स विषादवान् । उपायो निष्फलः कस्य न विषादाय धीमतः ॥२०॥  
 वशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्म्या निधीशिना । विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च कामिनां कान्तरज्ञता ॥२१॥  
 लामो लामेषु पुत्राणां लाभः स्वर्गापवर्गयोः । लक्ष्म्योर्नासाविति स्मृत्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान् १७  
 कदाचित्ते सुता रसाः सिंहपोता इवोद्धताः । इति विज्ञापयामासुः सभास्थं चक्रवर्तिनम् ॥२८॥  
 यदि क्षत्रियपुत्राणां शौर्यसाहसशालिनाम् । यौवनं न पितुः प्रैषे दुःसाध्यै साधितेऽस्तितम् ॥२९॥  
 किं तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा । ननु तत्सर्वसामान्यं जन्मजीवितयोर्द्वयम् ॥३०॥  
 तदादिश विशामीश प्रैषं नः साहसावहम् । पात्रेऽसमिततादैर्न्यं येनैनो वा निरस्यते ॥३१॥  
 तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः सर्वं चक्रेण साधितम् । सो किं यत्न मे सिद्धं मध्ये हिमसमुद्रयोः ॥३२॥  
 एष एव मम प्रैषो राज्यलक्ष्मीमिमां मम । संभूय भूयसीं युयमनुभूध्वं यथोचितम् ॥३३॥  
 इति भूयो नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोषमास्थुर्विधेया हि पितृणां शुद्धवंशजाः ॥३४॥  
 तेऽन्येषु पुनरासाद्य नृपं व्यज्ञापयन्नदम् । न मुञ्चमे हे न चेऽप्ये इत्यभ्यर्णोऽत्मशुद्धयः ॥३५॥  
 तदुच्यैष स कः प्रैष इति चिन्तयता मनाक् । नन्वस्ति कार्यशेषोऽयं धर्म इत्यात्तद्विष्टिना ॥३६॥

मणिकेतुके इस प्रकार कहनेपर वह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु मोक्षमार्गको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्ररूपी साँकलोंसे मजबूत बँधा हुआ था ॥ २४ ॥ 'अभी इसका संसार बहुत बढ़ा है, इस प्रकार, विषाद करता हुआ मणिकेतु चला गया सो ठीक ही है क्योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता ? ॥ २५ ॥ वह देव सोचने लगा कि देखो साम्राज्यकी तुच्छ लक्ष्मीसे वशीभूत हुए चक्रवर्तिन अच्युत स्वर्गकी लक्ष्मी मुला दी सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थोंके अन्तरका ज्ञान फ़र्हा होता है ? ॥ २६ ॥ मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभको ही लाभ मानता है, स्वर्ग और मोक्षलक्ष्मीका लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, ऐसा समझकर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त लीन हो रहा है ॥ २७ ॥

किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धत और अहंकारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें विराजमान चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरवीरता और साहससे सुशोभित क्षत्रिय-पुत्रोंका यौवन यदि दुःसाध्य कार्योंमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन नहीं है । ऐसे प्राणीके जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या लाभ है ? जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण है अर्थात् सब जीवोंके होते हैं । इसलिए हे राजन् ! हम लोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बतलाइए कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके ॥ २८-१०१ ॥

यह सुन चक्रवर्तीने हर्षित होकर कहा कि हे पुत्रो ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, हिमवान् पर्वत और समुद्रके बीच ऐसी कौन-सी वस्तु है जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यलक्ष्मीका यथायोग्य रीतिसे उपभोग करो ॥ १०२-१०३ ॥ इस प्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं ॥ १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंको कोई कार्य नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं ॥ १०५ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ चिन्तामें पड़ गये । वे सोचने लगे कि इन्हें कौन-सा कार्य दिया-जावे । अकस्मात् उन्हें याद आ गयी कि अभी धर्मका एक कार्य बाकी है ।

१ विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च क०, ख०, ग०, घ० । विस्मृतोऽच्युत ल० । २ लाभालाभेषु क०, घ० । ३ सूर्य क०, घ० । ४ प्रैषदु साध्ये ग० । ५ मात्रभोजनसंमेलनजन्यदैन्यम् । ६ पापमिव । ७ नृपेन्द्रेण क०, ख०, ग०, घ० । ८ आधीना. आज्ञाकारिण इति यावत् । ९ प्रैष्य ग० ।



राज्ञाप्याज्ञापिता यूथं कैलासे भरतेशिना । गुहाः कृता महारक्षेत्रुविंशतिरहंताम् ॥१०७॥  
 तेषां गङ्गां प्रकुर्वीध्व<sup>१</sup> परिसां परितो गिरिम् । इति तेषु तथा कुर्वन् दण्डरत्नेन सत्वरम् ॥१०८॥  
 मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसौजन्यचोदितः । सचिवैर्बोधनोपायं स सहैवं व्यचिन्तयत् ॥१०९॥  
 किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं किञ्चिच्च हितमप्रियम् । किञ्चिदप्रियं सदहितं परं चाहितमप्रियम् ॥११०॥  
 अन्यद्वयं परित्यज्य शोभाभ्यां भाषता हितम् । इति निश्चित्य कैलासं तदैवागम्य दर्पिणः ॥१११॥  
 कुमारान् भस्मराशिं वा व्यधात् क्रूररगाकृतिः । कुर्वन्ति सुहृदोऽगत्या हितं चेदप्रियं च तत् ॥११२॥  
 ज्ञात्वापि तन्मृतिं भूपमाकर्णयितुमक्षमाः । तस्नेहं तेषु जानानः संबृत्य सचिवाः स्थिताः ॥११३॥  
 तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतुरूपेत्य तम् । महाभोकसमाक्रान्तो<sup>२</sup> चावेदयदिदं वचः ॥११४॥  
 देव देवे धराचक्रं रक्षति क्षेममत्र नः । किन्त्वन्तकेन मत्पुत्रोऽहायार्यो<sup>३</sup> जीवित्वावधिः ॥११५॥  
 प्रयान् ममैकं<sup>४</sup> एवास्मौ नायुषा तेन जीवितम् । नानीतश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥११६॥  
 तव विद्वद्यप्रतो नीतं किं कुर्वन्ति न गर्विताः । शलाट्टमक्षणे<sup>५</sup> लोलः किं पङ्कं तत्पजेदिति ॥११७॥  
 तदाकण्ठ्यहं<sup>६</sup> सन् राजा द्विज किं वेत्सि नान्तकः<sup>७</sup> । सिद्धैरेव स वार्योऽन्यैर्नत्यागोपालविश्रुतम् ॥११८॥  
 अपवर्त्ययुधः केचिद्ब्रह्मायुर्जाविनः परे<sup>८</sup> । तान् सर्वान् संहरत्येष यमो मृत्योरगोचरः ॥११९॥

उन्होंने हृषित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तिन कैलास पर्वतपर महारत्नोंसे अरहन्तदेव-  
 के चौबीस मन्दिर बनवाये है सो तुम लोग उस पर्वतके चारों ओर गंगा नदीको उन मन्दिरों-  
 की परिखा बना दो । उन राजपुत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ही  
 कर दिया ॥१०६-१०८॥

प्रेम और सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा  
 सगरको समझानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १०९ ॥ कि वचन  
 चार प्रकारके होते हैं—कुछ वचन तो हित और प्रिय दोनों ही होते हैं, कुछ हित और अप्रिय  
 होते हैं, कुछ प्रिय होकर अहित होते हैं और कुछ अहित तथा अप्रिय होते हैं । इन चार  
 प्रकारके वचनोंमें अन्तके दो वचनोंको छोड़कर शेष दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया  
 जा सकता है । ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैलास पर्वतपर  
 आया और उन अहंकारी राजकुमारोंको भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है  
 क्योंकि मन्त्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी अप्रिय वचनोंका प्रयोग  
 करते ही हैं ॥ ११०-११२ ॥ मन्त्री यह जानते थे कि राजाका पुत्रोंपर कितना स्नेह है अतः  
 पुत्रोंका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके ।  
 समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपाकर ही बैठ रहे ॥ ११३ ॥

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रखकर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत  
 भारी शोकसे आक्रान्त होकर निम्नांकित वचन कहने लगा ॥ ११४ ॥ 'हे देव ! जब आप  
 पृथिवीमण्डलका पालन कर रहे हैं तब हम लोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु आयुकी  
 अवधि दूर रहनेपर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है । वह मेरा एक ही पुत्र  
 था । यदि आप उसे आयुसे युक्त अर्थात् जीवित नहीं करते है तो आज सुझे भी आपके देखते-  
 देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया हुआ समझें । क्योंकि अहंकारी लोग क्या नहीं करते हैं ।  
 जो कच्चे फल खानेमें सतृष्ण है वह भला पके फल क्यों छोड़ेगा ॥ ११५-११७ ॥

ब्राह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे द्विजराज ! क्या आप नहीं जानते कि  
 यमराज सिद्ध भगवान्के द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीवोंके द्वारा नहीं, यह  
 बात तो आवांल-गोपाल प्रसिद्ध है ॥ ११८ ॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी

१ प्रकुर्वीत क०, ल०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग० । ३ हायार्यो जीवित्वावधिः घ० । ह्यहाय्यो ल० ।  
 ४ ममैप ल० । ५ आमफलमक्षणे । ६ सतृष्ण । ७ स राजा क०, घ० । सद्गजा ल० । ८ नान्तकम् क०  
 घ० । ९ चरे ल० ।

तस्मिन् वहसि चेद्वैरं जीर्णो मा भूर्गृहे वृथा । मोक्षदीक्षां गृहाणाञ्च शोकं हित्वेत्थुवांच तम् ॥१२०॥  
 इत्युक्तं देव किं सत्यमेतद्यज्ञान्तकालपर । बलीति तन्न भेतव्यं मया किञ्चिद्विद्विष्यता ॥१२१॥  
 तेनान्तकेन ते नीता सर्वेऽपि स्वान्तिकं सुताः । तस्मात्तदुक्तमागोणं बहुवैरं खलेऽन्तके ॥१२२॥  
 इत्याह सोऽपि तद्वाक्यवन्ननिमित्तमानसः । गतासुरिव निःस्पन्दो बभूव नृपतिः क्षणम् ॥१२३॥  
 चन्दनोक्षीरसमिश्रसलिलैः सुहृदुक्तिभिः । उल्लेपैश्च सृदूक्षैर्षैः पुनरागत्य चेतनाम् ॥१२४॥  
 १ मा मायामा वृथायाला भीम कामो यमोऽधम । भङ्गुरः सङ्गमः प्रेम्णः काथोऽश्रेयोऽद्युचि क्षयी ॥१२५॥  
 २ वायुंकारुंकिनिर्भासि यौवनं तद्ययौ वनम् । जानन् जिनोऽहमद्यापि भूढोऽत्रैवेति चिन्तयन् ॥१२६॥  
 भव्ये भगलिदेशैशसिहविक्रमराट्शुभवः । विदुर्भाषा सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथे ॥१२७॥  
 राजते स्म तपोराज्ये दृढधर्माजिमान्तिके । तावदेव गृहे सन्तो न हेतुर्थावदीक्ष्यते ॥१२८॥  
 ३ सोऽपि राक्त्वा भवद्द्वार्ता महोपतिमवबुधत् । अनाकण्ठ्यामसौ श्रुत्वा गाढं शोकाग्निदीपित ॥१२९॥  
 कृत्वा भगीरथे राज्यं तपोऽद्यादहमप्यत । इहान्वेष्टुं समायातः शोकाद्युष्मत्कुलद्विजः ॥१३०॥  
 इति देवः समभ्येत्य मायामस्मावगुण्डितान् । कुमारान् बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥१३१॥

आयु कीचमें ही छिद जाती है और कितने ही ऐसे है कि जो जितनी आयुका बन्ध करते है उतना जीवित रहते हैं—कीचमें उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे रहित है ॥ ११६ ॥ यदि तुम उस यमराजपर द्वेष रखते हो तो घरके भीतर व्यर्थ ही जीर्ण-शीर्ण मत होओ । मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही दीक्षा धारण करो; शोक छोड़ो ॥ १२० ॥

जब राजा सगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी मणिकेतु बोला—हे देव ! यदि यह सच है कि यमराजसे बढ़कर और कोई बलवान् नहीं है तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आपको भयभीत नहीं होना चाहिए ॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र कैलास पर्वतपर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्गके अनुसार दृष्ट यमराजपर बहुत वैर धारण करना चाहिए अर्थात् दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए ॥ १२२ ॥

ब्राह्मणके उक्त वचनरूपी वज्रसे जिसका हृदय विदीर्ण हो गया है ऐसा राजा सगर क्षण भरमें मरे हुएके समान निश्चेष्ट हो गया ॥ १२३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जलसे, मित्रोंके वचनोंसे तथा पंखोंकी कोमल वायुसे जब वह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यर्थ ही खेदको बढानेवाली यह लक्ष्मीरूपी माया मुझे प्राप्त नहो—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं । यह काम भयंकर है, यमराज नीच है, प्रेम्णका समागम नश्वर है, शरीर अपवित्र है, क्षय हो जानेवाला है और इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी है, यह यौवन इन्द्रधनुषके समान नश्वर है ऐसा जानते हुए तीर्थंकर भगवान् वनमें चले जाते है । परन्तु मैं मूर्ख अब भी इन्हींमें मूढ़ हो रहा हूँ ॥ ऐसा विचार कर सगर चक्रवर्तिन भगलि देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदुर्भाके पुत्र भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप दिया और आप दृढधर्मा केवलके समीप दीक्षा धारण कर तपश्चरण रूपी राव्यमें सुगोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते है जबतक कि विरक्त होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ॥ १२४-१२८ ॥ इधर चक्रवर्तिने दीक्षा ली इधर वह मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और कहने लगा कि किसिने आपके मरणका यह अश्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाग्निसे बहुत ही अधिक उर्धोपित हुए और भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं । मैं आपकी कुल-परम्परासे चला आया ब्राह्मण हूँ अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२९-१३० ॥ ऐसा कह-

१ मा लक्ष्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत् । २ व्यर्थवेदर्था । ३ वामुकमेघस्तस्य कामुकं वनुरिव निर्भासते शोभते इत्येवंशैलं नश्वरमिति यावत् । ४ कोऽपि ग०, ध० ।

तेऽपि तद्वचनात्प्रापन् तपस्तजिनसंभ्रयात् । चरमाङ्गधरा युक्तं तदेवौचित्यवेदिनाम् ॥ १३२ ॥  
 भगीरथोऽपि तान् गत्वा कृत्वा भक्त्या नमस्कृत्याम् । धर्ममाकर्ष्य जैनेन्द्रमादत्त श्रावकप्रतप्तम् ॥ १३३ ॥  
 प्रकटीकृततन्माथो मणिकेतुश्च तान् मुनीन् । क्षन्तव्यमित्युवाचैतान् सगरादीन् सुहृद्भरः ॥ १३४ ॥  
 कोऽपराधस्तवेदं नस्तवया प्रियमनुष्ठितम् । हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा तमसान्त्वयन् ॥ १३५ ॥  
 सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवमुपागमत् । परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३६ ॥  
 सर्वेऽन्ते सुचिरं कृत्वा सत्तपो विधिवद् बुधाः । शुक्लध्यानेन सम्भेदे सम्प्रापन् परमं पदम् ॥ १३७ ॥  
 निर्वाणगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानस । वरदत्ताय दत्त्वात्मराज्यलक्ष्मीं भगीरथः ॥ १३८ ॥  
 कैलासपर्वते दीक्षां शिवगुप्तमहामुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्थभूस्त्वधुनीतटे ॥ १३९ ॥  
 सुरेन्द्रेणास्य दुग्धादिधपयोभिरभिषेचनात् । क्रमयोस्तत्प्रवाहस्य गङ्गायां सङ्गमे सति ॥ १४० ॥  
 तदाप्रवृत्तिं तीर्थत्वं गङ्गायस्मिन्नुपागता । कृत्वोत्कृष्टं तपो गङ्गातटेऽसौ निर्धृतिं गतः ॥ १४१ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अत्रामुत्र च मित्रवन्न हितकृत् कोऽप्यस्ति बन्धुः परो

गुह्याद् गुह्यतरं गुरोरपि न तद्वाच्यं यदस्योच्यते ।

दुःसाध्यान्थपि साधयत्यगणयन्प्राणांश्च तत्र स्फुटो

दृष्टान्तो मणिकेतुरेव कुरुतां तन्मित्रमीदृग्वधम् ॥ १४२ ॥

कर उस देवने मायामयी भस्मसे अबगुण्ठित राजकुमारोंको सचेत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रोंकी माया भी हित करनेवाली होती है ॥ १३१ ॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरम-शरीरी राजकुमारोंने भी जिनेन्द्र भगवान्का आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो उचित बातको जानते है उन्हें ऐसा करना ही योग्य है ॥ १३२ ॥ जब भगीरथने यह समाचार सुना तत्र वह भी उन मुनियोंके पास गया और वहाँ उसने उन सबको भक्तिसे नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ १३३ ॥ अन्तमें मित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि मुनियोंके समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और कहा कि आप लोम क्षुमा कीजिए ॥ १३४ ॥ 'इसमें आपका अपराध ही क्या है ? यह तो आपने हमारा हित तथा प्रिय कार्य किया है' इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों-द्वारा उन सब मुनियोंने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका कार्य सिद्ध हो गया है ऐसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चला गया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुषोंको संतोष होता है ॥ १३६ ॥ वे सभी विद्वान् मुनिराज चिरकाल तक यथा-विधि तपश्चरण कर सम्भेद जल पर पहुँचे और शुक्लध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए ॥ १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्बेदसे भर गया अतः उसने वर-दत्तके लिए अपनी राज्यश्री सौंपकर कैलास पर्वतपर शिवगुप्त नामक महामुनिसे दीक्षा ले ली तथा गङ्गा नदीके तटपर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३८-१३९ ॥ इन्द्रने क्षीरसागरके जलसे महामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गङ्गामें जाकर मिल गया । उसी समयसे गङ्गा नदी भी इस लोकमें तीर्थरूपताको प्राप्त हुई अर्थात् तीर्थ मानी जाने लगी । भगीरथ गङ्गा नदीके तटपर उत्कृष्ट तप कर वहींसे निर्वाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमें मित्रके समान हित करनेवाला दूसरा नहीं है । न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है । जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नहीं कही जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कही जाती है, मित्र अपने प्राणोंकी भी परवाह नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है । मणिकेतु ही

१ तम् देवम् असान्त्वयन् शान्तं बहुरिति यावत् । २ गङ्गातीरे ।

मालिनी

स जयति जयसेनो यो जितारातिसेन.

श्रुत इति महदादिर्यो बलः प्रान्तकल्पे ।

सगरसकलचक्रो योजितो यश्च यश्च

प्रहतचरमदेहो देहमात्रात्मदेहः । १४३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अजिततीर्थकरसगरचक्रधर-  
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व ॥ ४८ ॥

इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको ऐसा ही मित्र बनाना चाहिए ॥ १४२ ॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर अच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे आकर शत्रुओं-द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें अपना चरम शरीर—अन्तिम देह नष्ट कर शरीर भ्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयवन्त रहे ॥ १४३ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य-द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अजितनाथ तीर्थकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला अड़तालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥

## एकोनपञ्चाशत्तमं पर्व

श्रियं क्रियात्स मे निघ्नन् सम्भवो दम्भजुम्भणम् । सम्मुखीनायते<sup>१</sup> यस्य सद्बोधः सम्मुखेऽखिले ॥ १ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्नादिमे पूर्वविदेहे नद्युदकटे । कच्छाख्ये विषये क्षेमपुरे विमलवाहनः ॥ २ ॥  
 नाम्ना नरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सति<sup>३</sup> त्रिभेदे निर्वेदे स समासन्ननिर्वृतिः ॥ ३ ॥  
 जन्तुरन्तकदन्तस्थो हन्त जीवितमीहते । मोहात्तन्निर्गमोपायं न चिन्तयति धिक् तमः ॥ ४ ॥  
 आयुः परमसङ्ख्याताः क्षणास्ते ग्रणीकृताः । प्राणिनिर्हानये चेमानर्पयन्त्यन्तकप्रभो ॥ ५ ॥  
 अभिलाषातपातसाक्षायां भोग्यस्य संश्रिताः । जीर्णकृत्स्य चासोऽमृन्न हि क्षेमण<sup>५</sup> पालयेत् ॥ ६ ॥  
 इत्यादि चिन्तयन् राज्यं दत्त्वा विमलकीर्तये । स्वयंप्रभजिनस्यान्तैधामित्वं प्रतिपन्नवान् ॥ ७ ॥  
 एकादशज्ञ धारी सन् त्रैलोक्यक्षोभकारणम् । भावनाभिर्निवृत्यान्त्यनामतीर्थकराह्वयम् ॥ ८ ॥  
 संन्यासविधिना त्यक्तदेहो भ्रैवेयकादिमं । सुदर्शने विमानेऽभृद्दहमिन्द्रो महद्दिकः ॥ ९ ॥  
 त्रयोविंशतिवार्ध्यायुः स षष्ट्यङ्गुलमानभाक् । शरीरो लेश्यथा शुक्लः श्वसन् पक्षोनवत्सरं ॥ १० ॥  
 खत्रयाग्निद्विर्षान्ते भोजनं मनसा स्मरन् । निःप्रवीचारभोगोऽन्त्यनरकान्तगताधिः ॥ ११ ॥  
 स्वावधिक्षेत्रसञ्चारसमर्थस्तत्प्रमप्रमः । प्राग्देहोत्थवसुव्याख्या स्वावधिक्षेत्रपूरकः ॥ १२ ॥

जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेके लिए दर्पणके समान है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारको नष्ट करनेवाले है ऐसे सम्भवनाथ तीर्थकर मेरा कल्याण करें ॥ १ ॥ इसी पहले जन्मद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष होनेवाला है ऐसा वह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो गया । वह विचार करने लगा कि इस संसारमें वैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ॥ ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह जीव यमराजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है और मोहकर्मके उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचता इसलिए इस अज्ञानान्धकारको धिक्कार हो ॥ ४ ॥ वैराग्यका दूसरा कारण यह है कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु आश्चर्य है कि ये आयुके क्षण ही इन जीवोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते है ॥ ५ ॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलाषारूपी धूपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी नदीके जीर्ण-शीर्ण तटकी छायाका आश्रय ले रहे है सो उनका यह आश्रय कुशलतापूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका ॥ ६ ॥ इत्यादि विचार करते हुए विमलवाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्ति नामके पुत्रके लिए देकर स्वयंप्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ ७ ॥ ग्यारह अङ्गोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थकर नामक नामकर्मका बन्ध किया ॥ ८ ॥ अन्तमें संन्यासकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम भ्रैवेयकके सुदर्शन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ ९ ॥ तेईस सागरकी उसकी आयु थी, साठ अंगुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, साढ़े ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, तेईस हजार वर्ष बाद मनसे आहारका स्मरण करता था, उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सातवे नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके क्षेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी ही उसके शरीरकी प्रभा

१ -जायते ख०, ग० । सम्मुखे पुरस्ताद् भवतीति सम्मुखीनो दर्पणस्तद्वाचरतीति सम्मुखीनायते २ सम्मुखोऽखिले ख० । ३ त्रिभेदे क०, ख०, ग०, घ०, म० । ४ यापयेत् ख०, ग० । ५ सुदर्शनविमाने क०, ख०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धचादित्वात्पुंस्त्वम् ।

अणिमादिगुणोपेतं पञ्चपुण्योदयार्पितम् । अहमिन्द्र सुखं श्रीमानन्वभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे श्रावस्तिनगरेक्षितः । राज्ञः काश्यपगोत्रस्य दृढराजस्य सद्युतेः ॥ १४ ॥  
 बलभेदनाकुर्वन्स्य सुषेणा तदसुरागमे । षण्मासान् वसुधाराधिं महालम्प्यपर्वदीं गता ॥ १५ ॥  
 शुक्लफाल्गुनजाष्टम्यां स्वप्नान् षोडश पञ्चमे । प्रभातसमयेऽपश्यन्नक्षत्रे सुहृतोदयात् ॥ १६ ॥  
 ततोऽनु वदनं तस्याः स्वप्ने प्राविशदग्रिमः<sup>३</sup> । गिरीन्द्रशिखरकारो वारणश्चारुलक्षणः ॥ १७ ॥  
 सा तेषां फलमाकर्ण्य स्वपतेर्मुदमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगे ॥ १८ ॥  
 पौर्णमास्यामवापार्च्यमहमिन्द्रं त्रिविद्युतम् । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत् ॥ १९ ॥  
 सम्भवे तव लोकानां शं भवत्यद्य शम्भव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृन्नामकर्मणः ॥ २० ॥  
 तवाङ्गचूते प्रीणन्ति लक्षणव्यञ्जनोंद्गमे । प्रलम्बबाहुविटपे सुरदग्भ्रमराश्विम् ॥ २१ ॥  
 परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरौदधत् । मतानि कपिलादीनां स्याद्वादस्येव निर्मलम् ॥ २२ ॥  
 समस्ताह्लादकैनासीदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्वितः ॥ २३ ॥  
 त्वां कोकः स्नेहसंवृद्धो निर्हेतुहितकारणम् । प्रदीपवन्नमत्येव निधानमिव भास्वरम् ॥ २४ ॥  
 इति स्तुत्वादिकल्पेशो विहितानन्दनाटकः । पित्रोस्तमर्पयित्वा मा स्वर्लोकमगमत्सुरैः ॥ २५ ॥

थी और उत्तमी ही दूर तक उसका वैकिकियिक शरीर आ जा सकता था ॥ १०-१२ ॥ इस प्रकार वह श्रीमान् उत्तम अहमिन्द्र अणिमा महिमा आदि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रके सुखोंका अनुभव करता था ॥ १३ ॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा दृढराज्य था । वह इक्ष्वाकुवंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी । सुषेणा उसकी स्त्रीका नाम था । जब पूर्वार्क देवके अवतार लेनेमें छहमास बाकी रह गये तब सुषेणा रत्नवृष्टि आदि महालम्प्यको प्राप्त हुई । फाल्गुन शुक्ल अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रमें पुण्योदयसे रानी सुषेणाने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६ ॥ तदनन्तर स्वप्नमें ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वतके शिखरके समान आकारवाला तथा सुन्दर लक्षणोंसे युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥ १७ ॥ अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर वह आनन्दको प्राप्त हुई । उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया । तदनन्तर नवमे महीनेमें कार्तिक शुक्ला पौर्णमासीके दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य योगमें उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पूज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया । जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभव' यह नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ १८-१९ ॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान् संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की—हे संभवनाथ ! तीर्थकर नामकर्मके उदयके विना ही केवल आपके जन्म से ही आज जीवोंको सुख मिल रहा है । इसलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक है ॥ २० ॥ हे भगवन् ! जिसमें अनेक लक्षण और व्यञ्जनरूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी सुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आन्नवृक्षपर देवोंके नेत्ररूपी भ्रमर चिरकाल तक टप रहते हैं ॥ २१ ॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निर्मल तेज कपिल आदि के मर्तोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित हो रहा है उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य लोगोंके तेजको तिरस्कर करता हुआ सुशोभित हो रहा है ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवोंको आह्लादित करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्का हित करता है उसी प्रकार आप भी साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके ज्ञानसे जगत्का हित कर रहे हैं ॥ २३ ॥ हे नाथ ! आपके स्नेहसे बड़ा हुआ यह लोक, दीपकके समान कारणके विना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देवीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है ॥ २४ ॥ इस प्रकार स्तुति कर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका अधिपति सौधर्मन्द्र-माता-पिताके लिए भगवान्को सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥ द्वितीय तीर्थकरकी तीर्थ-

१ वसुधारादिमहालम्प्य-क०, ख०, ग०, घ० । २ वदनस्यान्तः ल० । ३ -दग्रिमं ल० । ४ त्रिविध-व्युत्तम् ख०, ग० । ज्ञानत्रयसहितम् । ५ तव शरीरान्नवृक्षे टि० । तवाङ्गभूजे ल० । ६ भास्वरः ल० ।

द्वितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । त्रशच्छतसहस्रोक्तकोटिभिः प्रान्तमीयुषि ॥ २६ ॥  
 शम्भवाख्योऽभवत्स्वामी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूर्वषष्टिलक्षायुः चतुःशतधनुःप्रभः ॥ २७ ॥  
 आयुषीते चतुर्भागे प्रातराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवहेवैरुपनीतान्यनुक्षणम् ॥ २८ ॥  
 चत्वारिंशच्चतुर्लक्षाः पूर्वाणां समतिक्रमे । चतुःपूर्वाङ्गयुक्तानामभ्रविभ्रमदर्शनात् ॥ २९ ॥  
 लब्धबोधिः समुत्पन्नवैराग्यो जीवितादिकम् । स्वगतं स्मरति स्मेति शम्भवः सु भवान्तकः ॥ ३० ॥  
 आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भ्रान्त्योक्तोऽन्योऽन्तकः परैः । जन्तवस्तदजानन्तो त्रियन्तेऽनन्तशोऽन्तकात् ॥ ३१ ॥  
 अध्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभिभूयते । भूयो जन्तुरिदं जाड्यमत्रैव वसतीति यत् ॥ ३२ ॥  
 विरसान् सूरसान् मत्वा विषयान् विषसन्निभान् । भुङ्क्ते रागरसाविद्धो भिग् धियोऽनादिविप्लवम् ॥ ३३ ॥  
 आत्मेन्द्रियायुरिष्टार्थसन्निधेः संसृतौ सुखम् । स्वसन्निधिरिह स्थेयान् किं न वेत्ति न तर्क्यते ॥ ३४ ॥  
 विद्युद्युतिविलक्ष्मीनेत्रं स्थेमानमृच्छति । व्युच्छिन्नेच्छः त्रियं स्यात् स्वच्छतद्दोषदोधितम् ॥ ३५ ॥  
 इत्यात्तत्त्वसारं तं स्तुत्वा लौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रान्तनिष्क्रमणोत्सवः ॥ ३६ ॥  
 सिद्धार्थशिविकामूर्धा देवैरारुह्य निर्गतः । सहेतुकवने राज्ञां सहस्रेणाप संयमम् ॥ ३७ ॥  
 मनःपर्ययसंज्ञानः श्रावस्तिनगरं प्रति । शिक्षाहेतोर्द्वितीर्थेऽह्नि प्राविशत् क्रमकप्रभः ॥ ३८ ॥  
 नृपः सुरेन्द्रदत्ताख्यः सुवर्णमः प्रतीक्ष्य तम् । दत्त्वा दानं स्फुरद्गन्धमापदाश्रयपञ्चकम् ॥ ३९ ॥

परम्परामें जब तीस लाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । उनकी साठ लाख पूर्वकी आयु थी, चार सौ धनुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्य का महान् वैभव प्राप्त हुआ था । वे सदा देवोपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे ॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग व्यतीत हो चुके तब किसी दिन मेधोंका विभ्रम देखनेमें उन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई, वे उसी समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु आदिका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २९-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेवाला आयुक्रम ही यमराज है, अन्य मत वालोंने भूलसे किसी दूसरेको यमराज बतलाया है, संसारके प्राणी इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्त वार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं ॥ ३१ ॥ यमराज इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस जीवकी मूर्खता देखो कि यह इसी शरीरमें वास करता है ॥ ३२ ॥ रागरूपी रसमें लीन हुआ यह जीव विषके समान नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चले आये इसकी बुद्धिके विभ्रमको धिक्कार है ॥ ३३ ॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इष्ट-पदार्थके संनिधानसे संसारमें सुख होता है सो आत्माका संनिधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यह जीव क्यों नहीं जानता और क्यों नहीं इसका विचार करता । यह लक्ष्मी विजलीकी चमकके समान कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निर्मल सम्यग्ज्ञानकी किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त हो सकता है ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार पदार्थके सारको ग्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लौकान्तिक देव चले गये । तथा भगवान् भी अपने पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षाकल्याणक उत्सव प्राप्त करते हुए देवोंद्वारा लठायी हुई सिद्धार्थ नामकी पालकीमें सवार हो नगरसे बाहर निकले और सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ३६-३७ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । सुवर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले भगवान्ने दूसरे दिन शिक्षाके हेतु श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ वहाँ काञ्चन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पडगाहकर आहार दान दिया और जिनमें

१ आयुषि इते गते सतीत्यर्थः । २. सम्तिक्रमे ल० । ३. सन्निधि. ल० । ४. स्वसन्निधेरिह स्थेयं ल०. ष० । ५. सन्निधिरिह स्थेयं ग०, क० । ६. विच्छिन्नेच्छः क०, ष० । ७. व्युच्छिन्नेच्छः अथेत स्यात्तुम् क०, ल०, ग०, ष० । ८. मुनिः क०, ल०, ग०, ष० ।

अथ मौनव्रतेनाथं छत्रस्थोऽन्वेषु शुद्धधीः । द्विसप्तसु गते दीक्षावने शालतरोरधः ॥४०॥  
जन्मर्धे कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्वगः । षष्ठोपवासो हत्वाधानं प्रापानन्तचतुष्टयम् ॥४१॥  
कल्पामरैः समं सर्वैश्चिविद्यैर्व्योतिषादिभिः । व्यधात् कैवल्यकथायां तदैवैत्यामराधिपाः ॥४२॥  
पञ्चोत्तरशतोद्दिष्टैर्गणैः परिवारितः । चारुषेणादिभिः सोऽभाद् गिरीन्दी गिरिभ्रियैः ॥४३॥  
शून्यपञ्चैकपक्षोक्तचारुपूर्वधराधृतः । शून्यद्वयत्रिरन्त्रद्वयेकोक्तशिक्षकलक्षितः ॥४४॥  
शून्यत्रयेन्द्रियैकोक्तकेवलावगमान्वितः । शून्यत्रयेन्द्रियैकोक्तकेवलावगमान्वितः ॥४५॥  
शून्यद्वयाष्टरन्त्रैकज्ञातवैक्रियिकानुग । शून्यपञ्चैकपक्षैकज्ञानतुयावबोधकः ॥४६॥  
शून्यत्रितयपक्षैकसंख्यावादिविभूषितः । पिण्डिताशेषदिग्वासोलक्षद्वयपरिष्कृतः ॥४७॥  
खचतुष्कद्विवह्युक्तधर्माद्यार्थिकागणः । त्रिलक्षोपासकोपेतश्राविकापञ्चलक्षग ॥४८॥  
असंख्यदेवदेवील्यस्तिर्यक्संख्यातसंस्तुतः । एवं द्वादशभेदोक्तधर्मशृद्गणनायक ॥४९॥  
चतुस्त्रिगदलोशेषप्रातिहार्याष्टकप्रभुः । दिव्यवारज्योत्स्नया कृत्स्नमाह्लाघानमितांशुमान् ॥५०॥  
शुद्ध एव चरन् पक्षे मोहलक्ष्या सहोद्गतः । निष्कलङ्को निरातङ्को निर्दूतारिः कुपक्षहृत् ॥५१॥  
मुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषी महोष्मधृत् । सद्बुत्तः सर्वदा पूर्णः सदाभ्यणुबोदयः ॥५२॥

अनेक रत्न चमक रहे है ऐसे पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ३९ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान् सम्भवनाथ चौदह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थामें मौनसे रहे । तदनन्तर दीक्षावनमें पहुँचकर-शालमली वृक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थिके-दिन-जन्मकालीन-भृगुशिर नक्षत्रमें शामके समय वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए और चार घातिया कर्मरूपी पाप-प्रकृतियोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ ॥ उसी समय इन्होंने कल्पवासियों तथा ज्योतिष्क आदि तीन प्रकारके देवोंके साथ कैवल्य महोत्सव किया—ज्ञानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार छोटे-छोटे अन्व अनेक पर्वतोंसे घिरा हुआ सुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार चारुषेण आदि एक सौ पाँच गणधरोंसे घिरे हुए भगवान् सम्भवनाथ सुशोभित हो रहे थे ॥ ४३ ॥ वे दो हजार एक सौ पचास पूर्वधारियोंसे परिवृत्त थे, एक लाख जन्तीस हजार तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे ॥ ४४ ॥ नौ हजार छह सौ अधिज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे ॥ ४५ ॥ उन्नीस हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके साथ थे, बारह हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे ॥ ४६ ॥ तथा बारह हजार वादियोंसे सुशोभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंसे अत्यन्त शोभा पा रहे थे ॥ ४७ ॥ धर्मार्थोंको आदि लेकर तीन लाख बीस हजार आर्थिकाएँ थीं, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यक उनकी स्तुति करते थे । इस प्रकार वे भगवान्, धर्मको धारण करनेवाली बारह सभाओंके स्वामी थे ॥ ४८-४९ ॥ वे चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्योंके प्रभु थे, दिव्यध्वनिरूपी चाँदनीके द्वारा सबको आह्लादित करते थे तथा सूर्यको नम्रीभूत करनेवाले थे ॥ ५० ॥ भगवान् सम्भवनाथने चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और वदी दोनों पक्षोंमें संचार करता है परन्तु भगवान् शुद्ध अर्थात् निर्दोष पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लक्ष्मीहीन हो जाता है परन्तु भगवान् मोक्षलक्ष्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलंकसहित है परन्तु भगवान् निष्कलंक—निष्पाप थे, चन्द्रमा सार्तक—राहु आदिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान् निरातंक—निर्भय और नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेघ आदिके आवरणरूप अनेक शत्रु हैं परन्तु भगवान् शत्रुरहित थे, चन्द्रमा-कुपक्ष—कृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान् कुपक्ष—मलिन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओंसे रहित दिखता है परन्तु भगवान् सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान् कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेज-रहित है परन्तु भगवान् महान् तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका धारक होता है परन्तु भगवान् सदा सद्बुत्त—



सदा त्रिभुवनसेव्यो भव्यपद्मात्रबोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो लोकालोके प्रकाशक ॥५३॥  
 विधु सोऽधो विधाधैवं विहरद् धमवृष्टये । पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा ॥५४॥  
 सम्प्रेतं पर्वतं प्राप्य त्यक्तमासविहारकः । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमागतः ॥५५॥  
 चैत्र मासि सिते पक्षे षष्ठ्यामर्केऽस्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीं समागमत् ॥५६॥  
 पञ्चमावगमेशं तं पञ्चमी गतिमास्थितम् । पञ्चमेऽभ्यर्च्य कल्याणे सञ्चितायै ययुः सुराः ॥५७॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अष्टौ शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतोत्थ क्रमा-  
 दष्टौ दुष्टतमानुपायनिपुणो निर्मथ्य कर्मद्विषः ।

अष्टाविष्टतमान् गुणानविकलात् कृत्वा तनुं शश्वती-  
 मष्टम्यामवनौ स्म सम्भवविभुः शुम्भत्सुखः शोभते ॥५८॥

### मालिनी

विपुलविमललक्ष्मीर्वाञ्छितानङ्गलक्ष्मीरिह भुवि विमलादिवाहिनो देहदीप्याः ।  
 हतरविरहमिन्द्रो रुन्द्रकल्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्भः सम्भवः श क्रियाद्दः ॥५९॥

इत्यापौ भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापूराणसदग्रहे सम्भवतीर्थकरपुराणं  
 परिसमाप्तमेकोनपञ्चाशत्तमं पर्व ॥४९॥

सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमें अपूर्ण रहता है परन्तु भगवान् सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण रहते थे, चन्द्रमाके निकट ध्रुवताराका उदय नहीं रहता परन्तु भगवान् सदा अभ्यर्णध्रुवोदय थे—उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात् स्थायी था, चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय है परन्तु भगवान् तीनों लोकोंके द्वारा सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान् सदा भव्य जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते थे अथवा भव्यजीवोंकी पद्मा अर्थात् लक्ष्मीको बढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल बाह्य अन्धकारको ही नष्ट करता है परन्तु भगवान्ने बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केवल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवान्ने लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाको तिरस्कृत कर धर्मकी वर्षा करनेके लिए भगवान्ने आर्य देशोंमें विहार क्रिया था सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी चेष्टा मेघके समान सब लोगोंको सुख देनेवाली होती है ॥५१-५४॥ अन्तमें जब आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल प्राप्त कर विहार वन्द कर दिया और एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥५५॥ तथा चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्मनक्षत्रमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥५६॥ जो पंचम ज्ञान—केवलज्ञानके स्वामी है और पंचमगति—मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवान् सम्भवनाथकी पंचमकल्याणक—निर्वाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय करनेवाले देव यथास्थान चले गये ॥५७॥ उपायोंके जाननेमें निपुण भगवान् सम्भवनाथने छठसे लेकर चौदहवें तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कर्मरूपी शत्रुओंका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्च आदि आठ गुणोंको अपना अचिन्तित शरीर बनाया और अष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हो सुभोगित होने लगे ॥५८॥ जिन्होंने अनन्त-चतुष्टयरूप विशाल तथा निर्मल लक्ष्मी प्राप्त की है, जिन्होंने शरीररहित मोक्षलक्ष्मीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे सूर्यको पराजित कर दिया है, जो पहले इस पृथिवीपर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर जिन्होंने पंचकल्याणक लक्ष्मीका आलिंगन प्राप्त किया ऐसे श्री सम्भवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करो ॥५९॥

इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यके द्वारा प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें सम्भवनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला उन्चासवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

१ लोकालोको प्रकाशयत् ल० । २ चैत्रमासि य० । ३ सचितये ४० । सचितपुण्याः । ४ संभवविधु ल० ।

## पञ्चाशत्तमं पर्व

अर्थे सत्ये वचः सत्यं सद्गुणवृत्ति सत्यताम् । यस्यासौ पातु वन्दारुन्नन्दयन्नभिनन्दनः ॥ १ ॥  
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । सीताया विषयो मागे व्यभासीमङ्गलावती ॥ २ ॥  
राजा महाबलस्तत्र नगरे रत्नसंचये । स्वामिसंपत्समेतोऽभूच्चतुर्वर्णाश्रमाश्रयः ॥ ३ ॥  
पाति तस्मिन् महीं वासीद् ध्वनिरन्याय इत्यथम् । प्रावर्तन्त प्रजाः स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनर्गलाः ॥ ४ ॥  
षाड्गुण्यं तत्र मैगुण्यमगाद्विगतद्विद्विषि । निर्गुणोऽपि गुणस्यागसत्यादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥  
निःसपतः श्रियः सोऽभूत्यतिस्तस्याः सरस्वती । कीर्तिवीरश्रियोऽभूच्च सपत्न्यः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥  
अन्यवाकश्रोत्रयो कीर्तिस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वक्षस्थहमित्यनुषङ्गमा ॥ ७ ॥  
कान्ताकल्पलतारम्यो निजकायामरद्भुमः । फलति स्म सुखं तस्य यद्यत्तेनाभिवान्छितम् ॥ ८ ॥  
रम्यरामासुखाम्भोजसेवालोलाक्षिषट्पदः । सुखेन सोऽनयद्दीर्घं कालं कालकलामिव ॥ ९ ॥  
कदाचिजातवैराग्यः कामभोगेऽप्यतर्पणात् । सूनवे धनपालाय दत्त्वा राज्यं महामनाः ॥ १० ॥  
आदात् संयममासाद्य गुरुं विमलवाहनम् । एकादशाङ्गधार्षेण भावितद्वयप्रकारणः ॥ ११ ॥  
तीर्थकृत्नाम संप्रापत् फलं कल्याणपञ्चकम् । येन तीर्थकरोऽयं स्यात् किं नाप्यन्ति मनस्विनः ॥ १२ ॥  
आयुषोऽन्ते स संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिमं । त्रयस्त्रिंशत्समुद्राथुरहमिन्द्रत्वमाययौ ॥ १३ ॥

पदार्थके सत्य होनेसे जिनके वचनोंकी सत्यता सिद्ध है और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी वन्दना करनेवाले लोगोंको आनन्दित करते हुए हम सबको रक्षा करें ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर एक मंगलावली नामका देश सुशोभित है ॥ २ ॥ उसके रत्नसंचय नगरमें महाबल नामका राजा था । वह बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णों और आश्रमोंका आश्रय था—रक्षा करनेवाला था ॥ ३ ॥ उसके पृथिवीकी रक्षा करते समय 'अन्याय' यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्गमें प्रवृत्ति करती थी ॥ ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विग्रह आदि छह गुणोंका समूह भी निर्गुणताको प्राप्त हो गया था और इस तरह निर्गुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणवान् था ॥ ५ ॥ वह राजा लक्ष्मीका निर्वाह पति था । यद्यपि सरस्वती कीर्ति और वीरलक्ष्मी लक्ष्मी सौते थी तो भी राजा सबपर प्रसन्नचित्त रहता था । उसकी कीर्ति अन्य मनुष्योंके वचनों तथा कानोंमें रहती है, सरस्वती उसके वचनोंमें रहती है, वीरलक्ष्मी वक्षस्थलपर रहती है और मैं सर्वांगमें रहती हूँ यह विचार कर ही लक्ष्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी ॥ ६-७ ॥ स्त्रीरूपी कल्पलतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह जिस-जिसकी इच्छा करता था वही-वही सुख प्रदान करता था ॥ ८ ॥ जिसके नेत्ररूपी भ्रमर सुन्दर स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंको सेवा करनेमें सदा सतृष्ण रहते हैं ऐसे उस राजा महाबलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया ॥ ९ ॥ किसी समय इच्छानुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोंमें सन्तुष्ट न होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम धारण कर वह ग्यारह अंगका पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तन किया ॥ १०-११ ॥ सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन करनेसे उसने पंचकल्याणकरूपी फलको देनेवाले तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया जिससे यह तीर्थकर होगा । सो ठीक है क्योंकि मनस्वी मनुष्य क्या नहीं प्राप्त करते ? ॥ १२ ॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वह विजय

१ प्रवर्तने ल० । २ अनिन्दाश्रोत्रयो ख० । ३ सुखे ल० । ४ कामभोगेऽवतर्पणात् क०, ख०, ग०, घ० । ५ अवात् ल० । ६ फलकल्याण-ल० ।

तत्रोक्तदेहलेश्याविद् गुण्योच्छ्वासादिसंयुतः । पञ्चशतसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥१४॥  
 ध्यायन् वैराग्यसंपत्त्या तत्रास्थाङ्गकितोऽहंतः । कृत्स्नकर्मक्षयं कर्तुं तस्मिन्नरागमिष्यति ॥१५॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः ॥१६॥  
 राजा स्वयंवरो नाम्ना सिद्धार्थाऽस्याग्रबल्लभा । षड्मासान् वसुधारादिपूजामाप्नुवती सती ॥१७॥  
 वैशाखस्य सिते पक्षे षष्ट्यां भे सप्तमे शुभे । स्वप्नेक्षानन्तरं वक्त्रं विशन्तं वीक्ष्य सा गजम् ॥१८॥  
 नृपात्स्वप्नफलेऽस्तुष्टा दिष्ट्यासूत तसुत्तमम् । भावे मास्यदितौ योगे धवलद्वादशीदिने ॥१९॥  
 तस्मिन्नावशिषेण प्रकम्पितनिजासनः । त्रैलोक्येशसमुद्भूतमिवबुद्ध्यावधे सुधीः ॥२०॥  
 तं तदावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिव्यमानवम् । देवावृती द्रुवद्रावी देवाद्रौ दिव्यविष्टरे ॥२१॥  
 बालाकंस्त्रिभ बालं जलैः क्षीरापगापतेः । स्नापयित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्यास्यामिनन्दनम् ॥२२॥  
 बहुबाहुः सहस्राक्षो बहुमावरसान्वितः । विचित्रकरणां रज्ज्वरैर्नमोङ्गणे ॥२३॥  
 उद्यतामिनयप्रायं भक्त्यानृत्यत्सताण्डवम् । गतो रागः परां कोटि धरोदात्तांश्रं नाटयन् ॥२४॥  
 निवृत्यागत्य साकेतं निष्कृष्य कृतकामकम् । पित्रोः पुरो विधायैर्न सुरेहाराभरं पदम् ॥२५॥  
 संभवस्यान्तरे जाते दशलक्षान्घिकोटिभिः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरावभासे विदां त्रिभिः ॥२६॥

नामके पहले अनुत्तरमें तैतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥१३॥ विजय विमानमें जो शरीरकी ऊँचाई, लेश्या, अवधिज्ञान, विक्रिया तथा श्वासोच्छ्वासादिका प्रमाण बतलाया है वह उन सबसे सहित था, पांचो इन्द्रियोंके सुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिसे उपलक्षित हो भक्तिपूर्वक अर्हन्त भगवान्का ध्यान करता हुआ वहाँ रहता था और आयुके अन्तमें समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिए इस पृथिवीतलपर अवतार लेगा ॥१४-१५॥ जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जन्मद्वीपके भरत क्षेत्रमें अयोध्या नगरीका स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यपगोत्री तथा आश्रयकारी वैभवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था । सिद्धार्थ उसकी पटरानीका नाम था । अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे सिद्धार्थाने रत्नवृष्टि आदि पूजाको प्राप्त किया और वैशाख मासके शुक्लपक्षकी पष्ठी तिथिके दिन सातवें शुभ नक्षत्र ( पुनर्वसु ) में सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥१६-१८॥ राजासे स्वप्नोका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुई और माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन अदिति योगमें उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१९॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानने अवधिज्ञानके द्वारा त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया ॥२०॥ इन्द्रने अपनी शचीदेवीद्वारा उस दिव्य मानवको प्राप्त किया और उसे लेकर देवोंसे आवृत्त हो शीघ्रतासे सुमेरु पर्वतपर पहुँचा । वहाँ दिव्य सिंहासनपर विराजमान कर बाल सूर्यके समान प्रभावले बालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहनाये और अभिनन्दन नाम रखा ॥२१-२२॥ उस समय जिसने विक्रियावश बहुत-सी भुजाएँ बना ली हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जो अनेक भाव तथा रसोंसे सहित हैं ऐसे इन्द्रने आश्रयकारी कारणोंसे प्रारम्भ किये हुए अंगहारोंद्वारा आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डव नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, साथ ही वह अन्य अनेक धरोदात्त नटोंको भी नृत्य करा रहा था ॥२३-२४॥ जन्माभिषेकसे वापस लौटकर इन्द्र अयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको रखकर स्वर्ग चला गया ॥२५॥ श्री सम्भवनाथ तीर्थकरके बाँद दस लाख करोड़ सागर वर्षका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे, उनको आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी वे मति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोसे सुशोभित

१ लेश्यादिगुणोच्छ्वासादि ख०, ग० । २ माघमास्य-ल० । ३ तदावाय क०, घ० । ४ स्नपयित्वा-इति भक्तितथ्यम् । ५ करणारम्भे क०, ख०, घ० । करणारम्भरज्ज्वरैः ग० । ६ नाटयते ख०, ग० । ७ निकृष्य ग० । ८ सुरेद्र इन्द्र, आर जगाम, आभरं देवसंबन्धि ।

पञ्चाशत्तमं पर्वः । १ बालेन्दुरिव सज्ज्योत्स्रः पुण्यौघो वा स्फुरद्गसः ॥२७॥  
 स श्रीवृद्धिं च संप्रापत् सर्वानाह्लादयन् गुणैः । चामीकरच्छविथलि कौमारे कामसारथौ ॥२८॥  
 पूर्वद्वादशलक्षेषु साद्धेषु प्राप्तवान् स तत् । राज्यं नियोज्य भुङ्क्ष्वेति पितयति तपोवनम् ॥२९॥  
 इन्द्रः कामयते कान्तिं दीप्तिमिच्छेत्पर्युषति । वाञ्छत्यैश्वर्यमस्येन्द्र शंभमाशासते स्पृहाः ॥३०॥  
 निजोत्कृष्टानुमानानामनन्तगुणवृद्धितः । तस्य पुण्याणवः सर्वे फलन्ति स्म प्रतिक्षणम् ॥३१॥  
 अभिभूयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरञ्जनात् । तारेक्षमंशुमन्तं च जित्वाराजत्स तेजसा ॥३२॥  
 नमिताखिलभूपालमौलिरित्यत्र का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतोऽयं चेदमरेन्द्रार्चितक्रमः ॥३३॥  
 नेया श्रीरागिणी वास्याभूद्रक्ता कोऽत्र विस्मयः । मोक्षलक्ष्म्या च जेदेष कटाक्षैर्गोचरीकृत ॥३४॥  
 शुद्धश्रद्धानमक्षय्यमयस्तीर्थकराह्वयः । आत्मसंपदितः कान्या जगत्त्रयजयैषिणः ॥३५॥  
 स धीरललितः पूर्व राज्ये धीरोद्धतो यमी । धीरः प्रशान्तः पर्यन्ते धीरोदात्तत्वमधिवात् ॥३६॥  
 अफलन् शक्त्यस्तिस्वः सिद्धिं धर्मानुबन्धिनीम् । ता एव शक्त्यो या हि लोकद्वयहितावहाः ॥३७॥  
 कीर्ती श्रुति स्तुतौ तस्य गीतिर्वर्णाक्षराङ्किता । प्रीतिर्दृष्टौ जनस्यासीत्स्त्वस्त्रिश्च गुणगोचरा ॥३८॥  
 गुणैः प्रागेव सम्पूर्णं स सर्वैराभिगामिकैः । न चेत्किं सेवितुं गर्भं निलिम्पाः कश्चिपतासनाः ॥३९॥

थे, पचास लाख पूर्व उनको आयु थी, साढ़े तीन सौ धनुष ऊंचा उनका शरीर था, वे बाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कर्म-  
 के समूहके समान जान पड़ते थे ॥२६-२७॥ गुणोंसे सबको आह्लादित-करते हुए वे शोभा-  
 अथवा लक्ष्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे । उनकी कान्ति सुवर्णके समान देदीप्यमान थी ।  
 कामदेव जिसका सारथि था ऐसी कुमार अवस्थाको जब साढ़े बारह लाख पूर्व बीत गये तब  
 'तुम राज्यका उपभोग करो' इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनको चले गये । उसी समय  
 इन्होंने राज्य प्राप्त किया ॥२८-२९॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाहता था, सूर्य  
 इनके तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएँ इनकी शान्ति  
 चाहती थीं ॥३०॥ अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य  
 परमाणु प्रत्येक समय फल देते रहते थे ॥३१॥ उन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सब  
 प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा और सूर्यको भी जीत लिया था इस तरह वे तेजसे  
 सुशीमित हो रहे थे ॥३१-३२॥ समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट-झुकाते थे इसमें उनकी  
 क्या स्तुति थी । क्योंकि ये जन्मसे ही ऐसे पुण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा  
 करता था ॥३३॥ जब मोक्षलक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलक्ष्मी  
 इनमें अनुराग करने लगी इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ॥३४॥ उनके कभी नष्ट नहीं होनेवाला  
 शुद्ध क्षायिक सन्धदर्शन था और तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृति थी । सो ठीक ही है क्योंकि  
 तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके इससे बढ़कर दूसरी कौन-सी  
 आत्मसम्पत्ति है ? ॥३५॥ वे भगवान् कुमार-अवस्थामें धीर ललित थे, राज्य अवस्थामें धीरो-  
 द्भूत थे, संयमी अवस्थामें धीर और प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें धीर और उदात्त  
 अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥३६॥ उनकी उसाह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोंने धर्मानु-  
 बन्धिनी सिद्धिको फलीभूत किया था सो ठीक ही है क्योंकि शक्तियाँ वही है जो कि दोनों  
 लोकोंमें हित करनेवाली है ॥३७॥ उनकी कीर्तिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अक्षरोंसे  
 अंकित अनेक गीत थे, मनुष्योंको वृष्टिमें उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुणोंके  
 विवेचनके समय होता था ॥३८॥ वे उत्पन्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे ।

१ चापग. ख० । चापस. ग० । २ तलेन्दुरिव घ० । ३ पुण्यौघो वा ससद्रस ग० । पुण्योदावाससद्रसः  
 ख० । पुण्यौघो वा स्फुरद्गवि. ल० । ४ कामता दधो क०, ख०, ग० । कामसा दधो घ० । ५-मीष्यत्यहर्षति.  
 क०, ख०, ग०, घ० । ६ स्वतेजसा क०, ख० । ७ रागिणी मास्या ग०, ख० । रागिणी सास्या ल० ।  
 ८ जयीक्षिण ग० । जगत्त्रयजयवैषिण. ल० । अत्र पाठे छन्दोभङ्ग । ९ धीरप्रशान्तः घ०, क० ।

पुष्कलं प्राग्भवायातं बोधित्रितयसुत्तमम् । तस्य प्रज्ञागुणाः केऽन्ये वर्णनीयाः मनीषिभिः ॥४०॥  
 न वाच्यः पृथगुत्साहो यद्ययं हन्तुमीहते । मोहशत्रुं सशोषावं खलं त्रैलोक्यकण्टकम् ॥४१॥  
 उद्गमैऽपि प्रतापोऽस्य माध्यन्दिनदिनाधिपम् । निःप्रतापं करोत्यद्य तमन्यः सहते तु कः ॥४२॥  
 लिलङ्घयिष्वोऽन्योन्यं वर्द्धन्तेऽस्याखिला गुणाः । समानं वर्द्धमानानां सर्पदां केन निषिध्यते ॥४३॥  
 एवं संसारसारोहविसरज्जोगमागित । प्रान्तबोधदिनाधीशप्रोद्गमोदयभूत्तः ॥४४॥  
 खचतुष्केन्द्रियत्वन्निमित्तपूर्वेषु निष्ठिते । राज्यकाले जगद्गर्तुरपपूर्वाङ्गशेषतः ॥४५॥  
 प्रादुर्भूतक्षणप्रान्तत्रिनश्यत्सौषविभ्रमे । गन्धर्वनगरे साक्षाद्याते संजातबोधिके ॥४६॥  
 अवश्यं भङ्गुरा भोगा भञ्जयन्त्यत्र, मां स्थितम् । न पातयति किं स्वस्थं भङ्गुरो विटपः स्फुटम् ॥४७॥  
 तनुर्मयेषिसतैः सर्वैः स्वीकृतापि त्यजेद्भुवम् । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स तनावभूत् ॥४८॥  
 सत्यायुषि मृत्तित्स्मिन्नसत्यत्रास्ति सापि न । विभेति चेन्मृतेस्तेन भेतव्यं पूर्वमायुषः ॥४९॥  
 गन्धवनगरेणैव संवादः सर्वसंपदाम् । विधाप्यभ्रविलायित्वविधेरपधियामपि ॥५०॥  
 इत्यपश्यत्तद्वैभानमान्चुरमरद्विजाः । सुरैः संग्राहनिष्कान्तिकल्याणः शमितेन्द्रियः ॥५१॥  
 हस्तचित्राख्ययानाधिखड्गोऽप्रोद्यानमागत । माघे सिते स्वर्गमर्क्षे द्वादश्यामपराह्णगः ॥५२॥  
 दीर्शां षष्टोपवासेन जैनी जग्राह राजभिः । सहस्रसंख्यैर्विख्यातेस्तदाज्ञानतुर्यकः ॥५३॥

यदि ऐसा न होता तो गर्भमें ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोंके आसन कम्पायमान क्यों होते ? ॥३९॥ उनकी उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रामें पूर्वभवसे साथ आया था तथा अन्य गुणोंकी क्या बात ? उनकी बुद्धिके गुण भी विद्वानोंके द्वारा वर्णनीय थे ॥४०॥ उनके उत्साह गुणका वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे तीनों लोकोंके कण्टक स्वरूप मोह शत्रुको अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ट करना ही चाहते थे ॥४१॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहरके सूर्यको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय इसे दूसरा सह ही कौन सकता था ? ॥४२॥ इनके गुण इस प्रकार बढ रहे थे मानो परस्परमें एक-दूसरेका चल्लंचन ही करना चाहते हों । सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़नेवालोंकी ईर्ष्याको कौन रोक सकता है ? ॥४३॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्ठतम विशाल भोगोंके समूहका उपभोग करनेवाले भगवान् अभिनन्दननाथ केवलज्ञान-रूपी सूर्यका उदय होनेके लिए उदयाचलके समान थे ॥४४॥ जब उनके राज्यकालके साढ़े लत्तीस लाख पूर्व वीत गये और आयुके आठ पूर्वांग शेष रहे तब वे एक दिन आकाशमें मेघोंकी शोभा देख रहे थे कि उन मेघोंमें प्रथम तो एक सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ी ही देरमें वह नष्ट हो गया । इस घटनासे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे अवश्य ही नष्ट कर देंगे । क्या दूटकर गिरनेवाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्यको नीचे नहीं गिरा देती ? ॥४५॥ यद्यपि मैंने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थोंसे परिपुष्ट किया है तो भी यह निश्चिंत है कि वेद्योंके समान यह मुझे छोड़ देगा । इस तरह विचार कर वे शरीरसे विरक्त हो गये ॥४६-४८॥ उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुके रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहनेपर मरण नहीं होता । इसलिए जो मरणसे डरते हैं उन्हें सबसे पहले आयुसे डरना चाहिए ॥४९॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धर्वनगरके ही समान है अर्थात् जिस प्रकार यह मेधोंका बना गन्धर्वनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएँ भी नष्ट हो जाती हैं यह बात विद्वानोंकी कौन कहे मुख् भी जानते है ॥५०॥ जिस समय भगवान् ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की । देवोंने भगवान्का निष्क्रमण-कल्याणक किया । तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान् हस्तचित्रा नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर अग्रउद्यानमें आये ।

१ जन्मकालेऽपि । २ निषेधते क०, ख०, घ० । सर्व किम् निषेधते (?) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० । ४ स्वर्गर्भनक्षत्रे ।

द्वितीयेऽहनि साकेतं ब्रुशुभ्रुः प्राविशन् नृपः । तं प्रतीक्ष्येन्द्रदत्तोऽञ्जं दत्त्वापाश्र्वर्यपञ्चकम् ॥५२॥  
 अथ मौनव्रतेनेते<sup>१</sup> छात्रस्थेऽष्टादशाब्दके । दीक्षावनेऽसनदमाजमूले पद्योपवासिनः ॥५३॥  
 सिते पौषे चतुर्दश्यां सायाह्ने भेऽस्य ससमे । केवलावगमो जज्ञे विश्वामरसमचितः ॥५६॥  
 त्रिलोकैकैगेणाधीशैर्वज्रनाभ्यादिनामभिः । खड्गयेन्द्रचपक्षीकैस्त्यक्ताङ्गैः पूर्वधारिभिः ॥५७॥  
 खाक्षखड्गवह्निदिप्रमालक्षितशिक्षकैः । खड्गपाटनवज्रैः प्राज्ञैस्त्रिज्ञानलोचनैः ॥५८॥  
 सत्रयत्वेकसंख्यानैः केवलज्ञानमानिभिः । शून्यत्रितयरन्ध्रैकमितवैक्रियिकर्द्धिभिः<sup>२</sup> ॥५९॥  
 शून्यपञ्चतुरोक्तमनःपर्यथबोधनैः । एकादशसहस्रोद्यद्वादिभिर्येन्द्रितक्रमः ॥६०॥  
 लक्षत्रितयसपिण्डताक्षेषयतिनायक । खड्गयतुखवह्णयत्रिसंख्याभिरभितो युतः ॥६१॥  
 मेरुषेणार्थिकाधार्मिकामिर्जागद्धीश्वरः । लक्षत्रयोद्वितीपासकोभ्यन्वितपदद्वयः ॥६२॥  
 लक्षपञ्चमप्रोक्तश्राविकालोके संस्तुतः । असंख्यदेवदेवीर्ब्रह्मस्तिर्यक्कसंख्यासंसेवितः ॥६३॥  
 इति द्वादशनिर्दिष्टशिष्टभग्यगणप्रणीः । धर्मवृष्टिं किरन् दूरं विहृत्यायीवनीतलम् ॥६४॥  
 यदृच्छथाप्य सम्मेदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्कालिकक्रियायुक्तो ध्यानद्वयमयोऽमलः ॥६५॥  
 मुनिभिर्वहुभिः प्राह्ण प्रतिमायोगवानगात् । भे सिते ससमे षट्श्यां वैशाखेऽस्य<sup>३</sup> परं पदम् ॥६६॥  
 तदा मक्तया नसाष्टाङ्गाः सुरेन्द्राः कृतपूजनाः । लुत्वा तमगमन्नाक त्रैलोक्येशं यथायथम् ॥६७॥

वहाँ उन्होंने माघ शुक्ल द्वादशीके दिन शामके समय अपने जन्म नक्षत्रका उदय रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१-५३ ॥ दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने साकेत ( अयोध्या ) नगरमें प्रवेश किया । वहाँ इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हें आहार दिया तथा पञ्चाश्र्वर्य प्राप्त किये ॥ ५४ ॥

तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके अठारह वर्ष मौनसे बीत जानेपर वे एक दिन दीक्षावनमें असन वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पौष शुक्ल चतुर्दशीके दिन शामके समय सातवे पुनर्वसु नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान हुआ, समस्त देवोंने उनकी पूजा की ॥ ५६ ॥ वज्रनाभि आदि एक सौ. तीन गणधर, शरीरसे समत्व छोड़ेवाले दो हजार पाँच सौ पूर्वधारी, दो लाख तीस हजार पचास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिज्ञानी, सोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड वादी उनके चरणोंकी तिरन्तर वन्दना करते थे ॥ ५७-६० ॥ इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे, मेरुषेणा आदि तीन लाख तीस हजार छह सौ आर्थिकाओंसे सहित थे, तीन लाख श्रावक उनके चरण-युगलकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा वे स्तुत्य थे, और संख्यात निर्यक उनकी सेवा करते थे ॥ ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवोंकी बारह सभाओंके नायक भगवान् अभिनन्दननाथने धर्मवृष्टि करते हुए इस आर्य-खण्डकी वसुधापर दूर-दूर तक विहार किया ॥ ६४ ॥ इच्छाके विना ही विहार करते हुए वे सम्मेद गिरिपर जा पहुँचे । वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वानसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे, उस समय वे ध्यान कालमें होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया-प्रतिपात्ती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक दो ध्यानान्से सहित थे, अत्यन्त निर्मल थे, और प्रतिमायोगको धारण किये हुए थे । वहीसे उन्होंने वैशाख शुक्ल षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय पुनर्वसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोंके साथ परमपद—मोक्ष प्राप्त किया ॥ ६५-६६ ॥ उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अंग शुक रहे है ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिलोकीनाथकी पूजा की, स्तुति की और तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६७ ॥

१ मौनव्रतेन इते गते । २ वैक्रियिकर्द्धिभिः क०, ख०, ग०, घ० । वैक्रियिकर्पिभिः ल० । ३ संयुतः ल० । ४ देवदेवीभिः क०, घ० । ५ वैशाखेऽयात् परं पदम् ल० ।

## शार्दूलचिक्रीडितम्

येनाप्तानिमिषेश्वरैरयमयी श्रीः पञ्चकल्याणजा

यस्थानन्तचतुष्टयोऽञ्ज्वलतरा श्रीरक्षया क्षायिकी ।

यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रियालङ्कितः

स त्रिश्वीरभिनन्दनो निजपतिर्जीयाद्वनस्तोदयः ॥ ६८ ॥

## वसन्ततिलका

यो रत्नसंचयपुरेशमहाबलाख्यो

योऽनुत्तरेषु विजयी विजयेऽहमिन्द्रः ।

यश्चाभिनन्दनमृषो वृषभेशवंशे

साकेतपत्तनपतिः स जिनोऽवताहः ॥ ६९ ॥

## हरिणीच्छन्दः

उभयभेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन्

स्वभवविभवस्रष्ट्यै भक्त्या सुभूमिरभिष्टुतः ।

त्रिभुवनविभुभूयो मन्वा भवाद्ववतां भवद्

भयमभिमवन् भूयै भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्तमभिनन्दन-  
स्वामिन पञ्चाशत्तमं पर्व ॥५०॥

■

जिन्होंने इन्द्रोंके द्वारा पंच कल्याणकोंमें उत्पन्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म क्षयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरंग लक्ष्मी प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भा निर्मल गुणोंके धारक रहे, मोक्षलक्ष्मीने जिनका आलिंगन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियोंसे युक्त रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥ ६८ ॥ जो पहले रत्नसंचय नगरके राजा महाबल हुए, तदनन्तर विजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषभनाथ तीर्थकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर समस्त पदार्थोंका विचार किया है, अपने भवकी विभूतिको नष्ट करनेके लिए देवोंने भक्तिसे जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, निर्भय है और संसारके प्राणियोंका भय दूर करनेवाले हैं ऐसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवो ! तुम सबको विभूतिको करनेवाले हो ॥ ७० ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला पचासवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

■

## एकपञ्चाशत्तमं पर्व

लक्ष्मीरनन्तरी तेषां येषां तस्य मते मति । देयादादेयवाक् सज्जिः सोऽस्मभ्यं सुमतिर्मतिम् ॥ १ ॥  
 अखण्डे धातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूर्वगे । विदेहे नद्युदककूले सुराङ्गं पुष्कलावती ॥ २ ॥  
 पुरेऽस्मिन् पुण्डरीकिण्यां रतिषेणो महीपतिः । प्राग्जन्मोपाजितो दीर्घपुण्यपण्यात्मसात्कृतम् ॥ ३ ॥  
 राज्यं विनिर्जितारातिनिःक्रोपं नित्यवृद्धिकम् । स्वामिसम्पत्समेतः सश्रीत्या निर्व्यसनोऽन्वभूत् ॥ ४ ॥  
 या स्वस्वैवास्थ सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदैकस्यापि दण्डेषु वर्तन्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥  
 रक्षस्य मनसा वृषिः कामः करणगोचरे । स्वेष्टाशोपार्थसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुर्लभः ॥ ६ ॥  
 अर्थं चतुष्टयी वृत्तिरजनादि यथागमम् । देवोऽर्हनर्थधर्मौ च तदनीषद्भौ भवौ ॥ ७ ॥  
 गच्छत्येवं चिरं काले हेलया पालितक्षितेः । परस्परानुकूल्येन वर्गात्रितयवर्द्धिनः ॥ ८ ॥  
 जन्तोः किं कुशलं कस्मात्सुखमेवोऽधितिष्ठति । पर्यायावर्तदुर्जन्मदुर्मुच्यूरगदूरगः ॥ ९ ॥  
 न ताद्यर्थकामाभ्यां सुखं संसारवद्धनात् । नासुभ्मादपि मे धर्माद्यत्सात्सावयसम्भवः ॥ १० ॥

अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति-  
 पादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । इसके  
 सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषोंके द्वारा ग्राह्य हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान् हम सबके लिए  
 सदबुद्धि प्रदान करें ॥११॥ अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूर्व मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर स्थित विदेह  
 क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है ॥१२॥ उसकी पुण्डरीकिणी  
 नगरीमें रतिषेण नामका राजा था । वह राजा राज-सम्पदाओंसे सहित था, उसे किसी प्रकारका  
 व्यसन नहीं था और पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-  
 पूर्वक उपभोग करता था । उसका वह राज्य शत्रुओंसे रहित था, क्रोधके कारणोंसे रहित था और  
 निरन्तर बुद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥३-४॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसकी  
 थी वैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पायी जाती थी । आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड  
 इन चारों विद्याओंमें चौथी दण्डविद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा  
 प्राणदण्ड आदि अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी ॥५॥ इन्द्रियोंके  
 विषयमें अनुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक वृत्ति होती है उसे काम कहते हैं । वह काम,  
 अपने इष्ट समस्त पदार्थोंकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुर्लभ नहीं था ॥६॥ वह  
 राजा अर्जन, रक्षण, वर्धन और व्यय इन चारों उपायोंसे धन संचय करता था और आगमके  
 अनुसार अर्हन्त भगवान्को ही देव मानता था । इस प्रकार अर्थ और धर्मको वह कामकी अपेक्षा  
 सुलभ नहीं मानता था अर्थात् कामकी अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थका अधिक सेवन करता  
 था ॥७॥ इस प्रकार लीलापूर्वक पृथिवीका पालन करनेवाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अर्थ,  
 काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब  
 एक दिन उसके हृदयमें निम्नाङ्कित विचार उत्पन्न हुआ ॥८॥ वह विचार करने लगा कि इस संसारमें  
 जीवका कल्याण करनेवाला क्या है ? और पर्यायरूपी भवरोमें रहनेवाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण  
 रूपी सर्पोसे दूर रहकर यह जीव सुखको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? अर्थ और कामसे  
 तो सुख ही नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही वृद्धि होती है । रहा धर्म, जो जिस धर्ममें  
 पापकी संभावना है उस धर्मसे भी सुख नहीं हो सकता । हाँ, पापरहित एक सुनिश्चय है उसीसे

१ मय्य क०, ख०, ग०, घ०, १२ मतिर्मतम् क०, ग० । ३ वाक्सिद्धिः ग० । ४ निर्व्यसनत्वभूत् ल० ।  
 ५ या स्वस्वैवा च सा विद्या ग० ।



निःसावद्योऽस्ति धर्मोऽन्यस्ततः सुखमनुत्तमम् । इत्युदर्को वितर्कोऽस्य विरक्तस्याभवत्तत् ॥११॥  
 राज्यस्य दुर्भारं भारं निवेद्यातिरथे तुजि । सुमरं तपसो भारं बभार स भवान्तकृत् ॥१२॥  
 जिनाहंन्नन्दनाभ्यामे विदितैकादशाङ्गकः । उदासीनः स्वदेहेऽपि मोहारातिजयेच्छया ॥१३॥  
 यतोऽमोघार्थसंमिद्विस्तच्चरन्ति सुमेधसः । श्रद्धान्विनयाद्युक्तकारणोपात्ततीर्थकृत् ॥१४॥  
 प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्वायुर्लुकृष्टमहमिन्द्रताम् । वैजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारिशारीरकः ॥१५॥  
 मासैः षोडशभिः पञ्चदशमिश्र दिनैः श्वसन् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दैरन्धो मानसमाहरत् ॥१६॥  
 शुक्ललेङ्ग्य स्वतेजोऽवधीतविष्टपनारिकः । तच्छेत्रविक्रियर्द्धांशस्तद्दुद्धारिवलान्वितः ॥१७॥  
 आहमिन्द्र सुखं मुख्यमङ्गिनामाजवञ्जवे । निर्द्वन्द्व नि प्रवीचारं चिरं नीरागमागमत् ॥१८॥  
 आयुरन्ते समाधानात्तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षं साकेते वृषभान्वये ॥१९॥  
 तद्गोत्रे क्षत्रियोऽस्तारिः श्लाघ्यो मेघरथोऽभवत् । मङ्गलाऽस्य महादेवी वसुधारादिपूजिता ॥२०॥  
 मघार्थां श्रावणे मासि दृष्ट्वा स्वप्नान् गजादिकान् । आस्थं सितद्वितीयायामैक्षिप्यागामुकं द्विपम् ॥२१॥  
 तत्फलान्यवबुध्यारमपतेः सम्प्राप्य सम्मदम् । नवमे मासि चैत्रस्य सज्ज्योत्सैकादशीदिने ॥२२॥  
 त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं पितृयोगे सतां पतिम् । जगत्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमलब्ध सा ॥२३॥  
 देवेन्द्रास्तं सदा नोत्वा मेरौ जन्मसवोत्सवम् । कृत्वा सुमतिसच्चां च पुनस्तद्गोहमानयन् ॥२४॥

इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार विरक्त राजाके हृदयमें उत्तम फल देने-  
 वाला विचार उत्पन्न हुआ ॥६-११॥ तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा रतिषेणने राज्यका  
 भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सौंपकर तपका हलका भार धारण कर लिया ॥१२॥  
 उसने अहंन्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया और मोह-  
 शत्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी ॥१३॥ उसने दर्शनविशुद्धि, विनय-  
 सम्पन्नता आदि कारणोंसे तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट  
 पदार्थकी सिद्धि होती है बुद्धिमान् पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं ॥१४॥ उसने अन्त समयमें  
 संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया।  
 वहाँ उसका एक हाथ ऊँचा शरीर था। वह सोलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक बार श्वास लेता  
 था, तैतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, शुक्लेश्याका धारक था, अपने  
 तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता  
 था, और लोकनाडी उखाड़कर फेंकनेकी शक्ति रखता था ॥१५-१७॥ इस संसारमें अहमिन्द्रका  
 सुख ही मुख्य सुख है, वही निर्द्वन्द्व है, प्रवीचारसे रहित है और रागसे शून्य है। अहमिन्द्रका  
 सुख राजा रतिषेणके जीवको प्राप्त हुआ था ॥१८॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर जब वह  
 अहमिन्द्र यहाँ अवतार लेनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें  
 मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। वह भगवान् वृषभदेवके वंश तथा गोत्रमें उत्पन्न हुआ  
 था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मङ्गला उसकी पट्टरानी थी  
 जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोक्ते सम्मानको प्राप्त थी ॥१९-२०॥ उसने श्रावणशुक्ल द्वितीयाके दिन  
 मघा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा।  
 उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया ॥२१॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी  
 बहुत ही हर्षित हुई। तदनन्तर नौवें चैत्र माहके शुक्लपक्षकी एकादशीके दिन पितृ योग  
 अर्थात् मघा नक्षत्रमें उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ और त्रिभुवनके भर्ता उस अह-  
 मिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया ॥२२-२३॥ सदाकी भोति इन्द्र लोग जिन-वालकको सुमेरु पर्वत-

१-मनुत्तरम् क०, घ० । २ पुत्रे । 'तुक् तोकं चात्मजं प्रजां' इति कोशः । ३ सुचिरम् ख०, ग० ।  
 ४ वैजयन्ते तु ल० । ५ भोजनम् । ६ जन्मोत्सवोत्सवम् क०, घ० । जन्ममहोत्सवम् ल० ।

-नवलक्षान्धिकोटीपु प्रयातेऽनन्तरंऽन्तरं<sup>१</sup> । तदभ्यन्तरवर्त्यायुखदपाद्युदितोदयः<sup>२</sup> ॥२५॥  
 शून्यषड्वारिपूर्वायुः शरान्नितगतोद्धृतिः<sup>३</sup> । सन्तपतवपनीयामः स्वभावसुभगाकृतिः ॥२६॥  
 शैशवोचितसर्वायै देवानीतैः लदैधितुः<sup>४</sup> । अंशो वा शिशोरिन्दोव्यक्त्यास्वाच्यवा वसुः ॥२७॥  
 तनवः कुञ्जिताः सिन्धवाः मूर्धजाजाम्रवस्त्रिषः । मुखपङ्कजमाशङ्क्य मिलिता वास्य षट्पदा ॥२८॥  
 मया त्रैलोक्यराज्यस्य स्तनपान्ते सुरोत्तमैः । पद्मोऽलम्भीति<sup>५</sup> वास्याधाङ्गलाटतटमुन्नतितुम् ॥२९॥  
 कर्णौ लक्षणसम्पूर्णौ नास्य त्रिज्ञानधारिणः । पञ्चवर्षोर्ध्वंशिष्यत्वपरिभूतिं प्रतेनतुः ॥३०॥  
 सुभ्रुवो न भ्रुवोर्वीच्यो विश्रमोऽस्य पृथग्वदाम् । भ्रूक्षेपमात्रदत्तार्थसार्थसन्तर्पितार्थिनः ॥३१॥  
 नेत्रे विलासिनी स्निग्धे त्रिवर्णे तस्य रेजतुः । इष्टाखिलार्थसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥३२॥  
 मया विनाऽऽस्यशोभां स्याज्ज्येस्यौ नाभिका स्मयम् । उन्नता दधतीवामाह्वन्नाब्जामोदपायिनी ॥३३॥  
 लक्ष्म्यौ कपोलयोर्लक्ष्म्या वक्षःस्थलसमाश्रितेः । उत्तमाङ्गाश्रयाद् द्वित्वान् जित्वर्यौ वास्य रेजतुः ॥३४॥  
 जित्वास्थ कुन्दसौन्दर्यं द्विजराजिर्वराजत । वक्त्राब्जवाससन्तुष्टा सहासैव सरस्वती ॥३५॥  
 नाधरस्याधराख्यां स्यात्ससमास्वादाशालिनः । अधरीकृतविश्रामराधरस्याद्रिशोभिनः ॥३६॥  
 नालप्यते लपस्यास्य शोभा वागवल्लभोऽञ्जला । यदि दिव्यो ध्वनिर्विश्रवाचकोऽस्माद्विमिःस्तुताः ॥३७॥

पर ले गये, वहाँ उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रखा और फिर घर वापिस ले आये ॥२४॥ अभिनन्दन रवामीके वाद नौ लाख करोड़ सागर बीत जानेपर उत्कृष्ट पुण्यको धारण करनेवाले भगवान् सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी समयमें शामिल थी ॥२५॥ इनकी आयु चालीस लाख पूर्वकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीन सौ धनुष थी, तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति थी, और आकार स्वभावसे ही सुन्दर था ॥२६॥ वे देवोंके द्वारा लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होते थे । उनके शरीरके अवयव ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाकी किरणें ही हों ॥२७॥ उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जायुनके समान कानितवाले शिरके केश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखमें कमलकी आंशुका फर भौर ही इकट्ठे हुए हों ॥२८॥ मैंने देवोंके द्वारा अभिषेकके वाद तीन लोकके राज्य का पट्ट प्राप्त किया है । यह सोचकर ही मानो उनका ललाटतक ऊँचाईको प्राप्त हुआ था ॥२९॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान्के कान सब लक्षणोंसे युक्त थे और पाँच वर्षके वाद भी उन्होंने किसीके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था ॥३०॥ उनकी भौहें बड़ी ही सुन्दर थीं, भौहोंके संकेत मात्रसे दिये हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंको सन्तुष्ट कर दिया था अतः उनकी भौहोंकी शोभा बड़े-बड़े विद्वानोंके द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी ॥३१॥ समस्त इष्ट पदार्थोंके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले अपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र विलास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, शुक्त कृष्ण और लाल इस प्रकार तीन वर्णके थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे ॥३२॥ मुख-कमलकी सुगन्धिका पान करनेवाली उनकी नाक, 'मेरे बिना मुखकी शोभा नहीं हो सकती' इस बातका अहंकार धारण करती हुई ही मानो ऊँची उठ रही थी ॥३३॥ उनके दोनों कपोलोंकी लक्ष्मी उत्तमाङ्ग अर्थात् मस्तकका आश्रय होने तथा संख्या में दो होनेके कारण वक्षःस्थलपर रहनेवाली लक्ष्मीको जीतती हुई-सी शोभित हो रही थी ॥३४॥ उनके दोनों पंक्ति कुन्द पुष्पके सौन्दर्यको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मुख कमलमें निवास करनेसे सन्तुष्ट हो हँसती हुई सरस्वती ही हो ॥३५॥ जिन्होंने समस्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वतकी शोभा बढायी है और छह रसोंके सिवाय सप्तम अलौकिक रसके आस्वादासे सुशोभित है ऐसे उनके अधरों ( ओठों ) की अधर ( तुच्छ ) संज्ञा नहीं थी ॥३६॥ जिससे समस्त पदार्थोंका उल्लेख करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई है ऐसे उनके मुखकी शोभा तो कही ही नहीं जा सकती । उनके मुखकी शोभा बचनोंसे प्रिय तथा

१ प्रयातेऽनन्तरान्तरं ग०, क० । २ द्युतितोदित क०, ख०, ग० । द्युतितोदितम् घ० । ३ विश्रमोद्धृत-क०, घ० । ४ सदैव च ग० । ५ वास्यागारङ्गलाट-ख०, ग० । ६ आस्याशोभा-मुखशोभा । ७-माश्रित ल० । ८-धराख्यस्य क०, ख०, ग०, घ० ।

१ हावो वक्राम्बुजस्यास्य कि पुनर्वर्ष्यतेतराम् । यदि लोलाकृतां जग्मुर्विलिप्येशाः सबलमाः ॥३८॥  
 कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्याद्यदि त्रैलोक्यकण्ठिका । बद्धामरेशैः स्याद्वादकुण्ठिताखिलवादिनः ॥३९॥  
 तद्वाहुशिरसे मन्ये शिरसोऽप्यतिलङ्घिनी । वक्षःस्थलनिवासिन्या लक्ष्म्याः क्रीडाचलायते ॥४०॥  
 धरालक्ष्मी समाहर्तुं वीरलक्ष्मीप्रसारितौ । भ्राजते जयिनस्तस्य भुजावाजानुलङ्घिनौ ॥४१॥  
 पृथक् पृथक्त्वं नाख्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्युदयलक्ष्म्यां चेतदेवावसतः समम् ॥४२॥  
 क्लृप्तमप्यक्लृप्तं मध्यं लक्ष्मीद्वयसमाश्रितम् । ऊर्ध्वदेहं महामार वहदेतस्य हेलया ॥४३॥  
 नाभिः प्रदक्षिणावर्ता गर्भनीरेति न कथ्यते । सा चेन्न तादृशी तस्मिन्न स्यादेवं सुलक्षणा ॥४४॥  
 रूपशोभां विना नेमः ५ स्वाश्रयादिति वाणवः । सन्तः सर्वेऽपि तत्रासन् रम्यस्वन्न कटीतटः ॥४५॥  
 रम्भास्तम्भादयोऽन्येषामूर्ध्वोर्न्यन्तूपमानताम् । उपमेयास्तदूर्ध्व्यां ते वृत्तत्वादिभिर्गुणैः ॥४६॥  
 कुतो जानुक्रियेत्येतद् वेदि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिन्नूरुलक्षणां शोभास्पद्धानि वृत्तये ॥४७॥  
 वज्रेण घटिते जह्ने वेधसाऽस्यान्यथा कथम् । जगत्त्रयगुरोर्भारं विभ्राते ते तनोस्तनु ॥४८॥  
 धरेयं सर्वभावेन लग्नाऽस्मत्तलयोरिति । तत्कर्मौ प्रमदनेन कर्मपृष्ठौ ह्यमच्छवी ॥४९॥  
 इयन्तोऽस्मिन् भविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवर्हणाः । इत्याख्यातुमिवाभामन्ति विधिनाहुलयः कृताः ॥५०॥

उल्लव्वल थी अथवा वचनरूपी चल्लमा—सरस्वतीसे देदीप्यमान थी ॥३७॥ जबकि अपनी-अपनी  
 वल्लमाओंसे सहित देवेन्द्र भी उसपर सतृष्ण भ्रमर-जैसी अवस्थाको प्राप्त हो गये थे तब उनके  
 मुख-कमलके हावका क्या वर्णन किया जावे ? ॥३८॥ जिन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त  
 वादियोंको कुण्ठित कर दिया है ऐसे भगवान् सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंने तीन लोकके  
 अधिपतित्वकी कण्ठी बाँध रखी थी तब उसकी क्या प्रशंसा की जावे ? ॥३९॥ शिरसे भी  
 ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओंके शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्षःस्थलपर रहनेवालों लक्ष्मी-  
 के क्रीडा-पर्वत ही हों ॥४०॥ घुटनोंतक लटकनेवाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशो-  
 भित हो रही थी मानो पृथिवीकी लक्ष्मीको हरण करनेके लिए वीरलक्ष्मीने ही अपनी भुजाएँ  
 फैलायी हों ॥४१॥ उनके वक्षःस्थलकी शोभाका पृथक्-पृथक् वर्णन कैसे किया जा सकता है  
 जबकि उसपर मोक्षलक्ष्मी और अभ्युदयलक्ष्मी साथ-ही-साथ निवास करती थी ॥४२॥ उनका  
 मध्यभाग क्लृप्त होनेपर भी क्लृप्त नहीं था क्योंकि वह मोक्षलक्ष्मी और अभ्युदयलक्ष्मीसे युक्त  
 उनके भारो शरीरको लीलापूर्वक धारण कर रहा था ॥४३॥ उनकी आवर्तके समान गोलनाभि  
 थी यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी  
 ही नहीं जान पड़ती ॥४४॥ समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया—हम किसी अच्छे आश्रय-  
 के बिना रूप तथा शोभाको प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु  
 उनकी कमरपर आकर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुन्दर हो गयी  
 थी ॥४५॥ केडेके स्तम्भ आदि पदार्थ अन्य मनुष्योंकी जाँघोंकी उभयानताको भले ही प्राप्त हो  
 जावे परन्तु भगवान् सुमतिनाथके जाँघोंके सामने वे गोलाई आदि गुणोंसे उपमेय बने रहते  
 थे ॥४६॥ विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ अन्य लोग  
 नहीं जानते और वह बात यह है कि इनकी ऊरुओं तथा जाँघाओंमें शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो  
 इस विचारसे ही बीचमें घुटने बनाये थे ॥४७॥ विधाताने उनकी जाँघाएँ वज्रसे बनायी थीं, यदि  
 ऐसा न होता तो वे क्लृप्त होनेपर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके  
 भारको कैसे धारण करती ॥४८॥ यह पृथिवी सम्पूर्ण रूपसे हमारे तलवारोंके नीचे आकर लग गयी  
 है यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हर्षसे कलुषेकी पीठके समान शुभ कान्तिके धारक हो गये  
 थे ॥४९॥ इन भगवान् सुमतिनाथमें कर्मोंको नष्ट करनेवाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए

१ मुखस्य । अय इलोक. ४० पुस्तके नास्ति । २ वीरलक्ष्म्या ख०, ग० । ३ नेम. ग० । रूपशोभा-  
 वितानेन ख० । ४ सुपुण्ड आश्रयः स्वाश्रय. तस्मात् । ५ निषिद्धये ल० ।

विधाय दशधाऽऽत्मानं विभुरङ्गी निषेवते । कान्तिमाभ्यां परं प्राप्तुमित्याशङ्कावहा नखाः ॥ ५१ ॥  
 एवं सर्वाङ्गोभास्य लक्षणैर्व्यञ्जितैः शुभा । स्वीकरिष्यति सुकथङ्गतां वेत्थन्न न संशयः ॥ ५२ ॥  
 कौमारमिति रूपेण सन्धत्ते रामणीयकम् । अनासयौवनस्यास्य तद्विनापि मनोभवात् ॥ ५३ ॥  
 ततो यौवनमालम्ब्य कामोऽप्यस्मिन् कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्ठन्ति के स्वयम् ॥ ५४ ॥  
 कुमारकाले पूर्वाणां दशलक्षेषु निष्ठिते । भुञ्जन् स्वर्लोकसाम्राज्यं नृराज्यं चाप स क्रमात् ॥ ५५ ॥  
 न हिंसा न शृषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वप्नेऽपि तद्गतानन्दः शुक्लेश्वरस्य केन सः ॥ ५६ ॥  
 तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तत्सलङ्केनो न तद्गतः ॥ ५७ ॥  
 गुणानां वृद्धिमातन्वन् सञ्चयं पुण्यकर्मणाम् । विपाकं विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मक ॥ ५८ ॥  
 सेन्यमान. सदा रक्तैः सुरखेचरभूचरैः । निराकृतैर्हिकारम्मः संभृतः सर्वसंपदाम् ॥ ५९ ॥  
 निश्चितं कामभोगेषु नित्यं नृसुरमाविषुं । न्याय्यार्थपथ्यधर्मेषु शर्मसारं समाप सः ॥ ६० ॥  
 कान्ताभिः कमनीयाभिः सवयोभिः समीप्सुभिः । दिव्याङ्गरागस्तवस्त्रभूषामो रमते स्म सः ॥ ६१ ॥  
 दिव्यश्रीमर्नुषी च श्रीः समप्रेमप्रतोषिते । सुखं विदधतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥  
 सुखं नाम तदेवात्र यदस्थेन्द्रियगोचरम् । स्वर्चन्धसारभोग्यं चैसुरेशास्यैव रक्षितम् ॥ ६३ ॥  
 एवं सङ्गमयन् काल दिव्यराज्यप्रियोर्ह्ये । न्यरंसीत् संसृतेः सा हि प्रत्यासक्तविनेयता ॥ ६४ ॥

ही मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियों बनायी थी ॥५०॥ उनके चरणोंके नख ऐसी शङ्का उत्पन्न करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी सेवा करता था ॥५१॥ इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्जनोंसे सुशोभित उनके सर्व शरीरकी शोभा मुक्तिरूपी लीको स्वीकृत करेगी इसमें कुछ भी संशय नहीं था ॥५२॥ इस प्रकार भगवान्की कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था तो भी वे कामदेवके बिना ही अधिक सुन्दर थे ॥५३॥ तदनन्तर यौवन प्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष है जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते ॥५४॥

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व वीत चुके तब उन्हें स्वर्गलोकके साम्राज्यका तिररकार करनेवाला मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥५५॥ शुक्लेश्वर-को धारण करनेवाले भगवान् सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोलते थे और न चोरी तथा परिग्रह-सम्बन्धी आनन्द उन्हें स्वप्नमें भी कभी प्राप्त होता था । भावार्थ—वे हिंसानन्द, मृपानन्द, स्तेयानन्द और परिग्रहानन्द इन चारों रौद्रध्यानसे रहित थे-॥५६॥ उन्हें न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते थे । इस प्रकार वे चारों आर्तध्यानसम्बन्धी संक्षोभसे रहित थे ॥५७॥ गुण, पुण्य और सुखोंको धारण करनेवाले भगवान् अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मोंके विपाकका अनुभव करते थे ॥५८॥ अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर और भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा क्रिया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त आरम्भ दूर कर दिये थे, और वे सर्व सम्पदाओंसे परिपूर्ण थे ॥५९॥ वे मनुष्य तथा देवोंमें होनेवाले काम-भोगोंमें, न्यायपूर्ण अर्थमें तथा हितकारी धर्ममें श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥६०॥ वे दिव्य अङ्गराग, माला, वस्त्र और आभूषणोंसे सुशोभित सुन्दर समान अक्षयवाली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई रित्रयोंके साथ रमण करते थे ॥६१॥ समान प्रेमसे सन्तोषित दिव्य लक्ष्मी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुँचाती थी सो ठीक ही है क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता ? ॥६२॥ संसारमें सुख वही था जो इनके इन्द्रिय-गोचर था, क्योंकि स्वर्गमें भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्हींके लिए सुरक्षित रखता था ॥६३॥

सुधी कथं मुखांशेषु विषयाभिषगृद्धिमान् । न पापबद्धिं पश्येन्न चेदनिर्मिषायते ॥ ६५ ॥  
 मूढः प्राणी परां प्रौढिमप्राप्तोऽस्वहिताहितः<sup>३</sup> । अहितेनाहितोऽहं च कथं बोधत्रयाहितः ॥ ६६ ॥  
 निरङ्कुशं न वैराग्यं यादृक्ज्ञानं च तादृशम् । कुतः स्यादात्मनः स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम् ॥ ६७ ॥  
 खपञ्चकनवद्भुक्तैः पूर्वं राज्येऽवसाधिते । सह द्वादशपूर्वाङ्गैः स्वस्मिन्नेवेत्यन्वितयत् ॥ ६८ ॥  
 स्तुतस्तदैव संस्तोत्रैः सर्वैः सारस्वतादिभिः । अभिषेकं सुरैराप्य देवोदाभयानकः ॥ ६९ ॥  
 दीक्षां षष्ठापवासेन सहेतुकवनेऽगृहीत् । सिते राज्ञां सहस्रेण सुमतिर्नवमीदिने ॥ ७० ॥  
 मघाक्षाशिनि वैशाखे पूर्वाह्णे संयमाश्रयम् । तदैवाचिरभूदस्य मनःपर्ययसञ्चकम् ॥ ७१ ॥  
 पुरं सौमनस नाम भिक्षायै पश्चिमे दिने । प्राप्तं प्रतोक्ष्य पञ्चोऽगात्पूजां शुभनद्युतिर्नृपः ॥ ७२ ॥  
 सामायिकं समादाय सौमनः शान्तकल्मषः । तपस्तेपे समाधानात्सहिष्णुर्दुस्सहं परै ॥ ७३ ॥  
 विंशतिं वत्सराक्षीत्वा छद्मस्थः प्राक्तने वने । प्रियङ्गुभूरुहोऽघस्तादुपवासद्वयं श्रितः ॥ ७४ ॥  
 मघायां चैत्रमासस्य धवलैकादशीदिने । पश्चिमाभिमुखे भानौ कैवल्यमुदपादयत् ॥ ७५ ॥  
 सुरैः सप्राप्ततपसूजो गणेशैश्चामरादिभिः । स सप्तद्विभिरभ्यर्च्य सषोडशशतोन्मुखैः ॥ ७६ ॥  
 शू-यद्वयचतुःपक्षमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चत्रिचतुःपञ्चपक्षौ<sup>४</sup> शिक्षकैर्युतैः ॥ ७७ ॥

इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्यलक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान् सुमति-  
 नाथ संसारसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यपना इसीको कहते है ॥६४॥  
 भगवान्ने विचार किया कि अल्प सुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् मानव, इस विषयरूपी  
 मांसमें क्यों लम्पट हो रहे है । यदि ये संसारके प्राणी मछलीके समान आचरण न कर तो  
 इन्हें पापरूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥६५॥ जो परम चातुर्यको प्राप्त नहीं है ऐसा मूर्ख  
 प्राणी भले ही अहितकारी कार्योंमें लीन रहे परन्तु मै तो तीन ज्ञानोंसे सहित हूँ फिर भी अहित-  
 कारी कार्योंमें कैसे लीन हो गया ? ॥६६॥ जबतक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यथेष्ट सम्य-  
 ग्ज्ञान नहीं होता तबतक आत्माकी स्वरूपमें स्थिरता कैसे हो सकती है ? और जिसके स्वस्व-  
 रूपमें स्थिरता नहीं है उसके सुख कैसे हो सकता है ? ॥६७॥ राज्य करते हुए जब उन्हें  
 उन्तीस लाख पूर्व और बारह पूर्वाङ्ग वीत चुकेतत्र अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया  
 ॥६८॥ उसी समय सारस्वत आदि समस्त लौकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोत्रोंद्वारा उनको  
 स्तुति की, देवोंने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी अभय नामक पालकी उठायी ॥६९॥  
 इस प्रकार भगवान् सुमतिनाथने वैशाख सुदी नवमाके दिन मघा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय  
 सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली । संयम-  
 के प्रभावसे उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७०-७१॥ दूसरे दिन वे भिक्षाके लिए  
 सौमनस नामक नगरमें गये । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिके धारक पद्मराजाने पडगाह कर  
 आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की ॥७२॥ उन्होंने सर्वपापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम  
 धारण किया था, वे मौनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चुके थे, वे अत्यन्त सहिष्णु—  
 सहनशील थे जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तपको बढ़ी साधधानांके साथ तपते थे  
 ॥७३॥ उन्होंने छद्मस्थ रहकर बीस वर्ष बित्ताये । तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें प्रियङ्गु वृक्षके  
 नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ॥७४॥ और चैत्र शुक्ल एकादशीके दिन जब  
 सूर्य पश्चिम दिशाकी ओर ढल रहा था तब कैवल्यज्ञान उत्पन्न किया ॥७५॥ देवोंने उनके ज्ञान-  
 कल्याणककी पूजा की । सप्त ऋद्धियोंके धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर निरन्तर  
 सम्मुख रहकर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूर्वधारी निरन्तर उनके साथ

१ अयं श्लोक घ० पुस्तके नास्ति । २ अनिमिषो मत्स्यस्तद्दवाचरतीति—अनिमिषायते 'पाठीनोऽनिमिष-  
 स्तिमिः' इति घनञ्जय । ३ परा प्रौढि विज्ञानमप्राप्तो मूढ प्राणी अहिते—अहितकरे कार्ये आहित व्यासवतः  
 अस्तु भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽहं अहितेन कथमाहित इत्यादिपर्ययम् । ४ समयमाश्रयात् ग० । ५ प्राप्ते ग० ।  
 ६ कैवल्यमुपपादिवान् ल० । ७ पक्षोत्तरे ल० ।

एकादशसहस्रावधीद्वयोधविदीहितः । त्रयोदशसहस्रात्मसमानज्ञानं संस्तुतः ॥ ७८ ॥  
 शून्यद्वययुगाष्टैकमित्तवैक्रियवस्तुतः । शून्यद्वयचतुःश्लैकप्रमितोपान्तविदृष्टतः ॥ ७९ ॥  
 शून्यपञ्चचतुःश्लैकमित्तवाधभिवन्दिदत् । पिण्डितैः खचतुष्कद्वित्रिमितैस्तैर्विभूषितः ॥ ८० ॥  
 खचतुष्कत्रिवह्युकानन्तार्थाद्यार्थिकानुगः । त्रिलक्षश्रावकाभ्यर्चः श्राविकापञ्चलक्षवान् ॥ ८१ ॥  
 स देवदेव्यसङ्गुथातलिर्यकसङ्गुथातवेष्टितः । विहृत्याष्टदशक्षेत्रविशेषेष्वमराञ्जितः ॥ ८२ ॥  
 प्रशस्ताशस्तमापासु भग्नानां दिव्यमक्षिपत् । ध्वनिं बीजविशेषं वा सुभूमिषु महाफलम् ॥ ८३ ॥  
 विमुक्तैर्विहृतिमसिं सहस्रमुनिमिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्भेदे निवृत्तिं ययौ ॥ ८४ ॥  
 एकादश्यां सिते चैत्रे मघायामपराह्वगः । अमरैरन्यकल्याणमवाप सुमलीश्वरः ॥ ८५ ॥

### मालिनी

रिपुनृपथमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो

हरिखि रतिषेणो वैजयन्तेऽहमिन्द्रः ।

सुमतिरमितलक्ष्मीस्तीर्थकृद्यः कृतार्थः

सकलगुणसमृद्धो वः स-सिद्धिं विदध्यात् ॥ ८६ ॥

रहते थे, वे दो लाख चौअन हजार तीन सौ पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारह हजार अध-  
 धिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे, आठ हजार चार सौ  
 विक्रिया कृद्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सौ मन पर्ययज्ञानी उन्हें  
 घेरे रहते थे, और दश हजार चार सौ पचास वादी उनकी बंदना करते थे, इस प्रकार सब  
 मिलाकर तीन लाख बीस हजार मुनियोंसे वे सुशोभित हो रहे थे ॥७६-८०॥ अनन्तमती आदि  
 तीन लाख तीस हजार आर्थिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते  
 थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं ॥८१॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यकोंसे  
 वे सदा घिरे रहते थे । इस प्रकार देवोंके द्वारा पूजित हुए भगवान् सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रों-  
 में विहार कर भव्य जीवोंके लिए उपदेश दिया था । जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया  
 जाता है और उससे महान् फलकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार भगवान्ने प्रशस्त-अप्रशस्त सभी  
 भाषाओंमें भव्य जीवोंके लिए दिव्य ध्वनि रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवोंको  
 रत्नत्रयरूपी महान् फलकी प्राप्ति हुई थी ॥८२-८३॥

अन्तमें जब उसकी आयु एक मासकी रह गयी तब उन्होंने विहार-करना बन्द कर  
 सम्भेदगिरिपर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वहीसे चैत्र शुक्ल  
 एकादशीके दिन मघा नक्षत्रमें शामके समय निर्वाण प्राप्त किया । देवोंने उनका निर्वाण-  
 कल्याणक किया ॥८४-८५॥ जो पहले शत्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके  
 समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिषेण थे, फिर वैजयन्त  
 विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य

१ ज्ञानिसंयुतः ग० । २ -विद्वतः क०, घ० । -विद्वतः ग० । ३ विमुक्तविकृतिमसिं- क०, ख०,  
 ग०, घ० । विमुक्ताविकृतिः ल० ।

सद्योजातं जिनेन्द्रं स्वरवतरणसंप्राप्तकल्याणकार्ये

वाम जन्माभिषेके 'सुरपतिरचितैर्भूषणैरिद्विशोभम् ।

सन्निक्रान्ताघोरं सुमतिमतिमतिं केवलज्ञानसिद्धा-

वीशानं निर्द्वैतौ तत्पुरुषमपरुषं शान्तये संश्रयध्वम् ॥ ८७ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्वाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुमतितीर्थपुराणं नाम  
समाप्तमेकपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥

सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें ॥८६॥ जो भगवान् स्वर्गावतरणके समय गर्भकल्याणकके उत्सवमें 'सद्योजात' कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्र-द्वारा विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर 'वाम' कहलाये, दीक्षा-कल्याणकके समय 'अघोर' कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'ईशान' कहलाये और निर्वाण होनेपर 'तत्पुरुष' कहलाये ऐसे राग-द्वेषरहित अतिशय पूज्य भगवान् सुमतिनाथका शान्तिके लिए हे भव्य जीवो! आश्रय ग्रहण करो ॥ ८७ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्वाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें सुमतिनाथ तीर्थंकरका पुराण वर्णन करनेवाला इक्यावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥ ५१ ॥

## द्विपञ्चाशत्तमं पत्रं

पद्मेऽस्थास्तुर्न मातीव प्रमास्मिन्निति वाञ्छिता । त्यक्त्वा तं यं स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रभः प्रभुः ॥ १ ॥  
द्वितीये धातकीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपूर्वजे । विदेहे दक्षिणे कूले सीताया-वत्सदेशजम् ॥ २ ॥  
सुसीमानगरं तस्मिन् महाराजोऽपराजितः । न परैर्जीयते जेता स बाह्याभ्यन्तरद्विषाम् ॥ ३ ॥  
विक्रमेणैव वक्राणां जेतुर्बाह्यपरिच्छदः । ससाङ्गपूर्णं तस्य बलं दौर्बलनालिनः ॥ ४ ॥  
तस्य सत्येन वर्षन्ति जीमूताः कर्षकेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्च धान्यभेदाः फलप्रदाः ॥ ५ ॥  
त्यागेन तस्य दारिद्र्यशब्दः खड्गसुभायते । भुवि प्राग्येषु दारिद्र्यं तैरद्य धनदायितम् ॥ ६ ॥  
राज्ञां महागुणास्त्वस्मिन् सुक्षेत्रोत्सुधीजवत् । त्रयोऽप्येते फलन्ति स्म सजातीयान् परान् गुणान् ॥ ७ ॥  
परेषां चास्य रूपदिसम्पन्नोन्मार्गवृत्तये । तरुटपाटी मरुन्मेहे क्षमः कम्पयितुं च किम् ॥ ८ ॥  
स षट्प्रकृतिसिन्धुष्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत् । तद्राज्यं न परैर्दृष्ट्यं परेषां धर्षकः स्वयम् ॥ ९ ॥  
एवं मवान्तरावजितोजितायोदयापितम् । नार्पत्यं सुचिरं सुक्त्वा संविभक्तं सुहृद्गैः ॥ १० ॥  
क्षणिकाः सर्वपर्यायाः पर्यायैश्चानुभूयते । सुखं कारणविध्वंसं कार्यं कौतस्कुटी स्थितिः ॥ ११ ॥  
<sup>३</sup> ह्यृजुसूत्रभावेन स सर्वं भङ्गुरं स्मरन् । दत्त्वा राज्यं सुमित्राय सुताय विजितात्मने ॥ १२ ॥  
गत्वा तपोगुरं कृत्वा जिनेन्द्रं पिहितान्नवम् । पकादवाङ्गविद् बद्ध्वा नाम तीर्थकराह्वयम् ॥ १३ ॥

कमल दिनमें ही फूलता है, रातमें बन्द हो जाता है अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके कारण जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमलको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे पद्मप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥ दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राज्य करते थे । महाराज अपराजित वास्तवमें अपराजित थे क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरंग तथा बहिरंगके सभी शत्रुओंको जीत लिया था ॥ २-३ ॥ वह राजा कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशोभित उस राजाकी सप्तांग सेना केवल बाह्य आडम्बर मात्र थी ॥ ४ ॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोंकी इच्छानुसार बरसते थे और वर्षके आदि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे ॥ ५ ॥ उसके दानके कारण दारिद्र्य शब्द आकाशके फूलके समान हो रहा था और पृथिवी-पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान आचरण करने लगे थे ॥ ६ ॥ जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय अन्य बीजोंको उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान् गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे ॥ ७ ॥ इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं ले गयी थी सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धोंको उखाड़नेवाला क्या मेरुपर्वतको भी कम्पित करनेमें समर्थ है ? ॥ ८ ॥ वह राजाओंके योग्य सन्धि-विग्रहादि छह गुणोंसे सुशोभित था और छह गुण उससे सुशोभित थे । उसका राज्य दूसरोंके द्वारा धर्षणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दूसरोंका धर्षक-तिरस्कार करने-वाला था ॥ ९ ॥ इस प्रकार अनेक भावोंमें उपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें बँटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ॥ १० ॥ तदनन्तर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें समस्त पर्याय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है ? ॥ ११ ॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थोंको भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया, वनमें जाकर पिहितान्नव जिनेन्द्रको दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर

१ मेक्षमं ल० । २ धर्षक ल० । ३ इत्यन्तर्गतभावेन क०, घ० ।



संन्यस्यान्तपरित्यक्तदेहोऽथाद्दहमिन्द्रताम् । ऊर्ध्वप्रैवेयके रम्ये प्रीतिकरविमानजः ॥१४॥  
 एकत्रिंशत्समुद्राद्युहस्तद्वयवारीकः । शुक्लदेश्यो दिनैः पञ्चषट्चतुःसम्मिदैः श्वसन् ॥१५॥  
 एकत्रिंशत्सहस्राब्दैर्मानसाहारतर्पितः । तेजोबलावधिज्ञानव्यासासप्तसभूतलः ॥१६॥  
 तत्क्षेत्रविक्रियर्द्धासः सुखमापाहमिन्द्रजम् । स्वयुरन्ते ततस्तस्मिन्नवनीमागमिष्यति ॥१७॥  
 जम्बूद्वीपेऽत्र कौशाभ्यां पतिरिक्ष्वाकुर्वंशजः । गोत्रेण काश्यपो राजा धरणाख्यो महानभूरत् ॥१८॥  
 तस्य देवी सुसीमाख्या रत्नवृष्ट्यादिमानिता । प्रभाते माघकृष्णार्थां पृथ्यां चित्रेन्दुसंगमे ॥१९॥  
 गजादिषोडशंस्वप्नवीक्षणानन्तरास्यगम् । निरीक्ष्य वारणं ज्ञातैस्तत्फलैः प्रमदान्विता ॥२०॥  
 कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां त्वष्ट्रयोगेऽपराजितम् । कार्तिके मास्यसुतैषा रक्ताम्भोजदलच्छविम् ॥२१॥  
 भस्वोत्पत्तौ समुत्पत्तिर्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः प्रमोदात्सर्वदेहिनाम् ॥२२॥  
 मोहशत्रुहंतच्छायो नष्टोऽहं वेति कम्पते । स्वर्गापवर्गयोर्भागं बाहकेऽस्मिन् भविष्यति ॥२३॥  
 मोहनिद्रां विहास्यन्ति बहवोऽस्मिन् प्रबोधके । जन्मनां जाति सम्बन्धविरोधश्च विनश्यति ॥२४॥  
 लक्ष्मीविकाशं मस्यायात् प्रायात् कीर्तिर्जगत्त्रयम् । अभूदित्यादिसलापो विदुषामितरेतरम् ॥२५॥  
 तदानीमेव देवेन्द्रं तस्मै मरौ क्षरवारिभिः । स्तपयित्वा विधायात्सुमुदा पद्मप्रभाभिधाम् ॥२६॥  
 अमिषुत्स्य पुनर्नीत्वा मातुरङ्गे महाद्युतिम् । निधाय सुदिता नृत्यं विधाय प्रययुर्दिवम् ॥२७॥  
 समस्तैः शैशवं तस्य सुदेन्दोरिव वन्द्यते । कः स थः सर्वमाह्लाद्य वर्द्धमाने पराङ्मुखः ॥२८॥

तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त रमणीय ऊर्ध्वप्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥१२-१४॥ इकतीस सागर उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, चार सौ पैसठ दिनमें श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता था, इकतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहारसे सन्तुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अधिज्ञानसे सप्तमी पृथिवीको व्याप्त करता था और वहीतक उसकी विक्रियाच्छ्दि थी । इस प्रकार अहमिन्द्रसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे । आयुके अन्तमें जब वहाँसे चय कर पृथिवीपर अवतार लेनेके लिए उद्यत हुआ ॥१५-१७॥ तब इसी जम्बूद्वीपकी कौशाब्धी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री धरण नामकी एक बड़ा राजा था । उसकी सुखीमा नामकी रानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयसे सम्मानित थी । माघकृष्ण षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र और चन्द्रमाका संयोग हो रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद सुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥१८-२०॥ कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशके दिन त्वष्ट्र योगमें उसने लाल-कमलकी कलिकार्के समान क्रान्तिवाले अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया ॥२१॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणोंकी उत्पत्ति हुई, दोप समूहका नाश हुआ और हर्षसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो गया ॥२२॥ स्वर्ग और मोक्षका मार्ग चलानेवाले भगवान्के उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रुक्रान्तिरहित हो गया तथा 'अब मैं नष्ट हुआ' यह सोचकर काँपने लगा ॥२३॥ उस समय विद्वानोंमें निम्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान् सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुतसे लोग मोहनिद्राको छोड़ देंगे, प्राणियोंका जन्मजात विरोध नष्ट हो जायेगा, लक्ष्मीविकासको प्राप्त होगी और कीर्तितीनों जगत्में फैल जायेगी ॥२४-२५॥ उसी समय इन्द्रोंने मेरु पर्वतपर ले जाकर क्षीरसागरके जलसे उनको अभिषेक किया, हर्षसे पद्मप्रभ नाम रखा, स्तुति की, तदनन्तर महाक्रान्तिमान् जिनके बालको वापस लेकर माताकी गोदमें रखा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया ॥२६-२७॥ चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़े हर्षसे प्रशंसा करते थे सो टीक

१. सुखप्रायाहमिन्द्रजं ल० । २. आयुरत्ने क०, ख०, ग०, घ०, ल० । ३. जम्बूद्वीपे च कौशाभ्या ल० ।  
 ४. प्रमदान्विते ख० । ५. सम्बद्ध-ग०, ख० । ६. विकासं क०, घ० । ७. प्राययुर्दिवम् क०, घ०, ग० ।

न कामनीयकं कामे विकायेऽन्यत्र चेद्दक्षम् । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपभूयते ॥ २९ ॥  
 तथैव रूपमप्यस्य कथ्यते किं पृथक् पृथक् । यद्यत्तस्मिन्न तत्त्वज्ञैरन्यस्यैरुपभूयते ॥ ३० ॥  
 कामयन्ते स्त्रियः पुंसु पुमांसस्ता इमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौभाग्यं नाल्पभांशैरवाप्यते ॥ ३१ ॥  
 तत्तनावेव सर्वेषां दृष्टिस्तुष्टिं परामिता । सन्ततं चूतमञ्जर्यां मत्तालीनामिवावली ॥ ३२ ॥  
 सर्वेन्द्रियसमाह्लादस्तस्मिन् चेन्न भृशायते । परत्रापूर्वपुण्येषु न कापीति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥  
 खचतुष्केण कोटीनां नवमिश्रोक्तवाङ्मिभिः । मिते सुमतिस्तान्ने पद्मप्रभजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥  
 पद्मशून्यवह्निपूर्वायुः शून्यपद्मद्विचापभाक् । जीवितस्य चतुर्भागे कुमारत्वेन विहिते ॥ ३५ ॥  
 अलब्धं राज्यं प्राप्तामरेज्यो द्वैराज्यवर्जितम् । क्रमाथातं न हीच्छन्ति संनिस्तच्चान्यथागतम् ॥ ३६ ॥  
 पट्टवन्धेऽस्य सर्वस्य स्वस्य स्वस्येव सम्मेदः । महाभयानि तद्देशे नष्टान्यष्टौ निरन्वयम् ॥ ३७ ॥  
 दारिद्र्यं विद्रुत दूर स्वैरं स्वं संप्रवर्तते । सर्वाणि मङ्गलान्यासन् संगमः सर्वसंपदाम् ॥ ३८ ॥  
 कस्य कस्मिन्समीप्येति वदान्येण्वभवद्भवः । कस्यचिन्नैव कस्मिन्निदितेऽप्यवदुज्जनः ॥ ३९ ॥  
 इत्यस्य राज्यसंप्राप्ते जागृस्तुसमिवोद्यितम् । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम् ॥ ४० ॥  
 हीने घोडशर्वाङ्गैः पूर्वलक्षायुषि स्थिते । कदाचिद् द्वारिवन्धस्यगंजप्रकृतिसंश्रुतेः ॥ ४१ ॥

ही है क्योंकि जो सबको आह्लादित कर वृद्धिको प्राप्त होता है उससे कौन पराङ्मुख रहता है ? ॥२८॥ भगवान् पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीररहित कामदेवमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी । यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती थी ॥२९॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी पृथक्-पृथक् वर्णन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो-जो गुण उनमें विद्यमान थे विद्वान् लोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योंमें रहनेवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ॥३०॥ स्त्रियों पुरुषोंकी इच्छा करती हैं और पुरुष स्त्रियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्त्रियों और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जिनका भाग्य अल्प है वे इनके सौभाग्यको नहीं पा सकते हैं ॥३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरीकी पंक्ति आममंजरीमें परम सन्तोषको प्राप्त होती है उसी प्रकार सब मनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीर में ही परम सन्तोषको प्राप्त करती थी ॥३२॥ हम तो ऐसा समझते हैं कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवान्में पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर अल्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी मनुष्योंमें पूर्णताको प्राप्त नहीं हो सकते थे ॥३३॥ जब सुमतिनाथ भगवान्की तीर्थ परम्पराके नब्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान् पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे ॥३४॥ तोस लाख पूर्व उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे । उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक छत्र राज्य प्राप्त किया । उनका वह राज्य क्रमप्राप्त था-वंश-परम्परासे चला आ रहा था सो ठीक ही है क्योंकि संज्ञन मनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते है जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ॥३५-३६॥ जब भगवान् पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको ऐसा हर्ष हुआ मानो 'सुझे ही' राज्यपट्ट बाँधा गया हो । उनके देशमें आठों महाभय समूल नष्ट हो-गये थे ॥३७॥ दरिद्रता दूर भाग गयी; धन स्वच्छ-दन्तासे बढ़ने लगा, सब मंगल प्रकट हो गये और सब सन्पदाओंका समागम हो गया ॥३८॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा है और याचक लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है ॥३९॥

इस प्रकार जब भगवान् पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोनेसे जांग पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाको सुख देनेवाला हो ॥४०॥ जब उनकी आयु सोलह पूर्वांग कम एक लाख पूर्वकी रह गयी तब किसी समय दरवाजेपर बंधे हुए हाथोंकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया और तत्त्वोंके स्वरूपको

१ चतुर्भाग-८० । २ प्राप्तामरेज्यो ४० । ३ प्राप्तामरेष्टो ४० । ४ पट्टवन्धस्य ४० । ५ पूर्वलक्षायुषि ४० ।

ज्ञातात्मान्यमवो धिक् धिक् संसारमिति तत्त्वविद् । विरक्तः कामभोगेषु पापदुःखप्रदायिषु ॥ ४२ ॥  
 अदृष्टं किं किमस्पृष्टमगात्रात् किमश्रुतम् । किं किमस्वादितं येन पुनर्नवमिवेष्यते ॥ ४३ ॥  
 शुक्तमेव पुनर्शुक्तं जन्तुनानन्तवो भवे । मध्यमम्यमिलाषाब्धेरितं वदत किं ततः ॥ ४४ ॥  
 नेन्द्रियैरत्मानस्तुसिद्धिर्मिथ्यात्वादिद्विदूषितैः । वीतघाल्युपयोगेऽस्य चिन्तनं यावन्नगोचरम् ॥ ४५ ॥  
 रोगीरभाणां तु ज्ञेयं शरीरं वामलक्षकम् । दृष्टान् दृष्ट्वापि तैरेव किमिष्टान्नद्विजीवितान् ॥ ४६ ॥  
 'आहितो' देहिनो देहे मोहोऽनेनाविनश्चरः । सहवासः कृतः क्वापि केनाप्यस्यायुषा किमु ॥ ४७ ॥  
 हिंसादिपञ्चकं धर्मः सुखं यस्येन्द्रियार्थजम् । संसृती रोचते तस्मै विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥  
 पापापापोपलेपापक्षेपो येनोपपद्यते । तद्ध्येयं तदनुष्ठेयं तद्ध्येयं सदा बुधैः ॥ ४९ ॥  
 इति त्रिविधनिर्वेदभूतबोधैः सुरोत्तमैः । प्रोत्साहितः सुरैः प्राप्तनिष्क्रान्तिस्नानसम्मदः ॥ ५० ॥  
 'निवृत्त्याख्यां समाख्या शिबिकां स मनोहरे । बने षष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रहोत् ॥ ५१ ॥  
 कार्तिके कालपक्षस्य त्रयोदश्यापराह्वगः । चित्रायां भूशुजां सार्द्धं सहस्रेणाहितादरः ॥ ५२ ॥  
 चतुर्थज्ञानरूपपञ्चश्रयायै पश्चिमे दिने । नगरं चर्द्धमानाख्यं प्राविशद्विदुषां वरः ॥ ५३ ॥  
 सोमदत्तो नृशस्तस्मै दानादापाञ्जनच्छविः । आश्रयपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥  
 चिन्वन् शुभासन्नैः पुण्यं संवरं कर्मसंहतैः । कुर्वन्गुण्यादिषट्केन तपसा निर्जरं च सः ॥ ५५ ॥

जाननेवाले वे संसारको इस प्रकार धिक्कार देने लगे । वे पाप तथा दुःखोंको देनेवाले काम-भोगोंमें विरक्त हो गये । वे विचारने लगे कि इस संसारमें ऐसा कौन-सा पदार्थ है जिसे मैंने देखा न हो, छुआ न हो, सूँघा न हो, सुना न हो, और खाया न हो जिससे वह नयेके समान जान पड़ता है ॥४१-४३॥ यह जीव अपने पूर्वभवोंमें जिन पदार्थोंका अनन्त बार उपभोग कर चुका है उन्हें ही बार-बार भोगता है अतः अभिलाषा रूप सागरके बीच पड़े हुए इस जीवसे क्या कहा जाये ? ॥४४॥ घातिया कर्मोंके नष्ट होनेपर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमें जबतक सारा संसार नहीं झलकने लगता तबतक मिथ्यात्व आदिसे दूषित इन्द्रियोंसे इसे तृप्ति नहीं हो सकती ॥४५॥ यह शरीर रोगरूपी साँपोंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोगरूपी साँपोंसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अविनाशी मोह कर रहा है यह बड़ा आश्चर्य है । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास किया है ? अर्थात् नहीं किया ॥४६-४७॥ जो हिसादि पाँच पापोंको धर्म मानता है, और इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे होनेवाले सुखको सुख समझता है उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके लिए यह संसार रुचता है—अच्छा मालूम होता है ॥४८॥ जिस कार्यसे पाप और पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश हो जाता है, विद्वानोंको सदा उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका आचरण करना चाहिए और उसीका अध्ययन करना चाहिए ॥४९॥ इस प्रकार संसार, शरीर और भोग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौकान्तिक देवोंने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर्निकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेकोत्सव किया है ऐसे भगवान् पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकीपर सवार होकर मनोहर नामके वनमें गये और वहाँ वैलाका नियम लेकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ आदरपूर्वक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर ली ॥५०-५२॥ जिन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए वर्धमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥५३॥ शुक्ल कान्तिके धारक राजा सोमदत्तने उन्हें दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है ? ॥५४॥ शुभ आस्रवोंसे

१ किमन्यारितं येन । २ मध्यमम्यमिलाषाब्धेरितं वदतु किं ततः क०, घ०, ख० । नवामध्यमि-ग० ।

३ वीतघाल्युपयोगस्य क०, ग०, ल० । ४ अहितो ल० । ५ देहिना घ० । ६ विनश्चरम् क०, घ० ।

७ सहवासः कृतं क०, घ०, ख०, सहवासकृतं ल० । ८ निर्वेदभूतो बोधियुरोत्तमैः क०, घ० ।

निर्वेदभूतबोधैः ग० ।

पुण्यमासैर्मौनमास्थाय छात्रस्थयमपनीतवान् । क्षपकश्रेणिमारुह्य नष्टपातिचतुष्टयः ॥५६॥  
 पौर्णमास्यां सिते चैत्रे मध्याह्ने रवौ गते । चित्रायां केवलज्ञानं प्रतिपेदे परार्थकृत् ॥५७॥  
 समर्चितो महादेवैः शतेनेतो गणेशिनाम् । स वज्रचामरादीनां दशमिश्र जगद्धितः ॥५८॥  
 शून्यद्वयाग्निपक्षोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः । शून्यत्रिकनवतुंदिप्रोक्तशिक्षकलक्षितः ॥५९॥  
 शून्यत्रिकदशत्रयेविविधात्रधिवीक्षणः । खत्रयद्वादशालक्ष्यकेवलावगमाश्रितः ॥६०॥  
 खद्वायाष्टषडेकाङ्कविक्रियद्विसमृद्धिमान् । शून्यद्वयत्रिगुण्यैकप्रोक्तस्तुयैवबोधनः ॥६१॥  
 शून्यद्वयतुरन्प्रोक्तव्यातानुत्तरवादिनः । सचतुष्कादिवद्द्वयैकसपिण्डतयतीश्वरः ॥६२॥  
 खचतुष्काद्विवाराशिमितिभिरभिष्टुतः । रात्रिषेणाख्यमुख्याभिरार्यैकानिः समन्ततः ॥६३॥  
 त्रिलक्षश्रावकोपेतः श्राविकापञ्चलक्षवान् । सदेवदेव्यसङ्ख्यातस्तित्यैकसंख्यातसंयुतः ॥६४॥  
 कुर्वन् धर्मोपदेशेन भोक्षमाणो तनुमृतः । भव्यान् पुण्योदयेनेव धर्मसंखान् सुखोदये ॥६५॥  
 समेदपर्वते मासं स्थित्वा योगं निरूढवान् । सार्द्धं यतिसहस्रेण प्रतिमायोगमास्थितः ॥६६॥  
 फाल्गुने मासि चित्रायां चतुर्थ्यामपराह्णाः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिन्नक्रियात्मना ॥६७॥  
 शुक्लव्यानेन कर्माणि हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैव चक्रुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपूजनम् ॥६८॥

### शादूलविक्रीडितम्

किं सेव्यं क्रमयुगमब्जविजयामस्यैव लक्ष्म्यास्पदं

किं श्रव्यं सकलप्रतीतिजननादस्यैव सत्यं वचः ।

पुण्यका संचय, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिषद्-जय तथा चारित्र इन छह उपायोंसे कर्म-समूहका संवर और तपके द्वारा निर्जरा करते हुए उन्होंने लक्ष्यस्थ अवस्थाके छह माह मौनसे व्यतीत किये । तदनन्तर क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ होकर उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश किया तथा चैत्र शुक्ल पौर्णमासीके दिन जब कि सूर्य मध्याह्नसे कुछ नीचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्रमें उन पर-कल्याणकारी भगवान् ने केवलज्ञान प्राप्त किया ॥५५-५७॥ उसी समय इन्द्रोने आकर उनकी पूजा की । जगत्का हित करनेवाले भगवान्, वज्रचामर आदि एक सौ दश गणधरोंसे सहित थे, दो हजार तीन सौ पूर्वधारियोंसे युक्त थे, दो लाख उनहत्तर हजार शिक्षकोंसे उपलक्षित थे, दश हजार अवधिज्ञानी और बारह हजार केवलज्ञानी उसके साथ थे, सोलह हजार आठ सौ विक्रियाश्रुद्धिके धारकोंसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थे, और नौ हजार छह सौ श्रेष्ठ वादियोंसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख तीस हजार मुनि सदा उनकी स्तुति करते थे । रात्रिषेणाको आदि लेकर चार लाख बीस हजार आर्थिकाएँ सब ओरसे उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रावक, पाँच लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यञ्च उनके साथ थे ॥५८-६४॥ इस प्रकार धर्मोपदेशके द्वारा भव्य जीवोंको भोक्षमाणमें लगाते और पुण्यकर्मके उदयसे धर्मात्मा जीवोंको सुख प्राप्त कराते हुए भगवान् पद्मप्रभ सम्मेद शिखरपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक माह तक ठहरकर योग-निरोध किया तथा एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥६५-६६॥

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न-क्रियाप्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा कर्मोंका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर उनके निर्वाण-कल्याणकी पूजा की ॥६७-६८॥ सेवा करने योग्य क्या है ? कमलोंको जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया है ऐसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवान् के चरण-युगल सेवन करने योग्य हैं । सुनने योग्य क्या है ? सब लोगोंको

१ मध्याह्ना ल० । २ समधितमहो देवैः क०, ख०, ग०, घ० । ३ शून्यत्रिदशत्रये ल० । ४ रतिषेणा-  
 ख्य ल० । ५ योगात्रिह ल० । ६ सस्थितः ल० ।

किं ध्येयं गुणसन्ततिश्च्युतमलस्यास्यैव काष्ठाश्रया-  
 दित्युक्तस्तुतिगोचरः स भगवान् पद्मप्रभः पातु वः ॥६६॥  
 राजा प्रागपराजितो जितसिंधुः श्रीमान् सुसीमेश्वरः ।  
 पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितो भ्रैवेयकेऽन्त्येऽमरः ।  
 कौशाम्ब्यां कलितो गुणैरगणितैरिक्ष्वाकुवंशाग्रणीः  
 षष्ठस्तीर्थकरः परात्महितकृत् पद्मप्रभः शं क्रियात् ॥६७॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पद्मप्रभाहृतपुराणवर्णनं नाम  
 द्विपञ्चाशत्तमं पर्व ॥५२॥

विश्वास उत्पन्न करानेवाले इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के सत्य वचन सुननेके योग्य हैं, और ध्यान करने योग्य क्या है? अतिशय निर्मल इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणोंके समूहका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान् पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें ॥६६॥ जो पहले सुसीमा नगरीके अधिपति, शत्रुओंके जीतनेवाले, पराजित नामके लक्ष्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करते हुए अन्तिम भ्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर कौशाम्बी नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इक्ष्वाकुवंशके अग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छठे तीर्थकर हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सब लोगोंका कल्याण करें ॥६७॥

इस प्रकार वार्प नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें पद्मप्रभ भगवान्के पुराणका वर्णन करनेवाला बावनवां पर्व पूर्ण हुआ।

## त्रिपञ्चाशत्तमं पर्वं

तत्त्वं सत्त्वादिना येन नैकेनाभ्यवधारितम् । तद्विद्विधाप्यसांवेव स सुपाश्र्वोऽस्तु मे गुरु ॥ १ ॥  
 विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नन्दिषेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥  
 प्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्यानुगुणदैवस्य राज्यश्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥  
 शरीरं न भिषद्भयं न राज्यमपि मन्त्रिभिः । तथापि तद्द्वयं तस्य क्षेमवस्तुकृतोदयात् ॥ ४ ॥  
 पुरुषार्थत्रयं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव सुस्थितम् । परस्परोपकारेण तस्मात्तद्योपकारिता ॥ ५ ॥  
 जिवारिभूसुजन्त्रास्य विजिगीषैहलौकिकी । मा भून्नन्वस्ति सन्मार्गं रक्षतः पारलौकिकी ॥ ६ ॥  
 पूर्वं राज्यसुखं श्रीमान् बन्धुमित्रानुजीविभिः । सहसानुभवाज्जातवैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥  
 मोहोदयोभयाविद्वेदकायवाक्चित्तदृत्तिभिः । बद्ध्वा कर्माणि तैर्नातो जातो गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥  
 संसारं चक्रकभ्रान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं भ्रान्त्यन्नय मन्व्यो यदृच्छया ॥ ९ ॥  
 लब्धकालादिरातोऽपि सुक्तिमार्गं सुदुर्गमम् । रमे रामादिभिर्मुग्धो धिग्धिग्मां कामुकाग्रिमम् ॥ १० ॥  
 निर्मूल्याखिलकर्मणि निर्मलो लोकमूर्ध्वरगः । किल नामोमि निर्वाणं सार्वं सर्वशभाषितम् ॥ ११ ॥  
 इत्याविष्कृतसन्नित्तः सुस्वान्तः स्वस्थ सन्ततौ । सुस्थाप्यात्मजमात्मीयं पति धनपति सताम् ॥ १२ ॥  
 नरेन्द्रैर्बहुभिः सार्धं निर्धूनानो रजो मुदा । अर्हन्नन्दनपूज्यान्तेवासिरथं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥

जिन्होंने जीवाजीवादि तत्त्वोंको सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया है फिर भी उनके जानकार वही हैं ऐसे सुपार्ष्वनाथ भगवान् मेरे गुरु हों ॥१॥ धातकीखण्डके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसकेक्षेमपुर नगरमें नन्दिषेण नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ वह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं दैव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राज्य-लक्ष्मी सबको सुख देनेवाली थी ॥३॥ उसके शरीरकी न तो वैच लोग रक्षा करते थे और न राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त थे ॥४॥ धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था ॥५॥ शत्रुओंको जीतनेवाले इस राजा नन्दिषेणको जीतनेकी इच्छा सिर्फ इस लोकसम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके परलोकके जीतनेकी भी इच्छा थी ॥६॥ इस प्रकार यह श्रीमान् तथा बुद्धिमान् राजा बन्धुओं, मित्रों तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो गया ॥७॥ वह विचार करने लगा कि यह जीव दर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मग्न, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंको बाँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥८॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित् कालादि लब्धियों पाकर अतिशय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके साथ क्रीड़ा करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुझको बार-बार धिक्कार है ॥९-१०॥ मैं समस्त कर्मोंको नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्वगामी बनकर सबका हित करनेवाले सर्वज्ञ-निरूपित निर्वाणलोकको नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःखकी बात है ॥११॥ इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयको धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने पदपर सज्जनोंत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओंके साथ पाप कर्मको

१ स वीरमनुभवन् जातवैराग्यातिशयः क०, घ० । २ मोहोभयोदयाविद्वे ल० । ३ प्राप्तोऽपि ग० । ४ रमे ल० । ५ निर्धूनानो ल० ।

एकादशाङ्गधारी सञ्जक्तद्योग्यकारणैः । स्वीकृत्य तीर्थकृत्नाम संन्यस्यान्ते समाधिमान् ॥ १४ ॥  
 शुक्लेश्यो द्विहस्ताङ्गको ग्रैवेयकमध्यमे । अहमिन्द्रः सुमद्राख्ये विमाने मध्यमेऽजनि ॥ १५ ॥  
 चतुःशतेषु पञ्चोत्तरेष्वह.स्वेष निःश्वसन् । शून्यत्रितयसप्तद्विप्रमिताब्देषु विश्रणन् ॥ १६ ॥  
 विक्रियावधिर्वीर्यस्विट्व्याससप्तमभूमिः । सप्तविंशतिवाध्यायुरथ मुक्त्वाखिलं सुखम् ॥ १७ ॥  
 आयुरन्ते ततस्त्विमन्नागमिष्यति भूतलम् । द्वीपेऽस्मिन् भारते काशीविषये वृषमान्वये ॥ १८ ॥  
 सुप्रतिष्ठमहाराजो वाराणस्या महौपतिः । तस्यासीत् पृथिवीषेणा देवी तस्या गृहाङ्गणे ॥ १९ ॥  
 षण्मासान् साररत्नानि वद्भुषुः सुरवारिदाः । सितषष्ठ्यां विशाखायां मासि माद्रपदे शुभान् ॥ २० ॥  
 स्वमान् षोडश संवीक्ष्य वारणं चाननागतम् । ज्ञात्वा पत्युः फलं तेषां परितुष्टाग्निमित्रके ॥ २१ ॥  
 शुभयोगे सितज्येष्ठद्वादश्यां तं सुरोत्तमम् । सोदृपीपददुत्तुङ्गमैराघंतमिभोजितम् ॥ २२ ॥  
 सुरेन्द्रमैन्दरस्थान्ते कृतजन्ममहोत्सवैः । तस्याकारि सुपार्श्वस्थ्या तत्पादान्तमौलिभिः ॥ २३ ॥  
 कोटीनवसहस्रेषु पद्मप्रभजिनान्तरे । सागरोपमसंख्येषु गते तद्रतजीवितः ॥ २४ ॥  
 शून्यषट्युगपक्षीकपूर्वजीवी धनुःशत- । द्वयोत्सेधो विधुं कान्त्या हेयवन्नाप यौवनम् ॥ २५ ॥  
 लक्षपञ्च सुपूर्वाणां कौमार्यं गतवत्यतः । धनं त्यक्तुं वदान्यो वा साम्राज्यं स्वीचकार सः ॥ २६ ॥  
 शुश्रूषाद्यष्टोद्युयान् सर्वशास्त्रविशारदान् । नटान् सपेटकान् प्रेक्ष्यान्नर्तकान् नृत्यकोविदान् ॥ २७ ॥  
 सुकण्ठान् गायकान् श्रव्यानष्टार्थोद्यवादकान् । सनमरुचिरानन्याज्ञानाविद्याकलागुणान् ॥ २८ ॥

नष्ट करता हुआ अड़े हर्षसे पूव्य अर्हन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया ॥१२-१३॥ तदनन्तर ग्यारह अङ्गका धारी होकर उसने आगममें कही हुई दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंके द्वारा तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम ग्रैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म धारण किया । वहाँ उसके शुक्ल लेट्या थी, और दो हाथ ऊँचा शरीर था ॥१४-१५॥ चार सौ पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था ॥१६॥ उसको विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बल और कान्ति सप्तमी पृथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी । इस प्रकार समस्त सुख भोग कर आयुके अन्तमें जब वह पृथ्वी तलपर अवतीर्ण होनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीपकेभारत-वर्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी । उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे । सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान् वृषभदेवके इक्ष्वाकु-वंशमें हुआ था । उनकी रानीका नाम पृथिवी-षेणा था । रानी पृथिवीषेणाके घरके आँगनमें देवरूपी मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट रत्नोंकी वर्षा की थी । उसने भाद्रपद शुक्ल षष्ठीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखकर सुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया । पतिके सुखसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी पृथिवीषेणा बहुत ही हर्षित हुई । तदनन्तर ज्येष्ठशुक्ल द्वादशीके दिन अग्निमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत हाथीके समान उन्नत और बलवान् अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥१७-२२॥ इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट झुकाये और 'सुपार्श्व' ऐसा नाम रखा ॥२३॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके बाद नौ हजार करोड़ सागर बीत जानेपर भगवान् सुपार्श्वनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥२४॥ उनकी आयु बीस लाख पूर्वकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुष थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको लज्जित करते थे । इस तरह उन्होंने यौवन-अवस्था प्राप्त की ॥२५॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी भौति धनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ॥२६॥ उस समय इन्द्र शुश्रूषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ठ, सर्वशास्त्रोंमें निपुण झुण्डके झुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको, उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य चार-प्रकारके वादित्र-वादकोंको, हास्य-विनोद

स्त्रीश्च तादृशगुणोपेता गन्धर्वानीकसत्तमाः । आनीय तस्य देवेन्द्रो विनोदैरकरोत्सुखप्रदा ॥ २६ ॥  
 शेषेन्द्रियत्रयार्थैश्च तत्रोत्कृष्टैरिन्द्रान्तरम् ॥ सुखं तदेव संसारे अद्वेनानुभूयते ॥ २७ ॥  
 निःस्नेदेत्वादिसन्नामसंभूतातिशयाष्टकः । सर्वप्रियहितालापी निर्व्यापारोऽह्वरीप्रकः ॥ २८ ॥  
 प्रसन्नोऽनपवर्ष्यायुर्गुणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकायः त्रिज्ञानः प्रियद्वगुप्रसवच्छवि ॥ २९ ॥  
 मन्दाशुभानुभावाद्योऽशुभोत्कृष्टानुभावमाक । निर्वाणाभ्युदयैश्च कण्टिकाकुन्तकण्टकः ॥ ३० ॥  
 स्वपादनखसंक्रान्तिनिखिलेन्द्रसुखाम्बुजः । एधते श्रीधरोऽगाधतुल्यभूमौ प्रमुद्ववान् ॥ ३१ ॥  
 स्वामुराद्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां परतो भवेत् । उद्विताऽऽकषायार्णा तीर्थेषां देशसंयमः ॥ ३२ ॥  
 ततोऽस्य भोगवस्तुनां साकल्येऽपि जितात्मनः । वृत्तिनियमितैकाभ्युदयसंख्यगुणनिर्जरा ॥ ३३ ॥  
 पूर्वाङ्गविनातिन्यूनलक्षपूर्वायुषि स्थिते । विलोक्यतुंपरावर्तं सर्वं भावयतोऽधुवम् ॥ ३४ ॥  
 कदाचित्काललक्ष्यास्य विशुद्धोदबोधपणे । छायाक्रोडेव सा सर्वा साप्ताङ्गश्रीरमासज्ञ ॥ ३५ ॥  
 ईदृशी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायाभयी मया । धिग्धिग्मां के न मुह्यन्ति मोगरागाभवेत्तसः ॥ ३६ ॥  
 ह्य्युदात्तो मनोऽस्मौधौ बोधिधिधुरिवोदगतः । देवर्षयस्तद्वैलैनं प्रस्तुतोर्थैः समस्तुवन् ॥ ३७ ॥  
 सुरैरुवां समाख्ये शिविकां च मनोगतियम् । सहेतुकवने शुक्ले ज्येष्ठे षष्ठोपवासधत् ॥ ३८ ॥

करनेमें चतुर, अनेक विद्याओं और कलाओंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंको, ऐसे ही गुणोंसे सहित अनेक स्त्रियोंको तथा गन्धर्वोंको श्रेष्ठ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवान्को सुख पहुँचाता था ॥२७-२९॥ इसी प्रकार चक्षु और कर्णके सिवाय शेष तीन इन्द्रियोंके उत्कृष्ट विषयोंसे भी इन्द्र भगवान्को निरन्तर सुखी रखता था। यथार्थमें संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान् सुपार्श्वनाथ उपभोग करते थे ॥३०॥ प्रशस्त नामकर्मके उदयसे उनके निःस्वेदत्व आदि आठ अतिशय प्रकट हुए थे, सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन बोलते थे, उनका व्यापाररहित अतुल्य बल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवर्त्य थी—असमर्थमें कटनेवाली नहीं थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत और अविधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियगुणके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अर्जुन कर्मका अनुभाग अत्यन्त मन्द था, शुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो सोक्षस्वर्ग तथा मानवोचित ऐश्वर्यकी कण्ठीसे ही सुशोभित था। उनके चरणोंके नखोंमें समस्त इन्द्रोंके मुखकमल प्रतिविम्बित हो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको धारण करनेवाले प्रकृष्टज्ञानी भगवान् सुपार्श्वनाथ अगाध सन्तोषसागरमें वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥३१-३३॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण और सबल सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायोंका ही केवल उदय रह जाता है ऐसे सभी तीर्थक्षेत्रोंके अपनी आयुके प्रारम्भिक आठ वर्षके बाद देशसंयम हो जाता है ॥३४॥ इसलिए यद्यपि उनके भोगोपभोगकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निर्जराका कारण थी ॥३५॥

जब उनकी आयु बीस पूर्वांग कम एक लाख पूर्वकी रह गयी तब किसी समय ऋतुका परिवर्तन देखकर वे 'समस्त पदार्थ नश्वर है' ऐसा चिन्तन करने लगे ॥३७॥ उनके निर्मल सत्यज्ञानरूपी दर्पणमें कैललक्षिकके कारण समस्त राज्यलक्ष्मी छायाकी क्रीडोंके समान नश्वर जान पड़ने लगी ॥३८॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली तथा मायासे भरी हुई है। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। सर्वसुख ही जिनके चित्त भोगोंके रागसे अन्धे हो रहे है ऐसे कौन मनुष्य है जो मोहित न होते हों ॥३९॥ इस प्रकार भगवान्के मन्त्ररूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट रत्नत्रय उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकान्तिक देवोंके आकर समयानुकूल पदार्थोंसे भगवान्की स्तुति की ॥४०॥ तदनन्तर भगवान् सुपार्श्वनाथ, देवोंके द्वारा उठायी हुई मनोगति नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ



गर्भागमर्षे द्वादश्यां सायाह्ने संयमं श्रित । नृपैः सह सहस्रेण तदापोपान्त्यबोधनम् ॥ ४२ ॥  
 पश्चिमे दिवसे सोमखेटे तं कनकद्युतिः । नृपो महेन्द्रदत्ताख्यः प्रतीक्षयापामरार्चनम् ॥ ४३ ॥  
 सुपार्श्वो मौनमास्थाय छात्रास्थ्ये नववर्षकः । सहेतुकवने मूले शिरीषस्य द्व्युपोषितः ॥ ४४ ॥  
 गर्भावतारनक्षत्रे कृष्णषष्ठ्यपराह्लागः । समुत्पन्नान्तदग्गज्ञानं संप्राप्तामरपूजनं ॥ ४५ ॥  
 बलाख्यमुत्थपञ्चान्तरन्ध्रोक्तशणभृद्वृतः । शून्यत्रिंशून्यपक्षोक्तसर्वपूर्वधराधिपः ॥ ४६ ॥  
 शून्यद्विरन्ध्रवाभ्यं लिधपक्षमानोक्तशिक्षकः । शून्यत्रयनवज्ञातनृतीयावगमश्रितः ॥ ४७ ॥  
 खत्रयैकैकनिदिष्टकेवलवावगमान्वितः । शून्यद्वयत्रिपञ्चैकसंख्यावैक्रियिकाचितः ॥ ४८ ॥  
 शून्यपञ्चैकरन्ध्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । षट्शताष्टसहस्रोक्तवादिबन्दिताक्पतिः ॥ ४९ ॥  
 पिण्डीकृतत्रिलक्षोक्तमुनिद्वन्द्वारकाधिपः । मीनार्याद्याधिकान्त्रिशत्सहस्रान्तत्रिलक्षकः ॥ ५० ॥  
 त्रिलक्षश्रावकः पञ्चलक्षसत्श्राविकाचितः । असंख्यदेवदेवीह्यस्तियर्कसंख्यातसंयुतः ॥ ५१ ॥  
 धर्माभूतमर्थी वाणी ग्रहयन् विहरन् महीम् । पश्चात्संहृत्य सम्भेदे विहारं मासमुद्ग्रहन् ॥ ५२ ॥  
 प्रतिमायोगमापाठ्यं सहस्रमुनिभिः समम् । फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां राधायां दिनपोद्ये ॥ ५३ ॥  
 कृतपञ्चमकल्याणाः कल्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमत्रेति परिकल्प्यागमन् दिवम् ॥ ५४ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

दुर्वारां दुरितोरुशत्रुसमितिं निष्पन्नधीनिष्करन्

तूर्ण्णां शुद्धमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः प्रतिष्ठां गतः ।

ज्येष्ठशुक्ल द्वादशीके दिन-सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें वेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयमी हो गये—दीक्षित हो गये । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥४१-४२॥ दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखेट नामक नगरमें गये । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पङ्गाह कर-देवोंसे पूजा प्राप्त की ॥४३॥ सुपार्श्वनाथ भगवान् छद्मस्थ अवस्थामें नौ वर्ष तक मौन रहे । तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर वे शिरीष वृक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए । वहाँ फाल्गुन (?) कृष्ण षष्ठीके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके विशाखा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जिसमें देवोंने उनकी पूजा की ॥४४-४५॥ वे बलको आदि लेकर पंचानवे गुणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, दो हजार तीस पूर्वधारियोंके अधिपति थे, दो लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानी उनके सहगामी थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाञ्छुद्धिके धारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ हजार छह सौ वादी उनकी वन्दना करते थे । इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे । मीनार्याको आदि लेकर तीन लाख तीस हजार आर्थिकार्ण उनके साथ रहती थीं, तीन लाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंकी स्तुति करती थीं और संख्यात तिर्यच उनकी वन्दना करते थे ॥४६-४९॥ इस प्रकार लोगोंको धर्माभूतरूपी वाणी ग्रहण कराते हुए वे पृथिवीपर विहार करते थे । अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार बन्द कर वे सम्भेदशिखरपर जा पहुँचे । वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सूर्योदयके समय लोकाका अग्रभाग प्राप्त किया—सोक्ष पधारे ॥५२-५३॥ तदनन्तर पुण्यवान् कल्पवासी उत्तम देवोंने निर्वाण-कल्याणक किया, तथा 'यहाँ निर्वाण-क्षेत्र है' इस प्रकार सम्भेदशिखरको निर्वाण-क्षेत्र ठहराकर स्वर्गकी ओर प्रयाण किया ॥५४॥

१ मन.पर्ययज्ञानम् । २ प्रतीक्ष्य प्रतिग्राह्य आप लेभे, अमरार्चनं देवकृतपूजाम् । संमत. क०, ख०, ग०, घ०, । ४-निष्क्रियम् क०, ख०, ग०, घ० ।

निष्ठां दुष्टतमां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्टामितः

श्रेष्ठो द्वाक्कुशुवाचिरं परिचितान् पार्श्वे सुपाश्वर्यः स नः ॥ ५५ ॥

वसन्ततिलका

क्षेमाख्यपत्तनपतिर्जुतनन्दिपेणः

कृत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽहमिन्द्रः ।

वाराणसीपुरि सुपाश्वर्यभूपो जितारि-

रिक्ष्वाकुर्वशातिलकोऽवतु तीर्थकृद् वः ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे सुपाश्वर्यस्वामिनः पुराणं  
परिसमाप्तं त्रिपञ्चाशत्तम पर्व ॥ ५३ ॥

अत्यन्त बुद्धिमान् और निपुण जिन सुपाश्वर्यनाथ भगवान् ने दुःखसे निवारण करनेके योग्य पापरूपी बड़े भारी शत्रुओंके समूहको नष्ट कर दिया, मौन रखकर खंसके साथ युद्ध किया, कुछ कालतक समबसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया और अन्तमें निर्वाणकी अवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्ठतम भगवान् सुपाश्वर्यनाथ हम सब परिचितोंको चिरकालके लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करे ॥५५॥ जो पहले भवमें क्षेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिपेण राजा हुए, फिर तपकर नव प्रवैयकोंमेंसे मध्यके प्रवैयकमें अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर वाराणसी नगरीमें शत्रुओंको जीतने शाले और इक्ष्वाकु वंशके तिलक महाराज सुपाश्वर्य हुए वे सप्तम तीर्थकर तुम सबकी रक्षा करें ॥५६॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचार्यसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें सुपाश्वर्यनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेपनवौ पर्व समाप्त हुआ ।

### चतुःपञ्चाशत्तमं पर्व

नीलैकवर्णतां सर्वां सभां य प्रमया स्वया । शुद्धितामनयच्छुद्धः शुद्धयै चन्द्रप्रभोऽस्तु न ॥ १ ॥  
 देहप्रभेव वायस्याह्लादिन्यपि च बोधिनी । तन्नमामिं नमोभागे सुरतारापरिष्कृतम् ॥ २ ॥  
 नामग्रहोऽपि यस्याद्यं निहनत्याखिलमङ्गिनाम् । न हन्यात् किं तु तस्याचर्यं चरितं श्रुतिगोचरम् ॥ ३ ॥  
 तत्पुराणं ततो वक्ष्ये भवादाससमादहम् । श्रोतव्यं भव्यं ते श्रद्धां निधाय मगधाधिप ॥ ४ ॥  
 दानं पूजां तथाप्यथ मुष्ण्यै ज्ञानेन संस्कृतम् । तत्पुराणश्रुतेः श्रव्यं तत्तदेव हितैषिभिः ॥ ५ ॥  
 अहङ्गिर्भाषितं सूक्तमनुयोगैश्चतुष्टयम् । तेषु पूर्वं पुराणानि तस्मात्प्रोक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥  
 सा जिह्वा तौ मनःकर्णौ यैर्बुद्धिश्चोत्तिचिन्तनाः । पूर्वादीनां पुराणानां पुरुषार्थोपदेशिनाम् ॥ ७ ॥  
 अस्त्यत्र पुष्करद्वीपः तन्मध्ये मानुषोत्तरः । नृसंचारस्य सीमासौ सर्वतो वलयाकृतिः ॥ ८ ॥  
 तदभ्यन्तरभागे स्तो भन्दरौ पूर्वपश्चिमौ । पूर्वस्मिन् भन्दरं देशो विदेहं पश्चिमे महान् ॥ ९ ॥  
 सीतोदोदकदे दुर्गावनखन्याकरोचितैः । अकृष्टपच्यसस्याधैः सुगन्धिभृंगुणैरभात् ॥ १० ॥  
 तस्मिन्देशे जनाः सर्वे वर्णत्रयत्रिकल्पिताः । स्त्रिधाः सूक्ष्मेक्षणाः प्रेक्ष्या विलोचनविशेषवत् ॥ ११ ॥  
 ऋजवो धार्मिका वीतदोषाः छेशसहिष्णवः । कर्षकाः सफलारम्भाः तपःस्थोच्चातिशेरेते ॥ १२ ॥

जो स्वयं शुद्ध है और जिन्होंने अपनी प्रभाके द्वारा समस्त सभाको एक वर्णकी बनाकर शुद्ध करके वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हैं ॥१॥ शरीरकी प्रभाके समान जिनकी वाणी भी हृदयित करनेवाली तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाली थी और जो आकाशमें देवरूपी ताराओंसे घिरे रहते थे उन चन्द्रप्रभ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जिनका नाम लेना भी जीवोंके समस्त पापोंको नष्ट कर देता है फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट करेगा ? इसलिए मैं पहलेके सात भवोंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा । हे भव्य श्रेणिक ! तुझे उसे श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए ॥३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण बुद्धि सम्यग्ज्ञानसे सुशोभित होते हैं तो वे मुक्तिके कारण होते हैं और बुद्धि वह सम्यग्ज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा अवश्य ही सुननेके योग्य है ॥५॥ अहन्त भगवान्ने अनुयोगोंके द्वारा जो चार प्रकारके सूक्त बतलाये है उनमें पुराण प्रथम सूक्त है । भगवान्ने इन पुराणोंसे ही सुननेका क्रम बतलाया है ॥६॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थका उपदेश देनेवाले भगवान् ऋषभदेव आदिके पुराणोंको जो जीभ कहती है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है वही जीभ है, वही कान है और वही मन है, अन्य नहीं ॥७॥

इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप है । उसके बीचमें मानुषोत्तर पर्वत है । यह पर्वत चारों ओरसे वलयके आकार गोल है तथा मनुष्योंके आवागमनकी सीमा है ॥८॥ उसके भीतरी भागमें दो सुमेरु पर्वत हैं एक पूर्व मेरु और दूसरा पश्चिम मेरु । पूर्व मेरुके पश्चिमकी ओर विदेहक्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश है । जो कि योग्य किला, वन, खाई, खाने और बिना बोये होनेवाली धान्य आदि पृथिवीके गुणोंसे सुशोभित है ॥९-१०॥ उस देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णमें विभक्त थे तथा नेत्र विशेषके समान स्नेहसे भरे हुए, सूक्ष्म पदार्थोंको देखनेवाले एवं दर्शनीय थे ॥११॥ उस देशके किसान तपस्त्रियोंका अतिक्रमण करते थे अर्थात् उनसे आगे बढ़े हुए थे । जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात् सरलपरिणामी होते हैं उसी प्रकार वहाँके किसान भी सरलपरिणामी-भोले-भाले थे, जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे-धर्मात्मा थे अथवा खेतकी रक्षाके लिए धर्म-धनुषसे

जलाशयाश्च सुस्वच्छाः सुखभोग्याः सपन्नकाः । संतापच्छेदिनोऽंगाधा मनोमयनहारिणः ॥ १३ ॥  
 क्षेत्राणि सर्वधान्यानि सर्वतर्पीणि सर्वदा । संपन्नानि महीमनुः कोष्ठागाराणि वा बभुः ॥ १४ ॥  
 ग्रामाः कुन्कुटसम्पत्त्याः सारा बहुकृषीबलाः । पशुधान्यघनापर्णाः नित्यारम्भा निराकुलाः ॥ १५ ॥  
 वीतदण्डादिबाधत्वाग्निगमाः सर्वसंपदः । वर्णाश्रमसमाकीर्णस्ते स्थानीयातुकारिणः ॥ १६ ॥  
 असंवारिपथोपेतः सफलाकण्टकद्रुमः । अदृष्टाष्टमयः प्रान्तवीथितन्वीवनाश्रयः ॥ १७ ॥  
 यथजनपदस्योक्तं नीतिशास्त्रविशारदैः । लक्षणं तस्य तस्यार्थं देवो लक्ष्यत्वमीयिवान् ॥ १८ ॥  
 हानिर्धनस्य सत्यान्ने सक्त्रियायाः फलावधौ । उन्नतेर्विनयस्थाने प्राणस्य परमायुषि ॥ १९ ॥  
 दुग्धेषु कृचयोरेव काठिन्यमतिवर्तते । गलेष्वेव प्रपातोऽपि तरुष्वेव दरीरिषु ॥ २० ॥  
 दण्डवृद्धे तुलायां च नागरादिषु तीक्ष्णता । रोधनं सेतुबन्धेषु शब्दशास्त्रेऽपवादभाक् ॥ २१ ॥

सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी वीतदोष-दोषोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी वीतदोष-निर्दोष थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए दोषाएँ—रात्रियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी क्षुधा तृषा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी क्षुधा तृषा आदिके कष्ट सहन करते थे । इस प्रकार सादृश्य होनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण था कि तपस्वी मनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किसानोंके आरम्भ निश्चित रूपसे सफल ही रहते थे ॥ १२ ॥ वहाँके सरोवर अत्यन्त निर्मल थे, सुखसे उपभोग करनेके योग्य थे, कमलोंसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाले थे, अगाध-गहरे थे और मन तथा नेत्रोंको हरण करनेवाले थे ॥ १३ ॥ वहाँके खेत राजाके भाण्डारके समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजाओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते हैं उसी प्रकार वहाँके खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते थे, राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार हमेशा सबको सन्तुष्ट करते हैं उसी प्रकार वहाँके खेत भी हमेशा सबको सन्तुष्ट रखते थे, और राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार सम्पन्न—सम्पत्तिसे युक्त रहते हैं उसी प्रकार वहाँके खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात् पन्नाः सम्पन्नाः' सब ओरसे प्राप्त करने योग्य थे ॥ १४ ॥ वहाँके गाँव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एकसे उड़कर दूसरेपर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें बहुतसे किसान रहते थे, पशु धन-धान्य आदिसे परिपूर्ण थे । उनमें निरन्तर काम-काज होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराकुल थे ॥ १५ ॥ वे गाँव दण्ड आदिकी बाधासे रहित होनेके कारण सर्वसम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, वर्णाश्रमसे भरपूर थे और वही रहनेवाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थे ॥ १६ ॥ वह देश ऐसे मार्गोंसे सहित था जिनमें जगह-जगह कन्धों पर्यन्त पानी भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी-दुर्गम थे, अथवा जो असंवारि—आने जानेकी रुकावटसे रहित थे । वहाँके वृक्ष फलोंसे लदे हुए तथा कोंटोंसे रहित थे । आठ प्रकारके भयोंमेंसे वहाँ एक भी भय दिखायी नहीं देता था और वहाँके वन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके आश्रय थे ॥ १७ ॥ नीतिशास्त्रके विद्वानोंने देशके जो-जो लक्षण कहे हैं यह देश उन सबका लक्ष्य था अर्थात् वे सब लक्षण इसमें पाये जाते थे ॥ १८ ॥ उस देशमें धनकी हानि सत्पात्रको दान देते समय होती थी अन्य समय नहीं । समीचीन क्रियाकी हानि फल प्राप्त होनेपर ही होती थी अन्य समय नहीं । उन्नतिकी हानि विनयके स्थानपर होती थी अन्य स्थानपर नहीं, और प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होनेपर ही होती थी अन्य समय नहीं ॥ १९ ॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थोंमें यदि कठोरता थी तो स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी अन्यत्र नहीं थी । प्रपात यदि था तो हाथियोंमें ही था अर्थात् उन्हींका मद झरता था अन्य मनुष्योंमें प्रपात अर्थात् पतन नहीं था । अथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थान-वर्ती वृक्षोंमें ही था अन्यत्र नहीं ॥ २० ॥ वहाँ यदि दण्ड था तो लज्र अथवा तराजूमें ही था वहाँके मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अर्थात् उनका कभी जुर्माना नहीं होता था । तीक्ष्णता-तेज-

१ नित्यारम्भानिराकुला ख०, ग० । २ असंवारिपथो ख०, ग० । ३ असंवारि क०, ।

निश्चिंशशब्दः खड्गेषु विश्वाशित्वं हुताशने । तापकत्वं खराभीषौ मारकत्वं यमाह्वये ॥ २२ ॥  
 धर्मो जैनेन्द्र एवास्मिन् दिवसे वा दिवाकरः । ततो नैकान्तवादानामुल्लूकानामिवोद्गमः ॥ २३ ॥  
 दुर्गाण्यासन् यथास्थानं सातत्येनानुसंस्थितैः । भृतानि यन्त्रशस्त्रान्धुयवसैन्यध्वरक्षकैः ॥ २४ ॥  
 तस्य मध्ये भ्रुमस्थाने ललाटे वा विशेषकम् । विशेषैः सर्वरम्याणां श्रीपुरं वामरं पुरम् ॥ २५ ॥  
 विकसन्नीलनीरेजसरोजालिविलोचनैः । स्वच्छवारिसरोवत्रैर्हंसत्परपुरश्रियम् ॥ २६ ॥  
 नानापसुनसुस्वादकेसरसवपायिनः । तन्नालिनोऽलिनीवृन्दैः प्रयान्त्यापानिकोत्सवम् ॥ २७ ॥  
 तदुत्तुङ्गमहासौधगेहैः समुरजारवैः । विश्राम्यन्तु भवन्तोऽत्रेत्याह्वयद्वा घनाघनान् ॥ २८ ॥  
 तदेव सर्ववस्तूनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठां न किं यान्ति तथा भोगैर्निरन्तरम् ॥ २९ ॥  
 यद्यदालोच्यते तत्तत्स्ववर्गीणेषु सत्तमम् । भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति करोति महतामपि ॥ ३० ॥  
 सत्कुलेषु समुद्भूतास्तत्र सर्वेऽपि सन्नताः । उत्पद्यन्ते यतः प्रेत्य स्वर्गजाः सुदृष्टयः ॥ ३१ ॥  
 स्वर्गः किमीदृशो वेति तत्रस्थाश्चारुदर्शनाः । सुकल्पार्थमेव कुर्वन्ति धर्मं न स्वर्गमेधया ॥ ३२ ॥  
 तन्नोत्सवे जनाः पूजां मङ्गलार्थं प्रकुर्वते । शोके तदपनोदार्थमेते जैर्नी विवेकिनः ॥ ३३ ॥  
 साध्यार्था इव साध्यन्ते जैनवादैः सुहेतुभिः । धर्माथं कामास्तज्जातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥

स्विता यदि थी तो कोतवाल आदिमें ही, वहाँके मनुष्योंमें तीक्ष्णता नहीं—क्रूरता नहीं थी । रुकावट केवल पुलोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी । और अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्रमें ही था वहाँके मनुष्योंमें अपवाद—अपयश नहीं था ॥ २१ ॥ निश्चिंश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात् कृपाण ही ( त्रिंशद्भ्योऽङ्कुलिभ्यो निर्गत इति निश्चिंशः ) तीस अंगुलसे बड़ी रहती थी, वहाँके मनुष्योंमें निश्चिंश—क्रूर शब्दका प्रयोग नहीं होता था । विश्वाशित्व अर्थात् सब चीजे खा जाना यह शब्द अग्निमें ही था वहाँके मनुष्योंमें विश्वाशित्व—सर्वभक्षकपना नहीं था । तापकत्व अर्थात् सन्ताप देना केवल सूर्यमें था वहाँके मनुष्योंमें नहीं था, और मारकत्व केवल यमराजके नामोंमें था वहाँके मनुष्योंमें नहीं था ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्ममें ही रहता था । यही कारण था कि वहाँपर उल्लुओंके समान एकान्त वादोंका उद्गम नहीं था ॥ २३ ॥ उस देशमें सदा यथास्थान रखे हुए यन्त्र, शस्त्र, जल, जौ, घोड़े और रक्षकोंसे भरे हुए किले थे ॥ २४ ॥ जिस प्रकार ललाटेके बीचमें तिलक होता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है । वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर वस्तुओंसे देवनगरके समान जान पड़ता था ॥ २५ ॥ खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा वह नगर शत्रुनगरोंकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था ॥ २६ ॥ उस देशमें अनेक प्रकारके फूलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले और भ्रमरियोंके समूहके साथ पान-गोष्ठीका आनन्द प्राप्त करते थे ॥ २७ ॥ उस नगरमें बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन, बने हुए थे, उनमें मृदंगोंका शब्द ही रहा था । जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 'आप लोग यहाँ विश्राम कीजिए' इस प्रकार वह नगर भेवोंको ही बुला रहा था ॥ २८ ॥ ऐसा मालूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुओंकी मानो खान था । यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें आनेपर वे समाप्त क्यों नहीं होतीं ? ॥ २९ ॥ उस नगरमें जो-जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्गमें सर्वश्रेष्ठ रहती थी अतः देवोंको भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है ? ॥ ३० ॥ वहाँके रहनेवाले सभी लोग उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, व्रतसहित थे तथा सम्यग्दृष्टि थे अतः वहाँके मरे हुए जीव रवर्गमें ही उत्पन्न होते थे ॥ ३१ ॥ 'स्वर्गमें क्या रखा ? वह तो ऐसा ही है' यह सोचकर वहाँके सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्वर्गकी इच्छासे नहीं ॥ ३२ ॥ उस नगरमें विवेकी मनुष्य उत्सवके समय मंगलके लिए और शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र भगवान्की पूजा किया करते थे ॥ ३३ ॥ वहाँके जैनवादी लोग अपरिमित सुख देनेवाले धर्म, अर्थ

द्वीपाद्धं चक्रवालो वा प्राकारो यत्परीतवान् । भियेव रविसंतापाह्नीनोऽभून्मणिरिमिषु ॥३५॥  
 श्रोपेणो नाम तस्यासीत् पतिः सुरपतिश्रुतिः । नतारिमौलिरनांशुवाकिंकासिक्रमाम्बुजः ॥३६॥  
 पाति यस्मिन् भुवं जिष्णौ दुष्टा विगतविक्रिथा । अभूवन् शक्तिवन्मन्त्रसंनिधौ वा सुर्वगमाः ॥३७॥  
 उपाया येन संचिन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । द्रुहः फलमतिस्फीतं समाहूर्त्वंदर्थितम् ॥३८॥  
 श्रीकान्ता नाम तस्यासीद् वनिता विनयान्विता । सती मृदुपद्वन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥३९॥  
 रूपाद्याः स्त्रीगुणास्तस्याः समुत्पन्नाः सुखावहाः । सुता इव सदा पात्या बन्धाश्च गुरुवत्सताम् ॥४०॥  
 अरीरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपादयो गुणाः । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीषिणः ॥४१॥  
 प्रतिच्छन्दः परस्त्रीणां वैषलैषा विनिर्मिता । गुणानामिव मञ्जूषा स्वमतिप्रतिपत्तये ॥४२॥  
 'अपापं सुखमच्छिन्नं' सस्नेहं समवृत्तिदम् । मिथुनं सत्समापौर्धैर्मिथुनं वामरं परम् ॥४३॥  
 स कदाचिन्महीनाथो निष्पुत्रत्वाच्छुवाहितः । इति स्वगतमेकाकी संतत्यर्थमचिन्तयत् ॥४४॥  
 स्त्रियः संसारवह्यर्थं सत्पुत्रास्तफलायिताः । न चेत्ते तस्य रामाभिः पापाभिः किं नृपापिनः ॥४५॥  
 यः पुत्रवदनाम्भोजं नापश्यद्दैवयोगतः । षड्खण्डश्रोमुखान्जने दृष्टेनाप्यस्य तेन किम् ॥४६॥  
 ततः पुरोधसः प्राप्तुं सुप्तं सद्रुपदेशतः । अनर्धैर्मणिभिः पञ्चवर्णैरञ्जितकाञ्चनै ॥४७॥

और कामको साध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए समीचीन हेतुओंसे सिद्ध करते थे ॥३४॥ उस नगरको घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करचरद्वीपके बीचमें पहा हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो। वह कोट अपने रत्नोंकी किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके सन्तापके भयसे छिप ही गया हो ॥३५॥ नमस्कार करनेवाले शत्रु राजाओंके मुकुटोंमें लगे हुए रत्नोंकी किरणरूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था ॥३६॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप सर्प विकाररहित हो जाते हैं उसी प्रकार विजयी श्रीषेणके प्रथिवीका पालन करनेपर सब दुष्ट लोग विकाररहित हो गये थे ॥३७॥ उसने साम, दान आदि उपायोंका ठीक-ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसलिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे ॥३८॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी स्त्री थी। वह श्रीकान्ता किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अर्थात् दुःश्रवत्व आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी सती अर्थात् पतिव्रता थी और अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार मृदुपद्वन्यासा अर्थात् कोमलकान्तपद्विन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी मृदुपद्वन्यासा अर्थात् कोमल चरणोंके निक्षेपसे सहित थी ॥३९॥ स्त्रियोंके रूप आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेवाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुओंके समान सज्जनोंके द्वारा बन्धनीय थे ॥४०॥ जिस प्रकार 'स्यादेवकार-स्यात् एव शब्द' (किसी अपेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है) से युक्त नय किसी विद्वान्के मनको आनन्दित करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दित करते थे ॥४१॥ वह स्त्री अन्य स्त्रियोंके लिए आदर्शके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म्म रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकर्षता बतलानेके लिए गुणोंकी पेट्टी ही बनायी हो ॥४२॥ वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरहित, अविनाशी, कभी नष्ट न होनेवाले और समान लुप्तिको देनेवाले उल्लूख सुख प्राप्त करता था ॥४३॥

वह राजा निष्पुत्र था अतः शोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करने लगा ॥४४॥ स्त्रियों संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके समान हैं। यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियोंसे क्या प्रयोजन है ? ॥४५॥ जिसने दैवयोगसे पुत्रका सुखकमल नहीं देखा है वह लह लखण्डकी लक्ष्मीका सुख भले ही देख ले पर उससे क्या लाभ है ॥४६॥ उसने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पुरोहितके उप-

विधाय जिनविम्बानि-प्रतिहार्यैः सहाष्टभिः । शृङ्गारादिविनिर्दिष्टैः संगतान्यष्टमङ्गलैः ॥४८॥  
 प्रतिष्ठाकल्पसंप्रोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमैः । कृत्वा महाभिषेकं च जिवसंगममङ्गलैः ॥४९॥  
 गन्धोदकैः स्वयं देव्या सहैवास्नात्तुवन् जिनाम् । व्यधादाष्टाह्निकीं पूजामैहिकामुत्रिकोदयाम् ॥५०॥  
 यातौ कतिपयैर्द्वौ दिनेः स्वप्नात् व्यलोकत । गजसिंहेन्दुपद्माभिषेकानीपद्भिर्निद्रिता ॥५१॥  
 तदैव गर्भसंक्रान्तिरभूत्स्यास्ततः क्रमात् । आलस्यमरुचिस्तन्द्रा जुगुप्सा वानिमित्त्वा ॥५२॥  
 अशक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्मुखम् । कुवथोरादृशौ तस्याः कालिमानं दिने दिने ॥५३॥  
 योषितां भूषणं कृत्वा श्लाघ्यं नान्यद्विभूषणम् । इति स्पष्टयितुं तैवा सर्वचेष्टा स्थिता ह्यिषा ॥५४॥  
 तस्या भाराक्षमत्वेन भूषणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुलानीव निशान्ते स्वल्पतां ययुः ॥५५॥  
 वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभूयय । चिरं विरम्य श्रव्यत्वात्प्रवाम्भोदावलेरिव ॥५६॥  
 कुयुः कुतूहलोत्पत्तिः वाग्भ्रमण्यर्बर्तिनाम् । एवं तद्गर्भचिह्नानि व्यक्तान्यन्यानि चामवन् ॥५७॥  
 प्रमोदात्प्राप्य राजानं प्रणम्याननसूचितम् । इति चैत्यानुवन् कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥५८॥  
 सरोजं बोधयाज्ञानेः कुमुदं वा हिमद्युतेः । व्यकसत्तन्मुखाम्भोजं श्रुतगर्भमहोदयात् ॥५९॥  
 चन्द्रोदयोन्वयाम्भोधेः कुलस्य तिलकायितः । प्रादुर्भावस्तन्जस्य न प्रतोषाक्ष कस्य वा ॥६०॥  
 अदृष्टवदनाम्भोजमपत्यं गर्भगं च माम् । एवं प्रतोषयत्येतत् दृष्टवत्रं किमुच्यते ॥६१॥  
 मत्वेति ताम्यो दत्त्वेष्टं स्वाप्तैः कतिपयैर्वृतैः । महादेवीगृहं गत्वा द्विगुणीभूतसमदः ॥६२॥

देशसे पाँच वर्षके असूय्य रत्नोंसे मिले सुवर्णकी जिन-प्रतिमाएँ बनवायीं। उन्हें आठ प्रतिहार्यों तथा शृंगार आदि आठ, मंगल-द्रव्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशास्त्रमें कही हुई क्रियाओंके क्रमसे उनकी प्रतिष्ठा करायी, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्के संसर्गसे मंगल रूप हुए गन्धोदकसे रानीके साथ स्वयंस्तान किया, जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी अभ्युदयको देनेवाली आष्टाह्निकी पूजा की ॥४७-५०॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होनेपर कुछ-कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे ॥५१॥ उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तन्द्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी ॥५२॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो जानेपर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समर्थ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिन कालिमाको धारण कर रहे थे ॥५३॥ स्त्रियोंके लिए लज्जा ही प्रशंसनीय आभूषण है अन्य आभूषण नहीं इत्यह स्पष्ट करनेके लिए ही-मानो उसकी समस्त चेष्टाएँ लज्जासे सहित हो गयी थीं ॥५४॥ जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार धारण करनेमें समर्थ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गये थे—विरल हो गये थे ॥५५॥ जिस प्रकार अल्प धनवाले मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे और नयी मेघमालाके शब्दके समान रुक-रुककर बहुत देर बाद मुनाई देते थे ॥५६॥ इस प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे । वे चिह्न कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे ॥५७॥ किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्षसे राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा । यद्यपि यह समाचार दासियोंके मुखकी प्रसन्नतासे पहले ही सूचित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था ॥५८॥ गर्भ धारणका समाचार सुनकर राजाका मुख कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमल और चन्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता है ॥५९॥ जो वंशरूपी समुद्रको वृद्धिगर्त करनेके लिए चन्द्रोदयके समान है अथवा कुलको अलंकृत करनेके लिए तिलकके समान है ऐसा पुत्रका प्रादुर्भाव किसके सन्तोषके लिए नहीं होता ? ॥६०॥ जिसका मुख कमल अभी देखनेको नहीं मिला है केवल गर्भमें ही स्थित है ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार सन्तुष्ट कर रहा है तब मुख दिखानेपर कितनी सन्तुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है ॥६१॥ ऐसा भगनकर राजाने उन दासियोंके लिए

अभितां वान्प्रपद्वीं रत्नगर्भामिव क्षितिम् । उपोदयार्कां प्राचीं वा तां ददर्श ह्यः सुखम् ॥ ६३ ॥  
सापि दृष्ट्वा महीनाथमभ्युत्थान्तु कृतोद्यमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थित्वा राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥  
नृपस्तयैकशय्यायामुपविश्य चिरं मुदा । सलज्जया सहालाप्य यथै तद्वृत्तिक्रिभिः ॥ ६५ ॥  
दिनेषु केषुचित्पश्चात्प्रातेषु प्रकटीभवत् । प्राक् पुण्याद् गुरुलुकादिशुभप्रहनिरीक्षणत् ॥ ६६ ॥  
हरेर्हरिदिवादित्यं सस्यपार्कं यथा शरत् । महोदयमिवाक्यातिरसूत सुसुत्तमम् ॥ ६७ ॥  
प्रबद्धमानभाग्यस्य योग्यस्य सकलश्रियः । श्रीवर्मैति शुभं नाम तस्य बन्धुजनो व्यधात् ॥ ६८ ॥  
प्रबोधो मूर्च्छितस्यैव दुर्बिधस्यैव वा निधिः । जयो वात्यल्पसैन्यस्य राजस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥  
तस्याद्भतेजसा रत्नदीपिका विहृतत्विषः । विभावर्चां समास्थाने नैरर्थक्यं प्रपदिरे ॥ ७० ॥  
शरीरवृद्धिस्तस्यासीद् मिषकशास्त्रोक्तवृत्तितः । शब्दशास्त्रादिभिः प्रज्ञावृद्धिः सुविहितक्रियाः ॥ ७१ ॥  
स राजा तेन पुत्रेण द्वीपोऽयमिव मेरुणा । तुङ्गेन संगतः श्रीमान् पालयन् वलयं क्षितिः ॥ ७२ ॥  
जितं श्रीपद्मानामनमवतीर्णं यदृच्छया । शिवंकरव्रतौद्याने कदाचिद्गनपालतः ॥ ७३ ॥  
श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा तां दिशं शिरसाऽनमत् । तदानीमेव संप्राप्य विश्वंशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥  
त्रिपरीत्य नमस्कृत्य तं यथास्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरिभ्रंशं बुद्ध्वा वस्तु यथोदितम् ॥ ७५ ॥  
भोगवृष्णामपास्याशु धर्मवृष्णान्तमानसः । दृत्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्राभाजीतज्जिनान्तिके ॥ ७६ ॥

इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित होता हुआ कुछ आप्त जनकोंके साथ वह रानीके घर गया ॥६२॥ वहाँ उसने नेत्रोंको सुख देनेवाली रानीको ऐसा देखा मानो मेघसे युक्त आकाश ही हो, अथवा रत्नगर्भा पृथ्वी ही हो अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सूर्यसे युक्त पूर्व दिशा ही हो ॥६३॥ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु 'हे देवि, बैठौ रहो' इस प्रकार राजाके मना किये जानेपर बैठौ रही ॥६४॥ राजा एक ही शय्यापर चिरकाल तक रानीके साथ बैठा रहा और लज्जासहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर हर्षित होता हुआ वापिस चला गया ॥६५॥

तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर पुण्य कर्मके उदयसे अथवा गुरु शुभ आदि शुभ ग्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची) सूर्यको उत्पन्न करती है, शरदृच्छतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥६६-६७॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लक्ष्मी पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने 'श्रीवर्मा' यह शुभ नाम रखा ॥६८॥ जिस प्रकार मूर्च्छितको सचेत होनेसे सन्तोष होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे सन्तोष होता है और थोड़ी सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे सन्तोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको सन्तोष हुआ था ॥६९॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गयी है ऐसे रत्नोंके वीपक रात्रिके समय सभा-भवनमें निरर्थक हो गये थे ॥७०॥ उसके शरीरकी वृद्धिवैद्यक शास्त्रमें कही हुई विधि-के अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओंको करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रोंके अनुसार हुई थी ॥७१॥ जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु पर्वतसे सुशोभित होता है उसी प्रकार पृथ्वी-मण्डलका पालन करनेवाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्रसे सुशोभित हो रहा था ॥७२॥ किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानमें श्रीपद्म नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे थे । वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार किया और बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, और यथास्थान आसन ग्रहण किया । राजानें उनसे धर्मकर्म स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोंकी वृष्णा छोड़ी, धर्मकी वृष्णामें अपना मन



श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या<sup>१</sup> भूतमिध्यामहातमाः । अस्थासुवर्गुणस्थानमाद्यं सोपानमुच्यते ॥ ७७ ॥  
 सन्निधाने च तस्यायः<sup>२</sup> सन्निधापयति स्वयम् । यथाकाममशेषार्थास्तैः स प्रापेत्सितं सुखम् ॥ ७८ ॥  
 असौ कदाचिदाषाढपौर्णमासीदिने जितान् । उपोष्याभ्यर्च्य सत्त्वात्सै रात्रौ हर्म्यतले स्थितः ॥ ७९ ॥  
 विलोक्यापातमुल्काया भोगसारे विरक्तवान् । प्राग्बिभ्राणितसात्राज्यः श्रीकान्त्यायाप्रसूनवे ॥ ८० ॥  
 अभ्यासे श्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विभाय विधिवध्यान्ते संन्यस्य श्रीप्रभे गिरौ ॥ ८१ ॥  
 श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे विमाने सागरीपम- । द्वित्वायुः श्रीधरो नाम्ना देवः समुदपद्यत ॥ ८२ ॥  
 अणिमाद्रिगुणः सप्तहस्तो वैक्रियिकाङ्गभाक् । चतुर्थलेइयो मासेन निःश्वसन् मनसाहरन् ॥ ८३ ॥  
 वर्षद्वयसहस्रेण पुद्गलानमृतात्मकान् । तृप्तः कायप्रवीचाराद् व्यासाद्यक्षमातलावधिः ॥ ८४ ॥  
 बलतेजोमहाविक्रियाभिः स्वावधिसम्मितः । सुस्थितोऽनुभवन्सौख्यं स्वपुण्यपरिपाकजम् ॥ ८५ ॥  
 दक्षिणे धातकीखण्डे प्राचीष्वकारपर्वतात् । भारते<sup>३</sup> विषये श्रीमदलकास्थे पुरोत्तमम् ॥ ८६ ॥  
 अयोध्याह्णं मृपस्तस्मिन्नावभाजितंजयः । आसीदजितसेनास्य देवी सुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥  
 सा कदाचिच्चतुर्जाप्यै परिपूज्य जिनेश्वरान् । सुप्ता तच्चिन्तया स्वप्नान्विलोक्याष्टौ शुभानिमान् ॥ ८८ ॥  
 गजेन्द्रवृषसिंहेन्द्रुवीरु पद्मसरोवरम् । शङ्खं पूर्णघटं चैतत् फलान्यप्यजितंजयात् ॥ ८९ ॥  
 गजासुत्रं गभीरं गोः सिंहेनानन्तवीर्यकम् । चन्द्रेण तर्पकं तेजः प्रतापाख्यं दिवाकरात् ॥ ९० ॥

लगाया, श्रीवर्मा पुत्रके लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपद्म जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥७३-७६॥ जिनेन्द्र भगवान्के उपदेशसे जिसका मिथ्यादर्शनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया है ऐसे श्रीवर्माने भी वह चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीढ़ी कहलाती है ॥७७॥ चतुर्थ गुणस्थानके सन्निधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थोंको सन्निहित-निकटस्थ करता रहता है । उन पदार्थोंसे श्रीवर्माने इच्छित सुख प्राप्त किया था ॥७८॥

किसी समय राजा श्रीवर्मा आषाढ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवान्की उपासना और पूजा कर अपने आप्तजनोंके साथ रात्रिमें महलकी छतपर बैठा था ॥७९॥ वहाँ उल्कापात देखकर वह भोगोंसे विरक्त हो गया । उसने श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया और श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रभ नामक पर्वतपर विधिपूर्वक संन्यासमरण किया ॥८०-८१॥ जिससे प्रथम स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें दो सागरकी आयु वाला श्रीधर नामका देव हुआ ॥८२॥ वह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त था, सात हाथ ऊँचा उसका शरीर था, वैक्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेश्यावाला था, एक माहमें श्वास लेता था; दो हजार वर्षमें अमृतमय पुद्गलोंका मानसिक आहार लेता था, काय-प्रवीचारेसे सन्तुष्ट रहता था, प्रथम पृथ्वी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथ्वी तक थी, इस तरह अपने पुण्य कर्मके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका उपभोग करता हुआ वह सुखसे रहता था ॥८३-८५॥

धातकीखण्ड द्वीपमें दक्षिणकी ओर जो इष्वकाकार पर्वत है उस पर्वतसे पूर्वकी ओर भरत-क्षेत्रमें एक अलका नामका सम्पन्न देश है । उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है । उसमें अजितंजय राजा सुशोभित था । उसकी अजितसेना नामकी वह रानो थी जो कि पुत्र-सुखको प्रदान करती थी ॥८६-८७॥ किसी एक दिन पुत्र-प्राप्तिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की और रात्रिको पुत्रकी चिन्ता करती हुई सो गयी । प्रातः काल नीचे लिखे हुए आठ-शुभ स्वप्न उसने देखे । हाथी, बैल, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कमलोंसे सुशोभित सरोवर, शंख और पूर्ण कलश । राजा अजितंजयसे उसने स्वप्नोंका निग्न प्रकार फल ज्ञात किया । हे देवि ! हाथी देखनेसे तुम पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे वह पुत्र गम्भीर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तबलका धारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको सन्तुष्ट करनेवाला होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और

१. वीतमिध्या-ख०, ग०। २. पुण्यम् । ३. मनसाहरत् ल०। ४. विजये क०, ख०, ग०, घ०। ५. सुखसुतप्रदा ।

सरसा शङ्खचक्रादि द्वात्रिंशलक्षणानिबन्धितम् । शङ्खेन चक्रिणं पूर्णकुम्भाज्जात्वाग्निधीशिनम् ॥ ९३ ॥  
 वृष्टा कतिपर्यैमसैत्तं श्रीधरमजीजनत् । व्यधादजितसेनाख्यां राजास्य जितविद्विषः ॥ ९२ ॥  
 तेन तेजस्विना राजा सदाभाद् भास्करेण वा । दिवसो विरजास्ताश्च तनुजः कुलभूषणम् ॥ ९३ ॥  
 स्वयंप्रभास्यतीर्थंशमशोकवनमागतम् । परेषुः सपरिवारः संप्राप्याभ्यर्च्य सन्नतः ॥ ९४ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं सतां त्व्यार्थं राज्यं निर्जितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संवम्यासीस्व केवली ॥ ९५ ॥  
 राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि रक्तया स वशीकृतः । प्रौढ एव युवा कामं सुख्यं सौख्यमुपेयिवान् ॥ ९६ ॥  
 तत्पुण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिणः । यद्यत्तत्समुत्पन्नं चेतनेतरस्मेदकम् ॥ ९७ ॥  
 चक्रमाक्रान्तदिवचक्रमस्य तस्योद्भवेऽभवत् । पुनर्दिग्बिजयो जेतुः पुरबाह्यविहारवत् ॥ ९८ ॥  
 नांमुखोऽनेन कोऽप्यासीन्न परिग्रहमृच्छना । षट्खण्डाधीशिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यानुबन्धि यत् ॥ ९९ ॥  
 दुःखं स्वकर्मपाकेन सुखं तदनुगलानाद् । प्रजानां तस्य साम्राज्ये तन्नामिः सोऽभिनम्यते ॥ १०० ॥  
 देवविद्याधराधीशमुकुटाम्रेण सधृतीन् । विच्छायाकृत्य रत्नांशुस्तदाज्ञैवोच्छ्रिता बभौ ॥ १०१ ॥  
 नित्योदयस्य चेन्न स्यात् पद्मानन्दकृतो बलम् । चण्डद्युतेः कथं पाति शक्तोऽप्यक्षः स्वयं दिशम् ॥ १०२ ॥  
 विधिवैधा न चेदग्निं स्थापयेद्रक्षितुं दिशम् । स्वयोनिदाहिना कोऽपि क्वचित् केनापि रक्षितः ॥ १०३ ॥  
 पालको मारको वेति नान्तकं सर्वभक्षिणम् । किं वेति वेधास्तं पातुं पापिनं परिकल्पयन् ॥ १०४ ॥

प्रतापसे युक्त होगा, सरोवरके देखनेसे शंख-चक्र आदि बत्तीस लक्षणोंसे सहित होगा, शंख देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे 'निधियोंका स्वामी' होगा ॥८-९१॥ स्वर्गोका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही सन्तुष्ट हुई । तदनन्तर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया । राजाने शत्रुओंको जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रखा ॥९२॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूर्यसे सुशोभित होता है । यथार्थमें ऐसा पुत्र ही कुलका आभूषण होता है ॥९३॥ दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीर्थकर अशोक वनमें आये । राजाने परिवारके साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्जनोंके छोड़ने योग्य राज्य शत्रुओंको जीतनेवाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं कैवलज्ञानी बन गया ॥९४-९५॥ इधर अनुरागसे भरी हुई राज्य-लक्ष्मीने कुमार अजितसेनको अपने वश कर लिया जिससे वह युवावस्थामें ही प्रौढ़की तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने लगा ॥९६॥ उसके पुण्य कर्मके उदयसे चक्रवर्तीके चक्ररत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह-सब आकर उत्पन्न हो गयी ॥९७॥ उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेवाला चक्ररत्न प्रकट हुआ । चक्ररत्नके प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्बिजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो गया ॥९८॥ इस चक्रवर्तीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था और यद्यपि यह छह खण्डका स्वामी था फिर भी परिग्रहमें इसकी आसक्ति नहीं थी । यथार्थमें पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्मका बन्ध करनेवाला हो ॥९९॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अज्ञभक्तमौद्दयसे था और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक् रक्षा होनेसे था । यही कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना करती थी ॥१००॥ देव और विद्याधर राजाओंके मुकुटोंके अग्रभागपर चमकनेवाले रत्नोंकी किरणोंको निःप्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी ॥१०१॥ यदि निरन्तर उदय रहनेवाले और कर्मलोंको आनन्दित करनेवाले सूर्यका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति होकर भी अपनी दिशाको रक्षा कैसे करता ! ॥१०२॥ विधाता अवश्य ही बुद्धि-हीन है क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आप्त दिशाकी रक्षाके लिए अन्निकी क्यों नियुक्त करता ? भला, जो अपने जन्मदाताका जलनेवाला है उससे भी क्या कहीं किसीकी रक्षा हुई है ? ॥१०३॥ क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक ? फिर भी उसने उसी सर्व-

सुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वजीवितेऽपि सन्देहो नैर्ऋतः कस्य पालकः ॥१०५॥  
 कालकीलां विलम्बालं (?) पाशहस्तो जलप्रियः । स नदीनाश्रयः पाशो प्रजानां केन पालकः ॥१०६॥  
 धूमध्वजसखोऽस्यास्तुः स्वयमन्यांश्च चालयन् । पालकः स्थापितस्तादृक् स किमेकत्र तिष्ठति ॥१०७॥  
 लुब्धो न लभते पुण्यं विपुण्यः केन पालकः । धनेन चेद्दाता तत् गुह्यकोऽपि न पालकः ॥ १०८ ॥  
 ईशानोऽन्यां दशां यातो गणने सर्वपश्चिमः । पिशाचावेहितो दुष्टः कथमेव दिशः पतिः ॥ १०९ ॥  
 कृत्वैतान् बुद्धिवैकल्यात्प्रमाण्डं प्रजापतिः । न्यधादेकमिमं मन्ये विश्वदिवपालनक्षमम् ॥ ११० ॥  
 इत्युदात्तवचोमाला विरचयामिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिवचकः शक्रादीन् सोऽतिलङ्घते ॥ १११ ॥  
 धनं दानं मतिर्धर्मं शौर्यं भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तनुमोगे तस्य बुद्धिमयाचिरम् ॥ ११२ ॥  
 अपरायत्तमच्छिन्नमबाधमयवर्द्धनम् । गुणान्पुण्यान् वितृष्णः सन् सुखेन सुखमोचिवान् ॥ ११३ ॥  
 ऋतं वाचि दया चित्ते धर्मकर्मणि निर्मलः । स्वान् गुणान् वा प्रजाः पाति राजर्षिः केन नास्तु सः ॥११४॥  
 मान्ये नैसर्गिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पापेऽपि रिपौ नोपैति विक्रियाम् ॥ ११५ ॥  
 न हि मूलहरः कोऽपि नापि कोऽपि कदर्थकः । तादात्विकोऽपि तद्राज्ये सर्वं सद्बन्धकारिणः ॥ ११६ ॥

भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥१०४॥ जो कुत्तेके स्थानपर रहता है, दीन है, सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे सन्देह है ऐसा नैऋत किसकी रक्षा कर सकता है ? ॥१०५॥ जो जल भूमिमें विद्यमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है, जिसके हाथमें पाश है, जो जलप्रिय है—जिसे जल प्रिय है (पक्षमें जिसे जड-मूर्ख प्रिय है) और जो नदीनाश्रय है—समुद्रमें रहता है (पक्षमें दीन मनुष्योंका आश्रय नहीं है) ऐसा चरुण प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ? ॥१०६॥ जो अग्निका मित्र है, स्वयं अस्थिर है और दूसरोंको चलाता रहता है उस वायुको विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सो ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है ? ॥१०७॥ जो लोभी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन है वह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुवेर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधाताने रक्षक कैसे बना दिया ? ॥१०८॥ ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, पिशाचोंसे घिरा हुआ है और दुष्ट है इसलिए यह ऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ? ॥१०९॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाओंका रक्षक बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब विधाताने अपना सारा अपयश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ बनाया था ॥११०॥ इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते हैं और अपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि देवोंका उल्लंघन करता था ॥१११॥ उसका धन दान देनेमें, बुद्धि धार्मिक कार्योंमें, शूरवीरता प्राणियोंकी रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभोगमें सदा वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥११२॥ उसके पुण्यकी वृद्धि दूसरेके अधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी बाधा नहीं आती थी। इस प्रकार वह तृष्णारहित होकर गुणोंका पोषण करता हुआ बड़े आरामसे सुखको प्राप्त होता था ॥११३॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योंमें निर्मलता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्षि क्यों न हो ? ॥११४॥ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो प्राण हरण करनेवाले पापी शत्रुपर भी वह विकारको क्यों नहीं प्राप्त होता ॥११५॥ उसके राज्यमें न तो कोई मूलहर था—मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कदर्थ था—अतिशय कृपण था और

१ 'कालिलेखाविलम्बालः' इति पाठो भवेत् । कलिलस्यैव जलस्य इयं कालिला सा चासौ इला च भूमि-  
 स्चेति कालिलेला सर्यां विद्यमानो विलो गर्तसन्निभो नीचैःप्रदेशः तत्र विद्यमानो व्यालो मकरादिजन्तुरिव, इति  
 तदर्थः । २ जलं प्रियो यस्य सः, पक्षे डलयोरभेदात् जडो मूर्खः प्रियो यस्य सः । ३ नदीनाश्रयः स्वामी  
 नदीनः समुद्रः स आश्रयो यस्य स, पक्षे न दीनानाम् आश्रय इति नदीनाश्रयः 'सह सुपा' इत्यनेन समासः ।

इति तस्मिन् महीं पाति सौराज्ये सति भूपते । प्रजाः प्रजापतिं मत्वा तपैश्च सुमेधसम् ॥११०॥  
 रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दश नवाभवत् । नवयौवनसंप्राप्तौ प्राप्तपुण्योदयात् प्रभोः ॥१११॥  
 भाजनं भोजनं शय्या चमूवाहिनमासनम् । निधीरत्नं पुंश्च नाट्यमिति भोगान्दशान्वभूत् ॥११२॥  
 श्रद्धादिगुणसंपन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्त्वाञ्च सते मासोपवासिने ॥१२०॥  
 गृहीतनवपुण्यात्मा वसुधारादिपञ्चकम् । प्रापाश्रयमंनायं किं सदनुष्ठानतत्परैः ॥१२१॥  
 असौ मनोहरोद्याने गुणप्रमजिनेश्वरम् । परेद्युः प्राप्य तत्पोकत् धर्मसारं रसायनम् ॥१२२॥  
 पीत्वा स्वभवसम्बन्धप्रतिबन्धुप्रचोदितः । सद्यो निर्विद्य सात्राज्यं त्रितीयं जितशत्रवे ॥१२३॥  
 त्रैलोक्यजयिनं जेतुं मोहराजं कृतोद्यमः । राजभिर्बहुभिः सार्द्धं गृहीत्वा साधनं तपः ॥१२४॥  
 चरित्वा निरतीचारं तनुं त्यक्त्वायुषोऽवधौ । नमस्तिलकगिर्ये शान्तकारत्रिमानरा ॥१२५॥  
 अच्युतेन्द्रोऽजनिष्ठासन्निविष्टः । हस्तत्रयप्रमाणान्निर्घातुतनुमास्करः ॥१२६॥  
 शुक्लेश्यः श्वसन्मासैरेकादशमिराहर्त् । द्वाविंशतिसहस्राब्दैर्मनसा ऽऽहारमामरम् ॥१२७॥  
 तमःप्रभावधिष्याप्तदेशावधिषिलोचनः । तत्क्षेत्रव्यापिसत्तेजोबलोत्तरशरीरभाक् ॥१२८॥  
 दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा स्वायुर्नते विद्युद्दहक् । प्राग्भागधातकीखण्डे सीतादक्षिणकूलगे ॥१२९॥  
 विषये मङ्गलावत्यां रत्नसंचयं पूषतिः । देव्यां कनकमालायां वल्लभः कनकप्रभः ॥१३०॥

न कोई तांदात्विक था—अभिष्यत्का विचार न रख वर्तमानमें ही मौज उड़ानेवाला था, किन्तु सभी समीचीन कार्योंमें खर्च करनेवाले थे ॥११६॥ इस प्रकार जब वह राजा पृथिवीका पालन करता था तब सब ओर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान् राजाको ब्रह्मा मानकर वृद्धि को प्राप्त हो रही थी ॥११७॥ जब नव यौवन प्राप्त हुआ तब उस राजाके पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके उदयसे चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई थी ॥११८॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सबारी, आसन, निधि, रत्न, नगर और नाट्य इन दश भोगोंका वह अनुभव करता था ॥११९॥ श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न उस राजाने किसी समय एक माहका उपवास करनेवाले अरिन्दम नामक साधुके लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्न-वृष्टि आदि पंचाश्रय प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम कार्योंके करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको क्या दुर्लभ है ? ॥१२०-१२१॥ दूसरे दिन वह राजा, गुणप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमें गया । वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धर्मरूपी रसायनका पान किया, अपने पूर्व भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शीघ्र ही त्रैराज्य प्राप्त कर लिया । वह जितशत्रु नामक पुत्रके लिए राज्य देकर त्रैलोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुत-से राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया । इस प्रकार निरतिचार तप तपकर आयु के अन्तमें वह नमस्तिलक नामक पर्वतके अप्रभागपर शरीर छोड़ सोलहवें स्वर्गके शान्तकार विमानमें अच्युतेन्द्र हुआ । वहाँ उसकी बाईस सागरकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्लेश्य थी, वह ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र लठीं पृथिवी तकके पदार्थों तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, बल तथा वैक्रियिक शरीर भी लठीं पृथिवी तक व्याप्त हो सकता था ॥१२२-१२३॥ इस प्रकार निर्मल सम्यदर्शनको धारण करनेवाला वह अच्युतेन्द्र चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोग आयुके अन्तमें कहीं उत्पन्न हुआ यह कहते हैं ॥१२६॥

पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीता-नदीके दाहिने तटपर एक मङ्गलावती नामका देश था । उसके रत्नसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे । उनकी कनकमाला नामकी रानी थी । वह अहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके शुभ स्वप्नों-द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मानाभ नामका पुत्र

१ जिनेशितम् ल० । २ स्वभाव क०, घ० । स्वभव. ख०, ग०, ल० । ३ रामाभि. ल० । ४ मनि-सोहार-क०, ख०, घ० । ५ प्राग्भागे ल० । ६ रत्नसंचयभूपति. ख० ।

पद्मनाभः सुतो जातस्तयोः सुस्वप्नपूर्वकम् । बालानुकूलपर्युष्टिविधेयैः सोऽभ्यवर्द्धत ॥ १३१ ॥  
 उपयोगक्षमाशोषपर्यासिपतिनिष्ठितम् । आरोप्य तं व्रतं राजा विद्यागृहमवीविशत् ॥ १३२ ॥  
 अमिजातपरीवारो दासहस्तिपकादिकान् । दूरीकृत्य स निःशेषा विद्याः शिक्षितुमुद्ययौ ॥ १३३ ॥  
 तथेन्द्रियततिस्तेन परानीयत सा यथा । निजार्थैः सर्वभावेन तनोति प्रीतिमात्मनः ॥ १३४ ॥  
 स धीमान् वृद्धशंयोगं व्यधाद् विनयवृद्धये । विनयः शास्त्रनिर्णयः कृत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥  
 तं संपूर्णकलं प्राप्य कान्तं सहजकृत्रिमौ । राजानं गुरुशुक्रौ वा रंजतुर्विनयौ शृणुम् ॥ १३६ ॥  
 स धीमान् षोडशे वर्षे विरेजे प्राप्य यौवनम् । वनं सुष्ठु विनीतात्मा संयतो वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥  
 रूपान्वयवयः शिक्षासंपन्नं तमविक्रियम्<sup>१</sup> । भद्रं गजं विनीतात्मा<sup>२</sup> समालोक्य मुदा पिता ॥ १३८ ॥  
 विद्यापूजां विधायीत्य जिनपूजापुरःसरम् । संस्कृतस्यैव रत्नस्य व्यधाद् बुद्धिं क्रियान्तरे ॥ १३९ ॥  
 कलाभिरिव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयात् । रम्यं राजा तमूर्जो<sup>३</sup> वा प्रमदाभिरपूरयन् ॥ १४० ॥  
 तस्य सोमप्रमादीनां देवीनामवन् सुताः । शुभाः सुवर्णनामाद्याः भास्करस्यैव मानवः ॥ १४१ ॥  
 पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान् परीतः कनकप्रभः । स्वराज्यं पालयन्नेवं सुखेनान्येद्युद्धर्षीः ॥ १४२ ॥  
 मनोहरवने धर्मं श्रीधराजिनपुङ्गवात् । श्रुत्वा संयोज्य साम्राज्यं सुनीं संयम्य निर्वृतः ॥ १४३ ॥  
 पद्मनाभश्च तत्रैव गृहीतोपासकव्रतः । तन्नावापगतव्याप्तममाल्यैः संप्रवर्तयन् ॥ १४४ ॥

उत्पन्न हुआ । पद्मनाभ, बालकोचित सेवा-विशेषके द्वारा निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥१३०-१३१॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पूर्णता हो जानेपर राजाने उसे व्रत द्वेकर विद्यागृहमें प्रविष्ट कराया ॥१३२॥ कुलीन विद्वानोंके साथ रहनेवाला वह राजकुमार, दास तथा महावत आदिको दूर कर अर्थात् इनकी अनेक कलाओंको छोड़कर अन्य समस्त विद्याओंके सीखनेमें उद्यम करने लगा ॥१३३॥ उसने इन्द्रियोंके समूहको इस प्रकार जीत रखा था कि वे इन्द्रियों सब रूपसे अपने विषयोंके द्वारा केवल आत्माके साथ ही प्रेम बढ़ाती थीं ॥१३४॥ वह बुद्धिमान् विनयकी वृद्धिके लिए सदा वृद्धजन्योंकी संगति करता था । शास्त्रोंसे निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्वभावसे ही विनय करना स्वाभाविक विनय है ॥१३५॥ जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमाको पाकर गुरु और शुक्र ग्रह अत्यन्त सुशोभित होते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण कलाओंको धारण करनेवाले अतिशय सुन्दर उस राजकुमारको पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों प्रकारके विनय अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥१३६॥ वह बुद्धिमान् राजकुमार सोलहवें वर्षमें यौवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान् जितेन्द्रिय संयमी वनको पाकर सुशोभित होता है ॥१३७॥ जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है उसीप्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे रहित पुत्रको देखकर पिता बहुत ही हर्षित हुए । उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्की पूजाके साथ उसकी विद्याका आदर किया तथा संस्कार किये हुए रत्नके समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्यमें लगायी ॥१३८-१३९॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्लपक्षके आश्रयसे कलाओंके द्वारा बालचन्द्रको पूर्ण किया जाता है उसी प्रकार बलवान् राजाने उस सुन्दर पुत्रको अनेक स्त्रियोंसे पूर्ण किया था अर्थात् उसका अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था ॥१४०॥ जिस प्रकार सूर्यके किरणें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियोंके सुवर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥१४१॥ इस प्रकार पुत्र-पौत्रादिसे विरे हुए श्रीमान् और बुद्धिमान् राजा कनकप्रभ सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे ॥१४२॥

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराजसे धर्मका स्वरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-क्रमसे निर्वाण प्राप्त कर लिया ॥१४३॥ पद्मनाभने भी उन्हीं जिनराजके समीप श्रावकके व्रत लिये तथा मन्त्रियोंके साथ

१ विनीतः ख० । २-तमविक्रियः ल० । ३ भद्राङ्गजं क०, ग०, घ० । ४ विनेता वा क०, ख०, ग०, घ० । ५ तमूर्जो वा० ग० । ६ भाजनम् ग० । ७ 'तन्वः स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचित्तनम्' ।

विश्रममहाससंस्वर्गविनोदरतिपेशलैः । कामिनीनां कलाकपैः<sup>१</sup> सविलासीविलोकनैः ॥ १४५ ॥  
 अनङ्गपूर्वरङ्गस्य पुष्पाञ्जलिनिभैः<sup>२</sup> शुभैः । समप्रेमसमुत्पन्नैः प्रसादं प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥  
 कामकल्पदुर्मोदभूतं परिपक्वं फलोत्तमम् । रामाप्रेमोपनीतं सा<sup>३</sup> सीमाऽऽसीत्तस्य निर्दूतैः ॥ १४७ ॥  
 प्राक्तनोपाचयुष्यस फलमेतदिति स्फुटम् । प्रबोधयन्नसौ मृदानुघादीशिरभृत् सुखी ॥ १४८ ॥  
 सोऽपि श्रीधरसाक्षिधे बुद्ध्वा धर्मं बुधोत्तमः । संसारमोक्षयाथात्म्यमात्मन्येवमचिन्तयत् ॥ १४९ ॥  
 याचदौदधिको भावस्तावत्संस्तिरात्मनः । स च कर्मणि तत्कर्म तावद्यावत्सकारणम् ॥ १५० ॥  
 कारणान्यपि पञ्चैव मिथ्यात्वादीनि कर्मणः । मिथ्यात्वे सत्यवश्यं स्यात्तत्र शेषं चतुष्टयम् ॥ १५१ ॥  
 असंयमे त्रयं ह्ये स्तः प्रमादे योगसंज्ञकम्<sup>४</sup> । कषाये मिःकषायस्य योग एव हि बन्धकृत् ॥ १५२ ॥  
 स्वस्मिन् स्वस्मिन् गुणस्थाने मिथ्यात्वादेर्विनाशनात् । स्वहेतोस्तत्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यति ॥ १५३ ॥  
 सदाविद्यितयं नक्ष्यत् पश्चात्तच्च त्वकालतः । आपर्यन्तगुणस्थानात्तत्क्षयात्संघटेः क्षयः ॥ १५४ ॥  
 संसारे प्रलयं याते पापे जन्मादिकक्षणे । क्षायिकैरात्मनो भावैरात्मन्यात्मा समेषते ॥ १५५ ॥  
 इति तत्त्वं जिनोद्दिष्टमजानानोऽन्धवच्चिरम् । भ्रान्तः संसारकान्तारे दुर्गे दुःखी<sup>५</sup> दुरन्तकैः ॥ १५६ ॥  
 असंयमादिकं सर्वमुजिज्ञत्वा कर्मकारणम् । शुद्धश्रद्धादिमोक्षाङ्गपञ्चकं समुपैयहम् ॥ १५७ ॥

स्वराष्ट्र और पर-राष्ट्रीकी नीतिका विचार करता हुआ वह सुखसे रहने लगा ॥१४४॥ परस्परके समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रंगकी शुभ पुष्पाञ्जलिके समान अत्यन्त कोमल स्त्रियोंकी विनय, हँसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर बातचीत और चंचल चित्तवनोंके द्वारा वह चित्त की परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥१४५-१४६॥ कामदेव रूपी कल्प-वृक्षसे उत्पन्न हुए, स्त्रियोंके प्रेमसे प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल राजा पद्मनाभके सुखकी सीमा हुए थे ॥१४७॥ ये सब भोगोपभोग पूर्वभवमें किये हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूर्ख मनुष्योंको स्पष्ट रीतिसे बतलाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥१४८॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मनाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार और मोक्षका यथार्थ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा ॥१४९॥ उसने विचार किया कि 'जब तक औदयिक भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-भ्रमण करना पड़ता है, औदयिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कर्म रहते हैं और कर्म तब तक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते हैं ॥१५०॥ कर्मके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं । उनमें-से जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ बाकी के चार कारण अवश्य रहते हैं ॥१५१॥ जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कषाय और योग ये तीन कारण रहते हैं । जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ उसके सिवाय योग और कषाय ये दो कारण रहते हैं । जहाँ कषाय रहता है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है और जहाँ कषायका अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बन्धका कारण रहता है ॥१५२॥ अपने-अपने गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता है ॥१५३॥ पहले सत्ता, बन्ध और उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चात् चौदहवें गुण स्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होते हैं तथा कर्मके नाश होनेसे संसारका नाश हो जाता है ॥१५४॥ जो पाप रूप है और जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है ऐसे संसारके नष्ट हो जानेपर आत्माके क्षायिक भाव ही शेष रह जाते हैं । उस समय यह आत्मा अपने आपमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है ॥१५५॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा कहे हुए तत्त्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी दुर्गम वनमें अन्धके समान चिरकालसे भटक रहा है ॥१५६॥ अब मैं अत्यंयम आदि कर्मबन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोक्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त होता हूँ—धारण करता हूँ ॥१५७॥

१ सविलासीविलोकनं. ख० । २ निभः ल० । ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० ।  
 ४ योगसंज्ञके ल० । ५ दुःखे ख० ।

ह्यन्तस्तत्त्वतो ज्ञात्वा प्रभानांभो हित्वाहिते ।<sup>१</sup> दृत्वा सुवर्णनाभाय प्रभावं बाह्यसंपदः ॥ १५८ ॥  
 राजभिर्भृद्भिः साधं संयमं प्रतिपद्य सः । समाचरंश्चतुर्भेदे प्रसिद्धे मुक्तिसाधने ॥ १५९ ॥  
 द्व्यष्टकारणसंप्राप्तभावनो नामतीर्थकृत् । स्वीकृत्यैकादशाङ्गाधिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥  
 सिंहनिष्क्रीडिताद्युग्मं विधायाद्युधेन्दुस्तरम्<sup>२</sup> । कालान्तं सम्यगाराध्य समुत्सृष्टशरीरकः ॥ १६१ ॥  
 वैजयन्ते त्रयत्रिंशत्सागरायुरजायत । पूर्वोक्तदेहलेद्यादिविदोषो दिव्यसौख्यमाकृ ॥ १६२ ॥  
 तस्मिन् पद्मासद्योषायुष्या<sup>३</sup> गमिष्यति भूतले । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे नृपश्चन्द्रपुराधिपः<sup>४</sup> ॥ १६३ ॥  
 इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥  
 वसुधारां सुरैः प्राप्ता देवीभिः परिवारिता । दिव्यवस्त्रस्त्रगालेषयनादिसुखोचिता ॥ १६५ ॥  
 चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वप्नान् याममनोहरे । दृष्ट्वा षोडश संतुष्य समुत्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥  
 पुण्यप्रसाधनोपेता<sup>५</sup> स्ववक्त्रापितसम्पदा । स्वप्नान् सिंहासनासीनं स्वानवाजीगमत् पतिम् ॥ १६७ ॥  
 सोऽपि स्वावधिबोधेन तत्फलानि पृथक् पृथक् । राज्ये निवेदयामास सापि सन्तोषसंभृता ॥ १६८ ॥  
 कान्ति लज्जां धृतिं कीर्तिं बुद्धिं सौभाग्यसंपदम् । श्रीह्रीष्टत्यादिदेवीषु वर्धयन्तीषु संततम् ॥ १६९ ॥  
 पौषासितैकदश्यां सा शक्रयोगे सुरार्चितम् । अहमिन्द्रमतवर्धामं त्रिविधमुपपादयत् ॥ १७० ॥  
 तदैवाभ्येत्य नाकीशो महामन्दरमस्तके । सिंहासनं समारोप्य सुसनाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥

इस प्रकार अन्तरंगमें हित्वाहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनाभने बाह्य सम्पदाओंकी प्रभुता सुवर्णनाभके लिए दे दी और बहुत-से राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह मोक्षके कारणभूत चारों आराधनाओंका आचरण करने लगा, सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तन करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया। जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप उसने किये और आयुके अन्तमें समाधिमरण-पूर्वक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमें तैतीस सागर की आयुका धारक अहमिन्द्र हुआ। उसके शरीरका प्रमाण तथा लेद्यादिकी विशेषता पहले कहे अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुखका उपभोग करता हुआ रहता था ॥१५८-१६२॥

तदनन्तर जब उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गयी तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक चन्द्रपुर नामका नगर था। उसमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री तथा आश्रयकारी वैभवको धारण करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणाने अपने घरके आगनमें देवोंके द्वारा बरसायी हुई रत्नोंकी धारा प्राप्त की थी। श्री ह्री आदि देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं। देवोपनीतं वस्त्र, माला, लेप तथा शय्या आदि सुखोंका समुचित उपभोग करनेवाली रानीने चैत्रकृष्ण पंचमीके दिन पिछली रात्रिमें सोलह स्वप्न देखकर सन्तोष लाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वस्त्राभरण धारण किये तथा प्रसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ॥ १६३-१६७ ॥ राजा महासेनने भी अवधिज्ञानसे उन स्वप्नोंका फल जानकर रानीके लिए पृथक्-पृथक् बतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १६८ ॥ श्री ह्री धृति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लज्जा, धैर्य, कीर्ति, बुद्धि और सौभाग्य-सम्पत्तिको सदा बढ़ाती रहती थीं ॥ १६९ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषकृष्ण एकादशीके दिन शक्रयोगमें देव पूजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १७० ॥ उसी समय इन्द्रने आकर महामेरुके शिखरपर विद्यमान सिंहासनपर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया, तीन लोकके राज्यकी कण्ठी बाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार

१ प्रभावं राज्यसम्पदः ग० । प्राभवं राज्यसंपद. क०, ख०, घ० । २ विधायाद्युधेन्दुस्तरम् ल० । ३ योषायुष्या क० । ४ चण्डपुराधिपः क०, घ० । ५ पुण्यप्रसाधनोपेता क०, ख०, ग०, घ० । ६ स्ववक्त्रापितसंभवा क० । ७ पीपे सितैकादश्यान्ते ग० ।

विभूष्य भूपणैः सर्वैर्बद्ध्वा त्रैलोक्यकण्ठिकाम् । मुदा बोध्य सहस्राक्षी व्यवहारप्रसिद्धयम् ॥ १७२ ॥  
 कुलं कुवलयस्यास्य संभवे व्यक्तसत्तराम् । यतस्तत्तश्चकाराख्यां सार्थां चन्द्रप्रभं प्रभोः ॥ १७३ ॥  
 आनन्दनाटक चास्य निर्वर्त्यप्रे शचीपतिः । पुनरागीय तत्पित्रोरर्पयित्वा जगत्पतिम् ॥ १७४ ॥  
 भोगोपभोगयोर्गोखवस्तुमिः परिचयताम् । भगवानिति संदिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥  
 प्रबोधमहतां स्त्रीत्वमपि निन्द्यं जगत्पतेः । लोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां लक्ष्मणामिमाम् ॥ १७६ ॥  
 पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा देवाश्चापन् महाफलम् । स्त्रीतेदृशी वरिष्ठेति मेनिरेऽनिमिषाङ्गना ॥ १७७ ॥  
 गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमकोटिमिः । शतैर्नैवमिरेषोऽभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥  
 शून्यषट्कैकपूर्वायुः सार्द्धचापशतोच्छ्रितः । अवर्द्धतेव शीतांशुः कलाशेषो जगन्नुतः ॥ १७९ ॥  
 हतः स्वामिस्त्वमेर्हाति कुतूहलविलासिनी । प्रसारितकरन्यस्ततलाम्भोजसमाश्रयः ॥ १८० ॥  
 अंकारणसमुद्गतस्मितकान्तमुखाम्बुजः । कदाचित्प्रस्तलत्पादविन्यासो मणिकुट्टिमै ॥ १८१ ॥  
 इत्यादितद्द्वयोयोग्यमुग्धशुद्धविचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्राप्य सुखार्थिमिः ॥ १८२ ॥  
 अस्तैस्तनुमेतस्य कृतां मन्यामहे वयम् । वेधसेति जनालागाः प्रवर्तन्ते स्म कौतुकात् ॥ १८३ ॥  
 आधिक्याद्भावलेश्येव निर्गतेवेक्षयाश्रियाम् । द्रव्यलेस्या न्यभासिऽ जित्वा पूर्णेन्दुजलुतिम् ॥ १८४ ॥  
 यशसा लेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता घृतिः । भोगभूमिर्निबृत्तेति प्रतोषमकरोजनः ॥ १८५ ॥ ॥

नेत्र घनाकर उन्हें देखा । उनके उत्पन्न होते ही यह कुवलय अर्थात् पृथ्वी-मण्डलका समूह अथवा नील-रुमलौका समूह अत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए उनका 'चन्द्रप्रभ' यह सार्थक नाम रखा ॥१७१-१७३॥ इन्द्रने इन त्रिलोकीनाथके आगे आनन्द नामक नाटक किया । तदनन्तर उन्हें लाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया ॥१७४॥ 'तुम भोगोपभोगकी योग्य वस्तुओंके द्वारा भगवान्की सेवा करो' इस प्रकार कुवेरके लिए सन्देश देकर इन्द्र अपने स्थानपर चला गया ॥१७५॥ यद्यपि विद्वान् लोग स्त्री-पर्यायको निन्द्य बतलाते हैं तथापिलोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवान्को धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्यवती है, बड़ी ही पवित्र है, इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान् फलको प्राप्त हुए थे तथा 'इस प्रकारकी स्त्री-पर्याय श्रेष्ठ है' ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था ॥१७६-१७७॥

भगवान् सुपार्श्वनाथके मोक्ष जानेके वाद जबनौ सौ करोड़ सागरका अन्तर वीत चुका तब भगवान् चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी ॥१७८॥ दश लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, एक सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी तरह वे बढ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था ॥ १७९ ॥ 'हे स्वामिन् ! आप इधर आइए' इस प्रकार कुतूहलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी । वे उसके फैलाये हुए हाथोंपर कमलोंके समान अपनी हथेलियाँ रख देते थे । उस समय कारणके बिना ही प्रकट हुई मन्द सुसकानसे उनका मुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था । वे कभी मणिजटित पृथिवीपर लड़खड़ाते हुए पैर रखते थे ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीभाली शुद्ध चेष्टाओंसे वाल्यकालको चिताकर वे सुखामिलाषी मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८२ ॥ उस समय वहाँके लोगोंने कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा समझते हैं कि विधाताने इनका शरीर अमृतसे ही बनाया है ॥ १८३ ॥ उनकी द्रव्य लेस्या अर्थात् शरीरकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको जीत कर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बाह्य वस्तुओंको देखनेके लिए अधिक होनेसे भावलेस्या ही बाहर निकल आयी हो । भावार्थ—उनका शरीर शुक्ल था और भाव भी शुक्ल-उज्ज्वल थे ॥ १८४ ॥ उनके यश और लेस्यासे ज्योतिषी देवोंकी कान्ति छिप गयी थी इसलिए 'भोगभूमि लौट आयी है' यह समझकर लोग सन्तुष्ट होने लगे थे ॥ १८५ ॥ ( ये वाल्य अवस्थासे ही

१-स्तनुरेतस्य क०, घ० ।

\*१८५ तमश्लोकावधे क०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकेष्वयं श्लोकोऽधिको वर्तते, ल०. पुस्तके नास्ति-  
 'आशाल्यादेव पीयूषभोजी तेन तनुद्युति । अमानुषी हताशेषद्युतिरित्यन्नोऽजनः' ॥



द्युतिस्तस्य द्युतिर्वाभात् मिश्रिता रविचन्द्रयोः । तत्सदा व्यकलनमन्ये पद्मानि कुमुदान्यपि ॥ १८६ ॥  
 कुन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवाशवोऽमलाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवलयवलिम् ॥ १८७ ॥  
 सहात्पत्नौ श्रियोऽनेन सोदर्येन्दोरिति श्रुतिः । अजानद्भिर्जनैरेतदन्यथा परिकल्पितम् ॥ १८८ ॥  
 चन्द्रस्येवोदर्येऽस्यापि सर्वसंतापहारीणः । ह्लादते भासते बहून्ते स्म लोको निराकुलः ॥ १८९ ॥  
 एतस्यैव गुणैर्लक्ष्मीं मन्ये कीर्तिश्च निर्मला । कारणानुगुणं कार्यमिति सत्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥  
 महाविभूतिसंपन्नः सज्जमज्जनमङ्गलः । सालङ्कारक्रियो<sup>१</sup> वेलां कदाचिदनयत् कृती ॥ १९१ ॥  
 वीणावाद्येन हृद्येन गीतैर्गुरुरजवादनैः<sup>२</sup> । कदाचिद्घनदानीतभूपावखावलोकनैः ॥ १९२ ॥  
 वादिप्रवाद्युपन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणैः । कुतूहलेक्षणायातभव्यलोकान्मदर्शनैः ॥ १९३ ॥  
 धर्मादयो व्यत्रद्धन्त गुणाः पापाद्यथाक्षयम् । कौमारंऽस्मिन् स्थितेऽप्येवं किं वाच्यं संयमे सति ॥ १९४ ॥  
 इति द्विलक्षपञ्चाशत्सहस्रप्रमितैर्गैः । पूर्वै राज्याभिषेकाख्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९५ ॥  
 नावतो मण्डलं राहोः स्वहस्ततलसंमितम् । किं तेजोऽर्कस्य तेजोऽस्य तेजल्लैलोक्यरक्षणः ॥ १९६ ॥  
 शक्रादयोऽपि कैङ्कर्यं जन्मनः प्राग्बहन्ति चेतः । ऐश्वर्यादिभिरैवोऽन्यैर्वृत्तः कैरुपमीयताम् ॥ १९७ ॥  
 तले कपोलयोः क्षीणां छेदं वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मरं स्त्रसुखं सुखमेधिवान् ॥ १९८ ॥

अमृतका भोजन करते हैं अत इनके शरीरकी कान्ति मनुष्योंसे भिन्न है तथा अन्य सबकी कान्तिको पराजित करती है । उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो सूर्य और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे ॥ १८६ ॥ कुन्दके फूलोंकी हँसी उड़ानेवाले उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल थे । इसीलिए तो वे भव्य जीवोंके मनरूपी नीलकमलोंके समूहको विकसित करते रहते थे ॥ १८७ ॥ लक्ष्मी इन्हींके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए वह इन्हींकी बहन थी । 'लक्ष्मी चन्द्रमाकी बहन है' यह जो लोकमें प्रसिद्धि है वह अज्ञानी लोगोंने मिथ्या कल्पना कर ली है ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर यह लोक हर्षित हो उठता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढने लगता है उसी प्रकार सब प्रकारके सन्तापको हरनेवाले चन्द्रप्रभ भगवान्का जन्म होनेपर यह सारा संसार हर्षित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ रहा है ॥ १८९ ॥ 'कारणके अनुकूल ही कार्य होता है' यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना पडता है कि इनकी लक्ष्मी और कीर्ति इन्हींके गुणोंसे निर्मल हुई थीं । भावार्थ—उनके गुण निर्मल थे अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी ॥ १९० ॥ जो बहुत भारी विभूतिसे सम्पन्न है, जो स्नान आदि मांगलिक कार्योंसे सजे रहते हैं और अलंकारोंसे सुशोभित है ऐसे अतिशय कुशल भगवान् कभी-कभी मनोहर वीणा बजाते थे, मृदंग आदि वाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुबेरके द्वारा लाये हुए आभूषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिवादिश्योंके द्वारा उपस्थापित पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कभी कुतूहलवश अपना दर्शन करनेके लिए आये हुए भव्य जीवोंको दर्शन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ॥ १९१-१९३ ॥ जब भगवान् कौमार अवस्थामें ही थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गयी थी और पाप आदिका क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥ १९४ ॥ इस प्रकार दो लाख पचास हजार पूर्व व्यतीत होनेपर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुन्दर जान पडते थे ॥ १९५ ॥ जो अपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर सकता ऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज तो इन भगवान् चन्द्रप्रभका था जो कि तीन लोककी रक्षा करते थे ॥ १९६ ॥ जिनके जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किंकरता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे अन्य ऐश्वर्य आदिसे विरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवान्को किसकी उगमा दी जाय ? ॥ १९७ ॥ वे

१ चन्द्रस्येवोदर्यस्यापि ल० । २ मान्या ल० । ३ मान्यमज्जनमङ्गल ल०, ग० । सज्जं सावधानीकृतं मज्जनं मङ्गलनानं यस्य स इति क-पुस्तके टिप्पणी । ४ सालङ्कारक्रिया ल० । ५ मुरजवादिभिः ल० ।

विलोकितानां कान्तानामुत्सुकानां विलासकृत् । ख्यागीव स सुखो जातः<sup>१</sup> स्ववन्नरसतर्पणात् ॥ १९९ ॥

नान्तराथः परं तस्य कान्तावक्रान्त्रजवीक्षणे । जातपङ्केरुहाशङ्कैर्भ्रमद्विभ्रमैर्विना ॥ २०० ॥

मनुपैश्वर्यलैलैर्युक्तायुक्ताधिचारकैः । मलिनैः किमकर्तव्यं प्रवेशो यदि लभ्यते ॥ २०१ ॥

खचतुष्केन्द्रियदूषितैः पूर्वं साम्राज्यसंपदं । चतुर्विंशतिपूर्वाङ्गैः संमितौ क्षणवत्सुखम् ॥ २०२ ॥

सत्यां प्रयाति कालेऽसावलङ्कारगृहेऽन्यदा । प्रपत्यन् वदनाम्भोजं दर्पणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥

तत्रावधार्य निर्वेदहेतुं कचिन्मुखे स्थितम् । पातुकः पश्य कायोऽयमितयः प्रीतयोऽप्यम् ॥ २०४ ॥

किं सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्चेदित्यं चला । किं यौवन यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि ॥ २०५ ॥

सबन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्वियोगपुरस्सरः । स एवाहं त एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥

प्रीतिः सैवानुभूतिश्च वृत्तिश्चास्यां भवावनौ<sup>३</sup> । परिवृत्तमिदं सर्वं पुन पुनरनन्तरम् ॥ २०७ ॥

तत्र किं जातमप्येत्स्यात्काले किं वा भविष्यति । इति जानन्नहं चास्मिन्मोहुर्हामि मुहुमुहुः ॥ २०८ ॥

अनिश्चे नित्यबुद्धिर्द्वैतुः दुःखे सुखमिति स्मृति । अशुचौ शुचिरित्याम्ना परत्रात्ममित्यथा ॥ २०९ ॥

अविद्यैवमाक्रान्तो दुरन्ते भवचारिणौ । चतुर्विधोरुदुःखोऽत्रदुर्गद्वैराहितश्चिरम् ॥ २१० ॥

हृत्प्रेनायतेनैवमायासित इवाकुलः । काललक्षि परिप्राप्य क्षुण्णमार्गजिहासया ॥ २११ ॥

गुणाब्जं भावुको माविकेवलवागमादिभिः । स्मरन्नित्याप सन्मत्या संफल्येव समागमम् ॥ २१२ ॥

स्त्रियोंके कपोल-तलमें अथवा हाथी-दाँतके टुकड़ोंमें कामदेवसे मुसकराता हुआ अपना मुख देख-कर सुखी होते थे ॥१९८॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता है उसी प्रकार शृंगार चेट्राओंको करनेवाले भगवान्, अपनी ओर देखनेवाली उत्सुक स्त्रियोंके लिए अपने मुख-का रस समर्पण करनेसे सुखी होते थे ॥१९९॥ मुखमें कमलकी आर्शका होनेसे जो पास ही में मँडरा रहे है ऐसे भ्रमरोको छोड़कर स्त्रीका मुख-कमल देखनेमें उन्हें और बाधक नहीं था ॥२००॥ चंचल सत्पुत्र, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और मलिन मधुप-भ्रमर भी (पक्षमें मद्यपायी लोग भी) जब प्रवेश पा सकते है तब संसारमें ऐसा कार्य ही कौन है जो नहीं किया जा सकता हो ॥२०१॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास हजार पूर्व तथा चौबीस पूर्वांगका लम्बा समय सुख पूर्वक क्षण-भरके समान बीत गया तब वे एक दिन आभूषण धारण करनेके घरमें दर्पणमें अपना मुख-कमल देख रहे थे ॥२०२-२०३॥ वहाँ उन्होंने मुखपर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार करने लगे । 'देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईतिके समान दुःखदायी है ॥२-४॥ वह सुख ही क्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चंचल हो, वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, और वह आयु ही क्या है जो अबधिसे सहित हो—सान्त हो ॥२०५॥ जिसका आगे वियोग होनेवाला है ऐसा बन्धुजनोंके साथ समागम किस कामका ? मैं वही हूँ, पदार्थ वही है, इन्द्रियों भी वही है, प्रीति और अनुभूति भी वही है, तथा प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसार की भूमिमें यह सब बार-बार बदलता रहता है ॥२०६-२०७॥ इस संसारमें अत्रतक क्या हुआ है और आगे क्या होनेवाला है यह मैं जानता हूँ, फिर भी बार-बार मोहको प्राप्त हो रहा हूँ यह आश्चर्य है ॥२०८॥ मैं आज तक अनित्य पदार्थोंको नित्य समझता रहा, दुःखको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थोंको पवित्र मानता रहा और परको आत्मा जानता रहा ॥२०९॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुआ यह जीव, जिसका अन्न अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयंकर रोगोंके द्वारा चिरकालसे पीड़ित हो रहा है ॥२१०॥ इस प्रकार काल-लक्षिको पाकर संसारका मार्ग छोड़नेकी इच्छामें वे बड़े लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुल हो गये ॥२११॥ आगे होनेवाले

१ स्ववन्नरसतर्पणात् ल० ( छन्दोभङ्गः ) । २ तदावधार्य ल० । ३ भवावली ल० । ४ मन्त्येव ल० । ५ समागमे ल० ।

दीक्षाकक्ष्याः स्वयं प्राप्ता सद्बुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्धत्वं त प्रपद्य सुरसंयता ॥ २१३ ॥  
 ययोचितमभिप्रेतस्य ब्रह्मलोकं पुनर्ययुः । नृपांसि वरचन्द्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ २१४ ॥  
 त्रिनिःक्रमणकल्याणरूपां प्राप्य सुरेश्वरैः । आरुह्य सुरसंधार्यां त्रिविक्रिं विमलाह्वयाम् ॥ २१५ ॥  
 दिनद्वयोपवासात्वा वने सर्वलुकाह्वये । पापे मास्थनुराधायामेकादश्यां महीभुजाम् ॥ २१६ ॥  
 सहस्रेणाप्य नैर्ग्रन्थं मनःपथ्यमासवान् । द्वितीये दिवसे तस्मै पुरे नलिननामनि ॥ २१७ ॥  
 सोमदत्तो नृपा गौरः प्रशयाहारमुत्तमम् । पुण्यानि नव सप्राप्य वसुधारादिपञ्चकम् ॥ २१८ ॥  
 सुरैस्तद्दानमनुष्ठेरापित स्त्रीचक्रा सः । धृत्वा व्रतानि मपालय समितीस्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥  
 निगृह्णातकृपायारिवन्दमानविशुद्धिभाक् । त्रिगुप्तः शीलसंपन्नो गुणी प्रोक्ततपोद्वयः ॥ २२० ॥  
 वस्तुवृत्तिव बोधेदाज्ञैरन्तर्येण भावयत् । दशप्रकारधर्मस्थः षोडशोपपरीपहः ॥ २२१ ॥  
 अनित्याण्युचिद्दुःखत्वं स्मरन् कायादिकं मुहुः । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परम योगमाश्रित ॥ २२२ ॥  
 त्रीन् मासान् जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षाव्रतान्तरे । अथस्तात्रागवृष्टस्य स्थित्वा पद्योपवासभृत् ॥ २२३ ॥  
 फाल्गुने कृष्णसप्तम्यामनुराधापराह्लकं । प्राग्व निहिताशेषश्रद्धानप्रतिपन्नकः ॥ २२४ ॥  
 करणत्रयसयोगात् क्षपकश्रेणिमाश्रितः । स्फुरत्सुतीयचारित्रो द्रव्यभावविकल्पतः ॥ २२५ ॥  
 शुक्लध्यानोदसद्भ्यास्या मांहारातिं निहत्य सः । सावगाढदृगर्थोऽभाद् त्रिचतुष्पादिमास्कर ॥ २२६ ॥

केवलज्ञानादि गुणोसे मुझे समृद्ध होना चाहिए ऐसा स्मरण करते हुए वे दूतीके समान सद्-  
 बुद्धिके साथ समागमको प्राप्त हुए थे ॥२१२॥ मोक्ष प्राप्त करनेवाली उनको न्दुद्धि अपने-  
 आप दीक्षा-लक्ष्मीको प्राप्त हो गयी थी । इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्वको समझ लिया है ऐसे  
 भगवान् चन्द्रप्रभके समीप लोकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर ब्रह्मस्वर्गको वापस  
 चले गये । तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर द्योके द्वारा  
 की हुई दीक्षा-कल्याणकरी पूजाको प्राप्त हुए और देवोंके द्वारा उठायी हुई विमला नामकी पालकी-  
 से सवार होकर सर्वलुके नामक वनमें गये । वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर  
 पाप कृष्ण एकादशके दिन अनुराधानक्षत्रमे एक हजार राजाओंके साथ निर्ग्रन्थ दीक्षा धारणाकर  
 ली । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपथ्यज्ञान प्राप्त हो गया । दूसरे दिन वे चर्चाके लिए नलिन नामक  
 नगरमे गये । वहाँ गौर वर्णवाले सोमदत्त राजाने उन्हें नवधा भक्तिपूर्वक उत्तम आहार देकर  
 दानसे सन्तुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पंचाश्वर्य प्राप्त किये । भगवान् अहिंसा  
 आदि पाँच महाव्रतोंको धारण करते थे, ईर्ष्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, मन,  
 वचन, कायकी निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीन दुण्डोंका त्याग करते थे ॥२१३-२१६॥ उन्होंने कृपाय-  
 रूपां शत्रुका निग्रह कर दिया था, उनकी विशुद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुप्तियों-  
 से युक्त थे, शीलसहित थे, गुणां थे, अनन्तरग और वहिरंग दोनों तपोको धारण करते थे, वस्तु  
 वृत्ति और वचनके भेदसे निरन्तर पदार्थका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंमें  
 स्थित रहते थे, समस्त परिपह सहन करते थे, 'यह शरीरादि पदार्थ अनित्य है, अमुचि है और  
 दुःख रूप है' ऐसा बार-बार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थोंमें माध्यस्थ्य भाव रखकर  
 परमयोगको प्राप्त हुए थे ॥२२०-२२२॥ इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके द्वारा तीन माह वित्ताकर  
 वे दीक्षावनमे नागवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए । वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके  
 सायंकालका समय था और उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदयथा । सम्यग् दर्शनका घातनेवाली  
 प्रकृतियोंका तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया अब अध कृष्ण, अपूर्वकरण और अ निवृत्ति-करण-  
 रूप तीन परिणामोंके संग्रामसे क्षपक श्रेणीको प्राप्त हुए । वहाँ उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही  
 रूपसे चौथा सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥२२३-२२५॥ वहाँ उन्होंने प्रथम शुक्लध्यानके  
 प्रभावसे मोहरूपां शत्रुको नष्ट कर दिया जिससे उनका स-यद्दर्शन अवगाढ सम्यग्दर्शन हो गया ।

१ पीपमास्यनु-ल० । २ द्वितीयादिवसे ल० । ३ धर्मध्यानद्वयद्वय्यात्या ल०, ग०, घ०, क० ।

४ सावगाढदृगन्त्यर्थो ल० । सावगाढदृगन्त्यर्थो ल० ।

द्वितीयशुक्लध्यानेन घातित्रितयघातकः । जीवस्वैवोऽभोगाख्यो गुणः शोषेष्वात्मसत्त्वात् ॥ २२७ ॥

घातीति नाम तद्घातात्प्रभृद्वचचतुष्टये । अघातिष्वपि केषांचिदेव तत्र विलोपनात् ॥ २२८ ॥

परावगाढं सम्यक्त्वं चर्यान्त्यां ज्ञानदर्शने । दानादिपञ्चक प्राप्य सयोग सकलो जिनः ॥ २२९ ॥

सर्वज्ञः सर्वलोकेश सार्वः सर्वैकरक्षकः । सर्वैदम् सर्वदेवेन्द्रवन्द्यः सर्वार्थदेशकः ॥ २३० ॥

चतुष्शिखादतीशोषविशेषविभवोदयः । प्रातिहार्याष्टकव्यक्तीकृततीर्थकोदयः ॥ २३१ ॥

देवदेवः समस्तेन्द्रमुकुटोदाङ्घ्रिपङ्कजः । स्वप्रमाह्लादिताशेषविश्वो लोकविभूषणः ॥ २३२ ॥

गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्तृते । प्रबोधकः स्थितो व्योम्नि श्रीमान् चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥

क्रौर्यधुर्येण शौर्येण यदहः संचितं परम् । सिंहैर्हस्तं स्वजातेवां व्यूढं तस्यासनं व्यमात् ॥ २३४ ॥

केवलद्युतिरेवैवं मूर्तिजातिव भास्वरा । देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य शोभते ॥ २३५ ॥

चामरैरात्तरैरेष प्रभाप्रकटितायतिः । हंसांसघवल्लैर्गङ्गातरङ्गैरिव सेव्यते ॥ २३६ ॥

ध्वनिरैकोऽपि दिव्योऽस्य प्रकाशो वांशुमालिनः । द्रष्टृणां सर्वभावानां सश्रोत्राणां प्रकाशकः ॥ २३७ ॥

त्रिभिः शिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत् । मोक्षमार्गः पृथग्भूतो भाति लत्रत्रयं त्रिमोः ॥ २३८ ॥

भाति पिण्डीद्रुमो भर्तुरशोक संश्रयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पल्लवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥

उस समय चार ज्ञानोंसे देवीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान् अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ २२६ ॥ बारहवें गुणस्थानके अन्तमें उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घातिया कर्माका क्षय कर दिया । उपयोग जीवका ही खास गुण है क्योंकि वह जीवके सिवाय अन्य ज्योंमें नहीं पाया जाता । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्तराय कर्म जीवके उपयोग गुणका घात करते हैं इसलिए घातिया कहलाते हैं । उन भगवान्के घातिया कर्माका नाश हुआ था और अघातिया कर्मांसे भी कितनी ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था । इस प्रकार वे परमावगाढ सम्यग्दर्शन, अन्तिम यथाख्यात चारित्र, क्षाधिक ज्ञान, दर्शन तथा ज्ञानादि पाँच लवियाँ पाकर शरीरसहित सयोगकेवली जिनेन्द्र हो गये ॥२२७-२२९॥ उस समय वे सर्वज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे, सर्वदर्शी थे, समस्त इन्द्रोंके द्वारा बन्दनीय थे और समस्त पदार्थोंका उपदेश देनेवाले थे ॥२३०॥ चौतीस अतिशयोके द्वारा उनके विशेष वैभक्का उदय प्रकट हो रहा था और आठ प्रातिहार्योंके द्वारा तीर्थकर नामकर्मका उदय व्यक्त हो रहा था ॥ २३१ ॥ वे देवोंके देव थे, उनके चरण-कमलोंको समस्त इन्द्र अपने मुकुटोंपर धारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्होंने समस्त ससारको आनन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके आभूषण थे ॥२३२॥ गति, जीव, समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदिके विस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र आकाशसे स्थित थे ॥२३३॥ सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा था कि सिंह जातिने क्रूरता-प्रधान शूर-वीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए मानो उन्होंने भगवान्का सिंहासन उठा रखा था ॥ २३४ ॥ समस्त दिशाओंको प्रकाशित क'तो हुई उनके शरीरकी प्रभा ऐसी जान पड़ती थी मानो देवीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति ही तदाकार हो गयी हो ॥२३५॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोंके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी दीर्घता प्रकट हो रही है ऐसे भगवान् ऐसे जान पड़ते थे मानो गंगानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों ॥२३६॥ जिस प्रकार सूर्यका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देता है उसी प्रकार भगवान्की एक ही दिव्यध्वनि सुननेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देती थी ॥२३७॥ भगवान्का लत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षको प्राप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती है अन्यसे नहीं ॥२३८॥ लाल-लाल अशोक वृक्ष ऐसा

१. यदहः ग०, ल० । २. चमरै-ल० । ३. द्रष्टृणां सर्वभावानां सगोत्राणां प्रकाशक ल०, ग० । नाराणां सर्वभावानां सघातया प्रकाशकः ल० ।

अभात् सुमनसां वृष्टिः पतन्ती नमसो विशुम् । तारावलिनिवायान्तां सेवितुं भक्तिनिर्भरा ॥ २४० ॥  
 देवदुन्दुभयो वाडं दध्वनुस्तजिताब्धयः । दिग्ः श्रावयितुं वास्य मोहारातिजयं विभोः ॥ २४१ ॥  
 अभादृष्ट्य प्रभामध्ये प्रसन्नं चन्द्रमण्डलम् । नाकनद्यामिवाभ्योजयित्वा विन्म्रमैन्द्वरम् ॥ २४२ ॥  
 श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये चतुस्त्रिंशत्पुणैर्गणैः । तारागणैः शरच्चन्द्र इव सेव्यो व्यराजत ॥ २४३ ॥  
 दत्तादित्रिनवत्युक्तगणैः खत्रयद्विस<sup>१</sup> । श्रमोक्तपूर्वैः शून्यत्रिकाष्टाधखिलोचनः ॥ २४४ ॥  
 दृन्त्यद्वयचतुःशून्यद्विक<sup>२</sup> पक्षोक्तशिक्षकः । खत्रयद्विकैनिर्दिष्टकेवलरावगमाग्रणीः ॥ २४५ ॥  
 चतुर्दशसहस्रोक्तविक्रियद्विचिभूपितः । खत्रयद्विचतुर्ज्ञानपरिपत्परिवारितः ॥ २४६ ॥  
 खत्रयत्वंधिवादीशः सर्वसाद्द्विद्विलक्षकः । खत्रयद्विकाष्टवह्वथुक्तचरणवाद्यिकानुवृत्तः ॥ २४७ ॥  
 त्रिलक्षश्रावकाम्यस्यैः श्राविकापञ्चलक्षकः । अन्त्यदेवदेवीडयस्तिर्यक्संख्यातसेवित<sup>३</sup> ॥ २४८ ॥  
 ऽद्विद्विग्येन भव्येण परीत्यैतं गणाः पृथक् । स्वकोष्ठेऽवतिष्ठन्ते विहिताञ्जलिकुड्मलाः ॥ २४९ ॥  
 तत्राङ्गुलिभसंभूतमक्तिभारानतः स्फुरन् । सुकुटाग्रमणिः स्तोत्रं द्वितं, येन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ २५० ॥  
 रत्नत्रयेण वेनासं रत्नत्रयमनुत्तरम् । त्वं देह्यस्मभ्यमप्युचैः सरत्नत्रयसंपदम् ॥ २५१ ॥  
 स्वार्थः सागामेरूणां पारार्थः कल्पभूरुहाम् । देव स्वार्थः पार्थश्च महिमा महत्स्त्वत् ॥ २५२ ॥  
 द्वास्ति परमं सौख्यमित्यस्तु सवत्तः स्तवः । नन्द नन्दैति देवस्य साधितात्मार्थसंपदः ॥ २५३ ॥

सुशोभित हो रहा था मानों भगवान्के आश्रयसे ही मैं अज्ञाक—शोकरहित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलोंके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २३९ ॥ आकाशसे पड़ती हुई फूलोंकी वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों भगवान्की सेवा करनेके लिए भक्तिसे भरी हुई ताराओकी पक्ति ही आ रही हो ॥ २४० ॥ समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले देवोंके नगाड़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानों वे दिशाओंको यह सुना रहे हों कि भगवान्ने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है ॥ २४१ ॥ उनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतासे भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा सुशोभित होता था मानों आकाशगंगामें कमल ही खिल रहा हो अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्ब ही हो ॥ २४२ ॥ जिस प्रकार तारागणोंसे सेवित शरद्-शत्रुका चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार वारह सभाओंसे सेवित भगवान् गन्धकुटीके मध्यमें सुशोभित हो रहे थे ॥ २४३ ॥ उनके दत्त आदि तेरानवें गणधर थे, दो हजार पूर्ववारी थे, आठ हजार अवधिज्ञानी थे, दो लाख चार सौ शिक्षक थे; दश हजार केवलज्ञानीथे। वे चौदह हजार विक्रिया-श्रद्धिके धारक मुनियोंसे विभूषित थे, आठ हजार मनःपर्यय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार छह सौ चादियोंके स्वामी थे। इस प्रकार सत्र मुनियोंको संख्या अढ़ाई लाख थी। वरुणा आदि तीन लाख अस्त्री हजार आर्थिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। तीन लाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं। वे असंख्यान देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यंच उनकी सेवा करते थे ॥ २४४-२४८ ॥ ये सत्र वारह सभाओंके जीव प्रदक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान् चन्द्रप्रभाके घेरे हुए थे, सत्र अपने-अपने कोठोंमें बैठे थे और सभी कमलके मुकुलके समान अपने-अपने हाथ जोड़े हुए थे ॥ २४९ ॥

उनी समय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्र हो रहा है और जिसके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए मणि देवीप्यान हो रहे हैं ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥ २५० ॥ वह कहने लगा कि हे भगवन् ! जिस रत्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त किया है वही रत्नत्रय-सम्पत्ति आप मुझे भी दोजिए ॥ २५१ ॥ हे देव ! समुद्र और सुमेरु पर्वतकी महिमा केवल अपने लिए है तथा कल्पवृक्षकी महिमा केवल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपको सहिमा अपने तथा दूसरे दोनोंके लिए है ॥ २५२ ॥ हे भगवन् ! आप परम सुखके देनेवाले हैं ऐसी आपको स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्मनस्वरूपी सम्पदाको सिद्ध करनेवाले आप मदा समृद्धिमान् हैं

१ द्वं ल० । २ द्वय क०, ख०, घ० । ३ सन्न ल० । ४ स्वकोष्ठेऽवतिष्ठन्ते ल० । ५ स्तवं ल०, ख० ।

त्वद्भवो वाचि धर्मस्ते हृदि वृत्तिस्तनौ भवेत् । यस्य स त्वादशो भूत्वा परमानन्दमश्नुते ॥ २५४ ॥  
 स्वयैवैकन कर्मादीन् भुवनत्रयद्विधिपः । मुक्त्वल्पायानासिना हत्वा मुक्तिसाम्राज्यमर्जितम् ॥ २५५ ॥  
 स्वरापाद्पादपोद्भूतसान्द्रच्छायां समाश्रिताः । पापार्करीगघर्मोऽप्रदुःखसंतापदूरगा ॥ २५६ ॥  
 सागरोऽनन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम् । त्वन्मत्ताश्रितमन्वयानां गोप्सद् नन्दन वनम् ॥ २५७ ॥  
 फलं त्रिलोकसाम्राज्यं क्लेशशुद्धचरणस्मृतिः । लोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेत्ति हितमात्मनै ॥ २५८ ॥  
 आधारः, धेयमावोऽयमनन्यसदृशस्तव । अयःस्थं जगदाधेयमाधारस्त्वं तद्विप्र ॥ २५९ ॥  
 वेदकोऽसि न वेद्योऽसि न पाल्योऽस्यसि पालकः । कर्तासि नासि कार्यस्त्वं न पोष्योऽस्यसि पोषकः ॥ २६० ॥  
 त्वां नमन्नुत्तमः स्तोता गुरुश्च गुणगौरवात् । अनमन् तप्यते पापैरस्तुवन् शप्यते सदा ॥ २६१ ॥  
 नास्तिका पापिनः केचिद् दृष्टिकाश्च हतोद्यमाः । त्वदीयास्त्वास्तिका धर्म्याः परत्र विहितोद्यमाः ॥ २६२ ॥  
 सर्वत्र सर्वदा सर्वं सर्वैस्त्वं सार्वसर्ववित् । प्रशशयति-वैवेन्दुर्नानुवाण्येषु का कथा ॥ २६३ ॥

समुद्धिमान् हो, मैं यही स्तुति करता हूँ ॥२५३॥ जो मनुष्य आपके वचनको अपने वचनोमें, आपके धर्मको अपने हृदयमें और आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमें धारण करता है वह आप जैसा ही होकर परम आनन्दको प्राप्त होता है ॥२५४॥ हे नाथ ! आप अकेलेने ही शुक्लध्यानरूपी तलवारके द्वारा तीनों लोकोंसे द्वेष रखनेवाले कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त कर लिया है ॥२५५॥ हे प्रभो ! जो आपके चरणरूपी वृक्षसे उत्पन्न हुई सचनछायाका आश्रय लेते हैं वे पापरूपी सूर्यके रोगरूपी घामके तीव्र दुःखरूपी सन्तापसे दूर रहते हैं ॥२५६॥ हे देव ! यह संसार, समस्त जीवोंके लिए या तो समुद्र है या अनन्त वन है परन्तु जो भय्य आपके मतका आश्रय लेते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्दन वन है ॥२५७॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपके चरणोंका स्मरण करनेसे कुछ क्लेश अवश्य होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साम्राज्य है । आश्चर्य है कि ये संसारके प्राणी उस महान् फलमें भी मन्द इच्छा रखते हैं इससे जान पड़ता है कि ये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ॥२५८॥ हे प्रभो ! आपका यह आधारधेय भाव अनन्यसदृश है—सर्वथा अनुपम है क्योंकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है और उसके ऊपर रहनेवाले आप आधार हैं । भावार्थ—जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और जो उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है परन्तु आपके आधारधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । दूसरे पक्षमें यह अर्थ है कि आप जगत् रक्षक हैं अतः आधार हैं और जगत् आपकी रक्षाका विषय है अतः आधेय हैं ॥२५९॥ आप सबको जानते हैं परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, आप सबके रक्षक हैं परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं हैं, आप सबके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं और आप सबका पोषण करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥२६०॥ जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणोंके गौरवसे गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है । इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे संतप्त होता है और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निन्दाको प्राप्त होता है ॥२६१॥ हे भगवन् ! इस संसारमें कितने ही लोग नास्तिक हैं—परलोककी सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छन्द होकर तरह-तरहके पाप करते हैं और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग आस्तिक हैं—परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं इसलिए 'परलोक' विगड़ न जाये' इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाएँ करते हैं और परलोकके सुधारके लिए सदा उद्यम करते हैं ॥२६२॥ सबका हित करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह सब समय सब पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं । ऐसा प्रकाशन चन्द्रमा कर सकता है और न सूर्य ही

न स्थिरं क्षणिकं ज्ञानमात्रं शून्यमनोक्षणान् । वस्तु प्रतिक्षणं तत्त्वान्यत्वस्वरूपं तत्रेक्षणान् ॥ २६४ ॥  
 अस्त्यात्मा बोधसद्भाववाच्यरज्ज्मास्ति तत्स्मृतः । सर्वविच्चास्ति धीवृद्धेस्त्वदुपज्जमिदं त्रयम् ॥ २६५ ॥  
 द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याप्यत्रद्विधीः । गुणैः परिणतिं द्रव्यस्यावादीस्त्वं यथायं ह्यहम् ॥ २६६ ॥  
 अग्रतोषा प्रभा भाति देव देहस्य तेऽनिगमम् । चन्द्रप्रभेति नामेदुपमपरोक्ष्य हरिर्व्यर्थात् ॥ २६७ ॥  
 इति शठशार्थगम्भीरस्तचनेन सुराधिपः । विरं सपुण्यमात्मानं बहुमेमे स ह्यष्टधीः ॥ २६८ ॥  
 वयं चन्द्रप्रभः स्वामी धर्मतीर्थं प्रवर्तयन् । सवांन् देशान् विद्वत्पार्यान् सम्मन्दतलमासवान् ॥ २६९ ॥  
 विहारमुपसंहृत्य मासं सिद्धशिलातले । प्रतिमायोगमास्थाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ २७० ॥  
 फाल्गुनेऽशुक्लसप्तम्यां ज्येष्ठाचन्द्रेऽपराह्णे । तृतीयशुक्लध्यानेन कृतयोगनिरोधकः ॥ २७१ ॥  
 अयोगपदमाप्त्वा सुर्यशुक्लेन निर्हरन् । शेषकर्माणि निल्लस्यारीरः परमोऽभवत् ॥ २७२ ॥  
 सुरा निर्वाणकल्याणपूजाविविधधायिनः । पुण्यपण्यं समादाय तदेद्युः स्वस्वमात्स्यदम् ॥ २७३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

संपूर्णः किमयं शरच्छत्रधरः किं वापितो दर्पणः  
 सर्वायावगतेः किमेव विलसत्पीयूषपिण्डः पृथुः ।  
 किं पुण्याणुमयश्च योज्यमिति चन्द्रत्राम्बुजं शङ्कयते  
 सोऽयं चन्द्रजिनस्तमो व्यपहरन्न्होमयाद्रभतात् ॥ २७४ ॥

किर, अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या है ? ॥२६३॥ हे भगवन् ! कोई भी वस्तु न नित्य है, न क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है और न अदृश्य होनेसे शून्य रूप है किन्तु आपके दर्शनसे प्रत्येक वस्तु तत्त्व और अतत्त्व रूप—अस्ति और नास्ति रूप है ॥२६४॥ आत्मा है, क्योंकि उसमें ज्ञानका सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती है । हे भगवन् ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपके ही कहे हुए हैं ॥२६५॥ जिस प्रकार एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य जुड़ा है उसी प्रकार द्रव्यसे गुण भी जुड़ा है ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं परन्तु आपने कहा है कि द्रव्यका परिणमन गुणोंसे ही होता है अर्थात् द्रव्यसे गुण सर्वथा जुड़ा पदार्थ नहीं है । इसीलिए आप यथार्थदृष्टा हैं—आप पदार्थके स्वरूपको ठीक-ठीक देखते हैं ॥२६६॥ हे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रभा तो राहुसे तिरोहित हो जाती है परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित रही आती है अतः इन्द्रने जो आपका 'चन्द्रप्रभ' (चन्द्रमा-जैसी प्रभावाला) नाम रखा है वह बिना परीक्षा किये ही रख दिया है ॥२६७॥ इस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गम्भीर हैं ऐसे स्तचनेन प्रसन्न बुद्धिके धारक इन्द्रने अपने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान् माना था ॥२६८॥

अथानन्तर चन्द्रप्रभ स्वामी समस्त आर्य देशोंमें विहार कर धर्म-तीर्थकी प्रवृत्ति करते हुए सम्मन्दशिखरपर पहुँचे ॥२६९॥ वहाँ वे विहार बन्द कर एकहजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर एक माह तक सिद्धशिलापर आसुह रहे ॥२७०॥ और फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्लध्यामके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो गये ॥२७१-२७२॥ उसी समय निर्वाण कल्याणकी पूजाकी विधिको करनेवाले देव आये और पुण्यरूपी पण्य—खरीदने योग्य पदार्थ-को लेकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥२७३॥

'क्या यह शरद-ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा है, अथवा समस्त पदार्थोंको जाननेके लिए रखा हुआ दर्पण है, अथवा अमृतका शोभायमान विशाल पिण्ड है अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह है' इस प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर लोग अंका किया करते हैं वे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र अज्ञानान्धकारको

लेश्या यस्य मृणालनालधवला श्लाघ्योभया<sup>१</sup> शोभते  
यस्यास्येन्द्रहर्दिवं कुवलयार्हादं विधत्ते ध्रुवम् ।  
यद्बोधोऽव्वलदपणे त्रिसमयं जीवादिकं लक्ष्यते

स श्रीमान् दिशताच्छ्रयं जिनपतिर्नष्टाष्टकर्माष्टक. ॥ २७५ ॥

श्रीवर्मा श्रीधरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पद्मनामोऽहमिन्द्रोऽश्मान् पातु चन्द्रप्रभः प्रभुः ॥ २७६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्द्रप्रभपुराणं  
परिसमाप्तं चतुःपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ २४ ॥

नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करे ॥२७४॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी लेश्याएँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनीय सुशोभित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा रात-दिन कुवलय-पृथिवी-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हर्षित करता रहता है, जिनके ज्ञानरूपी निर्मल दर्पणमें त्रिकालतन्मन्धी जीवाजीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं और जिनोंने अष्ट कर्मोंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-लक्ष्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ २७५ ॥ जो पहले श्रीवर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन हुए, तत्पश्चात् अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर अष्टम तीर्थंकर हुए ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ २७६ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्गाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें चन्द्रप्रभ पुराणका वर्णन करनेवाला चौवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥



## पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व

विधाय विपुले मार्गे विनेयांश्चामले स्वयम् । स्वयं च सुविधियोंऽभूद् विधेयान्नः स तं विधिम् ॥१॥  
 पुष्करार्द्धेन्द्रदिग्भागं मन्दरप्राग्विदेहमाक् । सीतासरिदुदककूले विषयः पुष्कलावती ॥ २ ॥  
 तत्रामृत्युण्डरीकिण्यां महीपञ्चो महीपतिः । दोर्दण्डखण्डितारातिमण्डलक्ष्ण्डविक्रमः ॥ ३ ॥  
 पुराणमपि सन्मार्गं स स्ववृत्त्याऽकरोन्नवम् । पाश्चात्यानां तु तद्वृत्त्या पुराणः सोऽभवत्पुनः ॥ ४ ॥  
 संपोष्य पालयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । प्रस्तुता निजसारेण तं सदा समतर्पयत् ॥ ५ ॥  
 स्वानुरक्तान् जनान् सर्वात् स्वगुणैः स व्यधात् सुधीः । ते च तं प्रीणयन्ति स्म प्रत्यहं सर्वमावत ॥६॥  
 शेषाः प्रकृतयस्वेन विहिता वृद्धिताश्च याः । स्वेन स्वेनोपकारेण ताश्चैनं वृद्धिमानयत् ॥ ७ ॥  
 भवद्वन्द्वं गुणास्तस्मिन् सद्वृत्ते शास्त्रशालिनि । मुनिवह्नुषसंस्कारा वसुद्वच मणयो यथा ॥ ८ ॥  
 विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाश्रितैः । स्वोऽभवमूर्च्छिरमच्छिन्नं सन्तः साधारणश्रियः ॥९॥  
 वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रस्थान एवायं दण्डचामावाख्यजागुणात् ॥ १० ॥  
 रतिरच्छिन्नसन्ताना तस्य भोग्याश्च तादृशा । तस्मात्स्वसुखविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकः ॥ ११ ॥

जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्षमार्गमें अनेक शिक्ष्योंको लगाया और स्वयं लगे एवं जो सुविधि रूप हैं—उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं वे सुविधिनाथ भगवान् हम सबके लिए सुविधि—मोक्षमार्गकी विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें ॥१॥ पुष्करार्धद्वीपके पूर्व दिग्भागमें जो मेरु पर्वत है उसके पूर्वविदेहक्षेत्रमें सीतानदीके उत्तर तटपर पुष्कलावती नामका एक देश है । उसकी पुण्डरीकिणी-नगरीमें महापद्म नामका राजा राज्य करता था । उस राजाने अपने मुंजदण्डोंसे शत्रुओंके समूह खण्डित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, वह किसी पुराने मार्गको अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था और फिर आगे होनेवाले लोगोंके लिए वही नया मार्ग पुराना हो जाता था ॥ २-४ ॥ जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे दूध देती हुई सदा सन्तुष्ट रखती है उसी प्रकार वह राजा अपनी पृथिवीका भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता था और वह पृथिवी भी द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न होनेवाले रत्न आदि श्रेष्ठ पदार्थोंके द्वारा उस राजाको सन्तुष्ट रखती थी ॥ ५ ॥ वह बुद्धिमान् सब लोगोंको अपने गुणोंके द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और सब लोग भी सब प्रकारसे उस बुद्धिमान्को प्रसन्न रखते थे ॥६॥ उमने मन्त्री पुरोहित आदि जिन कार्य-कर्ताओंको नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था वे सब अपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा बढ़ाते रहते थे ॥७॥ जिस प्रकार सुनियोंमें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस सदाचारी और शास्त्रज्ञानसे सुशोभित राजामें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उस राजामें अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे ॥८॥ वह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग कर अपने आश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लक्ष्मीका उपभोग करता रहा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मीको सर्वसाधारणके उपभोगके योग्य समझते हैं ॥ ९ ॥ नीतिके जाननेवाले राजाको इन्द्र और यमके समान कहते हैं परन्तु वह पुण्यात्मा इन्द्रके ही समान था क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणवती थी अतः उसके राज्यमें कोई दण्ड देनेके योग्य नहीं था ॥१०॥ उसके सुखकी परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके भोगोपभोगके योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी वह राजा अपने

इति स्वपुण्यमाहात्म्यसंवादितमहोत्सवः । स कदाचिन्महेश्वर्यं श्रुत्वा स्ववन्तपालकात् ॥ १२ ॥  
 जिनं मनोहरोद्याने स्थितं भूतहिताङ्गयम् ॥ गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीत्य कृताचनः ॥ १३ ॥  
 वन्दित्वा स्कोविनस्थाने स्थित्वा सुकुलितान्जलिः । आकर्ष्य धर्मसुखन्नोधिरेवमचिन्तयत् ॥ १४ ॥  
 आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्यात्रिकृतासुखम् । विधायानादिकालीनमिथ्यात्वोदयदूषितः ॥ १५ ॥  
 उन्मादीव मदीवान्धो बावेशी वाविचारकः । अर्थात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरं शिरम् ॥ १६ ॥  
 भ्रमिन्त्वा भवकान्तारे प्रप्रष्टो निवृत्तेः पथः । इत्येतोऽनुमवाप्तीत्वा सुकिमार्गंप्रपित्तथा ॥ १७ ॥  
 सूनवे धनदाख्याय वित्तीयैश्चर्यमात्मनः । प्राजाजीद बहुभि सार्द्धं राजसिम्बवमीहसिः ॥ १८ ॥  
 क्रमादेकादशाङ्गाब्धिपारगो भावनापरः । वद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १९ ॥  
 विंशत्यभ्युपमात्पायुः सार्द्धहस्तत्रयोच्छ्रितः । सुकुलेश्वर्यं श्वसन् मासैर्दशभिर्दशभिर्वली ॥ २० ॥  
 स्मरन् सहस्रविंशत्या वत्सराणां तनुस्थितिम् । मानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तधूमप्रभावधिः ॥ २१ ॥  
 विक्रियाबलतेजोभिः स्वावधिज्ञेन्नसंमितः । उल्लुष्टाष्टगुणैश्चर्यः प्राणतेन्द्रोऽजनि सः ॥ २२ ॥  
 दीर्घं तत्र सुखं भुक्त्वा तस्मिन्नैत्रागमिव्यति । द्वीपेऽस्मिन् मारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥  
 इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यां क्षत्रियाग्रिमः । सुग्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्यमाः ॥ २४ ॥  
 वा देवैर्वसुधारादिपूजां प्राप्य परार्थिकाम् । फाल्गुने मूलनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥  
 प्रभाते घोडश्च स्वप्नान् दरनिद्राविलेक्षणा । विलोक्य तत्फलान्यात्मपतेर्ज्ञात्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥

सुखके विरहको कभी जानता ही नहीं था ॥११॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते रहते हैं ऐसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने बनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमें महान् ऐश्वर्यके धारक भूतहित नामके जिनराज स्थित हैं । वह उनकी वन्दनाके लिए बड़े वैभवसे गया और समस्त जीवोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वह इस प्रकार विचार करने लगा ॥१२-१४॥ अनादिकालीन मिथ्यात्वके उदयसे दूषित हुआ यह आत्मा, अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागलकी तरह अथवा मतवालेकी तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारो हो रहा है । जो-जो कार्य आत्माके लिए अहितकारी हैं मोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हीका आचरण करता चला आ रहा है । संसाररूपी अटवीमें भटक-भटककर यह मोक्षके मार्गसे भ्रष्ट हो गया है । इस प्रकार चिन्तन कर वह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मार्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे धनद नामके पुत्रके लिए अपना ऐश्वर्य प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया ॥१५-१८॥ क्रम-क्रमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, सोलह कारणभावनाओंके चिन्तनमें तत्पर रहने लगा और तीर्थकर नामकर्मका बन्ध कर अन्तमें उसने समाधिमरण धारण किया ॥१९॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ । वहाँ वीस सागरकी उसकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, सुकुलेश्वर्य था, दश-दश माहमें श्रास लेता था, बीस हजार वर्ष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धूम्रप्रभा पृथिवी तक उसकी अवधिज्ञान था, विक्रिया बल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उल्लुष्ट गुणोंसे उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुआ था ॥२०-२२॥ वहाँका दीर्घ सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्रकी काकन्दी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री सुग्रीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था । सुन्दर कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पट्टरानी थी ॥२३-२४॥ उसरानीने देवोंके द्वारा अतिशय श्रेष्ठ रत्नवृष्टि आदि सम्मानको पाकर फाल्गुन कृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूलनक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुलकुल याकी वची हुई निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे । स्वप्न देखकर उसने अपने

मार्गशीर्षे सिते पक्षे जैत्रयोगे तमुत्तमम् । प्राप्तं प्रतिपद्याशु तदैत्येन्द्राः सहामरैः ॥ २० ॥  
 क्षीराभिषेकं भूषान्ते पुष्पदन्ताख्यमनुवन् । कुन्दपुष्पप्रभासासि देहदीप्त्या विराजितम् ॥ २१ ॥  
 सागरोपमक्रीटीनां नवत्यामन्तरे गते । एष चन्द्रप्रभस्याभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २१ ॥  
 पूर्वलक्षद्वयात्प्रायः शतचापसमुच्छ्रितः । लक्षार्द्धपूर्वकालेऽस्य कौमारमगमत् सुखम् ॥ ३० ॥  
 अथाप्य पूज्यं साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिर्विभुः । अन्वभूत्सुखमाश्लिष्टमिष्टैः शिष्टैरभिष्टुतः ॥ ३१ ॥  
 कान्तासिः करणैः सर्वैरमुष्मादपि यत्सुखम् । ताभ्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां बुधैः ॥ ३२ ॥  
 पुण्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यर्णनिर्वाणसुखमेनमरीरमन् ॥ ३३ ॥  
 यः स्वर्गसारसौख्याविधमग्नः सन् भुवमागतः । तान्नेव भोग्यवस्तूनि यानि तं चाभ्यलाषयन् ॥ ३४ ॥  
 अनन्तशोऽहमिन्द्रत्वं प्राप्य तेनाप्यतृप्तवान् । सुखेनानेन चेदेष तृप्तः सौख्येऽपिदं सुखम् ॥ ३५ ॥  
 अष्टाविंशतिपूर्वाङ्गयुतलक्षार्द्धपूर्वकं । राज्यकाले गते प्रीत्या कुर्वती दिग्बलोकनम् ॥ ३६ ॥  
 आपतन्ती विलोक्योत्कामस्यासीदीदृशो मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहोत्तमोऽपहा ॥ ३७ ॥  
 इति तद्देवतसंभूतविमलावगमात्मकः । स्वयंबुद्धो विबुद्धः सन् तत्त्वमेवं विभावयन् ॥ ३८ ॥  
 स्पष्टमद्य मया दृष्टं विश्वमेतद्विद्वन्मनम् । कर्मन्द्रजालिकेनैवं विपर्यस्य प्रदर्शितम् ॥ ३९ ॥

पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्षित हुई ॥२५-२६॥ मार्गशीर्षे शुक्ल प्रतिपदा के दिन जैत्रयोगमें उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय इन्द्रोंने देवोंके साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहनाये और कुन्दके फूलके ससान कान्तिसे सुशोभित शरीरकी दीप्तिसे विराजित उन भगवान्का पुष्पदन्त नाम रखा ॥२७-२८॥ श्री चन्द्रप्रभ भगवान्के वाद जब नन्वे करोड़ सागरका अन्तर वीत चुका था तब श्री पुष्पदन्त भगवान् हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥२९॥ दो लाख पूर्वकों उनकी आयु थी, सौ धनुष ऊँचा शरीर था और पचास हजार पूर्व तक उन्होंने कुमार-अवस्थाके सुख प्राप्त किये थे ॥३०॥

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूज्य समझते हैं ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भगवान्ने इष्ट पदार्थोंके संयोगसे युक्त सुखका अनुभव किया । उस समय बड़े-बड़े पूज्य पुरुष उनकी स्तुति किया करते थे ॥३१॥ सब स्त्रियोंसे, इन्द्रियोंसे और इस राज्यसे जो भगवान् सुविधिनाथको सुख मिलता था और भगवान् सुविधिनाथसे उन स्त्रियोंको जो सुख मिलता था उन दोनोंमें विद्वान् लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें ? ॥३२॥ भगवान् पुण्यवान् रहें किन्तु मैं उन स्त्रियोंको भी बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ क्योंकि भोक्षका सुख जिनके समीप है ऐसे भगवान्को भी वे प्रसन्न करती थीं—क्रीड़ा कराती थीं ॥३३॥ वे भगवान् स्वर्गके श्रेष्ठ सुख-रूपी समुद्रमें मग्न रहकर पृथिवीपर आये थे अर्थात् स्वर्गके सुखोंसे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ था इसलिए पृथिवीपर आये थे । इससे कहना पड़ता है कि यथायं भोग्य वस्तुएँ वहीं थी जो कि भगवान्को अभिलाषा उत्पन्न कराती थी—अच्छी लगती थीं ॥३४॥ जो भगवान् अनन्त वार अहमिन्द्र पद पाकर भी उससे सन्तुष्ट नहीं हुए वे यदि मनुष्य-लोकके इस सुखसे सन्तुष्ट हुए तो कहना चाहिए कि सब सुखोंमें यही सुख प्रधान था ॥३५॥ इस प्रकार प्रेमपूर्वक राज्य करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और अट्ठाईस पूर्वांग बीत गये तब वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे । उसी समय उल्कापात देखकर उनके मनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं है किन्तु मेरे अनादिकालीन महामोहरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है ॥३६-३७॥ इस प्रकार उस उल्काके निमित्तसे उन्हें निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे स्वयंबुद्ध भगवान् इस निमित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विड-

कामशोकभयोन्मादस्वप्नचौर्याद्युपद्रुताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो वा न्यवस्थितम् ॥३०॥  
 न स्थास्तु न शुभं किञ्चिन्न सुखं मे न किञ्चन । ममाहमेव मत्तोऽन्यदन्त्यदेवाखिलं जगत् ॥३१॥  
 अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमर्थितम् । तथापि कोऽन्यं मोहादाप्रहो विग्रहादिषु ॥ ३२ ॥  
 अहं मम शुभं नित्यं सुखमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद् भ्रान्तोऽहं भववारिधौ ॥ ३३ ॥  
 जन्मदुःखवामासुभ्रमहामकरमीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मीं स तितिष्ठुरभवत्तदा ॥३४॥  
 क्षिप्त्वा लौकान्तिकावाप्तपूजे राज्यमरं सुते । सुमतीं प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्रैः परिवारितः ॥ ३५ ॥  
 आरुह्य शिविकं सूर्यप्रभाह्वयो पुष्पके वने । मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपद्यपराङ्गके ॥ ३६ ॥  
 दीक्षां षष्ठ्यपवासेन सप्तहस्तपुत्रोऽभूत् । मनःपर्ययसंज्ञानो द्वितीयेऽङ्घ्रि प्रविष्टवान् ॥ ३७ ॥  
 चर्चा शैलपुरे पुष्पमित्रश्रामीकरच्छविः । तत्र तं भोजयित्वाऽऽप पञ्चाश्रयाणि पाथिबः ॥ ३८ ॥  
 एवं तपस्यतो याताः छात्रस्थेन चतुःसमाः । मूलर्षे कार्तिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ३९ ॥  
 दिनद्वयोपवासः सन्नधस्ताज्ञागमूरुहः । दीक्षावने विधूतावः प्रासानन्तचतुष्टयः ॥ ४० ॥  
 चतुर्विधामराधीशविहितातर्क्यवैभवं । सुनिरूपितविश्वार्थदिव्यध्वनिविराजितः ॥ ४१ ॥  
 चिद्वनमामुष्पयाद्याशीतिससिद्धिसंयुतः । शून्यद्वयेन्द्रियैकोकश्रुतकेवलनिनायकः ॥ ४२ ॥  
 खट्वयैन्द्रियपञ्चेन्द्रियैकशिक्षकरक्षकः । शून्यद्वयाविषकर्मोक्तत्रिज्ञानधरसेवितः ॥ ४३ ॥  
 शून्यत्रयमुनिप्रोक्तकेवलज्ञानलोचनः । खत्रयत्रयैकनिर्णोतविक्रियद्विवेष्टितः ॥ ४४ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियद्वयैकमनःपर्ययबोधनः । शून्यद्वययुत्पदप्रोक्तवादिबन्धाद्विग्रमङ्गलः ॥४५॥

स्वना रूप है । कर्मरूपी इन्द्रजालियाने ही इसे उलटा कर दिखलाया है ॥३८-३९॥ काम, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदिसे उपद्रुत हुए प्राणी सामने रखे हुए असत् पदार्थको सत् समझने लगते हैं ॥४०॥ इस संसारमें न तो कोई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली है और न कोई पदार्थ मेरा है, मेरा तो मेरा आत्मा ही है, यह सारा संसार मुझसे जुदा है और मैं इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दोंके द्वारा ही जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है, फिर भी आश्चर्य है कि मोहोदयसे शरीरादि पदार्थोंमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है ॥४१-४२॥ शरीरादिक ही मैं हूँ, मेरा सब सुख शुभ है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थोंमें जो मेरी विपर्यय-बुद्धि हो रही है उसीसे मैं अनेक दुःख देनेवाले जरा, मरण और मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ । ऐसा विचार कर वे राज्य-लक्ष्मीको छोड़नेकी इच्छा करने लगे ॥४३-४४॥ लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की । उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप दिया, इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया ॥४५॥ वे उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकीपर सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय पेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय-ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहारके लिए शैलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पंचाश्रय प्राप्त किये ॥४६-४८॥ इस प्रकार छात्रस्थ अवस्थामें तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष बीत गये । तदनन्तर कार्तिक शुक्ल द्वितीयाके दिन सायंकालके समय मूल-नक्षत्रमें दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और उसी दीक्षावनमें घातिया कर्मरूपी पापकर्मको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये ॥४६-४७॥ चतुर्णिकाय देवोंके इन्द्रोंने उनके अचिन्त्य वैभवकी रचना की—समवसरण वनाया और वे समस्त पदार्थोंका निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनिसे सुशोभित हुए ॥४९॥ वे सात ऋद्धियोंको धारण करनेवाले विदग्ध आदि अट्ठासी गणधरोंसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुतकेवलियोंके स्वामी थे; एक लाख पचपन हजार पाँच सौ शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे, सात हजार केवलज्ञानियों और तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानियों और छह हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उनके मङ्गलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंके स्वामी थे, घोषार्थको आदि लेकर तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाओंसे सहित थे, दो लाख श्रावकोंसे युक्त थे, पाँच लाख श्राविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तिर्यचों-

पिण्डतर्पिद्विलक्षेण खचतुष्काष्टवह्निमान् । बोपार्याद्याधिकोपेतो द्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥  
 श्राविकापञ्चलक्षार्च्यः संख्यातीतमरुद्गणः । तिर्यक्संख्यातसंपन्नो गणैरित्येभिरर्चितः ॥ ५७ ॥  
 विहृत्य विपथान् प्राप्य संमेदं रुद्रयोगकः । मासे भाद्रपदेऽष्टम्यां शुक्ले मूले परालुके ॥ ५८ ॥  
 सहस्रमुनिभिः साह्यं मुक्तिं सुविधिरासवान् । निलिम्बाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥

### स्रग्धरा

दुर्गं मार्गं परंपां सुगममभिगमास्त्वस्य शुद्धं व्यधाद्यः  
 प्राप्तुं स्वर्गापवर्गां सुविधिसुपगमं चेतसा विभ्रतां तम् ।  
 मक्तानां मोक्षलक्ष्मोपतिमतिविकसत्युप्पदन्तं भदन्तं  
 मास्वन्तं दन्तकान्त्या प्रहसितवदनं पुष्पदन्तं नमामः ॥ ६० ॥

### वसन्ततिलका

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं  
 सर्वोपकारि तव देव ततो भवन्तम् ।  
 संसारमारवमहास्थलरुद्रसान्द्र-  
 छायामहीरुहमिमे सुविधिं श्रयामः ॥ ६१ ॥  
 योऽजायत क्षितिभृदन्न महादिपद्म-  
 पश्चाद्भूद्विवि चतुर्दशकल्पनाथः ।  
 प्रा-ते बभूव भरते सुविधिनृपेन्द्र-  
 स्तीर्थेश्वरः स नवमः कुरुताञ्छ्रियं वः ॥ ६२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचायप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा—  
 वसति पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५५ ॥

से सम्पन्न थे । इस तरह चारह सभाओंसे पूजित भगवान् पुष्पदन्त आर्य देशोंमें विहार कर सस्मेदशिखरपर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रशुक्ल अष्टमीके दिन मूल-नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हो गये । देव आये और उनका निर्वाणकल्याणक कर स्वर्ग चले गये ॥५२-५९॥

जिन्होंने स्वयं चलकर मोक्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, जिन्होंने चित्तमें उपशम भावको धारण करनेवाले भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी उन्नत विधि बतलायी है, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्वामी है, जिनके दाँत खिले हुए पुष्पके समान है, जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दाँतोंकी कान्तिसे सुशोभित है ऐसे भगवान् पुष्पदन्तको हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव ! आपका शरीर शान्त है, वचन कानोंको हरनेवाले है, चरित्र सबका उपकार करनेवाला है और आप स्वयं संसाररूपी विशाल मरुस्थलके बीचमें 'सघन' छायादार वृक्षके समान है अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं ॥६१॥

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वर्गमें चौदहवें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर भरतक्षेत्रमें महाराज सुविधि नामक नौवें तीर्थंकर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुष्पदन्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान करे ॥६२॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणमद्राचायं प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें पुष्पदन्त पुराणका वर्णन करनेवाला पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

षट्पञ्चाशत्तमं पर्वं

शीतलो यस्य लक्ष्मः कर्मघर्माश्विभीषुभिः । संतप्तानां शशीवासी शीतलः शीतलोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 पुष्करद्वीपपूर्वाङ्गमन्दरप्रागिवदेहभाक् । सीतापाक्तवत्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥  
 भूपतिः पद्मगुल्माख्यो द्योपायचतुष्टयः । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीतसन्धिविग्रहतत्त्ववित् ॥ ३ ॥  
 प्रज्ञावारिपरीपेकवृद्धिमद्राज्यभूरुहः । सप्तप्रकृतिशाखाभिः फलस्यस्य फलत्रयम् ॥ ४ ॥  
 प्रतापवाडवालोलज्वालामालापरिस्फुरन् । चन्द्रासिधारावावाङ्गिमग्नारातिमहीधरः ॥ ५ ॥  
 स्वयमुत्पाद्य दैवेन लक्ष्मं बुद्धयोद्यमेन च । विधाय सर्वसंभोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥  
 न्यायाजिताथसन्तर्पिताथिसार्थे निराकुलम् । पाति तस्मिन् धराचक्रं सर्ववृत्सुखशालिनि ॥ ७ ॥  
 कोकिलिकलालापा विलसत्पलवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्सालिकलितोदगमलोचना ॥ ८ ॥  
 वीतनीहारसज्ज्योऽन्ताहासा स्वच्छाम्बराम्बरा । संपूर्णचन्द्रविम्बास्या वकुलामोदवासिता ॥ ९ ॥  
 मलयानिलनिःश्वासा कर्णिकारतनुच्छविः । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सङ्गमसमुत्सुका ॥ १० ॥  
 अन्नस्तद्वल्लेनैर्न पञ्चवाणोऽपि निष्ठुरम् । अविध्यद्बहुवायो वा को न कालबले वली ॥ ११ ॥

जिनका कहा हुआ समीचीन धर्म, कर्मरूपी सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त प्राणियोंके लिए चन्द्रमाके समान शीतल है—शान्ति उत्पन्न करनेवाला है वे शीतलनाथ भगवान् हम सबके लिए शीतल हों—शान्ति उत्पन्न करनेवाले हों ॥१॥ पुष्करवर द्वीपके पूर्वार्थ भागमें जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशाके विदेह क्षेत्रमें सीतानदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश है । उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था । राजा पद्मगुल्म साम, दान, दण्ड और भेद इन चार उपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, काल-विभाग और विनिपातप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णीत सन्धि और विग्रह—युद्धके रहस्यको जाननेवाला था । उसका राज्यरूपी वृक्ष बुद्धि-रूपी जलके सिंचनसे खूब वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी, मन्त्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, अर्थ और कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर फलता रहता था ॥२-४॥ वह प्रताप-रूपी वडवानलकी चंचल ज्वालालोंके समूहसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास—खड्गकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजारूप पर्वतोंको डुबा दिया था ॥५॥ उस गुणवान् राजाने दैव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपार्जन कर उसे सर्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था । साथ ही वह स्वयं भी उसका उपभोग करता था ॥६॥ न्यायोपाजित धनके द्वारा याचकोंके समूहको सन्तुष्ट करनेवाला तथा समस्त ऋतुओंके सुख भोगनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस धराचक्रका—पृथिवी-मण्डलका पालन करता था तब उसके समागमकी उत्पुङ्गतासे ही मानो वसन्त ऋतु आ गयी थी । कोकिलों और भ्रमरोंके मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृक्षोंके लहलहाते हुए पल्लव ही उसके ओठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्त भ्रमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, कुहरासे रहित निर्मल चाँदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकाश ही उसका वस्त्र था, सम्पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मौलिश्रीकी सुगन्धिसे सुवासित मलय समीर ही उसका श्वासोच्छ्वास था और कर्नेरके फूल ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ ७-१० ॥ कामदेव यद्यपि शरीररहित था और उसके पास सिर्फ पाँच ही वाण थे, तो भी वह राजा पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठुरतासे पोड़ा पहुँचाने लगा जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठोक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नही बलवान् हो जाता है ? ॥११॥ जिसका मन

१ कृतघर्माश्विभीषुभिः ल० । कर्मघर्माश्विभीषुभिः ल० । कर्म एव घर्माशुः सूर्यः तस्य अमीषवः किरणाः तैः । २ भामिनीहार ल०, ल० ।

१ स सुखेऽप्युर्वसन्तश्रीविषयीकृतमानसः । तथा विवृद्धसंप्रीतिराक्रीडति निरन्तरम् ॥ १२ ॥  
 सापि कालानिलोद्भूता घनाली वा व्यलीयत । तदुपायसमुद्भूतशोक्याकुलितशयः ॥ १३ ॥  
 कामो नाम खलः क्रोऽपि तापयस्यखिलं जगत् । पापां सकलचित्तस्थो विग्रही<sup>१</sup> विग्रहाड्डिना ॥ १४ ॥  
 तं ध्यानानलनिर्दग्धमद्यैव विदुषाम्यहम् । इत्याचिर्भूतवैराग्यश्रन्दने निजानन्दने ॥ १५ ॥  
 राज्यभारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम् । संप्राप्य सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं स समीयिवान् ॥ १६ ॥  
 विपाकसूत्रपर्यन्तसकलाङ्गवरः शमी । स्वीकृत्य तीर्थकृत्नाम विषाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥  
 संप्राप्य<sup>२</sup> जीवितस्यान्तं त्रिधाराधनसाधनः । आरणाख्येऽभवत्कल्पे सुरेन्द्रो<sup>३</sup> इन्द्रवैभवः ॥ १८ ॥  
 द्वाविंशत्यधिमानायुः हस्तत्रितयविग्रहः । शुक्लेऽस्याद्द्वयो मासैः सदैकादशभिः श्वसन् ॥ १९ ॥  
 द्वाविंशतिसहस्राब्देर्मानसाहारवर्षितः । श्रीमान् मनःप्रवीचरः प्राकाम्याद्यष्टधागुणः ॥ २० ॥  
 प्राक्पृष्ठनरकाद् व्यासतृतीयज्ञानभास्वरः । तप्यमाणबलस्तावत् प्रकाशतनुविक्रियः ॥ २१ ॥  
 वीतवाह्यविकारोऽह्वरसौख्यादिषपारगः । कलामिथ<sup>४</sup> किलासंख्यामथमायुरजोगमत् ॥ २२ ॥  
 तस्मिन्भुवं समायाति पण्मासस्थितिर्जीविते । द्वापेऽस्मिन्<sup>५</sup> भारते वर्षे विषये मलयाह्वये ॥ २३ ॥  
 राजा भद्रपुरं वंशे पुरोर्दंष्टरथोऽभवत् । महादेवीं सुनन्दास्य तद्गृहं धनदायया ॥ २४ ॥  
 रत्नैरपूरयन् देवाः पण्मासैर्गुह्यकाङ्क्षयाः । सापि स्वसाक्षिणाप्रान्ते<sup>६</sup> षोडशालोक्य मानिनी ॥२५॥

वसन्तलक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा प्रीतिको बढ़ाता हुआ उस वसन्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने लगा ॥१२॥ परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ायी हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार कालरूपी वायुसे उड़ायी वह वसन्तश्री अन्तर्हित हो गयी और उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बृहत् ही व्याकुल हो गया ॥१३॥ वह विचार करने लगा कि यह कान बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारको दुःखो करता है, सबके चित्तमें रहता है और विग्रह-शरीररहित होनेपर भी विग्रही—शरीररहित (पक्षमें उपद्रव करनेवाला) है ॥१४॥ मैं उस कामको आज ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा भस्म करता हूँ । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ । वह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा और समस्त परिग्रह तथा शरीरसे विसुख हो गया ॥१५-१६॥ ज्ञान्त परिणामोंको धारण करनेवाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीर्थकर नाम-कर्मका बन्ध किया, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीन आराधनाओंका साधन किया तथा आयुके अन्तमें वह समाधिमरण कर आर्य नामक पन्द्रहवें स्वर्गमें विशाल वैभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुआ ॥१७-१८॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागरकों थी, तीन हाथ लंबा उसका शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्लेऽस्याई थीं, न्यारह माहमें श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें मानसिक आहार लेकर सन्तुष्ट रहता था, लक्ष्मीमान् था, मानसिक प्रवीचरसे युक्त था, प्राकाम्य आदि आठ गुणोंका धारक था, ऋठवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले अवधिज्ञानसे देदीप्यमान था, इतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी और वाह्य-विकारोंसे रहित विशाल श्रेष्ठ सुखरूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयुको कालकी कलाके समान—एक क्षणके समान दत्ता दिया ॥१९-२०॥ जब उस इन्द्रकी आयु छह माहकी घाकी रह गयी और वह पृथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जन्मद्वीपके भरत क्षेत्रसन्वन्धी मलय नामक देशमें भद्रपुर नगरका स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा वृहथ राज्य करता था । उसकी महारानीका नाम सुनन्दा था । कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवाने छह मास पहलेसे रत्नोंके द्वारा सुनन्दाका

१ सन् सुखेऽप्यु-१० । मुमुखेऽप्यु-१० । २ विग्रहं विना ख० । ३ सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं (सर्वपरिग्रहशरीर-विमुक्तत्वं) क०, टि० । सर्वसंयोगवैमुख्यम् ल० । ४ जीवितस्यान्ते ल० । ५ त्रियालवैभवः । ६ प्राकाम्याद्यष्ट-धागुणः ल० । प्राकाम्याद्यष्टधागुणैः ख० । ७ कलासंख्य-ल० । ८ निशप्राप्ते ल० ।

प्रविशन्तं गजं चास्ये भूपतेस्तत्काम्यवैत्<sup>१</sup> । तदाद्याषादनक्षत्रे कृष्णाष्टम्यां दिवश्च्युते ॥ २६ ॥  
 चैत्रे स देवः स्वर्गाग्नात् गुणैः सद्बृत्ततादिभिः । मावी शुक्तिपुटे तस्या वार्तिन्दुर्वोदरेऽथवत् ॥ २७ ॥  
 आदिकल्प्याणसत्पूजां प्रीत्यैव विदुषुः सुराः । द्वादश्यामसिते माघे विद्वययोगेऽजनि क्रमात् ॥ २८ ॥  
 तदैवागस्थ तं नीचा महामेरुं महोत्सवाः । देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्ति स्म शीतलम् ॥ २९ ॥  
 नवकोटयुक्तिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपमचतुर्भगि व्युच्छिन्ने धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥  
 तदभ्यन्तरवर्षयुस्तराजः कनकच्छविः । खपञ्चकैकपूर्वायुर्धनुर्नवतिविग्रहः ॥ ३१ ॥  
 गते स्वायुश्चतुर्भगि कौमारे स्वपितुः पदम् । प्राप्य प्रधानसिद्धिं च पाल्यामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥  
 गत्यादिशुभनामानि सहस्रं गोत्रमुत्तमम् । आयुस्तीर्थकरोपेतमपवर्तदिवर्जितम् ॥ ३३ ॥  
 सर्वाण्येतानि संभूय स्वोच्छ्रानुभवोदयात् । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ३४ ॥  
 स्वायुश्चतुर्भगावशेषे हासितसंघृतिम्<sup>२</sup> । प्रत्याख्यानकषायोदयावसाने प्रतिष्ठितम् ॥ ३५ ॥  
 तं कदाचिद्द्विहारार्थं वनं यातं महौजसम् । हिमानीपटलं सद्यः प्रच्छाद्य विलयं गतम् ॥ ३६ ॥  
 स तद्वेत्तुसमुद्भूतबोधिरित्यमचिन्तयत् । क्षणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम् ॥ ३७ ॥  
 दुःखदुःखनिमित्ताख्यचितयं निदिधत् मया । सुखादित्रयविज्ञानमेतन्मोहोऽनुबन्धजात् ॥ ३८ ॥  
 अहं किल सुखी सौख्यमेतत् किल पुनः सुखम् । पुण्यात्किञ्च महामोहः काललब्ध्या विनामवत् ॥ ३९ ॥

घर भर दिया । मानवती सुनन्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय चैत्र कृष्ण अष्टमीके दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रमें सद्बृत्तता—सदाचार आदि गुणोंसे उपलक्षित वह देव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके उदरमें उस प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार कि सद्बृत्तता—गोलाई आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी बूँद शुक्तिके उदरमें अवतीर्ण होती है ॥२२-२७॥ देवोंने आकर बड़े प्रेमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की । क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर माघकृष्ण द्वादशीके दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुआ ॥२८॥ उसी समय बहुत भारी उस्सवसे भरे देव लोग आकर उस बालकको सुमेरु पर्वतपर ले गये । वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रखा ॥२९॥ भगवान् पुष्पदन्तके मोक्ष चले जानेके बाद नौ करोड़ सागरका अन्तर बीत जानेपर भगवान् शीतलनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके पहले पल्यके चौथाई भाग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था । भगवान्के शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, आयु एक लाख वर्षकी थी और शरीर नच्चे घनुष ऊँचा था ॥३०-३१॥ जब आयुके चतुर्थ-भागके प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया ॥३२॥ गति आदि शुभ नामकर्म, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र और अपघात मरणसे रहित तथा तीर्थकर नामकर्मसे सहित आयु-कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखकी उपमा किसके साथ दो जा सकती है ? ॥३३-३४॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेष रह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानान्तरणकषायका अन्त हो गया । महातेजस्वी भगवान् शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए वनमें गये । वहाँ उन्होंने देखा कि पालेका समूह जो क्षण-भर पहले समस्त पदार्थोंको ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है ॥३५-३६॥ इस प्रकारणसे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण-भरमें बदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार चिन्धर है ॥३७॥ आज मैंने दुःख, दुःखी और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया । मोहके अनुबन्धसे मैं इन तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रहा ॥३८॥ मैं सुखी हूँ, यह सुख है और यह सुख पुण्योदयसे फिर भी मुझे मिलेगा यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके विना हो रहा

१ न्यवीत् (?) ल० । २ महामेरु ल० । ३ संसृति ल० । ४ प्रलयं ल० ।



कर्म स्यात्किं न वा पुण्यं कर्म चेत्कर्मणा कृतः । सुखं रतिविकारामिच्छाद्यदोषवतोऽङ्गिनः ॥ १० ॥  
 विषयैरेव चेत्सौख्यं तेषां पर्यन्ततोऽस्म्यहम् । ततः कृतो न मे कुक्षिः मिथ्यावैषयिकं सुखम् ॥ ११ ॥  
 औदासीन्यं सुखं तन्न सति मोहे कुत्रस्ततः । मोहारिमेव निर्मूलं विलयं प्रापये द्रुतम् ॥ १२ ॥  
 इत्याकलय्य 'याथात्म्यं' हेयपक्षे निवेशितम् । दत्त्वा पुत्राय साम्राज्यं मोहिनामादुरावहम् ॥ १३ ॥  
 लब्धलौकान्तिकस्तोत्रं प्रास्तत्कालपूजनः । शुक्रप्रभां समारुह्य सहेतुकवनान्तरे ॥ १४ ॥  
 पूर्वाषाढे माघमासे कृष्णद्वादश्याक्षये । उपवासद्वयो राजसहस्रेणैत्य संयमम् ॥ १५ ॥  
 चतुर्जानो द्वितीयेऽङ्घ्रि स चर्चार्थं प्रविष्टवान् । अरिष्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनर्वसुः ॥ १६ ॥  
 नाग्ना नरपतिर्दत्त्वा परमाञ्जं प्रमोदवान् । वितर्णमनरैस्तुष्टैः प्रापदाश्रयपञ्चकम् ॥ १७ ॥  
 द्वात्रिंशत्येन समास्तित्तो नीत्वा विल्वद्रुमाश्रयः । पौषकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वाषाढेऽपराह्णे ॥ १८ ॥  
 दिनद्वयोपवासेन कैवल्यं कनकद्युतिः । प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामकुर्वत ॥ १९ ॥  
 अनगाराख्यमुख्यैः शशोतिसप्तद्विसप्ततः । शून्यद्वययुगैकोकपूज्यपूर्वधरान्वितः ॥ २० ॥  
 शून्यद्वयद्विरभ्रेन्द्रियोक्तशिक्षकलक्षितः । शून्यद्वयद्विसप्ताङ्गज्ञानत्रयविलोचनः ॥ २१ ॥  
 शून्यत्रितयसप्तोक्तपञ्चभावगामान्वितः । शून्यत्रितयपक्षैकविक्रियद्वितीयतीहितः ॥ २२ ॥  
 लक्षिकेन्द्रियसप्तोक्तसप्तः रयंसंयतः । शून्यद्वयद्विपञ्चोक्तवादिमुख्याङ्घ्रितत्रयः ॥ २३ ॥  
 एकीकृतयतित्रातं लक्षासमुपलक्षितः । सचतुष्काष्टवह्नुक्तवैरणाद्याधिकान्वितः ॥ २४ ॥  
 उपासकद्विदश्याच्यो द्विगुणभ्राविकानुतः । अलंघ्यदेवदेवीद्वयवित्तयत्संख्यातहेवितः ॥ २५ ॥

॥३६॥ कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवको सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्वेष तथा अभिलाषा आदि अनेक दोषोंसे युक्त है ॥३७॥ यदि विषयोंसे ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विषयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थात् मुझे सबसे अधिक सुख प्राप्त है फिर मुझे सन्तोष क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता है कि विषय-सम्बन्धी सुख मिथ्या सुख है ॥३८॥ उदासीनता ही सच्चा सुख है और वह उदासीनता मोहके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह-शत्रुको ही शीघ्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता हूँ ॥३९॥ इस प्रकार पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके योग्य और मोही जाँवोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया ॥४३॥ उसी समय आये हुए लौकान्तिक देवोंने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होंने दीक्षा-कृत्याणक पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान् शीतलनाथ शुक्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार होकर सहेतुक वनमें पहुँचे ॥४४॥ वहाँ उन्होंने माघकृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय पूर्वाषाढा नक्षत्रमें दो उपवासका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण किया ॥४५॥ चार ज्ञानके धारी भगवान् दूसरे दिन चर्याके लिए अरिष्टनगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ नवधा भक्ति करनेवाले पुनर्वसु राजाने बड़ेहर्षके साथ उन्हें खीरका आहार देकर सन्तुष्ट देवोंके द्वारा प्रदत्त पंचाश्रय प्राप्त किये ॥४६-४७॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके तीन वर्ष बिनाकर वे एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर विराजमान हुए । जिससे पौषकृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रमें सायंकालके समय सुवर्णके समान कान्तिवाले उन भगवान्ते केवलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोंने आकर उनके ज्ञान-कृत्याणककी पूजा की ॥४८-४९॥ उनकी समामें सप्त ऋद्धियोंको धारण करनेवाले अनगार आदि इक्यासी गणधर थे । चौदह सौ पूर्वधारी थे, उनसठ हजार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनि उनकी पूजा करते थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंको पूजा करते थे, इस तरह सब मुनियोंकी संख्या एक लाख थी, धरणा आदि तीन लाख अस्तीं हजार अर्थिकाएँ उसके साथ थीं,

१ याथात्म्यं हेय ल० । २ उपवासद्वयो ल०, ल० । ३ लज्जः समुप-ल० । लज्जसमुप-ल० ।

४ धारणाद्या ल० ।

विहस्य त्रिविधान् देशान् सम्पमिथ्यादशो बहून् । सम्यक्त्वादिगुणस्थानान्वापयन् धर्मदेशान् ॥५६॥  
सम्मेदशेकमासाद्य मासमात्रोच्चैःशतक्रियः । प्रतिमायोगमासाद्य सहस्रमुनिसंवृतः ॥५७॥  
धवलाश्वयुजाष्टम्यां पूर्वाषाढेऽपराह्लाग । नाशिताशेषकर्मारिः समापस्वरमं पदम् ॥५८॥  
कृत्वा पञ्चमकल्याणं देवेन्द्रा धोतित्ताखिलाः । स्वदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतलं संस्तुता दिवम् ॥ १९॥

### शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्

यस्योत्थादप्रनुमसादमगमन्द्वादयाद्वा जगत्  
बन्धूनां व्यकसन्मुखाणि निखिलान्यञ्जानि वोष्णद्युतेः ।  
अर्थान् प्राप्य समोप्सितान् बहुमुदा सन्नर्थबन्तोऽर्थिनः  
तं वन्दे त्रिदशार्चितं रतितृषानिःशेषिणं शीतलम् ॥ ६० ॥  
दिङ्मातङ्गकपालमूलबालितैर्दानैस्ततामोदनै-  
र्दंष्ट्राङ्गैःशुनिमोऽञ्जलौत्तिलकिकास्तद्वृत्तपर्यङ्ककैः ॥  
दिङ्कन्याः कलकण्ठकाश्च रचितैर्गायन्ति वर्णाक्षरै-  
र्यस्यायुद्धतमोहवीरविजयं तं शीतलं संस्तुते ॥ ६१ ॥

### रथोद्धतावृत्तम्

पद्मगुल्ममखिलैः स्तुत गुणैरारणेन्द्रममरार्चितं ततः ।  
तीर्थकृत्सुदशमं दयामर्थं शीतलं नमत सर्वशीतलम् ॥ ६२ ॥

### अनुष्टुप्

शोतलेशस्य तीर्थान्ते सदमौं नाशमयिवान् । वक्तृश्रोतृचरिष्णुनामभावात्कालदोषतः ॥ ६३ ॥

दो लाख श्रावक और तीन लाख श्राविकाएँ उनकी अर्चा तथा स्तुति करती थी, असंख्यात देव-  
देवियाँ उनका स्तवन करती थीं और संख्यात तिर्यच उनकी सेवा करते थे ॥५०-५५॥ असं-  
ख्यात देशोंमें विहार कर धर्मोपदेशके द्वारा बहुत-से भव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंको सम्यक्त्व आदि  
गुणस्थान प्राप्त कराते हुए वे सम्मेदशिखरपर पहुँचे । वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने  
प्रतिमा योग धारण किया और एक हजार मुनियोंके साथ आश्विन शुक्ला अष्टमीके दिन सार्य-  
कालके समय पूर्वाषाढा नक्षत्रमें समस्त कर्म-शत्रुओंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया ॥५६-५८॥ अपने  
शरीरकी कान्तिसे सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतल-  
नाथ जिनेन्द्रकी स्तुति कर स्वर्गको चले गये ॥५९॥

जिनका जन्म होते ही समार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदय-  
से होता है । समस्त भाई-बन्धुओंके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यसे  
कमल विकसित हो जाते हैं और याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े हर्षसे कृतकृत्य हो गये उन  
देव-पूजित, रति तथा वृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ—स्तुति करता  
हूँ ॥६०॥ दिग्गजोंके करोलमूलसे गलते हुए तथा सचको सुगन्धित एवं हर्षित करनेवाले मद-जल-  
से जिन्होंने ललाटपर अर्ध चन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर है ऐसी दिङ्कन्याएँ स्व-  
रचित पद्योंके द्वारा जिनकी अत्यन्त उद्वण्ड मोहलुपी शूर-वीरको जीत लेनेके गीत गाती हैं उन शीतल  
जिनेन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥६१॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा  
हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित आरण स्वर्गके इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीर्थकर हुए उन दयालु  
तथा सचको ज्ञान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको हे भव्य जीवो ! नमस्कार करो ॥६२॥

अथानन्तर-श्री शीतलनाथ भगवान्के तीर्थके अन्तिम भागमें काल-दोषसे वक्ता श्रोता और  
आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्म का नाश हो गया ॥६३॥

१—न्यायोजन् ल० । २ तद्वत्पर्यन्तके ल० । तदन्तिपर्यन्तके ल० ।

तदा मलयदेशेऽसौ निवसन् भद्रिले पुरे । राजा मेघरथस्तस्य सचिवः सत्यकीर्तिवाक् ॥ ६४ ॥  
 स कदाचित्समांगेहे सिंहासनमधिष्ठितः । आपृच्छत समासीनान् धर्मार्थं द्रव्यदिव्सया ॥ ६५ ॥  
 दानेषु कतमदानं दत्तं बहुफलं भवेत् । इत्यतो मतिवाकसारः सचिवो दानतत्त्ववित् ॥ ६६ ॥  
 शास्त्राभ्याञ्जनानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूर्वपूर्वबहुपाप्तकलानीमानि धीमताम् ॥ ६७ ॥  
 पूर्वापरविरोधादिदूरं हिंसाद्यपासनम् । प्रमाणद्वयसंपादिं शास्त्र सर्वज्ञभाषितम् ॥ ६८ ॥  
 भूय. ससारमीरुणं सतामनुजिघृक्षया । व्याख्यानं तस्य शास्त्रस्य शास्त्रदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥  
 मुमुक्षोर्दृष्टत्त्वस्य बन्धहेतुजिहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तदानममयाह्वयम् ॥ ७० ॥  
 हिंसादिदोषदूरंभ्यो ज्ञानिभ्यो बाह्यसाधनम् । प्राहुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसर्जनम् ॥ ७१ ॥  
 आभ्यामाद्यन्तदानाभ्यामुभयोः कर्मनिर्जरा । पुण्यास्त्रवश्च शोषेण दातुस्तदुभयं भवेत् ॥ ७२ ॥  
 न ज्ञानात्सन्ति दानानि विना ज्ञानं न शास्त्रतः । हेयादेयादितत्त्वावभासनं परमं हि तत् ॥ ७३ ॥  
 तद्वाख्यातं श्रुतं सम्यग् भावितं शुद्धबुद्धये । तयोर्हेयं परित्यज्य हितमादाय सप्रता ॥ ७४ ॥  
 मुक्तिमार्गं समाश्रित्य क्रमाच्छान्तेन्द्रियाश्रयाः । शुद्धध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥  
 तस्माद् दानेषु तच्छ्रेष्ठं प्रदातुर्गुह्यतामपि । निरवद्यं निजानन्दनिर्वाणपदसाधनम् ॥ ७६ ॥  
 अन्त्यादप्यल्यसावद्यादभय.ख्यमभिष्टुतम् । त्रिमिरंनिर्महादानैः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ७७ ॥

उस समय भद्रिलपुरमें मलय देशका स्वामी राजा मेघरथ रहता था, उसके मन्त्रीका नाम सत्यकीर्ति था ॥६४॥ किसी एक दिन राजा मेघरथ समा-भवनमें सिंहासनपर बैठे हुए थे, उसी समय उन्होने धर्मके लिए धन दान करनेकी इच्छासे समाभमें बैठे हुए लोगोंसे कहा ॥६५॥ कि सब दानोंमें ऐसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फल होता हो ? इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको जानने-वाला मन्त्री इस प्रकार कहने लगा ॥६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शास्त्रदान, अभयदान और अन्नदान ये तीन प्रकारके दान कहे है । ये दान बुद्धिमानोंके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले है अर्थात् अन्न-दानकी अपेक्षा अभयदानका और अभयदानकी अपेक्षा शास्त्रदानका बहुत फल है ॥ ७०॥ जो सर्वज्ञ-देवका कहा हुआ हो, पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित हो, हिंसादि पापोंको दूर करनेवाला हो और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते है ॥६८॥ संसारके दुःखोंसे डरे हुए सत्पुरुषोंका उपकार करनेकी इच्छासे पूर्वोक्त शास्त्रका व्याख्यान करना शास्त्रदान कहलाता है ॥६९॥ मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाला मुनि कर्मबन्धके कारणोंको छोड़ने-की इच्छासे जो प्राणिपीडाका त्याग करता है उसे अभयदान कहते है ॥७०॥ हिंसादि दोषोंसे दूर रहने-वाले ज्ञानी साधुओंके लिए शरीरादि बाह्य साधनोंकी रक्षाके अर्थ जो शुद्ध आहार दिया जाता है उसे आहारदान कहते है ॥७१॥ इन आदि और अन्तके दानोंसे देने तथा लेनेवाले दोनोंको ही कर्मोंकी निर्जरा एवं पुण्य कर्मका आस्त्र होता है और अभयदानसे सिर्फ देनेवालेके ही उक्त दोनों फल होते है ॥७२॥ इस संसारमें ज्ञानसे बढकर अन्य दान नहीं है और ज्ञान शास्त्रके बिना नहीं हो सकता । वास्तवमें शास्त्र ही हेय और उपादेय तत्त्वोंको प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है ॥७३॥ शास्त्रका अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिन्तन करना शुद्ध बुद्धिका कारण है । शुद्ध बुद्धिके होनेपर ही भव्य जीव हेय पदार्थको छोड़कर और हितकारी पदार्थको ग्रहण कर प्रती बनते है, मोक्षमार्गका अवलम्बन लेकर क्रम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमें शुद्ध-ध्यानका अवलम्बन लेकर अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते है ॥७४-७५॥ इसलिए सब दानोंमें शास्त्रदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्योंसे रहित है तथा देने और लेनेवाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप मोक्ष-प्राप्तिका कारण है ॥७६॥ अन्तिम आहारदानमें थोडा आरम्भ-जन्य प्राप करना पड़ता है इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है । यह जीव इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त

हृति प्राडैवमुक्तेऽपि राजा तन्नावमन्यत । कपोतलेट्यामाहास्यादन्यदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥  
 तत्रैव नंगरे भूतिशर्मस्थो ब्राह्मणोऽभवत् । प्रणीतदुःश्रुतीः राज्ञोऽरत्नयत्स्वमनीषया ॥ ७९ ॥  
 तस्मिन्नुपपत्ते तस्य तनय सर्वशास्त्रवित् । मुण्डशालायनो जातस्तत्रासीनोऽन्नवीदसौ ॥ ८० ॥  
 मुनीनां दुर्बिधानां च दानत्रयमिदं मतम् । महेच्छानां महेशानां दानमस्त्यन्यदुत्तमम् ॥ ८१ ॥  
 भूसुवर्णादिभूषिष्टमाचन्द्रार्कयशस्करम् । शापानुग्रहशक्तिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छत ॥ ८२ ॥  
 आर्षमत्र श्रुतं चास्ति दानस्थायोपदेशकम् । इत्यानीय गृह्णात्स्वोक्तं तत्पुस्तकमाचयत् ॥ ८३ ॥  
 इत्थं तेनेङ्गितज्ञेन लब्ध्वावसरमुत्पथम् । मुण्डशालायनेनोक्तं राजा तद्वह्ममन्यत ॥ ८४ ॥  
 पापामीरोरमद्रथ विषयान्धस्य दुर्मतेः । रञ्जितः स महिपालः परलोकमहाशया ॥ ८५ ॥  
 कदाचित्कार्तिके मासे पौर्णमास्यां शुचीमवत् । मुण्डशालायनं भक्त्या पूजयित्वाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥  
 भूसुवर्णादित्थोक्तदानान्धदित दुर्मतिः । तं दृष्ट्वा भक्तिमान् भूपममात्यः प्रत्युवाच तम् ॥ ८७ ॥  
 अनुग्रहार्थं स्वस्थानिसर्गां दानं जिवैर्मतम् । स्वपरोपकृतिं प्राहुरत्र तज्ज्ञा अनुग्रहम् ॥ ८८ ॥  
 स्वोपकारोऽयसंवृद्धिः परस्य गुणवर्द्धनम् । स्वशब्दो धनपर्यायवाची पात्रेऽतिसर्जनम् ॥ ८९ ॥  
 स्वस्य दानं प्रशंसन्ति सज्जानवपि किं वृथा । कुपात्रेऽर्थं विसृज्यैवं त्रयाणां विवर्धितः कृता ॥ ९० ॥  
 सुबोजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्तं किं तदूपरे । फलं भवति संक्षेश-बीजनाश-फलादिना ॥ ९१ ॥

होता है ॥७७॥ इस प्रकार कहे जानेपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह कपोतलेट्याके माहात्म्यसे इन तीन दानोंके सिवाय और ही कुछ दान देना चाहता था ॥७८॥

उसी नगरमें एक भूतिशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था । वह अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे-खोटे शास्त्र बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ॥७९॥ उसके मरनेपर उसका मुण्डशालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला हुआ । वह उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था अतः मन्त्रीके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥८०॥ कि ये तीन दान मुनियोंके लिए अथवा दरिद्र मनुष्योंके लिए है । बड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए, तो दूसरे ही उत्तम दान हैं ॥८१॥ शाप तथा अनुग्रह करनेकी शक्तिये सुशोभित ब्राह्मणोंके लिए, जबतक चन्द्र अथवा सूर्य है तबतक यशका करनेवाला पृथिवी तथा सुवर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए ॥८२॥ इस दानका समर्थन करनेवाला ऋषिप्रणीत शास्त्र भी विद्यमान है, ऐसा कहकर वह अपने घरसे अपनी वनाची हुई पुस्तक ले आया और सभामें उसे वचवा दिया ॥८३॥ इस प्रकार अभिप्राय जाननेवाले मुण्डशालायनने अवसर पाकर कुमारिका उपदेश दिया और राजाने उसे बहुत माना—उसका सत्कार किया ॥८४॥ देखो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, विषयान्ध था और दुर्बुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो गया—प्रसन्न हो गया ॥८५॥ किसी समय कार्तिक मासकी पौर्णमासीके दिन उस दुर्बुद्धि राजाने शुद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्रव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे हुए भूमि तथा सुवर्णादिके दान दिये । यह देख भक्त मन्त्रीने राजासे कहा ॥८६-८७॥ अनुग्रहके लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है और इस विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको ही अनुग्रह कहते हैं ॥८८॥ पुण्य कर्मकी वृद्धि होना यह अपना उपकार है—अनुग्रह है और परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार है । स्व शब्द धनका पर्यायवाची है । धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है । यही दान प्रशंसनीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर आप दाता, दान और पात्र दोनोंको क्यों नष्ट कर रहे हैं ॥८९-९०॥ उत्तम बोज कितना ही अधिक क्यों न हो, यदि उसर जमीनमें डाला जायेगा तो उससे संक्षेश और बीज नाश रूप फलके सिवाय और क्या होगा ?

१ महेशानां महेशाना ग० । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ अस्य पुण्यकर्मणः संवृद्धिरयसंवृद्धिः, स्वोपकारः ।

सुवीरमन्मथन्युर्मं सुक्षेत्रे कालवेदिना । तन्महत्सगुणीभूतं वरकश्य फलं भवेत् ॥ १२ ॥  
इति मन्त्रेण नैनात्समुदाहरणकौटिलिः । श्रीमन्ना तन्महोमर्तुन्मकागय नामधम् ॥ १३ ॥  
कालदृष्ट्यं वा मन्त्रो वैपत्यं वा सनायुषः । आजन्मान्वस्य त्रादृशो विपरीतस्य सदृशः ॥ १४ ॥  
विद्यायादिक्रमायात् दानमागं कुर्मागः । मूर्धप्रलपितं दानमागं तयमधीवृत् ॥ १५ ॥

### द्रादृखविकीहितम्

कन्याहृन्निमुवर्णवाजिकपिलादासीविलस्यन्दन-

रुमागदप्रतिवृद्धमत्र दशधा दानं द्रिद्रेप्सितम् ।

नार्थान्ते जितश्रीवृत्तस्य सुत्रगामाविश्रकार स्वर्थं

वृत्तवो वस्तुषु भूतिगर्भवनयोर्जा सुषुद्धशालायनः ॥ १६ ॥

इत्यार्ये नगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिच्छरणमहापुराणसंग्रहे धौतच्छपुराणं नाम  
परिग्रयात्तं षट्पञ्चाजत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥

■

कुछ भी नहीं ॥११॥ इसके विपरीत उत्तम चीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले मनुष्यके द्वारा उत्तम श्रेष्ठमें बोधा जाता है तो जानेवालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप्त होता है ॥१२॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान् एवं सक्त मन्त्रीने यद्यपि करगैहों उदाहरण देकर उस राजाको मनझाया परन्तु उसने राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥१३॥ सो ठीक ही है क्योंकि विपरीत बुद्धिवाले मनुष्यके लिए सन्-पुरुषोंके वचन ऐसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मन्त्र, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए औषधि, और जन्मके अन्वके लिए दर्पण ॥१४॥ उस कुमार्शगामी राजाने प्रारम्भमें ही चले आये दानके मागको छोड़कर मूर्ख सुषुद्धशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक दानके मागको प्रचलित किया ॥१५॥ इस प्रकार लौकिक वस्तुओंके लोभी, भूतिशर्माके पुत्र सुषुद्धशालायनने श्रीश्रीवृत्तस्य जिनेन्द्र तीर्थके अन्तिम समयमें द्रिदृशोंको अच्छा लगनेवाला—कन्यादान, हृन्निदान, सुवर्णदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान और गृहदान यह दश प्रकारका दान स्वर्थ ही अच्छी तरह प्रकट किया—चलाया ॥१६॥

इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिच्छरण महापुराण संग्रहमें श्रीवृत्तपुणका वर्णन करनेवाला छपनववाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥ ५६ ॥

■

## सप्तपञ्चाशत्तमं पर्व

१ श्रेयः श्रेयेषु<sup>२</sup> नास्त्वन्यः<sup>३</sup> श्रेयसः श्रेयसे बुधैः । इति श्रेयोऽर्थिभिः श्रेयः श्रेयांसः श्रेयमेऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 पुष्कराद्देन्द्रदिग्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके । सीतानद्युत्तरे देशे नृप<sup>४</sup> क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥  
 नलिनप्रमनामाभूत्प्रमिताशेषविद्धिप । प्रज्ञानुरागसम्पादिताचिन्त्यमहिमाश्रयः ॥ ३ ॥  
 पृथक्त्रिभेदनिर्णीतशक्तिस्त्रिद्वयद्वयोदितः । शमव्यायामसम्प्राप्तक्षेमयोगोऽयमैधत ॥ ४ ॥  
 भूभ्रतप्रमथंयत्तस्मिन्नयस्मान्प्रायेण पालनात् । स्थितौ सुस्थाप्य सुस्तिग्धां धरामधित स प्रजाः ॥ ५ ॥  
 धर्मं पृथापरं धर्मन्तस्मिन्नसन्प्राग्वर्तिनि । अर्थकामौ च धर्म्यौ यत्तत् स धर्ममयोऽभवत् ॥ ६ ॥  
 एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः । लोकपालोपमो दीर्घं पाळयन्नखिलामिकाम् ॥ ७ ॥  
 सहस्राश्रवणोऽनन्तजिनं तद्वनपालकात् । अत्रतीर्णं त्रिदिस्वात्मपरिवारपरिष्कृत ॥ ८ ॥  
 गत्वाऽभ्यर्च्य चिरं स्तुत्वा नत्वा स्वोचितदेशमाक् । श्रुत्वा धर्मं समुत्पन्नतत्त्वबुद्धिरिति स्मरन् ॥ ९ ॥  
 कस्मिन् केन कथं कस्मात् कस्य किं श्रेय इत्यदः । अजानता मया भ्रान्तं श्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥  
 आदितो बहुधा मोहान्मयैवैष परिग्रहः । तत्प्रागाद्यदि भिर्वाणं कस्मात्कालविकल्पनम् ॥ ११ ॥  
 इति नाम्ना सुपुत्राय<sup>५</sup> पुत्राय गुणशालिने । दत्त्वा राज्यं सभं भूपैर्वहुभिः संयमं ययौ ॥ १२ ॥  
 शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ तीर्थं कृत्वा मन्थाम सन् । संन्यस्याजनि कल्पेऽन्ते सुराधीशोऽच्युताह्वयः ॥ १३ ॥

आश्रय लेने योग्य पदार्थोंमें श्रेयांसनाथको छोड़ कर कल्याणके लिए विद्वानोंके द्वारा और दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है-इस तरह कल्याणके अभिलाषी मनुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान् श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हैं ॥१॥ पुष्करार्ध द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रके सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तट पर क्षेमपुर नामका नगर है । उसमें समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला तथा प्रजाके अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नलिनप्रभ नामका राजा राज्य करता था ॥२-३॥ पृथक्-पृथक् तीन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है ऐसी शक्तियों, सिद्धियों और उद्योंसे जो अभ्युदयको प्राप्त है तथा शान्ति और परिश्रमसे जिसे क्षेम और योग प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था ॥४॥ वह राजा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था और स्नेहपूर्ण पृथिवीको मर्यादामें स्थित रखता था अतः उसका भूभृत्पना सार्थक था ॥५॥ समीचीन मार्गमें चलनेवाले अन्यधर्मस्वरूप उस श्रेष्ठ राजामें धर्म तो था ही, किन्तु अर्थ तथा काम भी धर्मयुक्त थे । अतः वह धर्ममय ही था ॥६॥ इस प्रकार रक्कत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सुखकी खानस्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त पृथिवीका दीर्घकाल तक पालन करता रहा ॥७॥ एक दिन वनपालसे उसे मालूम हुआ कि सहस्राश्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीर्ण हुए हैं तो वह अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर सहस्राश्रवणमें गया । वहाँ उसने जिनेन्द्रदेवकी पूजा की, चिरकाल तक स्तुति की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थानपर बैठ गया । तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इस प्रकार चिन्तन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किन प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जानकर मैंने खेद-खिन्न होते हुए अनन्त जन्मोंमें भ्रमण किया है । मैंने जो बहुत प्रकारका परिग्रह इकट्ठा कर रखा है वह मोहवश ही किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तब समय वित्तानेसे क्या लाभ है? ॥८-११॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१२॥ ग्यारह अर्गोंका अध्ययन किया, तीर्थकर नाम-

१ श्रेयणीय । २ श्रेयेषु आश्रयणीयेषु । ३ श्रेयस एकादशतीर्थकरात् । ४ कल्याणाधिभिः । ५ सहस्राश्रवणे ल० । ६ सुपुत्राय सुपुत्रगुणशालिने ल०, ग०, ल० ।

पुष्पोत्तरविमानेऽसौ द्वाविंशत्यदिष्वजीवितः । हस्तत्रयप्रमाणाङ्गः प्रोक्तलेइयादिभिर्भुतः ॥ १४ ॥  
 देवीभिर्दिव्यभावामिः कमनीयामिन्द्रहम् । भवसाराणि लौक्यानि तत्र प्रीत्यान्वभूषिन्म ॥ १५ ॥  
 कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः । संसारलौक्यपर्यन्तसन्तोषात्मसतीथिवान् ॥ १६ ॥  
 अनुभूय सुखं तस्मिन् तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥  
 इद्वाकुलंशविख्यातो विष्णुनामास्य बल्लभा । नन्दा षण्माससंप्राप्तसुधारादिपूजना ॥ १८ ॥  
 ज्येष्ठे मास्यसिते पृथगं श्रवणे रात्रिनिर्गमे । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रास्वप्रानैक्षिष्ट षोडश ॥ १९ ॥  
 तत्फलान्ग्रहवृध्यासौ पर्युः सम्प्राप्य सम्मदम् । तदैवायातदेवेन्द्रविहितोऽस्महोत्सवा ॥ २० ॥  
 नवमासान् यथोक्तेन नोत्वा संतोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि कृष्णैकादश्यां त्रिजानधारिणम् ॥ २१ ॥  
 विष्णुयोगे महाभागमसूताच्युतनायकम् । मेघवलीव सद्वृष्टिविशेषं विश्वतुष्टये ॥ २२ ॥  
 तदुद्भवे प्रसन्नानि मनांसि सकलाङ्गिनाम् । जलस्थलानि वा सद्यः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥  
 भयिभो धनसंतुल्या धनिनो दीनतर्पणैः । ते च ते चेष्टसम्भोगात्सोद्वान् ३ ॥ २४ ॥  
 तदा सर्वतंबवस्त्र स्वैः स्वैर्भावैर्नोहरैः । प्रादुर्बभूवुः सम्भूय सर्वाङ्गिसुखहेतवः ॥ २५ ॥  
 सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो वीतशोक्ताम् । धर्मिष्ठतां च पापिष्ठाश्चिन्नमीशसमुद्भवे ॥ २६ ॥  
 जनस्य चेदयं तोषस्तदानीमतिमात्रया । पित्रोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥

कर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर सोलहवें अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें अच्युत नामका इन्द्र हुआ । वहाँ बाईस सागर प्रमाण उसको आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था और ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेइया आदिसे सहित था ॥१३-१४॥ दिव्य भावोंको धारण करनेवाली सुन्दर देवियोंके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखोंका बड़ी प्रीतिसे उपभोग किया ॥१५॥ कल्पातीत—सोलहवें स्वर्गके आगोके अहमिन्द्र विराग है—रागरहित है और अन्य देव अल्प सुखवाले हैं इसलिए संसारके सबसे अधिक सुखोंसे सन्तुष्ट होकर वह अपने आयु व्यतीत करता था ॥१६॥ वहाँके सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तब इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी इक्ष्वाकु वंशसे प्रसिद्ध विष्णु नामक राजा राज्य करता था ॥१७॥ उसकी बल्लभाका नाम नन्दा था । नन्दाने गर्भधारणके छह माह पूर्वसे ही रत्नवृष्टि आदि कई तरहकी पूजा प्राप्त की थी ॥१८॥ ज्येष्ठ कृष्ण पक्षके दिन श्रवण नक्षत्रमें प्रातःकालके समय उसने सोलह स्वप्न तथा अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥१९॥ पतिसे उनका फल जानकर वह बहुत ही हर्षको प्राप्त हुई । उमी समय इन्द्रोंने आकर गर्भकल्याणकका महोत्सव किया ॥२०॥ उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली नन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिताकर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्युतेन्द्रको संसारके सन्तोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम वृष्टिको उत्पन्न करती है ॥२१-२२॥ जिस प्रकार शरदृत्तुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सब जीवोंके मन प्रसन्न हो गये थे—हर्षसे भर गये थे ॥२३॥ भगवान्का जन्म होनेपर याचक लोग घन पाकर हर्षित हुए थे, धनी लोग दीन मनुष्योंको सन्तुष्ट करनेसे हर्षित हुए थे और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे ॥२४॥ उस समय सब जीवोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोंसे प्रकट हुई थीं ॥२५॥ बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवान्का जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो गये थे, शोकवाले शोकरहित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे ॥२६॥ जब उस समय साधारण मनुष्योंको इतना सन्तोष हो रहा था तब माता-पिताके सन्तोषका प्रमाण कौन

१ 'वा स्याद्विकल्पोपमयोरिवाधेऽपि समुच्चये' इति कोश । २ दीनतर्पणात् ग० । ३ सोद्वानः सहर्षाः 'क्षण उद्भव उत्सव' ।

सधश्चतुर्विधा देवाः कृत्वा तेजोमयं जगत् । स्वाङ्गाभरणमाभिरापवन्ति स्म सर्वतः ॥२८॥  
 नेदुर्दुन्दुभयो हृद्याः पेतुः कुसुमवृष्टयः । नेदुरामरत्नर्त्तक्यो जगुः स्वाङ्गुः १ धृगायकाः ॥ २९॥  
 लोकोज्यं देवलोको वा ततश्चात्यदभुतोदयः । अपूर्वः कोऽप्यभूद्वेति तदासन् १ धृपदां गिरः ॥३०॥  
 ३ पितरौ तस्य सौधर्मः स्वयं सदभूषणादिभिः । शची देवीं च सन्तोष्य माययाऽऽदाय बालकम् ॥३१॥  
 ऐरावतगजकन्धमारोप्यभारसेनया । सहलोक स सम्प्राप्य महामेघं महौजसम् ॥३२॥  
 पञ्चमावारपारात्क्षीरवारिघटोत्करैः । अभिषिच्य त्रिमूष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥३३॥  
 ततः पुरं समानीय मातुरङ्गे निषाय तम् । सुराधोशः सुरैः सार्द्धं प्रमुद्यारं सुरालये ॥३४॥  
 गुणैः सार्द्धमवदन्त तदास्यावयवाः शुभा । क्रमात्कान्तिं प्रपुण्यन्तो बालचन्द्रस्य चांशुभिः ॥३५॥  
 स खत्रयत्पक्षतुषड्वत्सरशताविधभिः । ऊनसागरकोन्ध्यन्ते पश्चाद्धर्मसन्ततौ ॥३६॥  
 द्युच्छिन्न्यायं तदभ्यन्तरायुः श्रेयःसमुद्भवः । पञ्चदशान्ययुगाष्टाद्वीवितः क्रनकप्रभः ॥ ३७ ॥  
 चापाशीतिसमुत्सेधो वलौकस्तेजसां निधिः । एकविंशतिलक्षान्दुकोमारं सुखसागरः ॥ ३८ ॥  
 प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं सर्वलोकनमस्कृतः । तर्पयंचन्द्रवत्सर्वान् दर्शितात् भानुवत्पत्नं ॥ ३९ ॥  
 तेजोमहामणिर्वाङ्गिर्गामीयं मलयोद्भव । शैल्यं धर्मं हृव श्रेयः सुखं स्वस्वाकरोच्चिरम् ॥ ४० ॥  
 प्राञ्जन्मसुकृतान्येन कृतायां सर्वसम्पदि । बुद्धिपौषयोर्न्यासिस्तस्यामूढ धर्मकामयोः ॥ ४१ ॥

घता सकता है ? ॥२७॥ शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके समूहसे समस्त संसारको तेजोभय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥२८॥ मनोहर दुन्दुभियाँ वजने लगीं, पुष्प वर्षाएँ होने लगीं, देव-नर्तकियाँ नृत्य करने लगीं और स्वर्गके गवैयाँ मधुर गान गाने लगे ॥२९॥ 'यह लोक देव लोक है' अथवा उससे भी अधिक वैभवको धारण करनेवाला कोई दूसरा ही लोक है' इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे ॥३०॥ सौधर्मेन्द्रने स्वयं उत्तम आभूषणादिसे भगवान्के माता-पिताको संतुष्ट किया और इन्द्राग्निने मायासे माताको संतुष्ट कर जिन-बालकको उठा लिया ॥३१॥ सौधर्मेन्द्र महातेजस्वी जिन-बालकको ऐरावत हाथीके कन्धे-पर चिराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूर्वक महामेघ पर्वतपर पहुँचा ॥३२॥ वहाँ उसने पंचम क्षीरसमुद्रसे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोंके समूहसे भगवान्का अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये और बड़े हर्षके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रखा ॥३३॥ इन्द्र मेघ पर्वतसे लौटकर नगरमें आया और जिन-बालकको माताको गोदमें रख, देवोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग चला गया ॥३४॥ जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमाने अवयव बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार किरणोंके साथ-साथ उस समय भगवान्के शरीरावयव बढ़ते रहते थे ॥३५॥ शीतलनाथ भगवान्के मोक्ष जानेके बाद जब सौ सागर और लयासठ लाख लब्धोस हजार वर्ष कम एक करोड़ सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आषे पत्य तक धर्मकी परम्परा टूटती रही तब भगवान् श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी कुल आयु चौरासी लाख वर्षकी थी । शरीर सुवर्णके समान कान्तिवाला था, ऊँचाई अस्सी धनुषकी थी, तथा स्वयं बल, भोज और तेजके भंडार थे । जब उनकी कुमारावस्थाके इक्कीस लाख वर्ष बीत चुके तब सुखके सागर स्वरूप भगवान्ने देवोंके द्वारा पूजनीय राज्य प्राप्त किया । उस समय सध लोग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सवको संवृत्त करते थे और अहंकारी मनुष्योंको सूर्यके समान संतापित करते थे ॥३६-३९॥ उन भगवान्ने महामणिके समान अपने आपको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमा के समान शीतल बनाया था और धर्मके समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप बनाया था ॥४०॥ पूर्व जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य कर्मसे उन्हें सर्व प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं

१. स्वर्गायका । द्युगायका ल० । द्युगायना ल० । २. दिवि सोदन्तीति सुसुदः तेषाम् देवानाम् । ३. माता च पिता वेति पितरौ, एकशेषः । ४. प्रसक्तो भूत्वा । ५. आर जगाम । ६. कौमारै सु-ल० । ७. पूर्वजन्मसुविहितपुण्यकर्मणा ।



तथा जुमविनोदेषु देवैः पुण्यानुबन्धिषु । सम्पादितेषु कान्तामिर्दिनान्यारमतोऽगमन् ॥ ४२ ॥  
 एवं पञ्चषपक्षाब्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकालेऽयमन्वेद्युर्वसन्तपरिवर्तनम् ॥ ४३ ॥  
 विलोक्य किञ्च कालेन सर्वं प्राप्तीकृतं जगत् । सोऽपि कालो व्ययं याति क्षणादिपरिवर्तनैः ॥ ४४ ॥  
 कश्यपान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेतद्दिनश्चरम् । शाश्वतं न पदं यावत् प्राप्यते सुस्थितिः कृत ॥ ४५ ॥  
 इति स चिन्तयन् लब्धस्तुति सारस्वतादिभिः । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥  
 प्राप्य निष्क्रमणस्नानमाह्वय विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाह्यां त्यक्त्वाहरो दिनद्वयम् ॥ ४७ ॥  
 मनोहरमहोद्याने फाल्गुनैकादशीदिने । कृष्णपक्षे सहस्रेण पूर्वाह्णे भूसुजां समम् ॥ ४८ ॥  
 श्रवणे संयमं प्राप्य चतुर्थावगमेन स । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगरं मुक्येऽविशत् ॥ ४९ ॥  
 तस्मै हेमद्युतिर्नन्दभूषितैर्मन्त्रिपूर्वकम् । दत्त्वाऽन्नं प्राप्य सत्पुण्यं पञ्चाश्रयाण्यजयंभीः ॥ ५० ॥  
 द्विसंवत्सरमानेन छात्रस्थे गतवत्यसौ । मुनिर्मनोहरोद्याने तुम्बुरद्रुमसंश्रय ॥ ५१ ॥  
 दिनद्वयोपवासेन माघे मास्यपराह्लागः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुदपादयत् ॥ ५२ ॥  
 तदा चतुर्थकल्याणपूजां देवाश्चतुर्विधाः । तस्य निर्वर्तयामासुत्रिविधं हिसमन्वित ॥ ५३ ॥  
 सप्तसप्ततिसंज्ञादिगणभृद्वृन्दवेष्टितः । शून्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः ॥ ५४ ॥  
 खद्वयद्वयष्टवाध्युक्तशिक्षकोत्तमपूजितः । शून्यत्रितयषट्प्रोक्ततृतीयज्ञानमानितः ॥ ५५ ॥  
 शून्यद्वयत्रितयत्कपञ्चमज्ञानमास्करः । शून्यत्रिकैकैकालयेयविक्रियद्विचिन्मूषितः ॥ ५६ ॥

प्राप्त हो गई थी अतः उनकी बुद्धि और पौरुषपत्नी व्याप्ति सिर्फ धर्म और काममें ही रहती थी ।  
 भावार्थ—उन्हें अर्थकी चिन्तानहीं करनी पड़ती थी ॥४१॥ देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी  
 शुभं विनोदोमें स्त्रियोंके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे ॥४२॥ इस प्रकार  
 वयालीस वर्ष तक उन्होंने राख्य किया । तदनन्तर किसी दिन वसन्त ऋतुका परिवर्तन देखकर  
 वे विचार करने लगे कि जिस कालने इस समस्त संसारको ग्रस्त कर रखा है वह काल भी  
 जब क्षण बड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस पदार्थमें स्थिरता  
 रह सकती है ? यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्चर है, जब तक शाश्वत पद—अविनाशी मोक्ष पद  
 नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ? ॥४३—४५॥  
 भगवान् ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने आकर  
 उनकी स्तुति की । उन्होंने श्रेयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय  
 होनेवाला महाभिषेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठायी जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी  
 पालकीपर सवार होकर मनोहर नामक महान् उद्यानकी ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर  
 उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय  
 श्रवण नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हें चौथा  
 मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रवेश किया  
 ॥४६—४९॥ वहाँ उनके लिए सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्द राजाने भक्ति-पूर्वक आहार दिया  
 जिससे उत्तम बुद्धिवाले उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥५०॥ इस प्रकार छद्मस्थ  
 अवस्थाके दो वर्ष बीत जानेपर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके  
 उपवासका नियम लेकर तुम्बुर वृक्षके नीचे बैठे और वहाँपर उन्हें माघकृष्ण अमावस्याके दिन  
 श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥५१—५२॥ उसी समय अनेक  
 ऋद्धियोंसे सहित चार निकायके देवोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥५३॥

भगवान् श्रेयांसनाथ कुन्थु आदि सत्तत्त्वर गणधरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहसौ पूर्व-  
 धारियोंसे सहित थे, अड़तालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियोंके द्वारा पूजित थे, छह हजार  
 अवधिज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छह हजार पाँचसौ केवलज्ञानी रूपी सूर्योंसे सहित थे, ग्यारह  
 हजार विक्रियाऋद्धिके धारकोंसे सुशोभित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियोंसे युक्त थे, और पाँच  
 हजार मुख्य वादियोंसे सेविन थे । सब प्रकार सब मिलाकर चौरासी हजार मुनियोंसे सहित

पद्मसहस्रभामप्रोक्तमनःपर्ययबोक्षणः । शून्यत्रितयपञ्चोक्तवादिसुख्यसमाश्रितं ॥५७॥  
 शून्यत्रययुगाष्टोक्तपिण्डताखिललक्षितः । खचतुष्टयपक्षैकधारणाधार्थिकाचितः ॥५८॥  
 दिलक्षोपासकोपेतो द्विगुणश्राविकाचितः । पूर्वोक्तदेवतिथ्यंको विहारन् धर्ममादिशन् ॥५९॥  
 सम्भेदगिरिमासाद्य निष्क्रियो मासमास्थितः । सहस्रमुनिभिः साद्धं प्रतिमायोगधारकः ॥६०॥  
 पौर्णमास्यां धनिष्ठयां दिनान्ते श्रावणे सताम् । असंख्यातगुणश्रेण्या निर्जरां विदधन्मुहुः ॥६१॥  
 विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान् मुनिर्द्वृतः ॥६२॥  
 विफलानिमिषत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणस्तदैव त्रिदिवं ययुः ॥६३॥

वसन्ततिलकाष्टुत्तम्

निर्धूय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त-  
 मान्ध्र्यं चराचरमशेषमवेक्षमाणम् ।  
 ज्ञानं प्रतीपविरहास्त्रिनरूपसंसर्धं  
 श्रेयान् जिनः स दिशतादशिवच्युतिं च ॥६४॥

शादूलविश्रोडितम्

सत्यं सावदयामयं तव वचः सर्वं सुहृद्गतो हितं  
 चारित्र्यं च विमोस्वदेतद्गम्यं ब्रूते विशुद्धि पराम् ।  
 तस्मादेव समाश्रयन्ति विभुषास्त्वामेव शक्रादयो  
 मन्थ्येति स्तुतिगोचरो स विदुषां श्रेयान् स वः श्रेयसे ॥६५॥  
 राजाभून्नलिनप्रभः प्रसुतमः प्रध्वस्तपापप्रभः  
 कल्पान्ते सकलानराधिपपतिः संकल्पसौख्याकरः ।

ये । इनके सिवाय एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, दो लाख श्रावक और चार लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहे अनुसार असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यञ्च सदा उनके साथ रहते थे । इस प्रकार विहार करते और धर्म का उपदेश देते हुए वे सम्भेदगिरिपर जा पहुँचे । वहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया । श्रावणशुक्ला पौर्णमासीके दिन सायंकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्माँकी असंख्यातगुणश्रेणी निर्जरा की और अ इ उ ऋ लु इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगता है उतने समयमें अन्तिम दो शुक्तध्यानोंसे समस्त कर्माँको नष्ट कर पञ्चमी गतिमें स्थित हो वे भगवान् श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये ॥५४-६२॥ इसके बिना हमारा टिमकाररहितपना व्यर्थ है ऐमा विचार कर देवाने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक क्रिया और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये ॥६३॥

जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वको देख लिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपमें स्थित रहा था ऐसे श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें ॥६४॥ 'हे प्रभो ! आपके वचन सत्य, सबका हित करने-वाले तथा दयालय हैं । इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र्य सुहृत् जनोंके लिए हितकारी है । हे भगवन् ! आपकी ये दोनों वस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिको प्रकट करती हैं । हे देव ! इसीलिए इन्द्र आदि देव भक्ति-पूर्वक आपका ही आश्रय लेते हैं । इस प्रकार विद्वान् लोग जिनकी स्तुति क्रिया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान् तुम सबके कल्याणके लिए हैं ॥६५॥ जो पहले पापकी प्रभाको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम-नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकल्प मात्रसे

यस्तीर्थाधिपतिखिलोकमहितः श्रीमान् श्रियै श्रायसं

स्याद्वाद्दं प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत् श्रेयान् जिनः सोऽस्तु वः ॥६६॥

जिनसेनानुगायास्मै पुराणकवये नमः । गुणभद्रभदन्ताय लोकसेनाविंताहृदये ॥६७॥

तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमानभूदाद्यः समुद्यमी । मरत्तश्चक्रिणां वासौ त्रिलण्डपरिपाणिनाम् ॥६८॥

आनुतीयमवात्तस्य चरितं प्रणिगद्यते । उद्वितास्तगभूपानामुदाहरणमित्यदः ॥६९॥

द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विपथो मगधाह्वयः । पुरं राजगृहं तस्मिन् पुरन्दरपुरोत्तमम् ॥७०॥

स्वर्गादित्यात्र भूष्णनां राज्ञां यद्गृहमेव तत् । भोगोपभोगसम्पत्त्या नाम तस्यार्थवत्ततः ॥७१॥

विश्वभूतिः पतितः स्य जैनी देव्यनयोऽस्तुतः । विश्वनन्दनशीलत्वाद्द्विश्वनन्दीति विश्रुतः ॥७२॥

विश्वभूतेर्विश्वाखादिभूतिर्जातीऽनुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्यास्य नन्द्यन्तविशाखस्तनयोऽनयोः ॥७३॥

विश्वभूतिस्त्वप' प्रायात् कृन्वा राज्ये निजानुजम् । प्रजाः प्रपालयत्यस्मिन्प्रणताखिलभूपतौ ॥७४॥

नानावीरुल्लावावृक्षैर्विराजन्नन्दनं वनम् । यद्विश्वनन्दिनस्तत्र प्राणैभ्योऽपि प्रियं परम् ॥७५॥

विशाखभूतिपुत्रेण निर्मत्स्यं वनपालकान् । स्वीकृतं तद्वलासेन तेनासीत्संयुगस्तयोः ॥७६॥

संग्रामासहनात्तत्र दृष्ट्वा तस्य पलायनम् । विश्वनन्दी विरक्तः सन् धिग्मोहमिति चिन्तयन् ॥७७॥

त्यक्त्वा सर्वं समागत्य सम्भूतगुहसन्निधौ । पितृव्यमग्रणीकृत्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥७८॥

स शीलगुणसम्पन्नः कुर्वन्नशनं तपः । विहरन्नेकदा भोक्तुं प्राविशन् मधुरापुरम् ॥७९॥

प्राप्त होनेवाले सुखोंकी खान स्वरूप, समस्त देवोंके अधिपति—अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिलोक-पूजित तीर्थंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादाका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान् श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी लक्ष्मीके लिए हों—तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥६६॥

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं—शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके चरणकमल पूजित हुए हैं और जो इस पुराणके बनानेवाले कवि हैं ऐसे भदन्त गुणभद्राचार्य-को नमस्कार हो ॥६६॥ ]

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयांसनाथके तीर्थमें तीन खण्डको पालन करनेवाले नारायणोंमें उद्यमी प्रथम नारायण हुआ ॥६६॥ उसीका चरित्र तीसरे भवसे लेकर कहता हूँ । यह उदित होकर अस्त होनेवाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण है ॥६६॥ इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी से भी उत्तम है ॥७०॥ स्वर्गसे आकर उत्पन्न होनेवाले राजाओंका यह घर है इसलिए भोगोपभोग-की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम सार्थक है ॥७१॥ किसी समय विश्वभूति राजा उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था । इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि सबके लिए आनन्ददायी स्वभाववाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था ॥७२॥ विश्वभूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी खीका नाम लक्ष्मणा था और उन दोनोंके विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥७३॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राज्यसौंपकर तपके लिए चला गया और समस्त राजाओंको नम्र बनाता हुआ विशाखभूति प्रजाका पालन करने लगा ॥७४॥ उसी राजगृह नगरमें नानागुहमों, लताओं और वृक्षोंसे सुशोभित एक नन्दननामका बाग था जो कि विश्वनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था ॥७५॥ विशाखभूतिके पुत्रने वनवालोंको डॉट कर जबर्दस्ती वह वन ले लिया जिससे उन दोनों—विश्वनन्दी और विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ ॥७६॥ विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ । यह देखकर विश्वनन्दीको वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह विचार करने लगा कि इस मोहको धिक्कार है ॥७७॥ वह सबको छोड़कर सम्भूत गुरुके समीप आया और काका विशाखभूतिको अभ्रगामी बनाकर अर्थात् उसे साथ लेकर दीक्षित हो गया ॥७८॥ वह शील तथा गुणोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा

१ अयं श्लोकः प्रसिप्तो भाति ।

स बालवत्सया धेन्वा क्रुधा प्रविहृतोऽपतत् । दौर्गव्याञ्चिर्वासितो देशान् श्राम्यंस्तत्रागतो विधीः ॥२०॥  
 विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा वेद्यासौधतले स्थितः । ज्यहसद्विक्रमस्तेऽथ क यातः स इति क्रुधा ॥ ८१ ॥  
 सद्यस्यः सोऽपि तच्छ्रुत्वा सनिदानोऽसुसंक्षये । महाशुक्रेऽभवद्वेवो वधरातीदनुज पितुः ॥ ८२ ॥  
 १ पोड्यावध्यायुषा दिव्यभोगार्थं देव्यप्सुरोगणैः । ईप्सिताननुभूयासौ ततः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे सुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिर्महाराज पोदनाख्येऽभवत्पतिः ॥ ८४ ॥  
 प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि मृगावती । तस्यां सुस्वप्नवीक्षान्ते त्रिपृष्ठाख्यः सुतोऽभवत् ॥ ८५ ॥  
 पितृभ्योऽपि च्युतस्वप्नमात्तौकोऽभूत्सन्महीपते । जयावत्यां पुरे चैत्य विक्रमी विजयाह्वयः ॥ ८६ ॥  
 भ्रमन् विशाखनन्दी च चिरं संसारचक्रके । विजयाद्धोत्रश्रेण्यामलकाख्यपुरेक्षित ॥ ८७ ॥  
 मयूरमीवसंज्ञस्य स्वपुण्यपरिपाकत । हयग्रीवाह्वयः सूनुरजायत जितागिराट् ॥ ८८ ॥  
 अशीतिचापदेहौ तावादिमौ रामकेशवौ । पञ्चशून्ययुगाष्टाब्दिनिर्भङ्गपरमायुषौ ॥ ८९ ॥  
 शङ्खेन्द्रनीलसङ्काषी हत्वाऽश्वग्रीवमुद्धतम् । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूत् पत्नी क्षितेः ॥ ९० ॥  
 द्विगुणपट्सहस्राणां मुकुटाङ्गमहोसुजायम् । खगव्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतु ॥ ९१ ॥  
 त्रिपृष्ठस्य धनुःशङ्खचक्रदण्डासिश्चक्रथः । गदा च सप्तस्नानि रक्षितान्यभवत् सुरैः ॥ ९२ ॥  
 रामस्यापि गदा रत्नमाळा समुशलं हलम् । श्रद्धानज्ञानचारित्रतपोसीवामन्विभ्युये ॥ ९३ ॥  
 देव्यः स्वयम्प्रमामुष्या मुकुटेशप्रमा धनुः । केशवस्य तदद्वास्ता रामस्यापि मन प्रिया ॥ ९४ ॥

विहार करता हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥७९॥ वहाँ एक छोटे बड़वेवाली गायने क्रोधसे धक्का दिया जिससे वह गिर-पड़ा । दुष्टताके कारण राज्यसे बाहर निकला हुआ मूर्ख विशाखनन्दी अनेक देशोंमें घूमता हुआ उसी मथुरानगरीमें आकर रहने लगा था । वह उस समय एक वेद्याके मकानकी छतपर बैठा था । वहाँसे उसने विश्वनन्दीको गिरा हुआ देखकर क्रोधसे उसकी हँसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज कहाँ गया ? ॥२०-२१॥ विश्वनन्दीको कुछ शक्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी सुनकर निदान किया । तथा प्राणक्षय होनेपर महाशुक स्वर्गमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥२२॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी । समस्त आयु भर देवियों और अप्सराओंके समूहके साथ मनचाहे भोग भोगकर वहाँसे च्युत हुआ और इस पृथ्वीतल पर जम्बूद्वीप सम्वन्धी भरत क्षेत्रके सुरम्य देशमें पोदनपुर नगरके राजा प्रजापतिकी प्राणप्रिया मृगावती नामकी महादेवीके शुभ स्वप्न देखनेके बाद त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥२३-२५॥ काकका जीव भी वहाँसे—महाशुक स्वर्गसे च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दूसरी पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुआ ॥२६॥ और विशाखनन्दी चिरकाल तक संसार-चक्रमें भ्रमणकरता हुआ विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीकी अलकानगरीके स्वामी मयूरग्रीव राजाके अपने पुण्यदयसे शत्रु राजाओंको जीतनेवाला अश्वग्रीव नामका पुत्र हुआ ॥२७-२८॥ इधर विजय और त्रिपृष्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुष ऊँचा था और चौरासी लाख वर्षकी उनकी आयु थी ॥२९॥ विजयका शरीर शंखके समान सफेद था और त्रिपृष्ठका शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था । वे दोनों उद्वृष्ट अश्वग्रीवको मारकर तीन खण्डोंसे शोभित पृथिवीके अधिपति हुए थे ॥३०॥ वे दोनों ही सोलह हजार मुकुट-युद्ध राजाओं, विद्याधरों एवं व्यन्तर देवोंके आधिपत्यको प्राप्त हुए थे ॥३१॥ त्रिपृष्ठके धनुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति और गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोंसे सुरक्षित थे ॥३२॥ बलभद्रके भी गदा, रत्नमाळा, मुसल और हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपके समान लक्ष्मीको बढ़ानेवाले थे ॥३३॥ त्रिपृष्ठकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्त्रियों थीं और बलभद्रके

१ एष पाठ. क०-ख०-ग०-घ०-प्रतिसंमत., पोड्यावधिसमायुदिव्यभोगानप्सुरोगणैः ल० । २ वर्षे ल० ।  
 ३ पुत्रः । पुत्रः सूनुरपर्वं च तुक्तोकी चात्मजः सुतः । इति कोपः । ४ परवैत्ये ल० । ५ समुसलं ग० ।  
 ६ मुकुटवद्वाराप्रमाणा. पोड्यावधिसमायुदिव्यभोगानप्सुरोगणैः इति यावत् ।

स संरन्ध चिरं तामिर्वह्णारम्भपरिग्रहः । सप्तमीं पृथिवीं प्राप केशवश्चाश्वकन्धर ॥ ९५ ॥  
 सीरपाणिश्च तद्दुःखात्तद्देशादाय संयमम् । सुवर्णकुम्भयोगीन्द्राद्भृदगृहकेवली ॥ ९६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कृत्वा राज्यममू सहैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं तादृशं  
 पृथ्वीमूलमगात्किलाखिलमहादुःखालयं केशवः ।  
 रामो धाम परं सुखस्य जगतां मूर्धानमध्यास्त धिक्  
 द्रुष्टं क सुखमाग्विलोमगविधिं यावन्न हन्यादमुम् ॥ ९७ ॥

### सपजातिच्छन्दः

प्राग्विश्वनन्दीति विश्वामधीशस्ततो महाशुक्रमधिष्ठितोऽमरः ।  
 पुनस्त्रिष्टो भरताद्ब्रह्मक्री चितावकः सप्तमभूमिमाश्रयत् ॥ ९८ ॥

### वंशस्थवृत्तम्

विशाखभूतिधरणीपतिर्यमो मरुन्महाशुक्रगतस्ततश्च्युतः ।  
 हलायुधोऽसौ विजयाह्वयः क्षयं भवं स नीत्वा परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥  
 विशाखनन्दी विहृतप्रतापो ज्यसुः परिभ्रम्य भवे चिरं ततः ।  
 खगाधिनाथो ह्यश्वक्रोराह्वयो रिपुस्त्रिष्टयस्य यथावधोगतिम् ॥ १०० ॥  
 इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तीर्थकरत्रिष्टु-  
 विजयाश्वग्रीवपुराणं परिसमाप्तं सप्तपञ्चाशत्तमं पर्वं ॥ ५७ ॥

चित्तको प्रिय लगनेवाली आठ हजार स्त्रियाँ थीं ॥९५॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहको धारण करनेवाले त्रिष्टुप्त नारायण उन स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक रमण कर सातवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ—सप्तम नरक गया । इसी प्रकार अश्वग्रीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥६५॥ बलभद्रने भाईके दुःखसे दुःखी होकर उसी समय सुवर्णकुम्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया और क्रम-क्रमसे अनगरकेवली हुआ ॥९६॥ देखो, त्रिष्टुप्त और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, और चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण—त्रिष्टुप्त समस्त दुःखोंके महान् गृह स्वरूप सातवें नरकमें पहुँचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अग्रभागपर जाकर अधिष्ठित हुआ इसलिए प्रतिशूल रहनेवाले इस दुष्ट कर्मको धिक्कार हो । जब तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर दिया जावे तब तक इस संसारमें सुखका भागी कौन हो सकता है ? ॥९७॥ त्रिष्टुप्त, पहले तो विश्वनन्दी नामका राजा हुआ फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर त्रिष्टुप्त नामका अर्धचक्रो—नारायण हुआ और फिर प.पौंका संचय कर सातवें नरक गया ॥९८॥ बलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा था फिर मुनि होकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे चयकर विजय नामका बलभद्र हुआ और फिर संसारको नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥९९॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा, फिर अश्वग्रीव नामका विद्याधर हुआ जो कि त्रिष्टुप्त नारायणका शत्रु होकर अवोगति—नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥१००॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्ये प्रणीते त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें श्रेयांसनाथ तीर्थका, त्रिष्टुप्त नारायण, विजय बलभद्र और अश्वग्रीव प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५७॥

## अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व

<sup>1</sup> वासुकिन्द्रस्य पुत्रयोऽयं वसुपूज्यस्य वा सुतः । वासुपूज्यः सतां पूज्यः स ज्ञानेन पुनातु नः ॥ १ ॥  
 पुष्कराद्वेन्द्रदिग्मेरुसीतापागवत्सकावती— विषये ख्यातरत्नात्रिपुरे पद्मोत्तरः पतिः ॥ २ ॥  
 कीर्तिगुणमयी वाचि मूर्तिः पुण्यमयीक्षणे । वृत्तिधर्ममयी चित्ते सर्वेषामस्य भूभुजः ॥ ३ ॥  
 साम वाचि दया चित्ते धाम देहे नयो मतौ । धनं दाने जिने भक्तिः प्रतापस्तस्य शत्रुषु ॥ ४ ॥  
 पाति तस्मिन् भुवं भूपे न्यायमार्गानुवर्तिनि । वृद्धिमेव प्रजाः प्राप्नुवन्तौ समितयो यथा ॥ ५ ॥  
<sup>3</sup> गुणास्तस्य धनं लक्ष्मीस्तदीयापि गुणप्रिया । तथा सह ततो दीर्घं निर्द्वन्द्वं सुखमाप्नुवन् ॥ ६ ॥  
 स कदाचित् समासीनं मनोहरगिरौ जिनम् । युगन्धराह्वयं स्तोत्रैरुपास्य खलु भक्तिमान् ॥ ७ ॥  
 श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्ममनुप्रेक्षानुचिन्तनात् । जातत्रिभेदनिर्बन्धः पुनश्चेत्यप्युचिन्तयत् ॥ ८ ॥  
 श्रियो माया सुखं दुःखं विश्रसावधि जीवितम् । संयोगो विप्रयोगान्त कायोऽयं सामयः खलः ॥ ९ ॥  
 कात्र प्रीतिरहं जन्मपञ्चावर्तनमाभयात् । निर्गच्छान्यवलम्ब्यैतां काललब्धिमुपस्थिताम् ॥ १० ॥  
 ततो रात्र्यभरं पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः । महीशैवहृदिः सार्द्धमदीक्षितात्मशुद्धये ॥ ११ ॥  
 अधीत्यैकादाशज्ञानि श्रद्धानाद्यासम्पदा । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते संन्यस्य शुद्धधीः ॥ १२ ॥

जो वासु अर्थात् इन्द्रके पूज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र है और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते है ऐसे वासुपूज्य भगवान् अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ॥१॥ पुष्करार्थ द्वीपके पूर्व मेरुकी ओर सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्सकावती नामका एक देश है। उसके प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ उस राजाकी गुणमयी कीर्ति सबके वचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, और धर्ममयी वृत्ति सबके चित्तमें रहती थी ॥ ३ ॥ इसके वचनोंमें शान्ति थी, चित्तमें दया थी, शरीरमें तेज था, बुद्धिमें नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवान्में भक्ति थी और शत्रुओंमें प्रताप था अर्थात् अपने प्रतापसे शत्रुओंको नष्ट करता था ॥ ४ ॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले मुनिमें समितियों बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार न्यायमार्गके चलनेवाले उस राजाके पृथिवीका पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी ॥ ५ ॥ उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्ष्मी भी गुणोंमें प्रेम करनेवाली थी इसलिए वह उस लक्ष्मीके साथ त्रिना किसी प्रतिबन्धके विशाल सुख प्राप्त करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी दिन मनोहर नामके पर्वतपर युगन्धर जिनराज विराजमान थे। पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना की ॥ ७ ॥ विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन किया। अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे उसे संसार, शरीर और भोगोंसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य होनेपर वह इस प्रकार पुनः चिन्तन करने लगा ॥८॥ कि यह लक्ष्मी मायारूप है, सुख दुःखरूप है, जीवन मरणपर्यन्त है, संयोग वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है ॥ ९ ॥ अतः इन सबमें क्या प्रेम करना है ? अब तो मैं उपस्थित हुई इस काललब्धिका, अवलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक इस संसाररूपी पंच परावर्तनोंसे बाहर निकलता हूँ ॥१०॥ ऐसा विचारकर उसने राज्यका भार धनुमित्र नामक पुत्रके लिए सौपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली ॥११॥ निर्मल बुद्धिके धारक पद्मोत्तर मुनिने ग्यारह अर्गोंका

१ वासुना इन्द्रेण पूज्य वासुपूज्य, अथवा वसुपूज्यस्य अपत्यं वासुपूज्यः । २ विषयख्यात ल० । ३ गुणस्तस्य ग०, ल० । ४ तद्दाम्यापि ल० (?) । ५ निर्बन्धः ल० । ६ भगवान्वि । ७ सामयः सयोगः ।

महाशुक्रविमानेऽभून्महाशुक्रोऽमराधिप । षोडशाब्धिप्रमाणायुश्चतुर्हस्तशरीरमाक ॥ १३ ॥  
 पद्मलेइयः श्वसन्मात्सैरष्टभिस्तुष्टमानसः । षोडशाब्दसहस्रान्ते मानसाहारमाहरन् ॥ १४ ॥  
 सदा शब्दप्रवीचारश्चतुर्थेऽमागतावधि । प्रमावधिरिवैतस्म विक्रियाबलतेजसाम् ॥ १५ ॥  
 तत्रामरीकलालापगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कालपर्यायैस्तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते चम्पानगरेऽङ्गनराधिपः । इन्द्राङ्ग काश्यपः ख्यातो वसुपूज्योऽप्य मामिनी ॥ १७ ॥  
 प्रिया जयावती प्राप्तवसुधारादिमानना । आषाढकृष्णषष्ठ्यन्ते चतुर्विंशत्कक्षिते ॥ १८ ॥  
 दृष्ट्वा स्वमान् फलं तेषां पन्थुर्ज्ञात्वाऽतितोषिणी । अष्टौ मासान् क्रमाञ्जीत्वा प्राप्तकालगुनमासिका ॥ १९ ॥  
 कृष्णार्यां वारुणे योगे चतुर्दश्यां सुरोत्तमम् । सर्वप्राणिहित पुत्रं सुखेनेयमजीजनत् ॥ २० ॥  
 सुराः सौधर्ममुख्यास्तं सुराद्रौ क्षीरसागरात् । घटैरानीय पानीयं क्षपयित्वा प्रसाधनम् ॥ २१ ॥  
 विधाय वासुपूज्यं च नासादाय पुनर्गृहम् । नीत्वा वासान् स्वकीयांस्ते जग्मुर्जन्तमहोत्सवा ॥ २२ ॥  
 श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्चाशच्चतुःसागरोपमे । प्रान्तपत्न्यन्निभागोऽस्मिन् व्युच्छित्तौ धर्मसन्ततेः ॥ २३ ॥  
 तदभ्यन्तरवर्त्यायुः सोऽभवच्चापससतिः । पञ्चशून्यद्विससाब्दनीवितः कुङ्कुमच्छविः ॥ २४ ॥  
 इष्टाष्टादशधान्यानां बीजानां वृद्धिकारणम् । भेकलेहामिव क्षेत्रं गुणानामेष भूपतिः ॥ २५ ॥  
 धियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फलदायिनः । समां वृष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २६ ॥

अध्ययन किया, दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया और अन्तमें संन्यास धारण किया ॥१२॥ जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र नामका इन्द्र हुआ । सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी और चार हाथ ऊँचा शरीर था ॥१३॥ पद्मलेइया थी, आठ माहमें एक बार श्वास लेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था और सोलह हजार वर्ष बीतनेपर एक बार मानसिक आहार लेता था ॥१४॥ सदा शब्दसे ही प्रवीचार करता था अर्थात् देवाङ्गनाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसको काम तथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुर्थ पृथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल और तेजकी अवधि थी ॥१५॥ वहाँ देवियोंके मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था । अन्तमें काल द्रव्यकी पर्यायोंसे प्रेरित होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ॥१६॥

तब इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें वसुपूज्य नामका अंगदेशका राजा रहता था । वह इक्ष्वाकुवंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसकी प्रिया स्त्रीकानाम जयावती था, जयावतीने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था । तदनन्तर उसने आपादकृष्ण षष्ठीके दिने चौबीसवें शतभिषा नक्षत्रमें सोलह स्वप्न देखे और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोष प्राप्त किया । क्रम-क्रमसे आठ माह बीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन वारुण योगमें सब प्राणियोंका हित करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे उत्पन्न किया ॥ १७-२० ॥ सौधर्म आदि देवोंने उसे सुमेरु पर्वतपर ले जाकर कलश-द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए जलके द्वारा उसका जन्माभिषेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपूज्य नाम रखा, घर वापिस लाये और अनेक महोत्सव कर अपने-अपने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया ॥२१-२२॥ श्री श्रेयांसनाथ तीर्थकरके तीर्थसे जब चौबन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्तिम पत्यसे तृतीय भागमें जब धर्मकी सन्ततिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्का जन्म हुआ था । इनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, ब्रह्मरत्न लाख वर्षकी उनकी आयु थी और कुङ्कुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥२३-२४॥ जिस प्रकार मेंढकोंके द्वारा आस्वादन करने योग्य अर्थात् सजल क्षेत्र अठारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था ॥२५॥ जिस प्रकार संसारका हित करनेवाले सब प्रकारके धान्य, समा नामकी इच्छित वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण

त्रयः साप्ताहिका मेधा अश्रीतिः कणशीकराः । षष्टिरातपमेधानामेधवृष्टिः समा मता ॥ २७ ॥  
 अगुणुणा गुणीभावमन्त्रेष्वर्चिस्तु सुख्यताम् । आश्रयः कस्य वैशिष्ट्यं विशिष्टो न प्रकल्पते ॥ २८ ॥  
 गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तश्चाश इष्यते । इति बुद्ध्या सुधीः सर्वान् गुणान् सन्नयगपालयत् ॥ २९ ॥  
 अष्टादशसमा कक्षाः कौमारे प्राप्य संसृतेः । निर्विद्यात्मगतं धीमान् यायात्क्यं समचिन्तयत् ॥ ३० ॥  
 निर्धीर्धिवषसंसाक्तो बन्धन्नास्मानमात्मना । बन्धैश्चतुर्विधैर्दुःखं भुञ्जानश्च चतुर्विधम् ॥ ३१ ॥  
 अनादौ जन्मकान्तारे भ्रान्त्वा कालादिकल्पितः । सन्मार्गं प्राप्तवांस्तेन प्रगुणं यामि सद्गतिम् ॥ ३२ ॥  
 अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः प्रेक्षणीयो निरामयः । आयुश्चिरमनावाधं सुखं सन्ततसाधनम् ॥ ३३ ॥  
 किन्तु ध्रुवो विद्योगोऽत्र रागात्मकमिदं सुखम् । रागी बन्धाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम् ॥ ३४ ॥  
 चतुर्विधमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहा । ततः किमनुत्पेयेतरयाज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥  
 इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो लौकान्तिकैः कृतः । सुरा निष्क्रमणज्ञानभूषणाद्युत्सवं व्यधु ॥ ३६ ॥  
 शिविको देवसंरुढामारुह्य पृथिवीपतिः । वने मनोहरोद्याने चतुर्थोपोषितं वहन् ॥ ३७ ॥  
 विशालक्षेत्रं चतुर्दश्यां सायाह्ने कृष्णफाल्गुने । सामायिकं समादाय तुर्यज्ञानोऽयभूदनु ॥ ३८ ॥  
 सह तेन महोपालाः षट्सप्तविमिताहिताः । प्रब्रज्यां प्रत्यपद्यन्त परमार्थविदो मुदा ॥ ३९ ॥  
 द्वितीये दिवसेऽविश्वन् महानगरमन्धसे । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मै सुवर्णाभोऽद्विताशनम् ॥ ४० ॥

इस राजाकी बुद्धिको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले हो गये थे ॥२६॥ सात दिन तक मेधोंका बरसना त्रय कहलाता है, अस्मी दिन तक बरसना कणशीकर कहलाता है और वीच-वीचमें आतप-भूप प्रकट करनेवाले मेधोंका साठ दिन तक बरसना समावृष्टि कहलाती है ॥२७॥ गुण, अन्य हरिहरादिकमें जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवान्में वही गुण मुख्यताको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते ? ॥२८॥ चूँकि गुणी पदार्थ गुणोंसे तन्मय होता है अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जाता है यह विचार कर ही बुद्धिमान् वासुपूज्य भगवान् समस्त गुणोंका अच्छी तरह पालन करते थे ॥२९॥ ज व कुमार-कालके अठारह लाख वर्ष बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान् भगवान् अपने मनमें पदार्थके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥३०॥ यह निर्बुद्धिप्राणी विषयोंमें आसक्त होकर अपनी आत्माको अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकारका दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें भ्रमण कर रहा है । अब मैं कलादि लब्धिविषयोंसे उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मार्गको प्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्षरूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए ॥३१-३२॥ शरीर भले ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय-सुन्दर हो, नीरोग हो, आर्यु चिरकाल तक वाधासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि इन सबका वियोग अवश्यंभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोंको बाँधता है, बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियों दुःख तथा सुखको देनेवाली हैं अथवा दुःखरूप सुखको देनेवाली हैं । अतः मुझे इस संसारसे क्या प्रयोजन है ? यह तां बुद्धिमानोंके द्वारा जोड़ने योग्य ही है ॥३३-३५॥ इधर भगवान् ऐसा चिन्तन कर रहे थे उधर लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति प्रारम्भ कर दी । देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक किया; आभूषण पहनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥३६॥ महाराज वासुपूज्य देवोंके द्वारा उठाये गये पालकीपर सवार होकर मनोहरोद्यान नामक वनमें गये और वहाँ एक दिनके उपवासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सामायिक नामका चारित्र्य ग्रहण कर साथ-ही-साथ मनःपर्ययज्ञानके धारक भी हो गये ॥३७-३८॥ उनके साथ परमार्थको जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाओंने भी बड़े हर्षसे दीक्षा प्राप्त की थी ॥३९॥ दूसरे दिन उन्होंने आहारके लिए महानगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर

१ षष्टिरातपमेधाना मेधवृष्टि क०, घ० । -मेधा वृष्टिः ल० । २ संशक्तो ल० । ३ सन्ततिमावन्म ग०, ल० ।



आश्रयंपञ्चकं चापि तेन छाद्यस्थयवत्सरे । गते श्रीवासुपूज्येशः स्वदीक्षावन्दमागतः ॥ ४१ ॥  
 कदम्बवृक्षमूलस्थः सोपवातोऽपराह्णके । माघज्योत्स्नाद्वितीयायां विशाखक्षेत्रेऽभवज्जिनः ॥ ४२ ॥  
 सौधर्मसुख्यदेवेन्द्रास्तदैवैनमपूजयन् । तत्कल्याणं न विस्तार्य नाम्नोऽन्यस्योदये यतः ॥ ४३ ॥  
 षट्षष्टिमिन्धमर्षाविगणभृद्वृन्दवन्दितः । खड्गद्वयद्वेकविज्ञातपूर्वधराधृतः ॥ ४४ ॥  
 खड्गद्विनवान्भ्युक्तशिक्षकाभिप्लुतक्रमः । शून्यद्वयचतु पञ्चप्रोक्तावधिवृषश्रितः ॥ ४५ ॥  
 शून्यत्रिकर्तुर्विख्यातश्रुतकेवलवीक्षणः । खचतुष्कैकनिर्णोतविक्रियद्विधिभूषितः ॥ ४६ ॥  
 षट्सहस्रचतुर्जानमानितक्रमपङ्कजः । खड्गद्वयद्विचतु प्रोक्तावादिमाधितमश्चकृत् ॥ ४७ ॥  
 शून्यत्रयद्विसप्तोक्तपिण्डतासिद्धमपिडतः । शून्यत्रयतुंशून्यैकसेनार्याद्याधि कादिष्टत् ॥ ४८ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेत श्राविकातुयलक्षक । पूर्वाक्तदेवदेवीड्वयस्तिर्यकसंख्यातसंस्तुत ॥ ४९ ॥  
 स तैः सह विह्वल्यखिलायक्षेत्राणि तर्पयन् । धर्मवृष्ट्या क्रमात्प्राप्य चम्पामब्दसहस्रक्रम ॥ ५० ॥  
 स्थित्वाऽत्र निष्क्रियं मासं नद्या राजतमालिका-सञ्ज्ञायश्चित्तहारिण्याः १ पर्यन्तावनिवर्तिनि ॥ ५१ ॥  
 अग्रमन्दरशैलस्य सानुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोद्याने पल्यङ्कासनमाश्रित ॥ ५२ ॥  
 मासे भाद्रपदे ज्योत्स्नाचतुर्दश्यापराह्णके । विशाखायां ययौ मुक्ति चतुर्णवतिर्यतैः ॥ ५३ ॥  
 परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवैः । अवनदिपत ते देवं देवाः सेवाविचक्षणयाः ॥ ५४ ॥  
 विजिगीषोर्गुणैः पद्भिः सिद्धिश्चेत्तु प्रयोजितै । सुमुखो किं न सार्मानिः लक्षाचतुरशीतैः ॥ ५५ ॥

नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥४१॥ और पंचाश्रयं प्राप्त किये । तदनन्तर लक्षस्य अवस्थाका एक वर्ष वीत जानेपर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षावनमें आये ॥४२॥ वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्ल द्वितीयाके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया । अब वे जिनराज हो गये ॥४३॥ सौधर्म आदि इन्द्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजा की । चूँकि भगवान्का वह दीक्षा-कल्याणक नामकर्मके उदयसे हुआ था अतः उसका विस्तारके साथ वर्णन नहीं किया जा सकता ॥४३॥ वे धर्मको आदि लेकर छयासठ गणधरोंके समूहसे वन्दित थे, बारह सौ पूर्व-धारियोंसे घिरे रहते थे, उत्तलीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थे, पाँच हजार चार सौ अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दस हजार विक्रियाश्रद्धिकों धारण करनेवाले मुनि उनकी गोभा बढा रहे थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके चरण-कमलोंका आदर करते थे और चार हजार दो सौ वाद्री उनकी उत्तम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे थे । इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर हजार मुनियोंसे सुशोभित थे, एक लाख छह हजार सेना आदि आर्थिकाओंको धारण करते थे, दो लाख श्रावकोसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे युक्त थे, अखंडयात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यकोंसे स्तुत थे ॥४४-४९॥ भगवान्ने इन सबके साथ समस्त आर्यक्षेत्रोंमें विहार कर उन्हें धर्मवृष्टिसे संतृप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरी में आकर एक हजार वर्ष तक रहे । जब आयुमें एक मास शेष रह गया तब योग-निरोध कर रजत-मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमिपर वर्तमान, मन्दरगिरिके शिखरको सुशोभित करनेवाले मनोहरोद्यानमें पर्यकासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपदशुक्ला चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चौरानवे मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥५०-५३॥ सेवा करनेमें अत्यन्त निपुण देवोंने निर्वाणकल्याणककी पूजाके वाद बड़े उत्सवसे भगवान्को वन्दना की ॥५४॥ जब कि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हुए सन्धि-विग्रह आदि छह गुणोंसे ही सिद्धि (विजय) मिल जानी है तब मोक्षामिलापो भगवान्को चौरासी लाख गुणोंसे सिद्धि (मुक्ति) क्यों नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥५५॥

१ स्मृत ल० । २ रजतमालिका क०, व० । रजतवालिका ख०, ग० । रजतमालिका ल० । ३ पर्यन्तावनिवर्तन. ग० । ४ सन्धिविग्रहादिभिः षड्गुणैः । ५ सफल्ता-विजय. । ६ सा सिद्धिः अमोमि गुणै । ७ चतुरशीतिलक्षप्रमितोत्तरगुणै ।

मालिनी

सदसद्बुभयमेतेनैकशब्देन वाच्ये  
त्रितयमपि पृथक्तत्पुत्र्यमङ्गेन युज्यात् ।  
इति सकल्पपदार्था सप्तमङ्गी त्वयोक्ता  
कथमवितथवाक्त्वं वासुपूज्यो न पूज्यः ॥ ५६ ॥

वसन्ततिलका

धर्मो दया कथमसौ सपरिग्रहस्य  
वृष्टिर्धरातलहिता - किमवग्रहेऽस्ति ।  
तस्मात्त्वया द्वयपरिग्रहमुक्तिरुक्ता  
तद्वासनासुमहितो जिन वासुपूज्य ॥ ५७ ॥  
पद्मोत्तर. प्रथमजन्मनि पार्थिवेशः  
शुके महत्स्यमरपट्पद्मपाद ।  
यो वासुपूज्ययुवराट् त्रिजगत्प्रपूज्यः  
राज्ये जिन. स दिशतादतुलं सुखं वः ॥ ५८ ॥

अनुष्टुप्

तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य द्विष्टयो नाम भूपतिः । त्रिलगडाधिपतिर्जातो द्वितीयः सोऽर्द्धवक्रिणाम् ॥ ५९ ॥  
वृत्तकं तस्य वक्ष्यामो जन्मत्रयसमाश्रितम् । श्रुतेन येन मन्थानां भवेद् भूयो भवाद्भयम् ॥ ६० ॥  
द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे कनकादिपुराधिप । सुषेणो नाम तस्यासीन्नर्तकी गुणमञ्जरी ॥ ६१ ॥  
रूपिणी सुमरानृत्यगीतवाद्यादियिश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्वभूपाभिवाञ्छिता ॥ ६२ ॥  
अस्ति तत्रैव देशोऽन्यो मलयाख्यो मनोहरः । विन्ध्यशक्ति पतिस्तस्य नृपो विन्ध्यपुरे वसन् ॥ ६३ ॥

पदार्थ कथंचित् सत् है, कथंचित् असत् है, कथंचित् सत्-असत् उभयरूप है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् सत् अवक्तव्य है, कथंचित् असत् अवक्तव्य है, और कथंचित् सदसद्वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्, आपने प्रत्येक पदार्थके प्रति सप्तमङ्गीका निरूपण किया है और इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध है फिर हे वासुपूज्य देव ! आप पूज्य क्यों न हों ? अवश्य हों ॥५६॥ धर्म दया रूप है, परन्तु वह दयारूप धर्म परिग्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है ? वर्षा पृथिवीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु प्रतिवन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसीलिए आपने अन्तरंग-बहिरंग-दोनो परिग्रहोंके त्यागका उपदेश दिया है । हे वासुपूज्य जिनेन्द्र ! आप इसी परिग्रह-त्यागकी वासनासे पूजित है ॥५७॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महासुक स्वर्गमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोके लिए कमलके समान थे और फिर त्रिजगत्पूज्य वासुपूज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालब्रह्मचारी रहकर ही राज्य किया था, वे बारहवें तीर्थकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करे ॥५८॥

अथानन्तर-श्री वासुपूज्य स्वामीके तीर्थमें द्विष्टुष्ट नामका राजा हुआ जो तीन खण्डका स्वामी था और दूसरा अर्धचक्री (नारायण) था ॥५९॥ यहाँ इसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ जिसके सुननेसे भन्व-जीवोंको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥६०॥ इसी जन्मद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है । उसके राजाका नाम सुषेण था । सुषेणके एक गुणमंजरी नामकी नृत्यकारिणी थी ॥६१॥ वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसीलिए सब राजा उसे चाहते थे ॥६२॥ उसी भरतक्षेत्रमें एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विन्ध्य-

स रक्तो गुणमङ्ग्याः प्रेक्षायामिव पटपदः । चूतप्रसवमङ्ग्यां माधुर्यं सररञ्जितः ॥ ६४ ॥  
 रत्नाद्युपायनोपेतं मितार्थं चित्तहारिणम् । सुपेणं प्रतिसम्मान्य प्राहिणोन्नतकीप्सया ॥ ६५ ॥  
 दूतोऽपि सत्त्वं गत्वा स सुपेणमहोपतिम् । इष्ट्वा यथोचितं तस्मै दत्तोपायनमववीत् ॥ ६६ ॥  
 युष्मद्गृहे महारत्नं नर्तकी किल विद्युता । विन्ध्यशक्तिर्मवद्वन्धुस्तं द्रष्टुममिलायुक्तः ॥ ६७ ॥  
 तत्प्रयोजनमुद्दिश्य प्रहितोऽहं महीपते । त्वयापि सा प्रहेतव्या प्रत्यानीय समर्थे ॥ ६८ ॥  
 इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि याहि किमश्रव्यैवचोभिर्दोषैश्चाकृमिः ॥ ६९ ॥  
 इति निर्मासितो भूयः सुपेणेन दुर्भक्तिभिः । दूतः प्रत्येत्य तत्सर्वं विन्ध्यशक्तिं च्यजिज्ञपत् ॥ ७० ॥  
 सोऽपि कोपप्रहाविष्टस्तद्वचःश्रवणाद् भृशम् । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमालोच्य मन्त्रिभिः ॥ ७१ ॥  
 शूरो लघुसमुत्थानः कृतयुद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसंप्रामिकाप्रणीः ॥ ७२ ॥  
 विचाय सङ्करं भङ्गं तत्कीर्तिमिव नर्तकीम् । तामाहरद् गते पुण्ये कस्य किं कोऽत्र नाहरत् ॥ ७३ ॥  
 दन्तमङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट्रामङ्गो गजद्विषः । मानमङ्गो महीभर्तुर्महिमानमपह्नुने ॥ ७४ ॥  
 स तेन मानमङ्गेन स्वगृहाङ्गनमानसः । पृष्टमङ्गेन नागो वा न प्रत्येयं पदास्पदम् ॥ ७५ ॥  
 स कदाचित्सनिर्वेदः सुव्रताख्यजिनाधिपात् । अनगारात्परिज्ञातधर्माङ्गिमलचैतसा ॥ ७६ ॥  
 स कोऽपि पापपाको मे येन तेनाप्यहं जितः । इति सञ्चिन्त्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोत् ॥ ७७ ॥  
 तपस्वनूनपात्तापतनूकृततनुश्चिरम् । सारिकोपः स संन्यस्य सनिदानः सुरोऽभवत् ॥ ७८ ॥

पुरनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥६३॥ जिस प्रकार मधुरताके रससे अनुरक्तहुआ भ्रमर आप्रमंजरीके देखनेमें आसक्त होता है उसी प्रकार वह राजा गुणमंजरीके देखनेमें आसक्त था ॥६४॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेण राजाका सम्मान कर उसके पास रत्न आदिकी भेट लेकर चित्तको हरण करनेवाला एक दूत भेजा ॥६५॥ उस दूतने भी शीघ्र जाकर सुपेण महाराजके दर्शन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा ॥६६॥ उसने कहा कि आपके घरमें जो अत्यन्त प्रसिद्ध नर्तकीरूपी महारत्न है, उसे आपका भाई विन्ध्यशक्ति देखना चाहता है ॥६७॥ हे राजन् ! इसी प्रयोजनको लेकर मैं यहाँ भेजा गया हूँ । आप भी उस नृत्यकारिणीको भेज दीजिए । मैं उसे वापस लाकर आपको सौंप दूँगा ॥६८॥ दूतके ऐसे वचन सुनकर सुपेण क्रोधसे अत्यन्त काँपने लगा और कहने लगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकारसे भरे हुए इन वचनोंसे क्या लाभ है ? इस प्रकार सुपेण राजाने खोटे शब्दों-द्वारा दूतकी बहुत भारी भर्त्सना की । दूतने वापस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिये ॥६९-७०॥ दूतके वचन सुननेसे वह भी बहुत भारी क्रोधरूपी प्रहसे आविष्ट हो गया-अत्यन्त कुपित हो गया और कहने लगा कि रहने दो, क्या दोष है ? तदनन्तर मन्त्रियोंके साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया ॥७१॥ कृत युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धाओंके आगे चलनेवाला और गुरवीर वह राजा अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला ॥७२॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुपेणको पराजित किया और उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीको जबरदस्ती छीन लिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता ? ॥७३॥ जिस प्रकार दौतका दूट जाना हाथीकी महिमाको छिपा लेता है, और दाढ़का दूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार मान-भंग राजाकी महिमाको छिपी देता है ॥७४॥ उस मान-भंगसे राजा सुपेणका दित्त दूट गया अतः जिस प्रकार पीठ दूट जानेसे सर्प एक पद भी नहीं चल पाता है उसी प्रकार वह भी अपने स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका ॥७५॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको जाननेवाले गृह-त्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना और निर्मल चित्तसे इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया । ऐसा विचार कर उसने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की ॥७६-७७॥ और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले

विमानेऽनुपमे नाम्ना कल्पे प्राणतनामनि । विशत्यब्ज्युपमायुः सन् स्वष्टद्विकृतसम्भवं ॥ ७९ ॥  
 अत्रैव भारते श्रीमान् महापुरमधिष्ठितः । नृपो वायुरथो नाम भुक्त्वा राज्यश्रियं चिरम् ॥ ८० ॥  
 श्रुत्वा सुव्रतनामार्हत्याश्वं धर्मं स तत्त्वचित् । सुतं घनरथं राज्ये स्थापयित्वाऽगमत्तपः ॥ ८१ ॥  
 अधीत्य सर्वशास्त्राणि विधाय परमं तपः । तत्रैवन्द्रोऽभवत्कल्पे विमानेऽनुचराह्वये ॥ ८२ ॥  
 ततोऽवतीर्थ वर्षेऽस्मिन् पुरीद्वारावतीपतेः । ब्रह्माख्यस्याचलस्तोकः सुभद्रायामभूद्विशुः ॥ ८३ ॥  
 तस्यैवासौ सुपेणाख्योऽप्युषायामात्मजोऽजनि । द्विपृष्ठाख्यस्तनुस्तस्य चापसतसिसमित्ता ॥ ८४ ॥  
 द्वासप्ततिसमालक्षाः परमायुर्निरन्तरम् । राजमोगानभुक्तौघैरिद्विकृणां कुलाग्रणीः ॥ ८५ ॥  
 कुन्देन्द्रनीलसङ्काशावमातां बलकेशवौ । सङ्गमेन प्रवाहो वा गङ्गायमुनयोरम् ॥ ८६ ॥  
 अविभक्तं महामेतावसुक्तां पुण्यनायकौ । संरस्वतीं गुरुद्विष्टां समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥  
 अत्रिवेकस्तयोरालीदधीताशेषकान्छयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे स एव क्लिप्त शस्यते ॥ ८८ ॥  
 स्थिरावस्युषतौ शुक्लनीलौ भातः स्म भूश्रुतौ । कैलासाञ्जनसन्धौ वा सङ्गतौ तौ मनोहरो ॥ ८९ ॥  
 इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो घटीयन्त्रसमाक्षिरम् । आन्त्वा संसारवाराशावणीयः पुण्यसाधन ॥ ९० ॥  
 इहैव श्रीधराख्यस्य भोगवर्द्धनपतेः । अभूत्खिलविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यथा ॥ ९१ ॥  
 वमार भास्वरां लक्ष्मीं भरताद्वै निवासिनीम् । स्वचक्राक्रान्तिसन्प्रासदासीभूत्(ख)भूचरः ॥ ९२ ॥

ली । बहुत दिन तक तपरूपी अग्निके सन्तापसे उसका शरीर कुश हो गया था । अन्तमें शत्रुपर क्रोध रखता हुआ वह निदान बन्ध-सहित संन्यास धारण कर प्राणत स्वर्गके अनुपम नामक विमानमें वीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हर्षित देव हुआ ॥७८-७९॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान् वायुरथ नामका राजा रहता था । चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके पास धर्मका उपदेश सुना, तत्त्वज्ञानी वह पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए चला गया ॥८०-८१॥ समस्त शास्त्रोंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ ॥८२॥ वहाँसे चय कर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके राजा ब्रह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हुआ ॥८३॥ तथा सुपेणका जीव भी वहाँसे चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी रानी उपाके द्विपृष्ठ नामका पुत्र हुआ । उस द्विपृष्ठका शरीर सत्तर धनुष ऊँचा था और आयु बहत्तर लाख वर्षकी थी । इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशका अग्ने-सर वह द्विपृष्ठ, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था ॥८४-८५॥ कुन्द पुष्प तथा इन्द्रनील मणिके समान कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गंगा और यमुनाके प्रवाहके समान जान पड़ते थे ॥८६॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सर-स्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई बिना विभाग किये ही पृथिवीका उपभोग करते थे ॥८७॥ समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंमें अमेद था—किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है क्योंकि उसी अमेदकी प्रशंसा होती है जो कि लक्ष्मी और स्त्रीका संयोग होनेपर भी बना रहता है ॥८८॥ वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊँचे थे, तथा सफेद और नील रंगके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास और अञ्जनगिरि ही एक जगह आ मिले हों ॥८९॥

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण करता रहा । अन्तमें जब थोड़े-से पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसी भरतक्षेत्रके भोगवर्द्धन नगरके राजा श्रीधरके सर्व प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ ॥९०-९१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंको अपना दास बना लिया है ऐसा वह तारक आवे-

आस्तामन्यत्र तद्गीत्या मन्दमन्दप्रभे रवी । मन्ये विकस्वरा पद्मा पञ्चेवपि न जातुचित् ॥९३॥  
 पुराणभूपमार्गस्य सोऽभवत्पारिपन्थिकः । सिंहिकानन्दनो चोप्रः पूर्णमास्यमृतद्युतेः ॥९४॥  
 गलन्ति गर्भास्तत्रात्मा गर्भिणीनां भयोद्भवात् । घनाघनावलीनां वा क्रूरग्रहविकारतः ॥९५॥  
 भन्विष्य प्रतिषेद्धारमलब्ध्वा क्रुद्धमानसः । स्वप्रतापाग्निधूमेन दूषितो वा मधीनिमः ॥ ९६ ॥  
 संतप्तसर्वमूर्खन्यः चर्मचर्मांशुदुस्सहः । स पाताभिमुखः किं स्युः स्थावरास्तादशाः श्रियः ॥ ९७ ॥  
 अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्रहन् । जन्मान्तरागतात्युग्रविरोधाराध्यचोदित ॥ ९८ ॥  
 द्विपृष्ठाचलयोर्वृद्धिं प्ररुदां सोढुमक्षमः । कहरदीकृतनिःशेषमहीपालकृषीबलः ॥ ९९ ॥  
 ब्रह्मवत्करदौ नैतो दुर्मदेनापि दर्पितौ<sup>३</sup> । दुष्टमाशीविषं गेहे वर्द्धमानं सहेत कः ॥ १०० ॥  
 उच्छेद्यकोटिमारुढौ ममेमो येन केनचित् । सन्दूष्याहं हनिष्यामि निजप्रकृतदूषितौ ॥ १०१ ॥  
 इत्युपायं चिन्तित्यैकं दुर्वाक्यं कलहप्रियम् । प्राहिणोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुर्मुखः ॥ १०२ ॥  
 इत्यादिशतं वां देवस्तारको मारको द्विपाम् । युष्मद्गृहे किलैकोऽस्ति ख्यातो गन्धगजो महान् ॥१०३॥  
 भाशसौ मे प्रहेतव्यो नो चेषुष्मच्छिरोद्वयम् । खण्डोकृत्याहरिष्यामि गजं मजयसेनया ॥ १०४ ॥  
 इत्यसभ्यमसोद्व्यं तेनोक्तं कलहाथिना । श्रुत्वाऽचलोऽचलो वोच्चैर्धोरोदाचोऽप्रवीदिदम् ॥ १०५ ॥  
 गजो नाम कियान् शीघ्रमेत्वसावेव सेनया । तस्मै द्दामहेऽन्यच्च येनासौ स्वास्थ्यमाप्नुयात् ॥ १०६ ॥

भरतक्षेत्रमें रहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीको धारण कर रहा था ॥९२॥ अन्य जगहकी बात रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि—उसके डरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्द पड़ गयी थी इसलिए लक्ष्मी कमलोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थी ॥९३॥ जिस प्रकार उग्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका विरोधी होता है उसी प्रकार उग्र प्रकृतिवाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था ॥९४॥ जिस प्रकार किसी क्रूर ग्रहके विकारसे मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥९५॥ स्याहोके समान श्याम वर्णवाला वह तारक सदा शत्रुओंको दूँदता रहता था और जब किसी शत्रुको नहीं पाता था तब ऐसा जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अग्निके धुएँसे ही काला पड़ गया हो ॥९६॥ जिसने समस्त क्षत्रियोंको संतप्त कर रखा है और जो ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके समान दुःखसे सहन करने योग्य है ऐसा वह तारक अन्तमें पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे लोगोंकी लक्ष्मी क्या स्थिर रह सकती है ? ॥९७॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व धारण करता था ऐसा तारक जन्मान्तरसे आये हुए तीव्र विरोधसे प्रेरित होकर द्विपृष्ठ नारायण और अचल बलभद्रकी वृद्धिको नहीं सह सका । वह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंको कर देनेवाला बना लिया है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते । इतना ही नहीं, दुष्ट गर्वसे युक्त भी है । अपने घरमें बढते हुए दुष्ट साँपको कौन सहन करेगा ? ॥९८-१००॥ ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट किये जाने योग्य शत्रुओंकी श्रेणियोंमें स्थित है तथा अपने स्वभावसे दूषित भी हैं अतः जिस किसी तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूँगा ॥१०१॥ इस प्रकार अपायका विचार कर उसने दुर्बचन कहनेवाला एक कलह-प्रेमी दूत भेजा और वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयोंके पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओंको मारनेवाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे, घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जवरदस्ती मँगा लूँगा ॥१०२-१०४॥ इस प्रकार उस कलहकारी दूतके द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर पर्वतके समान अचल, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचल बलभद्र इस तरह कहने लगे ॥१०५॥ कि हाथी क्या चीज है ? तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र आचें । हम उनके

१. विकस्मरा ल० । २. पुराणभूतमार्गस्य ल० । ३. वैपितम् घ० । ४. दुष्टमाशी-ल० । ५. इत्युपायं ल० । ६. वारको क० ।

इत्यादि तेन गम्भीरमभ्युद्य स विसर्जितः । पवमान इव प्राप्य तत्कोपाग्निमदीपयत् ॥ १०७ ॥  
 तच्छ्रुत्वा सोऽपि कोपाग्निप्रदीप्तः पावकप्रमः । तौ पतङ्गायितावित्थं मत्क्रोधाग्नेरवोचताम् ॥ १०८ ॥  
 इत्यनालोच्य कार्याङ्गं सङ्गतः सचिवैः समम् । स्वयमभ्युत्थितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्नुमन्तकम् ॥ १०९ ॥  
 दुर्णयाभिसुलो मूर्खश्रालयित्वाऽखिलाभिलाम् । षडङ्गेन वलेनासौ प्राप्य तादुदयोन्सुलौ ॥ ११० ॥  
 समुल्लङ्घितमथादि कालान्तजलधिं जयन् । अरुणशरुणस्तूर्णं पुरं स्वबलवेलया ॥ १११ ॥  
 बालवद्वेलया वेलां तस्मैनां निजलेन वा । न्यरौत्सोऽजलनिःसारा मचलोऽप्यचलस्थितिः ॥ ११२ ॥  
 द्विपृष्ठो मत्चमातङ्गं सिंहपोत ह्वोद्वतः । पराक्रमैकसाहाय्यादाकमद् बलिनं द्विषम् ॥ ११३ ॥  
 तारकोऽपि चिरं युद्धवा तं निराकर्तुमक्षमः । आसयित्वाऽक्षिपच्चक्रं यमचक्रमिवात्मनः ॥ ११४ ॥  
 तत्परीत्य स्थितं बाहौ दक्षिणे दधितश्रियः । तस्यासौ तेन चक्रेण नरकं तमजीरामत् ॥ ११५ ॥  
 द्विपृष्ठः सप्तसद्गलखिलण्डेऽस्तदाभवत् । अचलो बलदेवोऽभूत्प्राहरत्तुष्टयः ॥ ११६ ॥  
 कृत्वा द्विग्विजयं जित्वा प्रतीपाक्यातभूभृतः । नत्वा श्रीवासुपूज्यैश्च प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ ११७ ॥  
 चिरं त्रिलण्डसाम्राज्यं विधाय विविचैः सुलैः । द्विपृष्ठः कालनिष्ठायामवधिष्ठानमाश्रित ॥ ११८ ॥  
 अचलोऽपि तदुद्वेगाद्वासुपूज्यजिनाश्रयात् । सम्प्राप्य संयमं मोक्षलक्ष्म्या सद्गममीयिवात् ॥ ११९ ॥

वसन्ततिलका

पुण्यैकबीजमवलम्ब्य महीमिवाप्य लब्धोदयौ सममुपाजितसत्स्वरूपौ ।

एकोऽगमत् फलितुमङ्कुरवत् किलोर्ध्वं पापी परो विफलयूलसमस्त्वधरतात् ॥ १२० ॥

लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ देगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुशलता (पक्षमें स्व. स्वर्गे तिष्ठतीति स्वस्थः 'शर्परे खरि विसर्गलोपो वा वक्तव्यः' इति वार्तिकेन सकारस्य लोपः । स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम्) मृत्युको प्राप्त कर सकेंगे ॥१०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कहकर अचल बलभद्रने उस दूतको विदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाग्नि को प्रदीप्त कर दिया ॥१०७॥ यह सुनकर कोपाग्निसे प्रदीप्त हुआ तारक अग्निके समान प्रबलित हो गया और कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाग्नि के पतंगे बन रहे हैं ॥१०८॥ उसने मन्त्रियोंके साथ बैठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया और अपने-आपको सर्वशक्ति-सम्पन्न मानकर मृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥१०९॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूर्ख षडंग सेनासे समस्त पृथिवीको कँपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा पहुँचा । उसने सब मयोदाका उल्लंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा था । इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला (डवारभाटा)के द्वारा अचल और द्विपृष्ठके नगरको घेर लिया ॥११०-१११॥ जिस प्रकार कोई पर्वत जलकी लहरको अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था ॥११२॥ जिस प्रकार सिंहका बच्चा मत्त हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले द्विपृष्ठने भी एक पराक्रमकी सहायतासे ही बलवान् शत्रुपर आक्रमण कर दिया ॥११३॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो भी वह द्विपृष्ठको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका । अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥११४॥ वह चक्र द्विपृष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी सुजापर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया ॥११५॥ उसी समय द्विपृष्ठ, सात उत्तम रत्नोंका तथा तीन खण्ड पृथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्र वन गया तथा चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ॥११६॥ दोनों भाइयोंने शत्रु राजाओंको जीत कर दिग्विजय किया और श्री वासुपूज्य स्वामीको नमस्कार कर अपने नगरमें प्रवेश किया ॥११७॥ चिरकाल तक तीन खण्डका राज्य कर अनेक सुख भोगे । आयुके अन्तमें मरकर द्विपृष्ठ सातवें नरक गया ॥११८॥ भाईके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर संयम धारण कर लिया तथा मोक्ष-लक्ष्मीके साथ समागम प्राप्त किया ॥११९॥ उन दोनों भाइयोंने किसी

मालिनी

इदमिति विधिपाकाद् वृत्तमस्मिन् द्विष्टे  
परिणतमचले च प्रत्यहं चिन्तयित्वा ।

विपुलमतिभिरार्यैः कार्यसुखञ्ज्य पापं  
सकलसुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम् ॥ १२१ ॥

पृथ्वी

पुरेऽत्र कनकादिके प्रथितवाच सुपेणो वृषः  
ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुर्दशस्वर्गमाक ।

त्रिखण्डपरिपालकोऽभवदतो द्विष्टृष्टाख्यथा  
परिग्रहमहाभरादुपगतः क्षितिं सप्तमीम् ॥ १२२ ॥

वंशस्थवृत्तम्

महापुरे वायुरथो महीपतिः प्रपद्य चारित्रमनुत्तरं यथौ ।  
ततो बलो द्वारवतीपुरेऽचलस्त्रिलोकपूज्यत्वमवाप्य निवृत्तः ॥ १२३ ॥

वसन्ततिलका

विक्रयातविन्ध्यनगरेऽजनि विन्ध्यशक्तिः—  
भ्रान्त्वा चिरं भववने चितपुण्यलेशः ।

श्रीभोगवर्द्धनपुराधिपतारकाल्यः  
प्राप द्विष्टृष्टरिपुरन्त्यमर्हो महाहाः ॥ १२४ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे वासुपूज्यजिनपतिद्विष्टृष्टाचल-  
तारकपुराणं परिसमाप्तम् अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥

पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी पृथिवी पायी, अनेक विभूतियाँ पायी और साथ-ही-साथ उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमें-से एक तो अंकुरके समान फल प्राप्त करनेके लिए ऊपरकी ओर (भोक्ष) गया और दूसरा पापसे युक्त होनेके कारण फलरहित जड़के समान नीचेकी ओर (नरक) गया ॥१२०॥ इस प्रकार द्विष्टृष्ट तथा अचलका जो भी जीवन-वृत्त घटित हुआ है वह सब कर्मो-दयसे ही घटित हुआ है ऐसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक आर्य पुरुषोंको पाप छोड़कर उसके विपरीत समस्त सुखोंका भण्डार जो पुण्य है वही करना चाहिए ॥१२१॥ राजा द्विष्टृष्ट पहले इसी भरतक्षेत्रके कनकपुर नगरमें सुपेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चौदहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विष्टृष्ट नामका अर्धचक्री हुआ और इसके बाद परिग्रहके महान् भारसे भरकर सातवें नरक गया ॥१२२॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तदनन्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका बलभद्र हुआ और अन्तमें निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवनके द्वारा पूज्य हुआ ॥१२३॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार-वनमें भ्रमण करता रहा । कदाचित् थोड़ा पुण्यका संचय कर श्री भोगवर्द्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमें द्विष्टृष्टनारायणका शत्रु होकर—उन्के हाथसे मारा जाकर महापापके उदयसे अन्तिम पृथिवीमें नारकी उत्पन्न हुआ ॥१२४॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें श्री वासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विष्टृष्टनारायण, अचल बलभद्र और तारक प्रतिनारायणका वर्णन करनेवाला अष्टावन्वाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥५८॥

## एकोनवष्टितमं पर्व

विमलेऽद्दसमे बोधे दृश्यते विमलं जगत् । विमलं यस्य मे सोऽद्य-विमलं त्रिमलं क्रियात् ॥ १ ॥  
 प्रतीचि धातकीखण्डे देवाद्भयपरभागभाक् । नदीदक्षिणकूलस्थो विषयो रम्यकावती ॥ २ ॥  
 पद्मसेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य इव कल्पागः समीप्सितफलप्रदः ॥ ३ ॥  
 तन्प्रावापविभागोक्तनीतिशास्त्रार्थनिश्चये<sup>१</sup> । उदाहरणमित्याहुस्तद्वृत्तं शास्त्रवेदिनः ॥ ४ ॥  
 अर्जनानुभवावर्थं प्रजानामात्मवृत्तिनिः । व्यापारो रक्षके तस्मिन् महीक्षे मर्दितद्विषि ॥ ५ ॥  
 नाक्रामति प्रजा न्यार्यं तां नाक्रमति भूपतिः । तं त्रिवर्गं त्रिवर्गं ह्य नान्योन्यातिक्रमः क्वचित् ॥ ६ ॥  
 प्रीतिकरवने सर्वगुप्तकेवलसन्निधौ । धर्मतत्त्वं परिज्ञाय स्वैष्यजन्मद्वयं च सः ॥ ७ ॥  
 तदैव तीर्थं कृजात इव जातमहोत्सवः । पद्मनाभाय दत्त्वैदं प्रारब्ध परमं तपः ॥ ८ ॥  
 प्रतीतैकादशाशार्थो भावनाहिततीर्थकृत् । शेषपुण्यसमग्राऽयमारोप्यान्ते चतुष्टयम् ॥ ९ ॥  
 सहस्राविमानेशस्तन्नामेन्द्रोऽजनिष्ट सः । अष्टादशाब्धिमानायुरेकचापतनुच्छ्रितः ॥ १० ॥  
 जबन्धुशुक्लद्वयभागं नवमासेषु निःश्वसन् । अष्टादशसहस्रान्दैराहारं मनसाऽऽहरन् ॥ ११ ॥  
 तुरी रूपप्रवीचारात् प्राक्चतुर्थधरावधिः । तावन्मात्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोन्नतः ॥ १२ ॥  
 स स्नेहान्मृतसम्पृक्तमुखाम्बुरुहदर्शनात् । सन्तर्पितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत् ॥ १३ ॥

जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके सब प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलोंका अभाव करें—हम सबको निर्मल बनावें ॥१॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सीता नदीके दक्षिण तटपर रम्यकावती नामका एक देश है ॥२॥ उसके महानगरमें वह पद्मसेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥३॥ स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शास्त्र-सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका चरित्र उदाहरण रूप था—ऐसा शास्त्रके जानकार कहा करते थे ॥४॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अर्जन तथा उपभोग करना ही प्रजाका व्यापार रह गया था ॥५॥ वहाँकी प्रजा कभी न्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था और त्रिवर्ग परस्पर एक-दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा पद्मसेनने प्रीतिकर वनमें सर्वगुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना और उन्हींसे यह भी जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव बाकी रह गये हैं ॥७॥ उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभं पुत्रके लिए राज्य देकर उच्छ्रित तप तपना शुरू कर दिया ॥८॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर दृढ़ प्रत्यय किया, दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रारनामक स्वर्गमें सहस्रारनामका इन्द्रपद प्राप्त किया। वहाँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक धनुष अर्थात् चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्यशुक्ललेख्या थी, वह नौ माहमें एक बार श्रास लेता था, अठारह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था, देवगनाओंका रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थे पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी, वह अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुन्नत

१ मल्ल्याभावो विमलम् अव्ययोभावसमासः । २ विभोगोक्त क०, घ०, । ३ शास्त्रसमुच्चये ल० । ४ सर्वतप्त ल० । ५ प्रारब्धं ख०, ल० ।



सुरलोकादिम् लोकमिन्द्रेऽस्मिन्नागमिष्यति । क्षेत्रेऽत्र पुरि काम्पिल्ये पुरदेवान्वयो नृपः ॥ १४ ॥  
 कृतवर्मा महादेवी जयश्यामाऽस्य विश्रुता । देवेन्द्रकृतपूजार्हा वसुधारादिवस्तुमि ॥ १५ ॥  
 शुचौ कृष्णदशम्यन्तरजन्यामुत्तरादिमे । ऋक्षे भाद्रपदे दृष्ट्वा स्वभान् चोदश सत्कलान् ॥ १६ ॥  
 तदानीमेव हस्तीन्द्रं विशन्तं वक्त्रवारिजे । व्यलोकित्वा कलान्येषामवबुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥  
 ततः स्वविष्टराकम्पाश्रितेदिततदुत्सवैः । सुरैः स्वर्गास्तमायातैराप कल्याणमादिभ्यम् ॥ १८ ॥  
 वर्द्धमानेन गर्भेण तेनावर्द्धत सम्मदः । हृदये बन्धुवर्गस्य दुर्गातस्य धनेन वा ॥ १९ ॥  
 प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्मदः । किमुच्यते पुनः सूतेः प्रागानघसुरेशिनः ॥ २० ॥  
 माघशुक्लचतुर्थ्यां सा तमहिर्बुध्नयोगतः । त्रिविधं त्रिजगन्नाथं प्राप्त विमलप्रभम् ॥ २१ ॥  
 जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमलवाहनम् । तमाहुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोचरम् ॥ २२ ॥  
 वासुपुष्येशसन्ताने त्रिशास्तागरसम्मिते । प्रान्तपत्नयोपमे धर्मध्वंसे तद्गतजीवितः ॥ २३ ॥  
 षष्टिक्रममिताब्दायुः षष्टिपतनुप्रमः । अष्टापदप्रमः सोऽभूत् सर्वपुण्यसमुच्चय ॥ २४ ॥  
 खपञ्चकैर्ग्न्यैकाब्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥  
 लक्ष्मीः सहचरी तस्य कीर्तिजन्मान्तरागता । सरस्वती सहोत्पन्ना वीरलक्ष्म्या स्वयं वृतः ॥ २६ ॥  
 गुणाः सत्याद्यस्तस्मिन् वर्द्धन्ते स्म यथा तथा । मुनीन्द्रैरपि सप्रार्थ्यां वर्णना तेषु का परा ॥ २७ ॥

था, स्नेहरूपी अमृतसे सम्पृक्त रहनेवाले उसके मुख-कमलको देखनेसे देवांगनाधोंका चित्त सन्तुष्ट हो जाता था । इस प्रकार त्रिकाल तक उसने सुखका अनुभव किया ॥९-१३॥

वह इन्द्र जब स्वर्ग लोकसे चय कर इस पृथिवी लोकपर आनेवाला हुआ तब इसी भरत-क्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान् ऋषभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था । जयश्यामा उसको प्रसिद्ध महादेवी थी । इन्द्रादि देवोंने रत्नवृष्टि आदिके द्वारा जयश्यामाकी पूजा की । ॥१४-१५॥ उसने व्येष्टकृष्णा दशमीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके रहते हुए सोलह स्वप्न देखे, उसी समय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और राजासे इन सबका फल ज्ञात किया ॥१६-१७॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ-कल्याणककी सूचना हो गयी है ऐसे देवोंने स्वर्गसे आकर प्रथम-गर्भकल्याणक किया ॥१८॥

जिस प्रकार बढ़ते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगती है उसी प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गर्भसे बन्धुजनोंके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगी थी ॥१९॥ इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हर्षका कारण है तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र लोग नञ्जीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना है ? ॥२०॥ माघशुक्ल चतुर्थीके दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेक्षा चतुर्दशीके दिन ) अहिर्बुध्न योगमें रानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी, तीन जगत्के स्वामी तथा निमलप्रभाके धारक भगवान्को जन्म दिया ॥२१॥ जन्माभिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रखा और सबने स्तुति की ॥२२॥ भगवान् वासुपुष्यके तीर्थके बाद जब तीस सागर वर्ष बीत गये और पत्युके अन्तिम भागमें धर्मका विच्छेद हो गया तब विमलवाहन भगवान्का जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥२३॥ उनकी आयु साठ लाख वर्षकी थी, शरीर साठ धनुष ऊँचा था, कान्ति सुवर्णके समान थी और वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि ही हों ॥२४॥ समस्त लोकको पवित्र करनेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान् विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण कुमारकाल बीत जानेपर राज्याभिषेकसे पवित्र हुई थी ॥२५॥ लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ आयी थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीर-लक्ष्मीने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया था ॥२६॥ उस राजासे जो सत्यादि गुण बढ़ रहे थे वे बढ़े-बढ़े मुनियोंके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इससे बढ़कर

सुखस्य तस्य को वेत्ति प्रमां मुक्तिसुखस्य चेत् । अनन्तरनितान्तत्वादानन्यादतिशुद्धितः ॥ २८ ॥  
 देवदेवस्तदेवासावासीद् विश्वसुरेश्वरेः । अभ्यर्चिताहिरागन्त्री केवलं केवलात्मता ॥ २९ ॥  
 यशः प्रकाशयत्याशाः श्रीशः कुन्देन्दुनिर्मलम् । काशप्रसवनीकाशमाकाशं चाकरोदद ॥ ३० ॥  
 त्रिशच्छतसहस्राब्दराज्यकालावसानगः । भोगान् विमज्य भुञ्जानो भूयः षट्कृतुसम्भवात् ॥ ३१ ॥  
 हिमानीपटलच्छन्नदिग्भूभूह्रभूभरे । हेमन्ते हैमनीं लक्ष्मीं विष्णीनां बोध्य तत्क्षणात् ॥ ३२ ॥  
 विरक्तः संसृतेः पूर्वेनिजजन्मोपयोगवान् । रोगीव नितरां खिन्नो मानमङ्गविमर्शनात् ॥ ३३ ॥  
 सञ्जायैस्त्रिभिरप्येभिः किं कृत्यमवभौ स्थिते । वीर्येण च किमेतेन यद्युत्कर्षमनासवत् ॥ ३४ ॥  
 चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानीदयो यतः । बन्धश्चतुर्विधोऽप्यस्ति बहुमोहपरिग्रहः ॥ ३५ ॥  
 प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निर्जाप्यलिपिकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्यं माध्याभ्यहमिहैव हि ॥ ३६ ॥  
 साहसं पश्य भुञ्जेहं भोगान्भोगानिवौरगान् । पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्मे सम्प्रवर्तते ॥ ३७ ॥  
 तस्य यावन्न यान्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः । इतीवचित्तो विमलो विमलावगमोद्गमात् ॥ ३८ ॥  
 तदेवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः । सुरैस्तृतीयकल्याणे विहिताभिषवोत्सवः ॥ ३९ ॥  
 देवदत्तां समाह्वय शिबिकाभमरैर्वृतः । विभुः सहेतुकोद्याने प्राजाजीद्व द्व्युपवासभाक् ॥ ४० ॥  
 माघशुक्लचतुर्थ्याहःप्रान्ते पर्विवशकक्षके । सहस्रनरपैः सार्द्धं प्राप्य तुर्यावबोधनम् ॥ ४१ ॥

इनकी और क्या स्तुति हो सकती थी ॥२७॥ अत्यन्त विशुद्धताके कारण थोड़े ही दिन बाद जिन्हें मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होनेवाला है ऐसे विमलबाहन भगवान्के अनन्त सुखका वर्णन भला कौन कर सकता है ? ॥२८॥ जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरण-कमलोंकी पूजा की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे ॥२९॥ लक्ष्मीके अधिपति भगवान् विमलबाहनका कुन्दपुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मल यश दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था और आकाशको काशके पुष्पके समान बना रहा था ॥३०॥ इस प्रकार लह ऋतुओंमें उत्पन्न हुए भोगोंका उपभाग करते हुए भगवान्के तीस लाख वर्ष बीत गये ॥३१॥

एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और पर्वत बर्फसे ढक रहे थे ऐसी हेमन्त ऋतुमें बर्फकी शोभाको तत्क्षणमें विलीन होता देखा ॥३२॥ जिससे उन्हें उसी समय संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूर्व जन्मकी सब बातें याद आ गयीं और मान-भंगका विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खेदखिन्न हुए ॥३३॥ वे सोचने लगे कि इन तीन सम्यग्ज्ञानोंसे क्या होनेवाला है क्योंकि इन सभीकी सीमा है—इन सभीका विषय क्षेत्र परिमित है और इस वीर्यसे भी क्या लाभ है जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं है ॥३४॥ चूँकि प्रत्याख्याना-वरण कर्मका उदय है अतः मेरे चारित्र (महाव्रत)का लेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह तथा परिग्रह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान है ॥३५॥ प्रमाद भी अभी मौजूद है और निर्जरा भी बहुत थोड़ी है । अहो ! मोहकी बड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संसारकी वस्तुओंमें मत्त हो रहा हूँ ॥३६॥ मेरा साहस तो देखो कि मैं अबतक सर्पके शरीर अथवा फणके समान भयंकर इन भोगोंको भोग रहा हूँ । यह भोगोपभोग मुझे पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए है ॥३७॥ सो जबतक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता तबतक मुझे अनन्त सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलबाहन भगवान्ने अपने हृदयमें विचार किया ॥३८॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाले अभिषेकका उत्सव किया ॥३९॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा घिरे हुए भगवान् देवदत्ता नामकी पालकीपर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ॥४०॥ उन्होंने यह दीक्षा

१ अनन्तर नितान्तत्वात् क०, घ० । २ श्रिया ईट् तस्य लक्ष्मीश्वरस्य । ३ -मनाप्तवान् ग०, ल० । ४ परिभुञ्जेऽमुन् ल० । ५ सर्पशरीराणीव ।

द्वितीयेऽङ्के पुरं नन्दनामिधं भुक्तयेऽविशत् । जयो नाम नृपस्तस्मै दत्त्वाऽन्नं कनकप्रमः ॥ ४२ ॥  
 पद्माश्रयं समापार्यं किञ्च न्ना पात्रदानतः । सामाधिकं समादाय संयमं शुद्धचेतसा ॥ ४३ ॥  
 त्रिवत्सरमिते चाते तपस्येप महामुनिः । निजदीक्षावने जम्बुदुममूले हृद्युपोषितः ॥ ४४ ॥  
 मात्रे मासि सिते पत्रे पद्यार्थं प्रेशोपराहूके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे वातिकर्मविनाशनात् ॥ ४५ ॥  
 केवलवागमं प्रापत्सद्यो न्यासचराचरः । तद्वैवापैश्च देवेन्द्राः स्वानसन्मुकुटाननाः ॥ ४६ ॥  
 देवदुन्दुभिमुख्याष्टप्रातिहार्यादिवंभवम् । प्राप्य तैर्गन्धकुट्यन्तगतसिंहासने स्थितः ॥ ४७ ॥  
 मन्दगदिगणाधीशपञ्चपद्माशदाहृतः । शतोत्तरसहस्रोक्तप्ल्यपूर्वधरैर्धृतः ॥ ४८ ॥  
 रत्रिपञ्चवृत्तशुक्तशिक्षकैरलक्षितः । खट्वाष्टचतुर्मेयत्रिविधावधिवन्दितः ॥ ४९ ॥  
 सद्भयेन्द्रियपद्मासिधेयकेवललोचनः । शून्यत्रयनचज्ञातविक्रियद्दयुं पट्टंहितः ॥ ५० ॥  
 खट्वाष्टचन्द्रियपद्माधिगम्यतुर्यावधोषनः । खट्वाष्टग्ननिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥  
 अष्टपष्टिसहस्रोक्तसर्वसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्रैकलक्षोक्तपद्धार्याधार्थिकाचितः ॥ ५२ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेनो द्विगुणश्राविकाचितः । पूर्वोक्तद्विगुणोपेतो धर्मक्षेत्रेऽवनारतम् ॥ ५३ ॥  
 भवात्पपरिम्बानमध्यसत्त्वामितपंकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतक्रियः ॥ ५४ ॥  
 सद्भयस्वैष्टसम्प्रोक्तयतिभिः प्रतिमां गतः । आपाटस्योत्तरामात्रे कृष्णाष्टभ्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥  
 सद्यः कृत्वा समुद्वातं सूक्ष्मं शुद्धं यमाश्रितः । सम्यग्योगाद्दयोगः सन्स्वास्थ्यं रोगीव लोऽगमत् ॥ ५६ ॥

माघशुक्लचतुर्थीके दिन सायंकालके समय छत्र्यासर्वे-उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओं-के साथ ली थी और उसी दिन वे चौथा-मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर चार ज्ञानके धारी हो गये थे ॥४१॥ दूसरे दिन उन्होंने मोजनके लिए मन्दनपुर नगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा कनकप्रभने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्रयं प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे तपस्या करने लगे ॥४२-४३॥ जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर जामुनके वृक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए ॥४४॥ फलस्वरूप माघ-शुक्ल पष्टीके दिन सायंकालके समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान् विमलवाहनने अपने दीक्षाग्रहणके नक्षत्रमें यातिया कर्मोंका विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । अब वे चर-अचर समस्त पदार्थोंको शीघ्र ही जानने लगे । उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाये हुए देव लोग आये । उन्होंने देवदुन्दुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहार्योंका वैभव प्रकट किया । उसे पाकर वे गन्ध-कुटीके मध्यमें स्थित सिंहासनपर विराजमान हुए ॥४५-४७॥ वे भगवान् मन्दर आदि पचपन गणधरोंसे सदा धिरे रहते थे, ग्यारह सौ पूज्य पूर्वधारियोंसे सहित थे, लक्ष्मी हजार पाँच सौ तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार आठसौ तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोंसे बन्दित थे, पाँच हजार पाँचसौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके संघकी वृद्धि करते थे, पाँच हजार पाँच सौ मनःपर्यय ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार लह सौ वादियोंसे सहित थे, इस प्रकार अड़सठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे । पद्माको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकोंसे सहित थे तथा चार लाख श्राविकाओंसे पूजित थे । इनके सिवाय दोगुणों अर्थात् असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यचोंसे वे सहित थे । इस तरह धर्मक्षेत्रोंमें उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी आतपसे सुर-झाये हुए अभ्यरूपी धान्योंको सन्तुष्ट किया । अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने एक माहका योग निरोध किया ॥४८-४९॥ आठ हजार लह सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा आपाट कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें प्रातःकालके समय शीघ्र ही समुद्वात कर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामका शुक्लध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था धारण कर उस प्रकार-स्वास्थ्य (स्वरूपावस्थान) अर्थात् मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि

तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्या कालाष्टमी बुधैः । तद्देवाकम्बनं कृत्वा मिथ्यादृग्मिश्र पूज्यते ॥५७॥  
कृत्वाऽन्त्येष्टि तदाभ्येत्थ सौधर्मप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिर्भिरर्थाभिरवन्दिषत् निर्हृतम् ॥५८॥

शार्दूलविक्रीडितम्


सन्तत्या मलसञ्चयः परिणतो हिंसादिभिः सन्ततं  
संसारे सुकृतात्ततो निजगुणा नेयुर्विशुद्धिं क्वचित् ।  
तानद्याहंभवान्य बुद्धिममलां शुद्धिं नयामोत्पद्यं  
शुक्लध्यानसुपाश्रितोऽतिविमलस्तस्माद्यथार्थाह्वयः ॥५९॥

वसन्ततिलका

श्रद्धानवोधरद्वनं गुणपुण्यमूर्ति-  
भाराधना चरणमायतधर्महस्तम् ।  
सन्मार्गवारणमधारिममिप्रचोद्य  
विध्वंसनाद्विमलवाहनमाहुरेनम् ॥६०॥

मालिनीं

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीशः  
सुरसमितिसमर्च्यः स्पष्टमौख्योऽष्टमेन्द्र ।  
विपुलविमलकीर्तिर्विश्वविश्वम्भरेशो  
विमलजिनपतिः स्तावु सुष्ठुतस्तुष्टये व. ॥६१॥  
स्तमिततमंसमाधिध्वस्तनि.शेषदोषं  
'क्रमगमकरणान्तर्द्धानहीनावबोधम् ।  
विमलममलमूर्ति कीर्तिमाजं धुमाजां  
नमत विमलताप्ल्यै सक्तिभारेण भव्याः ॥६२॥



कोई रोगी स्वास्थ्य (नीरोग अवस्था) प्राप्त करता है ॥५५-५६॥ उसी समयसे लेकर लोकमें आपाद् कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नामसे विद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गयी और इसी निमित्तको पाकर मिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥५७॥ उसी समय सौधर्म आदि देवोंने आकर उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवान्की अर्थपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे बन्दना की ॥५८॥

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मलका संचय करता रहता है और पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंको विशुद्ध बनाना चाहिए—पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिए । आज मैं निर्मल बुद्धि-शुद्धोपयोगकी भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्धि प्राप्त करता हूँ—पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ—ऐसा विचार कर ही जो शुक्लध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे विमल-वाहन भगवान् अपने सार्थक नामको धारण करते थे ॥५९॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ही जिसके दो दौत हैं; गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी सँड है ऐसे सन्मार्गरूपी हाथीको पाप-रूपी शत्रुके प्रति प्रेरित कर भगवान् विमलवाहनने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट किया था इसलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन (विमल वाहनं यानं यस्य सः विमलवाहनः—निर्मल सवारीसे युक्त) कहते थे ॥६०॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विशाल निर्मल कीर्तिके धारक एवं समस्त पृथिवीके स्वामी विमलवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तेरहवें विमलनाथ तीर्थकर अच्छी तरह आप लोगोंके सन्तोषके लिए हों ॥६१॥ हे भव्य जीवो! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा

तीर्थे विमलनाथस्य सञ्जातौ रामकेशवौ । धर्मस्वयम्भूनामानौ तथोश्चरित्सुच्यते ॥६३॥  
 विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासीन्मिन्नन्दीति भूभुजः । स्ववशीकृतनि.शेषनिजभोग्यमहीतलः ॥६४॥  
 प्रजानामेष रक्तवात् प्रजाश्राव्य प्रगळ्नात् । सर्वदा वृद्धयेऽभूवन् भवेस्त्वाथां परार्थता ॥६५॥  
 स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्रं च धीमतः । चक्रवृद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात् ॥६६॥  
 अतृप्यदेष भूपालस्तर्पित्वाऽखिलाः प्रजाः । परोपकारवृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तये ॥६७॥  
 स कदाचित्समासाद्य सुव्रतं जिनपुङ्गवम् । श्रुत्वा धर्मं सुधीमत्त्वा स्वाङ्गभोगादि भंगुरम् ॥६८॥  
 अङ्गिनो वत सीदन्ति सङ्गमादाहिताहसः । निःसङ्गतां न गच्छन्ति किं गतं न विदन्त्यमी ॥६९॥  
 इति निर्विद्य संसाराद् गृहीत्वा संयमं परम् । संन्यस्यागात् त्रयखिशाद्वाङ्घ्रिस्थितिरनुत्तरम् ॥७०॥  
 ततो द्वारवतीपुर्यां सुतो मद्गमहीपतेः । सुमद्रायाश्च धर्माख्यः सोऽभूत्सुखनपूर्वकम् ॥७१॥  
 भुमुस्मिन् भारते वर्षे कुणालविषये पुरम् । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुभोगत्वरः ॥७२॥  
 कामये व्यसनेन द्यूते संसक्तः कर्मचोदितः । निषिद्धो मन्त्रिभर्वन्धुवरैश्च बहुभो हितै ॥७३॥  
 चोदितो वा स तैर्भूयो दोष्यन् दैवविलोमतः । राष्ट्रं वित्त बलं देवी सर्वमस्थापहारितम् ॥७४॥  
 क्रोधजेषु त्रिपूक्तेषु कामजेषु चतुर्षु च । नापरं व्यसन द्यूताङ्घ्रिकृष्टं प्राहुरागमाः ॥७५॥

समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका शरीर अत्यन्त निर्मल है और देव भी जिनकी कीर्तिकां गान करते हैं ऐसे विमलनाथ भगवान्-को निर्मलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥६२॥

अथानन्तर श्री विमलनाथ भगवान्के तीर्थमें धर्म और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है ॥६३॥ इसी भरतक्षेत्रके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें एक मिन्नन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी ॥६४॥ प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह प्रजाकी वृद्धिके लिए था और यह प्रजाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी—राजा और प्रजा दोनों ही सदा-एक-दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही है क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है ॥६५॥ उस बुद्धिमान्के लिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और जिसकी बुद्धि चक्रके समान फिरा करती थी—चंचल रहती थी उसके लिए क्रमका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शत्रुसेनाके समान हो जाती थी ॥६६॥ यह राजा समस्त प्रजाको सन्तुष्ट करके ही स्वयं सन्तुष्ट होता था सो ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मनुष्योंके दूसरोंको सन्तुष्ट करनेसे ही अपना सन्तोष होता है ॥६७॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान् सुव्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा और वहाँ धर्मका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने लगा ॥६८॥ वह सोचने लगा—बड़े दुःखकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिग्रहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दुःखी हो रहे हैं फिर भी निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते—सब परिग्रह छोड़कर दिगम्बर नहीं होते । बड़ा आश्चर्य है कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥६९॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने उल्लूक संयम धारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास धारण कर अनुत्तर विमानमें तैत्तीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥७०॥

वहाँसे चय कर द्वारवती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म नामका पुत्र हुआ ॥७१॥ इसी भारतवर्षके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर भोगोंमें तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था ॥७२॥ अशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी था, तथा द्यूत व्यसनमें आसक्त था । यद्यपि हित चाहनेवाले मन्त्रियों और कुटुम्बियोंने उसे बहुत बार रोका पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खेलता रहा और कर्मोंके विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-बल और रानी सब कुछ हार गया ॥७३-७४॥ क्रोधसे उत्पन्न

महागुणेषु यत्सत्यमुक्तं प्राग् ह्यर्हते हि तत् । शूतासक्तेन लज्जाभिमानं पद्माकुलं सुखम् ॥ ७६ ॥  
 सौजन्यं बन्धनो धर्मो द्रव्यं क्षेत्रं गृहं यशः । पितरौ दारका दाराः स्वयं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥  
 न ज्ञानं भोजनं स्वापो निरोधाद्रोगमृच्छति । न आत्यर्थान् कृथा क्रेशी बहुदोषं चिन्तोष्यवम् ॥ ७८ ॥  
 करोति कुटिलतं कर्म जायते पारिपन्थिकः । याचतेऽन्येषु 'वार्धार्थमकार्येषु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥  
 बन्धुभिः स परिव्यक्तो राजभिर्यति यातनाम् । इति शूतस्य को दोषानुद्हेदुमपि शक्नुयात् ॥ ८० ॥  
 सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्यं च हारितम् । तस्माल्लोकद्वये बान्धवन् दूरतो शूतमुत्सृजेत् ॥ ८१ ॥  
 सुकेतुरिति सर्वैस्वहानिशोकाकुलीकृतः । गत्वा सुदर्शनाचार्यं पादमूलं श्रुतागमः ॥ ८२ ॥  
 सद्यो निर्विघ्नं संसारात्प्रव्रज्याप्यशुभाशयः । शोकादज्ञं समुत्सृज्य तपोनिरतिदुष्करैः ॥ ८३ ॥  
 दीर्घकालमलं तप्त्वा कलागुणविदग्धता । बलं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुषः क्षये ॥ ८४ ॥  
 कृत्वा निदानं संन्यस्य लान्तवकल्पमास्थितः । तत्र दिव्यसुखं प्रापत्स चतुर्दशसागरम् ॥ ८५ ॥  
 ततः सोऽप्यवतीयत्र भद्रस्यैव महोत्तमः । बभूव पृथिवीदेव्यां स्वयम्भूः सुसुप्त प्रियः ॥ ८६ ॥  
 धर्मो बलः स्वयम्भूश्च केशवस्तौ परस्परम् । भभूतां प्रीतिसम्भ्रावन्बभूतां श्रियं चिरम् ॥ ८७ ॥  
 सुकेतुजातो चूतेन निर्व्रियं बलिना हृद्यत् । स्वोक्तं येन तद्वाज्यं सोऽभूद्भ्रजपुरे मधुः ॥ ८८ ॥  
 तज्जन्मवैरसंस्कारसमेतेनाधुनासुना । तज्जामश्रुतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ ८९ ॥

होनेवाले मद्य, मांस और शिकार इन तीन व्यसनोमें तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुआ, चोरी, वैश्या और पर-स्त्रीसेवन इन चार व्यसनोमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं ॥७५॥ जो सत्य महागुणोमें कहा गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हारता है। पीछे लज्जा, अभिमान, कुल, सुख, सज्जनता, बन्धुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, यश, माता-पिता, बाल-बच्चे, स्त्रियाँ और स्वयं अपने-आपको हारता—नष्ट करता है। जुआ खेलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण नस्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन आवश्यक कार्योंका रोध हो जानेसे रोगी हो जाता है। जुआ खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो वात नहीं, वह व्यर्थ ही क्रेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्द्य कार्य कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लोगोंसे याचना करने लगता है और धनके लिए नहीं करने योग्य कर्मोंमें प्रवृत्ति करने लगता है। बन्धुजन उसे छोड़ देते हैं—घरसे निकाल देते हैं, एवं राजाकी ओरसे उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जुआके दोषोंका नामोल्लेख करनेके लिए भी कौन समर्थ है ? ॥७६-८०॥ राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त है क्योंकि वह इस जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकोंका भला चाहता है वह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥८१॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका तब शोकसे व्याकुल होकर सुदर्शनाचार्यके चरण-मूलमें गया। वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था। उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया ॥८२-८३॥ इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमें निदान किया कि इस तपके द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥८४॥ ऐसा निदान कर वह संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्गमें देव हुआ। वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उपभोग करता रहा ॥८५॥ वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी पृथिवी रानीके स्वयम्भू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाको सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था ॥८६॥ धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे ॥८७॥ सुकेतुकी पर्यायमें बलिनामके राजाने जुआमें सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मरकर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था ॥८८॥ पूर्व जन्मके

मधोः केनापि भूपेन प्रहितं प्रान्तृतं स्वयम् । घातयित्त्वोभयोर्द्वैतौ साधिक्षेपमगृह्यत् ॥ ९० ॥  
 प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्नः संस्कारो जायते स्थिरः । तस्मादप्रीतिमात्मज्ञो न कुर्यात्कापि कस्यचित् ॥ ९१ ॥  
 आकण्ठं नारदाद् दूतमृत्युमावेशितक्रुधा । ययानमिसुखं योद्धुं रामकेशवयोर्मधुः ॥ ९२ ॥  
 तौ च संग्रामसन्नदौ क्रुद्धौ युद्धविशारदौ । प्रापतुः सहसा हन्तुं तं यमानलसन्निभौ ॥ ९३ ॥  
 सैन्ययोर्हमयोरासीत् संग्रामः संहरन्निव । परस्परं चिरं घोरः शूरयोर्भीरुभीप्रदः ॥ ९४ ॥  
 स्वयम्भुवं समुद्दिश्य तदा सोढा मधुः क्रुधा । उन्नतचक्रं विवर्त्याङ्गु न्यक्षिपत्तज्जिघांसया ॥ ९५ ॥  
 तद्गत्वाऽऽशु परीत्यैनं भुजाग्रे दक्षिणे स्थितम् । अवतीर्य मरुन्मार्गाद्भास्करस्येव मण्डलम् ॥ ९६ ॥  
 तदेवादाय सक्रोधः स्वयम्भूर्विद्विषं प्रति । प्रहिल्यादादसूस्तस्य किं न स्यात् सुकृतोदयात् ॥ ९७ ॥  
 आधिपत्यं तदावाप्य भरतार्द्धस्य केशवः । वासवो वोऽन्वभूद्भोगाक्षिविघ्नं स्वाग्रजान्वितः ॥ ९८ ॥  
 मधु सत्त्वं समुत्सृज्य भूयः सश्रितवान् रजः । वद्ध्वायुनारिकं प्रापश्चिरयं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥  
 केशवोऽपि तमन्वेष्टुमिव वैरातुवन्धनात् । तदेव नरकं पद्भ्यामविक्षिप्तं पापपाकतः ॥ १०० ॥  
 बलोऽपि तद्द्विद्योग्यशोकसन्तप्तमानसः । निर्विद्य संसृतेः प्राप्य जिन्नं विमलवाहनम् ॥ १०१ ॥  
 सामायिकं समादाय संयमं संयताग्रणीः । विग्रहे विग्रहीवोत्रं निर्व्यग्रमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥  
 सद्बृत्तस्तेजसो मूर्तिधुन्वन्नभ्युदितस्वमः । असम्बाधमगादूर्ध्वं मास्वानिव बलोऽमलः ॥ १०३ ॥

वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे क्रुपित हो जाता था ॥८९॥ किसी समय किसी राजाने राजा मधुके लिए भेट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनोंके दूतोंको मारकर तिरस्कारके साथ वह भेंट स्वयं छीन ली ॥९०॥ आचार्य कहते हैं कि प्रेम और द्वेषसे उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कहीं किसीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए ॥९१॥ जब मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करनेके लिए बलभद्र और नारायणके सम्मुख चला ॥९२॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा क्रुपित बलभद्र और नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज और अग्निकी समानता रखनेवाले ये दोनों राजा मधुको मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ॥९३॥ दोनों शूरकी सेनाओंमें परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक धमासान युद्ध हुआ ॥९४॥ अन्तमें राजा मधुने क्रुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता हुआ चक्र घुमाकर फेंका ॥९५॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी दाहिनी भुजाके अग्रभागपर ठहर गया । उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशसे उतरकर सूर्यका विम्ब ही नीचे आ गया हो ॥९६॥ उसी समय राजा स्वयंभूने क्रुपित होकर वह चक्र शत्रुके प्रति फेंका सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता ? ॥९७॥ उसी समय स्वयंभू-नारायण, आधे भरतक्षेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपने वड़े भाईके साथ उसका निर्विग्रह उपभोग करने लगा ॥९८॥ राजा मधुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नरकायु बाँधकर तमस्तभ नामक सातवें नरकमें गया ॥९९॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कारसे उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१००॥ स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा था ऐसा बलभद्र धर्म भी संसारसे विरक्त होकर भगवान् विमलनाथके समीप पहुँचा ॥१०१॥ और सामायिक संयम धारण कर संयमियोंमें अग्रेसर हो गया । उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके साथ विद्वेष ही ठान रखा हो ॥१०२॥ उस समय बलभद्र ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्बृत्त अर्थात् गोलाकार होता है उसी प्रकार बलभद्र भी सद्बृत्त—सदाचारसे युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्तिस्वरूप होता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्तिस्वरूप

१ स्थिति ग० । २ प्रहित्य अदात् असून् तस्य इति पदच्छेदः । ३ संसृतिबीजजम् ल० । ४ नारकं क०, घ० । ५ विग्रहे शरीरे । ६ विग्रही विद्वेषी ।

वसन्ततिलका

धृतेन मोहविहितेन विधीः स्वयंभूः

यातो मधुश्च नरकं दुरितो दुरन्तम् ।

धर्मादिकं त्रितयमेव कुमार्गवृत्त्या

हेतुः श्रितं भवति दुःखपरम्परायाः ॥ १०४ ॥

क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेन्निदानं

तस्याद् दुरन्तदुरितो जितदुःखहेतुः ।

तेनाप मुक्तिपथगोऽप्यपथं सुकेतु-

स्त्याज्यं ततः खलसमागमवन्निदानम् ॥ १०५ ॥

मालिनी

द्युतिविनिहतमित्रो मित्रनन्दी क्षितीशो

यमसमितिसमग्रोऽनुत्तराधीश्वरोऽभूत् ।

अनुभरणिमितः सच् द्वारवत्यां सुधर्मः

परमपदमवापत्साधितात्मस्वरूपः ॥ १०६ ॥

पृथ्वी

कुणालविपये सुकेतुरधिराडभूद् दुर्मति -

स्ततः कृततपाः सुरोऽजनि सुखालये लान्तवे ।

कृतान्तसदशो मधोरनुवभूव चक्रेश्वर-

स्ततश्च दुरितोदयाक्लिप्तिमगास्त्वयंभूरधः ॥ १०७ ॥

जिनस्यास्यैव तीर्थेऽभ्यौ गजेशौ मेरुमन्दरी । तुङ्गौ स्थिरौ सुरैः सेव्यौ वक्ष्यामश्चरितं तयोः ॥ १०८ ॥

थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बलभद्रते मुनि होते ही अन्तरंगके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी कर्ममलके नष्ट हो जानेसे निर्मल थे और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावटके ऊपर आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन लोकके अग्रभागपर जा विराजमान हुए ॥१०३॥ देखो, मोह वश किये हुए जुआसे मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पापका संचय कर दुःखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि धर्म, अर्थ, काम इन तीनका यदि कुमार्ग वृत्तिसे सेवन किया जाये तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥१०४॥ कोई उत्तम तपश्चरण करे और क्रोधादिके बशीभूत हो निदान-बन्ध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमार्गका पथिक था तो भी निदान-बन्धके कारण कुगतिको प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे ही छोड़ने योग्य है ॥१०५॥ धर्म पहले अपनी कान्तिसे सूर्यको जितनेवाला मित्रनन्दी नामका राजा हुआ, फिर महाव्रत और समितिधैर्यसे सम्पन्न होकर अनुत्तरविमानका स्वामी हुआ, वहाँसे चयकर पृथिवीपर द्वाारावती नगरीमें सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्ध कर मोक्ष पदको प्राप्त हुआ ॥१०६॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर सुखके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वर्गमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं पृथिवीमें गया ॥१०७॥

अथानन्तर—इन्हीं विमलवाहन तीर्थकरके तीर्थमें अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देवोंके द्वारा सेवनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥१०८॥



द्वीपेऽपरविदेहेऽस्मिन् सीतोदानशुद्धकटे । विषये गन्धमालिनीयां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥  
 वैजयन्तो नृपस्तस्य देव्याः सर्वश्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥  
 तावन्धेद्युरशोकस्वयन्ने तीर्थकृतोऽन्तिके । धर्म स्वयंभुवः श्रुत्वा भोगनिर्वेदचोदितौ ॥ १११ ॥  
 संजयन्ततन्जाय वैजयन्ताय धीमते । दत्त्वा राज्यं समं पित्रा संयमं समवापतुः ॥ ११२ ॥  
 सप्तमे संयमस्थाने श्रीणाशेषकषायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेशिताम् ॥ ११३ ॥  
 पितुः कैवल्यसंप्राप्तिकल्पणे धरणेशिनः । जयन्तो वीक्ष्य सौन्दर्यमैश्वर्यं च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥  
 धरणेन्द्रोऽभवन्मृत्वा दुर्मतिः स निदानतः । अत्यल्पं बहुमौल्येन गृह्णतो न हि दुर्लभम् ॥ ११५ ॥  
 अन्येद्युः सञ्जयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम् । मनोहरपुराभ्यर्णसीमारण्यान्तरे यतिम् ॥ ११६ ॥  
 विद्युद्दंष्ट्राह्वयो विद्याधरो वीक्ष्याक्षमो रुषा । पूर्ववैरानुसंधानस्मृत्युद्भृतातिवेगया ॥ ११७ ॥  
 उदृष्ट्वेकाल्पयाप्यत्रेभंरतेऽपान्दिगाश्रिता । नदी कुसुमवत्याख्या हरवत्यभिधा परा ॥ ११८ ॥  
 सुवर्णगजवत्यौ च चण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपत्संगमे तासामगाधे सलिले खलः ॥ ११९ ॥  
 अयं पापी महाकायो दानवो मानवाशनः । सर्वानस्मान् पृथग्दृष्ट्वा खादितुं निभृत् संस्थितः ॥ १२० ॥  
 शरकुन्तादिशस्त्रैर्विनिर्घुणं सर्वभक्षिणम् । वयं सर्वेऽपि संभूय हनामोऽखिलविद्विषम् ॥ १२१ ॥  
 उपेक्षितोऽयमद्यैव सुप्रकृष्टिर्बुभुक्षितः । मक्षयेल्लक्षितोऽवयं निशायां स्त्रीः शिशून्पशून् ॥ १२२ ॥  
 तस्मान्मद्वचनं यूयं प्रतीत किमहं वृथा । मृषा भापे किमेतेन वैरमस्त्यत्र मे पृथक् ॥ १२३ ॥  
 इति तेन खगा मुग्धाः पुनः सर्वेऽपि नोद्रिताः । तथेति मृत्युसंज्ञस्ताः समस्ताः शस्त्रसंहतीः ॥ १२४ ॥  
 आदाय साधुमूर्धन्यं समाहितमहाधिषम् । समन्ताद्दन्तुमारब्धा विश्रब्धं लुब्धकोपमाः ॥ १२५ ॥

जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है उसके वीतशोक नगरमें वैजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी और उन दोनोंके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सहित थे ॥१०९-११०॥ किसी दूसरे दिन अशोकवनमें स्वयम्भू नामक तीर्थकर पधारे। उनके समीप जाकर दोनों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोनों ही भोगोंसे विरक्त हो गये॥१११॥ उन्होंने संजयन्तके पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमान् था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर लिया ॥११२॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात् वारहवें गुणस्थानमें समरत कषायोंका क्षय कर जिन्होंने समरसपना—पूर्ण वीतरागता प्राप्त कर ली है ऐसे वैजयन्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको प्राप्त हुए ॥११३॥ पिताके कैवल्यज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धरणेन्द्र भी आया। धरणेन्द्रके सौन्दर्य और बहुत भारी ऐश्वर्यको देखकर जयन्त मुनिने धरणेन्द्र होनेका निदान किया। उस निदानके प्रभावसे वह दुबुद्धि मरकर धरणेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुर्लभ नहीं है ॥११४-११५॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि, मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे ॥११६॥ वहींसे विद्युद्दंष्ट्रा नामका विद्याधर निकला। वह पूर्वभवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीव्र वेगसे युक्त क्रोधसे आगे बढ़नेके लिए असमर्थ हो गया। वह दुष्ट उन मुनिराजको उठा लाया तथा भरतक्षेत्रके इला नामक पर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ कुसुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती और चण्डवेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ॥११७-११८॥ इतना ही नहीं उसने भोले-भाले विद्याधरोंको निम्नांकित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्योंको खानेवाला पापी राक्षस है, यह हम सबको अलग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्यको हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रोंके समूहसे मारें, देखो, यह भूखा है, भूखसे इसका पेट झुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गयो तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही खियों-बच्चों

सोऽपि सर्वसंहिष्णुः सन् वज्रकायोऽचलाकृतिः । निश्चलो निर्वृतिं यातः शुक्लध्यानेन शुद्धधीः ॥ १२६ ॥  
 सर्वे निर्वानकल्याणपूजां कर्तुं सुराधिपाः । चतुर्विधाः समं प्रापन्तस्ता तद्वक्तित्वोदिताः ॥ १२७ ॥  
 स्वाग्रजाङ्घ्रिक्षणोद्भूततृतीयवागम क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाशेन तान् बन्धन्वाखिलान् खगान् ॥ १२८ ॥  
 नास्माकं देव दोषोऽस्ति विद्युद्दंष्ट्रेण पापिना । विदेहादमुमानोय मयं चास्मात्स्वचारिणाम् ॥ १२९ ॥  
 प्रतिपाद्य जनैरभिरकारि विविधो मुधा । महोपसर्गं ह्यत्याहुस्तेषु केचिद्विद्वक्षणाः ॥ १३० ॥  
 श्रुत्वा तन्नागराजोऽपि तेषु कालुष्यमुत्सृजन् । विद्युदंष्ट्रं पयोराशौ सबन्धुं क्षेप्तुमुद्यत ॥ १३१ ॥  
 आदित्याभस्तदा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत् । मध्ये ज्ञातानुबन्धो वा धातुप्रत्यययोः परः ॥ १३२ ॥  
 कृतदोषोऽस्त्ययं नागनाथ किन्वनुरोधतः । ममास्य शम्भतां क्षुद्रे कः क्रोपस्त्वाद्दशां पशौ ॥ १३३ ॥  
 पुरादितीर्थकुल्काके भवद्वंशसमुद्भवैः । वंशोऽस्य निमित्तो दत्त्वा त्रिधा विद्याधरेशिनान् ॥ १३४ ॥  
 संवदयं विषवृक्षं च छेत्तुं स्वयमवैतु कः । इत्यावालप्रसिद्धं किं न वेत्सि विषमृत्यते ॥ १३५ ॥  
 इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः प्रत्युवाच तपोधनम् । मद्ग्रजमयं दुष्टो निर्हेतुकममीमरम् ॥ १३६ ॥  
 तद्भ्रवं मम हन्तव्यो न निषेधं स्वयार्थितम् । मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान् वृथा । १३७ ॥  
 वैरं वहसि ते भ्राता जातौ जातोऽयमेव किम् । विद्युद्दंष्ट्रो न किंभ्राता संजात संसृतौ भ्रमन् ॥ १३८ ॥

तथा पशुओंको खा जावेगा । इसलिए आप लोग मेरे वचनोंपर विश्वास करो, मैं वृथा ही झूठ क्यों बोलूंगा ? क्या इसके साथ मेरा द्वेष है ?' इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुष्यको ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शम्भो-का समूह लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब ओरसे मारने लगे ॥ १२०-१२५ ॥ जयन्त मुनिराज भी इस समस्त उपसर्गको सह गये । उनका शरीर वज्रके समान सुदृढ था, वे पर्वतके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्लध्यानके प्रभावसे निर्मल ज्ञानके धारो मोक्षको प्राप्त हो गये ॥ १२६ ॥ उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिसे प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणकी पूजा करनेके लिए आये ॥ १२७ ॥ सब देवोंके साथ पूर्वोक्त धरणेन्द्र भी आया था, अपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे उसे अवधिज्ञान प्रकट होगया जिससे वह बड़ा कुपित हुआ । उसने उन समस्त विद्याधरोंको नागपाशसे बाँध लिया ॥ १२८ ॥ उन विद्याधरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान् भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव ! इस कार्यमें हम लोगोंका दोष नहीं है, पापी विद्युद्दंष्ट्र इन्हें विदेह क्षेत्रसे उठा लाया और विद्याधरोंको इसने बतलाया कि इनसे तुम सर्वको बहुत भय है । ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोंसे व्यर्थ ही यह महान् उपसर्ग करवाया है ॥ १२९-१३० ॥ विद्याधरोंकी प्रार्थना सुनकर धरणेन्द्रने उनपर क्रोध छोड़ दिया और परिवारसहित विद्युद्दंष्ट्रको समुद्रमें गिरानेका उद्यम किया ॥ १३१ ॥ उसी समय वहाँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विद्युद्दंष्ट्र और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभका उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध गुण—व्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञाविशेषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ वह कहने लगा कि हे नागराज ! यद्यपि इस विद्युद्दंष्ट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिए । आप-जैसे महापुरुषोंका इस क्षुद्र पशुपर क्रोध कैसा ! ॥ १३३ ॥ बहुत पहले, आदिनाथ तीर्थकरके समय आपके वंशमें उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके द्वारा विद्याधरोंको विद्याएँ देकर इसके वंशकी रचना की गयी थी । लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-वृक्षको भी स्वयं बटाकर स्वयंकाटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज ! आप क्या यह बात नहीं जानते ? ॥ १३४-१३५ ॥ जब आदित्याभ यह कह चुका तब नागराज-धरणेन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बड़े भाईको अकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जावेगा । इस विषयमें आपमेरी इच्छाको रोक नहीं सकते ।' यह सुनकर बुद्धिमान् देवने कहा कि—'आप वृथा ही वैर धारण कर

बन्धुः कः की न वा बन्धुर्वन्धुताबन्धुताद्वयम् । संसारे परिवर्तेत विदामत्राग्रहः कुतः ॥ १३९ ॥  
 कृतापराधे भ्राता ते विद्युद्दंष्ट्रमदण्डयत् । ततोऽयं स्मृततज्जन्मा मुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥  
 अग्रजं तव पापोऽयं प्राक्तजन्मचतुष्टये । महावैशानुवन्धेन लोकांतरमजीगमत् ॥ १४१ ॥  
 अस्मिन् जन्मनश्च मन्थे मुनेरस्योपकारकम् । खगमेतत्कृतं सोढ्वा यन्मुक्तिमयमेथिवात् ॥ १४२ ॥  
 आस्तां तावदिद् भद्रं भद्रं निर्वृत्तिकारणम् । प्राक्तनस्यापकारस्य वद् केन प्रतिक्रियां ॥ १४३ ॥  
 इत्याकर्ण्य फणीन्द्रस्तत्कथ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुक्तासावादित्याभं समुत्सुकाः ॥ १४४ ॥  
 शृणु वैरं विस्मयास्मिन् बुद्धिमन् श्रुद्धचेतसां । तत्पत्रञ्च वदामीति देवो विस्पष्टमभ्यधात् ॥ १४५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो महीपतिः । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥  
 श्रीभूतिः सत्यघोषाङ्को मन्त्री तस्य महीपतेः । श्रुतिस्मृतिपुराणादिशास्त्रविद् ब्राह्मणोत्तमः ॥ १४७ ॥  
 पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठिसुदत्ताख्यसुमित्रयोः । भद्रमित्रः सुतो रत्नद्वीपे पुण्योदयात्त्वयम् ॥ १४८ ॥  
 उपाजितराराधोरत्नः सिंहपुरे स्थिरम् । तिष्ठामुर्मन्त्रिणं दृष्ट्वा सर्वमावेध तन्मतात् ॥ १४९ ॥  
 तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स बान्धवान् । आनेतुं पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्मान्निवर्त्य सः ॥ १५० ॥  
 पुनरभ्येत्य रत्नानि सत्यघोषमयाचत । सोऽपि तद्रत्नमोहेन न जानामीत्यपाहृत ॥ १५१ ॥  
 भद्रमित्रोऽपि पूत्कारं सर्वतो नगरेऽकरोत् । सत्यघोषोऽपि पापिष्ठैरेष चौरैरभिद्रुतः ॥ १५२ ॥

रहे हैं । इस संसारमें क्या यही तुम्हारा भाई है ? और संसारमें भ्रमण करता हुआ विद्युद्दंष्ट्र क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ । इस संसारमें कौन बन्धु है ? और कौन बन्धु नहीं है ? बन्धुता और अबन्धुता दोनों ही परिवर्त्तनशील है—आज जो बन्धु है वह कल अबन्धु हो सकता है और आज जो अबन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्वानोंको आग्रह क्यों होना चाहिए ? ॥१३६-१३६॥ पूर्व जन्ममें अपराध करनेपर तुम्हारे भाई संजयन्तने विद्युद्दंष्ट्रके जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूर्व जन्मकी वह बात याद आगयी अतः इसने मुनिका अपकार किया है ॥१४०॥ इस पापीने तुम्हारे बड़े भाईको पिछले चार जन्मोंमें भी महावैरके संस्कारसे परलोक भेजा है—मारा है ॥१४१॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार करनेवाला मानता हूँ क्योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्गको सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥१४२॥ हे भद्र ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिए । आप यह कहिए कि पूर्व जन्ममें किए हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ? ॥१४३॥

यह सुनकर धरणेन्द्रने उससुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है ? आप मुझसे कहिये ॥१४४॥ वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान् ! इस विद्युद्दंष्ट्रपर वैर छोड़कर शुद्ध हृदयसे सुनो, मैं वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ ॥१४५॥

इसी जन्मूद्धीपके भरतक्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था। उसकी रामदत्ता नामकी पतिव्रतारानी थी ॥१४६॥ उस राजाका श्रीभूति नामका मन्त्री था, वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि शास्त्रोंका जाननेवाला था, उत्तम ब्राह्मण था, और अपने-आपको सत्यघोष कहता था ॥१४७॥ उसी देशके पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी सुमित्रा स्त्रीसे भद्रमित्र नामका पुत्र हुआ । उसने पुण्योदयसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं बहुत-से बड़े-बड़े रत्न कमाये । उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया और वहीं स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने लगा । उसने श्रीभूति मन्त्रीसे मिलकर सब बात कही और उसकी संमतिये अपने रत्न उसके हाथमें रखकर अपने भाई-बन्धुओंको लेनेके लिए वह पद्मखण्डनगरमें गया । जब वहाँसे वापिस आया तब उसने सत्यघोषसे अपने रत्न माँगे परन्तु रत्नोके मोहमें पड़कर सत्यघोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता ॥१४८-१४९॥ तब भद्रमित्रने सब नगरमें रोना-चिल्लाना शुरु किया और सत्यघोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके लिए लोगोंको यह बतलाया कि पापी चोरोंने इसका सब धन लूट लिया

सर्वस्वहरणोद्भूतशोकव्याकुलिताशयः । प्रलापीति जनानेतव स्वयामाण्यादजिग्रहत् ॥ १२३ ॥  
समक्षं भूपतेरात्मशुद्धयर्थं शपथं च सः । धर्माधिकृतनिर्दिष्टं चकाराचारद्वरगः ॥ १२४ ॥  
भद्रमित्रोऽपि पापेन वञ्चितोऽहं विजातिना । द्विजातिनेत्यनाथोऽपि नासुञ्जत् पूरुक्तिं सुदु ॥ १२५ ॥  
चतुर्विधोपधा शुद्धं युक्तं जात्यादिभिर्गुणैः । त्वां सस्यं सत्यवोषाङ्कं मत्वा मन्त्रिगुणोत्तमम् ॥ १२६ ॥  
मया न्यासीकृतं हस्ते तव रत्नकरण्डकम् । किमेवमपलापेन हेतुं तद्वृद्धिं युज्यते ॥ १२७ ॥  
सिंहलेनमहाराजप्रसादेन न तेषुस्ति किम् । छत्रसिंहासने सुकृत्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १२८ ॥  
धर्मं यशो महत्त्वं च किं वृथैव विधातयेः । न्यासापह्नवदोषं किं न वेत्सि स्मृतिपूदितम् ॥ १२९ ॥  
एतदेवार्थशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम् । यत्परानतिसधत्ते नातिसंधीयते परैः ॥ १३० ॥  
इत्यत्र परशब्दार्थे विपर्येयि परो मतः । तत्र यानुरहं किं भोः सत्यवोष रिपुस्त्वव ॥ १३१ ॥  
सद्भावप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता । अङ्कमारुह्य सुसत्यं हन्तु किं नाम पौरुषम् ॥ १३२ ॥  
महामोहग्रहग्रस्त-श्रीभूते भाविजनमना । त्वं तन्मा नीनशो देहि मह्यं रत्नकरण्डकम् ॥ १३३ ॥  
ईदृश्येतत्प्रमाणानि जातिस्तेषामियं स्वयम् । जानंश्च मम रत्नानि किमित्येवमपह्नुपे ॥ १३४ ॥  
एव नित्यं निशाप्रान्ते रोरीत्यारुह्य भूरुह्यम् । कृत्ये कृच्छ्रेऽपि सत्त्वाख्या न त्यजन्ति ससुद्यमम् ॥ १३५ ॥  
सुदुर्गुह्यस्त्वदाकर्ण्यं महादेव्या मनस्यभूत् । जानेऽहं नायमुन्मत्तः सर्वदातुगतं वदन् ॥ १३६ ॥  
इति सावेद्य भूपालं द्यूतोपायेन मन्त्रिणम् । जित्वा यद्वोपवीतेन साद्धं तन्नाममुद्रिकाम् ॥ १३७ ॥  
दत्त्वा निपुणमत्याख्यधानीकरत्नले मिथः । प्रहितं मन्त्रिणा देहि मद्रमित्रकरण्डकम् ॥ १३८ ॥

है। इसी शोकसे इसका चित्त व्याकुल हो गया है और उसी दशा में यह सब बक रहा है ॥१२२-१२३॥ सदाचारसे दूर रहनेवाले उस सत्यवोषने अपनी सुदुता प्रकट करनेके लिए राजाके समक्ष धर्माधिकारियों-न्यायाधीशोंके द्वारा वतलायी हुई शपथ खायी ॥१२४॥ भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यही कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मणने मुझे ठग लिया ॥१२५॥ हे सत्यवोष! मैंने तुझे चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मन्त्रियोंके उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सचमुच ही सत्यवोष समझा था इसलिये ही मैंने अपना रत्नोंका पिटारा तेरे हाथमें सौंप दिया था, अब इस तरह तू क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका कारण क्या है और यह सब करना क्या ठीक है? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है? छत्र और सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है ॥१२६-१२८॥ फिर धर्म, यज्ञ और वहुष्पनको व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है? क्या तू स्मृतियोंमें कहे हुए न्यासापहारके दोषको नहीं जानता? ॥१२९॥ तूने जो निरन्तर अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है क्या उसका यही फल है कि तू सदा दूसरोंको ठगता है और दूसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥१३०॥ अथवा तू पर शब्दका अर्थ विपरीत समझता है—परका अर्थ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सो हे सत्यवोष! क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? ॥१३१॥ सद्भावनासे पासमें आये हुए मनुष्योंको ठगनेमें क्या चतुराई है? गोदमें आकर सोये हुएको मारनेवालेका पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ है? हे श्रीभूति! तू महामोहरूपी पिशाचसे प्रसूत हो रहा है, तू अपने भावी जीवनको नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा सुखे दे दे ॥१३२-१३३॥ मेरे रत्न ऐसे हैं, इनने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है? ॥१३४॥ इस प्रकार वह भद्रमित्र प्रतिदिन प्रातःकालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार रोता था सो ठीक ही है क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥१३५॥ बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूँकि यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है ॥१३६॥ रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये और मन्त्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नामकी अँगठी जीत ली ॥१३७॥ तदनन्तर उसके निपुणमती नामकी धायके

१ स्मृतिनिन्दितम् ल० ग० । स्मृतिद्विपितम् ल० । २ सुप्ताना हेतुः (?) ल० । ३ नित्ये ल० ।  
४. घ-पुस्तकेऽयं श्लोक उच्यते ।

अभिज्ञानं च तस्यैतदित्युक्त्वा साक्षिधानृतः । तदामयेति सन्दिश्य<sup>१</sup> धात्रीमानीनयत्तदा ॥ १६९ ॥  
 तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम् । भद्रमित्रं समाहूय रहस्येत्तद्भवेत्तव ॥ १७० ॥  
<sup>२</sup> इत्युक्तः स भवेद्देव भवेव तत्करण्डकम् । किन्तु रत्नान्यनर्घ्याणि मिश्रितान्यत्र कानिचित् ॥ १७१ ॥  
 एतानि सन्ति मे नैव भसैतानीति शुद्धधीः । इव रत्नान्येव सत्योक्तिर्जग्राहोक्ताग्रणीः सताम् ॥ १७२ ॥  
 सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सत्यबोधसङ्गसङ्गतम् । ज्येष्ठं श्रेष्ठिपदं भद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥  
 सत्यबोधो मृग्यावादी पापी पापं समाचरम् । धर्माधिकरणोक्तैर्न दण्ड्यतामिति भूभुजा १७४ ॥  
 प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्ट्याख्यमल्लस्य त्रिशदूर्जिताः ॥ १७५ ॥  
 कांस्यपात्रत्रयापूर्णवगोमयमक्षणम् । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृह्णन्<sup>३</sup> पुररक्षकाः ॥ १७६ ॥  
 नृपेऽनुवद्भवैः सन् मृत्वात्तध्यानदूषितः । द्विजिहोऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥  
 अन्यायेनान्यचित्तस्य स्त्रीकारश्रौचमुच्यते । नैसर्गिकं निमित्तोत्थं<sup>४</sup> तदेवं द्विविधं स्मृतम् ॥ १७८ ॥  
 आद्यमाजन्मनो लोभनिष्ठदृष्टस्पर्द्धकोदयात् । सत्यप्यर्थं गृहे स्वस्य कोटीकोट्यादिसंख्याया ॥ १७९ ॥  
 न चायं विना तोषः सत्याये सति च व्यये । तद्वत्स्तादृशो भावः सर्वेषां वा क्षुधादितः ॥ १८० ॥  
<sup>५</sup> स्त्रीपुत्रादिव्याशक्तैर्विनाधीदितरद्भवेत् । तच्च लोभोदयेनैव दुर्विपाकेन केनचित् ॥ १८१ ॥

हाथमें दोनों चीजे देकर उसे एकान्तमें समझाया कि 'तू श्रीभूति मन्त्रीके घर जा और उनकी स्त्रीसे कह कि मुझे मन्त्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्रका पिटारा दे दे । पहचानके लिए उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं । इस प्रकार मूठ-मूठ ही कहकर तू वह रत्नोंका पिटारा ले आ, इस तरह सिखलाकर रानी रामदत्ताने धाय भेजकर मन्त्रीके घरसे वह रत्नोंका [पिटारा मंगा लिया ॥१६८-१६९॥ राजाने उस पिटारेमें और दूसरे रत्न डालकर भद्रमित्रको स्वयं एकान्तमें बुलाया और कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥१७०॥ राजाके ऐसा कहनेपर भद्रमित्रने कहा कि हे देव ! यह पिटारा तो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला दिये गये हैं ॥१७१॥ इनमें ये रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं इस तरह कहकर सच बोलनेवाले, शुद्धबुद्धिके धारक तथा सज्जनोंमें श्रेष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न ले लिये ॥१७२॥ यह जानकर राजा बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्होंने भद्रमित्रके लिए सत्यबोध नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट सेठका पद दे दिया—भद्रमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया और उसका 'सत्यबोध' उपनाम रख दिया ॥१७३॥ सत्यबोध मन्त्री झूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं इसलिए इसे दण्डित किया जाये इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कहे अनुसार राजाने उसे दण्ड दिये जानेकी अनुमति दे दी ॥१७४॥ इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षकोंने श्रीभूति मन्त्रीके लिए तीन दण्ड निश्चित किये—१ इसका सब धन छीन लिया जाये, २ वज्र-मुष्टि पहलवानके भज्यूत तीस घूँसे दिये जायें, और ३ कासेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया गोबर खिलवाया जाये । इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥१७५-१७६॥ श्रीभूति राजाके साथ चैर बाँधकर आर्तध्यानसे दूषित होता हुआ मरा और मरकर राजाके भाण्डारमें अगन्धन नामका साँप हुआ ॥१७७॥

अन्यायसे दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गयी है एक जो स्वभावसे ही होती है और दूसरी किसी निमित्तसे ॥१७८॥ जो चोरी स्वभावसे होती है वह जन्मसे ही लोभ कपायके निष्ठदृष्ट स्पर्द्धकोंका उदय होनेसे होती है । जिस मनुष्यके नैसर्गिक चोरी करनेकी आवृत्त होती है उसके घरमें करोड़ोंका धन रहनेपर भी तथा करोड़ोंका आय-व्यय होनेपर भी चोरीके बिना उसे सन्तोष नहीं होता । जिस प्रकार सवको क्षुधा आदिकी बाधा होती है उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है ॥१७९-१८०॥ जब घरमें स्त्री-पुत्र

१ धात्रीमानिघात्तदा (?) ल० । २ इत्युक्ते ल० । ३ निगृह्णन् ल० । ४ तदेव ल० । ५ क्षुधादिकाः ल० । ६ स्त्रीपुत्रादि क०, ल०, य०, घ० ।

द्वयेन तेन वध्नाति दुरायुर्दुष्टचेष्टया । दुर्गतौ तच्चिरं दुःखं दूरन्तं ह्यनुभावयेत् ॥१८२॥  
 सौजन्यं हन्यते अंशो विश्रमन्स्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणपर्यन्ता मित्रबन्धादिभिः सह ॥१८३॥  
 गुणप्रसवसंज्ञया कीर्तिरम्भानमालिका । कृतेव दावसंछिष्टा सप्तश्रीषेण हन्यते ॥१८४॥  
 इतोदं ज्ञानता संवत् सत्यघोषेण दुषिये । आद्यांशकेन चौषेण साहसं तदनुष्ठितम् ॥१८५॥  
 सद्यो मन्त्रिप्रदाद् भ्रष्टो निग्रहं तादृशं गतः । दुर्गतिं च पुनः प्राप्नो महापापाजुषन्विधनीम् ॥१८६॥  
 इत्यमात्यस्य दुर्दुष्टं राजाऽऽत्मनि विचिन्तयन् । धर्मिकाख्याय विप्रस्य तत्साचिन्त्यपदं ददौ ॥१८७॥  
 काले गच्छति संश्वेवमन्येयुरसनाटवी- । पर्यन्तविमलाद्यक्तिकान्तरक्ष्माभृति स्थितम् ॥१८८॥  
 वरधर्मयतिं प्राप्य भद्रमित्रवणिग्वरः । श्रुत्वा धर्मं धनं दाने त्यजन्तमतिमात्रया ॥१८९॥  
 तस्य माता सुमित्राख्यासहसामानातिकोपिनी । काले स्रुत्वासनाटव्यां शार्दूलौभूयमागता ॥१९०॥  
 यदच्छया वनं थातमत्रकोक्य दुराशया । साऽस्नादत्स्वसुतं कोपाच्चित्रं किं नादयमङ्गिनाम् ॥१९१॥  
 स स्नेहाद्रामदत्तायाः सिंहचन्द्र-सुतोऽभवत् । पूर्णचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूपतेस्तावतिप्रियौ ॥१९२॥  
 माण्डगारावलीकायं कदाचिन्नुपतिं गतम् । ददाति स्म निजक्रोधाच्छुभ्रुतिरगन्धनः ॥१९३॥  
 तदा गरुडदण्डेन सर्पानाहूय मन्त्रतः । निर्दोषोऽसुं प्रविश्यार्निं निर्गतः शुद्धिमाप्नुयात् ॥१९४॥  
 अन्यथा निग्रहीष्यामीत्युक्त्वा विषधरा-परे । जलाशयादिवाक्छेसाश्रियान्ति स्म हुताशनात् ॥१९५॥

आदिका खर्च अधिक होता है और घरमें धनका अभाव होता है तब दूसरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह भी लोभ कषाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्मके उदयसे होती है ॥१८१॥ यह जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे अशुभ आयुका बन्ध करता है और अपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥१८२॥ चोरी करनेवालेकी सज्जनता नष्ट हो जाती है, धनादिके विपर्यय उसका विश्वास चला जाता है, और मित्र तथा भाई-बन्धुओंके साथ उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है ॥१८३॥ जिस प्रकार दावानलसे हुई हुई लता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी हुई कीर्तिरूपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥१८४॥ यह सब जानते हुए भी मूर्ख सत्यघोष ( श्रीभूति ) ने पहली नैसर्गिक चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥१८५॥ इस चोरीके कारण ही वह मन्त्री पदसे शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे बँधी हुई दुर्गतिमें जाना पड़ा ॥१८६॥ इस प्रकार अपने-हृदयमें मन्त्रीके दुराचारका चिन्तन करते हुए सिंहसेनेने उसका मन्त्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए दे दिया ॥१८७॥

इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर किसी दिन असना नामके वनमें विमलकान्तर नामके पर्वतपर विराजमान वरधर्म नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भद्रमित्रने धर्मका स्वरूप सुना और अपना बहुत-सा धन दानमें दे दिया । उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अतः अत्यन्त क्रुद्ध हुई और अन्तमें मरकर उसी असना नामके वनमें व्याघ्री हुई ॥१८८-१९०॥ एक दिन भद्रमित्र अपनी इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभि-प्रायवाली व्याघ्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया सो ठीक ही है क्योंकि क्रोधसे जीवोंका क्या भक्ष्य नहीं हो जाता ? ॥१९१॥ वह भद्रमित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंह-चन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ । ये दोनों ही पुत्र राजाको अत्यन्त प्रिय थे ॥१९२॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना माण्डगार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्य-घोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकीय क्रोधसे डस लिया ॥१९३॥ उस गरुडदण्ड नामक गारुड्डीने मन्त्रसे सब सर्पोंको बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोष हो वह अग्निमें प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे ॥१९४॥ अन्यथा प्रवृत्ति करनेपर मैं दण्डित करूँगा । इस प्रकार कहनेपर अगन्धनको छोड़ बाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके बिना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल आये

अगन्धनस्तु तद्वह्नौ मसितः कोपमानवान् । कालकाख्ये वने जज्ञे सकोमश्रमरो मृगः ॥११६॥  
 सिंहसेनोऽपि कालान्ते सामजः सल्लकीवने । संभूयाशनिघोषाख्यां समवाप मदोद्दुःखः ॥११७॥  
 सिंहचन्द्रोऽभवद्वाजा यौवराज्येऽजनीतरः । भुञ्जानयोस्तयोर्लक्ष्मीं काले क्षण इवायति ॥११८॥  
 कदाचित्सिंहसेनोपरतिवार्ताश्रुतेरिते<sup>१</sup> । द्रष्टुं दान्तहिरण्यादिमती संयमसंयुते ॥११९॥  
 समीपे रामदत्तापि तयो संयमसाददौ । तच्छोकार्सिंहचन्द्रोऽपि पूर्णचन्द्रयति श्रितः ॥२००॥  
 श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म यदि याति ब्रुवा नृणाम् । कुत पुनरिहोत्पत्तिर्भ्रान्तिरेवेति चिन्तयन् ॥२०१॥  
 कृत्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे<sup>२</sup> । गुणस्थानं विशुद्धयन्<sup>३</sup> स प्रमादपरिवर्जनात् ॥२०२॥  
 खचारणत्वं तुयद्विगमोत्कर्षं च लब्धवान् । रामदत्ता कदाचित्तं दृष्ट्वा संजातसंमदा ॥२०३॥  
 मनोहरवनोद्याने वन्दित्वा विधिपूर्वकम् । तत्तपोविघ्नसंप्रज्ञपर्यन्ते पुत्रवत्सला ॥२०४॥  
 पूर्णचन्द्रः परित्यज्य धर्मं भोगे कृतादरः । प्रत्येद्युत न वा धर्ममसावित्यन्वयुक्तं सा ॥२०५॥  
 प्रत्याह सिंहचन्द्रोऽपि युष्मद्धर्मं प्रहीष्यति । मा भूत्खेदः कथां चास्य शृणुतान्यभवाश्रिताम् ॥२०६॥  
 कोशले विषये बृद्धग्रामे नाम्ना मृगायणः । विप्रस्तस्याभवद्धर्मपत्नी च मधुराह्वया ॥२०७॥  
 तस्सुता वारुणीसंज्ञा जीवितान्ते मृगायणः । साकेताधीशिनो दिव्यबलस्य सुमतेश्च सः ॥२०८॥  
 सुता हिरण्यवत्सासीसुरभ्यविषये पुरे । पोदनेऽभीशिने पूर्णचन्द्रायाद्यावि सा सती ॥२०९॥

हैं ॥११६॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानसे भरा था अतः उस अग्निमें जल गया और मरकर कालक नामक वनमें लोभसहित चमरी जातिका मृग हुआ ॥११६॥ राजा सिंहसेन भी आयुके अन्तमें मरकर सल्लकी वनमें अशनिघोष नामका मदनोन्मत्त हाथी हुआ ॥११७॥

इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ और पूर्णचन्द्र युवराज बना । राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥११८॥ तब एक दिन राजा सिंहसेनकी मृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमति और हिरण्यमति नामकी संयम धारण करनेवाली आर्थिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आयीं ॥११९॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप संयम धारण कर लिया । इस शोकसे राजा सिंहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजके पास गया और धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा नाना योनियोंमें भटकना ही बाकी रह जाता है ॥२००-२०१॥ इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचन्द्रको राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली । वह प्रमादको छोड़कर विशुद्ध होता हुआ संयमके द्वितीय गुणस्थान अर्थात् अप्रमत्त चिरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥२०२॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ । किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हर्षित हुई ॥२०३॥ उसने मनोहरवन नामके उद्यानमें विधिपूर्वक उनकी वन्दना की, तपके निर्विघ्न होनेका समाचार पूछा और अन्तमें पुत्रस्नेहके कारण यह पूछा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं ? ॥२०४-२०५॥ सिंहचन्द्र मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्मको ग्रहण करेगा । मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहता हूँ सो सुनो ॥२०६॥

कोशल देशके बृद्ध नामक ग्राममें एक मृगायण नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मधुरा था ॥२०७॥ उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण आयुके अन्तमें मरकर साकेत-नगरके राजा दिव्यबल और उसकी रानी सुमतिके हिरण्यवती नामकी पुत्री हुई । वह सती

१ मरणवार्ताश्रवणात् इते—प्राप्ते समागतवत्यो इत्यर्थः । २ संयमम् क०, ग०, घ० । ३ सन् क०, ख०, ग०, घ०, स०, ल० । ४ प्रमादपरिवर्जनात् क०, घ० ।

मधुरासिप तयोर्जाता रामदत्ता स्वमुत्तमा । भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतोऽभवत् ॥२१०॥  
 वारुणी पूर्णचन्द्रोऽयं स्वरिपता भद्रबाहुत् । गृहीतसंयमोऽद्यात्र संवृत्तो गुरुरावयोः ॥२११॥  
 माता ते दान्तमत्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरद्य ते । सिंहसेनोऽहिना दष्टः करीन्द्रोऽज्ञानिघोषकः ॥२१२॥  
 भ्रूत्वा वने अमन्मत्तो मांसाकोक्य जिघांसया । धावति स्म मयाऽकाशे स्थित्वाऽसौ प्रतिबोधितः २१३  
 पूर्वसंबन्धमाख्याय सर्वं सम्यक् प्रब्रुववान् । संयमासंयमं मय्यः स्वयं सद्यः समग्रहीत् ॥२१४॥  
 शान्तचित्तः स निर्वेदो ध्यायन् कायाद्यत्पारताम् । कृत्वा मासोपवासादीन् सुष्कपत्राणि पारयन् ॥२१५॥  
 कुर्वन्नवं महासच्वक्षिर्न घोरतरं तपः । धूपकेसरिणीनामसरिचौथं कुर्वो जलम् ॥२१६॥  
 पातुं प्रविष्टरतं वीक्ष्य स सपञ्चमरः पुनः<sup>३</sup> । जातः कुक्कुटसर्पोऽत्र तदास्थारुह्य मस्तकम् ॥२१७॥  
 ददाति स्म गजोऽप्येतद्विषेण विगतासुकः । समाधिमरणाञ्जजे सहस्रारे रविप्रिये ॥२१८॥  
 विमाने श्रीधरो देवो धर्मिकश्चायुषः क्षये । तत्रव वानरः सोऽभूत्सखया तेन गजेशिनः ॥२१९॥  
 हतः कुक्कुटसर्पोऽपि<sup>४</sup> तृतीयनरकेऽभवत् । गजस्य रदनौ मुक्ताश्चादायाधिकतेजसः ॥२२०॥  
 व्याधः शृगालवज्राम धनमित्राय दत्तवान् । राजश्रप्टी च तौ तादृच पूर्णचन्द्रमहीभुजे ॥२२१॥  
 ददौ दन्तद्वयेनासौ ध्वषात्पादचतुष्टयम् । पल्यङ्कस्यात्मनो मुक्तामिश्र हारमधाञ्च तम् ॥२२२॥  
 ईदृशं संसृतेर्मावं भावयन् को विधीनं<sup>५</sup> चेत् । रतिं तनोति भोगेषु सत्त्वाभावमभावयन् ॥२२३॥

हिरण्यवती पोद्दनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गयी—व्याही गयी ॥२०८-२०९॥ मृगायण ब्राह्मणकी स्त्री मधुरा भी मरकर उन दोनों—पूर्णचन्द्र और हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री हुई थी, सेठ भद्रमित्र तेरे स्नेहसे सिंहचन्द्र नामका पुत्रहुआ था और वारुणीका जीव यह पूर्णचन्द्र हुआ है। तुम्हारे पिताने भद्रबाहुसे दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥२१०-२११॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की थी और फिर हिरण्यवती मातासे तूने दीक्षा धारण की है। आज तुझे सब प्रकारकी शान्ति है। राजा सिंहसेनको साँपने डस लिया था जिससे मरकर वह वनमें अज्ञानिघोष नामका हाथीहुआ। एक दिन वह मदोन्मत्त हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुझे देखकर वह मारनेकी इच्छासे दौड़ा, मुझे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर उसे समझाया। वह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भयने शीघ्र ही संयमासंयम—देशत्रत ग्रहण कर लिया ॥२१२-२१३॥ अब उसका चित्त बिलकुल शान्त है, वह सदा विरक्त रहता हुआ शरीर आदिकी निःश्वारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है ॥२१४॥ इस प्रकार महान् धैर्यका धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुर्बल हो गया। एक दिन वह धूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे पानी पीनेके लिए घुसा। उसे देखकर श्रीभूति—सत्यबोधके जीवने जो मरकर चमरी मृग और वादमें कुर्कुट सर्प हुआ था उस हाथीके मस्तकपर चढकर उसे डस लिया। उसके विषसे हाथी मर गया, वह चँकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्रारस्वर्गके रविप्रिय नामक विमानमें श्रीधर नामका देव हुआ। धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके वाद अपना मन्त्री बनाया था आयुके अन्तमें मरकर उसी वनमें वानर हुआ था। उस वानरकी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता थी अतः उसने उस कुर्कुट सर्पको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ। इधर शृगालवान् नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठके लिए दिये। राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूर्णचन्द्रके लिए दिये ॥२१६-२२१॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये और मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना ॥२२२॥ वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा

१ पय केसरिणी ख० । २ कुक्कुटः ख०, ल० । ३ पुरः ल० । ४ कुर्कुट ख०, ग० । ५ कुर्कुट ग० । ६ तृतीये नरके ख० । ७ विगता धैर्यस्य स विधी मूर्ख इत्यर्थः । ८ अचिन्तयन् ।



हृत्सौ सिंहचन्द्रोक्तं रामदत्ताऽवबुध्य तत् । पुत्रस्नेहात्स्वयं गत्वा पूर्णचन्द्रमजिज्ञपत् ॥२२१॥  
 गृहीतधर्मतत्त्वोऽसौ चिरं राज्यमपाक्यत् । रामदत्तापि तस्नेहात्सनिदानायुषोऽवधौ ॥२२२॥  
 महाशुके विमानेऽभूद् मास्करे मास्कराह्वयः । पूर्णचन्द्रोऽपि तत्रैव वैह्वयं तत्कृताह्वयः ॥२२३॥  
 सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि सम्यगाराध्य शुद्धधीः । प्रीतिकरविमानेऽभूद्दूर्ध्वग्रैवेयकोर्वके ॥२२७॥  
 रामदत्ता ततश्च्युत्वा धरणीतिलके पुरे । अत्रैव दक्षिणश्रेण्यामितिवेगखगोशिनः ॥२२८॥  
 श्रीधराख्या सुता जाता माताऽस्याः स्यात्सुकक्षणा । दत्तेयमलकाधीशे दर्शकाय खगोशिने ॥२२९॥  
 वैह्वयाधिपतिश्चायं दुहिताऽभूद्यशोधरा । पुष्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ॥२३०॥  
 राजा श्रीधरदेवोऽपि रश्मिवेगस्तयोरभूत् । कदाचिन्मुनिचन्द्राख्यमुनिधर्मज्ञुशासनात् ॥२३१॥  
 सूर्यावर्ते तपो याते श्रीधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्यार्थिकान्तिके ॥२३२॥  
 कदाचिद्रश्मिवेगोऽगात्सिद्धकूटजिनालयम् । हरिचन्द्राह्वयं तत्र दृष्ट्वा चारणस्यतम् ॥२३३॥  
 श्रुत्वा धर्मं च सम्यक्त्वं संयमं प्रतिपद्य सः । चारणत्वं च संप्राप्तः सद्योगगनग्रोचरम् ॥२३४॥  
 काञ्चनाख्यगुह्यायं तं कदाचिद्वलोक्य ते । वन्दित्वातिष्ठतां तत्र श्रीधरा च यशोधरा ॥२३५॥  
 प्राक्तनो तारकस्तस्मात्प्रच्युत्याधविपाकतः । चिरं भ्रमित्वा संसारे महानजगरोऽभवत् ॥२३६॥

संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन मनुष्य है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेवाला हो ? ॥२२१॥ इस तरह सिंहचन्द्र मुनिके समझानेपर रामदत्ताको बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गयी और उसे सब बातें कहकर समझाया ॥२२४॥ पूर्णचन्द्रने धर्मके तत्त्वको समझा और चिरकाल तक राज्यका पालन किया । रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया और आयुके अन्तमें मरकर महाशुक स्वर्गके भास्कर नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्वर्गके वैह्वय नामक विमानमें वैह्वय नामका देव हुआ ॥२२५-२२६॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण कर नीचे ग्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र हुए ॥२२७॥ रामदत्ताका जीव महाशुक स्वर्गसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ । वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था । यह श्रीधरा पुत्री अलकानगरीके अधिपति दर्शक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गयी । पूर्णचन्द्रका जीव जो कि महाशुक स्वर्गके वैह्वय विमानमें वैह्वय नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावर्तके लिए दी गयी थी ॥२२८-२३०॥ राजा सिंहसेन अथवा अशानिवोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों—सूर्यावर्त और यशोधराके रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ । किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तपके लिए चले गये और श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवती आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥२३१-२३२॥ किसी समय रश्मिवेग सिद्धकूटपर विद्यमान जिनमन्दिरके दर्शनके लिए गया था, वहाँ उसने चारणश्रद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके दर्शन कर उसने धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यग्दर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण श्रद्धि प्राप्त कर ली ॥२३३-२३४॥ किसी दिन रश्मिवेग मुनि काचन नामकी गुह्यामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा आर्थिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गयीं ॥२३५॥

इधर सत्यधोषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँसे निकलकर पापके उद्वयसे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा और अन्तमें उसी वनमें महान् अजगर हुआ ॥२३६॥

१ दक्षिणाय ख० । २ मास्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ख०, ग० । ३ गजः श्रीधर ख०, ग० । गजः पाठान्तरं इति क-पुस्तके सूचितम् । ४ तपो जाते क०, ग०, घ० । ५ यत्र क०, ख० । ६ चारणस्यतम् ख० । ७ गमनगोचरम् ल० ।

ते च तं च निरीक्ष्यैव स सूर्यप्रतिमं क्रुधा । सहागिल्व समाराध्य ते कापिष्ठे बभूवतुः ॥२३०॥

रुचकाख्ये विमानेऽथ मुनिश्चार्कप्रमाह्वये । देवः पृक्षप्रभां प्रापत् पापादाजगरोऽपि सः ॥२३१॥

सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येय द्वीपेऽस्मिन् चक्रपृषतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्यश्च सुतोऽभवत् ॥२३२॥

चक्राबुधस्ततोऽस्यैव रश्मिवेगश्च्युतो दिवः । संजातश्चित्रमालायां सुतो वज्रायुधाह्वयः ॥२३३॥

श्रीधरा चागता नाकात् पृथिवीतिलके पुरे । सुताऽभूत् प्रियकारिण्यामतिवेगमहीपते ॥२३४॥

सर्वलक्षणसंपूर्णा रत्नमालातिविश्रुता । वज्रायुधस्य सा देवी समजायत सम्मुदे ॥२३५॥

यशोधरा तयो रत्नायुध सूनुरजायत । एवमेते स्वपूर्वायफलमन्त्रापुरन्वहम् ॥२३६॥

श्रुत्वाऽपराजितो धर्ममन्येष्टुः पिहितान्नवात् । चक्रायुधाय साम्राज्यं दत्त्वाऽर्द्धक्षिष्ट धीरधीः ॥२३७॥

वज्रायुधे समारोप्य राज्यं चक्रायुधो नृपः । प्रावाजीत् स्वपितुः पार्श्वे स तज्जन्मनि सुकिंभाक् ॥२३८॥

अधिरत्नायुधं राज्यं कृत्वा चक्रायुधान्तिके । वज्रायुधोऽप्यगाधीक्षां किं न कुर्वन्ति सार्विकाः ॥२३९॥

सक्तो रत्नायुधो भोगे त्यक्त्वा धर्मकथामपि । सोऽन्वभूदतिगृध्नुत्वात्सुखानि चिरमन्यदा ॥२४०॥

मनोरममहोद्याने वज्रदन्तमहाशुनि । व्यावर्ष्यमानलोकानुयोगश्रवणवृद्धधीः ॥२४१॥

पूर्वजन्मस्मृतेर्मैवविजयो योगधारणः । मांसादिकवलं नादाद् ध्यायन् संसृतिदुःस्थितिम् ॥२४२॥

राजाऽत्र व्याकुलोभूय मन्त्रिवैद्यवरान् स्वयम् । पप्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्याहितादरः ॥२४३॥

उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्थिकाओंको और सूर्यके समान दीप्तिवाले उन रश्मिवेग मुनिराजको देखकर उस अजगरने क्रोधसे एक ही साथ निगल लिया । समाधिस्मरण कर आर्थिकाएँ तो कापिष्ठ नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुईं और मुनि उसी स्वर्गके अर्कप्रभ नामक विमानमें देव उत्पन्न हुए । यह अजगर भी पापके उदयसे पंकप्रभा नामक चतुर्थ पृथिवीमें पहुँचा ॥२३०-२३८॥ सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गसे च्यकर इसी जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित और उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ । ॥२३९॥ उसके कुछ समय बाद रश्मिवेगका जीव भी स्वर्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥२४०॥ श्रीधरा आर्थिका स्वर्गसे च्यकर धरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण रत्नमाला नामकी अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई । यह रत्नमाला आगे चलकर वज्रायुधके आनन्दको बढानेवाली उसकी प्राणप्रिया हुई ॥२४१-२४२॥ और यशोधरा आर्थिका स्वर्गसे च्यकर इन दोनों—वज्रायुध और रत्नमालाके रत्नायु नामका पुत्र हुई । इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूर्व पुण्यका फल प्राप्त करने लगे ॥२४३॥

किसी दिन धीरबुद्धिके धारक राजा अपराजितने पिहितान्नवा मुनिसे धर्मोपदेश सुना और चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली ॥२४४॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वज्रायुधपर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्ममें मोक्ष चले गये ॥२४५॥ अब वज्रायुधने भी राज्यका भार रत्नायुधके लिए सौंपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि सत्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते ? ॥२४६॥ रत्नायुध भोगोंमें आसक्त था । अतः धर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राज्यके सुख भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमें वज्रदन्त महाशुनि लोकानुयोगका वर्णन कर रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेवविजय नामक हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि भ्रास लेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय स्थितिका वह विचार करने लगा ॥२४७-२४९॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े-बड़े मन्त्र-वादियों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार हो गया

१ सपूर्ण ल० । २ सं० ३ क०, ग०, घ० । सं० ४ ख० । ३-वतिगृध्नुत्वात् ग० । ४ योगधारणः ख० । योगधारणः ग० । जागवारण क०, घ० । ५ मांसादिकवलं नादाद् ग० । ६ राजा तु ल० ।

विचार्य ते त्रिदोषोत्थिकारानवलोकनात् । अनुमानादयं धर्मश्रुतेर्जातिस्मरोऽभवत् ॥२५१॥  
 इति सत्यान्ननिर्गन्तुद्वाहारं घृतादिभिः । मिश्रितं न्यक्षिपत्क्षिप्तं तममुद्कं द्विपोत्तमः ॥२५२॥  
 तदा सविस्मयो राजा गत्वाऽवधिचिकोचनम् । वज्रदन्तं तदाख्याय तद्वत्तुं पृच्छति स्म सः ॥२५३॥  
 मुनिर्वैभाषे भो भूप शृणु तत्संविधानकम् । भरतेऽस्मिन्नूपः प्रीतिभद्रः छत्रपुराधिपः ॥२५४॥  
 सुन्दर्यामभवत्स्य सुतः प्रीतिकराह्वयः । मन्त्री चित्रमतिस्तस्य कमला कमलोपमा ॥२५५॥  
 गृहिणी तुम्बभूनास्या विचित्रमतिराख्यया । नृपमन्त्रिसुतौ श्रुत्वा धर्मं धर्मरुचेयंते ॥२५६॥  
 तदैव भोगनिर्विण्णौ द्वावप्यावदुस्तपः । क्षीराक्षवद्विरुत्पन्ना प्रीतिकरमहासुनेः ॥२५७॥  
 साकेतपुरमन्येद्युर्जग्मस्तुतौ यथाक्रमम् । विहरन्तास्तुपोप्यास्तं तत्र मन्त्रिसुतो यतिः ॥२५८॥  
 प्रीतिकरः पुरे चर्या यान्तं स्वगृहसन्निधौ । गणिका बुद्धिषेणाख्या प्रणम्ये विनयान्विता ॥२५९॥  
 दानयोग्यकुला नादमस्मीत्याःमानमुच्छ्रुत्वा । चिन्दन्ती वाडमप्राक्षंस्मुने कथय जन्मिनाम् ॥२६०॥  
 कुकरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मद्यमांसादिकत्यागादित्युदीर्य मुनिश्च सः ॥२६१॥  
 ततः प्रत्यागत कस्मात् स्थितो हेतोश्चिरं पुरे । सवानिति तमप्र.क्षीद्विचित्रमतिरादरात् ॥२६२॥  
 सोऽपि तदगणिकावार्तां यथावृत्तं न्यवेदयत् । परंद्युर्मन्त्रतुग्ं शिक्षावेकायां गणिकागृहम् ॥२६३॥  
 प्राविशत्सापि तं दृष्ट्वा ससुस्थाय ससंभ्रमम् । वन्दित्वा पूर्ववद्धर्ममन्वयुद्कं कृतादरा ॥२६४॥  
 कामरागकथामेव व्याजहार स दुर्मतिः । तदिद्विज्ञायावशा तथा तस्मिन्न्यधीयत ॥२६५॥  
 प्राप्तापमानेन क्वा स्पशास्त्रोक्तिसंस्कृतात् । मांसात्तन्नगराधीर्षं गन्धमिन्नमहीपतिम् ॥२६६॥

है ? ॥२५०॥ उन्होंने जब बात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे विचारकर कहा कि धर्मश्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बर्तनमें बना तथा घृत आदिले मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखा जिसे उस गजराजने खा लिया ॥२५१-२५२॥ यह देख राजा बहुत ही आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वह वज्रदन्त नामक अधि-  
 ज्ञानी मुनिराजके पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा ॥२५३॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन् ! मैं सब कारण कहता हूँ तू सुन । इसी भरतक्षेत्रमें छत्रपुर नगरका राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिकर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक चित्रमति नामक मन्त्री था और लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी स्त्री थी ॥२५४-२५५॥ कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुआ । एक दिन राजा और मन्त्री दोनोंके पुत्रोंने धर्मरुचि नामके मुनिराजसे धर्मका उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे उदास होकर दोनोंने तप धारण कर लिया । महामुनि प्रीतिकरको क्षीराक्षव नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गयी ॥२५६-२५७॥ एक दिन वे दोनों मुनि क्रम-क्रमसे विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे । उनमेंसे मन्त्रिपुत्र विचित्रमति मुनि उपवासका नियम लेकर नगरके बाहर रह गये और राजपुत्र प्रीतिकर मुनिचर्याके लिए नगरमें गये । अपने घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिषेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनय-से प्रणाम किया ॥२५८-२५९॥ और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़े शोकसे अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पूछा कि हे मुने, आप यह बताइए कि प्राणियोंको उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? 'मद्य मांसादिके त्यागसे होती है' ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापस लौट आये । दूसरे विचित्रमति मुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६२॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो बात हुई थी वह व्योकी त्यों निवेदन कर दी । दूसरे दिन मन्त्रिपुत्र विचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया । वेश्या मुनिको देखकर एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी ॥२६३-२६४॥ परन्तु दुर्बुद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग-सम्बन्धी कथाएँ ही कीं । वेश्या उनके अभिप्रायको समझ गयी अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६५॥ विचित्रमति

वशीकृत्य ततो बुद्धिपेणा चारुमकृतामुना । स विचित्रमतिर्भूत्वा तवायममवदगजः ॥२६७॥  
 अस्मिन् त्रिकोकप्रज्ञसिध्नवगाजातिसंस्मृते । निर्विण्णोऽर्थं समासन्नविनेयो नाग्रहीद्विषाम् ॥२६८॥  
 त्यागो भोगाय धर्मस्य काचायेव महामणेः । जनन्या इव द्वास्थ्यर्थं तस्मात्तादृक् ख्येदेव बुधः ॥२६९॥  
 इति तद्भूभृगाकर्ण्यं धिकामं धर्मदूषकम् । धर्म एव परं मित्रमिति धर्मरतेऽभवत् ॥२७०॥  
 तदैव दत्त्वा स्वं रायं स्वपुत्रायैव संयमम् । मात्रा सहायुषः प्रान्ते कल्पेऽन्तेऽनिमिषोऽभवत् ॥२७१॥  
 प्राकनो नारदः पङ्कगमाथा निर्गतश्चिरम् । नानायोनिपु संभ्रम्य नानाहु खानि निर्विषान् ॥२७२॥  
 इह छत्रपुरे दारुणख्यस्य कानयोऽभवत् । मङ्गलां व्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारुणः ॥२७३॥  
 वने प्रियङ्गुखण्डाख्ये प्रतिमायोगधारिणम् । वज्रायुधं खलुस्तस्मिन्नोक्तान्तरमजीगमत् ॥२७४॥  
 सोढ्वा व्याधकृतं तीव्रमुपसर्गमसौ मुनिः । धर्मध्यानेन सर्वार्थसिद्धिं संप्रापद्विद्वधीः ॥२७५॥  
 सप्तमो पृथिवीं पापादभ्युवासातिदारुणः । प्राग्भागे धातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे महान् ॥२७६॥  
 देशोऽस्ति गन्धिकस्तस्मिन्ध्यानगरे नृप । अर्हद्दासोऽभवत्तस्य सुव्रता सुखदायिनी ॥२७७॥  
 रत्नमाका तयोरासीत्सुनूर्वातभयाह्वयः । तस्यैव जिनदत्तायामभूत्त्वनायुषः सुतः ॥२७८॥  
 नाम्ना विभीषणो जातो तावुमौ रामकेशवौ । अविभज्य श्रियं दीर्घकालं भुक्त्वा यथोचितम् ॥२७९॥  
 कालान्ते केशवोऽयासीद्बद्ध्वायुः शर्कराप्रभाम् । स हस्यपि निवृत्त्यन्तेवासित्वा कान्तवर्धयौ ॥२८०॥  
 आदित्यामः स एवाहं द्वितीयपृथिवीस्थितम् । प्रविश्य नरकं स्नेहाद्विभीषणमबोधयत् ॥२८१॥

वेदयासे अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हुआ । उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजाकी नौकरी कर ली । वहाँ पाकशास्त्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिपेणाको अपने अधीन कर लिया । अन्तमें वह विचित्रमति मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है ॥२६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रज्ञप्तिका पाठ कर रहा था उसे सुनकर झसे जाति-स्मरण हुआ है । अब यह संसारसे चिरक है, निकट भव्य है और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥२६८॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए विद्वानोंको चाहिए कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥२६९॥ यह सुनकर राजा कहने लगा कि 'धर्मको दूषित करनेवाले कामको धिक्कार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र है' ऐसा कहकर वह धर्ममें तत्पर हो गया ॥२७०॥ उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ संयम धारण कर लिया । तपश्चरण कर मरा और आयुके अन्तमें सोलहवें स्वर्गमें देव हुआ ॥२७१॥

सत्यघोषका जीव जो पंकप्रभा नामक चौथे नरकमें गया था वहाँसे निकलकर चिरकाल तक नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख भोगता रहा ॥२७२॥ एक बार वह पूर्वकृत पापके उदयसे इसी छत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक स्त्रीसे अतिदारुण नामका पुत्र हुआ ॥२७३॥ किसी एक दिन प्रियंगुखण्ड नामके वनमें वज्रायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया— मार डाला ॥२७४॥ तीक्ष्ण बुद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२७५॥ और अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ । पूर्व धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिक नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें राजा अर्हदास रहते थे, उनकी सुख देनेवाली सुव्रता नामकी स्त्री थी । रत्नमालाका जीव उन दोनोंके वीतभय नामका पुत्र हुआ । और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रत्नायुधका जीव विभीषण नामका पुत्र हुआ । वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घकाल तक विभाग किये बिना ही राजलक्ष्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥२७६-२७९॥ अन्तमें नारायण तो नरकायुका बन्ध कर शर्कराप्रभामें गया और बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥२८०॥ मैं वही आदित्याभ नामका देव हूँ, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ १ अनिमिषो देव । २ -मवोधयम् म० ।

बुद्ध्वा ततः स निधातो द्वीपेऽस्मिन् विजये पुरे । ऐरावते महत्प्रासीदयोध्यां तदधीश्वरः ॥२८२॥  
 श्रीधर्मास्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत् । श्रीधर्मासावनताख्यमुनेरादाय संयमम् ॥२८३॥  
 ब्रह्मकल्पेऽभवत् देवो दिव्याष्टगुणभूषितः । सर्वार्थसिद्धिजः संजयन्तो ब्रह्मायुधोऽभवत् ॥२८४॥  
 ब्रह्मकल्पदिहागत्य त्वं जयन्तो निदानतः । मोहाद्विह्वलसम्यक्त्वोऽजनिष्ट नागनायकः ॥२८५॥  
 भ्रातृको नासकः प्रान्तपृथिवीतो विनिर्गतः । जघन्यायुरहिर्भूत्वा तृतीयं पृथिवीं गतः ॥२८६॥  
 ततो निर्गत्य तिर्यङ्क्षु त्रसेयु स्थावरपु च । भ्रान्त्वाऽस्मिन् मरते भूतरमणाख्यवनान्तरं ॥२८७॥  
 ऐरावतीनदीतीरे मृगशृङ्गसुतोऽभवत् । गोशृङ्गतापसाधोशः शङ्खिकायां चिरकधीः ॥२८८॥  
 स पञ्चाग्नि तपः कुर्वन् दिव्यादितिलकाधिपम् । खगं वीक्ष्यांशुमाकाख्यं निदानमवरोक्तुधीः ॥२८९॥  
 मृत्वाऽत्र खगशैलोदकश्रेण्यां गगनवल्लभे । वज्रदंष्ट्रस्वगोशस्य प्रिया विद्युत्प्रभा तयोः ॥२९०॥  
 विद्युद्दंष्ट्र सुतो जातः सोऽयं वैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिरं तु खमापदाप्स्यति चापरम् ॥२९१॥  
 एवं कर्मवशाज्जन्तुः संसारे परिवर्तते । पिता पुत्रः सुतो माता माता भ्राता स च स्वसा ॥२९२॥  
 स्वसा नसा भवेत्का वा बन्धुसंबन्धसंस्थितिः । कस्य को नापकर्ताऽत्र नोपकर्ता च कस्य कः ॥२९३॥  
 तस्माद्दैरानुबन्धेन मा कृथाः पापबन्धनम् । सुख वैरं महानाग ! विद्युद्दंष्ट्रश्च मुच्यताम् ॥२९४॥  
 इति तद्देवत्वान्नीधुवृष्ट्या सन्तर्पितोऽहिराट् । देवाहं त्वत्प्रसादेन सदस्यं श्रद्धे स्म भोः ॥२९५॥  
 किन्तु विद्याबलादेव विद्युद्दंष्ट्रोऽवमाचरत् । तस्मादस्यान्वयस्यैव महाविधां छिनदस्यहम् ॥२९६॥  
 इत्याहैतद्ब्रह्म । श्रुत्वा देवो मदसुरोद्यत । त्वया नैतद्विधातव्यमित्याख्यस्फणिनां पतिम् ॥२९७॥

रहनेवाले विभीषणको सम्बोधना था ॥२९१॥ वह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ और वहाँसे निकलकर इसी जन्मद्वीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीधर्माकी सुसीमा देवीके श्रीधर्मा नामका पुत्र हुआ । और वयस्क होनेपर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्वर्गमें आठ दिव्य गुणोंसे विभूषित देव हुआ । ब्रह्मायुधका जीव जो सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था वहाँसे आकर संजयन्त हुआ ॥२९२-२९४॥ श्रीधर्माका जीव ब्रह्मस्वर्गसे आकर तू जयन्त हुआ था और निदान बाँधकर मोह-कर्मके उदयसे धरणीन्द्र हुआ ॥२९५॥ सत्यबोधका जीव सातवीं पृथिवीसे निकलकर जघन्य आयुका धारक साँप हुआ और फिर तीसरे नरक गया ॥२९६॥ वहाँसे निकल कर त्रस स्थावर रूप तिर्यच गतिमें भ्रमण करता रहा । एक बार भूतरमण नामक वनके मध्यमें ऐरावती नदीके किनारे गोशृंग नामक तापसकी शंखिका नामक स्त्रीके मृगशृंग नामका पुत्र हुआ । वह चिरक होकर पञ्चाग्नि तप कर रहा था कि इतनेमें वहाँसे दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका विद्याधर निकला । उसे देखकर उस मूर्खने निदान बन्ध किया ॥२९७-२९९॥ अन्तमें मरकर इसी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतके उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवल्लभ नगरके राजा वज्रदंष्ट्र विद्याधरकी विद्युत्प्रभा रानीके विद्युद्दंष्ट्र नामका पुत्र हुआ । इसने पूर्व वैरके संस्कारसे कर्मबन्ध कर चिरकाल तक दुःख पाये और आगे भी पावेगा ॥२९०-२९१॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है । पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है और बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धुजनोंके सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए वैर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज—हे धरणेन्द्र ! वैर छोड़ो और विद्युद्दंष्ट्रको भी छोड़ दो ॥२९२-२९४॥ इस प्रकार उस देवके वचनरूप अमृतकी वर्षासे धरणेन्द्र बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज मैं समीचीन धर्मका श्रद्धान करता हूँ ॥२९५॥ किन्तु इस विद्युद्दंष्ट्रने जो यह पापका आचरण किया है वह विद्याके चलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंशकी महाविद्याको छीन लेता हूँ यह कहाँ ॥२९६॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणेन्द्रसे फिर कहने लगा कि आपको

सोऽपि यद्येवमेतस्य वंशानां मासिधन् महा- । विद्याः पुंसां स्त्रियः संजयन्तमद्वारकान्तिके ॥२९८॥  
 साधयन्त्वन्वया द्रुपादिभे द्रुपाः कुचेष्टिताः । मधिष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युपद्रवम् ॥२९९॥  
 एषोऽपि पर्वतो विद्याधरहीक्रीडितः परः । हीमन्नाभेत्युदीर्यास्मिन् भ्रातृप्रतिनिधिं व्यधात् ॥३००॥  
 विद्युद्भृङ्गं च सामोक्तैर्धर्मन्यायानुयायिभिः । कृत्वा प्रशान्तकालुष्यं देवं चाम्यर्च्यं यातवान् ॥३०१॥  
 देवोऽपि स्वयानुत्सेऽस्मिन्नुत्तरे मथुरापुरे । अनन्तवीर्यराहुमेरुमाकिन्यां मेरुनामभाक् ॥३०२॥  
 तस्मैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रवृहस्पती ॥३०३॥  
 तावासन्नविनेयत्वात् श्रित्वा विमलवाहनम् । श्रुत्वा स्वमवसंबन्धमजायेतां गणेशिनौ ॥३०४॥  
 इह प्रत्येकमेतेषां नामग्रहणपूर्वकम् । गतिभेदावली व्याख्या संकुलश्राभिधीयते ॥३०५॥  
 सिंहसेनोऽशनिघोषप्रान्तः श्रीधरसंज्ञकः । रश्मिवेगं प्रमाताकों वज्रायुधमहानृपः ॥३०६॥  
 सर्गार्थसिद्धौ देवेन्द्रः संजयन्तः ततश्च्युतः । इत्यष्टजन्मभिः प्रापसिंहसेनः श्रियं पदम् ॥३०७॥  
 मथुरा रामदत्तात् मास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमालाऽच्युते देवस्ततो वीतमयाङ्ग्यः ॥३०८॥  
 आदित्यामस्ततो मेरुगणेशो विमलेशिनः । सप्तद्विसमवेतः सन् प्रायासीत्परमं पदम् ॥३०९॥  
 वारुणी पूर्णचन्द्राख्यो वैदूर्यस्माद्यशोधरा । कापिष्ठकल्पेऽनवरद्विद्वेषोऽभूद्भुचक्रप्रभः ॥३१०॥  
 रत्नायुधोऽन्यकल्पोऽथस्ततश्च्युत्वा विभीषणः । द्वितीये नरके पापी श्रीधर्मा ब्रह्मकल्पज ॥३११॥  
 जयन्तो धरणाधीशो मन्दरो गणनाथकः । चतुर्ज्ञानधरः पारमवापजन्मवारिधेः ॥३१२॥  
 श्रीभूतिस्त्रिचो नागश्वमरः कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःखी शायुः पङ्कप्रभोजनः ॥३१३॥

स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही ऐसा नहीं करना चाहिए ॥२९७॥ धरणेन्द्रने भी उस देवके वचन सुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके वंशके पुरुषोंको महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस वंशकी स्त्रियाँ संजयन्त स्वामीके समीप महाविद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं। यदि इन अपराधियोंको इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे होनेवाले मुनियोंपर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥२९८-२९९॥ इस घटनासे इस पर्वतपर-के विद्याधर अत्यन्त लज्जित हुए थे इसलिए इसका नाम 'हीमान्' पर्वत है ऐसा कहकर उसने उस पर्वतपर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवायी ॥३००॥ धर्म और न्यायके अनुसार कहे हुए शान्त वचनोंसे विद्युद्भृङ्गको कालुष्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थानपर चला गया ॥३०१॥ वह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीर्य राजा और मेरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ ॥३०२॥ तथा धरणेन्द्र भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पतिके समान थे ॥३०३॥ तथा अत्यन्त निकट भव्य थे इसलिए विमलवाहन भगवान्के पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये ॥३०४॥ अब यहाँ इनमें-से प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति और भवोंके समूहका वर्णन करता हूँ—॥३०५॥ सिंहसेनका जीव अशनिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मिवेग, अर्कप्रभदेव, महाराज वज्रायुध, सर्गार्थसिद्धिमें देवेन्द्र और वहाँसे चयकर संजयन्त केवली हुआ। इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद पाया ॥३०६-३०७॥ मथुराका जीव रामदत्ता, मास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, वीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर विमलवाहन भगवान्का मेरु नामका गणधर हुआ और सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर उसी भवसे मोक्षको प्राप्त हुआ ॥३०८-३०९॥ वारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, वैदूर्यदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला रुचक्रप्रभ नामका देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, ब्रह्मस्वर्गका देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्दर नामका गणधर हुआ और चार ज्ञानका धारी होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥३१०-३१२॥ श्रीभूति—( सत्यवोध ) मन्त्रीका जीव

त्रसस्थावरसंभ्रान्तः पश्चाज्जातोऽतिदारुणः । ततस्तमस्तमस्यासीत्सर्पस्तस्माच्च नारकः ॥३१४॥  
बहुयोनिपरिभ्रान्तो मृगशृङ्गो मृतस्वतः । विद्युद्दंष्ट्रः खगाधीशः पापी पश्चात् प्रसन्नवान् ॥३१५॥  
भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रः प्रीतिकरः सुरः । चक्रायुधो विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान् ॥३१६॥

### वसन्ततिलका

एवं चतुर्गतिषु ते चिरमुच्चनीच-

स्थानानि कर्मपरिपाकवशात् प्रपद्य ।

सौख्यं क्वचित् क्वचिद्व्याचितमुग्रदुःख-

मापन्त्ययोऽत्र परमात्मपदं प्रसन्नाः ॥३१७॥

### मालिनी

खलखगमकृतोऽग्रीपद्मं कस्याचन्द्रा

मनसि शमरसत्वान्मन्यमानो भहेच्छः ।

शुचित्रवरशुक्लध्यानमध्यास्य शुद्धिं

समगमदमलो यः संजयन्तः स चोऽप्यात् ॥३१८॥

### रथोद्धता

मेरुमन्दरमहाभिधानकौ स्वामिनेन्दुविजयाद्भूतौजसौ ।

पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयोगमस्य वः ॥३१९॥

इत्यावै भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीर्थकर-धर्म-स्वयम्भू-मधु-  
संजयन्त-मेरुमन्दरपुराणं परिसंभोक्तम् एकोनषष्टितमं पर्व ॥५९॥

सर्प, चमर, कुर्कुट सर्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस और स्थावरोंके बहुत भव, अतिदारुण, सातवें नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें भ्रमण कर मृगशृंग और फिर मरकर पापी विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वैररहित-प्रसन्न भी हो गया था ॥३१३-३१५॥ भद्रमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव धारण कर आठों कर्मोंको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ था ॥३१६॥

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोदयके वश चिरकाल तक उच्चनीच स्थान पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे और कहीं बिना माँगे हुए तीव्र दुःख भोगते रहे परन्तु अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥३१७॥ जिन महानुभावने हृदयमें समता रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको 'यह किसी विरले ही भाग्यवान्को प्राप्त होता है' इस प्रकार विचारकर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल शुक्लध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की त्रे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करे ॥३१८॥ जिन्होंने सूर्य और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं, तथा नर्योंसे परिपूर्ण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणधर सदा आपलोगोंसे पूजित रहें—आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥३१९॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराणके संग्रहमें विमलनाथ तीर्थकर, धर्म, स्वयम्भू, मधु, संजयन्त, मेरु और मन्दर गणधरका वणन करनेवाला उनसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## षष्ठितमं पर्व

अनन्तोऽनन्तदोषाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । हन्त्वन्तधर्मान्तसंतामन्तातीतं जिन स नः ॥१॥  
 धातकीखण्डप्राग्भागमेरूद्विषये महत् । रम्यं पुरमरिष्टाख्यमैकध्वमिव संपदाम् ॥२॥  
 पतिः पद्मरथस्तस्य पद्मासन्न स्वयं गुणैः । यस्मिन् महीं चिरं पाति प्रापन्प्रीतिं परां प्रजा ॥३॥  
 पुण्योदयात्सुखादिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्कलोऽसि निरर्कः ॥४॥  
 तदिन्द्रियार्थसांनिध्यसमुद्भूतसुखेन स । शक्रवत्सुष्ठु<sup>३</sup> संतृप्यन्संसारसुखमन्वभूत् ॥५॥  
 अथान्यदा समासाद्य स्वयंप्रभजिनाधिपम् । सप्रश्रयमभिष्टुत्य श्रुत्वा धर्मं सुनिसलम् ॥६॥  
 संयोगो देहिनां देहैरक्षणां च स्वगोचरैः । अनिष्टोऽन्यतरामावे सर्वेषामाजवजवे ॥७॥  
 आहिताभ्यमता सन्तु देहिनो मोहिताश्रयाः । अहं<sup>५</sup> निहतमीहारिमाहात्म्याहंक्रमाश्रयः ॥८॥  
 करवाणि कथं करं मतिमेतेषु निश्चलाम् । इति मोहनहाप्रस्थिसुद्धिद्यास्थोद्यथौ मतिः ॥९॥  
 ततः परीतदावागिनशिखासंत्रासितैणवत् । चिरोषितां च संसारस्थलीं हातु कृतोद्यमः ॥१०॥  
 सुनौ धनस्थे राज्यं नियोज्यादाय संयमम् । एकादशाङ्गवाराशिपारगो बद्धतीर्थकृत् ॥११॥  
 प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्द्र. पुष्पोत्तरविमानजः ॥१२॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुर्हस्ताब्दांनिघनस्तनुः । शुक्लक्षेद्यः श्वसन्नोकादशमासैस्तु सख्यया ॥१३॥

अथानन्तर जो अनन्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं तथा अनन्त गुणोंको खान-स्वरूप हैं ऐसे श्री अनन्तनाथ भगवान् हम सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्धकारकी सन्तानको नष्ट करे ॥१॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान ही हो ॥२॥ उस नगरका राजा पद्मरथ था, वह अपने गुणोंसे पद्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने त्रिरकाल तक पृथिवीका पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्त होती रही ॥३॥ जीवोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है और राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा बाधारहित था ॥४॥ इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होनेवाले सुखसे वह इन्द्रके समान सन्तुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥५॥ किसी एक दिन वह स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया । वहाँ उसने विनयके साथ उनकी स्तुति की और निर्मल धर्मका उपदेश सुना ॥६॥ तदनन्तर वह चिन्तवन करने लगा कि 'जीवोंका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवोंके आत्मा और शरीर तथा इन्द्रियों और उनके विषय इनमेंसे एकका अभाव होता ही रहता है ॥७॥ यदि अन्य मतावलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शत्रुके साहाय्यको नष्ट करनेवाले अर्हन्त भगवान्के चरण-कमलोंका आश्रय प्राप्त किया है । मैं इन विषयोंमें अपनी बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ—इन विषयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ । इस प्रकार इसकी बुद्धि मोहरूपी महागोंठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥८॥ तदनन्तर जिस प्रकार चारों ओर लगी हुई बनागिनकी ज्वालामुखीसे भयभीत हुआ हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥९॥ उसने धनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर लिया और ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥१०॥ अन्तमें सञ्ज्ञेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया ॥११॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्लक्षेद्य थी, वह

१ सम्पदा ग०, ध० । २ पतिपद्मरथस्तस्य ग० । ३ संतृप्य क०, ग०, ध० । ४ विहत क०, ध० ।



खत्रयायनपक्षोक्तवर्षाहारमाहरत् । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गतावधिः ॥१४॥  
 तत्प्रमाणबलस्तेत्रोविक्रियाभ्यां च तत्प्रमः । चिरं तत्र सुखं भुक्त्वा तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥१५॥  
 द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वरः । इक्ष्वाकुः काश्यपः सिंहसेनो नाम महानृपः ॥१६॥  
 जयश्यामा महादेवी तस्यास्था वैश्रमनः पुरः । वसुधारां सुराः सारां मासपृद्वीमपीपतन् ॥१७॥  
 कार्तिके मासि रेवत्यां प्रभातेऽह्नि तदादिमे । निरीक्ष्य षोडश स्वप्नात् विशन्तं चाऽननं गजम् ॥१८॥  
 अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽवधिकोचनात् । गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोषमात्परम् ॥१९॥  
 ततः स्वर्गावतरणकल्याणाभिषवं सुराः । संपाद्य वस्त्रमाख्योरुभूषणेस्तावपूजयन् ॥२०॥  
 सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्ठमास्थसिते सुतम् । द्वादश्यां पूषयोगेऽसौ सपुण्यमुदपादयत् ॥२१॥  
 तदागत्य मरुमुख्या मेरुशैलेऽभिषिच्य तम् । अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विदधुमुदा ॥२२॥  
 नवाब्धयुपमसंतावे पल्यपादत्रये स्थिते । धर्मोऽतीतार्हतो ध्वस्ते तदभ्यन्तरजीवितः ॥२३॥  
 त्रिशल्लक्षसमाख्यायुः पञ्चाशच्चापसम्मितः । कनस्कनकसंकाशः सर्वलक्षणकक्षितः ॥२४॥  
 खचतुष्केन्द्रियद्वयद्वेषवतोतेष्वभिषेचनम् । राज्यस्यालभताभ्यर्च्यस्स नृशेखमरुद्वरैः ॥२५॥  
 खपञ्चकेन्द्रियैकोक्तवर्षं राज्यव्यतिक्रमे । कदाचिदुल्कापतनहेतुनोत्पन्नशोधिकः ॥२६॥  
 अज्ञानबीजसंरूढामसंयममहीश्रुताम् । प्रमादवारिसंसिक्तां कषायस्कन्धयष्टिकां ॥२७॥  
 योगालम्बनसंबुद्धां तिर्यग्गतपृथक्कृताम् । जराकुसुमसंछन्नां बह्नामयपलाशिकाम् ॥२८॥

ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था, मानसिक प्रवीचारासे सुखी रहता था, तमःप्रभा नामक छठी पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीं तक उसका बल, विक्रिया और तेज था । इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम लोकमें आनेके लिए सम्मुख हुआ ॥१३-१५॥

उस समय इस जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री महाराज सिंहसेन राज्य करते थे ॥१६॥ उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था । देवोंने उसके घरके आगे छह माह तक रत्नोंकी श्रेष्ठ धारा बरसायी ॥१७॥ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद सुहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥१८॥ अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना । उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें आकर स्थित हुआ जिससे वह बहुत भारी सन्तोषको प्राप्त हुई ॥१९॥ तदनन्तर देवोंने गर्भकल्याणकका अभिषेक कर बल, माला और बड़े-बड़े आभूषणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयश्यामाकी पूजा की ॥२०॥ जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढने लगा । नव माह व्यतीत होनेपर उसने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न किया ॥२१॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका मेरु पर्वतपर अभिषेक किया और वड़े हर्षसे अनन्तजित् यह सार्थक नाम रखा ॥२२॥ श्रीविमलनाथ भगवान्के बाद नौ सागर और पौन पल्य बीत जानेपर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद हो जानेपर भगवान् अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥२३॥ उनकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुवर्णके समान रंग था और वे सब लक्षणोंसे सहित थे ॥२४॥ मनुष्य, विद्याधर और देवोंके द्वारा पूजनीय भगवान् अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार वर्ष बीत जानेपर राज्याभिषेक प्राप्त किया था ॥२५॥ और जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई ॥२६॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी बेल अज्ञानरूपी बीजसे उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी पृथिवीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गयी है, कषाय ही इसकी स्कन्धयष्टि है—बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बड़ी हुई है, तिर्यच-

१ पुष्य ल० । २ मुख्यशैले ख०, ग०, ल० । ३-भ्यर्च्यत्स नृपेशमरुद्वरैः ख० ।-भ्यर्च्यं स नृपेशमनुद्वरैः ल० । ४-दुल्कापातेन ग० ।

दुःखदुःफलसम्पन्नां दुष्कर्मविषवल्लीरम् । शुक्रध्यानासिनामूर्त्तं चिच्छिद्युः स्वात्मसिद्धये ॥२९॥  
 लौकान्तिकै समम्येत्य प्रस्तुवद्भिः प्रपूजितः । अनन्तविजये राज्यं निषोध्य विजयी तुजि ॥३०॥  
 सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिबुद्धवान् । यानं सागरदत्ताख्यं सहेतुकवमान्तरं ॥३१॥  
 ज्येष्ठे षष्ठोपवासने रेवत्यां द्वादशीं दिने । सहस्रेणासिते राज्ञामदीक्षिष्टापराङ्गके ॥३२॥  
 संप्राप्तोपान्थसंज्ञानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽङ्गि स चयायै साकेतं समुपैयिवान् ॥३३॥  
 दिशाखभूपतिस्तस्मै दत्त्वाऽन्नं कनकच्छविः । भाक्ष्यपञ्चकं प्राप ज्ञापकं स्वर्गमोक्षयोः ॥३४॥  
 संवत्सरद्वये याते लाञ्छन्ये प्राक्तने वने । अश्वत्थपादपोपान्ते कैवल्यमुद्रुपीपदत् ॥३५॥  
 चैत्रेऽसामास्यहःप्रान्ते रेवत्यां सुरसत्तमा । तदैव तुयंकल्याणपूजा च निरवर्तयन् ॥३६॥  
 जयाख्यमुख्यपञ्चाशदगणभृद्दृढितात्मवाक । सहस्रपूर्वभृद्गन्ध खद्वयद्वयत्रिवाद्यचोत् ॥३७॥  
 खद्वयेन्द्रियरन्ध्रासिंख्यलाक्षितशिक्षकः । शून्यद्वयत्रिवाद्युक्ततृतीयज्ञानपूजितः ॥३८॥  
 शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवलावगामान्वितः । शून्यत्रयवसुद्दिष्टविक्रियद्विबिभूषितः ॥३९॥  
 शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तमनःपर्ययत्रो धनः । पिण्डीकृतोक्तषट्षष्टिसहस्रमुनिमानित ॥४०॥  
 सकक्षासहस्रोक्तसर्वश्रयाचार्यिकागणः । द्विलक्षश्रावकाभ्यर्च्यो द्विगुणश्राविकास्तुत ॥४१॥  
 असंख्यदेवदेवीद्वयस्त्रियं कसुरथासेवितः । इति द्वादशविख्यातभव्यमुन्द्रारकाप्रणीः ॥४२॥  
 सदसद्वादसङ्गवमाविष्कृत्यन्नन्तजित् । विद्वत्य विश्रुतान् देशान् विनेयान्योजयन् पथि ॥४३॥  
 समेदगिरिमासाद्य विहाय विद्वति स्थितः । मासं शताधिकैः षड्भिः सहस्रैः मुनिभिः सह ॥४४॥

गतिके द्वारा फैली हुई है, वृद्धावस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई है, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, और दुःखरूपी दुष्ट फूलोंसे झुक रही है । मैं इस दुष्ट कर्मरूपी बेलको शुक्र ध्यानरूपी तलवारके द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-भूलसे काटना चाहता हूँ ॥१७-२९॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते हुए लौकान्तिक देव आ पहुँचे । उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवान्ने अपने अनन्त-विजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने तृतीय—दीक्षा-कल्याणकी पूजा की, भगवान् सागरदत्त नामक पालकीपर सवार होकर सहैतुक वनमें गये और वहाँ बेलका नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥३०-३२॥ जिन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहित है ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए साकेतपुरमें गये ॥३३॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले विशाख नामक राजाते उन्हें आहार देकर स्वर्ग तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाश्र्वयं प्राप्त किये ॥३४॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब लक्ष्मण अवस्थाके दो वर्ष बीत गये तब पूर्वोक्त सहैतुक वनमें अश्वत्थ —पीपल वृक्षके नीचे चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया । उसी समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥३५-३६॥

जय आदि पचास गणधरोंके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक हजार पूर्वधारियोंके द्वारा वन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले मुनियोंके स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार विक्रियाश्रद्धिके धारकोसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब मिलकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूजा करते थे । सर्वश्रीको आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्यिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनकी पूजा करते थे और चार लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं । वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तिर्यचोसे सेवित थे । इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान भव्य समूहके अग्रणी थे ॥३७-४२॥ पदार्थ, कथंचित् सदरूप है और कथंचिद् असदरूप है । इस प्रकार विधि और निषेध पक्षके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान् अनन्तजित्ने प्रसिद्ध देशोंमें विहार कर भव्य जीवोंको सन्मार्गमें लगाया ॥४३॥ अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने

प्रतिमायोगधारी सन्नमावस्याग्रत्रिमाक् । तुरीयध्यानयोगेन संग्रापत्परमं पदम् ॥४५॥  
सद्यो ब्रुसत्समूहोऽपि संग्राप्यान्वयेष्टिमादरात् । विधाय विधिवत्सूक्तैः स्वर्लोकं सर्वतो ययौ ॥४६॥

मालिनी

कुनयघनतमोऽन्धं कुश्रुतोल्लकविद्विद्

सुनयमयमयूखैः विश्वमाश्रु प्रकाश्य ।

प्रकटपरमदीप्तिर्बोधयन् मव्यपन्नान्

प्रदहदु स<sup>२</sup>जिनेनोऽनन्तजिद् दुष्कृतं व. ॥४७॥

वसन्ततिलका

प्राक्पाळकः प्रथितपद्मरथः पृथिव्याः

पश्चाद्विनिश्चितमतिस्वपसाच्युतेन्द्रः ।

तस्माच्च्युतोऽभवदनन्तजिदन्तकान्तो

यः सोऽजताद् द्रुतमनन्तभवान्तकाद् वः ॥४८॥

तत्रैव सुप्रभो रामः केशवः पुरुषोत्तमः । व्यावर्ण्यते भवेपूखैः त्रिषु वृत्तकमेतयोः ॥४९॥

एतस्मिन् भारते वर्षे पौदनाधिपतिः नृपः । वसुपेणो महादेवी तस्य नन्द्यत्यनिन्दिता ॥५०॥

देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां स राजा प्रेमनिर्भरः । रेमे वसन्तमज्जयां चञ्चरीक इवोत्सुक ॥५१॥

मल्लयाधीश्वरो नान्ना कद्राचिञ्चण्डशासनः । आजगाम नृपं द्रष्टुं तत्पुरं मित्रतां गतः ॥५२॥

नन्दासं दर्शनेनासौ मोहित पापपाकवान् । आहृत्य तामुपायेन स्वदेशमगमत्कुषीः ॥५३॥

वसुपेणोऽप्यशक्तत्वात्परा मवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाकृष्यमाणप्राणः स्मृतेर्बलात् ॥५४॥

विहार करना छोड़ दिया और एक माहका योग निरोध कर छह हजार एक सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। तथा चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिके प्रथम भागमें चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा परमपद प्राप्त किया ॥४४-४५॥ उसी समय देवोंके समूहने आकर बड़े आदरसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सब और अपने-अपने स्थानोंपर ल्वले गये ॥४६॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको सम्यङ् नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शास्त्ररूपी उल्लुओंसे द्वेष करनेवाले हैं, जिनकी उत्कृष्ट दीप्ति अत्यन्त प्रकाशमान है और जो भव्य जीवरूपी कमलको विकसित करनेवाले हैं ऐसे श्री अनन्तजित् भगवान्रूपी सूर्य तुम सबके पापको जलावे ॥४७॥ जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशंक बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्र हुए और फिर वहाँसे चयकर मरणको जीतनेवाले अनन्तजित् नामके जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भवोंमें होनेवाले मरणसे तुम सबकी रक्षा करे ॥४८॥

अथानन्तर—इन्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामके नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥४९॥ इसी भरतक्षेत्रके पौदनपुर नगरमें राजा वसुपेण रहते थे। उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥५०॥ उस राजाके यद्यपि पाँच सौ स्त्रियाँ थीं तो भी वह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक ही है क्योंकि वसन्त ऋतुमें अनेक फूल होनेपर भी भ्रमर आम्रमंजरीपर ही अधिक उत्सुक रहता है ॥५१॥ मल्लय देशका राजा चण्डशासन, राजा वसुपेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय उसके दर्शन करनेके लिए पौदनपुर आया ॥५२॥ पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्दाको देखनेसे उसपर मोहित हो गया अतः वह दुर्बुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥५३॥ राजा वसुपेण असमर्थ था अतः उस पराभवसे बहुत दुःखी हुआ, चिन्तारूपी यमराज

१ दिवि स्वर्गं सीदन्तीति ब्रुवदस्तेषां समूहः देवसमूहः । २ जिनसूर्यः । ३ तत् क०, घ० । ४ पृथिव्या ल०, ख० ।

श्रेयोगणधरं प्राप्य प्रव्रज्यां प्रतिपद्य सः । सिंहनिःक्रीडिताद्युग्रं तपस्तप्त्वा महाबलः ॥ ५५ ॥  
यदि विद्येत चर्यायाः फलमन्वयत्र जन्मनि । अलदृष्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मत्सि ॥ ५६ ॥  
ततो विहितसंन्यास सहस्रारं जगाम सः । अष्टादशसमुद्रासुद्वादिशं कल्पसुखम् ॥ ५७ ॥  
अथ जन्ममति द्वीपे प्राविषदेहे महद्विके । नन्दनाख्ये पुरे प्राभून्नराधीशो महाबलः ॥ ५८ ॥  
प्रजानां पालको भोक्ता सुखानामतिधार्मिकः । श्रीमान् दिक्प्रान्तविश्रान्तकीर्तिरार्तिहरोऽर्थिनाम् ॥ ५९ ॥  
स कदाचिच्छरीरादिधायात्म्यावगमोदयात् । विरक्तस्तेषु निर्वाणपदवीप्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥  
दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापालार्हदन्तिके । गृहीतसंयमः सिंहनिःक्रीडिततपः श्रितः ॥ ६१ ॥  
संन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याष्टादशसागराः । स्थितिं भोगांश्चिरं सुक्त्वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥  
अथेह भारते द्वारवत्यां सोमप्रमप्रभोः । जयवत्यामभूत्सु. सुरूप सुप्रमाह्वयः ॥ ६३ ॥  
मदायतिः समुत्तुङ्गः सुरविद्याधराश्रयः । श्वेतिमानं दधत् सोऽभाद् विजयाद् इवापरः ॥ ६४ ॥  
कलङ्कविकलः कान्तः संततं सर्वचित्तहृत् । पद्यानन्दविधाथीत्यमतिशेते विद्यु व स ॥ ६५ ॥  
तस्यैव सुपेणाख्य. सीतायां पुरुषोत्तम. । तोकोऽञ्जनि जनानन्दविधाथी विविधैर्गुणैः ॥ ६६ ॥

उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शास्त्रज्ञानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक गणधरके पास जाकर दीक्षित हो गया । उस महाबलवान्ने सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप कर यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्रय्याका कुछ फल हो तो मैं अन्य जन्ममें ऐसा राजा होऊँ कि जिसकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन न कर सके ॥५४-५६॥ तदनन्तर संन्यास मरण कर वह सहस्रार नामक बारहवें स्वर्ग गया । वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी ॥५७॥

अथानन्तर जन्मद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक सप्ततिसम्पन्न नन्दन नामका नगर है । उसमें महाबल नामका राजा राज्य करता था । वह प्रजाकी रक्षा करता हुआ सुखोंका उपभोग करता था, अत्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान् था, उसकी कीर्ति दिशाओंके अन्त तक फैली थी, और वह याचकोंकी पीड़ा दूर करनेवाला था—बहुत दानी था ॥५८-५९॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो गया ॥६०॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अर्हन्तके समीप संयम धारण कर सिंहनिष्क्रीडित नामका तप किया ॥६१॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा । जब अन्तिम समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा ॥६२॥ और इसी जन्मद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी द्वारवती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयवन्तीके सुप्रम नामका सुन्दर पुत्र हुआ ॥६३॥ वह सुप्रम दूसरे विजयार्थके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयार्थ महायति—बहुत लम्बा है उसीप्रकार सुप्रम भी महायति—उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्थ समुत्तुंग—ऊँचा है उसी प्रकार सुप्रम भी समुत्तुंग—उदार प्रकृतिका था, जिस प्रकार विजयार्थ देव और विद्याधरोंका आश्रय—आधार—रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रम भी देव और विद्याधरोंका आश्रय—रक्षक था और जिस प्रकार विजयार्थ श्वेतिमा—शुक्लवर्णको धारण करता है उसी प्रकार सुप्रम भी श्वेतिमा—शुक्लवर्ण अथवा कीर्तिसम्बन्धी शुक्लताको धारण करता था ॥६४॥ यही नहीं, वह सुप्रम चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलंकसहित है परन्तु सुप्रम कलंकरहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त—सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रम रात्रिदिन सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता—चकवा आदिको प्रिय नहीं लगता परन्तु सुप्रम सबके चित्तको हरण करता था—सर्वप्रिय था, और चन्द्रमा पद्यानन्दविधाथी नहीं है—कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रम पद्यानन्दविधाथी था—लक्ष्मीको आनन्दित करनेवाला था ॥६५॥ उसी राजाकी सीता नामकी रानीके वसुपेणाका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र

सेव्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविलङ्घ्यमहोन्नति । महारत्नसमुद्रमासी सुमेहरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥  
 शुक्लकृष्णत्विवौ लोकव्यवहारप्रवर्तकौ । पक्षाविव विभातः सम युक्तौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥  
 पञ्चाशद्वनुरुच्छ्रयौ त्रिशल्लक्षसमायुधौ । समं समसुलौ कालं समजीगमतां चिरम् ॥ ६९ ॥  
 अथ आन्वा मवे दीर्घं प्राक्तनश्रण्डशासनः । चण्ढांशुरिव चण्डोऽभूदङ्घ्रितारातिमण्डल ॥ ७० ॥  
 काशिदेशे नृपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दाख्यो विख्यातवक्रविक्रमः ॥ ७१ ॥  
 तौ तदोद्दिश्यौ श्रुत्वा नारदादस हेष्युकः । तव मे प्रेषय प्रार्थ्यगजरत्नादिकं करम् ॥ ७२ ॥  
 तदाकर्णनकालान्तवातोद्भूतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकहु प्रेक्ष्यश्रुकोष पुरुषोत्तमः ॥ ७३ ॥  
 सुप्रमोऽपि प्रमाजालं विकिरन् दिक्षु चक्षुषोः । ज्वालावल्गिमिव क्रोधपावकाचिस्तताशयः ॥ ७४ ॥  
 न ज्ञातः कः करो नाम किं करो येन मुच्यते । तं दास्यामः स्फुरत्क्वङ्गं किरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥  
 पतु गृह्णातु को-दोष इत्याविष्कृततेजसौ । उभाववोचतामुच्चैर्नारदं पुरुषोक्तिभिः ॥ ७६ ॥  
 ततस्तद्वगम्यायात् संक्रुद्धो मधुसूदनः । हन्तुं तौ तौ च हन्तुं तौ रोषादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥  
 सेनयोहमयोरासीत्संग्रामः संहारञ्चिव । सर्वानहंस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोत्तम ॥ ७८ ॥

हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंको आनन्दित करनेवाला था ॥६६॥ वह पुरुषोत्तम सुमेरु पर्वतके समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत समस्त तेजस्वियों—सूर्य, चन्द्रमा आदि देवोंके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों—प्रतापी मनुष्योंके द्वारा सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी महोन्नति—भारी ऊँचाईका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महोन्नति—भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत महारत्नों—बड़े-बड़े रत्नोंसे सुशोभित है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी महारत्नों—बहुमूल्य रत्नों अथवा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुशोभित था ॥६७॥ वे बलभद्र और नारायण क्रमशः शुक्ल और कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोकव्यवहारके प्रवर्तक थे अतः शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे ॥६८॥ उन दोनोंका पञ्चास धनुष ऊँचा शरीर था, तीस लाख वर्षकी दोनोंकी आयु थी और एक समान दोनोंको सुख था अतः साथ-ही-साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥६९॥

अथानन्तर—पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये है वह अनेक भवोंमें घूमकर काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ । वह सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुओंके समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका बल और पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध था ॥७०-७१॥ नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर-स्वरूप भेजो ॥७२॥ उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी समुद्र-ऐसा क्षुभित हो गया मानो प्रलय-कालकी वायुसे ही क्षुभित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेक्ष्य हो गया और अत्यन्त क्रोध करने लगा ॥७३॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशार्थोंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार बिखरने लगा मानो क्रोधरूपी अग्निकी ज्वालालोंके समूहको ही बिखर रहा हो ॥७४॥ वह कहने लगा— मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्या हाथको कर कहते हैं ? जिससे कि खाया जाता है । अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर—हाथ दूंगा, वह सिरसे उसे स्वीकार करे ॥७५॥ वह आवे और कल ले जावे इसमें क्या हानि है ? इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले दोनों भाइयोंने कटुक शब्दोंके द्वारा नारदको उच्च स्वरसे उत्तर दिया ॥७६॥ तदनन्तर यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही क्रुपित हुआ और उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला तथा वे दोनों भाई भी क्रोधसे-उसे मारनेके लिए चले ॥७७॥ दोनों सेनाओंका ऐसा संग्राम हुआ मानो सबका संहार ही करना चाहता हो । शत्रु—मधुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्र चलाया परन्तु वह चक्र पुरुषोत्तमका कुछ नहीं बिगाड़ सका । अन्तमें पुरुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूदनको

त्रिलण्डाधिपतिस्त्वं तौ चतुर्थौ रामकेशवौ । ज्योतिर्लोकधिनाथस्त्वमन्वभूतामिवेन्द्रिनौ<sup>१</sup> ॥७९॥  
केनचौ जीवितान्तेऽगादवधिस्थानमायुषाम् । सुप्रभस्तद्वियोगोत्थशोकानलसमन्वितः ॥८०॥  
प्रबोधितः प्रसन्नात्मा सोमप्रभजिनेशिनः । दीक्षित्वा श्रेणिमारुह्य स मोक्षमगमस्तुधीः ॥८१॥

वसन्ततिलका

संभूय पोदनपुरे वसुषेणनामा कृत्वा तपः सुरत्ररोऽजनि शुक्ललेदयः ।  
तस्माच्च्युतोऽर्द्धभरताधिपतिर्हृत्तारिः प्रापान्तिमां क्षितिमंध. पुरुषोत्तमाख्यः ॥८२॥

वियोगिनी

मलयाधिपचण्डशासनो नृपतिः<sup>३</sup> पापमतिर्भ्रमंश्चिरम् ।  
भवचारिनिधावभूदधः खलु गन्ता मधुसूदनाभिधः ॥८३॥

वंशस्थवृत्तम्

महावलाख्यः पुरि नन्दने नृप महातपा द्वादशकल्पजः सुरः ।  
पुनर्वलः सुप्रभसंज्ञयाऽगमत् परं पदं प्रास्तसंमस्तसङ्गक. ॥८४॥

आर्या

साम्राज्यसासौख्यं सुप्रभपुरुषोत्तमी समं भुक्त्वा ।  
प्रथमो निर्वाणमगादपुरोऽधो वृत्तिवैचिध्यम् ॥८५॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अनन्ततीर्थकर-सुप्रभपुरुषोत्तम-  
मधुसूदनपुराणं समाप्तं षष्ठितमं पर्व ॥६०॥

मारं डाला ॥७८॥ दोनों भाई चौथे बलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका  
इस प्रकार अनुभव करते लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका  
अनुभव करते हैं ॥७६॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छटे नरक गया और सुप्रभ बलभद्र  
उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही सन्तप्त हुआ ॥८०॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे  
समझाया जिससे प्रसन्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली और अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरूढ़  
होकर उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥८१॥

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमें वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्ललेदया-  
का धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अर्धभरतक्षेत्रका स्वामी, तथा शत्रुओंका नष्ट करने-  
वाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधोलोकमें सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न  
हुआ ॥८२॥ मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ  
मधुसूदन हुआ और तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ॥८३॥ सुप्रभ  
पहले नन्दन नामक नगरमें महाबल नामका राजा था फिर महान् तप कर बारहवें स्वर्गमें  
देव हुआ, तदनन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ और समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भवसे  
परमपदको प्राप्त हुआ ॥८४॥ देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका  
उपभोग करते थे परन्तु उनमेंसे ये पहला—सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा—पुरुषोत्तम नरक  
गया, यह सब अपनी वृत्ति-प्रवृत्तिकी विचित्रता है ॥८५॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें  
अनन्तनाथ तीर्थकर, सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति-  
नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला साठवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

## एकवष्टितमं पर्व

धर्मे यस्मिन् ससुदभूता धर्मा दश सुनिर्मलाः । स धर्मः शर्म मे दद्यादधर्ममपहृत्य नः ॥१॥  
 धातकीखण्डप्रागभागे प्राग्विदेहे सरिस्ते । दक्षिणे वत्सविषये सुसीमानगरं महत् ॥२॥  
 पतिदशरथस्तस्य प्रजाविक्रमदैववान् । स्ववशीकृतसर्चारिः निर्व्यायामः समे स्थितः ॥३॥  
 सुखानि धर्मसाराणि प्रजापालनलाकसः । धन्वुमिश्र सुहृदमिश्र सह विश्रन्धमन्वभूत् ॥४॥  
 माधवे शुक्रपक्षान्ते संप्रवृत्तजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमाकोक्य सद्यो निर्विण्णमानसः ॥५॥  
 कान्तः कुवल्याह्लादी कलाभिः परिपूर्णवान् । ईदृशस्यापि चेद्रीदृगवस्थाऽन्यस्य का गतिः ॥६॥  
 इति मत्वा सुते राज्यमारं कृत्वा महारथे । नैःसंग्याह्लाधवोपेतमङ्गीकृत्य स संयमम् ॥७॥  
 एकादशगङ्गधारी सन् भावितद्रव्यप्रकरणः । निषद्धतीर्थकृतपुण्यः स्वाराध्यान्ते विशुद्धधीः ॥८॥  
 त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुः एकहस्ततनूच्छ्रूतिः । पञ्चरन्ध्रचतुर्मानदिनैरुच्छ्र्वासवान् मनाक् ॥९॥  
 लोकनालयन्तरन्यापिविमलावधिबोधनः । तत्क्षेत्रविक्रियातेजोबलसंपत्समन्वितः ॥१०॥  
 त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्सहस्राब्दैः समाहरन् । सुहृत्तै मानसाहारं शुक्रलेश्याद्वयस्त्रिंशत् ॥११॥  
 सर्वार्थसिद्धौ सत्सौख्यं निःप्रवीचारमन्वभूत् । ततो नृकोकमेतस्मिन् पुण्यभाज्यागमिष्यति ॥१२॥  
 द्वीपेऽस्मिन्मरते रत्नपुराधोशो महीपतेः । कुर्वंशस्य गोत्रेण काश्यपस्य महौजसः ॥१३॥  
 देव्या भानुमहाराजसंज्ञस्य त्रिपुलत्रियः । सुप्रभायाः सुरानीतवसुधारादिसंपदः ॥१४॥

जिन धर्मनाथ भगवान्से अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा आदि दश धर्म उत्पन्न हुए वे धर्म-  
 नाथ भगवान् हम लोगोंका अधर्म दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥१॥ पूर्व धातकीखण्ड  
 द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें नदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश है । उसमें सुसीमा नाम-  
 का महानगर है ॥२॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था, वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनोंसे  
 सहित था । चूँकि उसने समस्त शत्रु अपने वश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे  
 रहित होकर वह शान्तिसे रहता था ॥३॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी  
 और वह बन्धुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्ततापूर्वक धर्मप्रधान सुखोंका उपभोग करता था  
 ॥४॥ एक बार वैशाख शुक्ल पूर्णिमाके दिन सब लोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्रग्रहण  
 पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर  
 है, कुवलयों—नीलकमलों ( पक्षमें—महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है और कलाओंसे  
 परिपूर्ण है । जब इसकी भी ऐसी अवस्था हुई है तब अन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ॥६॥  
 ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए राज्यभार सौंपा और स्वयं परिग्रहरहित होनेसे  
 भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥७॥ उसने ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर सोलह कारण  
 भावनाओंका चिन्तवन किया, तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें  
 समाधिमरण कर अपनी बुद्धिको निर्मल बनाया ॥८॥ अब वह सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द् हुआ,  
 तैत्तिरीय सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्यानवें दिन  
 अथवा साढ़े सोहल माहमें एक बार कुछ श्वास लेता था ॥९॥ लोक नाड़ोंके अन्त तक उसके  
 निर्मल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फैलनेवाली विक्रिया तेज तथा बलरूप  
 सम्पत्तिसे सहित था ॥१०॥ तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार लेता था, द्रव्य और  
 भावसम्बन्धी दोनों शुक्रलेश्याओंसे युक्त था ॥११॥ इस प्रकार वह सर्वार्थसिद्धिमें प्रवीचार  
 रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था । वह पुण्यशाली जब वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें  
 जन्म लेनेके लिए तत्पर हुआ ॥१२॥ तब इस जन्मद्वीपके भरतक्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर  
 था उसमें कुर्वंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी और महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते  
 थे । उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवोंने रत्नवृष्टि आदि सम्पदाओंके द्वारा उसका सम्भान

सितपक्षत्रयोदश्यां वैशाखे रेवतीविधौ । निशान्ते षोडशश्वप्ताः समभूवन् द्योः स्फुटाः ॥ १५॥  
 सा प्रबुध्वा फलाग्न्यात्मपतेरवधिलोचनात् । तेषां विज्ञाय संभूतपुत्रेवासीत्ससमदा ॥ १६॥  
 तदैतानुचारादन्यादास्या गर्भेऽमवद्विभुः । सुरेन्द्राश्चाद्रिकल्याणमकुर्वन् समागतः ॥ १७॥  
 धवले नवमासान्ते गुरुयोगे त्रयोदशी । दिने मांषे सुतं मासे साऽपुतानधिलोचनम् ॥ १८॥  
 तदैवानिमिषाधीशास्तं नीत्वाऽमरमूषरे । क्षीराब्धिवारिभिर्भूरिकातंस्वरवदोदृष्टैः ॥ १९॥  
 अभिषिच्य विभूष्योच्चैर्धर्माल्ख्यमगदन्मुदा । सर्वभूतहितश्रीमत्सद्धर्मपथदेशनात् ॥ २०॥  
 अनन्तजिनसंताने चतुःसागरसंमिते । काले पर्यन्तपश्योपमादं धर्मेऽस्तमीयुषि ॥ २१॥  
 तदभ्यन्तरवर्त्यायुर्धर्मनामोदपादि सः । दशकक्षसमाजीवी तसकाञ्चनसच्छविः ॥ २२॥  
 खाटैकहस्तसद्देहो वयः कौमारसुदहनः । सादृक्कक्षद्वयादन्ते कञ्चराज्यमहोदयः ॥ २३॥  
 पुङ्गवाद्दतिशुद्धत्वात्प्रेयस्वात्स्वाश्रयात्ततः । अशेषपोषकत्वाच्च मेघान्तजलदोपमः ॥ २४॥  
 भद्रत्वात् बहुदानत्वात्सौलक्ष्म्यान्महत्त्वतः । सुकरत्वात्सुरेभत्वात्परो वा गजोत्तमः ॥ २५॥  
 निग्रहानुग्रहौ तस्य न द्वेषेच्छाप्रवर्तितौ । गुणदोषकृतौ तस्मात्किगुह्यज्ञपि पृथ्यते ॥ २६॥  
 कीर्तिस्तस्य कृता सत्यं नो वेद्विश्वविसर्पिणी । कथं कविवचोवारिपेकादद्यापि दृढते ॥ २७॥  
 धरित्री सुखसंभोग्या तस्य स्वगुणरंजिता । नाधिकेवोत्तमा कामममोष्टफलदायिनी ॥ २८॥

बढ़ाया था । रानी सुप्रभाने वैशाख शुक्ल त्रयोदशीके दिन रेवती नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सोलह स्वप्न देखे ॥१३-१५॥ जागकर उसने अपने अधिज्ञानीपतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया और ऐसा हर्षका अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥१६॥ उसी समय अन्तिम अनुत्तर-विमानसे—सर्वाथसिद्धिसे चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ । इन्द्रोंने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव किया ॥१७॥ नव माह बीत जानेपर माघ शुक्ला त्रयोदशीके दिन गुरुयोग (पुष्य नक्षत्र)में उसने अधिज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक पुत्रको उत्पन्न किया ॥१८॥ इसी समय इन्द्रों-नेसुमेरु पर्वतपर ले जाकर बहुत भारी सुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक कर आभूषण पहनाये तथा हर्षसे धर्मनाथ नाम रखा ॥१९॥ जब अनन्तनाथ भगवान्के बाद चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब धर्मनाथ भगवान्का जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी आयु दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी । जब उनके कुमारकालके अठईलाख वर्ष बीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था ॥२०-॥२३॥ वे अत्यन्त ऊँचे थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देनेवाले थे, और सबका पोषण करनेवाले थे अतः शरद्ऋतुके मेघके समान थे ॥२४॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार बहुत दान—बहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहुत दान—बहुत दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण—अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुलक्षण—अच्छे सामुद्रिक चिह्नोंसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान् होता है उसी प्रकार वे भी महान्-श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर—उत्तम सूँडसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुकर—उत्तम हाथियोंसे सहित थे, और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ—उत्तम शब्दसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे ॥२५॥ वे दुर्जनोका निग्रह और सज्जनोका अनुग्रह करते थे सो द्वेष अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी अपेक्षा करते थे अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजाके पूज्य थे ॥२६॥ उनकी समस्त संसारमें फैलनेवाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रवचनरूपी जलके सेकसे आज भी क्यों बढ़ रही है ॥२७॥ सुखसे सम्भोग करने योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त पृथिवी उनके



धर्मादस्माद्वाप्यन्यन्ति कर्मातिनिवर्हणात् । शर्म चेन्नर्मलं मन्वाः शर्मास्य किमु वर्ण्यते ॥२९॥  
 पञ्चलक्षलमाराज्यकालेऽतीते कदाप्यसौ । उल्कापातसमुद्भूतवैराग्यादिव्यचिन्तयत् ॥३०॥  
 कथं क्व कस्माज्जातो मे किमयः कस्य भाजनम् । किं मविष्यति कायोऽयमिति चिन्तामकुर्वता ॥३१॥  
 दुर्विदग्धेन सांगत्यमनेन सुचिरं कृतम् । अक्षता दुःखमावर्ज्यं पा पापविपाकतः ॥३२॥  
 दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कर्मचोदिनः । शर्मं शाश्वतमप्राप्य श्रान्तोऽहं जन्मसंततौ ॥३३॥  
 बोधाद्यो गुणाः स्वेऽमी समैतद्विकल्पयन् । रागादिकान् गुणान्मत्वा धिग्मां मतिविपर्याद् ॥३४॥  
 स्नेहमोहग्रहग्रस्तो सुदुर्वन्धुघनाल्पलम् । पोषयन्नर्जयन्नापसंचयाद् दुर्गतीर्गतः ॥३५॥  
 एवमेन स्वयं बुद्धं मत्वा कौकान्तिकाः सुराः । तुष्टुवुनिष्ठितार्थस्त्वं देवाद्येत्यातिमत्तिकाः ॥३६॥  
 सुधर्मनाम्नि स ज्येष्ठे पुत्रे निहितराज्यकः । प्राप्तनिष्कमणारम्भकल्याणाभिषन्नोत्सवः ॥३७॥  
 शिविकां नागदत्ताख्यामारह्य सुरसत्तमैः । सह शाकलवनोधानं गत्वा षष्ठोपवासवान् ॥३८॥  
 माघज्योत्स्नात्रयोदश्यामपगङ्गे नृपैः समम् । सहस्रेण स पुष्यक्षे दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत् ॥३९॥  
 चतुर्थज्ञानसंपन्नो द्वितीयेऽह्नयत्रिशत्पुरीम् । भोक्तुं पाटलिपुत्राख्यां समुन्नद्धपताकिकाम् ॥४०॥  
 धन्यपेणमहोपालो द्वासाऽस्मै कनकद्युतिः । दानमुत्तमपात्राय प्रापदाक्ष्यपञ्चकम् ॥४१॥  
 तथैकवर्षच्छश्रयकालेऽतीते पुरातने । वने सप्तच्छदवृक्षाभः कृतषष्ठोपवासकः ॥४२॥  
 पूर्णमास्यां च पुष्यक्षे सायाह्ने प्राप केवलम् । भाससाद् च सत्पुत्रां तुयंकल्याणसूचिनीम् ॥४३॥

लिए उत्तम नायिकाके समान इच्छानुसार फल देनेवाली थी ॥२८॥ जब अन्य मन्व्य जीव इन धर्मनाथ भगवान्के प्रभावसे अपने कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे तब इनके सुखका वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ॥२६॥

जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया । चिरन्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे—'मिरा यह शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है ? क्रियात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या होगा' ऐसा विचार न कर मुझ मूर्खने इसके साथ चिरकाल तक संगति की । पापका संचय कर उसके उदयसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा । कर्मसे प्रेरित हुए मुझ दुर्मतिने दुःखको ही सुख मानकर कभी शाश्वत-स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया । मैं व्यर्थ ही अनेक भवोंमें भ्रमण कर थक गया । ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा । स्नेह तथा मोहरूपी ग्रहोंसे ग्रसा हुआ यह प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करता हुआ पाप उपार्जन करता है और पापके संचयसे अनेक दुर्गतियोंमें भटकता है' । इस प्रकार भगवान्को स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव आये और बड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव ! आज आप कृतार्थ-कृतकृत्य हुए ॥३०-३६॥ उन्होंने सुधर्म नामके ज्येष्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर ज्येष्ठ देवोंके साथ शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया और माघशुक्ला त्रयोदशीके दिन सार्यकालके समयपुष्य नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥३७-३९॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहार लेनेके लिए पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ॥४०॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥४१॥ तदनन्तर लक्ष्य अवस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर उन्होंने उसी पुरातन वनमें सप्तच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर योग धारण किया और पौषशुक्ल पूर्णिमाके दिन सार्यकालके समय पुष्य नक्षत्रमें

अरिष्टसेनाधनलघुगमानगणाधिपः । शून्यद्वयनवप्रोक्तसर्वपूर्वधरावृतः ॥४४॥  
 शून्यद्वयद्विंशत्याब्जिमितशिक्षककक्षितः । षट्शतत्रिसहस्रौकत्रिनिघावधिलोचनः ॥४५॥  
 शून्यद्वयेन्द्रयाम्भोधिप्रोक्तकेवलवीक्षणः । शून्यत्रिकमुनिज्ञातविक्रियद्विंविभूषितः ॥४६॥  
 केवलज्ञानिमानोक्तमनःपर्यथविद्वृतः । खट्टयाष्टद्विविज्ञातवासिबुन्दामिबन्दिः ॥४७॥  
 पिण्डीकृतचतुःषष्टिसहस्रमुनिसाधनः । खलाब्जपक्षषष्टप्रोक्तसुवताद्यार्थिकाशितः ॥४८॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेवो द्विगुणश्राविकावृतः । पूर्वोक्तदेवसंदोहतिर्यक्तसंख्यातसंश्रितः ॥४९॥  
 इति द्वादशमेदोक्तगणसंपत्समर्चितः । धर्मो धर्ममुपादिशुद्धमध्वजविराजितः ॥५०॥  
 विहारमन्त्रे संदृत्य संमेद्रे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाष्टशतसंयतैः ॥५१॥  
 शुचिशुक्लचतुर्थ्यन्त रात्रौ ध्याति पृथग्द्वयीम् । आपूर्थं पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीमुपागमत् ॥५२॥  
 तदामृतशान्नाधीशाः सहसाऽऽगत्य सर्वतः । कृत्वा निर्वाणकल्याणमवन्दिषत् तं जिनम् ॥५३॥

आर्या

निजित्य दशरथः स रिपून्तुपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा ।  
 धर्मः स पादु पापैर्धर्मा शुधि यस्य दशरथायन्ते ॥५४॥

मालिनी

निहतसकलघाती निश्चलाप्रावबोधो  
 गदितपरमधर्मो धर्मनामा जिनेन्द्रः ।  
 त्रितयतनुविनाशां शिमलः शर्मसारो  
 दिशतु सुखमनन्तं ज्ञान्तसर्वात्मको वः ॥५५॥

केवलज्ञान प्राप्त किया । देवोंने चतुर्थ कल्याणककी उत्तम पूजा की ॥४२-४३॥ वे अरिष्टसेनको आदि लेकर तैतालीस गणधरोंके स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पूर्वधारियोंसे आवृत थे, चालीस हजार सात सौ शिक्षकोंसे सहित थे, तीन हजार छह सौ तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार पाँच सौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाष्टद्विके धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, चार हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, दो हजार आठ सौ वादियोंके समूह उनकी वन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चौंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुव्रताको आदि लेकर बासठ हजार चार सौ आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थी, वे दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे आवृत थे, असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यचोंसे सेवित थे ॥४४-४९॥ इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ध्वजासे सुशोभित भगवान्ने धर्मका उपदेश दिया ॥५०॥ अन्तमें विहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्मेदशिखरपर पहुँचे और एक माहका योग निरोध कर आठ सौ नौ मुनियोंके साथ ध्यानारूढ़ हुए । तथा ज्येष्ठशुक्ला चतुर्थके दिन रात्रिके अन्त भागमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और न्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्ल-ध्यानको पूर्ण कर पुष्य नक्षत्रमें मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए ॥५१-५२॥ वही समय सब ओरसे देवोंने आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सव किया तथा वन्दना की ॥५३॥ जो पहले भवमें शत्रुओंको जीतनेवाले दशरथ राजा हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए दश धर्म पापोंके साथ युद्ध करनेमें दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान् तुम सबको रक्षा करें ॥५४॥ जिन्होंने समस्त धातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका केवलज्ञान अत्यन्त निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मल हैं, जो स्वयं अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं और जिन्होंने समस्त आत्माओंको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख प्रदान करें ॥५५॥

अस्मिन्नेवामवतीथ बलः श्रीमान् सुदर्शनः । केशवः सिंहशब्दान्तरुपः परिपङ्कलः ॥५६॥  
 तयोराख्यानकं वक्ष्ये मन्वत्रयसमाश्रयम् । इह राजगृहे राजा सुमित्रो नाम गवित् ॥ २७॥  
 महामल्लो बहून् जित्वा लब्धपूजः परीक्षकैः । तृणायमन्यमानोऽन्यायनाघदुष्टदन्तिवत् ॥५८॥  
 कदाचिद्राजसिंहाख्यः महोनाथो मदोद्धतः । तद्वर्षशातनायागात्तां पुरीं मल्लयुद्धवित् ॥५९॥  
 सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो निर्जितः सुचिराद्यथा । उत्खातदन्तदन्तीव तदास्थादतिदुःखितः ॥६०॥  
 मानमङ्गल भग्नः सन्नसौ राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान् सुतं राज्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥६१॥  
 कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा धर्मं यथोदितम् । प्रवत्राजातिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम् ॥६२॥  
 क्रमेणोन्नं तपः कुर्वन् सिंहनिःक्रीडितादिकम् । स्वपराजयसङ्केशादिति प्रान्ते व्यचिन्तयत् ॥६३॥  
 फलं चेदस्ति चर्चायास्तथा सोऽन्यत्र जन्मनि । मम स्तां विदिपो जेतुं महाबलपराक्रमौ ॥६४॥  
 तथैव संन्यस्याभूच्छ माहेन्द्रे सप्तसागर- । स्थितिदक्षिणं भोगान् भुञ्जानः सुखमास्थितः ॥६५॥  
 द्वीपेऽस्मिन् मन्दप्राचिं वीतशोकापुरं पतिः । नरादिवृषभो राजाऽजनि जातमहोदयः ॥६६॥  
 भुक्त्वा कोपद्वयापेतं राज्यमूर्जितलौक्यभाक् । सद्यः संजातनिर्वेदोऽस्यजदमवरान्तिके ॥६७॥  
 स घोस्तपसा दीर्घं गमयित्वाऽऽयुरात्मनः । सहस्रारं जगामाष्टदशसागरसंस्थितः ॥६८॥  
 फलं स्वानिमिषत्वस्य प्राप्यानारात्तलोकनात् । प्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुषः ॥६९॥  
 अस्मिन् खगपुराशीसिंहसेनमहोपतेः । इक्ष्वाकौर्विजयायाश्च तन्जोऽभूत्सुदर्शनः ॥७०॥

अथानन्तर इन्हीं धर्मनाथ भगवान्के तीर्थमें श्रीमान् सुदर्शन नामका बलभद्र तथा सभामें सबसे बलवान् पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ ॥५६॥ अतः यहाँ उनका तीन भवका चरित कहता हूँ । इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, वह बड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था, उसने बहुत मल्लोको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे—उसे पूज्य मानते थे, वह सदा दूसरोंको तृणके समान तुच्छ मानता था, और दुष्ट हाथीके समान मदोन्मत्त था ॥५७-५८॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जाननेवाला राजसिंह नामका राजा उसका गर्व शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥५९॥ उसने बहुत देर तक युद्ध करनेके वाद रंगभूमिमें स्थित राजा सुमित्रको हरा दिया जिससे वह दौत उखाड़े हुए हाथीके समान बहुत दुःखी हुआ ॥६०॥ मान भंग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा अतः उसने राज्यपर पुत्रको नियुक्त कर दिया सो ठीक ही है; क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण हैं ॥६१॥ निर्वेद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचार्यके पास पहुँचा और उनके द्वारा कहे हुए धर्मोपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥६२॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप किये तो भी उसके हृदयमें अपने पराजयका संक्षेप बना रहा अतः अन्तमें उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुझे ऐसा महान् बल और पराक्रम प्राप्त होवे जिससे मैं शत्रुओंको जीत सकूँ ॥६३-६४॥ ऐसा निदान कर वह संन्याससे भरा और माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी स्थितिवाला देव हुआ । वह वहाँ भोगोंको भोगता हुआ चिरकाल तक सुखसे स्थित रहा ॥६५॥ तदनन्तर इसी जन्मद्वीपमें मेरुपर्वतके पूर्वकी ओर वीतशोकापुरी नामकी नगरी है उसमें ऐश्वर्याशाली नरवृषभ नामका राजा राज्य करता था । उसने बाह्याभ्यन्तर प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दमवर मुनिराजके पास दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥६६-६७॥ अपनी विशाल आयु कठिन तपसे चिताकर वह सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ ॥६८॥ प्राणप्रिय देवगनाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया

१ महाबलो ग० । २ यथोचितम् ल० । ३ समस्तान् ल० । ४ पराक्रमे ल० । ५ हतशोकपुरीपतिः ग० । ६ सस्थितः क०, घ० । ७ फलं स्वनिमित्तवस्य ल० ।

अनिवकार्यां सुतोऽस्यैव सुमित्रः केशवोऽभवत् । पञ्चाब्धिधनुस्त्वैधी दशकक्षासमायुषी ॥७१॥  
 परस्परानुकूल्येन मतिरुपबलान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वान् स्वान् रज्यामासतुगुणैः ॥७२॥  
 अविमक्तापि दोषाय मुज्यमाना तयोर्भूत् । न लक्ष्मीः शुद्धचित्तानां शुद्धयं निखिलमप्यकम् ॥७३॥  
 अथाभूद्भारते क्षेत्रे विषये कुहजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुराधीशो मधुकीडो महीपतिः ॥७४॥  
 राजसिंहचरो लङ्घिताखिलारातिसंहतिः । असह्यैस्तौ समुद्यन्तौ तेजसा बलकेशवौ ॥७५॥  
 करं परार्थैरस्नानि याचित्वा प्राहिणोद्धृतौ । दण्डगर्भामिधानामिधालिनं सचिवाग्रिमम् ॥७६॥  
 तद्भवःश्रवणत्तौ च गजकण्ठरवश्रुतेः । कण्ठीरवौ वा संक्रुद्धौ रुद्ध्वाऽहर्षितितेजसौ ॥७७॥  
 क्रीडितुं याचते मूढो गर्भव्यालं जडः करम् । समीपवर्ती चेतस्य समवर्ते तु दीयते ॥७८॥  
 इत्युक्तवन्तौ तत्कोपकठोरोक्त्या स सत्वरम् । गत्वा तत्कार्यपर्यायमधुकीडमजिज्ञप्तम् ॥७९॥  
 सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा कोपारुणितविग्रहः । विग्रहाय सहैताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥८०॥  
 अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिन्नसत्स्य चक्रेण शिरः सद्यः स केशवः ॥८१॥  
 तौ त्रिलण्डाधिपत्येन लक्ष्मीमनुषभूवतुः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥८२॥  
 हलायुषोऽपि तच्छोकादमतीर्थकरं श्रितः । प्रव्रज्य प्रोद्द्युतावौचः प्राप्नोति स्म परं पदम् ॥८३॥

मालिनी

प्रतिहतपरसैन्यौ मानशौण्डौ प्रचण्डौ

फलितसुकृतसारी तावक्षण्डत्रिलण्डौ ।

और आयुके अन्तमें शान्तचित्त होकर इसी जन्म्यूद्धीपके खगपुर नगरके इक्ष्वाकुवंशी राजा सिंह-  
 सेनकी विजया रानीसे सुदर्शन नामका पुत्र हुआ ॥६९-७०॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी  
 दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ । वे दोनों भाई पैतालीस धनुष उँचे थे और दश  
 लाख वर्षकी आयुके धारक थे ॥७१॥ एक-दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप और बलसे सहित उन  
 दोनों भाइयोंने समस्त शत्रुओंपर आक्रमण कर आत्मीय लोगोंको अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया  
 था ॥७२॥ यद्यपि उन दोनोंकी लक्ष्मी अविमक्त थी—परस्पर बाँटी नहीं गयी थी तो भी उनके  
 लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए  
 सभी वस्तुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं ॥७३॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके कुरुजांगल देशमें एक हास्तिनापुर नामका नगर है । उसमें मधुकीड  
 नामका राजा राज्य करता था । वह सुमित्रको जीतनेवाला राजसिंहका जीव था । उसने समस्त  
 शत्रुओंके समूहको जीत लिया था, वह तेजसे बढते हुए बलभद्र और नारायणको नहीं सह सका  
 इसलिए उस बलवान्चने कर-स्वरूप अनेकों श्रेष्ठरत्न माँगनेके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमन्त्री भेजा  
 ॥७४-७६॥ जिसप्रकार हाथीके कण्ठका शब्द सुनकर सिंह क्रुद्ध हो जाते हैं उसीप्रकार सूर्यके  
 समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमन्त्रीके शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठे ॥७७॥ और कहने लगे  
 कि वह मूर्ख खेलनेके लिए साँपों-भरा हुआ कर माँगता है सो यदि वह पास आया तो उसके  
 लिए वह कर अवश्य दिया जावेगा ॥७८॥ इस प्रकार क्रोधसे वे दोनों भाई कठीर शब्द कहने लगे  
 और उस मन्त्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुकीडको इसकी खबर दी ॥७९॥ राजा मधुकीड भी उनके  
 दुर्वचन सुनकर क्रोधसे लाल शरीर हो गया और उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी सेना लेकर  
 चला ॥८०॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर-  
 काल तक उसके साथ युद्ध किया और अन्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीघ्र ही उसका शिर  
 काट डाला ॥८१॥ दोनों भाई तीन खण्डके अधीश्वर बनकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे ।  
 उनमें नारायण, आयुका अन्त होनेपर सातवें नरक गया ॥८२॥ उसके शोकसे बलभद्रने धर्म-  
 नाथ तीर्थकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली और पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया

किल खलविधिनैवं पश्य विद्वलेषितौ धिग्  
दुरितपरवशत्वं केशवस्यैव मोहात् ॥८५॥

वसन्ततिलका

प्रारभूमुजः (?) प्रथितराजगृहे सुमित्रो  
माहेन्द्रकल्पजसुरश्च्युतवाँस्ततोऽस्मिन् ।

भूपोऽभवत्खगपुरे पुरुषादिसिंहः  
पश्चात्स ससमसर्हो च जगाम भीमाम् ॥८५॥

प्रोहर्षदन्तितमनोऽजनि राजसिंहो  
आन्त्वा चिरं भववनेषु विनष्टमार्गः ।  
दृष्टानुमार्गंमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये  
क्रोडाक्षरान्तमधुराप गतिं दुरन्ताम् ॥८६॥

पृथ्वी

नरादिवृषभः पुरे विदितवीतशोके महीट्  
तपश्चिरमुपास्य घोरमभवत्सहस्रारके ।

ततः खगपुरे बलः क्षयितशत्रुपक्षोऽगमत्  
क्षमैकनिक्रयो त्रिलीनविक्रयः सुखं क्षायिकम् ॥८७॥

तत्तीर्थस्थान्तरे चक्री तृतीयो मघवानभूत् । आनुतीयभवात्तस्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥८८॥  
वासुपूज्यजिनेशस्य तीर्थेऽभू-नृपतिर्महान् । नाम्ना नरपतिर्भुक्त्वा भोगान् माग्यसमर्पितान् ॥८९॥  
वैराग्यकाष्ठामारुह्य कृतोत्कृष्टतपा च्यसुः । प्रैवेयकेऽभवत्पुण्यादहमिन्द्रेषु मध्यमे ॥९०॥  
सप्तविंशतिवाद्भ्यायुर्दिव्यभोगान्मनोहरान् । अनुभूय ततश्च्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरे ॥९१॥  
कोशले विपये रम्ये साकेतनगरीपतेः । इद्वाकोः स सुमित्रस्य भद्रायाश्च सुतोऽभवत् ॥९२॥  
मघवाक्षाम पुण्यात्मा भविष्यन् भरताधिपः । पञ्चलक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुषा ॥९३॥

॥८३॥ देखो, दोनों ही भाई शत्रुसेनाको नष्ट करनेवाले थे, अभिमानी थे, शूर-वीर थे, पुण्यके फल-  
का उपभोग करनेवाले थे, और तीन खण्डके स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कर्मके द्वारा अलग-  
अलग कर दिये गये । मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ इसलिए पापोंकी  
अधीनताको धिक्कार है ॥८४॥ पुरुषसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमित्र नामका  
राजा था, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर इस खगपुर नगरमें पुरुषसिंह नाम-  
का नारायण हुआ और उसके पश्चात् भयंकर सातवें नरकमें नारकी हुआ ॥८५॥ मधुक्रोड प्रति-  
नारायण पहले मद्दोन्मत्त हाथियोंको बश करनेवाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग-  
भ्रष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनमें भ्रमण करता रहा, तदनन्तर धर्ममार्गका अवलम्बन  
कर हस्तिनापुर नगरमें मधुक्रोड हुआ और उसके पश्चात् दुर्गतिको प्राप्त हुआ ॥८६॥ सुवर्दान  
बलभद्र, पहले प्रसिद्ध धीतशोक नगरमें नरवृषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तप-  
श्चरण कर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत कर खगपुर नगरमें शत्रुओंका पक्ष नष्ट  
करनेवाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमाका घर होता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको  
प्राप्त हुआ ॥८७॥

इन्ही धर्मनाथ तीर्थकरके तीर्थमें तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर  
उनका पुराण कहता हूँ ॥८८॥ श्रीवासुपूज्य तीर्थकरके तीर्थमें नरपति नामका एक बड़ा राजा था  
वह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा । अन्तमें  
पुण्योदयसे मध्यम प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ ॥८९-९०॥ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगों-  
को भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और धर्मनाथ तीर्थकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर

सार्द्धद्विचत्वारिंशत्पापोच्छ्रितः कनकद्युतिः । घटखण्डमण्डितां पृथ्वीं प्रतिपाल्य प्रतापवान् ॥१४॥  
 चतुदशमहारनभूषणो विधिनायकः । नृल्लेचरसुराधीशाज्जमयन् क्रमयोर्युगम् ॥१५॥  
 स्वोक्तप्रमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम् । दग्नाङ्गमोगान् भूयिष्ठान् सुनिष्ठितमनोरथः ॥१६॥  
 सुधीर्मनोहरोद्याने स कदाचिद्यदृच्छया । विलोक्याभयघोषाख्यं केवलावगमद्युतिम् ॥१७॥  
 त्रिःपरोत्थासिन्धवैर्न श्रुत्वा धर्मं तदन्तिके । विदित्रा तवसद्भावं विरज्य विषयेष्वलम् ॥१८॥  
 प्रियमित्राय पुत्राय दत्त्वा साम्राज्यसंपदम् । स बाह्याभ्यन्तरग्रन्थाँस्त्वयत्त्वा संयममाददौ ॥१९॥  
 शुद्धश्रद्धानचारित्रः श्रुतसंपत्समन्वितः । द्वितीयशुक्लध्यानेन घातित्रयविघातकृत् ॥१००॥  
 नवकेवलकल्मीको धर्मवद्धर्मदेशनात् । विनेयनायकान्नीत्वा निर्वाणपदवीं पराम् ॥१०१॥  
 ध्यानद्वयसमुन्मूर्छितावातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिर्माक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत् ॥१०२॥

### मालिनी

नरपतिरिह नाम्ना वासुपुत्र्यस्य तीर्थ

सशमगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महर्द्धिः ।

अभवद्विखलपुण्यश्चक्रवर्ती तृतीय-

स्तदनु च मघवास्तथो मुख्यसौख्यं समापत् ॥१०३॥

समनन्तरमेवास्य विनीतानगरेशिनः । नृपस्थानन्तवीर्यस्य सूर्यवंशशिखामणेः ॥१०४॥

सहदेव्याश्च संभूतः कहरादागत्य षोडशात् । सूनुः सनत्कुमाराख्यः प्रियश्चक्राङ्कितश्रियः ॥१०५॥

कक्षत्रयातुःपूर्वोक्तचक्रवर्तिसमुच्छ्रितः । चार्माकरच्छविः स्वेच्छावशीकृतवसुंधरः ॥१०६॥

देशकी अयोध्यापुरीके स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा सुमित्रकी भद्रारानीसे भगवान् नामका पुण्यात्मा पुत्र हुआ । यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा । उसने पाँच लाख वर्षकी कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की थी । साढ़े चालीस धनुष ऊँचा उसका शरीर था, सुवर्णके समान शरीरकी कान्ति थी । वह प्रतापी छह खण्डोंसे सुशोभित पृथिवीका पालन कर चौदह महारत्नोंसे विभूषित एवं नौ निधियोंका नायक था । वह मनुष्य, विद्याधर और इन्द्रोंको अपने चरण-युगलमें झुकाता था । चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणमें कही हुई—छयानवे हजार देवियोंके साथ इच्छानुसार दश प्रकारके भोगोंको भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था । किसी एक दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकस्मात् अभयघोष नामक केवली पधारै । उस बुद्धिमान्ने उनके दर्शन कर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंके सद्भावका ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंसे अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी विभूति प्रदान की और बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया ॥९१-९९॥ वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा निर्दोष चरित्रका धारक था, शास्त्रज्ञानरूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका विघात कर दिया था ॥१००॥ अब वे नौ केवललल्लिधियोंके स्वामी हो गये तथा धर्मनाथ तीर्थ-करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्राप्त कराने लगे ॥१०१॥ अन्तमें शुक्लध्यानके तृतीय और चतुर्थ भेदके द्वारा उन्होंने अघाति चतुष्कका क्षय कर दिया और पुण्य-पाप कर्मोंसे विनिर्मुक्त होकर अचिनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥१०२॥ तीसरा चक्रवर्ती मघवा पहले वासुपुत्र्य स्वामीके तीर्थमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे युक्त श्रेष्ठ चारित्रिके प्रभावसे बड़ी ऋद्धिका धारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यसे युक्त मघवा नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात् मोक्षके श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥१०३॥

अथानन्तर—मघवा चक्रवर्तीके वाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य वंशके शिरो-मणि राजा अनन्तवैर्यकी सहदेवी रानीके सोलहवें स्वर्गसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ । वह चक्रवर्तीको लक्ष्मीका प्रिय वल्लभ था ॥१०४-१०५॥ उसकी आयु तीन लाख वर्षकी

दशाङ्गभोगसंभोगयोगसंतर्पितेन्द्रियः । समर्थितार्थिसंकल्पाऽनल्पकल्परमहीरुहः ॥१०७॥  
 हिमवत्सागराघाटं महोमध्यमहीभुजात् । आधिपत्यं समातन्वन्नभृदधिकं श्रियम् ॥१०८॥  
 भ्रपात्येवं सुखेनास्य काले लौघर्मसंसदि । सनत्कुमारदेवेत्ररूपस्यास्त्यत्र जित्वरः ॥१०९॥  
 कोऽपीति देवैः संष्टः सौधर्मैन्द्रोऽन्नबीदिदम् । सनत्कुमारश्चक्रेशो वाहं सर्वाङ्गसुन्दरः ॥११०॥  
 स्वप्नेऽपि केनचित्तादृग्दृष्टपूर्वः कदाचन । नास्तीति तद्वचः श्रुत्वा सद्यः संजातकौतुकी ॥१११॥  
 द्वौ देवौ भुवमागत्य तद्द्रुपालोकनेच्छया । दृष्ट्वा त शक्रसंप्रोक्तं सत्यमित्यात्तसमदौ ॥११२॥  
 सनत्कुमारचक्रेशं निजागमनकारणम् । वोधयित्वा सुधोश्चक्रिन् शृणु चित्तं समादधत् ॥११३॥  
 यदि रोगजरारुःखस्यवो न स्युरत्र ते । सौन्दर्येण<sup>१</sup> त्वमत्रैवमतिशेषे जिनामपि ॥११४॥  
 इत्युक्त्वा तौ सुरी सूक्तं स्वधाम सहसा गतौ । कालकव्येव तद्वाचा प्रवृद्धो भूभुजां पतिः ॥११५॥  
 रूपयौवनसौन्दर्यसंपत्सौख्यादयो सृणाम् । विद्युह्यतावितानाच्च मन्ये प्रागेव नश्वरः ॥११६॥  
 इत्वरी. संपदस्यकत्वा जित्वरोऽहमिहैनसाम् । सत्वरं तनुमुज्जित्वा गत्वरोऽस्मीत्यकायताम् ॥११७॥  
 स्मरन् देवकुमाराख्ये सुते राज्यं नियोज्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुभिराददे ॥११८॥  
 पञ्चभिः सद्गुरैः पूज्यः पाकितेयादिपञ्चकः । षडावश्यकवश्यास्मानिहृद्रेन्द्रियसंततिः ॥११९॥  
 निश्चेत्. कृतभूवासो दन्तधावनवज्रितः । उत्थायैवैकदाभीजी स्फुरन्मूलगुणैरकम् ॥१२०॥

थी, और शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईके समान साढ़े व्यालीस धनुष थी । सुवर्णके समान कान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त पृथिवीको अपने अधीन कर लिया था ॥१०६॥ दश प्रकारके भोगके समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्तुष्ट हुई थीं । वह याचकोके संकल्पको पूर्ण करनेवाला मानो बड़ा भारी कल्पवृक्ष ही था ॥१०७॥ हिमवान् पर्वतसे लेकर दक्षिण समुद्र तककी पृथिवीके बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ वह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था ॥१०८॥

इस प्रकार इधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सौधर्म इन्द्रकी सभामें देवोंने सौधर्मैन्द्रसे पूछा कि क्या कोई इस लोकमें सनत्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधर्मैन्द्रने उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वांग सुन्दर है । उसके समान रूपवाला पुरुष कभी किसीने स्वप्नमें भी नहीं देखा है । सौधर्मैन्द्रके वचन सुनकर दो देवोंको कौतूहल उत्पन्न हुआ और वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे पृथिवीपर आये । जब उन्होंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको देखा तब 'सौधर्मैन्द्रका कहना ठीक है' ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्षित हुए ॥१०६-११२॥ उन देवोंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको अपने आनेका कारण बतलाकर कहा कि हे युद्धिन्मन् ! चक्रवर्तिन् ! चित्तको सावधान कर सुनिए—यदि इस संसारमें आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना न हो तो आप अपने सौन्दर्यसे तीर्थंकरको भी जीत सकते हैं ॥११३-११४॥ ऐसा कहकर वे दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थानपर चले गये । राजा सनत्कुमार उन देवोंके वचनोंसे ऐसा प्रतिलुब्ध हुआ मानो काललब्धिने ही आकर उसे प्रतिलुब्ध कर दिया हो ॥११५॥ वह चिन्तन करने लगा कि मनुष्योके रूप, यौवन, सौन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि विजली रूप लताके विस्तारसे पहले ही नष्ट हो जानेवाले हैं ॥११६॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंको जीतनेवाला बँवूंगा और शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होऊँगा ॥११७॥ ऐसा विचारकर उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनैन्द्रके समीप अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली ॥११८॥ वे अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंसे पूज्य थे, ईर्ष्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, छह आवश्यकताओंसे उन्होंने अपने-आपको बश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्ततिको रोक लिया था, बखला त्याग कर रखा था, वे पृथिवीपर शयन करते थे, कभी दातौन नहीं करते थे; खड़े-खड़े एक वार भोजन करते थे । इस प्रकार अट्ठाईस मूलगुणोंसे अत्यन्त शोभायमान थे ॥११९-

त्रिकालयोगवीरासनैकपाश्चादिभाषितैः । उत्तरैश्च गुणैर्नित्यं यथायोग्यं समाचरन् ॥१२१॥  
क्षमावान् क्षमाविभागो वा वारि वा श्रितलापजुन् । गिरीश इव निःक्रम्यो निःसंगः परमाणुवत् ॥१२२॥  
निलोपोऽम्बुदमार्गो वा गम्भीरो वाऽऽपगापतिः । शशीव सर्वसंह्लादी भानुमानिव भास्वरः ॥१२३॥  
वाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः सुधौतकलधौतवत् । आदर्शवत्समादर्शां संकोची कूर्म रंनिभः ॥१२४॥  
अहिर्वा इवाकृतावासः कगीवाशब्दध्यानकः । शृगालवत्पुरालोकी स शूरो राजसिंहवत् ॥१२५॥  
सदा विनिद्रो मृगवत्सोढाशेषपरीषहः । उपसर्गसहो विक्रियाद्युक्तविविधधृक्कः ॥१२६॥  
क्षपकश्रेणिमारुह्य ध्यानद्वयसुसाधनः । घातिकर्माणि निर्धूय कैवल्यमुदपादयन् ॥१२७॥  
पुनर्विहृत्य सद्धर्मदेशनाद्विषयान् बहून् । विनेयान् सुक्तिसन्मार्गं दुर्गं दुर्मार्गवर्तिनाम् ॥१२८॥  
पद्मादान्तमुहूर्ताद्युर्योगं रुद्ध्वा शिभेदकम् । सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापनोक्षमक्षयम् ॥१२९॥

घसन्ततिलका

जित्वा जिनेन्द्रवपुपेन्द्रसनत्कुमार-

भाक्रम्य विक्रमवलेन दिशां च चक्रम् ।

चक्रण धर्मविहितेन हताघचक्रो

दिव्यात्स वः श्रियमिहाञ्जु सनत्कुमारः ॥१३०॥

इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतो त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थकर-सुदर्शन-पुरुषसिंहमनु-  
क्रोडमघवत्सनत्कुमारपुराणं परिसमाप्तम् एकवष्टितमं पर्व ॥६१॥



१२०॥ तीन कालमें योगधारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना आदि आखीमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे ॥१२१॥ वे पृथिवीके समान क्षयाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्तापको दूर करते थे, पर्वतके समान अकम्प्य थे, परमाणुके समान निःसंग थे, आकाशके समान निर्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, चन्द्रमाके समान सबको आह्लादित करते थे, सूर्यके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवर्णके समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दर्पणके समान समदर्शी थे, कलुषके समान संकोची थे, साँपके समान कहींअपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथीके समान चुपचाप गमन करते थे, शृगालके समान सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शूरवीर थे और हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते थे । उन्होंने सब परिषह जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और विक्रिया आदि अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं ॥ १२२-१२६ ॥ उन्होंने क्षपकश्रेणीपर आरूढ होकर दो शुक्लध्यानोके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया था ॥१२७॥ तदनन्तर अनेक देशोंमें विहार कर अनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया और कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंके लिए दुर्गम मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया ॥ १२८ ॥ जब उनकी आयु अन्तमुहूर्तकी रह गयी तब तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होनेवाला अधिनाशी मोक्षपद प्राप्त किया ॥१२९॥ जिन्होंने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने अपने पराक्रमके बलसे दिशाओंके समूहपर आक्रमण किया और धर्मचक्र-द्वारा पापोंका समूह नष्ट किया वे श्रीसनत्कुमार भगवान् तुम सबके लिए गीत्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० ॥ इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें तीर्थकर, सुदर्शन बलमद्र, पुरुषसिंह नारायण, मनुक्रीड प्रतिनारायण, मधवा और सनत्कुमार चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६१॥

१ गि न्द्र क०, घ० । २ आकाश इव । ३ भास्कर. ल० । ४ अहिर्वा स्वकृता ल० ।



## द्विषष्टितमं पर्व

ब्रुवा सपर्ययं सर्वं बोध्याभावान्नवच्छिदः । यस्यावबोधो विश्रान्तः स शान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥ १ ॥  
 चतुश्रोतृकथाभेदान् चर्णयित्वा पुरा ब्रुवः । पश्चाद्दर्शकथां ब्रूयाद् गम्भीरार्थं यथार्थकम् ॥ २ ॥  
 विद्वत्सं सचचरित्रत्वं दयालुत्वं प्रगल्भता । वाक्सौभाग्येद्भित्तज्ञत्वे प्रज्ञक्षोदसहिष्णुता ॥ ३ ॥  
 सौमुख्यं लोकविज्ञानं ह्यथातिपूजाद्यवीक्षणम् । मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरि ॥ ४ ॥  
 तत्त्वज्ञेऽप्यपचारित्रे वक्तव्यैतरकथं स्वयम् । न चरेदिति तत्प्रोक्तं न गृह्णन्ति प्रयग्जनाः ॥ ५ ॥  
 सत्चारित्र्येऽप्यशास्त्रज्ञे वक्तव्यैल्पश्रुतोद्धता- । सहासयुक्तं सम्मार्गं विद्वधत्यवधारणाम् ॥ ६ ॥  
 विद्वत्त्वसचचरित्रत्वे मुख्यं वक्तारि लक्षणम् । अबाधितस्वरूपं वा जीवस्य ज्ञानदर्शने ॥ ७ ॥  
 युक्तमेतदयुक्तं चेत्युक्तं सम्यग्विचारयन् । स्थाने कुर्वन्नुपाकम्भं भक्त्या सूक्तं समाददन् ॥ ८ ॥  
 असारप्रग्रहीतार्थविशेषाविहितादर । अहस-स्खलितस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥  
 संसारभीरुप्रोक्तवारणपरायण । शुकमृदंसंश्रोकगुणः श्रोता निराशते ॥ १० ॥  
 जीवाजीवादिनस्वार्थो यत्र सम्यग्विनिरूप्यते । तनुसंस्तुतिभोगेषु निर्वेदव हितैषिणाम् ॥ ११ ॥  
 दानपूजातपःशीलविशेषाश्च विशेषतः । बन्धमोक्षौ तयोर्हेतुफले वाऽऽश्रुतां पृथक् ॥ १२ ॥  
 घटाभट्टति युक्त्यैव सदसत्त्वादिरूपना । ह्यता प्राणिदया यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥

संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवान्को ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्रव्योंको जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान् तुम सबकी शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान् पहले वक्ता, श्रोता तथा कथाके भेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर अर्थसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥२॥ विद्वान् होना, श्रेष्ठ चारित्र धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान् होना, बोलनेमें चतुर होना, दूसरोंके झगारेको समझ लेना, प्रश्नोंके उपद्रवको सहन करना, मुख अच्छा होना, लोकव्यवहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजाकी अपेक्षा नहीं रखना और थोड़ा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश देनेवालेके गुण हैं ॥३-४॥ यदि वक्ता तत्त्वोंका जानकार होकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको ग्रहण नहीं करेंगे ॥५॥ यदि वक्ता सम्यक् चारित्रसे युक्त होकर भी शास्त्रका ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़े-से शास्त्र-ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योंके हास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन मोक्षमार्गकी हँसी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीवका अबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्वत्ता और सचचरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है ॥७॥ 'यह योग्य है ? अथवा अयोग्य है ?' इस प्रकार कही हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता हो, अवसरपर अयोग्य बातके दोष कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिसे ग्रहण करता हो, उपदेश-श्रवणके पहले ग्रहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल हो जानेपर जो हँसी करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान् हो, संसारसे डरनेवाला हो, कहे हुए वचनोंको धारण करनेमें तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हँसके गुणोंसे सहित हो वह श्रोता कहलाता है ॥ ८-१०॥ जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थोंका अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छु मनुष्योंको शरीर, संसार और भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कर या जाता हो, दान, पूजा, तप और शीलकी विशेषताएँ विशेषताके साथ बतलायी जाती हो, जीवोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और फलोंका पृथक्-पृथक् वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत् और असत्की कल्पनाशुक्तिसे की जाती हो, जहाँ माताके समान हित करनेवाली दयाका खूब वर्णन हो, और जिसके सुननेसे प्राणी सर्वपरि

१ ह्यथातिपूजाद्यवीक्षणम् ल० । २. मव्यः किं कुशल ममेति विमृगन् दुःखाद्भूयं भोतिमान् सीत्येवो श्रवणादिवृद्धिविभवः श्रुत्या विचार्यै स्फुटम् । धर्म शर्मकरं दयागुणमयं युवत्यागमाभ्या स्थित गृह्णन् धर्मकथां श्रुत्वाविकृतः शास्थो निरस्ताग्रहः ॥ ७ ॥ आत्मानुशासने गुणमद्रस्य । ३. पशु क० ग० घ० ।

सर्वसंगपरित्यागाद्यत्र यान्ययङ्गिनः शिवम् । तत्रवधर्मकथा सा स्यात्प्रान्ना धर्मकथापरा ॥ १४ ॥  
 एवं पृथग्विनिर्दिश्य वक्त्राद्भ्रयलक्षणम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्तीशचरितं महत् ॥ १५ ॥  
 अध्यास्य द्वीपनाथस्य जम्बूद्वीपमहीपतेः । ऊवणाम्मोधिनीलाम्भो लसद्विपुलवाससः ॥ १६ ॥  
 वक्त्रलीलां दधद्राष्ट्रममोष्टं भरलाह्वयम् । षट्खण्डमण्डित वाङ्मिहिसवन्मध्यसंश्रितम् ॥ १७ ॥  
 भोगभूभूतभोगादिदृशाङ्गश्चक्रिणामपि । तत्र तीर्थकृतां वैश्यं सिद्धिश्चाघातिसंश्रयात् ॥ १८ ॥  
 तस्मात्तत्राकलोकश्च वरिष्ठं वपुर्नै लुपै । ऐरावतसमं वृद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात् ॥ १९ ॥  
 मध्ये तस्य गिरिर्माति भरताद्विभागकृत् । पूर्वापरायतस्तुक्को यशोराशिरिवोञ्जवः ॥ २० ॥  
 सर्वलोकजयाज्ञाततोषाया वसुधास्त्रियः । पुञ्जीभूतः प्रहासो वा राजते राजदाचलः ॥ २१ ॥  
 सफला सर्वदा वृष्टिर्ममोपरि न जातुचिन्त् । युष्माकमिति सौलेन्द्रान् हसतीव स्वतेजसा ॥ २२ ॥  
 चट्टरमावे कुटिले जलादये जलधिप्रिये । गुहास्थादिति नवीं योऽवमोदिति जगुप्सया ॥ २३ ॥  
 देवविद्याधरैः सेव्यः सदा स्वाश्रयवर्तिभिः । सर्वेन्द्रियसुखस्थानमेध चक्रिणमन्वगात् ॥ २४ ॥  
 अपाच्यां चक्रवालात्तं पूःश्रेण्यां रथनूपुरम् । सचलाकमिव व्योम कुर्वती तत्र वेत्तुमिः ॥ २५ ॥  
 वेष्टिता रत्नशालेन या पयोधरशुम्बिना । रत्नवेदिकयेवेयं जम्बूद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥  
 बद्धंने यत्र धर्मार्थकामाः सहर्षणादिव । यस्यां दरिद्रशब्दस्य बहिरङ्गाभिनिह्वतिः ॥ २७ ॥

प्रहका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हो वह तत्त्वधर्म कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्म-  
 कथा भी है ॥ ११-१४ ॥ इस प्रकार वक्ता, श्रोता और धर्मकथाके पृथक्-पृथक् लक्षण कहे ।  
 अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवान्का विस्तृत चरित्र कहता हूँ ॥ १५ ॥

अथानन्तर—जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है और लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके  
 बड़े शोभायमान वस्त्र हैं ऐसे जम्बूद्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाको धारण करनेवाला, छह  
 खण्डोंसे सुशोभित, लवणसमुद्र तथा हिमवान् पर्वतके मध्यमें स्थित भरतनामका एक असीष्ट क्षेत्र  
 है ॥ १६-१७ ॥ वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भोग,  
 तीर्थकरोंका ऐश्वर्य और अधातिया कर्मोंके भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती  
 है इसलिए विद्वान् लोग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हैं । उस क्षेत्रमें ऐरावत क्षेत्रके समान  
 वृद्धि और हासके द्वारा परिवर्तन होता रहता है ॥ १८-१९ ॥ उसके ठीक बीचमें भरतक्षेत्रका  
 आधा विभाग करनेवाला, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्थ पर्वत सुशोभित होता  
 है जो कि उज्ज्वल यशके समूहके समान जान पड़ता है ॥ २० ॥ अथवा चाँदीका बना हुआ वह  
 विजयार्थ पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे सन्तोष उत्पन्न हुआ है  
 ऐसी पृथिवीरूपी स्त्रीका झुकड़ा हुआ मानो हास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि  
 सदा सफल होती है और तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार  
 वह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पर्वतकी मानो हँसी ही करता रहता है ॥ २२ ॥ ये नदियाँ चंचल  
 स्वभाववाली हैं, कुटिल हैं, जलसे (पक्षमे जड़-मूर्खोंसे) आढ्य-सहित हैं, और जलधि-समुद्र  
 (पक्षमें जड़धि-मूर्ख) को प्रिय हैं इसलिए घृणासे ही मानो उसने गंगा-विन्धु इन दो नदियोंको  
 अपने गुहारूपी मुखसे वमन कर दिया था ॥ २३ ॥ वह पर्वत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था  
 क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंके द्वारा सदा सेव-  
 नीय होता है और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने-अपने  
 आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंसे सदा सेवित था और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान  
 था ॥ २४ ॥ उस विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो  
 अपनी पताकाओंसे आकाशको मानो बलाकाओंसे सहित ही करती रहती है ॥ २५ ॥ वह मेघों-  
 को चूमनेवाले रत्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्नकी वेदिका-  
 से घिरी हुई जम्बूद्वीपकी भूमि ही हो ॥ २६ ॥ वहाँ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्षसे  
 बढ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं दिखाई देता था—सदा छिपा रहता था

प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुर्गम । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरैर्वावमासते ॥ २८ ॥  
 अशोकभूषणा यत्र न सन्ति कुलयोषितः । वाचो जिनेन्द्रविद्यायासिवाचारित्रदेशिकाः ॥ २९ ॥  
 ज्वलनादिजटी तस्याः पतिः खगपतिः कृती । मणीनामिव वाराशिर्गुणिनामाकरोऽभवत् ॥ ३० ॥  
 प्रतापाद्विषो यस्य मन्त्रुर्वाकस्य पल्लवा । वृष्ट्याऽवर्द्धन्त वल्लर्था वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥  
 तेन स्थाने यथाकालं शालयो वा लुथोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्राफलन् बहुभोगतः ॥ ३२ ॥  
 अतीतान् विश्वभूषेशान् संख्याभेदानिवोत्तर । गुणस्थानकंवृद्धिभ्यां विजित्य स महानभूत् ॥ ३३ ॥  
 उभयायत्तसिद्धित्वाद् द्वैवपौरुषयोगत । कोरद्वयव्यपेतत्वाचन्त्रावापविमर्शनात् ॥ ३४ ॥  
 शक्तिसिद्धयनुगामित्वाद्योगक्षेमसमागमात् । षड्गुणानुगुणत्वाच्च तद्गाम्युदितोदितम् ॥ ३५ ॥  
 तिलकान्गदिवीत्यासीत्पुरं तत्र महीपतिः । चन्द्रामस्तप्रिया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥  
 वायुवेगा जितशेषवेगविद्याधराधिपा । स्ववेगविद्यया प्रोक्षद्विद्युदुद्योतजिद्युतिः ॥ ३७ ॥  
 तस्य त्रिवर्गनिष्पत्त्यै सा विश्वगुणभूषणा । भूता पुरुषकारस्य सदैवस्येव शोभुषी ॥ ३८ ॥  
 प्रतिपच्चन्द्ररेखेव सा सर्वजनसंस्तुता । द्वितीयेव धराक्ता भोग्या तेन स्वपौरुषात् ॥ ३९ ॥  
 लक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यधायि विविधद्विका । तत्प्रमप्रेरणान्तेन वालभ्ये न करोति किम् ॥ ४० ॥

॥२७॥ जिस प्रकार अन्य मतावलम्बियोंके लिए दुर्गम-कठिन प्रमाण, नय, निक्षेप और अनु-योग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोंकी परीक्षा सुशोभित होती है उसी प्रकार शत्रुओंके लिए दुर्गम-दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोंसे वह नगरी सुशोभित हो रही थी ॥२८॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की विद्यामें अचारित्र—असंयमका उपदेश देनेवाले वचन नहीं है उसी प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलवती स्त्रियाँ नहीं थीं ॥ २९ ॥ ज्वलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका आकर-खान समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योंका आकर था ॥३०॥ जिस प्रकार सूर्यके प्रतापसे नये पत्ते मुरझा जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरझा जाते थे—कान्तिहीन हो जाते थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उनकी नीतिसे प्रजा सफल होकर बढ़ रही थी ॥३१॥ जिस प्रकार यथासमय यथास्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा यथासमय यथास्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते थे ॥३२॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्याओंसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह राजा पिछले समस्त राजाओंको अपने गुणों और स्थानोंसे जीतकर बड़ा हुआ था ॥ ३३ ॥ उसकी समस्त सिद्धियों देव और पुरुषार्थ दोनोंके अधीन थीं, वह मन्त्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा आदि बाह्य प्रकृतिके क्रोधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति और प्रभुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होनेवाली तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सदा योग और क्षेमका समागम होता रहता था, साथ ही वह सन्धि विग्रह यान आदि छह गुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिये उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही रहता था ॥ ३४-३५ ॥

उसी विजयार्थ पर घृतिलक नामका दूसरा नगर था । राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा थी । उन दोनोंके वायुवेगा नामकी पुत्री थी । उसने अपनी वेगविद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंको जीत लिया था । उसकी कान्ति चमकती हुई बिजलीके प्रकाशको जीतनेवाली थी ॥३६-३७॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्यकी बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह वायुवेगा राजा ज्वलनजटीकी त्रिवर्गसिद्धिका कारण हुई थी ॥३८॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान वह सब मनुष्योंके द्वारा स्तुत्य थी । तथा अनुरागसे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान वह अपने ही पुरुषार्थसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी ॥३९॥ वायुवेगाके प्रेमकी

कौकीन्यादनुस्त्वद्वाद्भूसैरुपतिः सती । भूपतेश्चैकमार्यत्वं प्रेमाभिन्वाजगुर्जनाः ॥४३॥  
 रूपादिगुणलपत्तिस्त्वस्या किं कथ्यते पृथक् । तस्य चैच्छक्रवच्छर्वां तस्यां प्रीतिरमातुपी ॥४२॥  
 दयावबोधयोर्भोक्ष ह्य सुनुस्तयोरभूत् । अर्ककीर्तिः स्वकीर्त्याभाप्रमासितजगत्प्रय ॥४३॥  
 नीतिविक्रमबोर्लक्ष्मीरिव सर्वमनोहरा । स्वयंप्रभाभिधानाऽऽसीत्प्रभेव विभुता सह ॥४४॥  
 मुखेनाम्भोजमक्षिम्यामुत्पलं मणिदर्पणम् । त्रिधा कान्त्या विभुं क्षिरया वभौ सा भ्रूपताकया ॥४५॥  
 उत्पलं चौचनं तस्यां लतिकार्यां प्रसूनवत् । खगकामिषु पुष्पेषुश्चरन्तीत्यापितः सा ॥४६॥  
 आपाङ्गुगण्डमाभासिक्वत्रलोलविलोचना । मध्याङ्गकाश्यंसंभूतसंक्रान्त्येव स्वयंप्रभा ॥४७॥  
 तन्व्या रोमावली तन्वी हनिनीकरुचिर्न्यभात् । आरुरुक्षुरिवोद्धत्या तुङ्गपीनघनस्तनी ॥४८॥  
 अनालीढमनोजापि व्यक्ततद्विक्रमेव सा । संपन्नयौवनैव जनानामगमद्दशम् ॥४९॥  
 अयान्येद्युर्वाचमन्नामिनन्दनचारणी । स्थितौ मनोहरोद्याने ज्ञात्वा पतिनिवेदकात् ॥५०॥  
 चतुरङ्गबलोपेतः सपुत्रोऽन्तःपुरावृतः । गत्वाऽभिनन्द्य सद्धर्मश्रवणानन्तरं परम् ॥५१॥  
 सम्यग्दर्शनसादाय दानशीलादि वादरात् । प्रगम्य चारणी मक्त्या प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम् ॥५२॥  
 स्वयंप्रभापि सद्धर्मं तत्रादायै रुदा मुदा । पर्वोपजातप्रखलानतनुरभ्यर्च्य बार्हतः ॥५३॥

प्रेरणासे ज्वलनजटीने अनेक ऋद्धियोंसे युक्त राजलक्ष्मीको उसका परिकर—दासी बना दिया था सो ठीक ही है क्योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥४०॥ बड़े कुलमें उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पतिव्रताके एक पतिव्रत था और प्रेमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीव्रत था ऐसा लोग कहते हैं ॥४१॥ जिस प्रकार इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमें ज्वलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोंका पृथक्-पृथक् क्या वर्णन किया जावे ॥४२॥ जिस प्रकार दया और सम्यग्ज्ञानके मोक्ष होता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिके प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४३॥ जिस प्रकार नीति और पराक्रमके लक्ष्मी होती है उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो अर्ककीर्तिके साथ इस प्रकार बढने लगी जिस प्रकारकी चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बढती है ॥४४॥ यह मुखसे कमलको, नेत्रोंसे उत्पलको, आभासे मणिमय दर्पणको और कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भौंहरूप पताका ही फहरा रही हो ॥४५॥ लतामें फूलके समान ज्यों ही उसके शरीरमें यौवन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी विद्याधरोमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया ॥४६॥ कुछ-कुछ पीले और सफेद कपोलोंकी कान्तिसे सुशोभित मुखमण्डलपर उसके नेत्र बड़े चंचल हो रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके दृढ जानेके भयसे ही नेत्रोंको चंचल कर रही हो ॥४७॥ उस दुबली पतली स्वयंप्रभाकी इन्द्रनील मणिके समान कान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उल्लकर ऊँचे स्थूल और निचिड़ स्तनोंपर चढना ही चाहती हो ॥४८॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यौवनसे ही वह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई—सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर हो रही थी ॥४९॥

अयानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन और नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनि-राज मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनके आगमनकी खबर देनेवाले वनपालसे यह समाचार जानकर राजा चतुरंग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनके समीप गया । वहाँ बन्दना कर उसने श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यग्दर्शन तथा दान शील आदि व्रत ग्रहण किये, तदनन्तर भक्तिपूर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंको प्रमाण कर वह नगरमें वापस आ गया ॥५०-५२॥ स्वयंप्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया । एक दिन उसने पर्वके समय

तत्पादपङ्कनश्लेषापवित्रां पापहां स्रजम् । चित्रां पित्रेऽदित द्वाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥५४॥  
 तामादाय महीनाथो भक्त्यापद्मयस्त्रयं प्रमाम् । उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसृज्य ताम् ॥५५॥  
 यौवनापूर्णसर्वाङ्गरमणीया प्रियात्मजा । कस्मै देयेयमित्येवमात्मन्येव वितर्कयन् ॥५६॥  
 मन्त्रिवर्गं समाहूय प्रस्तुताथं न्यवेदयत् । श्रुत्वा तत्सुश्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चितम् ॥५७॥  
 अमुग्मिन्सुत्तरश्रेण्यालकास्थयापुरेशितु । मयूरग्रीवसंज्ञस्य प्रिया नीलात्मजा तयोः ॥५८॥  
 अश्वग्रीवोऽग्रिमो नीलरथः कण्ठान्तनीलसु । वज्राख्यातास्त्रयः सर्वेऽप्यश्ववन् पञ्च स्रजवः ॥५९॥  
 अश्वग्रीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयोः । ते ग्रीवाङ्गदचूडान्तरः रत्नरथादिभिः ॥६०॥  
 शतानि पञ्च मन्त्र्यस्य हरिश्मश्रुः श्रुताम्बुधिः । शतविन्दुश्च नैमित्तिकोऽष्टाङ्गनिपुणो महान् ॥६१॥  
 इति सम्पूर्णराजशय खगश्रेणीद्वयेक्षिते । अश्वग्रीवस्य दातव्या कन्येत्येतद्विचारयन् ॥६२॥  
 अस्त्येव सुश्रुताख्यातं सर्वमित्यवनीपतिम् । इदं बहुश्रुतोऽबोचदुत्तरं स्वमनोगतम् ॥६३॥  
 स्वामिजाप्यमरोगत्वं वयः शीलं श्रुतं वपुः । लक्ष्मीः पञ्चः परीवारो वरं नव गुणाः स्मृताः ॥ ६४॥  
 अश्वग्रीवे त एतेऽपि सन्ति किन्तु चयोऽधिकम् । तस्मात्कोऽपि वरोऽप्योऽस्तु सवयास्तदगुणान्वितः ॥६५॥  
 राजा सिंहरथः स्यातः पुरं गगनवल्लभे । पर पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिपत् ॥६६॥  
 अरिजयाख्यस्त्रिपुरे खगेशो ललितान्गदः । कनकादिरथो विद्याकुशलोऽश्वपुरेश्वरः ॥६७॥  
 महा-लपुरे विश्वलगार्धं शो धनंजयः । कन्यैप्येकतमाथेयं दातव्येति विनिश्चितम् ॥६८॥  
 अवधार्यं वचस्तस्य विचार्यं श्रुतसागरः । स्मृतिचक्षुरिमां वाचं व्याजहार मनोहराम् ॥६९॥

उपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ श्लान हो गया । उसने अर्हन्त भगवान्की पूजा की तथा उनके चरण-क्रमलोकें सम्पर्कसे पवित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयसे झुककर दोनों हाथोंसे पिताके लिए दी ॥५३-५४॥ राजाने भक्तिपूर्वक वह माला ले ली और उपवाससे थकी हुई स्वयम्भ्राकी ओर देख, 'जाओ पारणा करो' यह कह उसे विदा किया ॥५५॥ पुत्रीके चले जानेपर राजा मन-ही-मन विचार करने लगा कि जो यौवनसे परिपूर्ण समस्त अंगोंसे सुन्दर हैं ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए ॥५६॥ उसने उसी समय मन्त्रिवर्गको बुलाकर प्रकृत बात कही, उसे सुनकर सुश्रुत नामका मन्त्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्चय कर बोला ॥५७॥ कि इसी विजयार्थकी उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीके राजा मयूरग्रीव हैं, उनकी स्त्रीका नाम नीलात्मजा है, उन दोनोंके अश्वग्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुकण्ठ और वज्रकण्ठ नामके पाँच पुत्र हैं । इनमें अश्वग्रीव सबसे बड़ा है ॥५८-५९॥ अश्वग्रीवकी स्त्रीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोंके रत्नग्रीव, रत्नांगद, रत्नचूड तथा रत्नरथ आदि पाँच सौ पुत्र हैं । शास्त्रज्ञानका सागर हरिश्मश्रु इसका मन्त्री है तथा शतविन्दु निमित्तज्ञानी है—पुरोहित है जो कि अष्टांग निमित्तज्ञानमें अतिशय निपुण है ॥६०-६१॥ इस प्रकार अश्वग्रीव सम्पूर्ण राज्यका अधिपति है और दोनों श्रेणियोंका स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिए ॥६२॥ इसके बाद सुश्रुत मन्त्रीके द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मन्त्री राजासे अपने हृदयकी बात कहने लगा । वह बोला कि सुश्रुत मन्त्रीने जो कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नांकित बात विचारणीय है । कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रुत, शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार, घर के ये नौ गुण कहे गये हैं । अश्वग्रीवमें यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्याके समान हो और गुण अश्वग्रीवके समान हों, खोजना चाहिए ॥६३-६४॥ गगनवल्लभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है, चित्रपुरका स्वामी अरिजय है । त्रिपुरनगरमें विद्याधरोंका राजा ललितान्गद रहता है, अश्वपुरका राजा कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल है, और महारत्नपुरका राजा धनंजय समस्त विद्याधरोंका स्वामी है । इनमें-से किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिए, यह निश्चय है ॥६६-६८॥ बहुश्रुतके

कुलारोग्यवयोरूपाद्युमेवाय यदीदृश्यते । दातुं कन्या मया किंचिदुच्यते श्रूयतां मनाक् ॥ ७० ॥  
 पुरं सुरेन्द्रकान्तारमुद्रकश्रेण्यां तदीदृश्वरः । मेघवाहननामास्य प्रियाभून्मेघमालिनी ॥ ७१ ॥  
 तयोर्विद्युत्प्रभः ससुज्योतिर्मालामला सुना । खगाधीशो ननन्दाभ्यामिवाद्येन धिया च सः ॥ ७२ ॥  
 सिद्धकूटमगास्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र दृष्ट्वाऽवधिज्ञानं वरधर्माल्यचारणम् ॥ ७३ ॥  
 वनिवृत्वा धर्ममाकर्ण्य स्वसुनो प्राक्तनं भवम् । पप्रच्छ शृणु विद्यामृतप्रणिधायेति सोऽब्रवीत् ॥ ७४ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । पुरी प्रमाकरो राजा नन्दनः सुन्दराकृतिः ॥ ७५ ॥  
 सूचुर्विजयभद्रोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फलितं चूतं वने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥  
 विफलं तत्समुद्रभूतवैराग्यः पिहिताश्रवात् । गुरो सहस्रैर्भूपादैश्चतुर्भिः संयमं ययौ ॥ ७७ ॥  
 शान्ते माहेन्द्रकवरेऽभूद्भिमाने चक्रकाह्वये । सप्तान्विजीवितो दिव्यभोगात्तन्त्रान्वभूच्चिरम् ॥ ७८ ॥  
 ततः प्रच्युत्य ससुस्तेऽजायतायं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छ्रुत् ॥ ७९ ॥  
 तस्मै वरगुणैः सर्वैः पूर्णायैयं प्रदीयताम् । ज्योतिर्माळां च गृह्णीमः सपुण्यामर्ककीर्तये ॥ ८० ॥  
 इति तद्भ्रमं श्रुत्वा सुमतिर्मतिमत्तमः । कन्यां संप्रार्थयन्तेऽमी खगाधीशा पृथक् पृथक् ॥ ८१ ॥  
 तस्मात्तस्मै प्रदातव्या बहुवैरं भवेत्ततः । स्वयंवरविधिः श्रेयानित्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥  
 तदेवानुमत्तं सर्वैस्ततः-संपूज्य मन्त्रिण । विसर्ज्य खेचराधीशः संभिन्नश्रोत्रसंश्रमम् ॥ ८३ ॥

वचन हृदयमें धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रुत नामका तीसरा मन्त्री निम्नांकित मनोहर वचन कहने लगा ॥६६॥ यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदिसे सहित वरके लिए कन्या देना चाहते हो तो मैं कुछ कहता हूँ उसे थोड़ा सुनिए ॥७०॥

इसी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका नाम मेघवाहन है । उसके मेघमालिनी नामकी बल्लभा है । उन दोनोंके विद्युत्प्रभ नामका पुत्र और ज्योतिर्माळा नामकी निर्मल पुत्री है । खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा समृद्धिमान् सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धिसे होता है । अर्थात् पुत्र पुण्यके समान था और पुत्री बुद्धिके समान थी ॥ ७१-७२ ॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट गया था । वहाँ वरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणकृद्विधारी मुनिकी वन्दना कर उसने पहले तो धर्मका स्वरूप सुना और बादमें अपने पुत्रके पूर्व भव पूछे । मुनिने कहा कि हे विद्याधर ! चित्त लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ ॥ ७३-७४ ॥

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है वहाँ सुन्दर आकारवाला नन्दन नामका राजा राज्य करता था ॥ ७५ ॥ जयसेना स्त्रीके उदरसे उत्पन्न हुआ विजयभद्र नामका इसका पुत्र था । उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यानमें फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्षको फलरहित देखा । यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहिताश्रवके गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥७६-७७॥ आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वर्गके चक्रक नामक विमानमें सातसागरकी आयुवाला देव हुआ । वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभोग करता रहा ॥७८॥ वहाँसे च्युत होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भवसे निर्वाणको प्राप्त होगा । श्रुतसागर मन्त्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं यह सब मैंने सुना है ॥७९॥ इस प्रकार विद्युत्प्रभ वरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे हीयह कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बहन ज्योतिर्माळाको हम लोग अर्ककीतिके लिए स्वीकृत करे ॥८०॥ इस प्रकार श्रुतसागरके वचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमति नामका मन्त्री बोला कि इस कन्याको पृथक्-पृथक् अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युत्प्रभको कन्या नहीं देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी समझसे तो स्वयंवर करना ठीक होगा । ऐसा कहकर वह चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब लोगोंने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सब मन्त्रियोंको विदा कर दिया

स्वर्यप्रभायाः कश्चेतोवल्लभो भवतेति तम् । अपृच्छत् स पुराणार्थवेदीत्यं प्रत्युवाच तम् ॥ ८४ ॥  
 गुरुः प्रथमचक्रेशं प्राक्पुराणनिरूपणे । आदिकेशवसंबद्धमित्यवोचकथयान्तरम् ॥ ८५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलावत्यां त्रिषये प्राग्विदेहे जे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्यां मधुके वने ॥ ८६ ॥  
 पुरुरवा । वनाधीशो मार्गभ्रष्टस्य दर्शनात् । मुनेः सागरसेनस्य पथः संचितपुण्यकः ॥ ८७ ॥  
 मद्यर्मासनिवृत्तेश्च कृतसौधमर्संभवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ८८ ॥  
 मरीचिरेषु दुर्गार्गदेवनागिरतश्चिरम् । भ्रान्त्वा संसारचक्रेऽस्मिन् सुरम्यविषये पुरम् ॥ ८९ ॥  
 पोदनाख्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानृपः । स तनूजो मृगावत्यां त्रिष्टुष्टोऽस्य मविष्यति ॥ ९० ॥  
 भयजोऽस्यैव भद्राया विजयो मविता सुतः । तावैतौ श्रेयसस्तीर्थं हर्वाऽश्वश्रीवविद्विषम् ॥ ९१ ॥  
 त्रिखण्डराज्यमागेशौ प्रथमौ बलकेशचौ । त्रिष्टुष्टः संसृतौ भ्रान्त्वा भावी तीर्थकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥  
 भवतोऽपि ममेः कच्छसुतस्थान्वयसंमवात् । वंशजे नास्ति संबन्धस्तेन बाहुवलीशितुः ॥ ९३ ॥  
 त्रिष्टुष्टाय प्रदातव्या त्रिखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोहर्त्री कन्या कल्याणमागिनी ॥ ९४ ॥  
 तेनैव भवतो मावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चिद्येतद्रुष्टेयमादित्थीर्थकरोदितम् ॥ ९५ ॥  
 इति तद्दृचनं चित्ते विधाय तमसौ मुदा । नैमित्तिकं समाप्य रथनूपुरभूपतिः ॥ ९६ ॥  
 सुदूतमिन्दुनामानं सुखेऽप्यनामन्वितम् । प्रजापतिमहाराजं प्रतिसंग्राहिणोत्तदा ॥ ९७ ॥  
 स्वयंप्रभापतिर्भावी त्रिष्टुष्ट इति भूपतिः । नैमित्तिकाद्विदिवैतज्जयगुप्तापुरैव सः ॥ ९८ ॥  
 खचराधिपदूतं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिगृह्य ससन्मानं वने पुष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥

और संभिन्नश्रोतृ नामक निमित्तज्ञानीसे पूजा कि स्वयंप्रभाका हृदयवल्लभ कौन होगा ? पुराणों-  
 के अर्थको जाननेवाले निमित्तज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ८३-८४ ॥ वह  
 कहने लगा कि भगवान् ऋषभदेवने पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्तीसे, प्रथम  
 नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा कही थी । जो इस प्रकार है—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी  
 नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरुरवा नामका भीलोंका राजा रहता था । किसी एक  
 दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें  
 ही पुण्यका संचय किया तथा मद्य मांस मधका त्याग कर दिया । इस पुण्यके प्रभावसे वह  
 सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहाँसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी स्त्रीके मरीचि  
 नामका पुत्र हुआ है । यह मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस  
 संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी मृगा-  
 वती रानीसे त्रिष्टुष्ट नामका पुत्र होगा ॥ ८५-९० ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी  
 भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिष्टुष्टका बड़ा भाई होगा । ये दोनों भाई श्रेयान्स-  
 नाथ और तीर्थकरके तीर्थमें अश्वश्रीव नामक शत्रुको मारकर तीन खण्डके स्वामी होंगे और  
 पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे । त्रिष्टुष्ट संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तीर्थकर होगा ॥ ९१-  
 ९२ ॥ आपका भी जन्म राजा कच्छके पुत्र नमिके वंशमें हुआ है अतः बाहुवली स्वामीके  
 वंशमें उत्पन्न होनेवाले उस त्रिष्टुष्टके साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥ ९३ ॥ इसलिए तीन खण्डकी  
 लक्ष्मी और सुखके स्वामी त्रिष्टुष्टके लिए यह कन्या देनी चाहिए, यह कल्याण करनेवाली कन्या  
 उसका मन हरण करनेवाली हो ॥ ९४ ॥ त्रिष्टुष्टको कन्या देनेसे आप भी समस्त विद्याधरोंके स्वामी  
 हो जावेंगे इसलिए भगवान् आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर आपको यह  
 अवश्य ही करना चाहिए ॥ ९५ ॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीके वचनोंको हृदयमें धारण कर  
 रथनूपुर नगरके राजाने बड़े हर्षसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजा की ॥ ९६ ॥ और उसी समय उत्तम  
 लेख और भेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजके पास भेजा ॥ ९७ ॥ 'यह  
 त्रिष्टुष्ट स्वयंप्रभाका पति होगा' यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे  
 पहले ही जान ली थी इसलिए उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजके दूतका, पुष्पकरण्डक

स दूतो राजगोहं स्वं संप्रविश्य समागृहे । निजासने समासीनः प्राभूतं सेचिवापितम् ॥ १०० ॥  
 विलोभ्य रागाद् भूपेन स्वाजुरागः समपितः । प्राभूतेवैव तुष्टाः स्म इति दूतं प्रतोषयन् ॥ १०१ ॥  
 श्रीत्रिष्टुप्, कुमारानां वरिष्ठः कन्यासदनया । स्वयंप्रमादयथा लक्ष्म्येवाद्यालक्रियतामिति ॥ १०२ ॥  
 श्रुत्वा यथार्थमस्वाविभूतद्विगुणसंमदः । धार्मिकं च समाकर्ण्य भुजाप्राक्रान्तमस्तक ॥ १०३ ॥  
 स्वयमेव स्वगार्धीशः स्वजामातुर्मुहोदयम् । इमं विधातुमन्यं च सचित्तस्तत्र के वयम् ॥ १०४ ॥  
 इति दूतं तदायातं कार्यसिद्धया प्रसाधयन् । प्रपूज्य प्रतिदत्त च प्रदायाद्यु ह्यसजयन् ॥ १०५ ॥  
 स दूत सत्वरं गत्वा रथनूपुरनायकम् । प्राप्य प्रगम्य कल्याणकार्यसिद्धिं व्यजिज्ञपत् ॥ १०६ ॥  
 तच्छ्रुत्वा खेचराधीश प्रप्रमोदप्रचोदितः । न कालहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वितः ॥ १०७ ॥  
 महाविभूत्या सप्राप्य नगरं पोदनाह्वयम् । उद्वद्दत्तोरणं दत्तचन्दनच्छद्रसुसुकम् ॥ १०८ ॥  
 केतुमालाच्छ होमिराह्वयद्वातिसंभ्रमात् । प्रतिपातः स्वसंपत्त्या महोद्यः प्राविशन्मुदा ॥ १०९ ॥  
 प्रविश्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनियोजितः । प्राप्तप्राधूर्णकाचारप्रसन्नहृदयाननः ॥ ११० ॥  
 विवाहोचितविन्यासैस्तपिताशेषभूतलः । स्वयंप्रभामं प्रभामं वान्यां त्रिष्टुष्टाय प्रदाय ताम् ॥ १११ ॥  
 सिद्धाहिविद्विद्वाहिन्यौ विधे साधयितुं ददौ । ते तत्र सर्वे संभूय व्यगाहन्त सुखाग्निधिम ॥ ११२ ॥  
 इतोऽश्वप्रीवचक्रेतो विनाशपिशुनः पुरे । उत्पातस्त्रिविधः प्रोक्तः सद्यः सममुद्ययौ ॥ ११३ ॥  
 अभूतपूर्वं तं दृष्ट्वा सहसा भीतिमान् जनः । पल्योपमाष्टमागावशेषे वा भोगभूयुव ॥ ११४ ॥

नामके वनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥१८-१९॥ महाराज उस दूतके साथ अपने राजभवनमें प्रविष्ट होकर जब समागृहमें राजसिंहासनपर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दूतके द्वारा लायी हुई भेंट समर्पित की। राजाने उस भेंटको बड़े प्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया और दूतको सन्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये ॥१००-१०१॥ तदनन्तर दूतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान् त्रिष्टुष्ट समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ है अतः इसे, लक्ष्मीके समान स्वयंप्रभा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जावे। इस यथार्थ, सन्देशको सुनकर प्रजापति महाराजका हर्ष दुगुना हो गया। वे मस्तकपर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित हैं तब हम लोग क्या चीज हैं ? ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार उस समय आये हुए दूतको महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया ॥१०४॥ वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रथनूपुरनगरके राजाके पास पहुँचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी ॥१०६॥ यह सुनकर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हर्षसे प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि 'इस कार्यमें विलम्ब करना योग्य नहीं है' यह विचार कर वह कन्यासहित बड़े ठाट-वाटसे पोदनपुर पहुँचा। उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बाँधे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब जगह उत्सुकता-ही-उत्सुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाओंकी पंक्तिरूप चंचल भुजाओंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो घुला ही रहा हो। महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिके अनुराग उसकी अगवानी की। इस प्रकार उसने बड़े हर्षसे नगरमें प्रवेश किया ॥१०७-१०९॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थानपर ठहराया और पाहुनेके योग्य उसका सत्कार किया। इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये ॥११०॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त पृथिवी तलको सन्तुष्ट किया और दूसरी प्रभाके समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिष्टुष्टके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिद्धवाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ दीं। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने लगे ॥१११-११२॥ इधर अश्वप्रीव प्रतिनारायणके नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारके उत्पात बहुत शीघ्र साथ-ही-साथ होने लगे ॥११३॥ जिस प्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका आठवाँ भाग बाकी रहनेपर नयी-नयी बातोंको देखकर भोगभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी



अश्वघ्रीवश्च संज्ञान्तः समभ्रं पृथ्वान् पृथक् । शतविन्दुं निमित्तज्ञं किमेतदिति तत्फलम् ॥ ११५ ॥  
 येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्रमः । अहारि प्राभृतं येन स्वं प्रति प्रहितं हृदात् ॥ ११६ ॥  
 रथन् पुरनाथेन भवद्योग्यं प्रदायि च । यस्मै खीरत्नमेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥  
 तत्सूचकमिदं सर्वं कुर्वेतस्य प्रतिक्रियाम् । इति नैमित्तिकेनोक्तं कृत्वा हृदि खगाविपः ॥ ११८ ॥  
 अरैर्गदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्भावनिषेधनम् । विदुधाति तदस्याभिर्विस्मृतं सस्मयैर्दृथा ॥ ११९ ॥  
 इदानीमप्यसौ दृष्टो युष्माभिरविलम्बितम् । विषाहुरवदुच्छेद्य इत्यवादीत् स्वमन्त्रिणः ॥ १२० ॥  
 तेषुपि तत्सर्वमन्विष्य स्वगृहप्रहितैश्वरैः । नैमित्तिकोक्तं निश्चित्य तस्य सिंहवधादिकम् ॥ १२१ ॥  
 त्रिपृष्ठो नाम दर्पिष्ठः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमाद्विजिषगते ॥ १२२ ॥  
 परीक्षितव्यः सोऽस्मासु कीदृश इति दक्षिणैः । दूतैरिति खगाधीशमनोचमन्त्रिणः पृथक् ॥ १२३ ॥  
 तदाकर्ण्य तदैवासी चिन्तागतिमनोगतौ । दूतौ संप्रेषयामास त्रिपृष्ठं प्रति विद्वरौ ॥ १२४ ॥  
 गत्वा तौ स्वागतिं पूर्वं निवेद्यानुमते नृपम् । दृष्ट्वा यथोचितं दत्त्वा प्राभृतं विनयान्वितौ ॥ १२५ ॥  
 अश्वघ्रीवेण देवेन त्वमद्याज्ञापितोऽस्यहम् । रथावर्त्ताद्विमेष्यामि तमायातु भवानिति ॥ १२६ ॥  
 आवां त्वामागतौ नेतुमाज्ञामारोप्य मस्तकम् । आगन्तव्यं त्रयैत्युच्चैरुचुतः सोऽपि कोपवान् ॥ १२७ ॥  
 अश्वघ्रीवाः खरघ्रीवा क्रौञ्चघ्रीवास्तथापरे । दृष्ट्वा क्रमेऽकघ्रीवा नापूर्वो नः स पश्यताम् ॥ १२८ ॥  
 इत्याह तौ च किं युक्तमवमनतु खगेश्वरम् । विश्वरूपसमभ्यर्च्य तं भवत्पक्षपातिनम् ॥ १२९ ॥

प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातोंको देखकर वहाँके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥१११॥ अश्व-  
 ग्रीव भी घबड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्तमें शतविन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे 'यह क्या  
 है ?' इन शब्दों-द्वारा उनका फल पूछा ॥११५॥ शतविन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें  
 पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजा हुआ भेंट जबर्दस्ती छीन ली और रथन्पूर  
 नगरके राजा ज्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य खीरत्न दे दिया है उससे आपको क्षोभ  
 होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्पात उसीके सूचक हैं । तुम इसका प्रतिकार करो । इस प्रकार  
 निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातको हृदयमें रखकर अश्वघ्रीव अपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि  
 आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही  
 अहंकारी रहकर यह बात भुला दी ॥११९-११९॥ अब भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा विषके  
 अंकुरके समान शीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है ॥१२०॥ उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपसे भेजे  
 हुए दूतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगी ली और निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध आदिकी बातें  
 कही थीं उन सबका पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस पृथिवीपर प्रजापतिका पुत्र त्रिपृष्ठ  
 ही बड़ा अहंकारी है । वह अपने पराक्रमसे सब राजाओंपर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता  
 है ॥१२१-१२२॥ वह हम लोगोंके विषयमें कैसा है ?—अनुकूल-प्रतिकूल कैसा विचार रखता  
 है इस प्रकार सरल चिन्त—निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए । मन्त्रियोंने  
 ऐसा पृथक्-पृथक् राजासे कहा ॥१२३॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागति और  
 मनोगति नामके दो विद्वान् दूत त्रिपृष्ठके पास भेजे ॥१२४॥ उन दूतोंने जाकर पहले अपने  
 आनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर  
 यथायोग्य भेंट दी ॥१२५॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्वघ्रीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि  
 मैं रथावर्त्त नामके पर्वतपर जाता हूँ आप भी आइए ॥१२६॥ हम दोनों तुम्हें लेनेके लिए  
 आये हैं । आपको उसकी आज्ञा मस्तकपर रखकर आना चाहिए । ऐसा उन दोनोंने जोरसे  
 कहा । यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा कि अश्वघ्रीव (घोड़े-जैसी गरदनवाले)  
 खरघ्रीव, (गधे-जैसी गरदनवाले), क्रौंचघ्रीव (क्रौंच पक्षी-जैसी गरदनवाले) और क्रमेणक घ्रीव  
 (ऊँट-जैसी गरदनवाले) ये सब मैंने देखे हैं । अतः देखनेवाले हम लोगोंके लिए वह  
 अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥१२७-१२८॥ इस प्रकार जब वह त्रिपृष्ठ कह  
 चुका तब दूतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वघ्रीव सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके

इत्याह तुः खगेशोऽस्तु पक्षपाती न वार्यते । नाहमेत्यामि तं द्रष्टुमिति प्रत्यन्नचीदसौ ॥ १३० ॥  
 दर्पादिदं न वक्तव्यमदृष्ट्वा चक्रवर्तिनम् । देहेऽपि न स्थितिर्भूमौ केः पुनः स्थानुमर्हति ॥ १३१ ॥  
 इति श्रुत्वा वचो राज्ञा तथोक्त्रकेण वलितुम् । शीलोऽसौ किं घटादीनां कारकं कारकाग्रणीः ॥ १३२ ॥  
 तस्य किं प्रेक्ष्यमित्युक्तौ तौ सकोपावबोचताम् । कन्यारत्नमिदं चक्रिभोग्यं किं तेऽद्य जीर्यते ॥ १३३ ॥  
 रथन् पुरराजाऽसी ज्वलनादिजटी कथम् । प्रजापतिश्च नामापि संधत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥  
 इति सद्यस्ततो दूतौ निर्गत्य द्रुतगामिनौ । प्राप्याश्वघ्रीवमानस्य प्रोचतुस्तद्विजृम्भणम् ॥ १३५ ॥  
 खगेश्वरोऽपि तत्क्षन्तुमक्षमो रूक्षवीक्षणः । मेरीमास्फालयामास रणप्रारम्भसूचिनीम् ॥ १३६ ॥  
 तद्भवनिवर्थाप दिक्प्रान्तरान् हत्वा दिग्दन्तिनां मदम् । चक्र- तिनि संक्रुद्धे महान्तः के न विभ्यति ॥ १३७ ॥  
 चतुरङ्गबलेनासौ रथावर्तमगाद् गिरिम् । पेतुरूक्षाश्चालैला दिक्षु दाहा जजृम्भरे ॥ १३८ ॥  
 प्रजापतिसुतौ चैतद्विदित्वा विततौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापाग्निभस्मितारोन्धनोच्चयौ ॥ १३९ ॥  
 उभयो खेनयोस्तत्र संग्रामः समभून्महान् । समक्षयासयोः प्रापदन्तक समवर्तिताम् ॥ १४० ॥  
 युद्ध्वा चिरं पदातीनां वृथा किं क्रियते क्षयः । इति त्रिष्टो युद्धार्थमभ्यश्वघ्रीवमेयिवान् ॥ १४१ ॥  
 ह्यग्रोवीऽपि जन्मान्तरानुबद्धोस्वैरतः । आच्छादयदतिक्रुद्धः शरवर्षैर्विरोधिनम् ॥ १४२ ॥  
 इन्द्रयुद्धेन तौ जेतुमक्षमावितरतरम् । मायायुद्धं समारब्धौ महाविद्यावलोकदौ ॥ १४३ ॥  
 युद्ध्वा चिरं ह्यग्रवीचक्रं न्यक्षिपदभ्यरिम् । तदैवादाय तद्ग्रहीवामच्छिदत् केशवः क्रुधा ॥ १४४ ॥

द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है ॥१२९॥ यह सुनकर त्रिष्टुप्ने कहा कि वह खग अर्थात् पक्षियोंका ईश है—स्वामी है इसलिए पक्ष अर्थात् पंखोंसे चले इसके लिए मनाही नहीं है परन्तु मैं उसके दर्शनके लिए नहीं जाऊँगा ॥१३०॥ यह सुनकर दूतोंने फिर कहा कि अहंकारसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्तिके दर्शन बिना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमिपर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥१३१॥ दूतोंके वचन सुनकर त्रिष्टुप्ने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह घट आदिको बनानेवाला ( कुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसके क्या दर्शन करना है ? यह सुनकर दूतोंको क्रोध आ गया । वे क्रुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि चक्रवर्तिके भोगने योग्य है क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? और चक्रवर्तिके कुपित होनेपर रथन् पुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा । इतना कह वे दूत वहाँसे शीघ्र ही निकलकर अश्वघ्रीवके पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिष्टुप्के वैभवका समाचार कहने लगे ॥१३२-१३५॥ अश्वघ्रीव यह सब सुननेके लिए असमर्थ हो गया, उसकी आँखें रूखी हो गयीं और उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देनेवाली मेरी बजवां दी ॥१३६॥ उस मेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नष्ट कर दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि चक्रवर्तिके कुपित होनेपर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते ही ॥१३७॥ यह अश्वघ्रीव चतुरंग सेनाके साथ रथावर्त पर्वतपर जा पहुँचा, वहाँ उल्काएँ गिरने लगीं, पृथिवी हिलने लगी और दिशाओंमें दाह-दोष होने लगे ॥१३८॥ जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है और जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे प्रजापतिके दोनों पुत्रोंको जब इस बातका पता चला तो इसके सम्मुख आये ॥१३९॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान् संग्राम हुआ । दोनों सेनाओंका समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता—मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ॥१४०॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिष्टुप्ने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है । ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए अश्वघ्रीवके सामने आया ॥१४१॥ जन्मान्तरसे बँधे हुए भारी वैरके कारण अश्वघ्रीव बहुत क्रुद्ध था अतः उसने बाण-चर्पाके द्वारा शत्रुको आच्छादित कर लिया ॥१४२॥ जब वे दोनों इन्द्र युद्धसे एक-दूसरेको जीतनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा-विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों भाषायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥१४३॥ अश्वघ्रीवने

तावर्कविधुम्काशौ त्रिपृष्ठविजयौ विभू । भरताद्द्वीधिपत्येन मातः स्म ध्वस्तविद्विषौ ॥१४५॥  
 नृपेन्द्रः खेचरार्थशैल्यन्तैर्मागधादिभि । कृताभिपेकः संप्राप त्रिपृष्ठः पृष्ठार्ता क्षितेः ॥१४६॥  
 आधिपत्यं द्वयोः श्रय्योचिततारादिकेशवः । हृष्टः स्वयंप्रभापित्रे न स्यात्किं श्रीमदाश्रवात् ॥१४७॥  
 १. असिः शङ्को धनुश्चक्रं दार्किर्दण्डो गदाभयन् । रत्नानि सप्त चक्रेशो रक्षितानि मरुद्गणैः ॥१४८॥  
 रत्नमाला हलं भास्वद्रामस्य मुशर्लं गदा । महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भावितिन्युतेः ॥१४९॥  
 देव्यः स्वयंप्रभामुख्याः सहस्राण्यस्य पोटशः । बलस्याष्टसहस्राणि कुलरूपगुणान्विताः ॥१५०॥  
 अर्ककीर्तिः कुमारस्य ज्योतिर्माता खगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या संप्रदाग्रहीत् ॥१५१॥  
 तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवत्सुता । प्रतिपञ्चन्द्रयोः शुक्लपक्षरेखेव चैन्दवी ॥१५२॥  
 विष्णोः स्वयंप्रभायां च सुतः श्रीविजयोऽजनि । ततो विजयमद्राख्य सुता ज्योतिःप्रमाह्वया ॥१५३॥  
 प्रजापतिमहाराजः । भूरिप्राप्तमहोदयः । कदाचिज्जाः सवेगः संप्राप्य पिहिताश्रवम् ॥१५४॥  
 आदाजैनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽश्लेषपरिग्रहम् । येन संप्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥१५५॥  
 बाह्यतरद्विषद्भेदतपस्यधितोद्यमः । चिरं तपस्यन् सचित्तमायुरन्ते समादधत् ॥१५६॥  
 मिथ्यात्वं संयमामात्रं प्रमादं सकषायताम् । कैवल्यं स सयोगत्वं त्यक्त्वाऽभूत्परमः क्रमात् ॥१५७॥  
 खेचरेशोऽपि तच्छ्रुत्वा राज्यं दत्त्वाऽर्ककीर्तये । निर्ग्रन्थरूपमापन्नो जगन्नन्दनसंनिधौ ॥१५८॥  
 अयाचितमनादानमार्जवं त्यागमस्पृहाम् । क्रोधादिहापन्नं ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोऽन्वयात् ॥१५९॥

चिरकाल तक युद्ध कर शत्रुके सम्मुख चक्र फेका और नारायण त्रिपृष्ठने वही चक्र लेकर क्रोधसे उसकी गरदन छेद डाली ॥१४४॥ शत्रुओंके नष्ट करनेवाले त्रिपृष्ठ और विजय आषे भरत क्षेत्रका आधिपत्य पाकर सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१४५॥ भूमिगोचरी राजाओं, विद्याधर राजाओं और मगधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिपेक किया गया था ऐसे त्रिपृष्ठ नारायण पृथिवीमें श्रेष्ठताको प्राप्त हुए ॥१४६॥ प्रथम नारायण त्रिपृष्ठने हर्षित होकर स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं होता है? ॥१४७॥ असि, शंख, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायणके रत्न थे । देवोंके समूह इनकी रक्षा करते थे ॥१४८॥ रत्नमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करनेवाले बलभद्रके महारत्न थे ॥१४९॥ नारायणकी स्वयंप्रभाकी आदि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं और बलभद्रकी कुल, रूप तथा गुणोंसे युक्त आठ हजार रानियाँ थीं ॥१५०॥ ज्वलनजटी विद्याधरने कुमार अर्ककीर्तिके लिए ज्योतिर्माता नामकी कन्या बड़ी विभूतिके साथ प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की ॥१५१॥ अर्ककीर्ति और ज्योतिर्माताके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई । ये दोनों भाई-बहन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक पक्षकी पडिवाके चन्द्रमाकी रेखाएँ ही हों ॥१५२॥ इधर त्रिपृष्ठ नारायणके स्वयंप्रभा रानीसे पहले श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ, फिर ज्योतिःप्रभा नामकी पुत्री हुई ॥१५३॥ महान् अभ्युदयको प्राप्त हुए प्रजापति महाराजको कदाचित् वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहिताश्रव गुरुके पास जाकर उन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया और श्रीजिनेन्द्र भगवान्का वह रूप धारण कर लिया जिससे सुखस्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है ॥१५४-१५५॥ छह बाह्य और छह अभ्यन्तरके भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापति मुनिने चिरकाल तक तपस्या की और आयुके अन्तमें चित्तको स्थिर कर क्रमसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकषायता तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था—मोक्ष पद प्राप्त किया ॥१५६-१५७॥ विद्याधरोंके राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने अर्ककीर्तिके लिए राज्य देकर जगन्नन्दनं मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥१५८॥ याचना नहीं करना, बिना दिये कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना,

ततो निःशेषमंहांसि निहृत्य निरूपोपधिः । निराकारोऽपि साकारो निर्वाणमगमत्परम् ॥ १६० ॥  
 त्रिष्टुष्टो निष्ठुरारातिविजयो विजयानुगः । त्रिलण्डालखण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वभूत् ॥ १६१ ॥  
 स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽमिततेजसः । स्वयंवरविधानेन दाढामासञ्जयदृगले ॥ १६२ ॥  
 अनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्दक्षःस्थलनिवासिनी ॥ १६३ ॥  
 इत्यन्योन्यानिवृत्तापत्यसंबन्धाः सर्ववान्धवाः । स्वच्छाम्भ पूर्णसंकुण्डसरसः श्रियमभ्ययुः ॥ १६४ ॥  
 आयुरन्तःस्रधिस्थानप्राप्तेऽर्द्धभरतेक्षिणि । त्रिजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम् ॥ १६५ ॥  
 दम्बा विजयमद्राय चौवराज्यपदं च स । चक्रिशोकसमाक्रान्तस्त्वान्तो हन्तुमद्यद्विषम् ॥ १६६ ॥  
 सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं राजभिः संयमं ययौ । सुवर्णकुम्भमभ्येत्य मुनिमभ्यर्णनिर्वृतिः ॥ १६७ ॥  
 घातिकर्मणि निर्मूल्य कैवल्यं चोदपादयत् । अभृक्षिक्लिम्पसंप्लव्यो व्यपेतागारकेवली ॥ १६८ ॥  
 तदाकर्णार्ककीर्तिंश्च निधायामिततेजसम् । राज्ये विपुलमस्याख्याचारणादगमत्तपः ॥ १६९ ॥  
 नएकमाष्टकोऽमीष्टामसावापाष्टमीं महीम् । अनाप्यं नाम किं त्यक्तं व्यक्तमाश्वधोरिणाम् ॥ १७० ॥  
 तयोरेविकलप्रीत्या याति काले निराकुलम् । सुखेनामितशब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययोः ॥ १७१ ॥  
 कश्चिद्धीविजयाधीशं सान्नावाद्दः कदाचन । उपेत्य राजंश्चित्तं त्वं प्रणिधेहि ममोदिते ॥ १७२ ॥  
 पौदनाधिपतेर्मूर्ध्नि पतितेऽतोऽह्नि सप्तमे । महाक्षनिस्ततश्चिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सत्वरम् ॥ १७३ ॥  
 इत्थन्नवीक्षदाकर्णं युवराजोऽरुणेक्षणः । वद किं पतिता सर्वविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥  
 इति नैमित्तिकं दृष्ट्वा प्राक्षीत्सोऽप्याह मूर्ध्नि मे । रत्नदृष्टिः पतेत्साकमभिषेकेण हीत्यदः ॥ १७५ ॥

किसी चीजकी इच्छा नहीं रखना, क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना और ध्यान करना—इन सब गुणोंको वे प्राप्त हुए थे ॥१५९॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निर्द्वन्द्व हुए । निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पदको प्राप्त हुए ॥१६०॥

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिष्टुष्ट कठिन शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता हुआ तीन खण्डकी अखण्ड पृथिवीके भागोंका इच्छानुसार उपभोग करता रहा ॥१६१॥ किसी एक दिन त्रिष्टुष्टने स्वयंवरकी विधिसे अपनी कन्या ज्योतिःप्रभाके द्वारा जामाता अभिततेजके गलेमें वर-माला डलवायी ॥१६२॥ अनुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्वयंवरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षः-स्थलपर निवास करनेवाली हुई ॥१६३॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंके सम्बन्ध किये हैं ऐसे वे समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुल्लित सरोवरकी शोभाकी प्राप्त हो रहे थे ॥१६४॥ आयुके अन्तमें अर्धचक्रवर्ती त्रिष्टुष्ट तो सातवे नरक गया और विजय बलभद्र श्रीविजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए उद्यत हुए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था तथापि निकट समयमें मोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुवर्णकुम्भ नामक मुनिराजके पास जाकर सात हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१६५-१६७॥ घातिया कर्म नष्ट करकेवल-ज्ञान उत्पन्न किया और देवोंके द्वारा पूज्य अनगरकेवली हुए ॥१६८॥ यह सुनकर अर्ककीर्तिने अमिततेजको राज्यपर वैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया ॥१६९॥ कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोंको नष्ट कर अभिवाञ्छित अष्टम पृथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कौन-सी वस्तु अप्राप्य है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥१७०॥ इधर अमिततेज और श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था, दोनोंका काल बिना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७१॥ किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि हे राजन् ! मेरी बातपर चित्त लगाइए ॥१७२॥ आजसे सातवें दिन पौदनपुरके राजाके मस्तकपर महावज्र गिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतीक रका विचार कीजिए ॥१७३॥ यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं । वह उस निमित्तज्ञानीसे बोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय तेरे मस्तकपर क्या पड़ेगा ? ॥१७४॥ निमित्तज्ञानीने भी कहा कि उस

सावष्टमं वच. श्रुत्वा तस्य राजा सविस्मयः । भद्रं स्वयाऽऽस्थतामस्मिन्नासने किंचिदुच्यते ॥ १७६ ॥  
 किंनोत्रः किंपुरुषं हि किंशास्त्रः किंनिमित्तकः । किंनाम किंनिमित्तोऽयमादेश इति पृष्ठवान् ॥ १७७ ॥  
 कुण्डलाख्यपुरे राजा नाम्ना सिंहरथो महान् । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥  
 तच्छिष्येण निमित्तानि प्रव्रज्य हलिना सह । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि च ॥ १७९ ॥  
 अष्टाङ्गानि निमित्तानि कानि दिक्लक्षणानि चैत् । शृणु श्रीविजयायुष्मन् यथाप्रदं ब्रवीमि ते ॥ १८० ॥  
 अन्तरिक्षस्य भौमाङ्गस्वरन्यञ्जनलक्षणम् । छिन्नस्वप्नविभेदेन प्रोक्ताभ्यागमवेदिभिः ॥ १८१ ॥  
 तास्त्व्यास्त्राहचर्याद्वा ज्योतिषामन्तरिक्षवाक् । चन्द्रादिपञ्चभेदानामुदयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥  
 जयः पराजयो हानिर्बुद्धिर्मन्युः सजीवितः । लाभालाभौ निरूप्यन्ते यत्रान्यानि च तत्त्वतः ॥ १८३ ॥  
 भूमिस्थानादिभेदेन हानिर्बुद्ध्यादिशोधनम् । मूयन्तः स्थितरत्नादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८४ ॥  
 अङ्गप्रदङ्गस्वरशं दर्शनानिभिरङ्गिनाम् । अङ्गकालत्रयैस्त्पञ्चशुभा गुभनिरूपणम् ॥ १८५ ॥  
 सृष्ट्वादिगजेन्द्रादिचेतनेतरसुत्वरं । दुःस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूचनम् ॥ १८६ ॥  
 शिरोमुखादिसंज्ञातलिलक्ष्मणगादिभिः । व्यञ्जनं स्थानमानैश्वलाभालाभादिवेदनम् ॥ १८७ ॥  
 श्रीवृक्षस्वस्तिकाद्यष्टशताङ्गतलक्षणैः । भोगैश्वर्यादिसंप्राप्तिकथनं लक्षणं मतम् ॥ १८८ ॥  
 देवमानुपरक्षोविभोगैर्विद्यायुधादिषु । मूषकादिकृतच्छेदैः छिन्नं तत्कलमापणम् ॥ १८९ ॥  
 शुभाशुभविभागोक्तस्वप्नसंज्ञानान्शुणाम् । स्वप्नो वृद्धिविनाशादिथायात्म्यकथन मतः ॥ १९० ॥

समय मेरे मस्तकपर अभिपेकके साथ रत्नवृष्टि पड़ेगी ॥१७५॥ उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ । उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसनपर बैठो, मैं कुछ कहता हूँ ॥१७६॥ कहो तो सही, आपका गोत्र क्या है ? गुरु कौन है, क्या-क्या शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निमित्त आप जानते हैं, आपका क्या नाम है ? और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ॥१७७॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहरथ नामका एक बड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान् है ॥१७८॥ किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्यके साथ अष्टांग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है और उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है ॥१७९॥ अष्टांग निमित्त कौन हैं और उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मन् विजय ! तुम सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहता हूँ ॥१८०॥ आगमके जानकार आचार्योंने अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हैं ॥१८१॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशमें रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष—आकाश कहते हैं । इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शोक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है उसे अन्तरिक्षनिमित्त कहते हैं ॥१८२-१८३॥ पृथिवीके जुड़े-जुड़े स्थान आदिके भेदसे किसीकी हानि वृद्धि आदिका बतलाना तथा पृथिवीके भीतर रखे हुए रत्न आदिका कहना सो भौमनिमित्त है ॥१८४॥ अंग-उपांगके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न होनेवाले शुभ-अशुभका निरूपण होता है वह अंग-निमित्त कहलाता है ॥१८५॥

सृदंग आदि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थोंके सुस्वर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट-अनिष्ट पदार्थकी प्रातिक्री सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है ॥१८६॥ शिर, मुख आदिमें उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका स्थान, मान, ऐश्वर्य, लाभ-अलाभ आदि बतलाना सो व्यञ्जन-निमित्त है ॥१८७॥ शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक आदि एक सौ आठ लक्षणोंके द्वारा भोग, ऐश्वर्य आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है ॥१८८॥ बख तथा अन्न आदिमें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुष और राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं ॥१८९॥ शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्न दो प्रकारके कहे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्योंकी वृद्धि तथा

इत्युन्त्वा क्षुत्पिपासादिद्वाविंशतिपरीषहैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पद्मिनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥  
 तत्र तन्मातुलः सोमशर्मा चन्द्राननां सुताम् । हिरण्यलोमासंभूतां प्रीत्या मर्षं प्रदत्तवान् ॥ १९२ ॥  
 द्रव्यार्जनं परित्यज्य निमित्ताभ्यासतत्परम् । सा मां निरीक्ष्य निर्विण्णा विन्दुत्तधनक्षयात् ॥ १९३ ॥  
 भोजनावसरेऽन्येषुर्धनमेतत्प्रवर्जितम् । इति पात्रेऽक्षिपद्रोषान् मद्भ्राटकसंचयम् ॥ १९४ ॥  
 रञ्जितस्फटिके तत्र तपन्नाभीघुसंनिधिम् ( ? ) । कान्ताक्षिसकरक्षालनाम्बुधारां च पश्यता ॥ १९५ ॥  
 मयाऽर्थलामं निश्चित्य तोषामिषपूर्वकम् । अमोघजिह्वानाम्नाऽऽपमादेशस्तेऽपुना कृतः ॥ १९६ ॥  
 इत्यन्वाख्यत् स तच्छ्रुत्वा सयुक्तिमसौ नृपः । चिन्ताङ्गुलो विसर्ज्यैनमुक्तवानिति मन्त्रिणः ॥ १९७ ॥  
 इदं प्रत्येयमस्योक्तं विचिन्त्येतत्प्रतिक्रियाः । अमृशर्णे मूलनाशे कः कुर्यात् कालविलम्बनम् ॥ १९८ ॥  
 तच्छ्रुत्वा सुमतिः प्राह स्वाम्मोघिजलान्तरे । लोहमञ्जुषिकान्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम् ॥ १९९ ॥  
 मकरादिभयं तत्र विजयार्द्धगुहान्तरे । निदधाम इति श्रुत्वा स सुबुद्धिरभाषत ॥ २०० ॥  
 तद्बचोऽवसितौ प्राज्ञः पुरावृत्तकविचदा । अथाख्यानकमित्याख्यप्रसिद्धं बुद्धिसागरः ॥ २०१ ॥  
 दुःशास्त्रश्रुतिदपिधः सोमः सिंहपुरे वसन् । परिवाद् स विवादाथे जिनदासेन निजितः ॥ २०२ ॥  
 च्छत्वा तत्रैव कालान्ते संभूय महिषो महान् । वणिग्लवणदुर्भारचिरवाहचक्रोक्त ॥ २०३ ॥  
 प्राक् पोषयज्ञिनिःशक्तिरिति पश्चादुपेक्षित । जातिस्मरः पुरे वद्वैरोऽप्यपगतवासुकः ॥ २०४ ॥

हानि आदिका यथार्थ कथन करना स्वप्ननिमित्त कहलाता है ॥१९०॥ यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि क्षुधा, प्यास आदि बाईस परिपहोंसे मैं पीडित हुआ, उन्हें सह नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नामके नगरमें आ गया ॥१९१॥ वहाँ सोमशर्मा नामके मेरे मामा रहते थे । उनके हिरण्यलोमा नामकी स्त्रीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुखवाली एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी । वह उन्होंने मुझे दी ॥१९२॥ मैं धन कमाना छोड़कर निमित्त-शास्त्रके अध्ययनमें लगा रहता था अतः धीरे-धीरे चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया धन समाप्त हो गया । मुझे निर्धन देख वह बहुत चिरक अथवा खिन्न हुई ॥१९३॥ मैंने कुछ कौड़ियाँ इकट्ठी कर रखी थीं । दूसरे दिन भोजनके समय 'यह तुम्हारा दिया हुआ धन है' ऐसा कहकर उसने क्रोधवश वे सब कौड़ियाँ हमारे पात्रमें डाल दीं ॥१९४॥ उनमेंसे एक अच्छी कौड़ी स्फटिक-मणिके बने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, उसपर जलायी हुई अग्निके फुलिंगे पड़ रहे थे ( ? ) उसी समय मेरी स्त्री मेरे हाथ धूलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे सन्तोषपूर्वक अवश्य ही धनका लाभ होगा । आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजिह्व नामक मुनिराजने किया है । इस प्रकार निमित्तज्ञानीने कहा । उसके युक्तिपूर्ण वचन सुनकर राजा चिन्तासे व्यग्र हो गया । उसने निमित्तज्ञानीको तो बिदा किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा—कि इस निमित्तज्ञानीकी बातपर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योंकि मूलका नाश उपस्थित होनेपर विलम्ब कौन करता है ? ॥१९५-१९८॥ यह सुनकर सुमति मन्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लोहेकी सन्दूकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठायें देते हैं ॥१९६॥ यह सुनकर सुबुद्धि नामका मन्त्री बोला कि नहीं, वहाँ तो मगरमच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयार्थ पर्वतकी गुफामें रख देते हैं ॥२००॥ सुबुद्धिकी बात पूरी होते ही बुद्धिमान् तथा प्राचीन वृत्तान्तको जाननेवाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा ॥२०१॥

इस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास्त्रोके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका परित्राजक रहता था । उसने जिनदासके साथ वाद-विवाद किया परन्तु वह हार गया ॥२०२॥ आयुके अन्तमें मरकर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भैसा हुआ । उसपर एक वैश्य चिरकाल तक नमकका बहुत भारी बोझ लादता रहा ॥२०३॥ जब वह बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके

इमशाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोदपद्यत । तत्पुराधीशिनौ कुम्भभीमौ कुम्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥  
 रसायनाद्रिपाकाखप्रस्तद्भोग्यपिशितेऽसति । शिशोर्ब्यसोस्तदा मांसं स कुम्भस्य न्ययोजयत् ॥ २०६ ॥  
 तत्स्वादकोद्भुप, पापी तदा प्रभृति खादितुम् । मनुष्यमांसमारब्ध संस्पृशुनारकीं गतिम् ॥ २०७ ॥  
 प्रजानां पाळको राजा तावच्छिद्यत पाळने । खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्य, सचिवादिमि ॥ २०८ ॥  
 तन्मांसजीवितः क्रूरः कदाचिन्निरुपाचकम् । हत्वा साधिततद्विद्यः संक्रान्तप्रोक्तराक्षसः ॥ २०९ ॥  
 प्रजाः स भक्षयामास प्रत्यहं परितो भ्रमम् । ततः सर्वेऽपि संव्रस्ताः पौराः संत्यज्य तत्पुरम् ॥ २१० ॥  
 नगरं प्राविशन् कारकटं नाम महामिया । तत्राप्यागत्य पापिष्ठः कुम्भस्योऽनक्षयत्तराम् ॥ २११ ॥  
 ततः प्रभृति तत्प्राहुः कुम्भकारकटं पुरम् । यथादृष्टुमभक्तिवाद् मीलैकशकटौदनम् ॥ २१२ ॥  
 खादैकमानुषं चेति प्रजास्तस्य स्थितिं व्ययुः । तत्रैव नगरे चण्डकौशिको नाम विप्रक ॥ २१३ ॥  
 सोमश्रीस्तद्विद्या भूतसमुपासतश्चिरम् । मौण्डकौशिकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २१४ ॥  
 कुम्भाहाराय यातं तं कदाचिन्मुण्डकौशिकम् । शकटस्योपरि क्षिप्तं नीत्वा भूतैः प्रयायिमिः ॥ २१५ ॥  
 कुम्भेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तत्रितैः । भयाद् विले विनिक्षिप्तं जगाराशनगरो द्विजम् ॥ २१६ ॥  
 विजयाद्गुहायां तन्निक्षेपणमशुककम् । पथ्यं तद्वचनं श्रुत्वा सूक्ष्मधीर्मतिसागरः ॥ २१७ ॥  
 भूपतेरशनेः पातो नोक्तो नैमित्तिकेन तत् । पौदनाधिपतिः कश्चिदन्वोऽवस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥

पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी—खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया । कारण वश उसे जाति-  
 स्मरण हो गया और वह नगर-भरके साथ वैर करने लगा । अन्तमें मरकर वहीके इमशानमें  
 पापी राक्षस हुआ । उस नगरके कुम्भ और भीम नामके दो अधिपति थे । कुम्भके रसोइयाका  
 नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसोइयाने  
 कुम्भको मरे हुए बच्चेका मांस खिला दिया ॥२०४-२०६॥ वह पापी उसके स्वादसे लुभा गया  
 इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तवमें नरक गति  
 प्राप्त करनेको उत्सुक था ॥२०७॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जबतक प्रजाकी रक्षा करनेमें  
 समर्थ है तभीतक राजा रहता है । परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा  
 विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाको छोड़ दिया ॥२०८॥ उसका रसोइया उसे नर-मांस देकर  
 जीवित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसोइयाको ही मारकर विद्या सिद्ध कर  
 ली और उस राक्षसको वश कर लिया ॥२०९॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमता हुआ  
 प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोड़कर बहुत भारी  
 भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु अत्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरमें भी  
 आकर प्रजाको खाने लगा ॥२१०-२११॥ उसी समयसे लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर  
 कहने लगे । मनुष्योंने देखा कि यह नरभक्षी है इसलिए डरकर उन्होंने उसकी व्यवस्था  
 बना दी कि तुम प्रतिदिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्यको खाया करो । उसी नगरमें एक  
 चण्डकौशिक नामका ब्राह्मण रहता था । सोमश्री उसकी स्त्री थी, चिरकाल-तक भूतोंकी  
 उपासना करनेके बाद उन दोनोंने मौण्डकौशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥२१२-२१४॥ किसी  
 एक दिन कुम्भके आहारके लिए मौण्डकौशिककी बारी आयी । लोग उसे गाड़ीपर डालकर  
 ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्भने हाथमें दण्ड लेकर उन भूतोंका पीछा किया,  
 भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकौशिकको भयसे एक बिलमें डाल-  
 दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस ब्राह्मणको निगल लिया ॥२१५-२१६॥ इसलिए  
 महाराजकी विजयार्थकी गुहामें रखना ठीक नहीं है । बुद्धिसागरके ये हितकारी वचन,  
 सुनकर सूक्ष्म बुद्धिका धारी मतिसागर मन्त्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह तो कहा  
 नहीं है कि महाराजके ऊपर वज्र गिरेगा । उसका तो कहना है कि जो पौदनपुरका राजा  
 होगा उसपर वज्र गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पौदनपुरका राजा बना देना

जगद्भवता प्रोक्तं युक्तमित्यभ्युपेत्य ते । संभूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिबिम्बं नृपासने ॥ २१९ ॥  
 निवेद्य बोदनाधीशस्त्वमित्येनमपूजयत् । महतीशोऽपि परित्यक्तराज्यमोगोपभोगकः ॥ २२० ॥  
 प्रारब्धपूजादानादिनिष्प्रकृतिमण्डकः । जिनचैत्यालये शान्तिकर्मं कुर्वन्पुषाविशन् ॥ २२१ ॥  
 सप्तमेऽहनि यक्षस्य प्रतिमार्था महाध्वनि । न्यपतन्निरुद्धं मूर्ध्नि सहसा भीषणोऽशनिः ॥ २२२ ॥  
 तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते प्रमोदापुरवासिनः । ब्रह्ममानानकध्वानैरकुर्वन्सुखसर्वं परम् ॥ २२३ ॥  
 'नैमित्तिकं समाहूय राजा संपूजय दत्तवान् । तस्मै ग्रामशतं पद्मिनीखेटेन ससंमद' ॥ २२४ ॥  
 विधाय विधिवद्भवत्या शान्तिपूजापुरस्सरम् । महाभिषेकं लोकेषामहंतां सचिवोत्तमाः ॥ २२५ ॥  
 अष्टापदमयैः कुम्भैरभिषिच्य महीपतिम् । सिंहासनं समारोप्य सुराख्ये प्रत्यतिष्ठपत् ॥ २२६ ॥  
 पूर्वं सुखसुखेनैव काले गच्छति सोऽन्यदा । विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम् ॥ २२७ ॥  
 सुतारया सह ज्योतिर्वनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सलोकं कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥  
 इतश्चमरचञ्चालखपुरेशोऽशनिघोषकः । आसुर्याश्च सुतो कङ्क्ष्या महाभिन्द्शाशनेः खगः ॥ २२९ ॥  
 विद्यां स भ्रामरीं नाम्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम् । सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातुं कृतोद्यमः ॥ २३० ॥  
 कृत्रिमैणच्छलात्समादपनीय महीपतिम् । तत्र पूणं निवृत्त्यैव्य सुतारां दुरिताशयः ॥ २३१ ॥  
 मृगोऽगाद् वायुवेगेन तं ग्रहीतुमवारयन् । आगतोऽहं प्रयात्यस्त्वमर्को यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥  
 इत्युक्त्वाऽऽशरोप्य तां खेटो विमानमगमत् शठः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यशाकिना दर्शितं निजम् ॥ २३३ ॥  
 रूपमालोचय तत्कोऽयमिति सा विह्वलाऽभवत् । इतस्तद्योक्तवैतालीं सुतारारूपधारिणीम् ॥ २३४ ॥

चाहिए ॥ २१७-२१८ ॥ उसकी यह बात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है । अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासनपर एक यक्षका प्रतिबिम्ब रख दिया और 'तुम्हीं बोदनपुरके राजा हो' यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भोग-उपभोग सब छोड़ दिये, पूजा दान आदि सत्कार्य प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभाववाली मण्डली-को साथ लेकर जिनचैत्यालयमें शान्ति कर्म करता हुआ बैठ गया ॥ २१९-२२१ ॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूर्तिपर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर वज्र अकस्मात् बड़ी कठोरतासे आ पड़ा ॥ २२२ ॥ उस उपद्रवके शान्त होनेपर नगरवासियोंने बड़े हर्षसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे बहुत भारी उत्सव किया ॥ २२३ ॥ राजाने बड़े हर्षके साथ उस निमित्तज्ञानीको बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्मिनी-खेटके साथ-साथ उसे सौ गाँव दिये ॥ २२४ ॥ श्रेष्ठ मन्त्रियोंने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्की विधि-पूर्वक भक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया और राजाको सिंहासनपर बैठाकर सुवर्णमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६ ॥ इसके बाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन उसने अपनी मातासे आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिर्वनकी ओर गमन किया । वह वहाँ अपनी इच्छानुसार लीला-पूर्वक विहार करता हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपुरका राजा इन्द्राशनि, रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिघोष नामका विद्याधरपुत्र भ्रामरी विद्याको सिद्ध कर अपने नगरको लौट रहा था । बीचमें सुताराको देखकर उसपर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिणके छलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुताराके पास लौटकर वापस आया ॥ २३१ ॥ कहने लगा कि हे प्रिये ! वह मृग तो वायुके समान वेगसे चला गया । मैं उसे पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लौट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों अपने नगरकी ओर चलें ॥ २३२ ॥ इतना कहकर उस धूर्त विद्याधरने सुताराको विमानपर बैठाया और वहाँसे चला दिया । बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देखकर 'यह कौन है' ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत विह्वल हुई । इधर उसी अशनिघोष विद्याधरके द्वारा प्रेरित हुई



यस्तिं कुक्कुटसर्पेण दंष्ट्राहमिति संभ्रमात् । अग्र्यमाणासिवालोक्त्य विनिवृत्त्यागतः स्वयम् ॥ २३५ ॥  
 अहार्थं तद्विषं श्वात्वा मणिमन्त्रौषधादिभि । सुखिग्धः पोदनाभोशो मर्तुं सह तयोस्त्युकः ॥ २३६ ॥  
 सूर्यकान्तसमुद्भूत इह नञ्जकितेनधनः । चितिकां कान्तया सार्द्धंमाचरोह शुचिकुङ्कुः ॥ २३७ ॥  
 तदैव खेचरी कौचित् तत्र सञ्चिहितौ तयो । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्मृत्यैकेन महोजसा ॥ २३८ ॥  
 हवाऽसौ मीतवैताली वामपादेन दर्शित- । स्वरूपास्य पुरंः स्थातुमशकाऽगाददृश्यताम् ॥ २३९ ॥  
 तद्विद्योक्त्य महोपाको नितरां विस्मयं गतः । किमेतदिश्यद्योचत् खचरश्वाह तत्कथाम् ॥ २४० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणश्रेण्यां भरते खचराचले । ज्योतिःप्रभपुराधीशः संमिन्नोऽहं मम प्रिया ॥ २४१ ॥  
 संजया सर्वं कथ्याणी सूनुर्द्वीपशिखाह्वयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनू प्रभूभुजा ॥ २४२ ॥  
 विहर्तुं विपुलोद्याने नलान्तशिखरश्रुते । ततो निवर्तमानः सन् स्वयानकविमानगाम् ॥ २४३ ॥  
 क मे श्रीविजयः स्वामी रथनूपुरभूपते । क मां पाहीति साक्रोशस्वनितां करणस्त्रनम् ॥ २४४ ॥  
 श्रुत्वाहं तत्र गत्वाऽऽख्यं कारत्वं कां वा हरस्पयम् । इत्यस्ती चाह सक्रोधं चञ्चान्तचमराधिपः ॥ २४५ ॥  
 खगेशोऽशनिकोषाख्यो हठादेनां नयाम्यहम् । भवतो यदि सामर्थ्यमस्त्येहोहीति मोचय ॥ २४६ ॥  
 तच्छ्रुत्वा मत्प्रभोरेषा नीयते तेन सानुजा । सामान्यवत्कथं यामि हन्त्येनमित्ति निश्चयात् ॥ २४७ ॥  
 योद्ध प्रकममाणं मां निवारणाने मा कृपाः । वृथेति युद्धं निर्वन्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥  
 ज्योतिर्वने विद्योगेन मम शोकानलाहतः । वर्तते तत्र गत्वा तं मदवस्थां निवेद्य ॥ २४९ ॥

वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर बैठ गयी ॥ २३३-२३४ ॥ जब श्रीविजय वापस लौटकर आया तब उसने कहा कि मुझे कुक्कुटसर्पने डस लिया है । इतना कहकर उसने बड़े सम्भ्रमसे ऐसी चेष्टा बनायी जैसे मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र तथा ओषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता । अन्तमें निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस कृत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया । उसने एक चिता बनायी, सूर्यकान्तमणिसे उत्पन्न अग्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्वलित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुताराके साथ चितापर आरूढ़ हो गया ॥ २३५-२३७ ॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत वैतालीको बायें पैरसे ठोकर लगायी जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया । अब वह श्रीविजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समर्थ न हो सकी अतः अदृश्यताको प्राप्त हो गयी ॥ २३८-२३९ ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आश्चर्यको प्राप्त हुए । उन्होंने कहा कि यह क्या है ? उत्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४० ॥

इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिःप्रभ नामका नगर है । मैं वहाँका राजा सम्भ्रम हूँ, यह सर्वकल्याणी नामकी मेरी स्त्री है और यह दीपशिख नामका मेरा पुत्र है । मैं अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखरनल नामसे प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहार करनेके लिए गया था । वहाँसे लौटते समय मैंने मार्गमें सुना कि एक स्त्री अपने विमानपर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि 'मेरे स्वामी श्रीविजय कहाँ हैं ? हे रथनूपुरके नाथ ! कहाँ हो ? मेरी रक्षा करो !' इस प्रकार उसके कथन शब्द सुनकर मैं वहाँगया और बोला कि तू कौन है ? तथा किससे हरण कर ले जा रहा है ? मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं चमरचंच नगरका राजा अशनिकोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबदेखी लिये जा रहा हूँ, यदि आपमें शक्ति है तो आओ और इसे छुड़ाओ ॥ २४१-२४२ ॥ यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटी बहनको ले जा रहा है । मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला जाऊँ ? इसे अभी मारता हूँ । ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही था कि उस स्त्रीने मुझे रोककर कहा कि आप्रह्वंश वृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा ज्योतिर्वने

इति चक्रान्तया राजन् प्रेषितोऽहमिहागतः । इयं स्वद्वरिनिर्दिष्टदेवतेत्यादाऽद्विदितः ॥२३०॥  
 श्रुत्वा त पं दनाधीशो सत्कृतं कथ्यतामिदम् । वृत्तान्तं सत्वरं शक्त्वा सन्मित्रेण त्वयाऽऽबुना ॥२५१॥  
 मज्जन-अनुजादीनामिच्छुक्तोऽसौ नमश्चर । सुतं द्वीपशिखं सद्य प्राहिणोत्पोदनं प्रति ॥२५२॥  
 अभवत्पोदो ाख्येऽपि बहुस्वातविज्जम्भणम् । तद्दृष्ट्वाऽमोत्रभिह्लाष्यो जयगुप्तश्च संभ्रमात् ॥२५३॥  
 उत्पन्नं स्वामिनः किंचिद् भयं तदपि निर्गतम् । आगामिष्यति चाद्यव कश्चिद्दुःखलवार्तया ॥२५४॥  
 स्वस्थास्तित्छन्तु ततन्नमवन्तो मा गमन् भयम् । इति स्वयंप्रमार्तैस्तानाश्वासं नयतः स्म तात् ॥२५५॥  
 तथैव गगनाद्दीपशिखोऽप्यागम्य भूतलम् । स्वयंप्रमां सुतं चास्याः प्रणम्य विविधवस्तुधीः ॥२५६॥  
 क्षेमं श्रीविजयात्रीशो मवद्भिरत्यज्यतां भयम् । इति तद्वृत्तकं सर्वं यथावत्स्थं न्यवेदयत् ॥२५७॥  
 तद्दार्ताकणनादानपरिस्नानलतोपमा । निर्वाणाम्यणदीपस्थ शिखेव विगतप्रमा ॥२५८॥  
 श्रुतप्रावृद्धवत्पदानकलहंसीव शो केनी । स्याद्वाद्वादिविध्वस्तदुःश्रुतिर्वाकुलाकुला ॥ २५९ ॥  
 तदानीमेव निर्गत्य चतुरङ्गकान्विता । स्वयंप्रमाऽग्नात् सखगा मसुता तद्वनान्तरम् ॥ २६० ॥  
 आयात्रां दूरतो दृष्ट्वा मातरं स्वानुजानुगाम् । प्रतिगस्थानमत्तस्याः पादयोः पोदनाधिपः ॥ २६१ ॥  
 स्वयंप्रमा च तं दृष्ट्वा वाग्माविलम्बितोचन । वंचित्छ पुत्र दृष्टोऽसि मत्पुण्याचिचरजीवितः ॥ २६२ ॥  
 इति श्रीविजयं दोभ्यामुत्थाप्यात्पृश्य तोषिणी । सुखासीनमथापृच्छस्तुताराहरणादिकम् ॥ २६३ ॥  
 खगः सम्भिन्ननामाऽयं सेवकोऽमिततेजसः । अनेनोपकृतियांऽद्य कृता साऽम्ब त्वयापि न ॥ २६४ ॥

मेरे वियोगके कारण शोकाग्निसे पीड़ित हो रहे हैं तुम वहाँ जाकर उनसे मेरी दशा कह दो । इस प्रकार हे राजन्, मैं तुम्हारी स्त्रीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञाकारिणी वैताली देवी है । ऐसा उस हितकारी विद्याधरने बड़े आदरसे कहा । इस प्रकार सम्भिन्न विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पोदनपुरके राजाने बड़े आदरसे सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया । आप मेरे सम्मित्र हैं अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई आदिसे कह दीजिए । ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख नामक पुत्रको शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया ॥२४७-२५२॥ उधर पोदनपुरमें भी बहुत उत्पातोंका विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोघजिह्व और जयगुप्त नामके निमित्तज्ञानी बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीको कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब वह दूर हो गया है, उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आयेगा । इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, भयको प्राप्त न हों । इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रमा आदिको धीरज वधा रहे थे ॥२४३-२४५॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान् विद्याधर आकाशसे पृथिवी-तलपर आया और विधि-पूर्वक स्वयंप्रमा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविजयकी सब प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय छोड़िए, इस प्रकार सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये ॥२५६-२५७॥ उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता स्नान हो जाती है, अथवा बुझनेवाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द सुननेवाले कलहंसी जिस प्रकार शोकयुक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वान्के द्वारा विध्वस्त हुई दुःश्रुति ( मिथ्याशास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंप्रमा भी स्नान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा अत्यन्त आकुल हो गयी थी ॥२५८-२५९॥ वह उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस वनके बीच पहुँच गयी ॥२६०॥ पोदनाधिपतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा और सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥२६१॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रमाके नेत्र हर्षाश्रुओंसे व्याप्त हो गये । वह कहने लगी कि 'हे पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, तू चिरंजीव रह' इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयकी अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी सन्तोषका अनुभव किया । अथानन्तर—जब श्रीविजय मुखसे बैठ गये तब उसने सुताराके हरण आदिका समाचार पृछा ॥२६२-२६३॥ श्रीविजयने कहा कि यह सम्भिन्न-

ममेति शेषमप्याह ततोऽसावप्यनूद्भवम् । तनूजं पुरस्त्रायै निर्वर्त्याग्रजान्विता ॥ २६५ ॥  
 रथनूपुरमुद्दिश्य गता गगनवर्त्मना । स्वदेशाचरचारोक्त्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥  
 महाविभूत्या प्रथेत्य मामिका परितुष्यता । प्रवेशिता सकेतूच्चैः पुरमावद्धतोरणम् ॥ २६७ ॥  
 प्रातूर्णकत्रिभि विश्वं विधाय विधिवत्तयोः । यद्वागमनकार्यं च ज्ञात्वा विद्याधराधिपः ॥ २६८ ॥  
 दूतं मरीचिनामानमिन्द्राशनिमुत् प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदिस्वा दुस्सहं चक्रः ॥ २६९ ॥  
 आलोच्य मन्त्रिभिः सार्द्धंमुच्छैतुं तं मदोद्धतम् । मैथुनाय महच्छाय निजायात्र समागतम् ॥ २७० ॥  
 युद्धवीर्यं प्रहरणावरणं बन्धमोचनम् । इति विद्यात्रयं शत्रुध्वंसार्थमदितावरात् ॥ २७१ ॥  
 रश्मिवेगसुवेगादिसहस्राहार्द्धात्मजैः सह । पोदनेशं ब्रजेत्युक्त्वा शत्रोरुपरि दर्पिणः ॥ २७२ ॥  
 सहस्ररश्मिना सार्द्धं ज्यायसा स्वान्मजेन सः । मदाज्वालाह्वयां सर्वविद्याच्छेदनसंयुताम् ॥ २७३ ॥  
 संजयन्तमहाचैत्यमूले साधयितुं गतः । ह्रीमन्तं पर्वतं विद्यां विद्यानां साधनास्पदम् ॥ २७४ ॥  
 रश्मिवेगादिभिः सार्द्धं श्रुत्वा श्रीविजयागमम् । युद्धायाशनिघोषेण प्रेषिताः स्वसुताः क्रुधाः ॥ २७५ ॥  
 सुघोषः शतघोषाख्यः स सहस्रादिघोषकः । युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासार्द्धं सर्वे मद्भुसुपागमन् ॥ २७६ ॥  
 तद् युद्ध्वा क्रोधसतसो बोद्धुं स्वयमुपेयिवान् । स्वनाशपिशुनाशेषघोषणोऽशनिघोषकः ॥ २७७ ॥  
 युद्धे श्रीविजयोऽप्येनं विधातुं प्राहर्द् द्विधा । भ्रामरीविद्यया सोऽपि द्विरूपः समजायत ॥ २७८ ॥  
 चतुर्गुणत्वमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डितौ । संग्रामोऽशनिघोषैकमायाऽभूदिति खण्डनात् ॥ २७९ ॥

नामक विद्याधर अमिततेजका सेवक है । हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुझने भी नहीं किया ॥२६४॥ ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनायी । तदनन्तर स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए वापस लौटा-दिया और बड़े पुत्रको साथ लेकर वह आकाशमार्गसे रथनूपुर नगरको चली । अपने देशमें घूमनेवाले गुप्तचरोके कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े वैभवके साथ उसकी अग-वानी की तथा सन्तुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और तोरण बाँधे गये हैं ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥२६५-२६७॥ उस विद्याधरोके स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्रा-शनिके पुत्र अशनिघोषके पास मरीचि नामका दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कहे । दूतने वापस आकर वे सब वचन अमिततेजसे कहे । उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिघोषको नष्ट करनेका दृढ निश्चय कर लिया । उच्च अभिप्रायवाले अपने बहनोईको उसने शत्रुओंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरम्परागत युद्धवीर्य, प्रहरणावरण और बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े आदरसे दीं ॥२६८-२७१॥ तथा रश्मिवेग सुवेग आदि पाँच सौ पुत्रोंके साथ-साथ पोदनपुरके राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा ॥२७२॥ और स्वयं सहस्ररश्मि नामक अपने बड़े पुत्रके साथ समस्त विद्याओंको छेड़ने-वाली महाज्वाला नामकी विद्याको सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी- जगह ह्रीमन्त पर्वतपर श्रीसंजयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया ॥२७३-२७४॥ इधर जब अशनि-घोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रश्मिवेग आदिके साथ आ रहा है तब उसने क्रोधसे सुघोष, शतघोष, सहस्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमे पराजित हुए । जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशको सूचित करने-वाली हैं ऐसे अशनिघोषने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ॥२७५-२७७॥ इधर युद्धमें श्रीविजयने अशनिघोषके दो टुकड़े करनेके लिए प्रहार किया । उधर भ्रामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए उन दोनोंके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये । इस प्रकार वह सारी

तदा साधितविद्यः सन् रथनूपुरनायकः । ५-(६) त्याद्विदान्महाज्वालविद्यां तां सोढुमक्षमः ॥ २८० ॥  
 मासाद्दहनसंप्राप्तो विजयात्पविनेशिनः । नाभेयसीमनामाद्रिगजध्वजसमीपगाम् ॥ २८१ ॥  
 सर्भो भीष्वा रग्योऽनास्कोपात्तेच्यनुयायितः । मानस्तम्भं निरीक्ष्यासन् प्रसीदच्चित्तवृत्तय ॥ २८२ ॥  
 जिनं प्रदक्षिणीकृत्य त्रिः प्रणम्य जगत्पतिम् । चान्तवैरविषाः सर्वं तत्रासिपत ते समम् ॥ २८३ ॥  
 उदागत्यासुरी देवी सर्ना शीलवती स्वयम् । सुतारां व्रतमानीय परिभ्रजानलतोपमाम् ॥ २८४ ॥  
 मत्पुत्रपथ युवां क्षन्नुपमप्राधनमर्हतः । ह्युद्युदीर्यार्यत्सां श्रोविजयामिततेजसो ॥ २८५ ॥  
 तिरश्चामपि चेद्देवमहार्यं त्रिभिहेतुकम् । विनश्यति जिनाभ्याशो मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥  
 कर्माण्यनाद्रियद्दानि मुच्यन्ते यदि संस्मृतेः । जिनानां सन्निर्यौ तेषां नाश्रयं वैरमोचनम् ॥ २८७ ॥  
 अन्तको दुर्निवारोऽत्र वायंते योऽपि हेलया । जिनस्मरणमात्रेण न चार्योऽभ्यः स को रिपु ॥ २८८ ॥  
 तदन्तकप्रताकारं स्मरणीयो नर्नापिभिः । १. गत्तयेकनाथोऽर्हन् पुरं च हितावहः ॥ २८९ ॥  
 अथ विद्याधराधोक्षः प्रणम्य प्राञ्जलिजिनम् । भक्त्या सद्गममप्राक्षीत्स तत्त्वार्थब्रह्मसुखया ॥ २९० ॥  
 महादुःखोत्सिर्गर्णदुःसंसारपयोनिधे । स्फुरत्कपायनकस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१ ॥  
 प्रदृश्यो नापरः कोऽपि तोर्णसंसारमागारः । त्वमेवैको जगद्यन्त्रो विनेयाननुयाधि नः ॥ २९२ ॥  
 मयद्गायानुष्ठप्तावा रत्नत्रयमहाधनाः । ३. स्वस्थानं जन्मवाराने रवापन्सुखसाधनम् ॥ २९३ ॥

सेना अशनिघोषकी मायाने भर गयी ॥२७८-२७९॥ इतनेमें ही रथनूपुरका राजा अमिततेज विद्या सिद्ध कर आ गया और आते ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याको आदेश दिया । अशनिघोष उस विद्याको सह नहीं सका ॥२८०॥ इसलिये पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और भयसे नाभेयसीम नामके पर्वतपर गजध्वजके समीपवर्ती विजय तीर्थकरके समवसरणमें जा युसा । अमिततेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त हो गयीं । सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवान्की तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और वैररूपी विषको उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ बैठ गये ॥२८१-२८३॥ उसी समय शीलवती आसुरीदेवी सुरक्षायी हुई लताके समान सुताराको धीत्र ही लायी और श्रीविजय तथा अमिततेजको समर्पण कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका अपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं ॥२८४-२८५॥ तिर्यचोका जो जन्मजात वैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनेन्द्र भगवान्के समीप आकर छूट जाता है तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना है ? ॥२८६॥ जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरणसे अनादि कालके बंधे हुए कर्म छूट जाते हैं तब उनके समीप वैर छूट जावे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥२८७॥ जो बड़े दुःखसे निवारण किया जाता है ऐसा यमराज भी जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोक न जा सके ? ॥२८८॥ इसलिये बुद्धिसानोंको यमराजका प्रतिकार करनेके लिये तीनों लोकोंके नाथ अर्हन्त भगवान्का ही स्मरण करना चाहिए । वही इस लोक तथा परलोक-में हितके करनेवाले हैं ॥२८९॥

अथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिये भगवान्को नमस्कार किया और तत्त्वार्थको जाननेकी इच्छासे सद्धर्मका स्वरूप पूछा ॥२९०॥ जिसमें कपायरूपी मगरमच्छ तैर रहे है और जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है ऐसे संसार-रूपी विकराल सागरका पार कौन पा सकता है ? यह बात जिनेन्द्र भगवान्से ही पूछी जा सकती है किसी दूसरेसे नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है । हे भगवन् ! एक आप ही जगत्के बन्धु है अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धर्मका स्वरूप बतलाइए ॥२९१-२९२॥ रत्नत्रय रूपी महाधनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसाररूपी समुद्रसे निकलकर सुख देनेवाले अपने स्थानको

१ जगत्त्रैलोक्यनाथोऽर्हन् ग० । २-ननु शास्त्रि नः ग० ।-ननुसाधि न ल० । ३ स्वस्थानं ल० । ४-रावापत् ल० ।

इति तं च ततो देवो वाचा प्रोवाच दिव्यया । संतर्प्यन्ते यया भव्या प्राच्या वृष्योत्र चातकाः ॥२१४॥  
 शृणु भव्य भवस्यास्य कारणं कर्म कर्मणः । हेतवो हे खगाधीश मिथ्यात्वासंयमादयः ॥ २१५ ॥  
 मिथ्यात्वोदयसंभूतपरिणामो विपर्ययम् । ज्ञानस्य जनयन् विद्धि मिथ्यात्वं बन्धकारणम् ॥ २१६ ॥  
 अज्ञानसंशयैकान्तविपरीतविकल्पनम् । विनयैकान्तजं चेति तद्वृत्तस्तपश्चधा मतम् ॥ २१७ ॥  
 पापधर्माभिधानावबोधवृत्तुषु जन्तुषु । मिथ्यात्वोदयपर्यायो मिथ्यात्वं स्यात्तदादिमम् ॥ २१८ ॥  
 आत्तागमादिनानात्वात्तत्त्वे दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्वं तद्विद्धि ब्रुधसत्तमे ॥ २१९ ॥  
 द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे अङ्गे चाक्षरसाधने । तत्स्याद्वैकान्तमिथ्यात्वं येनैकान्तावधारणम् ॥ २२० ॥  
 यो ज्ञानज्ञायकज्ञेययाथात्म्ये निर्णयोऽन्यथा । स येनात्मनि तद्विद्धि मिथ्यात्वं विपरीतजम् ॥ २२१ ॥  
 मनोवाक्कायवृत्तेन प्रणतो सर्ववस्तुषु । मुक्त्युपायमतिथेन मिथ्यात्वं स्यात् यदन्तिमम् ॥ २२२ ॥  
 अत्रतस्य मनःकायवचोवृत्तिसंयमः । तद्वैः सोऽपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात् ॥ २२३ ॥  
 अप्रत्याख्यानमोहानामुदयो वाचदङ्गिनाम् । आ चतुर्थगुणस्थानात्तावत्स बन्धकारणम् ॥ २२४ ॥  
 कायवाक्चेतसां वृत्तिवृत्तानां मलकारिणी । या सा षष्ठगुणस्थाने प्रमादो बन्धवृत्तये ॥ २२५ ॥  
 प्रोक्ताः पञ्चदशैतस्य भेदाः संवल्लनोदयात् । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ २२६ ॥  
 यः संवल्लनसंज्ञस्य चतुष्कस्थोदयाद्भवेत् । गुणस्थानचतुष्के स कषायो बन्धहेतुकः ॥ २२७ ॥  
 स यः षोडशभेदेन कषायः कथितो जिवैः । उदशान्तादितो हेतुर्वन्धे स्थित्यनुमागयोः ॥ २२८ ॥

प्राप्त करते हैं ॥२१३॥ ऐसा विद्याधरोंके राजाने भगवान्से पूछा । तदनन्तर भगवान् दिव्य-  
 ध्वनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार पूर्व वृष्टिके द्वारा चातक पक्षी  
 सन्तोषको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्वनिके द्वारा सन्तोषको प्राप्त होते हैं  
 ॥२१४॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म है और कर्मके कारण मिथ्यात्व  
 असंयम आदि हैं ॥२१५॥ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परिणाम ज्ञानको भी  
 विपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्व जानो । यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है ॥२१६॥ अज्ञान,  
 संशय, एकान्त, विपरीत और विनयके भेदसे ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वको पाँच प्रकारका  
 मानते हैं ॥२१७॥ पाप और धर्मके नामसे दूर रहनेवाले जीवोंके मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जो  
 परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यात्व है ॥२१८॥ आप तथा आगम आदिके नाना होनेके  
 कारण जिसके उदयसे तत्त्वके स्वरूपमें दोलायमानता—चंचलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ  
 विद्वान् ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥२१९॥ द्रव्य पर्यायरूप पदार्थमें अथवा मोक्षका साधन  
 जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय  
 करना सो एकान्त मिथ्यादर्शन है ॥२२०॥ आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक और  
 ज्ञेयके यथार्थ स्वरूपका विपरीत निर्णय होता है उसे विपरीत मिथ्यादर्शन जानो ॥२२१॥ मन,  
 वचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है और समस्त पदार्थोंको मोक्षका उपाय  
 माना जाता है उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं ॥२२२॥ व्रतरहित पुरुषको जो मन वचन कायकी  
 क्रिया है उसे असंयम कहते हैं । इस विषयके जानकार मनुष्योंने प्राणी-असंयम और इन्द्रिय-  
 असंयमके भेदसे असंयमके दो भेद कहे हैं ॥२२३॥ जबतक जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण चारित्र  
 मोहका उदय रहता है तबतक अर्थात् चतुर्थगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया  
 है ॥२२४॥ छठे गुणस्थानोंमें व्रतोंमें संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे  
 प्रमाद कहते हैं । यह प्रमाद छठे गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है ॥२२५॥ प्रमादके पन्द्रह  
 भेद कहे गये हैं । ये संवल्लन कषायका उदय होनेसे होते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और  
 परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण बनते हैं ॥२२६॥ सातवेंसे  
 लेकर दसवें तक चार गुणस्थानोंमें संवल्लन क्रोध मान माया लोभके उदयसे जो परिणाम होते हैं  
 उन्हें कषाय कहते हैं । इन चार गुणस्थानोंमें यह कषाय ही बन्धका कारण है ॥२२७॥ जिनेन्द्र

आत्मप्रदेशसंचारो योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानत्रये ज्ञेयः सद्बुद्धयश्च स एककः ॥ ३०६ ॥  
 मानसः स चतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्व द्वयबन्धकृत् ॥ ३१० ॥  
 पञ्चभिर्बन्धते मिथ्यावादिभिर्वर्णितैः सदा । स त्रिंशत्तिशतेनार्यकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥  
 जन्मुत्सैर्भ्रम्यते भूयो भूयो गत्यादिपर्ययः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवसमासकः ॥ ३१२ ॥  
 त्र्यज्ञानदर्शानोपेतस्त्रिभावा वीतसंयमः । भव्योऽभ्यव्यवच संसारचक्रकावर्तगतगः ॥ ३१३ ॥  
 जन्ममृत्युजरारोगसुखदुःखादिभेदभाक् । अतीतानादिकालेऽत्र कश्चित्कालादिलब्धिवतः ॥ ३१४ ॥  
 करणत्रयसंशान्तसप्तप्रकृतिसंचयः । प्राग्बिच्छिन्नसंसारः शमसंभूतदर्शनः ॥ ३१५ ॥  
 अप्रत्याख्यानामिश्राख्यभावाप्तद्वान्नतः । प्रत्याख्यानाख्यमिश्राख्यभावाप्तमहाव्रतः ॥ ३१६ ॥  
 सप्तप्रकृतिनिर्नाशकश्चाधिकदर्शनः । मोहारातिविधानोत्थयथाधिकारभूषितः ॥ ३१७ ॥  
 द्वितीयशुक्लसद्बुध्यानो घातित्रितयघातक । नवकेवलभावाप्या स्नातकः सर्वपूजित ॥ ३१८ ॥  
 तृतीयशुक्लसद्बुध्यानिस्सदाशेषयोगक । समुच्छिन्नक्रियाथोगाद्विच्छिन्नशेषबन्धकः ॥ ३१९ ॥  
 एवं त्रिरूपसन्मार्गात् क्रमासांज्ञववारिधिम् । भव्यो भवादृशो भव्य समुत्तीर्यैधते सदा ॥ ३२० ॥  
 इति तं जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनभाषिताम् । श्रुत्वा पीतामृतो वाऽसौ विश्वविद्याधरेश्वरः ॥ ३२१ ॥

भगवान्ने इस कषायके सोलह भेद कहे हैं । यह कषाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी ओर स्थितिवन्ध तथा अनुभागबन्धका कारण माना गया है ॥ ३०८ ॥ आत्माके प्रदेशोंमें जो संचार होता है उसे योग कहते हैं । यह योग ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें सातावेदनीयके बन्धका कारण माना गया है । इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है ॥ ३०९ ॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है और काय-योग सात प्रकारका है । ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने सम्भव हों उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं । हे आर्य ! जिनका अभी वर्णन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचके द्वारा यह जीव अपने-अपने योग्य स्थानोंमें एक सौ बीस कर्मप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है ॥ ३१०-३११ ॥ इन्हीं प्रकृतियोंके कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार-बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव समान होते हैं, वहाँ यह जीव तीन अब्रान और तीन अदर्शनोंसे सहित होता है, उसके औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है और कोई अभव्य होता है । इस प्रकार संसारचक्रके भँवररूपी गड्ढेमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंको प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है । इनमें-से कोई जीव कालादि लब्धियोगका निमित्त पाकर अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है । तदनन्तर अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमसे महाव्रत प्राप्त करता है । कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है । कभी मोह-कर्मरूपी शत्रुके उच्छेदसे उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्रसे अलंकृत होता है । तदनन्तर द्वितीय शुक्ल-ध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोंका क्षय करता है, उस समय नव केवल-लब्धियोंकी प्राप्तिसे अर्हन्त होकर सवके द्वारा पूष्य हो जाता है । कुछ समय बाद तृतीय शुक्लध्यानके द्वारा समस्त योगोंको रोक देता है और समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके द्वारा समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है । इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-क्रमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्मार्गके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता है ॥ ३१२-३२० ॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी अमिततेज, श्रीजिनेन्द्र भगवान्के द्वारा

कालाशुकचतुर्भेदप्रायोग्यप्रापणात्तदा । सम्यकश्रद्धानसंशुद्धः श्रावकव्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥  
 भगवन् किंचिदिच्छामि प्रष्टुमन्यच्च चेतसि । स्थितं मेऽशनिघोषोऽयं प्रभावं तन्नत्रतोऽव्ययम् ॥ ३२३ ॥  
 सुतारां मेऽनुजामेव हतवान् केन हेतुना । हृत्यप्राक्षीञ्जिनेन्द्रोऽपि हेतुं तस्यैवमवव्रीत् ॥ ३२४ ॥  
 जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये भगवाह्वये । अचलग्रामवास्तव्यो ब्राह्मणो धरणीजटः ॥ ३२५ ॥  
 अग्निना युहिणी तोक्षी भूत्यन्येन्द्राग्निसंज्ञकौ । कपिलस्तस्य दासेरस्तद्वेदाध्ययने स्वयम् ॥ ३२६ ॥  
 वेदान्स सूक्ष्मबुद्धित्वाद्वाज्ञासीद् ग्रन्थतोऽर्थतः । तं ज्ञात्वा ब्राह्मणः क्रुद्ध्वा स्वयाऽयोग्यमिदं कृतस्य ॥ ३२७ ॥  
 इति दासीसुतं वेदाचदैव निरजीगमत् । कपिलोऽपि विषण्णत्वात्समावृत्तं पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥  
 श्रुत्वाऽध्ययनसंपन्नं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः । विप्रः स्वतनुजां जम्बूसमुत्पन्नां समर्पयत् ॥ ३२९ ॥  
 स राजपूजितस्तत्र सर्वशास्त्रार्थसारवित् । व्याख्यामलखिण्डतां कुर्वन्नन्यत्कतिचित्समाः ॥ ३३० ॥  
 तस्य विप्रकुलायोग्यदुश्चरित्रमिदंशनात् । तज्जात्यां सत्यमामास्यं कस्येत्यायत्तसंशया ॥ ३३१ ॥  
 वार्तापरम्पराज्ञातस्वकीयप्रामव<sup>३</sup> द्विजम् । स्वदारिद्र्यापनोदार्यं स्वान्तिकं समुपागतम् ॥ ३३२ ॥  
 दूरात् कपिलको दृष्ट्वा दुष्टात्मा धरणीजटम् । कुपितोऽपि मनस्यस्मे प्रत्युत्थायामिवाद्य च ॥ ३३३ ॥  
 समुच्चासनमारोप्य मातुर्भ्रात्रोश्च किं मम । कुशलं ब्रूत मद्भागयाद्ययमत्रैवमागताः ॥ ३३४ ॥

कही हुई जन्मसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी प्रक्रियाको सुनकर ऐसा सन्तुष्ट हुआ मानो उसने अमृत-का ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥ ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्तिसे उस समय उसने सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर अपने-आपको श्रावकोंके व्रतसे विभूषित किया ॥ ३२२ ॥ उसने भगवान्से पूछा कि हे भगवन् ! मैं अपने चित्तमें स्थित एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ । बात यह है कि इस अशनिघोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान् भी उसका कारण इस प्रकार कहने लगे ॥ ३२३-३२४ ॥

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका ग्राम है । उसमें धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता था ॥ ३२५ ॥ उसकी स्त्रीका नाम अग्निज्ञा था और उन दोनोंके इन्द्रभूति तथा अग्निभूति नामके दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नामका दासीपुत्र भी था । जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्ष्मबुद्धि था कि उसने अपने-आप ही शब्द तथा अर्थ-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था । जब ब्राह्मणको इस बातका पता चला तब उसने कुपित होकर 'तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दासी-पुत्रको उसी समय घरसे निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हुआ वहाँसे रत्नपुर नामक नगरमें चला गया ॥ ३२६-३२८ ॥ रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था । उसने कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी ॥ ३२९ ॥ इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रोंके सारपूर्ण अर्थके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगरमें कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान् अवश्य था परन्तु उसका आचरण ब्राह्मण कुलके योग्य नहीं था अतः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुश्चरितका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है ? ॥ ३३१ ॥ इधर धरणीजट दरिद्र हो गया । उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया । उसे आया देख कपिल मन-ही-मन बहुत कुपित हुआ परन्तु बाह्यमें उसने उठकर अभिवादन-प्रणाम किया । उच्च आसनपर बैठाया और कहा कि कहिए मेरी माता तथा भाइयोंकी कुशलता है न ? मेरे सौभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह अच्छा किया इस प्रकार

१ धरणीजट. ख, ल० । २ कस्येत्यायत्तसंशयम् क०, घ० । कस्येत्यायत्तसंशयः ल० । ३ द्विज. ग० ।

इति षट्पा प्रतोष्यैर्न स्नानवस्त्रासनादिभिः । स्वजात्युद्भेदमीतत्वात् सम्यक् तस्य मनोऽग्रहीत् ॥३३५॥  
 सोऽपि विप्रोऽतिदारिद्र्यमिद्रुतः पुत्रमेव तम् । प्रतिपद्याच्चरत्याथो नाथिनां स्थितिपालनम् ॥३३६॥  
 दिनानि कानिचिद्यातान्पेधं संवृतवृत्तयोः । तयोः कदाचित्तं विप्रं सत्यभामाघनाधितम् ॥३३७॥  
 अप्राप्नोत्तपरोक्षेऽयं किं सत्यं ब्रूत वः सुतः । पूतकुसितचारित्रात् प्रत्येमीति पुत्रताम् ॥३३८॥  
 स सुवर्णवसुगौर्दं यियासुश्चेतसा द्विषत् । गदित्वाऽनाघथावृत्तं दुष्टानां नास्ति दुष्करम् ॥३३९॥  
 अथ तन्नगराधीशः श्रीषेणः सिंहनन्दिताऽ- । निम्बिता च प्रिये तस्य तथोरिन्द्रेन्दुसज्जितौ ॥३४०॥  
 इन्द्रोपेन्द्रादितेनाम्नौ तनूत्रौ मनुजोत्तमौ । ताम्यामतिविनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन् ॥३४१॥  
 पापस्वरतिना सत्यभामा साम्बथमानिनी । सहवासमनिच्छन्वी भूपतिं शरणं गता ॥३४२॥  
 तः कापिलकं शोकान्मस्तकयस्तहस्तकम् । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोषणं कृतकद्विजम् ॥३४३॥  
 वीक्ष्य विज्ञातवृत्तान्तं स श्रीषेणमहीपतिः । पापिष्ठानां विजातीयानां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥३४४॥  
 एतदर्थं कुलीनानां नृपा कुर्वन्वि सग्रहम् । आदिमभ्याघसानेषु न ते यात्यन्ति विक्रियाम् ॥३४५॥  
 स्वयंरक्तो विरक्तायां योऽनुरागं प्रयच्छति । हरिनीलमणौ बानौ तेजः काङ्क्षन्ति कोहितम् ॥३४६॥  
 इत्यादि चिन्तयन् सद्यस्तं दुराचारमात्मनः । देशाञ्जिराक्तोद्धर्मानं न सहन्ते स्थितिक्षतिम् ॥३४७॥  
 कदाञ्चि महोपालः चारणद्वन्द्वमागतम् । प्रतीक्ष्यादित्यगत्याख्यमरिंजयमपि स्वयम् ॥३४८॥

पूछकर स्नान वस्त्र आसन आदिसे उसे सन्तुष्ट किया और कहीं हमारी जातिका भेद खुल न जाये इस भयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह ग्रहण कर लिया ॥३३२-३३५॥ दरिद्रतासे पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र-जैसा व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥३३६॥ इस प्रकार अपने समाचारोंको छिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये । एक दिन कपिलके परोक्षमें सत्यभामाने ब्राह्मणको बहुत-सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिए । क्या यह आपका ही पुत्र है ? इसके दुश्चरित्रसे मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है । धरिणीजट हृदयमें तो कपिलके साथ द्वेष रखता ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए सुवर्ण तथा धनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है ॥३३७-३३९॥

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीषेण था । उसके सिंहनन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो रानियाँ थीं । उन दोनोंको इन्द्र और चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और उपेन्द्रसेन नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्र थे अतः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे ॥३४०-३४१॥ सत्यभामाको अपने वंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी पतिके साथ सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गयी ॥३४२॥ उस समय अन्यायकी घोषणा करनेवाला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तकपर लगा रखा था, उसे देखकर और उसका हाल जानकर श्रीषेण राजाने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है । इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अन्तमें कभी भी विचारको प्राप्त नहीं होते ॥३४३-३४४॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्रीमें अनुरागही इच्छा करता है वह इन्द्रनील मणिमे लाल तेजकी इच्छा करता है ॥३४६॥ इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुराचारीको शीघ्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादाकी हानिको सहन नहीं करते ॥३४७॥ किसी एक दिन राजाने घरपर आये हुए आदित्यगति और अरिंजय नामके दो चारण मुनियोंको पडिगाह कर स्वयं आहार दान दिया, पंचाश्वर्य प्राप्त किये और दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भोग



दत्त्वान्नदानमेताभ्यामंवाप्याश्रयंपञ्चकम् । उदङ्कुर्वानुग्रहमाद् देशङ्गतरुमागदम् ॥३४९॥  
 देव्यौ दानानुमोदेन सत्यभामा च सत्क्रिया । तदेवापुरवापुस्ता किं न स्यात्सायुसंगमात् ॥३५०॥  
 अथ कौशाम्ब्यधीशस्य महाबलमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुखा नाम्ना श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥३५१॥  
 राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहगतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥३५२॥  
 एतयोपेन्द्रसेनस्य सांगत्यं स्नेहनिर्भरम् । अभूद्भूच्च तद्देतोस्तयोद्यधानवर्तिनोः ॥३५३॥  
 युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य तौ निवारयितुं नृपः । गत्वा कामातुरौ क्रुद्धावसमर्थं प्रियात्मजः ॥३५४॥  
 सोढुं तनुजयोर्दुःखमादाशयतया स्वयम् । अनाकनुवन् समाप्राप्य विषपुष्पं सृति ययौ ॥३५५॥  
 तदेव पुष्पमाप्राप्य समीयुर्विगतासुताम् । तद्देव्यौ सत्यभामा च विचित्रा विधिचोदना ॥३५६॥  
 धातकीखण्डपूर्वाङ्कुरुषूत्तरनामसु । दम्पती नृपतिः सिंहमन्दिता च बभूवतुः ॥३५७॥  
 अभूदनिन्दिताऽऽर्योऽथ सत्यभामा च चल्हमा । तस्थुः सर्वेऽपि ते तत्र भोगभूमोगभागिनः ॥३५८॥  
 अथ कश्चिखल्लो मध्ये प्रविश्य नृपपुत्रयोः । वृथा किमिति युद्धयेतामनुजा युवथोरियम् ॥३५९॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा कुमारभ्यां सविस्मयम् । कथं तदिति संपृष्ट, प्रत्याह गगनेचरः ॥३६०॥  
 धातकीखण्डप्राग्भोगं मन्दप्राच्यपुष्कला- । वती खगाद्रयपाकश्रेणीगतादित्यामपृथुंज ॥३६१॥  
 तनूजो मित्रसेनायां सुकुण्डलिकेशिनः । मणिकुण्डलनामाहं कदाचित्पुण्डरीकिणीम् ॥३६२॥  
 गतोऽमितप्रमार्हदम् २ः श्रुत्वा धर्मं सनातनम् । मत्पूर्वं भद्रसंबन्धमप्राशमवदंश्च ते ॥३६३॥

प्रदान करनेवाली उत्तरकुरुकी आयु बाँधी । राजाकी दोनों रानियों तथा उत्तम कार्य करनेवाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरुकी आयुका बन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि साधुओंके समागमसे क्या नहीं होता ? ॥३४८-३५०॥

अथानन्तर कौशाम्बी नगरीमें राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। वह श्रीकान्ता मानो सुन्दरताकी सीमा ही थी ॥३५१॥ राजा महाबलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनके लिए दी थी। श्रीकान्ताके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण स्त्री भी गयी थी। उसके साथ उपेन्द्रसेनका स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेवाले दोनों भाइयोंमें युद्ध होनेकी तैयारी हो गयी। जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये परन्तु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे। राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके परिणाम अत्यन्त आर्द्र-कोमल थे अतः वे पुत्रोंका दुःख सहन करनेमें समर्थ नहीं हो सके। फल यह हुआ कि वे विप-पुष्प सूँघ कर मर गये ॥३५२-३५५॥ वही विष-पुष्प सूँघकर राजाकी दोनों स्त्रियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो गयीं सो ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी प्रेरणा विचित्र होती है ॥३५६॥ धातकीखण्डके पूर्वाधं भागमें जो उत्तरकुरु नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंहमन्दिता दोनों दम्पती हुए और अनिन्दिता नामकी रानी आर्य तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। इस प्रकार वे सब वहाँ भोग-भूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥३५७-३५८॥

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाइयोंके बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो ? यह तो तुम्हारी छोटी बहन है। उसके वचन सुनकर दोनों कुमारोंने आश्चर्यके साथ पूछा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कहा ॥३५९-३६०॥ कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर एक पुष्कलावती नामका देश है। उसमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर आदित्याभ नामका नगर है। उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर राज्य करता है। सुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है। मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नामका पुत्र हूँ। मैं किसी समय पुण्डरीकिणीनगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जितेन्द्रसे सनातनधर्मका स्वरूप

१ -रमन्थत् ग० । -रप्रस्थान् ल० । २ समापुविगतासुताम् ख० । समीयुविगतासुताम् ल० ।

३ प्राग्भागे ख० ।

तृतीये पुष्कराख्यातद्वीपेऽपरसुरा बलात् । प्रतीच्यां वीतशोकाख्यं सरिद्धिव्यमध्यगम् ॥ ३६४ ॥  
 पुरं चक्रध्वजस्तस्य पतिः कनकमालिका । देवी कनकपद्यादिदत्ते जाते तयोः सुते ॥ ३६५ ॥  
 विद्युन्मत्याश्च तस्यैव देव्याः पद्मावती सुता । याति काले सुखं तेषां कटाच्छिकाललब्धितः ॥ ३६६ ॥  
 प्रपीतामितसेनाख्यागणिनीवाप्रसायना । सुते कनकमाला च कल्पेऽजनिपतादिमे ॥ ३६७ ॥  
 सुराः पद्मावती वीक्ष्य गणिकां कायुकद्वयम् । प्रसाध्यमानां तद्विज्ञाऽभूत्तत्र सुरलङ्घिका ॥ ३६८ ॥  
 ततः कनकमालैव स्वमभूर्मणिकुण्डली । सुताद्वयं च तद्वत्नपुरेऽभूतां नृपात्मजौ ॥ ३६९ ॥  
 स्वश्च्युत्वाऽमन्तमत्याख्या सुरवेदेय प्यजायत । तद्धेतोर्वर्तते युद्धमथ तद्राजपुत्रयोः ॥ ३७० ॥  
 इति जैनीमिमां वाणीमाकर्ण्यान्यायकारिणी । युवामज्ञातधर्माणी निषेद्ध महमागत ॥ ३७१ ॥  
 इति तद्वचनाद्वीतकलहौ जातसंविदौ । सद्यः संभूतनिर्वगौ सुधर्मगुहसंनिधौ ॥ ३७२ ॥  
 दीक्षामादाय निर्वाणमार्गपर्यन्तगामिनौ । क्षायिकानन्तबोधादिगुणौ निर्वृतिमापतुः ॥ ३७३ ॥  
 तदानन्तमतिश्चातः संपूर्णश्रावकव्रता । नाकलोकमत्रापार्थ्यं न किं वा सदनुग्रहात् ॥ ३७४ ॥  
 सौधर्मकल्पे श्रंषेणो विमाने श्रीप्रभोऽभवत् । देवी श्रीनिलयेऽविद्युत्प्रभाऽभूत् सिंहनन्दिता ॥ ३७५ ॥  
 ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां विमाने विमलप्रभे । देवी शुक्लप्रभा नाम्ना देवोऽत्र विमलप्रभः ॥ ३७६ ॥  
 पञ्चपल्योपमप्रान्ते श्रंषेणः प्रच्युनस्ततः । अर्ककीर्तः सुतः श्रीमानजनिष्ठा स्वमीदृशः ॥ ३७७ ॥  
 तत्र उद्योतः प्रभा कान्ताऽजनि सा सिंहनन्दिता । आसीदनिन्दिता चायं देवी श्रीविजयाह्वयः ॥ ३७८ ॥

सुनकर मैनै अपने पूर्वेभव पूछे । उत्तरमें वे कहने लगे—॥३६१-३६३॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें पश्चिम मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सरिद् नामका एक देश है । उसके मध्यमें वीतशोक नामका नगर है । उसके राजाको नाम चक्रध्वज था, चक्रध्वजकी स्त्रीका नाम कनकमालिका था । उन दोनोंके कनकलता और पद्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥३६४-३६५॥ उसी राजाकी एक विद्युन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सबका समय सुखसे बीत रहा था । किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कनकमाला और उसकी दोनों पुत्रियोंने अमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों ही भरकर प्रथम स्वर्गमें देव हुए । इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेद्या दो कामियोंको प्रसन्न कर रही है उसे देख पद्मावतीने भी वैसे ही होनेकी इच्छा की । भरकर वह स्वर्गमें अप्सरा हुई ॥३६६-३६८॥ तदनन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चलकर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ है और दोनों पुत्रियोंके जीव रत्नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं । जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर आ चुका है वह स्वर्गसे चय कर अनन्तमति हुई है । इसी अनन्तमतिको लेकर आज तुम दोनों राजपुत्रोंका युद्ध हो रहा है ॥३६९-३७०॥ इस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी कही हुई वाणी सुनकर, अन्याय करनेवाले और धर्मको न जाननेवाले तुम लोगोंको रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥३७१॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनोंने सुधर्मगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनों ही मोक्षमार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक हुए और दोनों ही अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥३७२-३७३॥ तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण व्रत धारण किये और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके अनुग्रहसे कौन-सी वस्तु नहीं मिलती ? ॥३७४॥ राजा श्रीपेणका जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंहनन्दिताका जीव उसी स्वर्गके श्रीनिलय विमानमें विद्युत्प्रभा नामकी देवी हुई ॥३७५॥ सत्यभामा ब्राह्मणी और अनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रभ विमानमें शुक्लप्रभा नामकी देवी और विमलप्रभ नामके देव हुए ॥३७६॥ राजा श्रीपेणका जीव पाँच पल्य प्रमाण आयुके अन्तमें वहाँसे चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अर्ककीतिका पुत्र हुआ है ॥३७७॥ सिंहनन्दिता तुम्हारी

१ तदानन्तमतिन्वाह ख०, ग० । २ श्रीप्रभेऽभवत् ल० । ३-नजनिष्ट-७० । ४ तव द्योतिः क०, घ०, । भवउद्योतिः ल० ।

सत्यभामा सुताराऽभूत्प्राक्पितृः कपिलः खलः । सुचिरं दुर्गतिं भ्रान्त्वा संभूतरमणे वने ॥ ३७१ ॥  
 ऐरावतीनदीतीरे समभूत्तापसाश्रमे । सुतश्चपलवेगायां कौशिकान्मृगशृङ्गावक् ॥ ३७० ॥  
 कृतापसव्रतं दीर्घमनुष्ठाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्य विलोक्य खचरंजिनः ॥ ३७१ ॥  
 निदानं मनसा मूढो विधाय बुधनिन्दितम् । जनेत्वाऽशनिघोषोऽयं सुतारां स्नेहतोऽग्रहीत् ॥ ३७२ ॥  
 भवे भान्यत्र नवमे पञ्चमश्चक्रवर्तिनाम् । तीर्थेशां षोडशः शान्तिमंवावुं शान्तिप्रदः सताम् ॥ ३७३ ॥  
 इति तज्जिनशोर्वांशुवाग्ज्योत्स्नाप्रसरप्रभा । प्रसङ्गाद्व्यक्तसखेचरेन्द्रहृकुमुदाकरः ॥ ३७४ ॥  
 तद्वैवाशनिघोषाख्यो माता चास्य स्वयंप्रभा । सुतारा च परे वापन्निर्विण्णा संयमं परम् ॥ ३७५ ॥  
 अभिनन्द्य जिनं सर्वे त्रिःपरीत्य यथोचितम् । जग्मुश्चक्रितनूजाद्यास्ते सहामिततेजसा ॥ ३७६ ॥  
 अर्ककीर्तिसुतः कुर्वन्नमुक्ति सर्वपर्वसु । स्थितिभेदे च तद्योग्यं प्रायश्चित्तं समाचरन् ॥ ३७७ ॥  
 महापूजां सदा कुर्वन् पात्रदानादि चादरात् । ददद्दर्भकथां शृण्वन् भव्यान् धर्मं प्रबोधयन् ॥ ३७८ ॥  
 निःशङ्कादिगुणोत्तम्वन्दित्प्रमोहानपोहयन् । इतो वाऽमिततेजाः सन् सुखप्रेक्ष्योऽभ्युत्तांशुवत् ॥ ३७९ ॥  
 संयमीव शर्मं यातः पालकः पितृवत्प्रजाः । लोकहृद्यहितं धर्मं कर्म प्रावर्तयत्सदा ॥ ३८० ॥  
 प्रज्ञप्तिकामरूपिण्यावथाऽस्तस्मिन्निनी परा । उदकस्तस्मिन्नी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिनी ॥ ३९१ ॥  
 अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी धृता ॥ ३९२ ॥  
 आवेशिनी दशम्यन्था मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी प्रहरणी संक्रामण्याख्ययोदिता ॥ ३९३ ॥  
 आवर्तनी संग्रहणी भजनी च विपाटनी । प्रावर्तनी प्रमोदिन्या सहान्यापि प्रहापणी ॥ ३९४ ॥

ज्योतिःप्रभा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा हुई है और पहलेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंमें भ्रमण कर सम्भूतरमण नामके वनमें ऐरावती नदीके किनारे तापसियोंके आश्रममें कौशिक नामक तापसकी चपलवेगा स्त्रीसे मृगशृङ्ग नामका पुत्र हुआ है ॥३७०-३७०॥ वहाँपर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तपस्वियोंके व्रत पालन किये । किसी एक दिन चपलवेग विद्याधरकी लक्ष्मी देखकर उस मूर्खने मनमें, विद्वान् जिसकी निन्दा करते हैं ऐसा निदान बन्ध किया । उसीके फलसे यह अशनिघोष हुआ है और पूर्व स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है ॥३७१-३७२॥ तेरा जीव आगे होनेवाले नौवें भवमें सञ्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती और शान्तिनाथ नामका सोलहवाँ तीर्थकर होगा ॥३७३॥ इस प्रकार जिनैन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फैली हुई वचनरूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरके इन्द्र अमिततेजका हृद्यरूपी कुमुदोंसे भरा सरोवर खिल उठा ॥३७४॥ उसी समय अशनिघोष, उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ही लोगोंने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया ॥३७५॥ चक्रवर्तिके पुत्रको आदि लेकर याकीके सब लोग जिनैन्द्र भगवान्की स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिततेजके साथ यथायोग्य स्थानपर चले गये ॥३७६॥ इधर अर्ककीर्तिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वोंमें उपवास करता था, यदि कदाचित् ग्रहण किये हुए व्रतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित्त लेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंको धर्मोपदेश देता था, निःशक्ति आदि गुणोंका विस्तार करता था, दर्शनमोहको नष्ट करता था, सूर्यके समान अपरिमित तेजका धारक था और चन्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था ॥३७७-३७९॥ वह संयमीके समान शान्त था, पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंके निरन्तर प्रवृत्ति रखता था ॥३८०॥ प्रज्ञति, कामरूपिणी, अग्निस्तस्मिन्नी, उदकस्तस्मिन्नी, विश्वप्रवेशिनी, अप्रतिघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संक्रामणी, आवर्तनी, भजनी, विपाटिनी, प्रावर्तनी, प्रमोदिनी,

प्रभावती प्रकापिन्या निक्षेपिन्या च या स्मृता । शर्वरी परा चाण्डाली मातङ्गीति च कीर्तिता ॥३१०॥  
 गौरी षडङ्गिका श्रीमत्कन्या च शतसंकुला । कुभाण्डीति च विख्याता तथा विरलवेगिका ॥३१६॥  
 रोहिण्यतो मनोवेगा महावेगाह्वयापि च । चण्डवेगा सचपलवेगा लघुकराति च ॥३१७॥  
 पर्णलघ्वाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता । शतीष्णदे च वेतालयौ महाज्वालाभिधानिका ॥३२०॥  
 छेदनी सर्वविद्यानां युद्धवीर्येति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता प्रहारावरणी तथा ॥३२९॥  
 आमर्या भोगिनीत्यादि कुलजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामर्थं पारं गत्वा योगीव निर्वमौ ॥३४०॥  
 श्रेणीद्वयाधिपत्येन विद्याधरधराधिपः । प्राप्य तच्चक्रवर्तित्वं चिरं भोगानमुद्धतः सः ॥३४०॥  
 कदाचित्स्वचराधीश्वरारणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्त्वाऽऽपार्श्व्यपञ्चकम् ॥३४०॥  
 अन्यदाऽमिततेजःश्रीविजयौ-विनताननौ । नत्वाऽमरगुरुं देवगुरुं च मुनिपुङ्गवम् ॥३४०॥  
 दृष्ट्वा धर्मस्य याथात्म्यं पीत्वा तद्वचनामृतम् । अजरामरतां प्राप्ताविव तोषमुपेतम् ॥३४०॥  
 पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षीन्नवसंभ्रममात्मनः । पितुः स भगवान् प्राह प्रथमं प्रास्तकल्मषम् ॥३४०॥  
 साकल्पेन तदाख्यातं विश्वनन्दिभववादितः । समाकर्ण्य तदाख्यानां भोगे कृतनिदानकः ॥३४०॥  
 किञ्चिक्लाञ्जं समासाद्य खभूचरसुखामृतम् । विपुलादिमतेः पाद्व विमलादिमतेश्च तौ ॥३४०॥  
 महाशुभौ निशम्यैकमासमात्रात्मजीवितम् । दत्त्वाऽकृतेजसे राज्यं श्रीदत्ताय च सादरम् ॥३४०॥  
 कृताष्टाह्निकसत्पूजौ मुनीशश्चन्दने चने । समीपे नन्दनाख्यस्य त्यक्त्वा संगं तयोः खगेट् ॥३४०॥  
 प्रायोपगमसंन्यासविधिमारण्यं शुद्धधीः । नन्द्यावर्तेऽभवत्कल्पे रविचूलखयोदशे ॥३४०॥  
 अभूच्छ्रीविजयोऽप्यत्र स्वस्तिके मणिलूले । विशत्यन्वयुपमायुष्यौ जावितावसितौ ततः ॥३४१॥

प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपणी, शर्वरी, चाण्डाली, मातङ्गी, गौरी, पडङ्गिका, श्रीमत्कन्या, शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चण्डवेगा, चपलवेगा, लघुकरा, पर्णलघु, वेगावती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सर्वविद्याछेदिनी, युद्धवीर्या, बन्ध-मोचनी, प्रहारावरणी, आमरी, अभोगिनी इत्यादि कुल और जातिमें उत्पन्न हुई अनेक विद्याएँ सिद्ध कीं । उन सब विद्याओंका पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोभित हो रहा ॥३२९-४०॥ दोनों श्रेणियोंका अधिपति होनेसे वह सब विद्याधरोंका राजा था और इस प्रकार विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोगता रहा ॥३४०॥ किसी एक दिन विद्याधरोंके अधिपति अमिततेजने दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूर्वक आहार दान देकर पंचार्श्व्यं प्राप्त किये ॥३४०॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयने मस्तक श्लुकाकर अमरगुरु और देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनामृतका पान किया और ऐसा सन्तोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥३४०३-४०४॥ तदनन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पूर्वभर्वाका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले पहले भगवान् अमरगुरु कहने लगे ॥३४०५॥ उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भोगोंका निदानबन्ध किया ॥३४०६॥ अमिततेज तथा श्रीविजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-भोचरियोंके सुखामृतका पान किया । तदनन्तर दोनोंने विपुलमति और विमलमति नामके मुनियोंके पास 'अपनी आयु एक मास मात्रकी रह-गयी है' ऐसा सुनकर अर्कतेज तथा श्रीदत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आष्टाह्निक पूजा की तथा नन्दन नामक मुनिराजके समीप चन्दनवनमें सब परिग्रहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया । अन्तमें समाधिभरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरोंका राजा अमिततेज तेरहवें स्वर्गके नन्द्यावर्त विमानमें रविचूल नामका देव हुआ और श्रीविजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक विमानमें मणिलूला नामका देव हुआ । वहाँ दोनोंकी आयु बीस सागरकी थी । आयु समाप्त होनेपर वहाँसे च्युत हुए ॥३४०७-४११॥

१ शर्वरीया च ल० । २ प्रहारावरणी ल० । ३ मुनिपुङ्गवो ग० । ४ माहात्म्यं ल० । ५ प्रथमं ग० ।

द्वीपेऽस्मिन् प्राविन्देहस्थत्रिलसद्वत्सकावती । देशे प्रभाकरीपुर्या पतिस्तिमितसागरः ॥४१२॥  
 देवी वसुंधरा जातस्तयोरादित्यचूकवाक् । देवोऽपराजितः सूनुनन्दावर्ताद् दिवश्च्युतः ॥४१३॥  
 तस्यैवानुमतौ देव्यां मणिचूकोऽप्यभूत्सुत । श्रीमाननन्तवीर्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाच्युतः ॥४१४॥  
 कान्त्या कुबलयान्हादात्तृष्णातापापनोदनात् । कलाधरत्वाद्भक्तः स्म जम्बूद्वीपविधूपमौ ॥४१५॥  
 पद्मानन्दकरी भास्वद्वुषौ ध्वस्ततामसौ । नित्योदयौ जगन्नेत्रे तावाद्यौ वा दिवाकरी ॥४१६॥  
 न वञ्चकौ कलावन्तौ सप्रतापौ न दाहकौ । करद्वयव्यपेतौ तौ सत्करो रजतुस्तराम् ॥४१७॥  
 नोपमानस्तथो कामो रूपेणानङ्गतां गतः । नीत्या नान्धोन्यजेतारौ गुरुशुक्रौ च तत्समौ ॥४१८॥  
 हीयते बद्धते चापि भास्करेण विनिर्मिता । बद्धते तत्कृता छाया बद्धमानस्य वा तयोः ॥४१९॥  
 न तयोर्विग्रहो यानं तथाप्यरिमहीभुजः । तत्प्रतापभयात्ताभ्यां स्वयं संधातुस्तुकाः ॥४२०॥

उनमें-से रविचूल नामका देव नन्धावर्त विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी वसुंधराके अपराजित नामका पुत्र हुआ । मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तवीर्य नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ ॥४१२-४१४॥ वे दोनों ही भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुबलय-नील कमलोंको आह्लादित करता है उसी प्रकार वे भी कुबलय-पृथिवी-मण्डलको आह्लादित करते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्णा-तृपा और आतापको दूर करता है । उसी प्रकार वे भी तृष्णारूपी आताप-दुःखको दूर करते थे और जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलाओंका धारक होता है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं—अनेक चतुराइयोंके धारक थे ॥४१५॥ अथवा वे दोनों भाई बालसूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक्ष्मीको आनन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य भास्वद्वपु—देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार बालसूर्य ध्वस्ततामस-अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य नित्योदय होते हैं—उनका उद्गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे—उनका ऐश्वर्य निरन्तर विद्यमान रहता था और जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नेत्र-जगन्मक्षु नामको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेत्र-जगत्के लिए नेत्रके समान थे ॥४१६॥ वे दोनों भाई कलावान् थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करो—दोनों प्रकारके टैक्सोसे (आयात और निर्यात करोंसे) रहित होनेपर भी सत्कार-उत्तम कार्य करनेवाले अथवा उत्तम हाथोसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥४१७॥ रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे । भावार्थ—लोकमें सुन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए कामदेवकी उपमा सम्भव नहीं थी क्योंकि वे दोनों शरीरसे सहित थे और कामदेव शरीरसे रहित था । इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु-बृहस्पति और शुक्र-शुक्राचार्यकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले थे परन्तु वे दोनों परस्परमें एक दूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥४१८॥ सूर्यके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है ॥४१९॥ वे न कभी युद्ध

अवद्विधातां तावेवं राज्यलक्ष्मीकटाक्षगौ । नचं वयः समासाद्य शुक्लाष्टमश्रुतांशुवत् ॥४२१॥  
 पर्यायो राज्यमोग्यस्य योभययोर्मत्तनुजयोः । इतीव रतिमच्छैत्सीक्रोभोभेतत्पिताऽन्यदा ॥४२२॥  
 तदैव तौ समाहूय कुमारावमरोपमौ । अभिषिच्यार्पयद्राज्यं यौवराज्यं च सोऽस्पृहः ॥४२३॥  
 स्वयं स्वयंप्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम् । संयमेन समासाद्य धरणेन्द्रद्विदर्यानात् ॥४२४॥  
 निदानदूषितो बालतपा लोलुतया सुखे । स्वकालान्ते विशुद्धात्मा जगाम धरणेशिताम् ॥४२५॥  
 तत्पदे तौ समासाद्य बीजमूलाङ्गुलाश्रिवः । नीतिवारिपरीपेकास्तुभूमौ वृद्धिमीयतुः ॥४२६॥  
 अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं सप्रतापनयांशवः । भाक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सर्वभूभृताम् ॥४२७॥  
 लक्ष्मीं नवे युवानौ यौ तदधीतिः समसंगमात् । सौगापक्तिं व्यधाद्वाहं तयोस्वृगतपुण्ययोः ॥४२८॥  
 नर्तकी वर्वरीत्येका ख्यातान्या च चिलातिका । नृत्यविद्येव सामर्थ्याद् रूपद्वयमुपागता ॥४२९॥  
 भूपती तौ तयोर्नृत्यं कदाचिज्जातसंगदौ । विलोकमानावालीनावागमन्नारदस्तदा ॥४३०॥  
 सूर्याचन्द्रमसौ सैहिकेभ्यो वा त्रिजिताश्रुतः । नृत्तासंगकुमाराभ्यां क्रूरः सोऽविहितादरः ॥४३१॥  
 जाञ्जल्यमानकोपाग्निशिखासंतप्तमानसः । चण्डाञ्जुरिव मध्याह्ने जञ्जलञ्चिंसंगमत् ॥४३२॥  
 स तदैव सभामध्याग्निर्यस्य कलहप्रियः । द्राक्प्रापकोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥४३३॥

करते थे और न कभी शत्रुओंपर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोंके साथ सदा सन्धि करनेके लिए उत्सुक बने रहते थे ॥४२०॥ इस तरह जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे वे दोनों भाई नवीन अवस्थाको पाकर शुक्लपक्षकी अष्टमीके चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे ॥४२१॥ 'अब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यका उपभोग करनेके योग्य हो गयी, ऐसा विचार कर किसी एक दिन इनके पिताने भोगोंमें प्रीति करना छोड़ दिया ॥४२२॥ उसी समय इच्छारहित राजाने देव तुल्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज बना दिया ॥४२३॥ और स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्रके चरणोंके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया । उससे दूषित होकर बालतप करता रहा । वह सांसारिक सुख प्राप्त करनेका इच्छुक था । आयुके अन्तमें विशुद्ध परिणामोंसे मरा और धरणेन्द्र अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥४२४-४२५॥

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलके सेचनसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलके सेचनसे वृद्धिको प्राप्त हुए ॥४२६॥ जिस प्रकार सूर्यकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतोंके मस्तकों-शिखरोंपर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्वप्रथम समस्त राजाओंके मस्तकोंपर अपना स्थान जमाया था ॥४२७॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राज-लक्ष्मिर्था नयी थीं और स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिये सहसा समागमके कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढा दिया था ॥४२८॥ उनके वर्वरी और चिलातिका नामकी दो नृत्यकारिणियाँ थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो नृत्य-विद्याने ही अपनी सामर्थ्यसे दो रूप धारण कर लिये हों ॥४२९॥ किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्षके साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये ॥४३०॥ दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके । वे क्रूर तो पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया । वे उन दोनों भाइयोंके समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य और चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो । अत्यन्त जलती हुई क्रोधाग्निकी शिखाओंसे उनका मन सन्तप्त हो गया । जिस प्रकार जेठके महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे— अत्यन्त कुपित हो रहे थे । कलहप्रेमी नारदजी उसी समय सभाके बीचसे बाहर निकल आये

द्विमतिारि<sup>१</sup> सभामध्ये संनिविष्टं स्वविष्टरे ।<sup>२</sup> अस्तमस्तकमास्वन्तमिव प्रपतनोन्मुखम् ॥४३४॥  
 सद्यो बिलोक्य सोऽप्याशु प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । प्रतिगृह्य प्रणम्योर्वैरिष्टरे संनिवेश्य तम् ॥४३५॥  
 दत्तानिषं किमुद्दिश्य सवन्तो मासुसागताः । संपदं किं ममादेष्टुं प्राप्ताः किं वा महापदम् ॥४३६॥  
 इत्यप्राक्षीदसौ वास्य विकासिवदनाम्बुजः । संमदं जनयन् वाचमबोचत्प्रतीतिवर्द्धिनीम् ॥४३७॥  
 सारभूतानि वस्तूनि तचान्वेष्टुं परिभ्रमन् । नतंकीद्वयमद्रक्षं प्रेक्षायोग्यं तवैव तत् ॥४३८॥  
 अस्थानस्थं समीक्ष्यैवंमनिष्टं सोढुमक्षमः । आगतोऽहं कथं सखा पादे चूडामणिस्थितिः ॥४३९॥  
 संप्रत्यप्रतिमह्यौ वा नूतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराणीशौ व्यलीकविजिगीषुकौ ॥४४०॥  
 सप्तव्यसनंसंस्तनौ सुलोच्छेद्यौ प्रमादिनौ । तयोर्गृहे सुखग्राह्यं जगत्सारमवस्थितम् ॥४४१॥  
 तद्दूतप्रेषणादेव तवाद्यायाति हेळया । काळहानिनं कर्तव्या हस्तासन्नोऽतिदुर्लभे ॥४४२॥  
 हृद्येवं प्रेरितस्तेन समापेन यमेन वा । द्विमतिारि सभासन्नमरणः श्रवणं ददौ ॥४४३॥  
 तदैव नतंकीवार्ताश्रुतिव्यामुग्धचेतनः । दूतं सोऽयानं प्रस्तुतार्थसंनधवेदिनम् ॥४४४॥  
 प्राहिणोद्दत्तकावत्याः महौशौ शौर्यशाकिनौ । प्रति सोऽपि नृपादेशादन्तरेश्वाभ्यन्यापयन् ॥४४५॥  
 गत्वा जिनगृहे प्रोषधोपवाससमन्वितम् । अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम् ॥४४६॥  
 दृष्ट्वाऽमात्यसुखाद्दूतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधीः ॥४४७॥  
 ज्वलत्यस्य प्रतापानिर्दिव्यायस्त्रिपुण्ड्रमास्वरः । कृतदोषान् न्यकीकाभिमामिनो दहत द्रुतम् ॥४४८॥

और क्रोधजन्य वेगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४३३॥ वहाँ सभाके बीचमें राजा द्विमतिारि अपने आसनपर बैठे था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचलके शिखरपर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो ॥४३४॥ उसने नारदजीको आता हुआ देख लिया अतः शीघ्र ही उठकर उनका पङ्क्तिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठेथा ॥४३५॥ जब नारदजी आशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं ? क्या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पधारे हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करनेके लिए आपका समागम हुआ है ? यह सुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा । वे राजाको हर्ष उत्पन्न करते हुए प्रीति बढानेवाले वचन कहने लगे ॥४३६-४३७॥ उन्होंने कहा कि हे राजन् ! मैं तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएँ खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हूँ । मैंने आज दो नृत्यकारिणी देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य है ॥४३८॥ वे इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित नहीं हैं । मैं ऐसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूडामणिकी स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ? ॥४३९॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाला नहीं है, जो नवीन लक्ष्मीके मदसे उद्धत हो रहे हैं और जो झूठमूठके ही विजिगीषु बने हुए हैं ऐसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तवीर्य हैं । वे सप्तव्यसनोमे आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते हैं । संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियोंका जोड़ा उन्हींके घरमें अवस्थित है । उसे आप सुखसे ग्रहण कर सकते हैं, दूर भेजनेसे वह आज ही लीलाभात्रमें तुम्हारे पास आ जायेगा इसलिए अत्यन्त दुर्लभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्यमान है तब समय बिताना अच्छा नहीं ॥४४०-४४२॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका मरण अत्यन्त निकट है ऐसा द्विमतिारि नारदकी बातमें आ गया ॥४४३॥ नृत्यकारिणीकी बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया । उसने उसी समय वत्सकावती देशके पराक्रमी राजा अपराजित और अनन्तवीर्यके पास प्रकृत अर्थको निवेदन करनेवाला दूत भेंटके साथ भेजा । वह दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिताता हुआ—शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी पहुँचा । उस समय दोनों ही भाई प्रोषधोपवासका व्रत लेकर जिनमन्दिरमें बैठे हुए थे । उन्हें देखकर बुद्धिमान् दूतने मन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लायी हुई भेंट दोनों भाइयोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ॥४४४-४४७॥ वह कहने लगा कि दिव्य लोहेके पिण्डके

तस्य नाम्नैव निमित्तहृदयाः प्राकृतद्विषः । वमन्ति वैरमखं वा विनम्रा भयविह्वलाः ॥ ४४९ ॥  
 न सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः शुद्धचेतसाः । विमज्यान्वयजैर्विद्वैतद्राज्यं भुञ्जते यतः ॥ ४५० ॥  
 कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूसुजः । मालेवाज्ञा हतावज्ञैस्त्वते यदि मूर्खभिः ॥ ४५१ ॥  
 विनम्रविश्वविद्येशमुकुटाग्रमणिविषा । स पादपीठपर्यन्ते विषत्ते धनुरामरम् ॥ ४५२ ॥  
 यतः कुन्देन्दुतिर्भासि तस्यारातिजयाजितम् । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपर्यन्तके कलम् ॥ ४५३ ॥  
 दुर्दमा विद्विषस्तेन दाम्ता यन्नेव दन्तिनः । दमितारिरिति ख्यातिं संघत्तेऽन्वर्थपेशलम् ॥ ४५४ ॥  
 तस्य शौचनिष्ठी भस्मिताखिकारातिरिन्धनः । जाडवलीति तथाप्यग्निकुमारामरभीषणः ॥ ४५५ ॥  
 प्रेषितः शोभता तेन देवेनाहं युवा प्रति । प्रीतये याचितुं तस्मादातव्य नर्तकीद्वयम् ॥ ४५६ ॥  
 युष्मदीयं भुवि ख्यातं योग्यं तस्यैव तद्यत । युवयोः स हि तद्दानास्तुप्रसजः फलिष्यति ॥ ४५७ ॥  
 इत्यब्रवीददः श्रुत्वा तमावाप्तं प्रहिय्य तौ । किं कार्यमिति पृच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः ॥ ४५८ ॥  
 तयोः पुण्योदयास्सद्यस्तृतीयमवदेवताः । सुनिरूप्य स्वरूपाणि ताः स्वयं समुपाश्रयन् ॥ ४५९ ॥  
 वयं युवाभ्यां संयोज्या निजाभिप्रेतकर्मणि । अस्थाने माकुलीभूताभिन्याहुश्चाहितादराः ॥ ४६० ॥  
 श्रुत्वैतद्राज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिणु । नर्तकीवेषमादाय राज्ञाऽऽनं प्रेषिते ततः ॥ ४६१ ॥

समान देवीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधी तथा झूठमूठके अभिमानी मनुष्योंको शीघ्र ही जला डालती है ॥४४९॥ उसका नाम लेते ही स्वभावसे वैरी मनुष्योंका हृदय फट जाता है । वे भयसे इतने विह्वल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही वैर तथा अख दोनों ही छोड़ देते हैं ॥४४९॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल है, वह अपने वंशके सब लोगोंके साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारमें उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥४५०॥ जब तिरस्कारको न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको मालाके समान अपने मस्तकपर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं ? ॥४५१॥ वह अपने चरणपीठके समीप नम्रीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटके अग्रभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्रधनुष बनाया करता है ॥४५२॥ शत्रुओंको जीतनेसे उत्पन्न हुआ उसका यश कुन्दपुष्प तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निरन्तर गाती रहती हैं ॥४५३॥ जिस प्रकार महावर्तोंके द्वारा बड़े-बड़े दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े-बड़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका 'दमितारि' यह नाम सार्थक प्रसिद्धिको धारण करता है ॥४५४॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शत्रुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अग्निकुमारदेवके समान भयंकर दिखनेवाली उसकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है ॥४५५॥ उसी श्रीमान् दमितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियों माँगनेके लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए ॥४५६॥ आपकी नृत्यकारिणियाँ पृथिवीमें प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं । नृत्यकारिणियोंके देनेसे वह तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा । इस प्रकार उस दूतने कहा । राजाने उसे सुनकर दूतको तो विश्राम करनेके लिए भेजा और मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए ? ॥४५७-४५८॥ उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी विद्यादेवताएँ शीघ्र ही आ पहुँचीं और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग आपके द्वारा अपने इष्ट कार्यमें लगानेके योग्य हैं । आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों— ऐसा उन्हेंने बड़े आदरसे कहा ॥४५९-४६०॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपने राज्यका भार अपने मन्त्रियोंपर रखकर नर्तकियोंका वेष धारण किया और दूतसे कहा कि चलो चले,



यामेति दूतेनाल्प्य संप्राप्य शिवमन्दिरम् । समाकोचिन्नगूढाभौ प्रविश्य नृपमन्दिरम् ॥ ४६२ ॥  
 दृष्टवन्तौ खगाधीशं यथोचित्यं प्रतुष्य सः । संभाष्य सामवाक्सारः पूजयित्वा दिने परे ॥ ४६३ ॥  
 अङ्गहारैः सकरणैः रसैर्माचैर्मनोहरैः । नृत्यं तयोर्विलोक्याप्तसंमदः परितोषितः ॥ ४६४ ॥  
 भन्नन्त्यकलां कल्यां वासुं शिक्षयतां सुताम् । मदीयामित्यदात्कन्यामेताभ्यां कनकश्रियम् ॥ ४६५ ॥  
 आदाय तां यथायोग्यं नतयन्तौ नृपात्मजाम् । पेटतुगुणसंदूष्यमिति ते माविचक्रिणः ॥ ४६६ ॥

### पृथ्वीच्छन्दः

गुणैः कुलबलादिभिर्भुवि विजित्य विश्वान् नृपान्  
 मनोजमपि लज्जयन् भववरो वपु संपदा ।

विदग्धव्रनिताविकासलकित्तावलोकालयः

क्षितेः पतिरनन्तवीर्यं इति विश्रुतः पातु वः ॥ ४६७ ॥

### अनुष्टुप्

तदा तच्छ्रुतिमात्रेण मदनविष्टविग्रहा । स्तूयते यः स को भूतमित्यप्राक्षीन्नृपात्मजा ॥ ४६८ ॥  
 प्रभाकरीपुराधीशोऽजनिस्त्वितसागरात् । महामणिरिव क्ष्माभृन्मौलिच्छूद्रामणीयितः ॥ ४६९ ॥  
 कान्ताकल्पलतारोहरम्यकल्पमहीरुहः । कामिनीभ्रमरीभोग्यसुखाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥  
 इति तद्द्वयतद्रूपलावण्याद्यनुवर्णनात् । द्विगुणीभूतरुं प्रीतिरित्युवाच खगात्मजा ॥ ४७१ ॥  
 किमसौ लभ्यते द्रष्टुं कन्यके सुष्ठु लभ्यते । स्वयेत्यनन्तवीर्यस्य रूपं साक्षात्प्रदर्शितम् ॥ ४७२ ॥

राजाने हम दोनोंको भेजा है । इस प्रकार दूतके साथ वार्तालाप कर वे दोनों शिवमन्दिरनगर-  
 पहुँचे और किसी गूढ़ अर्थकी आलोचना करते हुए राजभवनमें प्रविष्ट हुए ॥४६१-४६२॥ वहाँ  
 उन्होंने विद्याधरोंके राजा द्मितारिके यथायोग्य दर्शन किये । राजा द्मितारिके सन्तुष्ट होकर उनके  
 साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें सम्भाषण किया, उनका आदर-सत्कार किया, दूसरे दिन मनको हरण  
 करनेवाले अंगहार, करण, रस और भावोंसे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा सन्तोष-  
 का अनुभव किया ॥४६३-४६४॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहा कि 'हे सुन्दरियो ! आप अपनी  
 सुन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीको सिखला दीजिए' यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री  
 उन दोनोंके लिए सौप दी ॥४६५॥ वे दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे ।  
 एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्तिके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ॥४६६॥ 'जिसने  
 अपने कुल, बल आदि गुणोंके द्वारा पृथिवीपर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर-  
 की सम्पत्तिसे कामदेवको भी लज्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्दर स्त्रियोंके  
 विलास तथा मनाहर चितवनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीर्य इस नामसे प्रसिद्ध पृथिवीका स्वामी तुम  
 सबकी रक्षा करे' ॥४६७॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेश किया है ऐसी  
 राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसकी स्तुति की जा रही है वह कौन है ?' यह कहिए ॥४६८॥  
 उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'वह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिमितसागरसे उत्पन्न हुआ है,  
 महामणिके समान राजाओंके मस्तकपर स्थित चूडामणिके समान जान पड़ता है, स्त्रीरूपी कल्प-  
 लताके चढ़नेके लिए माना कल्पवृक्ष ही है, और स्त्रीरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य सुखकमलसे  
 सुशोभित है' ॥४६९-४७०॥ इस प्रकार उन दोनोंके द्वारा अत्यन्तवीर्यके रूप तथा लावण्य आदिका  
 वर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गयी है ऐसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्री बोली 'क्या वह देखनेको  
 मिल सकता है ?' उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'हे कन्ये ! तुझे अच्छी तरह मिल सकता है।' ऐसा

१ दूतमालप्य ख०, ग०, ल० । २ यथोचितं ल० । ३ कल्यामाशु शिष्यतां सुताम् ख०, ग०, घ०,  
 म० । कुलाकल्यामाशु क० । ४ हे मुन्दर्यौ । ५ आदीय ल० । ६ नृतयन्ती ल० । ७ संदग्ध ख० । संदोह  
 ल० । ८ तयोर्द्वयं तेन तस्य रूपलावण्याद्यनुवर्णनात् ।

तदर्थानसमुद्भूतमदनञ्जवरविह्वलाम् । नर्तक्यौ तां समादाय जगमतुर्मृत पथा ॥४७३॥  
 तद्द्वार्या खेचराधीशः श्रुत्वाऽन्तर्वशिकोदितात् । स्वमदान्प्रेषयामास तद्द्वयानयनं प्रति ॥४७४॥  
 तदागमनमाकोक्य स निवर्त्य हली बली । न्ययुभ्यतानुजं दूरे स्थापयित्वा सकन्यकम् ॥४७५॥  
 ते तेन सुचिरं युद्ध्वा कृतान्तोपान्तमाश्रिताः । दमितारिः पुनः क्रुद्ध्वा युद्धशौण्डान् समादिशत् ॥४७६॥  
 तेषु तत्सङ्घातोरुत्वारिराशाविवादायः । निमज्जन्ति स्म तच्छ्रुत्वा खगाधीशः सत्रिस्मय ॥४७७॥  
 नर्तक्योर्न प्रभावोऽयं किमेतद् ब्रूत मन्त्रिणः । हृत्याह ते च तत्तत्त्वं स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयन् ॥४७८॥  
 तदा कन्धेन्धनो वारिणः क्रुद्धो वा गजविद्विषः । दमितारिः स्वयं योद्धुं चचाक स्रबलान्वितः ॥४७९॥  
 एककोऽपि हली सर्वात् विद्याविक्रमसाधनः । दमितारिं विमुच्यैतान् देहदोषांश्चकार सः ॥४८०॥  
 दमितारिं यमं वैकं हन्तुमायान्तमग्रजम् । अनन्तवीर्यस्तं दृष्ट्वा केसरीव मददिपम् ॥४८१॥  
 अभ्येत्यानेकथा युद्ध्वा विद्याबलमदोद्धतम् । विमदीकृत्य निस्पृहं व्याधादधिकविक्रमः ॥४८२॥  
 खगेशश्चक्रमादायुष क्षिपति स्माभिमूसुजम् । दक्षिणाग्रकराभ्यर्णे तस्थिवत्तत्परीत्य तम् ॥४८३॥  
 सृत्युं या धर्मचक्रेण योगी तं खेचराधिपम् । अहँस्तेनैव चक्रेण विक्रमी भाविकेशवः ॥४८४॥  
 इति युद्धान्तमासाद्य गगने गच्छतोस्तथो । पूज्यातिक्रममीत्येव विमाने सहसा स्थिते ॥४८५॥  
 केनचित् कीकितो वेतो न यातः केन हेतुना । इति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं व्यलोकयत ॥४८६॥

कहकर उन्होंने अनन्तवीर्यका साक्षात् रूप दिखा दिया ॥४७१-४७२॥ उसे देखकर कनकश्री काम-  
 ज्वरसे विह्वल हो गयी और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गयी ॥४७३॥  
 विद्याधरोंके स्वामी दमितारिने यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन  
 दोनोंको वापस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे ॥४७४॥ बलवान् बलभद्रने योद्धाओंका आगमन  
 देख, कन्या सहित छोटे भाईको दूर रखा और स्वयं लौटकर युद्ध किया ॥४७५॥ जब बलभद्रने  
 चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओंको यमराजके पास भेज दिया तब दमितारिने कुपित होकर  
 युद्ध करनेमें समर्थ दूसरे योद्धाओंको आज्ञा दी ॥४७६॥ वे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें  
 पहाड़ डूब जाते हैं उसी प्रकार बलभद्रकी खड्गधाराके विशाल पानीमें डूब गये । यह सुनकर  
 दमितारिको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥४७७॥ उसने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि 'यह प्रभाव नृत्य-  
 कारिणियोंका नहीं हो सकता, ठीक बात क्या है ? आप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात  
 ठीक-ठीक जानकर राजासे कही ॥४७८॥ उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रस्फलित  
 हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कुपित हो  
 स्वयं युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ लेकर चला ॥४७९॥ परन्तु विद्या और पराक्रमसे  
 युक्त एक बलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिर्फ दमितारिको ही बाकी छोड़ा ॥४८०॥  
 इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीके ऊपर सिंह आ दूटता है उसी प्रकार बड़े भाईको मारनेके  
 लिए आते हुए यमराजके समान दमितारिको देखकर अनन्तवीर्य उसपर दूट पड़ा ॥४८१॥  
 अधिक पराक्रमी अनन्तवीर्यने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या और बलके  
 मदसे उद्धत उस दमितारिको मदरहित कर निश्चेष्ट बना दिया था ॥४८२॥ अचक्री वार  
 विद्याधरोंके राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीर्यके सामने फेंका परन्तु वह चक्र  
 उनकी प्रदक्षिणा देकर दाहिने कन्धेके समीप ठहर गया ॥४८३॥ जिस प्रकार योगिराज धर्म-  
 चक्रके द्वारा सृत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा  
 दमितारिको नष्ट कर दिया—मार डाला ॥४८४॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश-  
 मे जा रहे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जावे इस भयसे ही मानो उनका विमान  
 सहसा रुक गया ॥४८५॥ यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे  
 नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे । देखते ही उन्हें समवसरण

मानस्तस्मा सरांस्येतान्येतद्वनचतुष्टयम् । मध्येगन्धकुटी नूनं जिनेन्द्रः कोऽपि तिष्ठति ॥४८७॥

इति तत्रावर्तार्थैष शिवमन्दिरनाथकः । सुतः कनकपुङ्गवस्य जयदेव्याश्च निश्चित ॥४८८॥

दमितारे. पिता कीर्तिधरो नाम्ना विरक्तवान् । प्राप्य शान्तिकराम्भासे प्रव्रज्यां पारमेश्वरीम् ॥४८९॥

संवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागमन् । केवलान्वगमं भक्त्या सुनासीरादिपूजितः ॥४९०॥

इत्युक्तवैव परीत्य त्रिः प्रप्रणम्य जिनेशम् । श्रुतधर्मकथौ तत्र तस्यतुष्वस्तकलमपौ ॥४९१॥

कनकश्रीः सहाभ्येत्य ताम्यां भक्त्या पितामहम् । वन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वभवान्तरम् ॥४९२॥

इति पृष्टो जिनाधीशो निजबागधृतास्त्रुभिः । तां तर्पयितुमित्याह परार्थैकफलेहित ॥४९३॥

अत्र जम्बूद्वीपस्य दक्षिणदिशि भरतवनौ । शङ्खाख्यनगरे वैश्यो देविलस्तत्सुतामवः ॥४९४॥

वन्धुश्रियां त्वमेवैका श्रीदत्ता ज्यायसी सती । सुताः पराः कनीयस्यः कुष्टी पद्मगु कुणी तथा ॥४९५॥

वधिरा कुञ्जका काणा खञ्जा पोषिका स्वयम् । त्वं कदाचिन्मुनिं सर्वयज्ञसं सर्वशैलगम् ॥४९६॥

अभिवन्द्य शर्म याता हिंसाविरमणव्रतम् । गृहीत्वा धर्मचक्राख्यमुपवासं च शुद्धधीः ॥४९७॥

अनन्दा सुव्रताख्यायै गणिन्यै विधिपूर्वकम् । दत्त्वाऽन्नदानमेतस्या वमने सत्युपोषितात् ॥४९८॥

सम्यक्त्वाभावतस्त्रत्र विचिकित्साभगात्ततः । सौधर्मं जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥४९९॥

ततो मन्दरमाकिन्यां दमितारेः सुतामवः । पुण्याद् व्रतोपवासान्ताद्विचिकित्साफलं त्विदम् ॥५००॥

सर्वलं पितरं हत्वा घृत्वा नीतासि दुःखिनी । विचिकित्सां न कुर्वन्ति तस्मात्साधौ सुधीधनाः ॥५०१॥

दिखाई दिया ॥४८६॥ 'ये मानस्तम्भ हैं, ये सरोवर हैं, ये चार वन हैं और ये गन्धकुटीके बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं' ऐसा कहते हुए अनन्तवीर्य और उनके भाई बलदेव वहाँ उत्तरे । उत्तरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हैं, राजा कनकपुंग और रानी जयदेवीके पुत्र हैं, दमितारिके पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है । इन्होंने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी । एक वर्षका प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देवोंने बड़ी भक्तिसे इनकी पूजा की थी । ऐसा कहकर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बार बार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनीं और अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँपर बैठ गये ॥४८७-४८९॥ कनकश्री भी उनके साथ गये थी । उसने अपने पितामहको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पूछे ॥४९२॥ ऐसा पूछनेपर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका फल है ऐसे जिनेन्द्रदेव अपने वचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको सन्तुष्ट करनेके लिए इस प्रकार कहने लगे ॥४९३॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रकी भूमिपर एक शंख नामका नगर था । उसमें देविल नामका वैश्य रहता था । उसकी वन्धुश्री नामकी स्त्रीसे तू श्रीदत्ता नामकी बड़ी और सती पुत्री हुई थी । तेरी और भी छोटी बहिनें थीं जो कुष्टी, लंगड़ी, टोंटी, बहरी कुबड़ी, कानी और खंजी थीं । इन सबका पालन स्वयं करती थी । तूने किसी समय सर्वशैल नामक पर्वतपर स्थित सर्वथञ्ज मुनिराजकी वन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया, और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नामका उपवास किया ॥४९४-४९७॥ किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नामकी आर्थिकाके लिए विधिपूर्वक आहार दिया, उन आर्थिकाने पहले उपवास किया था इसलिए आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दर्शन न होनेसे तूने उन आर्थिकासे घृणा की । तूने जो अहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मरकर सौधर्म स्वर्गमें सामानिक जातिकी देवी हुई और वहाँसे चयकर राजा दमितारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई है । तूने आर्थिकासे जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान् पिताको मारकर तुझे जबर्दस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया । यही कारण है कि बुद्धिमान् लोग कभी

शुद्धैतदतिशोकार्ता वन्दित्वा जिनपुङ्गवम् । प्रमाकरीमगात्तान्यां सह सा खंचरात्मजा ॥ ५०२ ॥  
 सुषोपविद्युद्दृष्ट्वायौ भ्रातरौ कनकत्रियम् । तत्पुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ बलीद्वतौ ॥ ५०३ ॥  
 विलोक्य विहितक्रोधौ बल्लतुर्वककेशवौ । तन्निग्राम्य खगाधीशतनूजा सोढुमक्षमा ॥ ५०४ ॥  
 प्रवृद्धतेजसा घृणा भासुनेव हतद्युतिः । युताऽसाविन्दुरेखेय क्षीणा पक्षबलाद्दिना ॥ ५०५ ॥  
 शोकदावानलकलाना वृनेव वनवल्लरी । व्युच्छिन्नकामभोगेच्छा चिच्छित्सुदुःखसन्तपिम् ॥ ५०६ ॥  
 मोचयित्वाबुद्बुधैतौ संप्राप्य बलकेशवौ । स्वर्णप्रभाख्यतीर्थेशारीतधर्मरसायना ॥ ५०७ ॥  
 सुप्रभागणिनीपात्रं दीक्षित्वा जीवितावधौ । सौधर्मकल्पे देवोऽभूच्चित्रं विलसितं विधेः ॥ ५०८ ॥

हरिणी

सुविहितमहोपायौ विद्याबलाद्बहुपुण्यकौ  
 बुधजननुतौ सुप्रारम्भौ परस्परसंगतौ ॥  
 हतपृथुरिपू शान्तात्मानौ ध्यानविक्रमौ  
 सममविशतां सिद्धायौ तौ पुरीं परमोत्सवाम् ॥ ५०९ ॥

वसन्तरिलका

जित्वा प्रसिद्धसवसान् खचराभिमघु-  
 रध्वंस्थ तद्बलभरत्वमलङ्कृत्यशक्तिः ।  
 व्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्वं  
 भावेन चैतदिति नैव जिजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥  
 चक्रेण तस्य युधि सं दमितारिशक्तिं  
 हत्वा त्रिलण्डपतितां<sup>३</sup> समवाप्य तस्मात् ।

सायुधोंमें घृणा नहीं करते हैं ॥४९८-५०१॥

यह सुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई। अनन्तर जिनेन्द्रदेयकी वन्दना कर नारायण और बलभद्रके साथ प्रमाकरीपुरीको चली गयी। इधर सुषोप और विद्युद्दृष्ट कनकश्रीके भाई थे। वे बलसे उद्धत-थे और शिवमन्दिरनगरमें ही नारायण तथा बलभद्रके द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देखकर बलभद्र तथा नारायणको बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंको बांध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनके दुःखको सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूर्यसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार वह भी पक्षबलके बिना कान्तिहीन तथा क्षीण हो गयी ॥५०२-५०५॥ शोकरूपी दावानलसे मुरझाकर वह वनलताके समान दुःखी हो गयी। उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड़ दी, वह केवल भाइयोंका दुःख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयोंको समझाया तथा बलभद्र और नारायणकी प्रार्थना कर उन्हें वन्यनसे छुड़वाया। स्वयम्प्रभनामक तीर्थकरसे धर्मरूपी रसायनका पान किया और सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीक्षा धारण कर ली। अन्तमे आयु समाप्त होनेपर सौधर्मस्वर्गमें देव पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है ॥५०६-५०८॥ जिन्होंने विद्याके बलसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान् हैं, विद्वान् लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े शत्रुओंको मारकर जिनकी आत्माएं शान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंने कृतकृत्य होकर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥५०९॥ अलंघ्य शान्तिको धारण करनेवाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंके स्वामीपद तथा बलभद्रका पद प्राप्त किया और इस तरह केवल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥५१०॥ शत्रुओंकी शक्तिको दमन

१ श्रुत्वा तद्वति ल० । २ सुतासाविन्दु-ख०, क० । प्लुतासा-म० । युक्तासा-म० । ३ समवाप्य ख० ।

वीर्येण सूर्यविजयोत्थमनन्तवीर्यो  
धुर्योऽभवद् भुवि स शौर्यपरेषु शूरः ॥ ५११ ॥

शादूलविक्रीडितम्

नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगतः स्फूर्जत्प्रतापानल-  
ज्वालामस्मितवैरिवंशगहनस्त्वं चक्रिणामप्रणीः ।  
यस्त्वां कोपयति क्षणादरिरसौ कालज्वलज्ज्वालिताना  
लीढो लिह्यत एव कक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा बन्दिभिः ॥ ५१२ ॥

मालिनीच्छन्दः

गतवनरिपुरोधः स्वामजोद्दिष्टमार्गः  
समुपगतविशुद्धिः काललब्ध्या स चक्रां ।  
रविरिव निजदीप्या व्यासदिक्चक्रवालः  
शरदमिव पुरीं स्वामधुवासोप्रतेजाः ॥ ५१३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अपराजितानन्तवीर्याभ्युदयवर्णनं  
नाम द्विपष्ठितम पर्व ॥ ६२ ॥

८

करनेवाले दमितारिको जिसने युद्धमें उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीर्यसे सूर्यको जीतता था तथा शूरवीरोंमें अत्यन्त शूर था ऐसा अनन्तवीर पृथिवीमें सर्व श्रेष्ठ था ॥५११॥ बन्दी जन उस अनन्तवीर्य नारायणकी उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान प्रतापान्निकी ज्वालाओंसे तूने शत्रुओंके वंशरूपी बाँसोंके वनको भस्म कर डाला है, तू स नारायणोंमें श्रेष्ठ नारायण है; जो शत्रु तुझे कृपित करता है वह क्षणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्वालाओंसे आलीढ—व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥५१२॥ जिसके शत्रुरूपी बादलोंके उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, काललब्धिसे जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्तिसे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यन्त उन्नत है ऐसा वह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरदऋतुमें निवास करता है ॥५१३॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अपराजित बलमद्ग और अनन्तवीर्य नारायणके अभ्युदयका वर्णन करनेवाला बासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## त्रिषष्टितमं पर्व

सिंहासने समासीनो<sup>१</sup> वीज्यमानप्रकीर्णकः । अर्द्धवक्रो ज्वराजिष्ट यथा घट्खण्डमण्डितः ॥ १ ॥  
 अथापराजितोऽपराश्रययोग्यरत्नाद्यधीश्वरः । बलदेवपदं प्राप्य प्रत्यहं वृद्धिमातनोत् ॥ २ ॥  
 एवं मवान्तराबद्धविष्टुद्धस्नेहयोस्तयोः । काले गच्छत्यविच्छिन्नस्वच्छन्दसुखसारयोः ॥ ३ ॥  
 विजयायां हृल्लेसस्य बभूव सुमतिः सुता । ज्योत्स्नेव प्रीणिताशेषा शुक्लपक्षेन्दुरेखयोः ॥ ४ ॥  
 सान्बहं कुर्वती वृद्धिं स्वस्याः पित्रोरपि स्वयम् । गुणराह्यादनैः प्रीतिं ज्वघात्कुवलयैस्सिताम् ॥ ५ ॥  
 दानाद्मवराख्याय चारणाय यथोचितम् । साश्रयपञ्चकं प्राप तत्र दृष्टुं निज्जात्मजाम् ॥ ६ ॥  
 रूपेण केवलेनेयं भूषिता यौवनेन च । चरं प्रार्थयते बाला संश्रिता काकदेवताम् ॥ ७ ॥  
 इति संविन्ध्य तौ श्रावितस्वयंवरघोषणौ । कृत्वा स्वयंवृतेः शाब्दां प्रवेदयान्न वरोत्तमान् ॥ ८ ॥  
 सुतां च स्यन्दमारूढां सुप्रीतौ तस्थतुस्तदा । काचिद्विमानमारुह्य खगता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥  
 अभिजानासि किं देवकोकेऽहं त्वं च कन्यके । वत्स्यावस्तत्र संज्ञानासमभूत् स्थितिरावयोः ॥ १० ॥  
 या प्रागवतरद्वात्रीं तामन्या योधयत्स्विति । भ्रुवे नौ मवसंबन्धं संनिषाय मनः शृणु ॥ ११ ॥  
 पुष्करद्वीपपूर्वाद्धंसरते नन्दने पुरे । नयविक्रमसंपन्नो महेशोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥  
 एतस्यानन्दमत्याश्च धनानन्तश्रियौ सुते । भूत्वा वां सिद्धकूटस्थनन्दनाख्ययतीश्वरात् ॥ १३ ॥

जिसपर चमर दुर रहे हैं ऐसा सिंहासनपर बैठा हुआ अर्द्धवक्रो—नारायण अनन्तवीर्य इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह खण्डोंसे सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्रका पद प्राप्त कर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥२॥ जिनका स्नेह दूसरे भवोंसे सम्बद्ध होनेके कारण निरन्तर बढ़ता रहता है और जो स्वच्छन्द रीतिसे अखण्ड श्रेष्ठ सुखका अनुभव करते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंका काल क्रमसे ज्यतीत हो रहा था ॥३॥ कि बलभद्रकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । वह शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी रेखाओंसे उत्पन्न चाँदीकी समान सबको प्रसन्न करती थी ॥४॥ वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणोंके द्वारा माता-पिताके भी कुवलयैस्सित—पृथिवीमण्डलमें इष्ट अथवा कुसुदोंको इष्ट प्रेमको बढ़ाती थी ॥५॥ किसी एक दिन राजा अपराजितने दमघरनामक चारणकृद्धिधारी मुनिको आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किये । उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूपसे ही विभूषित है किन्तु यौवनसे भी विभूषित हो गयी है । इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर वरकी प्रार्थना कर रही है अर्थात् विवाहके योग्य हो गयी है ॥६-७॥ ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्वयंवरकी घोषणा सबको सुनवायी और स्वयंवरशाला बनवाकर उसमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया ॥८॥ पुत्रीको रथपर बैठाकर स्वयंवरशालामें भेजा और आप दोनों भाई भी वहीं बैठ गये । कुछ समय बाद एक देवी विमानमें बैठकर आकाशमार्गसे आयी और सुमति कन्यासे कहने लगी ॥९॥ क्यों याद है हम दोनों कन्याएँ स्वर्गमें रहा करती थीं । उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथिवीपर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समझायेगी । मैं दोनोंके भवोंका सम्बन्ध कहती हूँ सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥१०-११॥

पुष्करद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमें वय और पराक्रमसे सुशोभित एक अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी आनन्दमती नामकी रानीसे हम

श्रुत्वा धर्मं व्रतैः सार्द्धमुपवासोश्च संविदा । समग्रहीष्टं नौ दृष्ट्वा कदाचित् त्रिपुराधिपः ॥१४॥  
 मनोहरवनेऽगच्छत् सहवज्राङ्गदः खगः । कान्तया वज्रमालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥१५॥  
 पुरीं प्रापय्य कान्तां स्वां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वाऽस्वां व्रजन्नाञ्जु निजामिप्रायवेदिनीम् ॥१६॥  
 आगतामन्तरं दृष्ट्वा दूरात्तं वज्रमालिनीम् । त्यक्त्वा वेशुवने भीत्या तस्याः स्वपुरमीषिचान् ॥१७॥  
 आवां संन्यस्य तत्रैव लीधर्मन्द्रस्य शुद्धयोः । व्रतोपवासपुण्येन देवी नवमिकामवम् ॥१८॥  
 त्वं च देवी कुर्वस्व रत्याख्या समजाययाः । अन्योन्यमवगत्यैव नन्दीश्वरमहामहम् ॥१९॥  
 अथ मन्दरपर्यन्तवने निर्जन्तुके स्थितम् । चारणं धृतिपेणाख्यं समाश्रित्य प्रणम्य तम् ॥२०॥  
 आवाप्तप्रश्नयावेदं कदा स्यान्मुक्तिरावयोः । इत्यथो मुनिरप्याह जन्मनीतश्चतुर्थके ॥२१॥  
 अवश्यं युवयोर्मुक्तिरिति तस्मान्महामते । सुमते नाकिनां लोकास्वां बोधयितुमागत ॥२२॥  
 इत्यबोचत्तदाकर्ण्य सुमतिर्नामं सार्थकम् । कुर्वती पितृनिर्मुक्ता प्रावाजीस्ववतान्तिके ॥२३॥  
 कन्यकामिः शतैः सार्द्धं सप्तभिः सा महातपाः । त्यक्तप्राणान्ते कल्पे देवीऽभवदनुदिशे ॥२४॥  
 आधिपत्यं त्रिखण्डस्य विधाया विविधैः सुखैः । प्राविशत्केशवः पापात् प्राप्ते रत्नप्रभां क्षित्विम् ॥२५॥  
 तच्छोकाखसीरपाणिश्च राज्यकक्षमं प्रवृद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोधरमुनीश्वरात् ॥२६॥  
 आदाय संयमं प्राप्य तृत्तःखावगमं शमी । त्रिशद्विचससंन्यासादच्युतांधीश्वरोऽभवत् ॥२७॥  
 धरणेन्द्रात् पितृ<sup>१</sup>श्रुत्वा प्राप्तसम्यक्त्वरत्नकः । संख्यातवर्षैः प्रच्युत्य नरकाद् दुरितच्युतेः ॥२८॥

दोनों धनश्री तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन हम दोनोंने सिद्धकूटमें विराजमान नन्दन नामके मुनिराजसे धर्मका स्वरूप सुना, व्रत ग्रहण किये तथा सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये। किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वज्राङ्गद विद्याधर अपनी वज्रमालिनी स्त्रीके साथ मनोहर नामक वनमें जा रहा था कि वह हम दोनोंको देखकर आसक्त हो गया। वह उसी समय लौटा और अपनी स्त्रीको अपनी नगरीमें भेजकर शीघ्र ही वापस आ गया। इधर वह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली वज्रमालिनी आ धमकी। उसे दूरसे ही आती देख वज्राङ्गद डर गया अतः वह हम दोनोंको वंश-वनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया ॥१२-१७॥ हम दोनोंने उसी वनमें संन्यासमरण किया। जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाली मैं तो व्रत और उपवासके पुण्यसे सौधर्मन्द्रकी नवमिका नामकी देवी हुई और तू कुर्वरकी रति नामकी देवी हुई। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्दीश्वर द्वीपमें महामह यज्ञ देखनेके लिए गयी थीं वहाँसे लौटकर मेरुपर्वतके निकटवर्ती जन्तुरहित वनमें विराजमान धृतिपेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थी और उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था कि हे भगवन् ! हम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद मुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्मसे तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती सुमते ! मैं इस कारण ही तुम्हें समझानेके लिए स्वर्गलोकसे यहाँ आयी हूँ ॥१८-२२॥ इस प्रकार उस देवीने कहा। उसे सुनकर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर सुव्रता नामकी आर्थिकाके पास सात सौ कन्याओंके साथ दीक्षित हो गयी। दीक्षित होकर उसने बड़ा कठिन तप किया और आयुके अन्तमें मरकर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमानमें देव हुई ॥२३-२४॥

इधर अनन्तवीर्य नारायण, अनेक प्रकारके सुखांके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा और अन्तमें पापोद्दयसे रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवीमें गया ॥२५॥ उसके शोकसे बलभद्र अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा ज्ञान (अबधिज्ञान) प्राप्त कर अत्यन्त शान्त हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए ॥२६-२७॥ अपराजित और

द्वीपेऽस्मिन्मारते खेचराद्भुदकश्रेणित्रिभुजे । मेघवाहनविद्याधरेशो गगनवल्लभे ॥२९॥  
 देव्यां सुमेधमालिन्वा मेघनादः खगाधिपः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन भोगांश्चिरमभुङ्क्त सः ॥३०॥  
 कदाचिन्मन्वरे विद्यां प्रज्ञसिं नन्दने वने । साधयन्मेघनादोऽयंमच्युतेदो न चोदितः ॥३१॥  
 लब्धवोधिः समाश्रित्य सुरामरगुरुं यमम् । सुगुप्तिसमितोः सन्धवादाद्य चिरमाचरन् ॥३२॥  
 अन्धेद्युर्नन्दना दयाद्वौ प्रतिमायोगमामगम् । अश्वप्रोवाजुजो भ्रान्त्वा सुकण्ठाख्यो भवार्णवे ॥३३॥  
 असुरत्वं समासाद्य दृष्टैर्न मुनिपत्तमम् । विधाय बहुवा क्रोधाद्दुपसर्गानवारयन् ॥३४॥  
 महायोगाप्रतिज्ञावात् स्थिरं चालयितुं खडः । लज्जालिरस्करिण्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥३५॥  
 मुनिः संन्यस्य कालान्ते सोऽच्युतेऽगात्प्रतीन्द्रताम् । इन्द्रेण सह संप्रीत्या सप्रवीचारभोगमाक ॥३६॥  
 प्राक्प्रच्युत्याच्युताधीशो द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहके । विषये मङ्गलावत्या स्थानीये रत्नसंचये ॥३७॥  
 राज्ञः क्षेमकराख्यस्य कृतपुण्योऽभवत्सुतः । श्रीमान् कनकचित्रायां भासो वा मेघविद्युतो ॥३८॥  
 आधानप्रीतिसुप्रीतिश्च तिमोदप्रियोद्भवः । प्रभृद्युक्तक्रियोपेतो धीमान् वज्रायुधाह्वयः ॥३९॥  
 तन्मातरीव तज्जन्मतोषः सर्वेष्वभूद् बहुः । भवेच्छचीशदिव्येव किं प्रकाशोऽभ्युमालिनः ॥४०॥ -  
 अवधिष्ट वपुस्तस्य सादं रूपादिसंपदा । भूषितोऽनिमिषो वासौ भूषणैः सहस्रैर्गुणैः ॥४१॥

अनन्तवीर्यका जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था । उसने नरकमें जाकर अनन्तवीर्यको समझाया जिससे प्रतिबुद्ध होकर उसने सख्यदर्शनरूपी रत्न प्राप्त कर लिया । संख्यात वर्षको आयु पूरी कर पापका उदय कम होनेके कारण वहाँसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें प्रसिद्ध गगनवल्लभ नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ । वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगोंको भोगता रहा ॥२८-३०॥ किसी समय यह मेघनाद मेरु पर्वतके नन्दन वनमें प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रने उसे समझाया ॥३१॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया । उसने सुरामरगुरु नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों और समितियोंको लेकर चिर काल तक उनका आचरण करता रहा ॥३२॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्दन नामक पर्वत-पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे । अश्वप्रोवका छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्रमें चिर काल तक भ्रमण कर असुर अवस्थाको प्राप्त हुआ था । वह वहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ॥३३-३४॥ परन्तु वह दुष्ट उन दृढप्रतिज्ञ मुनिराजको प्रहण किये हुए व्रतसे रंच मात्र भी विचलित करनेमें जब समर्थ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया—छिप गया ॥३५॥ वे मुनिराज संन्यासमरण कर आयुके अन्तमें अच्युतस्वर्गके प्रतीन्द्र हुए और इन्द्रके साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥३६॥ अपराजितका जीव जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेहक्षेत्रके रत्नसंचय नामक नगरमें राजा क्षेमकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी विजलीसे प्रकाशके समान पुण्यात्मा श्रीमान् तथा बुद्धिमान् वज्रायुध नामका पुत्र हुआ । जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति सुप्रीति धृति-सोह प्रियोद्भव आदि क्रियाएँ की गयी थीं ॥३७-३९॥ उसके जन्मसे उसकी माताके ही समान सबको बहुत भारी सन्तोष हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशामें ही होता है? भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका प्रकाश सब दिशाओंमें फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके ही हुई थी परन्तु उससे हर्ष सभीको हुआ था ॥४०॥ रूप आदि सम्पदाके साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक

१ सुरामरगुरुनामत् क०, ख०, घ० । सुरामरगुरुं पुमान् ग० । २ सुगुप्तिसुमिति म० । सुगुप्ति समिति ल० । ३ नन्दन ह्येऽश्री ल०, म० । ४ प्रतिज्ञानात् ख०, म०, घ० । ५ वपुतेपत्येन । ६ देव इव ।



जनानुरागः प्रागेव तस्मिन्स्तस्योदयाद्भूत् । संध्याराग इवाकंस्य महाभ्युदयसूचनः ॥४१॥  
 विश्वाशा ध्यानत्रे तस्य यशो विशदयद् भृशम् । काशप्रसवत्काशमाश्रासितजनश्रुति ॥४३॥  
 राज्यलक्ष्म्या च्यनाल्लक्ष्मीमत्या चाप्यनवं वयः । असौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्स्नयावाप्य वा विधुः ॥४४॥  
 सुनुस्तयोः प्रतीन्द्रोऽभूत्सहस्रायुधनाममाक् । वासरादेः प्रतीच्यां वा धर्मदीप्तिं कनदश्रुतिः ॥४५॥  
 श्रीपेणार्थां सुतस्तस्य शान्तान्तकनकोऽजनि । एवं क्षेमंकरः पुत्रपौत्रादिपरिवारितः ॥४६॥  
 अप्रतीपप्रतापोऽयं नतभूपत्रदम्बकः । ऋदाचिद्वीज्यमानोऽस्थाच्चाभरैः सिंहविष्टरे ॥४७॥  
 तदामरसदस्यासीद्दीशानस्तुतिगोचरः । वज्रायुधो महासम्यग्दर्शनाधिक्यतः कृती ॥४८॥  
 देवो विचित्रचूलाख्यस्तत् स्तवं सोढुमक्षम् । अभिवज्रायुधं प्रापत्त्वलो ह्यन्यस्तवासहः ॥४९॥  
 इष्टा रूपपरावृत्या महानाथं यथोचितम् । वादकण्ठयथाऽवोचस्तौत्रान्तिकमते स्थितः ॥५०॥  
 त्वं जीवादिपदार्थानां विद्वान् किल विचारणे । वद पर्यायिणो भिन्नः पर्यायं किं विपर्ययः ॥५१॥  
 भिन्नचेच्छ्रुत्याप्राप्तिस्तयोराराधारहानितः । तथा चाप्यपदेशत्वाच्चाय पक्षो वृत्तामदेव ॥५२॥  
 ऐकत्वसङ्गोऽप्येतन्न युक्तिपदवीं व्रजेत् । अन्योन्यगोचरैकत्वनात्वाच्चन्तसंकरात् ॥५३॥  
 अस्ति चेद् द्रव्यमेकं ते पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमपीत्येव सङ्गो भङ्गमाप्नुयात् ॥५४॥  
 नित्यत्वेऽपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्यतेः । तद्देतुबन्धनाभावात्मोक्षाभावो न चाद्यंते ॥५५॥

गुणोंसे वह सुशोभित होने लगा ॥४१॥ जिस प्रकार सूर्यके महाभ्युदयको सूचित करनेवाली उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युदयको सूचित करनेवाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था ॥४२॥ सब लोगोंके कानोंको आश्वासन देनेवाला और काशके फूलके समान फैला हुआ उसका उज्वल यश समस्त दिशाओंमें फैल गया था ॥४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्लपक्षको पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह वज्रायुध भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राज्य-लक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नामक स्त्रीसे सुशोभित हो रहा था ॥४४॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशासे देदीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों—वज्रायुध और लक्ष्मीमतीके अनन्तवीर्य अथवा प्रतीन्द्रका जीव सहस्रायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४५॥ सहस्रायुधके श्रीपेणा स्त्रीसे कनकशान्त नामका पुत्र हुआ । इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र-पौत्र आदि परिवारसे परिवृत होकर राज्य करते थे । उनका प्रताप प्रतिद्वन्द्वीसे रहित था, और अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार करते थे । किसी एक दिन वे सिंहासनपर विराजमान थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थे ॥४६-४७॥ ठीक उसी समय देवोंकी सभामें ऐशान स्वर्गके इन्द्रने वज्रायुधकी इस प्रकार स्तुति की—इस समय वज्रायुध महासम्यग्दर्शनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान् है ॥४८॥ विचित्रचूल नामका देव इस स्तुतिको नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वज्रायुधकी ओर चला सो ठीक ही है क्योंकि द्रष्टु मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता ॥४९॥ उसने रूप बदलकर राजाके यथायोग्य दर्शन किये और शास्त्रार्थ करनेकी खुजलीसे सौत्रान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा ॥५०॥ हे राजन् ! आप जीव आदि पदार्थके विचार करनेमें विद्वान् हैं इसलिए कहिए कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि अभिन्न ? ॥५१॥ यदि पर्यायीसे पर्याय भिन्न है तो शून्यताकी प्राप्ति होती है क्योंकि दोनोंका अलग-अलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय है. इस प्रकारका व्यवहार भी नहीं बन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ॥५२॥ यदि पर्यायी और पर्यायको एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि परस्पर एकपना और अनेकपना दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है ॥५३॥ यदि द्रव्य एक है और पर्याय बहुत हैं ऐसा आपका मत है तो दोनों एक स्वरूप भी हैं इस प्रतिज्ञाका भंग हो जावेगा ॥५४॥ यदि द्रव्य और पर्याय दोनोंको नित्य मानेगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मका उदय नहीं हो सकेगा,

अगत्या क्षणिकस्त्वं चेतथोरभ्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्च मे भवेत् ॥ ५६ ॥  
 ततो भद्रममत्तं भद्रं बौद्धकैः परिकल्पितम् । कलानामात्रमत्रस्थं मा कृथास्त्वं वृथा श्रमम् ॥ ५७ ॥  
 इत्याकण्यं तदोक्तं तद्वदुधो घञ्जायुषोऽभणत् । श्रुणु चित्तं निधायोच्चैर्माध्यस्थं प्राप्य सौगतं ॥ ५८ ॥  
 जिनेन्द्रवन्दनेन्दस्थस्याद्वाद्वाद्मृत रायिनाम् । स्वकर्मफलभोगादिव्यवहारविरोधिनाम् ॥ ५९ ॥  
 क्षणिकैकान्तदुर्वाद्मवलम्ब्य प्ररूपितः । स्वया दोषो न बाधायै कल्पते धर्मधर्मिणोः ॥ ६० ॥  
 संज्ञाप्रज्ञास्वचिह्नादिभेदैर्भिन्नत्वमेतयोः । एकत्व चापृथक्त्वापैर्णनयैकावल्म्बनात् ॥ ६१ ॥  
 कायकारणभावेन कालत्रितयवर्तिनाम् । स्कन्धानामव्यवच्छेदं तानोऽभ्युपगम्यते ॥ ६२ ॥  
 स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि सद्भावार्कृतकर्मणः । युक्तः फलो रमोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥  
 एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम् । वातारितरुत्रन्धेन रोधो वा सत्तदन्तितः ॥ ६४ ॥  
 संतानिभ्यः सप्ततानः पृथक् किंवाऽपृथगमतः । पृथक्त्वे किं न पश्यामः संतानिभ्यः पृथक् न तत् ॥ ६५ ॥  
 अथेष्टोऽव्यतिरेकेण संतानिभ्यः स्वकल्पितः । संतानः शून्यतां तस्य सुगतोऽपि न वारयेत् ॥ ६६ ॥

कर्मोंके उदयके बिना बन्धके कारण रागद्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेगें, उनके अभावमें कर्मोंका बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावकी कौन रोक सकेगा ? ॥५५॥ यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं, तो आपके गृहीत पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ॥५६॥ इसलिए हे भद्र ! आपका मत नीच बौद्धोंके द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ परिश्रम न करे ॥५७॥

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान् वज्रायुध कहने लगा कि हे सौगत ! चित्तको ऊंचा रखकर तथा माध्यस्थ भावको प्राप्त होकर सुन ॥५८॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फलको भोगना आदि व्यवहारसे विरोध रखनेवाले क्षणिकैकान्तरूपी मिथ्यामतको लेकर तुने जो दोष बतलाया है वह जिनेन्द्र भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याद्वाद्रूपी अमृतका पान करनेवाले जैनियोंको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता । क्योंकि धर्म और धर्मोंमें—गुण और गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि आदि चिह्नोंका भेद होनेसे भिन्नता है और 'गुण-गुणी कभी अलग नहीं हो सकते' इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता है—एकता है । भावार्थ—द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथवा पर्याय और पर्यायीमें अभेद है—एकता है परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमें भेद है । अनेकता है ॥५९-६१॥ भूत-भविष्यत्-वर्तमानरूप तीनों कालोंमें रहनेवाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य भाव रहता है अर्थात् भूतकालके स्कन्धोंसे वर्तमान कालके स्कन्धोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हुए और वर्तमान कालके स्कन्ध कार्य हुए । इसी प्रकार वर्तमान कालके स्कन्धोंसे भविष्यत् काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत् कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य हुए । इस प्रकार कार्य-कारण भाव होनेसे इनमें एक अखण्ड सन्तान मानी जाती है । स्कन्धोंमें यद्यपि क्षणिकता है तो भी सन्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है । जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है । ऐसा यदि आपका मत है तो इस परिहारसे आपको अपने पक्षकी रक्षा करना परण्डके वृक्षसे मत्त हाथीके बाँधनेके समान है । भावार्थ—जिस प्रकार परण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बाँधा जा सकता उसी प्रकार इस परिहारसे आपके पक्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥६२-६४॥ हम पूछते हैं कि जो सन्तान स्कन्धोंसे उत्पन्न हुई है वह सन्तान सन्तानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे पृथक् क्यों नहीं देखते हैं ? चूँकि वह हमें पृथक् नहीं दिखाई देती है इसलिए सन्तानीसे भिन्न नहीं है ॥६५॥ यदि आप अपनी कल्पित सन्तानको सन्तानीसे अभिन्न मानते हैं तो फिर उसकी शून्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सन्तानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहनेवाली

प्रध्वंसाज्ञास्यतिक्रान्तः क्षणो माव्यप्यनुद्भवात् । भवत्क्षणस्वरूपासिध्याप्तो नामोति हंततिम् ॥ ६७ ॥  
 यदि कश्चिच्चतुर्थोऽस्तु संतानस्य तवास्तु सः । ततः संतानेवादेश्यं भवव्यसनसंततिः ॥ ६८ ॥  
 इति देवोऽप्यसौ तस्य वाग्मज्जेण विचूर्णितम् । वचो विचिन्त्य स्वं भ्रममानः कालाद्विलिखतः ॥ ६९ ॥  
 तद्यः सम्यक्त्वमादाय संपुत्र्य धरणीधरम् । निजागमनवृत्तान्त्वमभिधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥  
 अथ क्षेमंकरः पृथ्व्याः क्षेमं योगं च संदधत् । लब्धवोधिर्मतिज्ञानक्षयोपशमनावृतः ॥ ७१ ॥  
 वज्रायुधकुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् । प्राप्तलौकान्तिकस्तोत्रः परिनिष्कस्य गेहतः ॥ ७२ ॥  
 अनावरणसंस्थानसप्रमादमनुत्क्रमम् । असंगमकृताहारमं नाहार्यमनेकथा ॥ ७३ ॥  
 अकृपायमनारम्भमनवद्यमखण्डितम् । अनारतश्रुताभ्यासं प्रकुर्वन् स तपश्चिरम् ॥ ७४ ॥  
 निर्ममं निरहंकारं निःशास्त्रं निजितेन्द्रियम् । निःक्रोधं निश्चलं चित्तं निर्वृत्त्यै निर्मलं व्यधात् ॥ ७५ ॥  
 क्रमात्कैवल्यसंप्राप्य व्याहृतपुरुहूतकम् । गणान् द्वादश वाऽऽऽभीयान् वाग्विसर्गादतीतृपत् ॥ ७६ ॥  
 वज्रायुधेश्च भूनाथे सुपुण्यफलितां महीम् । पात्यागमम्मधुमांसो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥  
 कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽकि नाम् । अहर्त्काममन्त्रो<sup>३</sup> वा प्राणान् प्रोषितयोपिताम् ॥ ७८ ॥

सन्तान भी क्षणिक ही रहेगी । इस तरह अभेदवादमें सन्तानकी शून्यता बलात् सिद्ध होती है । जो क्षण वीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आनेवाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है और जो वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों क्षणोंसे सन्तानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे सन्तानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु चौथा क्षण आप मानते नहीं है क्योंकि चौथा क्षण माननेसे तीन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जावेगा । इस प्रकार आपका यह सन्तानवाद संसारके दुःखोंकी सन्तति मालूम होती है ॥६६-६८॥

इस प्रकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुधके वचनरूपी वज्रसे खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त कहा और फिर वह स्वर्ग चला गया ॥६९-७०॥ अथानन्तर क्षेमंकर महाराज योग और क्षेमका समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे । तदनन्तर किसी दिन उन्होंने मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥७१॥ वज्रायुधकुमारका राज्याभिषेक किया, लौकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की और घरसे निकल कर दीक्षा धारण कर ली ॥७२॥ उन्होंने निरन्तर शास्त्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्चरण किया । वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान-पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्रविहित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहनते थे, कभी कपाय नहीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और गृहीत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करनेके लिए अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चंचलतारहित, और निर्मल बना लिया था ॥७३-७५॥ क्रम-क्रमसे उन्होंने कैवल्यज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणके उत्सवमें आये और दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी वारहों सभाओंको सन्तुष्ट कर दिया ॥७६॥ इधर राजा वज्रायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई पृथिवीका पालन करने लगे । धीरे-धीरे कामके उन्मादको बढ़ानेवाला चैतक महीना आया । कोयलोंका मनोहर आलाप और भ्रमरोंका मधुर शब्द कामदेवके मन्त्रके समान विरहिणी स्त्रियोंके प्राण हरण करने लगा । समस्त प्रकारके फूल

वनान्यपि मनोजाय त्रिजगद्धिजिगीषवे । यस्मिन् पुष्पकरे स्वैरं दद्रुः सर्वस्वमात्मनः ॥७९॥  
 तस्मिन् काले वने रन्तुं स्वदेवरमणे मतिम् । ज्ञात्वा सुदर्शभावक्त्राद्धारिण्याद्यात्मयोषिताम् ॥८०॥  
 औत्सुक्यात्तद्वनं गत्वा सुदर्शनसरोवरे । जलक्रीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयति भूभुजि ॥८१॥  
 अपिधाय सरः सद्यः कश्चिद्विद्याधरः खलः । शिखया नागपाशेन तमबध्नान्मृपोऽप्यसौ ॥८२॥  
 शिलां हस्ततलेनाहस्ता गता शतखण्डताम् । विद्याधरोऽपि दुष्टात्मा तदानीं प्रपलायितः ॥८३॥  
 एष पूर्वमेव शत्रुर्विद्युद्दंष्ट्राभिधानकः । वज्रायुधोऽपि देवीभिः सह स्वपुरमागमत् ॥८४॥  
 एवं सुखेन भूमन्तुः काले गच्छत्ययोदयात् । निश्चयो नव रत्नानि चतुर्दश तदाऽभवत् ॥८५॥  
 चक्रवर्तिश्रियं प्राप्य निविष्टं सिंहविष्टरं । कश्चिद्विद्याधरो भीतः शरणं तसुपागत ॥८६॥  
 तस्यैवानुपदं काचिद्दुस्वतासिकता खगी । क्रोधानकक्रिखेवागात् द्योतयन्ती सभावनीम् ॥८७॥  
 तस्याश्चानुपदं कश्चित्स्थविरः स गदाधरः । समागत्य महाराज दुरात्मैष खगाधमः ॥८८॥  
 त्वं दृष्टनिग्रहे शिष्टपाकने च निरन्तरम् । जागसि निग्रह कार्यस्त्वयास्थान्यायकारिणः ॥८९॥  
 कोऽसावन्याय इत्येतत् ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत् । वदामि देव सम्यक् त्वं प्रणिधाय मन शृणु ॥९०॥  
 जम्बूद्वीपसुकच्छाख्यविषये खचराचले । श्रेण्यामुत्तरदिग्जायां शुक्रप्रभपुराधिप ॥९१॥  
 खगाधीन्द्रदत्ताख्यः प्रिया तस्य यशोधरा । तयोर्हं सुतो वायुवेगो विद्याधरैर्मतः ॥९२॥  
 तत्र किन्नरगीताख्यनगराधिपतिः खगः । चित्रचूलः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाऽभवत् ॥९३॥

उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगद्-  
 विजयी कामदेवके लिए अपना सर्वस्व ही दे रहे हों ॥७७-७९॥ उस समय उसने सुदर्शना  
 रानीके मुखसे तथा धारिणी आदि अपनी स्त्रियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय  
 इनकी अपने देवरमण नामक वनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस वनमें जाकर  
 सुदर्शन नामक सरोवरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ॥८०-८१॥ उसी समय  
 किसी दुष्ट विद्याधरने आकर उस सरोवरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया और राजाको  
 नागपाशसे बाँध लिया । राजा वज्रायुधने भी अपने हाथकी हथैलीसे उस शिलापर ऐसा  
 आघात किया कि उसके सौ टुकड़े हो गये । दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्या-  
 धर और कोई नहीं था—पूर्वभवका शत्रु विद्युद्दंष्ट्र था । वज्रायुध अपनी रानियोंके साथ  
 अपने नगरमें वापस आ गया । इस प्रकार पुण्योदयसे राजाका काल सुखसे बीत रहा था ।  
 कुछ समय बाद तो निधियाँ और चौदह रत्न प्रकट हुए ॥८२-८४॥ वह चक्रवर्तीकी विभूति  
 पाकर एक दिन सिंहासनपर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी  
 शरणमें आया ॥८६॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार लिये क्रोधानिनकी शिखाके  
 समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आयी ॥८७॥ उस विद्याधरीके पीछे ही हाथमे गदा  
 लिये एक बुद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट नीच है, आप  
 दुष्ट मनुष्योंके निग्रह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते है इसलिए  
 आपको इस अन्याय करनेवालेका निग्रह अवश्य करना चाहिये ॥८८-८९॥ इसने कौन-सा  
 अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको  
 अच्छी तरह स्थिर कर सुनो ॥९०॥

जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो विजयार्ध पर्वत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रप्रभ नामका  
 नगर है । वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम यशोधरा था । मैं उन  
 दोनोंका पुत्र हूँ, वायुवेग मेरा नाम है और सब विद्याधर मुझे मानते हैं ॥९१-९२॥ उसी देश-  
 में किन्नरगीत नामका एक नगर है । उसके राजाका नाम चित्रचूल है । चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता

१ स्वै देव-क०, ख०, ग०, घ०, म०, । २ भूभुजे ल० । ३ पुण्योदयात् । ४ चक्रवर्तिश्रिय  
 म०, ल० । ५ सभावनियं ग० । सभापतिम् ल० । ६ जागति ल० । ७ जम्बूद्वीपे क०, ख०, ग०, घ०, म० ।  
 ८ खेचराचले ख०, ग०, म० । खेचरालमे ल० । ९ चित्रसेन. म०, ल० । १० भवत् क०, ग०, घ० ।

सुता मम सुकान्तायाश्चैषा शान्तिमतिः सती । विद्या साधयितुं याता मुनिसागरपर्वतम् ॥९४॥  
 विद्यासाधनविज्ञार्थं पापोऽयं समुपस्थितः । पुण्योदयात्तदैवास्या विद्या सिद्धिमुपागता ॥९५॥  
 तद्भयात्त्वामयं पापकर्मकृत्समुपाश्रयत् । विद्यापूजां समादाय तदैवाहं समागमम् ॥९६॥  
 अदृष्टा मत्सुतां तत्र तन्मार्गं क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्वं श्रुत्वाऽवधिविक्रोचनः ॥९७॥  
 जानाम्यहं महत्त्वाय विद्याया विज्ञधारणम् । इति वज्रायुधो व्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम् ॥९८॥  
 अस्मिन्नैरावते ख्याते गान्धारविषये नृपः । विन्ध्यसेनः पतिर्विन्ध्यपुरस्य विक्रसन् गुणैः ॥९९॥  
 सुकृष्णगार्वां तस्याभूत्पुनर्नलिनकेतुकः । तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो वणिक् ॥१००॥  
 सुदत्तो नाम तस्यासीन्नार्यां प्रीतिकराह्वयात् । इष्ट्वा नलिनकेतुस्तां कचिद्वनविहारिणीम् ॥१०१॥  
 मदनानकसंतसतदाहं<sup>१</sup> सोढुमक्षमः । न्यायवृत्तिं समुल्लङ्घ्य वलाद्गृह्यत दुर्मतिः ॥१०२॥  
 सुदत्तस्तेन निर्विण्णः सुवताव्यजिनान्तिके । प्रव्रज्य सुचिरं घोरं तपः कृत्वाऽऽयुषोऽवधौ ॥१०३॥  
 संन्यस्येशानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । तत्र भोगाश्रितं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यमाक् ॥१०४॥  
 जम्बूद्वीपसुकच्छाख्यविजयार्द्धाचक्रोत्तर- । श्रेण्यां पुरेऽभवत्काञ्चनाद्यन्ततिलकाह्वये ॥१०५॥  
 महेन्द्रविक्रमत्येष्टतनूजोऽजितसेनवाक् । भवन्नकीलवेगायां विद्याविक्रमदुर्गतः ॥१०६॥  
 इतो नलिनकेतुश्च वीक्ष्योत्कंकापातमात्मज्ञान् । निर्विद्यं प्राक्तनत्मीयं दुश्चरित्रं विन्ध्यन्यम् ॥१०७॥  
 सोमं हरमुनिं श्रित्वा दीक्षानादाय शुद्धवीः । क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य संप्राप्तकृतिमष्टमीम् ॥१०८॥

मेरी स्त्री है ॥९३॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है । यह विद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक पर्वतपर गयी थी ॥९४॥ उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करनेमें विघ्न करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उद्वेगसे इसकी विद्या सिद्ध हो गयी ॥९५॥ यह पापी विद्याके भयसे ही आपके शरण आया है । मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री लेकर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी मार्गसे इनके पीछे आया हूँ । इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कहा । यह सब सुनकर अवधिज्ञानरूपी नेत्रकी धारण करनेवाले राजा वज्रायुध कहने लगे । कि 'इसकी विद्यामें विघ्न होनेका जो बड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूँ' ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥९६-९८॥

उन्होंने कहा कि 'इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें गान्धार नामका देश है उसके विन्ध्य-पुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था । उसकी सुलक्षणा रानीसे नलिनकेतु नामका पुत्र हुआ था । उसी नगरमें एक धनमित्र नामका वणिक् रहता था । उसकी श्रीदत्ता स्त्रीसे सुदत्त नामका पुत्र हुआ था । सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था । एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें विहार कर रही थी । उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उसे देखा और देखते ही कामाग्निसे ऐसा सन्तप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया । उस दुर्बुद्धिने न्यायवृत्तिका उल्लंघन कर बलपूर्वक प्रीतिकराका हरण कर लिया ॥९९-१०२॥ सुदत्त इस घटनामें बहुत ही विरक्त हुआ । उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ । वह पुण्यात्मा चिरकाल तक भोग भोगकर वहाँसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर कांचनतिलक नामक नगरमें राजा महेन्द्रविक्रम और नीलवेगा नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ । यह विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है ॥१०३-१०६॥

इधर नलिनकेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया । उसने विरक्त होकर अपने पिछले दुश्चरित्रकी निन्दा की, सोमंकर मुनिके पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिको निर्मूल बनाया, क्रम-क्रमसे केवलज्ञान उपपन्न किया और अन्तमें अष्टम भूमि—मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०८॥

प्रीतिकरापि<sup>१</sup> निर्वेगात्संश्रिता सुव्रतान्तिकम् । गृहसंगपरिव्यागात्कृत्वा चान्द्रायणं परम् ॥ १०९ ॥  
 प्रान्ते संन्यस्य सा प्रायात्कल्पमीशाननामकम् । तत्र स्वायुः स्थितिं नीत्वा दिव्यैर्भोगैस्ततश्च्युता ॥ ११० ॥  
<sup>२</sup> तवाजनि तन्त्रजेयमर्थं विद्याधिवातकृत् । तत्संभन्धादिति प्रोक्तं सर्वमाकर्ण्य भूभुजा ॥ १११ ॥  
 निर्विघ्नं संसृते, शान्तिमती क्षेमंकराह्वयात् । तीर्थशास्त्रममासाद्य सद्यः प्राप्य सुलक्षणम् ॥ ११२ ॥  
 गणिनी संयमं श्रित्वा संन्यस्येशानसंज्ञके । गके विल्किण्यो भूत्वा स्वकायपूजार्थमागमत् ॥ ११३ ॥  
 तदानीमेव केवलं प्रापत् पवनवेगवाक् । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तयोरयात् ॥ ११४ ॥  
 तथा चक्रधरे राज्यलक्ष्म्याकिङ्कितविग्रहे । दशाङ्गमोगसाद्भूते पाति षट्खण्डमण्डलम् ॥ ११५ ॥  
 विद्याधराद्वयप्रारमागे शिवमन्दिरभूपतिः । मेघवाहननामास्य विमलाख्या प्रिया तयोः ॥ ११६ ॥  
 सुता कनकमालेति कल्याणविधिपूर्वकम् । जाता कनकशान्तेः सा ह्यषकेतुं सुखावहा ॥ ११७ ॥  
 तथा वस्त्वोकसारारख्यपुराधीशखगेशिनः । सुता समुद्रसेनस्य जयसेनोदरोदिता ॥ ११८ ॥  
 प्रिया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीचसी । ताभ्यां निर्वृतिमापाली दृष्टिचर्याद्वयेन वा ॥ ११९ ॥  
<sup>३</sup> कोकिलाप्रथमाकारैराहूत इव कौतुकात् । अयाद्वनविहाराय कदाचित्स सहप्रियः ॥ १२० ॥  
 कन्दमूलफलान्वेषी निधिं वा सुकृतोदयात् । कुमारो मुनिमद्राक्षीद्विपिने विमलप्रमम् ॥ १२१ ॥  
 तं त्रिः परीत्य बन्दिता ततस्त्वर्चं प्रबुद्धवान् । मनोरजः समुद्भूय बुद्धिं बुद्धेरुपासदत् ॥ १२२ ॥  
 तदानीमेव तं दीक्षा-लक्ष्मीश स्ववक्ता व्यधात् । क्षम्फकीव वसन्तश्रीरजायत तपःश्रियः ॥ १२३ ॥

प्रीतिकरा भी चिरक्त होकर सुव्रता आर्थिकाके पास गयी और घर तथा परिग्रहका त्याग कर चान्द्रायण नामका श्रेष्ठ तप करने लगी । अन्तमें संन्यासमरण कर ऐशान स्वर्गमें देवी हुई । वहाँ दिव्य भोगोंके द्वारा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे च्युत हुई और अब तुम्हारी पुत्री हुई है । पूर्व पर्यायके सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें विघ्न किया था<sup>१</sup> । इस प्रकार राजा वज्रायुधके द्वारा कही हुई सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गयी । उसने क्षेमंकर नामक तीर्थकरसे धर्म श्रवण किया और शीघ्र ही सुलक्षणा नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया । अन्तमें संन्यास मरण कर वह ऐशान स्वर्गमें देव हुई । वह अपने शरीरकी पूजाके लिए आयी थी उसी समय पवनवेग और अजितसेन मुनिको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थानपर चली गयी ॥ १०९-११४ ॥ इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलक्ष्मीसे आलिंगित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती वज्रायुध दश प्रकारके भोगोंके अधीन होकर जब छहो खण्ड पृथिवीका पालन करते थे ॥ ११५ ॥ तब विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम विमला था । उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी । उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे । तरुणी होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करनेवाली हुई थी अर्थात् उसके साथ विवाही गयी थी ॥ ११६-११७ ॥ इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी स्त्री थी । जिस प्रकार दृष्टि और चर्या—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे निर्वृति-निर्वाण-मोक्ष प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दोनों स्त्रियोंसे राजा कनकशान्ति निर्वृति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥ ११८-११९ ॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुएके समान कौतुक वश अपनी स्त्रियोंके साथ वनविहारके लिए गया था ॥ १२० ॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल हूँदनेवालेको पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनमें विमलप्रम नामके मुनिराज दीख पड़े ॥ १२१ ॥ उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और अपने मनकी धूलि उड़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया ॥ १२२ ॥ उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने उसे अपने वश कर लिया अर्थात् उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि वसन्त-लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मीकी दूती ही थी । भावार्थ—जिस प्रकार दूती, पुरुषका स्त्रीके साथ समागम

१ प्रीतिकरातिनिर्वेगात् ख० । प्रीतिकरापि संवेगात् म०, ल० । २ तवाजनि म० । ३ वस्त्वोकसारारख्य-क०, ग०, घ०, वस्त्वोक-म० । ४ कोकिलप्रथमा-क०, ख०, घ० । ५ तप श्रियम् क०, घ० ।

देव्यां विमलमस्याख्यगणिनीं ते समाश्रिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं तत्कुलयोषिताम् ॥ १२४ ॥  
 मिद्वाचने कद्राचिन्तं प्रतिमायोगधारिणम् । खगो वसन्तलेनाया बद्धवैरेण मैथुनः ॥ १२५ ॥  
 विक्रीक्य चित्रचूलाख्यः क्रोपाख्यितवीक्षणः । प्रारिप्सुहृत्सर्गाय तर्जितः खेचरेश्वरैः ॥ १२६ ॥  
 अन्यदा रत्नलेनाख्यो नृपो रत्नपुराधिपः । द्रवाऽऽप पञ्चक्राश्रयं मिश्रां कनकशान्तये ॥ १२७ ॥  
 चित्रचूलः पुनश्चाख्य प्रतिमायोगधारिण । वने सुरनिपाताख्ये विघातं कर्तुमुद्यतः ॥ १२८ ॥  
 तस्मिन् कोपं परित्यज्य वातिघाता यतीश्वरः । केवलान्नगमं प्राप्तकऽपि कोपो न भीमताम् ॥ १२९ ॥  
 देवागमनमालोक्य भीत्वा स खगपापकः । तमेव दारणं यातो नीचायां वृत्तिरीदृशी ॥ १३० ॥  
 अथ त्रजायुधाधीशो नप्तृकै रत्यदर्शनात् । लब्धवोधिः सहस्रायुधाय राज्यं प्रदाय तत् ॥ १३१ ॥  
 दीक्षां क्षेमकराख्यो नतीर्थकुरुत्पान्तवः । प्राप्य सिद्धिगिरौ वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥ १३२ ॥  
 तस्य पादौ समालम्ब्य बालमोकं बह्ववर्तत । बह्व्यन्ति महात्मानः पादलज्जानपि द्विषः ॥ १३३ ॥  
 व्रतिनं तं व्रतत्योऽपि सार्द्धं वा समीप्सवः । गाढं रूढाः समासेदुराकण्ठममितस्त्वसुम् ॥ १३४ ॥  
 अश्वग्रीवसुरौ रत्नकण्ठरत्नायुधामिधौ । आन्त्वा जन्मन्यतिबलमहाबलसमाख्यया ॥ १३५ ॥  
 भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य तद्विघातं चिकीर्षुकौ । रम्भातिलोत्तमे द्रष्टु तर्जयित्वाऽतिभक्तित् ॥ १३६ ॥

करा देती है उसी प्रकार वसन्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा दिया था ॥१२३॥ इसीके साथ इसकी दोनों स्त्रियोंने भी विमलमती आर्थिकाके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि कुलीन स्त्रियोंको ऐसा करना उचित ही है ॥१२४॥ किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहींपर उनकी खो वसन्तसेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया । पूर्वजन्मके बंधे हुए वैरके कारण उसकी आँखे क्रोधसे लाल हो गयीं । वह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके अधिपतिने ललकारकर उसे भगा दिया ॥१२४-१२६॥ किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेनने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पंचाश्रय प्राप्त किये ॥१२७॥ किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे । वह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ ॥१२८॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि घातिया कर्मोका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसीपर क्रोध करना उचित नहीं है ॥१२९॥ केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ । उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केबली भगवान्की शरगमें पहुँचा सो ठीक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है ॥१३०॥

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वजायुध महाराजको भी आत्मज्ञान हो गया जिससे उन्होंने सहस्रायुधके लिए राज्य दे दिया और क्षेमकर तीर्थकरके पास पहुँचकर दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्वतपर एक वर्षके लिए प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥१३१-१३२॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुतसे वमीठे तैयार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुष चरणोंमें लगे शत्रुओंको भी बढ़ाते हैं ॥१३३॥ उनके शरीरके चारों ओर सधन रूपसे जमी हुई लताएँ भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके लिए ही मुनिराजके पास तक जा पहुँची थीं ॥१३४॥ अश्वग्रीवके रत्नकण्ठ और रत्नायुध नामके जो दो पुत्र थे वे काल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल और महाबल नामके असुर हुए । वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विघात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामकी देवियोंने देख लिया अतः डौंटेकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाके बाद वे देवियाँ स्वर्ग चली गयीं । देखो कहाँ दो स्त्रियाँ और

गन्धादिभिर्यति दिव्यैरभ्यर्च्य दिवमीयंतु । क्व चा ते क्वाऽसुरौ पुण्ये सति किं न वतामरेत् ॥१३७॥

किंचिकारणमुद्दिश्य वज्रायुधसुतोऽपि तत् । राज्यं शतबलिन्मुञ्चतिंघाय निहतस्वहृदः ॥१३८॥

संयमं सम्यग्वादाय मुनीन्द्रात् पिहितास्रवात् । योगावसाने स प्रापद्वज्रायुधमुनीश्वरम् ॥१३९॥

ताडुमौ सुचिरं कृत्वा प्रव्रथार्थं सह दुस्तहाम् । चैभारपर्वतस्याग्ने विप्रदेऽप्यकृताग्रहौ ॥१४०॥

ऊर्ध्वप्रैवेयकस्याधोऽभूतां सौमनसाह्वये । एकाक्षत्रिंशदब्ध्यायुधौ विमाने महद्विकौ ॥१४१॥

ततो वज्रायुधश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन् प्राग्निदेहने । विषये पुष्कलाचर्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥

पतिर्वनरथस्तरथ देवी कान्ता मनोहरा । तयोर्मैघरथाब्धयोऽभूदाधानाद्यास्रसक्तियः ॥१४३॥

तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि सुतो दृढरथाह्वयः । जातो मनोरमायां ताविव चेन्द्रदिव्यकरो ॥१४४॥

तयोः पराक्रमप्रज्ञाप्रश्रयप्राभवक्षमा । सत्यव्यांगादधोऽग्नये च प्राहुरासन् गुणा. स्थिराः ॥१४५॥

सुतो तौ यौवनपूर्णौ प्राशैश्वर्याविव द्विपौ । जिलोक्य तद्विवाहार्थं महीशो विहितस्मृतिः ॥१४६॥

उभ्येषूनोर्विवाहेन प्रियमित्र.मनोरमे । कनीयसोऽपि सुमतिं विदधे विचवह्वभाम् ॥१४७॥

अभवत्प्रियमित्रायां तनूजो नन्दिबर्द्धनः । सुमत्यां वरसेनाख्य सुतो दृढरथस्य च ॥१४८॥

इति स्वपुत्रपौत्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिंहविष्टरमध्यास्य शकलीकां समावहन् ॥१४९॥

तदात्र प्रियमित्रायाः सुपेणा नाम चेटिका । कृकवाकुं समानीय घनतुण्डाभिधानकम् ॥१५०॥

दर्शयित्वाऽऽह यद्येवं जयेयुः कृकवाकुकाः । परेषां प्रदे देभ्यो दीनाराणां सहस्रकम् ॥१५१॥

इति देव्या कनीयस्याः श्रुत्वा तद्गणिकाऽऽनयत् । काञ्चना वज्रतुण्डाभ्यां कुन्कुटं योवने तथाः ॥१५२॥

कहाँ दो असुर फिर भी उन स्त्रियोंने असुरोंको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन-सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? ॥१३५-१३७॥

इधर वज्रायुधके पुत्र सहस्रायुधको भी किसी कारणसे वैराग्य हो गया; उन्होंने अपना राज्य शतत्रलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छायें छोड़ दीं और पिहितास्रव नामके मुनिराजसे उत्तम संयम प्राप्त कर लिया। जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-वज्रायुध मुनि-राजके समीप जा पहुँचे ॥१३८-१३९॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें वे चैभार पर्वतके अधभागपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शरीरमें भी अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात् शरीरसे स्नेहरहित होकर सन्यासमरण किया और ऊर्ध्वप्रैवेयकके नीचेके सौमनस नामक विमानमें बड़ी ऋद्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनकीस सागरकी उनकी आयु थी ॥१४०-१४१॥

इसी जन्मद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसकी पुण्डरीकिणी नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे। उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी। वज्रायुधका जीव प्रैवेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ। उसके जन्मके पहले गर्भाधान आदि क्रियाएँ हुई थीं ॥१४२-१४३॥ उन्ही राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी। दूसरा अहमिन्द्र (सहस्रायुधका जीव) उसीके गर्भसे दृढरथ नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही पुत्र चन्द्र और सूर्यके समान जाल पड़ते थे ॥१४४॥ उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥१४५॥ दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गये और ऐश्वर्य प्राप्त गजराजके समान सुशोभित होने लगे। उन्हें देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी ओर गया ॥१४६॥ उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और मनोरमाके साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृदयवह्वभा बनाया था ॥१४७॥ कुमार मेघरथकी प्रियमित्रा स्त्रीसे नन्दिबर्द्धन नामका पुत्र हुआ और दृढरथकी सुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ ॥१४८॥ इस प्रकार पुत्र-पौत्र आदि सुखके समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासनपर बैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था ॥१४९॥ उसी समय प्रियमित्राकी सुपेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गे इसे जीत ले तो मैं एक हजार दीनार दूँगी। यह सुनकर छोटी स्त्रीकी कांचना

१ वज्रतुण्डाभिधानक क०, ख०, ग०, घ० ।



अन्योन्यदुःखहेतुत्वादेतयोः पश्यतामपि । हिंसानन्दादिकं द्रष्टुमयोग्यं धर्मवेदिनाम् ॥१५३॥  
 इति स्मरंश्च भग्यानां बहूनामुपशान्तये । स्वकीयपुत्रमाहात्म्यप्रकाशनधिया च तत् ॥१५४॥  
 युद्धं घनरथाधीशो लोकमानो ददकृधो । स मेघरथमप्राक्षीत् बलमेतत्कुतोऽनयोः ॥१५५॥  
 इति तेन स पृष्टः सन् विशुद्धावधिलोचनः । तयोस्तादृशयुद्धस्य हेतुमेवमुदाहरत् ॥१५६॥  
 अस्मिन्नैरावते रत्नपुरे शाकटिकी क्रुधा । सोदर्यौ मद्रघन्याख्यौ बलीवर्दनिमित्ततः ॥१५७॥  
 पापिष्ठी श्रीनदीतीरे इत्वा सृत्वा परस्परम् । काञ्चनाख्यसरित्तरे श्वेतताम्रादिकर्णकौ ॥१५८॥  
 स्वपूर्वजन्मपापेन जायेतां वनवारणौ । तत्रापि भवसंबद्धक्रीडाधुंधा सृति गतौ ॥१५९॥  
 अयोध्यापुरवास्तव्यो नन्दिमित्रोऽस्ति बलवः । महिषीमण्डले तस्य जज्ञाते गवळोत्तमौ ॥१६०॥  
 दत्तौ तत्रापि संरम्भसंभृतौ तौ परस्परम् । बभूवतुश्चिरं युद्ध्वा शृंगप्राकृष्टनीवितौ ॥१६१॥  
 तस्मिन्नेव पुरे शाकित्वरशब्दादिलेनयोः । मेघावभूतां तौ राजपुत्रयोर्व्रजमस्तकौ ॥१६२॥  
 युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ संजातौ कुक्कुटाधिमौ । स्वविद्याध्यासितावेतौ गृह्यौ योधयतः खगौ ॥१६३॥  
 क्राणं किं तयोः कौ च तौ चेच्छृणु महीपते । जम्बूपलक्षिते द्वीपे मरते खचराचले ॥१६४॥  
 पुरेऽभूद्रुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगौ गरुडवेगाख्यो धृतिषेणास्य वल्लभा ॥१६५॥  
 तिलकान्तद्वित्रिशन्द्रतिलकश्च सुतौ तयोः । सिद्धकृष्टे समासीनं चारणद्वन्द्वमाश्रितौ ॥१६६॥  
 स्तुत्वा स्वजन्मसंबन्धं सप्रश्रयमपृच्छताम् । ज्येष्ठी मुनिस्तयोरेवं तत्प्रपञ्चमभाषत् ॥१६७॥

नामकी दासी एक वज्रतुण्ड नामका मुर्गा ले आयी । दोनोंका युद्ध होने लगा, वह दोनों मुर्गाके लिए दुःखका कारण था तथा देखनेवालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रौद्रध्या करनेवाला था अतः धर्मात्माओंके देखने योग्य नहीं है ॥१५०-१५३॥ ऐसा विचार कर बहुत भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राज घनरथ उन दोनों क्रोधी मुर्गाका युद्ध देखते हुए मेघरथसे पूछने लगे कि इनमें यह बल कहाँ आया ॥१५४-१५५॥ इस प्रकार घनरथके पूछनेपर विशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धार करनेवाला मेघरथ, उन दोनों मुर्गाके वैसे युद्धका कारण कहने लगा ॥१५६॥ उसने इस प्रका कहना शुरू किया कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर है उसमें और धन्य नामके दो सगे भाई थे । दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करते थे । एक दिन दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे बैलके निमित्तसे लड़ पड़े और परस्पर एक-दूसरेको मार मर गये । अपने पूर्व जन्मके पापसे मरकर वे दोनों कांचन नदीके किनारे श्वेतकर्ण और ताम्रकर्ण नामके जंगली हाथी हुए । वहाँपर भी वे दोनों पूर्व भवके बँधे हुए क्रोधसे लड़कर मर ॥१५७-१५९॥ मरकर अयोध्या नगरमें रहनेवाले नन्दिमित्र नामक गोपालकी भैंसोंके दो उत्तम भैसे हुए ॥१६०॥ दोनों ही अहंकारी थे अतः परस्परमें बहुत ही कुपित हुए औ चिरकाल तक युद्ध कर सींगोंके अग्रभागकी चोटसे दोनोंके प्राण निकल गये ॥१६१॥ अबक बार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीवरसेन और शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए उनके मस्तक वज्रके समान मजबूत थे । मेढे भी परस्परमें लड़े और मरकर ये मुर्गे हुए हैं अपनी-अपनी विद्याओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिपकर इन्हें लड़ा रहे है ॥१६२-१६३॥ विद्याधरोंके लड़ानेका कारण क्या है ? और वे कौन हैं ? हे राजन्, यदि यह आप जानना चा है तो सुने । इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर एक कनक पुर नामका नगर है । उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था । धृतिषेणा उसकी स्त्री नाम था । उन दोनोंके द्वितिलक और चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे । एक दिन ये दोनों ह पुत्र सिद्धकृष्टपर विराजमान चारणयुगलके पास पहुँचे ॥१६४-१६६॥ और स्तुति कर बड़े विनयके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्ध पूछने लगे । उनमें जो बड़े मुनि थे वे इस प्रक विस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥

धातकीखण्डप्राग्भागे पुरमैरावते भुवि । तिलकाख्यं पतिस्तस्य बभूवाभयघोषवाक् ॥ १६८ ॥  
 सुवर्णतिलका तस्य देवी जातौ सुवी तयोः । विजयोऽन्यो जयन्तश्च संपन्नयविक्रमौ ॥ १६९ ॥  
 खगाग्निदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेशिनः । शंखस्य जयदेव्याश्च पृथिवीतिलका सुता ॥ १७० ॥  
 तस्य त्रयस्यघोषस्य साऽमवध्यागवत्कला । एकं संवत्सरं तस्यामेवासक्तोऽन्यदा विमौ ॥ १७१ ॥  
 सुवर्णतिलका सादं विहर्तुं भवत वनम् । वष्टीति नृपति चंवल्लान्यादितिलकोऽवदत् ॥ १७२ ॥  
 तच्छेटिकावचः श्रुत्वा तदेप्सुमभिधाय तम् । पृथिवीतिलका रम्यं वनमत्रैव दर्शये ॥ १७३ ॥  
 इति तत्कालजं सर्वं वनवस्तु प्रदर्शयत् सा । तेन शकनुवती रोद्धुं मानमङ्गेन पीडिता ॥ १७४ ॥  
 सुमतिं गणिनीं प्राप्य प्रव्रज्यामानदे सती । हेतुरासन्नभयानां मानश्च हितसिद्धये ॥ १७५ ॥  
 भक्त्या दमवराख्याय दत्त्वा दानं महोपतिः । आश्चर्यपंचकं प्राप्य कदाचिदमयाह्वयः ॥ १७६ ॥  
 अवाप्य सह सूनुभ्यामनन्गुस्संनिधिम् । लब्धवोधिः समादत्त दुस्सहं स महाव्रतम् ॥ १७७ ॥  
 कारणं तीर्थकृन्नाम्नो मावधित्वाऽऽयुषोऽवधौ । सम्यगाराख्य पुत्राभ्यामच्युतं कल्पमात्मवान् ॥ १७८ ॥  
 द्वात्रिंशत्यष्टिमनानायुर्भुक्त्वा भोगांश्च तौ ततः । जांबितान्ते भवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारौ ॥ १७९ ॥  
 इति तत्सम्यगाकर्ण्य भगवन्नावयो पिता । क्वेति पृष्टो मुनिस्ताभ्यामब्रवीदिति तत्कथाम् ॥ १८० ॥  
 ततः प्रच्युत्य कहरान्ताद् हेमाद्दमहीपतेः । सुतोऽभून्मेवमाकिन्यां देव्यां धनरथाह्वयः ॥ १८१ ॥  
 ह्दानां पुण्डरीकिन्यां युद्धं कुक्कुटयोरसौ । प्रेक्षमाणः स्थितः श्रीमान् देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐरावत क्षेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका नगर है । उसके स्वामीका नाम अभयघोष था और उनकी स्त्रीका नाम सुवर्णतिलक था । उन दोनोंके विजय और जयन्त नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इसी क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शंख और उनकी रानी जयदेवीके पृथिवीतिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ वह राजा अभयघोषकी प्राण-वल्लभा हुई थी । राजा अभयघोष उसमें आसक्त होनेसे एक वर्ष तक उसीके यहाँ रहे आये ॥ १७१ ॥ एक दिन चंचकान्तितिलका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी सुवर्णतिलका आपके साथ वनमें बिहार करना चाहती हैं ॥ १७२ ॥ चेटीके वचन सुनकर राजा वहाँ जाना चाहता था परन्तु पृथिवीतिलका राजासे मनोहर वचन बोली और कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हूँ ॥ १७३ ॥ ऐसा कहकर उसने उस समयमे होनेवाली वनकी सब वस्तुएँ दिखला दीं और इस कारण वह राजाको रोकनेमें समर्थ हो सकी । रानी सुवर्णतिलका इस मानमंगसे बहुत दुःखी हुई । अन्तमें उस सतीने सुमति नामक आर्थिकाके पास दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीवोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है ॥ १७४-१७५ ॥ अभयघोष राजाने किसी दिन दमवर नामक मुनिराजके लिए भक्तिपूर्वक दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥ १७६ ॥ वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिये ॥ १७७ ॥ तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्वर्गमें देव हुआ ॥ १७८ ॥ बार्हिस सागरकी आयु पाकर वे तीनों वहाँ मनोवाञ्छित भोग भोगते रहे । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर दोनों ही विजय और जयन्त राजकुमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७९ ॥ यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे—कि है भगवन् ! हमारे पिता कहाँ है ? ऐसा पूछे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे— ॥ १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताका जीव अच्युतस्वर्गसे च्युत होकर हेमांगद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके धनरथ नामका पुत्र हुआ है वह श्रीमान् इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें सुगोंका युद्ध

१ एक य०, ल० । २ वश कान्ती, कामपते इच्छतीत्यर्थ । ३ ताम् क०, ख०, ग०, घ०, म०, ल० । ४ कल्पान्ते ल० । ५ प्रेक्षमाणः ख० ।

तद्वाक्यं भवन्तीत्या खगौ तावागताविभौ । इति मेघरथात्मवर्षमाकर्ण्यान्मीयविग्रहम् ॥ १८३ ॥  
 प्रकटीकृत्य तौ भूपं कुमारं चाभिपूज्य तम् । गत्वा गोवर्द्धनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम् ॥ १८४ ॥  
 स्वपूर्वभवसंबन्धं विदित्वा कुम्भकुटी च तौ । मुक्त्वा परस्परान्द्वैरं संन्यस्य साहस्रान् ॥ १८५ ॥  
 अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनद्भ्यः । ताम्रादिचूलचूलान्तकनकौ भूतजातिजौ ॥ १८६ ॥  
 तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या मेघरथाह्वयम् । संपूज्याख्याय संबन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फुटम् ॥ १८७ ॥  
 मांनुषोत्तरमूर्धनान्तर्वर्षिं विश्वं विलोक्य । एष एव तवावाभ्यामुपकारो विधीयताम् ॥ १८८ ॥  
 इत्युदीर्यं कुमारं तं स्यात्तथेति प्रतिश्रुतम् । सार्द्धं स्वान्तैः समारोप्य विमानं विधिधर्मिकम् ॥ १८९ ॥  
 संराप्य गगनाभोगं मेघमाळाविभूषितम् । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान् देशान्यथाक्रमम् ॥ १९० ॥  
 भरतः प्रथमो देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्षो विदेहश्च रम्यकः पंचमो मतः ॥ १९१ ॥  
 हैरण्यवतसंज्ञश्च परश्चैरावताह्वय । पश्यैते सप्त भूभृद्धिं विभक्ताः सप्तमिर्विनो ॥ १९२ ॥  
 हिमवान् महाहिमवान् निषधो मन्दरो महान् । नीलो रुक्मी शिखर्याण्यो विख्याताः कुक्षुपर्वताः ॥ १९३ ॥  
 इमा रम्या महानद्यश्चतुर्दशसमुद्रगाः । पद्मादिहृदसंभूता नानास्रोतस्त्रिनीयुताः ॥ १९४ ॥  
 गङ्गा सिन्धुश्च रोहिचश्च रोहितास्या हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोदा चाष्टमी नदी ॥ १९५ ॥  
 नारी च नरकान्ता च कृष्णान्ता स्वर्णसंज्ञिका । ततोऽन्या रूप्यकृष्णारक्ता रक्तोद्ग्या सह ॥ १९६ ॥  
 हृदाः षोडशसंख्याः स्युः कुतोशयविभूषिताः । पद्म पद्मो महापद्मरितगण्डः केसरी महा- ॥ १९७ ॥  
 पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निपधनामकः । परो देवकुक्षुः सूर्यः सुलसो दशमः स्मृत ॥ १९८ ॥  
 विद्युत्प्रभाह्वयं ख्यातां नीलवाचं क्रूररुत्तरः । चन्द्रश्चैरावतो माल्यवांश्च विख्यातसंज्ञकः ॥ १९९ ॥  
 तेषामाद्येषु षट्सु स्युस्ता श्रीहीष्टतिकीर्तयः । बुद्धिलक्ष्मीश्च शक्रस्य व्यन्तयो बलमाङ्गनाः ॥ २०० ॥

देखता हुआ बैठता है ॥१८१-१८२॥ उन मुनिराजसे ये सब बातें सुनकर ये दोनों ही विद्याधर  
 आपके प्रेमसे यहाँ आये हैं। इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोने अपना  
 स्वरूप प्रकट किया, राजा धनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके  
 समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली ॥१८३-१८४॥ उन दोनों मुर्गोंने भी अपना पूर्वभवका सम्बन्ध  
 ज्ञानकर परस्परका बंधा हुआ वैर छोड़ दिया और अन्तमे साहसके साथ सन्यास धारण कर  
 लिया। और भूतरमण तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल और कनकचूल नामके भूतजातीय  
 व्यन्तर हुए ॥१८५-१८६॥ उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमें आये और बड़े प्रेमसे  
 मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥१८७॥ अन्तमें उन्होंने  
 कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वतके भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिए। हम लोगोंके  
 द्वारा आपका क्रमसे क्रम यही उपकार हो जावे ॥१८८॥ देवोंके ऐसा कहनेपर कुमारने जब  
 'तथास्तु' कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली तब देवोंने कुमारको उसके आप्तजनोंके साथ अनेक  
 ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और मेघमालासे विभूषित आकाशमे ले जाकर यथाक्रमसे  
 चलते-चलते, सुन्दर देश-दिखलाये ॥१८९-१९०॥ वे बतलाते जाते थे कि यह पहला भरतक्षेत्र  
 है, यह उसके आगे हैमवत क्षेत्र है, यह हरिवर्ष क्षेत्र है, यह विदेह क्षेत्र है, यह पाँचवाँ रम्यक  
 क्षेत्र है, यह हैरण्यवत क्षेत्र है और यह ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार हे स्वामिन्! सात  
 कुलाचलोसे विभाजित ये सात क्षेत्र है ॥१९१-१९२॥ हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, महामेरु;  
 नील, रुक्मी और शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं ॥१९३॥ ये पद्म आदि सरोवरोसे निकलने-  
 वाली, समुद्रकी ओर जानेवाली, अनेक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौदह महानदियाँ हैं ॥१९४॥  
 गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता,  
 सुवर्णकृष्ण, रूप्यकृष्ण, रक्ता और रक्तोद्ग्या ये उनके नाम हैं ॥ १९५-१९६ ॥ देखो, कमलोंसे  
 सुशोभित ये सोलह हृद-सरोवर हैं। पद्म, महापद्म, तिगंछ, केसरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक,  
 निपध, देवकुक्षु, सूर्य, दशवाँ सुलस, विद्युत्प्रभ, नीलवान्, उत्तरकुक्षु, चन्द्र, ऐरावत और  
 माल्यवान् ये उन सोलह हृदोंके नाम हैं ॥१९७-१९८॥ इनमेंसे आदिके छह हृदोंमें क्रमसे श्री,

नागा शेषेषु तन्नामधेयाः संततवासिनः । पद्म्यामी च महाभाग प्रथया वक्षारपर्वताः ॥ २०१ ॥  
 चित्रपद्मादिकूटाख्यौ कूटान्तनक्षिनः परः । एकशैलकिकूटश्च कूटो वैश्रवणादिभिः ॥ २०२ ॥  
 अञ्जनात्माञ्जनौ श्रद्धावांश्च वै विजयावर्ता । आशीविषाभिधानश्च सुखावहसमाह्वयः ॥ २०३ ॥  
 चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो नागादिमालवाक् । देवमालः परो गन्धमादनो माल्यवानपि ॥ २०४ ॥  
 विद्युत्प्रभः सौमनसः प्रलयोत्पत्तिदूरगाः । विभङ्गनद्यो ह्येतश्च स्वच्छास्त्रपुरिपरिताः ॥ २०५ ॥  
 ह्यरोहदवतीसंज्ञे परा पङ्कवर्तावि च । तप्तमत्तजलाभ्यां च सहोन्मत्तजलाह्वया ॥ २०६ ॥  
 क्षीरोदा च ससीतोदा स्रोतोऽन्तर्वाहिनी परा । गन्धादिमालिनी फेनमालिन्सूर्यादिमालिनी ॥ २०७ ॥  
 अमी च विषयाः कच्छसुकच्छपरिभाषितौ । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावतलाङ्गला ॥ २०८ ॥  
 पुष्कला पुष्कलावत्यो वत्सा नाम्ना च कीर्तिता । सुक्त्सा च महावत्सा विख्याता वत्तकावती ॥ २०९ ॥  
 रम्या च रम्यकाख्या रमणीया भगलावती । पद्मा सुपद्मा महापद्मा पद्मावत्यभिरुच्यया ॥ २१० ॥  
 शङ्खा च नलिनाभ्यां च कुमुदा सरिता परा । वप्रा सुवप्रा च महावप्रा वप्रकावती ॥ २११ ॥  
 गन्धा सुगन्धा गन्धावत् सुगन्धा गन्धमालिनी । एताश्च राजधान्योऽत्र कुमारालोक्य स्फुटम् ॥ २१२ ॥  
 क्षेमा क्षेमपुरी चान्यास्रिष्टारिष्टपुरी परा । खड्गाख्यया च मञ्जुपा चौपधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥  
 सुसीमा कुण्डला साद्धमपराजितसंज्ञया । प्रभंकराङ्गवत्याख्या पद्मावत्यभिषोदिता ॥ २१४ ॥  
 शुभा शब्दाभिधाना च नगरी रत्नसंचया । अश्वसिंहमहापुर्यौ विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥  
 अरजा विरजाश्चैत्रमशोका वीतशोकावाक् । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥  
 अथ चक्रपुरी खड्गपुर्यथोभ्या च वर्णिता । अवध्येत्यथ सीतोत्तरामागामेरसनिधे ॥ २१७ ॥  
 प्रादक्षिण्येन वक्षाराद्रथादीश्च प्रतिपादितान् । समुद्रादिबनादीनि भूतोद्दिष्टानि भूसुजा ॥ २१८ ॥

ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये इन्द्रकी बल्लभा व्यन्तर देवियाँ रहती हैं ॥२००॥ बाकीके दश हदोंमें उसी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं । हे महाभाग ! इधर देखो, ये देखने योग्य वक्षार पर्वत हैं ॥२०१॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रवणकूट, अञ्जनात्म, अञ्जन, श्रद्धावान्, विजयावती, आशीविष, सुखावह, चन्द्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं । इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान, विद्युत्प्रभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं । ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते हैं—अनादिनिधन हैं । इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभंग नदियाँ हैं ॥२०२-२०५॥ ह्यदा, ह्यदवती, पंकवती, तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी और ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ॥२०६-२०७॥ हे कुमार ! स्पष्ट देखिए, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगला, पुष्कला, पुष्कलावर्ता, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, भंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धावत्सुगन्धा और गन्धमालिनी ये बत्तीस विदेहक्षेत्रके देश हैं । तथा क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्ग, मञ्जुपा, औपधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसंचया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं । ये वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पर्वतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वर्णन किये हैं । इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंने समुद्र, वन आदि जो-जो दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे । इच्छानुसार मामुपोत्तर पर्वत देखा और उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे । अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने दृष्टी

१ वैश्रवणादिम ल० । विकटावती ग० । विजयावती ल० । ३ गन्धोरमालिनी ग०, ल०, म० । ४ पद्मावत्यभिरुच्यया ल० । पद्मावत्यभिषोदिताम् ग० । ५ नलिनाहया च ल० । ६ गन्धवती शब्दा ल० । ७ चौपधी ल० । न्यौपधी घ० । वीषादि म० । ८ शुभशब्दाभिधाना च ल०, ग० ।

पश्यतान्यानि च स्वैरं मानुषोत्तरभूभृतः । मध्यवर्तीनि सर्वाणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥  
 अकृत्रिमजिनागाराण्यभ्यर्च्य स्तुतिभिश्चिरम् । स्तुत्वाऽर्थाभिनिवृत्त्यापि स्वपुरं परमोत्सवम् ॥ २२० ॥  
 दिव्याभरणदानेन परिपूज्य महोपतिम् । सामोक्तिमिश्र तौ व्यन्तरेणौ स्वावासमीयतुः ॥ २२१ ॥  
 य कर्मव्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत् । स जीवन्नपि निर्जोषो<sup>१</sup> निर्गन्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥  
 कृकवाकू च चेदेवमुपकारविदौ कथम् । मैनुष्यो जयत्यङ्गे न चेदुपकृतं खडः ॥ २२३ ॥  
 कदाचित्काललाभेन नृगो घनरथाह्वयः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देहाद्यचिन्तयत् ॥ २२४ ॥  
 धिक्कष्टमिष्टमित्येतत् शरीरं जन्तुरावसेत् । अवस्करगृहाच्चैनं नापैत्यतिजुगुप्सितम् ॥ २२५ ॥  
 तर्पकाणि सुखान्याहुः कानि ताम्रत्र देहिनाम् । मोहः कोऽप्यतिदुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२६ ॥  
 जन्माद्यन्तर्मुहूर्तं चेज्जीवितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कुतो जन्मो जायेत न हिते रतः ॥ २२७ ॥  
 बन्धवो बन्धनान्येते संपदो विपद्दोऽङ्गिनाम्<sup>२</sup> । न चेद्रेवं कुतः सन्तो वनान्तं<sup>३</sup> प्राक्तना गताः ॥ २२८ ॥  
 वितर्कयन्तमित्येनं प्राप्य लौकान्तिकामरा । विज्ञायावधि विज्ञानादनुवर्तुं तदीप्सितम् ॥ २२९ ॥  
 देव देवस्य को वक्ता देव पृथावगच्छति । साधु हेयमुपादेयं चार्थमित्यादिस्रंस्तवै ॥ २३० ॥  
 स्तुत्वा सतामभिष्टुत्यमभ्यर्च्य प्रसवैर्निजैः । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वं धामैतुं नमोऽगमन् ॥ २३१ ॥  
 ततो मेघ रथो राज्यमभिषेकपुरस्सरम् । नियोज्याभिषवं देवैः स्वयं चाप्याप संयमम् ॥ २३२ ॥

प्रीतिसे अकृत्रिमजिन-मन्दिरोंकी पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियोंसे स्तुतिकी और तदनन्तर बड़े उत्सवोंसे युक्त अपने नगरमें घापस आ गये ॥२०८-२२०॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आभरण-देकर तथा शान्तिपूर्ण शब्द कहकर राजाकी पूजा की और उसके बाद वे निवासस्थानपर चले गये ॥२२१॥ जो मनुष्य बदलेके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है अर्थात् उपकारी मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करता है वह गन्धरहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान है ॥२२२॥ जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार माननेवाले हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें जीर्ण क्यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है ॥२२३॥

किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान् राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादि-का इस प्रकार विचार करने लगे ॥२२४॥ इस जीवको धिक्कार है । बड़े दुःखकी बात है कि यह जीव शरीरको इष्ट समझकर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस शरीरको विष्टाके घरसे भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता ॥२२५॥ जो सन्तोष उत्पन्न करनेवाले हो उन्हें सुख कहते हैं । परन्तु ऐसे सुख संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं ? यह कोई मोहका ही उदय समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखको सुख समझने लगता है ॥२२६॥ जन्मसे लेकर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी ठीक है परन्तु यह क्षण-भर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है तब यह जीव आत्महित करनेमें तत्पर क्यों नहीं होता ? ॥२२७॥ ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन हैं और सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए विपत्तिरूप हैं । यदि ऐसा न होता तो पहलेके सृजन पुरुष जंगलके मध्य क्यों जाते ? ॥२२८॥ इधर महाराज घनरथ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट पदार्थका समर्थन करनेके लिए आ पहुँचे ॥२२९॥ वे कहने लगे कि हे देव ! आपके लिए हितका उपदेश कौन दे सकता है ? आप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थको जानते हैं । इस प्रकार सृजनोंके द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान् घनरथकी लौकान्तिक देवोंने स्तुति की । स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने-अपने स्थानपर जानेके लिए आकाशमें जा पहुँचे ॥२३०-२३१॥ तदनन्तर भगवान् घनरथने अभिषेक-पूर्वक मेघरथके लिए राज्य दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया

१ स्तुत्वाऽर्थाभिनिवृत्त्याविष्कृतपुरं ल० । २ निर्गन्धकुसुमोपमः ल० । ३ अवास्करगृहाच्चैतन्नानेत्यति-ल० । ४ विपदाङ्गिनाम् ल० । ५ वनान्ते ल०, य० । ६ मेघरथे ल० ।

मनोवाक्कायसंशुद्धिं विद्वद्भित्तितेन्द्रियः । कषायविषमस्त्वन्तमत्र मोहं वमन् सुधीः ॥२३३॥  
 आद्यश्रणीं समाह्वय क्रमात्कर्माणि निर्गमः । निर्मूल्य निर्मलं भावमवापावगमस्य सः ॥२३४॥  
 तदा कैवल्यसंप्राप्तिं प्रभावात्कम्पितासनाः । निकम्पाः सर्वसंपत्त्या पत्युः पूजामकुर्वन्त ॥२३५॥  
 स देवरमणोद्याने ससं मेघरथोऽन्यदा । स्वदेवीमिर्विहृत्यास्थाच्चन्द्रकान्तशिकारतले ॥२३६॥  
 निविष्टं तं समाक्रम्य गच्छन्कश्चिन्नमश्चरः । गण्डोपक इव ज्योतिर्नि संरुद्धसुविमानकः ॥२३७॥  
 शिकां रक्षुं नृगारूढामुत्थापयित्तुसुचतः । नृगारूढाप्रतिभुङ्गनशिकारप्रपीडितः ॥२३८॥  
 तत्सोढुमक्षमो गाढमक्रान्दाकरुणस्वनम् । तदा तल्लचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मिन् नाथ्यसे ॥२३९॥  
 पतिमिक्षां ददस्वेति प्राह प्रोत्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संसृष्टः प्रियमित्रया ॥२४०॥  
 विजयाह्लादिकाख्येशो विद्युदंष्ट्रलगाधिप । प्राणेशाऽनिलवेगाऽस्य सुतः सिंहरथस्तयोः ॥२४१॥  
 अभिवन्द्य जिनाधीशमायन्नमितवाहनः । ममोपरि विमाने स्वे रुद्धे नायाति केनचित् ॥२४२॥  
 १० दिशो विलोक्य मां दृष्ट्वा स्वदर्पात् कोपवेपितः । ११ अस्मान् शिकारतलेनामा १२ प्रोत्थापयित्तुसुचमी ॥२४३॥  
 पीडितोऽय मद्दृग्दृष्टेनैवाप्यस्थ १३ मनोरमा । इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्य किं कोपस्यास्य कारणम् ॥२४४॥

॥२३२॥ उन्होंने मन-वचन-कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका फल अच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाले कषायरूपी विषको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढकर क्रम-क्रमसे सब कर्माँको उखाड़कर दूर कर दिया था और केवलज्ञान प्राप्त करनेके योग्य निर्मल भाव प्राप्त किये थे ॥२३३-२३४॥ उस समय भगवान्को केवलज्ञान प्राप्त होनेसे देवोंके आसन कम्पित हो गये । उन्होंने आकर सर्व वैभवके साथ उनकी पूजा की ॥२३५॥

किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विहार कर देवरमण नामक उद्यानमें चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया ॥२३६॥ उसी समय उसके ऊपरसे कोई विद्याधर जा रहा था । उसका विमान आकाशमें ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्टानमें अटक गया हो ॥२३७॥ विमान रुक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मेघरथ जिस शिलापर बैठे थे वह उसे उठानेके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके अँगूठासे उस शिलाको दबा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीडित हुआ ॥२३८॥ जब वह शिलाका भार सहन करनेमें असमर्थ हो गया तब करुण शब्द करता हुआ चिल्लाने लगा । यह देख, उसकी स्त्री विद्याधरी आयी और कहने लगी कि हे नाथ ! मैं अनाथ हुई जाती हूँ, मैं याचना करती हूँ, मुझे पति-भिक्षा दीजिए । ऐसी प्रार्थना की जानेपर मेघरथने अपना पैर ऊपर उठा लिया । यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह सब क्या है ? ॥२३९-२४०॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयार्थपर्वतपर अलका नगरीका राजा विद्युदंष्ट्र विद्याधर है । अनिलवेगा उसकी स्त्रीका नाम है । यह उन दोनोंका सिंहरथ नामका पुत्र है । यह जिनेन्द्र भगवान्की चन्दना कर अमित नामक विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका । जब उसने सब दिशाओंकी ओर देखा तो मैं दिख पड़ा । मुझे देख अहंकारके कारण उसका शरीर क्रोधसे काँपने लगा । वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको उठानेके लिए उद्यम करने लगा । मैंने पैरका अँगूठा दबा दिया जिससे यह पीडित हो उठा । यह उसकी मनोरमा नामकी स्त्री है । राजा मेघरथने यह कहा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्रोधका

१ न विद्यते सुष्ठु अतो यत् तत् अस्वन्तम् । २ नीचैरिति निगोद्यमानम् । ३ क्षपकश्रेणीम् । ४ प्रभावात् क०, घ० । ५ दृष्ट्वा ल० । ६ करुणस्वरम् ल० । ७ नाथने घ० । नाथ्यमे ल० । ८ प्राहापोत्थापित-ल० । ९ वाहनम् ल० । १० दिशा ल० । ११ अस्मिन् क०, ख०, घ० । १२ शिलातलेन अमा सह इति पदच्छेदः । १३ नैपोऽप्यस्य ल० ।

इदमेव किमस्यन्यदत्रान्यत्रापि नैत्यसौ । तयोक्तो नान्यदित्यस्य प्राग्जन्मेत्युपदिष्टवान् ॥२४५॥  
 द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मिन्नैरावृतसमाह्वये । देशे शङ्खपुरे राजा राजगुप्तोऽस्य शङ्खिका ॥२४६॥  
 मार्गार्थौ शङ्खौऽस्यात्सर्वगुप्तमुनीश्वरात् । आसौ जिनगुणख्यातिसुगोपितविधिं समम् ॥२४७॥  
 भिक्षाचरमथान्येद्युर्धृतिपेणयतीश्वरम् । निरीक्ष्य भिक्षां दत्त्वाऽस्मै वसुधाराद्यवापताम् ॥२४८॥  
 समाधिगुप्तमासाद्य संन्यस्याभूत्स भूपतिः । ब्रह्मेन्द्रः स्वाद्युषोऽकृष्टः तस्मात् सिंहरथोऽजनि ॥२४९॥  
 शङ्खिका च परिभ्रम्य संसारे तपसाऽगमत् । देवलोके ततश्च्युत्वा खगभृष्टदपाकृते ॥२५०॥  
 वस्वालयपुरे सेन्द्रवैतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्छ्रुतेः ॥२५१॥  
 परितुष्य नृपं श्रित्वा पूजयित्वा यथोचितम् । सुवर्णतिलके राज्यं नियोज्य बहुभिः सह ॥२५२॥  
 दीक्षां घनरथाभयं जैनीं सिंहरथोऽग्रहोत् । प्रियमित्राभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसंनिधिम् ॥२५३॥  
 सुधीर्मदनवेगा च कृच्छ्रमुच्चारत्तपः । कोपोऽपि काऽपि कोपोपलेपनापनुदे मतः २५४॥  
 अथ स्वपुण्यकर्माप्तप्राज्यराज्यमहोदयात् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥  
 शुद्धब्रह्मानसंपन्नं व्रतशीलगुणान्वितम् । सप्रश्रयं श्रुताभिर्ज्ञं प्रगदमं वस्त्रभाषिणम् ॥२५६॥  
 सुसप्तपरमस्थानभागिनं भव्यमाङ्करम् । नृपं मेघरथं दारदारकादिनिषेवितम् ॥२५७॥  
 कृत्वा नान्दीश्वरी पूजां जैनधर्मोपदेजिनम् । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥

कारण क्या है ॥२४१-२४४॥ यही है कि और कुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है । अन्य नहीं है, इतना कहकर वह उसके पूर्वभव कहने लगा ॥२४५॥

दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्वार्धभागमें जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शंखपुर नगरमें राजा राजगुप्त राज्य करता था । उसकी स्त्रीका-नाम शंखिका था । एक दिन इन दोनों ही पति-पत्नियोंने शंख शैल नामक पर्वतपर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ ग्रहण किया । किसी दूसरे दिन धृतिपेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए घूम रहे थे । उन्हें देख दोनों दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देखकर रत्नवृष्टि आदि पंचाश्रय प्राप्त किये ॥२४६-२४८॥ तदनन्तर राजा राजगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिससे उरुकृष्ट आयुका धारक ब्रह्मेन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर सिंहरथ हुआ है । शंखिका भी संसारमें भ्रमण कर तपके द्वारा स्वर्ग गयी । वहाँसे च्युत होकर विजयाध्रपर्वतके दक्षिण तटपर वस्वालय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु और उसकी सुप्रभा नामकी स्त्रीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई है ॥२४९-२५१॥ यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुवर्णतिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया और बहुत-से राजाओंके साथ घनरथ तीर्थकरके समीप जैनी दीक्षा ग्रहण कर ली । इधर बुद्धिमती मदनवेगा भी गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी आर्थिकाके पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी । सो ठीक ही है क्योंकि कहींपर क्रोध भी क्रोधका उपलेप दूर करनेवाला माना गया है ॥ २५२-२५४ ॥

अथानन्तर—अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिवर्गके फलकी प्राप्ति पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न हैं, व्रतशील आदि गुणोंसे युक्त हैं, विनय सहित हैं, शास्त्रको जाननेवाला हैं, गम्भीर हैं, सत्य बोलनेवाला हैं, सात परम स्थानोंको प्राप्त हैं, भव्य-जीवोंमें देदीप्यमान हैं तथा स्त्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजा कर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासका नियम लेकर बैठा था कि इतनेमें कौपता हुआ एक कवूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे चलनेवाला एक गीध आया । वह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! मैं बहुत भारी भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूँ इसलिए आप, आपकी शरणमें आया हुआ यह मेरा भक्ष्य

तस्यानुपदमेवाशो गृध्रो बद्धजवः पुरः । स्थित्वा नृपस्य<sup>१</sup> देवाहं महाशुद्धेदनातुरः ॥ २५९ ॥  
 ततः कपोतमेतं मे मर्क्षं त्वच्छरणागतम् । ददस्व दानशूर त्वं न चेद्द्विद्वयत्र मां शृतम् ॥ २६० ॥  
 इत्यवादी तदाकर्ण्य युवा ददरथोऽग्रवीत् । पूज्य ब्रूहि वदत्येष गृध्रः केनास्मि विस्मितः ॥ २६१ ॥  
 इति स्वानुलसंप्रश्लादित्यधोचन्महोपति । इह जम्बूद्वीपे क्षेत्रे मेरोरुदरगते ॥ २६२ ॥  
 नगरे पद्मिनीखेटे वयिक् सागरसेनवाक । तस्यामितमतिः प्रीता तथोल्लुधुतरो सुतौ ॥ २६३ ॥  
 धनमित्रोऽभवन्नन्दिषेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्परं सृत्वा खगावेतौ बभूवतुः ॥ २६४ ॥  
 देवः सनिहितः कश्चित् गृध्रस्थोपरि कः स चेत् । त्वया हेमरथो नाम्ना दमितारिग्णे हतः ॥ २६५ ॥  
 परिभ्रम्य मवे भूयः कैलासाद्भित्तटेऽभवत् ।<sup>२</sup> पर्णकान्तानदीतीरे घीमांश्चन्द्रामिधानकः ॥ २६६ ॥  
 श्रीदत्तायां कुशाखजस्तनूजः सोमतापसात् ।<sup>३</sup> तपः पञ्चाग्नि संतप्य द्योतिलोकिऽमरोऽजनि ॥ २६७ ॥  
 स कदाचिद्विह गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदैः । दाता मेघरथाज्ञान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम् ॥ २६८ ॥  
 श्रुत्वा प्रोद्यदमर्षेण मां परीक्षितुमागतः । शृणु चेतः समाधाय भ्रातर्दानादिलक्षणम् ॥ २६९ ॥  
 अनुग्रहार्थं स्वस्वातिसर्पो दानं विदोऽवदन् । अनुग्रहोऽपि स्वान्योपकारित्वमभिधीयते ॥ २७० ॥  
 दाता च शक्तिविज्ञानश्रद्धादिगुणलक्षितः । देयं वस्त्वप्यपीदामाक तद्दृष्टोर्गुणवर्द्धनम् ॥ २७१ ॥  
 साधनं क्रमशो मुक्तेराहारो भेषजं श्रुतम् । सर्वप्राणिदया शुद्धं देयं सर्वज्ञभाषितम् ॥ २७२ ॥  
 मोक्षमार्गं स्थित पाता स्वस्यान्येषां च संसृतेः । पात्रं दानस्य सोऽमीढो निष्ठितार्थैर्निःक्षनै ॥ २७३ ॥  
 कृतार्थं सन् जगत्प्रातुर निरवधं वचोऽवदत् । मय्यभ्यः स हि दाता तदर्थं तत्पात्रमुत्तमम् ॥ २७४ ॥

कबूतर मुझे दे दीजिए । हे दानवीर ! यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देते हैं तो वस, मुझे मरा ही समझिए ॥२५५-२६०॥ गीधके यह वचन सुनकर युवराज दृढरथ कहने लगा कि हे पूज्य ! कहिए तो, यह गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतके उत्तरकी ओर स्थित ऐरावत क्षेत्रके पद्मिनीखेट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य रहता था । उसकी स्त्रीका नाम अमितमति था । उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नन्दिषेण थे । अपने धनके निमित्तसे दोनों लड़ पड़े और एक-दूसरेको मारकर ये कबूतर तथा गीध नामक पक्षी हुए हैं ॥२६१-२६४॥ गीधके ऊपर कोई एक देव स्थित है । वह कौन है ? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था वह संसारमें भ्रमण कर कैलाश पर्वतके तटपर पर्णकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस हुआ । उसकी श्रीदत्ता नामक स्त्रीके मिथ्याशास्त्रोंको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुआ । वह पंचाग्नि तप तपकर ज्योतिर्लोकमें देव उत्पन्न हुआ ॥२६५-२६७॥ वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था वहाँ ऐशानेन्द्रके सभासदाने स्तुति की कि इस समय पृथिवीपर मेघरथसे बढकर दूसरा दाता नहीं है । मेरी इस स्तुतिको सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया । यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया है । हे भाई ! चित्तको स्थिर कर दान आदिका लक्षण सुनो ॥२६८-२६९॥ अनुग्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है और अनुग्रह शब्दका अर्थ भी अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ॥२७०॥ जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त होता है वह दाता कहलाता है और जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके गुणोंको बढानेवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ॥२७१॥ सर्वज्ञ देवने यह देय चार प्रकारका बतलाया है—आहार, औषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना । ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं ॥२७२॥ जो मोक्षमार्गमें स्थित है और अपने-आपको तथा दूसरोंको संसार भ्रमणसे रक्षा करता है वह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥२७३॥ अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए मय्य जीवोंको

१ देवाह ल० । २ अत्र जम्बूतम द्वीपे ख० । ३ पर्णकान्तानदी ल०, ग०, म० । ४ तत्र ख । ५ ज्योतिर्लोकिसरो म०, ल० । ६ स ल० ।



न तु मांसादिकं देयं पात्रं नास्य प्रतीच्छकः । तद्दातापि न दातमौ ज्ञेयौ नरकनाथकौ ॥ २७५ ॥  
 ततो गृध्रो न तत्पात्रं नाथं देयः कपोतकः । तथा मैघरथी वाणीमाकर्ण्य ज्योतिषामरः ॥ २७६ ॥  
 असि दानविभागज्ञो दानशूराश्च पार्थिव । इति स्तुत्वा प्रदक्ष्यं स्वं तं प्रपूज्य जगाम सः ॥ २७७ ॥  
 द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा तदुक्तं त्यक्तदेहवम् । अरण्ये देवरमणेऽस्यां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥  
 देवी मेघरथं पश्चात्पथमादात्कुयोनिनित । निरगाव नृपेत्सुवत्वा पूज्यं रंपूज्य जग्मतुः ॥ २७९ ॥  
 कदाचित्स नृपो दानं दत्त्वा दमवरशिनेः । चारणाय परिप्राप्तपञ्चाच्चर्चयन्विधिः सुधीः ॥ २८० ॥  
 नन्दीश्वरं महापूजां विधाथोपोषितं श्रितः निशयां प्रतिमायोगे ध्यायन्नस्थादिवान्द्रिराट् ॥ २८१ ॥  
 ईशानेन्द्रो विदित्वैतन्मरुसदसि शुद्धकः । धैर्यसारस्वमेवाद्य चित्रमित्यब्रवीन्मुदा ॥ २८२ ॥  
 स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा देवैः कस्य स्तुतिः सतः । स्वयाऽकारिण्यसौ पृष्टः प्रत्याहेति सुरान् प्रथि ॥ २८३ ॥  
 धीरो मेघरथो नाम शुद्धकः पार्थिवाग्रणीः । प्रतिमाथोगधार्थं तस्य मन्वया स्तुतिः कृता ॥ २८४ ॥  
 तदुदीरितमाकर्ण्य तत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपसुरूपाकथ्ये देव्यावागत्य भूपतिम् ॥ २८५ ॥  
 विलासत्रिभ्रमैर्हावैर्माविर्गतिः प्रजल्पितैः । भन्यैश्च मदनोन्माद्देहेतुभिरतन्मनोवचम् ॥ २८६ ॥  
 विद्युल्लतेव देवाद्रि ते चाकथितुमक्षमे । सत्यमीशानसंप्रोक्तमिति स्तुत्वा स्वरीयतुः ॥ २८७ ॥

निर्दोष वचन कहते हैं वही उत्तम दाता हैं, वही उत्तम देय हैं और वही उत्तम पात्र है ॥२७५॥  
 मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, और इनका देनेवाला दाता नहीं है । ये दोनों तो नरकके अधिकारी हैं ॥२७६॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी सुनकर वह ज्योतिषी देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे राजन् ! तुम अवश्य ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके शूर हो । इस तरह पूजा कर चला गया ॥२७६-२७७॥ उन गीध और कबूतर दोनों पक्षियोंने भी मेघरथकी कही संव वातें समझीं और अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवरमण नामक वनमें सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर देव-हुए ॥२७८॥ तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन् ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयोनिसे निकल सके हैं । ऐसा कहकर तथा पूज्य मेघरथकी पूजा कर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥२७९॥

किसी समय उस बुद्धिमान् राजाने चारण ऋद्धिधारी दमवर रवामीके लिए दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥२८०॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नन्दीश्वर पर्वमें महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग-द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वतके समान विराजमान था ॥२८१॥ उसी समय देवोंकी सभामें ईशानेन्द्रने यह सब जानकर बड़े हर्षसे कहा कि अहा ! आश्चर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और तू ही धीर-वीर है ॥२८२॥ इस तरह अपने-आप की हुई स्तुतिको सुनकर देवोंने ईशानेन्द्रसे पूछा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति की है ? उत्तरमें इन्द्र देवोंसे इस प्रकार कहने लगा कि राजाओंमें अग्रणी मेघरथ अत्यन्त धीर-वीर है, शुद्ध सम्यग्दृष्टि है, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैंने उसीकी भक्तिसे स्तुति की है ॥२८३-२८४॥ ईशानेन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा और सुरूपा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आयीं और विलास, विभ्रम, हाव-भाव, गीत, बात-चीत तथा कामके उन्मादको बढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका प्रयत्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी लता सुमेरु पर्वतको विचलित नहीं कर सकती उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकीं । अन्तमें वे ईशानेन्द्रके द्वारा कहा हुआ सच है इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गयीं ॥२८५-२८७॥

१ देय कपोतवम् ष० । देयं कपोतकः ङ० । २ ज्योतिषोऽमरः म०, ङ० । ३ रंपूज्य क०, ख०, घ० । ४ दमवरेशिनः ख० । ५ नन्दीश्वर ख०, ङ० । ६ विदित्वैतं ग० । ७ स्व स्वर्ग ईयतुः जग्मतुः ।

अन्यदेशानकल्पेशो मरुन्मध्ये यहच्छया । समस्तौत्प्रियमित्राया रूपमाकर्ण्य तत्स्तवम् ॥ २८८ ॥  
 रतिषेणा रतिरचैव्य देव्यो तद्रूपमीक्षितुम् । ऐतां मज्जनवेलायां गन्धतैलाक्तदेहिकाम् ॥ २८९ ॥  
 निरूप्येन्द्रवचः सम्यक् श्रद्धायान्प्रियमाषितुम् । तथा सहैव कन्याकृती प्लवा तां समूचतुः ॥ २९० ॥  
 स्वाभिभ्यकन्यके<sup>२</sup> द्रष्टुमेतामिति सखीसुखात् । ताभ्यामुक्तं समाकर्ण्य प्रमदादस्तु तिष्ठताम् ॥ २९१ ॥  
 तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वाऽऽहूयाभ्यदशयत् । तां निशयाहस्तुते च प्राग्वाकान्तिर्न चाधुना ॥ २९२ ॥  
 इति सा तद्वचः श्रुत्वा प्रियमित्रा महीपतेः । वक्त्रं व्यलोकयत् प्राह सोऽपि कान्ते तथेति ताम् ॥ २९३ ॥  
 देव्यो<sup>३</sup> स्व रूपमादाय निजागमनवृत्तकम् । निवेद्य रूपमस्याश्च धिर्विवलक्षणभङ्गुरम् ॥ २९४ ॥  
 अत्र नामङ्गुरं किंचिदिति निर्विधं चेतसा । तां संपूज्येयतुः स्वर्गं स्वदीप्तित्याप्तदिकतटे ॥ २९५ ॥  
 \* देवीं तद्वेतुना<sup>४</sup> खिन्नां नित्यानित्यात्मकं जगत् । सर्वमन्तः श्रुचं मा गा हस्याश्वास्य महीपतिः ॥ २९६ ॥  
 राज्यभोगैः स्वकान्तामिर्नितान्तं निर्धुतिं ब्रजम् । गत्वा मनोहरोद्यानमन्येधुः स्वगुरुं जिनम् ॥ २९७ ॥  
 सिंहासने समासोऽनं सुरासुरपरिष्कृतम् । समस्तपरिवारेण त्रिःपरोत्थासित्रन्धं च ॥ २९८ ॥  
 सर्वमभ्यहितं वाञ्छन् पप्रच्छोपासकक्रियाम्<sup>५</sup> । प्रायः कल्पद्रुमस्येव परार्थं चेष्टितं सताम् ॥ २९९ ॥  
 प्रागुक्तेऽद्वाद्गोपालकस्थानानि विमागतः । उपसकक्रियायद्गोपासकाध्ययनाह्वयम् ॥ ३०० ॥  
 'अहं सप्तममाख्येयं श्रावकाणां हितेषिणाम् । इति व्यावर्णयामास तीर्थकृतप्रार्थितार्थकृत ॥ ३०१ ॥  
 गर्मान्वयक्रियाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयक्रियाः । कर्मान्वयक्रियाश्चान्यास्तत्संख्याश्चातु<sup>६</sup> तत्त्वतः ॥ ३०२ ॥

किसी दूसरे दिन ऐशानेन्द्रने देवोंकी समामें अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी प्रियमित्राके रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिषेणा और रति नामकी दो देवियाँ उसका रूप देखनेके लिए आयीं । वह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राके शरीरमें सुगन्धित तेलका मर्दन हो रहा था । उस समय प्रियमित्राको देखकर देवियोंने इन्द्रके वचन सत्य समझे । अनन्तर उसके साथ बातचीत करनेकी इच्छासे उन देवियोंने कन्याका रूप धारण कर सखीके द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएँ—सेठकी पुत्रियाँ आपके दर्शन करना चाहती हैं । उनका कहा सुनकर प्रियमित्राने हर्षसे कहा कि 'बहुत अच्छा, ठहरे' इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्राने अपनी सजावट की । फिर उन कन्याओंको बुलाकर अपने-आपको दिखलाया—उनसे भेंट की । रानीको देखकर दोनों देवियाँ कहने लगीं कि 'जैसी कान्ति पहले थी अब वैसी नहीं है' । कन्याओंके वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजाने भी कहा कि हे प्रिये ! बात ऐसी ही है ॥२८८-२६३॥ तदनन्तर देवियोंने अपना असली रूप धारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण किन्तु नरवर रूपको धिक्कार हो । इस संसारमें कोई भी वस्तु अर्भगुर नहीं है । इस प्रकार हृदयसे विरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर वे देवियाँ अपनी दीप्तिसे दिशाओके तटको व्याप्त करती हुई स्वर्गको चली गयीं ॥२९४-२९५॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त संसार ही नित्यानित्यात्मक है अतः हृदयमें कुछ भी शोक मत करो' इस प्रकार राजाने उसे समझा दिया ॥२९६॥ इस तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्त हो रहे थे । किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने सिंहासनपर विराजमान तथा देव और धरणेन्द्रासे परिवृत अपने पिता धनरथ तीर्थकरके दर्शन किये । समस्त परिवारके साथ उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की और समस्त भव्य जीवोंके हितकी इच्छा करते हुए श्रावकोंकी क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनों की चेष्टा कल्पवृक्षके समान प्रायः परोपकारके लिए ही होती है ॥२६७-२६६॥ हे देव ! जिन श्रावकोंके ग्यारह स्थान पहले विभाग कर बतलाये हैं उन्हीं श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नामका सातवाँ अंग, हितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कहिए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूछनेपर मनोस्थको पूर्ण करनेवाले धनरथ तीर्थकर निम्न प्रकारका वर्णन करने लगे ॥३००-३०१॥ उन्होंने कहा

१ अन्यदेशान-ख०, ग०, म० । २ वनाढ्यकन्यके । ३ स्वरूप-ल० । ४ देवी ल० ५ खिन्ना ल० । ६ क्रिया. म०, ल० । ७ प्राय ल० । ८ अगस्त्यम ल० । ९ तत्संख्यास्य तु ल० ।

गर्भाधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः प्रथमत्रियाः । प्रोक्ताः 'प्राक्तास्त्रिपंचाशत्सम्यग्दर्शनशुद्धिषु ॥३०३॥  
 दीक्षान्वयक्रियाश्चाष्टचत्वारिंशत् प्रकीर्तिता । अवतारादिके निर्वृत्यन्ता निर्वाणसाधिका' ॥३०४॥  
 सद्गृहि त्वादिसिद्धयन्ताः सप्त कर्त्रन्वयक्रियाः । सम्यक्स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यद् ॥३०५॥  
 तमुपासकसद्वर्गं श्रुत्वा घनरयोदितम् । नत्वा मेघरथो भक्त्या मुक्त्यै श्रान्तान्तरङ्गकः ॥३०६॥  
 शरीरभोगसंसारद्वैःस्थित्यं चिन्तयन्मुहुः । संयमाभिमुखो राज्ये तिष्ठेत् 'सुजमादिशत् ॥३०७॥  
 स्वया रज्यस्य यो दोषो दृष्टोऽस्मि मयाऽप्यसौ । त्याज्यं तच्चेद् गृहीत्वाऽपि प्रागेवाग्रहणं वरम् ॥३०८॥  
 प्रक्षालनाद्दि पंकस्य दूरदस्पर्शनं वरम् । इति तस्मिन्स्तदादानविमुखत्वमुपागते ॥३०९॥  
 सुताय मेघसेनाय दत्त्वा राज्यं यथाविधि । सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं साजुजो जगतीपतिः ॥३१०॥  
 नृपैर्दक्षिं सप्तमाद्य क्रमाद्रेकादशांगवित् । प्रत्यर्थं स्तीर्थकृत्नाम्नः षोडशैतान् भावयत् ॥३११॥  
 त्रिनोपदिष्टनिर्ग्रन्थमोक्षमार्गं रुचिर्मता । निःशंकादिकाष्टांगा विशुद्धिर्दर्शनस्य सा ॥३१२॥  
 मार्गोऽस्मिन्वर्तमानस्य यदुक्तं तद्भवेन्न वा । इति शंकापरित्यागं शकारहिततां विदुः ॥३१३॥  
 द्विलोकभोगमिथ्याव्रतकांक्षाभ्यामृत्तिरागमे । द्वितीयमंगमाख्यातं विंशुद्धिर्दर्शनाश्रिता ॥३१४॥  
 देहाद्यशुचिसद्भावमवगम्य शुचीति यः । संकल्पस्तस्य संत्यागः सा स्वाश्रित्विचिचित्सता ॥३१५॥

किं 'श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वयकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या इस प्रकार है ॥३०२॥ पहली गर्भान्वय क्रियाएँ गर्भाधानको आदि लेकर निर्वाण पर्यन्त होती हैं इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको धारण करनेवाले जीवोंके होती हैं तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥३०३॥ अवतारसे लेकर निर्वाण पर्यन्त होनेवाली दीक्षान्वय क्रियाएँ अड़तालीस कही गयी हैं । ये मोक्ष प्राप्त करानेवाली हैं ॥३०४॥ और सद्गृहत्वको आदि लेकर सिद्धि पर्यन्त सात कर्त्रन्वय क्रियाएँ हैं । इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि यह है तथा फल यह है । इस प्रकार घनरथ तीर्थकरने विस्तारसे इन सब क्रियाओंका वर्णन किया । इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीर्थकरके द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्मका वर्णन सुनकर उन्हें भक्ति-पूर्वक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया ॥३०५-३०६॥ शरीर, भोग और संसारकी दुर्दशाका बार-बार विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए । उन्होंने छोटे भाई दृढरथसे कहा कि तुम राज्यपर बैठो । परन्तु दृढरथने उत्तर दिया कि आपने राज्यमें जो दोष देखा है वही दोष मैं भी तो देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण कर बादमें छोड़नेके ही योग्य है तब उसका पहलेसे ही ग्रहण नहीं करना अच्छा है । लोकमें कहावत है कि कीचड़को घोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है । ऐसा कहकर जब दृढरथ राज्य ग्रहण करनेसे विमुख हो गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वक राज्य दे दिया और छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । वे क्रम-क्रमसे ग्यारह अंगके जानकार हो गये । उसी समय उन्होंने तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत निम्नांकित सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन किया ॥३०७-३११॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गमें रुचि होना सो दर्शनविशुद्धि है । उसके निःशंकाता आदि आठ अंग है ॥३१२॥ मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है, वह होता है या नहीं इस प्रकारकी शंकाका त्याग निःशंकाता कहलाती है ॥३१३॥ मिथ्यादृष्टि जीव इस लोक और परलोक-सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकांक्षित नामका दूसरा अंग बतलाया है । इससे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता होती है ॥३१४॥ शरीर आदिमें अशुचि-अपवित्र पदार्थोंका सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'मैं पवित्र हूँ' ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग

१ प्रोक्ताः सत्यस्त्रिपंचाशत् म, ल०, । २ अवतारादिका निर्वृत्यन्ता क०, ख०, घ०, म० । ३ सद्गृहीशादि । ४ तिष्ठन्नु न-ल० । ५ यथा ल०, क०, ग०, घ० । ६-नभाषयत् ल० । ७ परित्यागः ल० । ८ विगुद्धेर्दर्शनत्रिय म० ।

अथवाऽर्हन्मते नेदं चेत्सर्वं युक्तमित्यसत्<sup>१</sup> । आप्रहः क्वापि तत्यागः सा स्यान्निर्विचिकित्सा ॥३१६॥  
 तत्त्ववद्भासमानेषु बहुदुर्गणयवर्त्मसु । युक्तिभावाद्भिर्मोहत्वमाहुर्दृष्टेरमूढताम् ॥३१७॥  
 वृद्धिक्रियात्मधर्मस्य भावनाभिः क्षमादिभिः । अभीष्टं दर्शनस्याङ्गं सुदग्भिरुग्रहणम् ॥३१८॥  
 धर्मध्वंसमितिषेपु या<sup>२</sup> कषायोदयादिषु । धर्माच्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥३१९॥  
 जिनप्रणीतसद्धर्माभूतमित्यानुरागता । वास्तव्यं मार्गमाहात्म्यभावनां स्यात्प्रभावना ॥३२०॥  
 ज्ञानादिषु च तद्वत्सु चादरो निःरूपायता । तद्दृश्यं विनयस्याहुः सन्तः संपन्नतां स्फुटम् ॥३२१॥  
 व्रतशीलं निविष्टेषु भेदेषु निरवद्यता । शीलव्रतानतीचार प्रोक्तः सूक्तविदां वरैः ॥३२२॥  
 ज्ञानोपयोगाऽभीक्ष्णोऽसौ या नित्यश्रुतभाषना । संवेग ससुतेर्दुःखाद् दुःसहाक्रियभीरुता ॥३२३॥  
 आहारादित्रयोत्सर्गं पात्रभ्यस्त्रयाग इष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायक्लेशस्तपो भवेत् ॥३२४॥  
 कदाचिन्मुनिसदृशस्य बाह्याभ्यन्तरहेतुभिः । संधारणं समाधिः स्यात्प्रसूहं तपस्रः सति ॥३२५॥  
 गुणिनां निरवद्येन विधिना दुःखनिवृत्तिम् । वैयावृत्त्यक्रिया प्रायः साधनं तपसः परम् ॥३२६॥  
 जिनेषु गणनाशेषु बहुशास्त्रेषु चागमे । भावजुद्धयानुराग स्याद्भक्तिः कायादिगोचरा ॥३२७॥  
 सामायिकादिषदकस्य यथाकालं प्रवर्तनम् । भवेदावश्यकामानिर्यथोक्तविधिना मुनेः ॥३२८॥  
 ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाऽन्येन चापि वा । धर्मप्रकाशनं प्राज्ञाः प्राहुर्मार्गप्रभावनाम् ॥३२९॥

करना निर्विचिकित्सा नामका अंग है ॥३१५॥ यदि यह बात अर्हन्तके मनमें न होती तो सब ठीक होता इस प्रकारका आप्रह मिथ्या आप्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग है ॥३१६॥ जो वास्तवमें तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुत-से मिथ्यानयके मार्गोंमें 'यह ठीक है' इस प्रकार मोहका नहीं होना अमूढ दृष्टि अंग कहलाता है ॥३१७॥ क्षमा आदिकी भावनाओंसे आत्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यग्दृष्टियोंको प्रिय सम्यग्दर्शनका उपवृहण नामका अंग है ॥३१८॥ कषायका उदय आदि होना धर्मनाशका कारण है । उसके उपस्थित होनेपर अपनी या दूसरेकी रक्षा करना अर्थात् दोनोंको धर्मसे द्युत नही होने देना सो स्थितिकरण अंग है ॥३१९॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्म-रूपी अमृतमें चिरन्तर अनुराग रखना सो वास्तव्य अंग है और मार्गके माहात्म्यकी भावना करना—जिन-मार्गका प्रभाव फैलाना सो प्रभावना अंग है ॥३२०॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कषायरहित परिणम रखना इन दोनोंको सज्जन पुरुष विनयसम्पन्नता कहते हैं ॥३२१॥ व्रत तथा शीलसे युक्त चारित्रिके भेदोंमें निर्दोषता रखना—अतिचार नहीं लगाना, शास्त्रके उक्तमञ्जाता पुरुषोंके द्वारा शीलव्रतानतीचार नामकी भावना कही गयी है ॥३२२॥ निरन्तर शास्त्रकी भावना रखना सो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है । संसारके दुःखदुःखसे निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है ॥३२३॥ पात्रोंके लिए आहार, अभय और शास्त्रका देना त्याग कहलाता है । आगमके अनुकूल अपनी शक्तिके अनुसार कायक्लेश करना तप कहलाता है ॥३२४॥ किसी समय बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे मुनिसंधके तपश्चरणमें विघ्न उपस्थित होनेपर मुनिसंधकी रक्षा करना साधुसमाधि है ॥३२५॥ निर्दोष विधिसे गुणियोंके दुःख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वैयावृत्त्य है ॥३२६॥ अरहन्त देव, आचार्य, बहुश्रुत तथा आगममें मन वचन कायसे भावोंकी शुद्धतापूर्वक अनुराग रखना क्रमसे अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति भावना है ॥३२७॥ मुनिके जो सामायिक आदि छह आवश्यक बतलाये हैं उनमें यथासमय आगमके कहे अनुसार प्रवृत्त होना सो आवश्यक-परिहागि नामक भाषना है ॥३२८॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजासे, अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेको विद्वान् लोग मार्गप्रभावना कहते हैं ॥३२९॥

१ -मित्ययम् ख०, ग० । २ युनितभवे -म० । ३ कषायोपपादिषु ल० । ४ भावने क०, घ०, म० । ५ निषदेषु ल० । ६ प्राहुः ल० । भाव. शुद्धयानु -ख० । दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेषु च जिनधर्मः । आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतजसा सततमेव ॥ पुरुषार्थसिद्धयुगायेऽमृतचन्द्रसूरः ।

वस्ते धेनोरिव स्नेहो यः सधर्मण्यकृत्रिमः । तद्वात्सल्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिताः ॥३३०॥  
 इत्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणान्यामनन्यन्यन्यान् न चोदका बन्धने ॥३३१॥  
 एतद्वाचनया बद्ध्वा तीर्थकृत्नाम निर्मलम् । येन त्रैलोक्यसंक्षोभस्तत् स मेघरथो मुनिः ॥३३२॥  
 क्रमेण विद्वरदेशान् प्राप्तवान् श्रीपुराङ्गयम् । श्रीपेणस्तत्पत्तिस्तस्मै दत्त्वा भिक्षां बधोचितम् ॥३३३॥  
 पश्चात् नन्दपुरे नन्दनाभिधानम् भक्तिमान् । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिंहसेनश्च शुद्धदृक् ॥३३४॥  
 ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपसां पर्यायान् बहून् । समन्वयार्द्धयते प्रापुः<sup>३</sup> पंचाश्वर्याणि पार्थिवाः ॥३३५॥  
 संयमस्य परां कोटिमारुह्य स मुनीश्वर । दृढो दृढरथेनामा<sup>४</sup> नमस्तिलकपर्वते ॥३३६॥  
 मासमात्र परिश्रयज्य शरीरं शान्तकल्मषः । प्रायोपगमनेनासः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम् ॥३३७॥  
 एतौ तत्र त्रयांशितसांगारोपमजीवितौ । विधूञ्जलतरारस्मिन्शरीरौ शुक्लेश्यकौ ॥३३८॥  
 मासैः षोडशभिः साद्धमा<sup>५</sup> सैर्निःश्वासमोयुषौ । त्रयांशितसहस्राब्देराहतामृतमोजनौ ॥३३९॥  
 निःप्रवीचारलौक्याब्धौ लोकनाड्यन्तराश्रित- । स्वर्गोचरपरिच्छेदप्रमाणवधिलोचनौ ॥३४०॥  
 तक्षेत्रमितवीर्यामाविक्रियो सुचिरं स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य मोक्षलक्ष्मीसमागमौ ॥३४१॥  
 अथास्मिन् सारते वर्षे विपयः कुरुजाङ्गलः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सर्वधान्याकरो महान् ॥३४२॥  
 तत्र ताम्बूलवच्यन्ता सफलाः क्रमुकद्रुमाः । पुन्दरदारकाश्लेषसुखं प्रख्यापयन्ति वा ॥३४३॥  
 महाफलप्रदास्तुङ्गा बद्धमूला मनोहराः । सुरान्नवद्विराजन्ते सत्पत्राश्वेचभूरुहाः ॥३४४॥

और बल्लुङ्गमें गायक समान सहधर्मा पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष वात्सल्य भावना कहते हैं ॥३३०॥ श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनाओंको सब मिलकर अथवा अलग-अलग रूपसे तीर्थकर नामकर्मके बन्धका कारण मानते हैं ॥३३१॥ मेघरथ मुनि-राजने इन भावनाओंसे उस निर्मल तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोंमें शोभ हो जाता है ॥३३२॥ वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगरमें गये । वहाँके राजा श्रीपेणने उन्हें योग्य विधिसे आहार दिया । इसके पश्चात् नन्दपुर नगरमें नन्दन नामके भक्तिवान् राजाने आहार दिया और तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यग्दृष्टि सिंहसेन राजाने आहार कराया । वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपकी अनेक पर्यायोंको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे । उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओंने पंचाश्वर्य प्राप्त किये ॥३३३-३३५॥ अत्यन्त धीर वीर मेघरथने दृढरथके साथ-साथ नभस्तिलक नामक पर्वतपर श्रेष्ठ संयम धारण कर एक महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और अन्तमें शान्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥३३६-३३७॥ वहाँ इन दोनोंकी तैतीस सागरकी आयु थी । चन्द्रमाके समान उज्वल एक हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वे साढ़े सोलह माहमें एक बार श्वास लेते थे, तैतीस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमय आहार ग्रहण करते थे, प्रवीचाररहित सुखसे युक्त थे, उनके अवधिज्ञान रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवर्ती योग्य पदार्थोंको देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका क्षेत्र भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर था । इस प्रकार वे वहाँ चिरकाल तक स्थित रहे । वहाँसे च्युत हो एक जन्म धारण कर वे नियमसे मोक्षलक्ष्मीका समागम प्राप्त करेंगे ॥३३८-३४१॥

अथानन्तर—भरत क्षेत्रमें एक कुरुजांगल नामका देश है, जो आर्य क्षेत्रके ठीक मध्यमें स्थित है, सब प्रकारके धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बड़ा है ॥३४२॥ वहाँपर पानकी बेलोंसे लिपटे एवं फलोंसे युक्त सुपारीके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष स्त्री और बालकोंके आलिंगनका सुख ही प्रकट कर रहे हों ॥३४३॥

वहाँ चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान सुराशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल—भोगोपभोगके उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष महा

१ यथोचिताम् ल०, ख०, म० । २-दत्तपुरे म० ल० । ३ प्रापन् क०, ख०, घ० । ४ दृढरथेनाम । दृढरथेन अमा सह । दृढरथो नामा ल० । ५ साद्धमासनिःश्वास ल० । ६ क्षेत्रे ख०, ग० ।

सदृष्टया सौकुमार्येण दायया रसवत्तया । कद्रव्यः सर्वसौन्दर्याः संप्रीत्यै रमणीसमा ॥ ३४५ ॥  
 आम्नाः कम्पा फलैर्नन्नाः पल्लवप्रसवोज्ज्वलाः । कोकिलाकापवाचाका लोकाकिङ्कलसंकुलाः ॥ ३४६ ॥  
 स्थूलरक्तफलाः प्रोद्यद्गन्धान्धर्माकृतपदपदाः । पनसाः प्रचुरा रेजुरामूलाफलदायिनः ॥ ३४७ ॥  
 सुलमवह्नीद्रमाः सर्वे प्रसूनमरभङ्गुराः । क्रीडागारनिभा भान्ति कामनाममहीभुजः ॥ ३४८ ॥  
 निर्भूमिच्छिद्रमच्छिद्रं नि पाषाणं निरुसरम् । निर्नष्टाष्टमथं भूरिभूतलं सफलं सदा ॥ ३४९ ॥  
 अग्रमादोहचारित्राः प्रायश्चित्तमिव द्विजाः । न दण्डभयसृच्छन्ति प्रजा स्वस्थितपाकनात् ॥ ३५० ॥  
 महाजलाशया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसंभृताः । नानाप्रसवसंछन्ना जह्नु ज्योतिर्जगच्छ्रियम् ॥ ३५१ ॥  
 पुष्पनेत्राः समुत्तुङ्गा विटपायतवाहवः । भूकृदा भूमिपायन्ते सदा चारुफलावहाः ॥ ३५२ ॥  
 पल्लवोद्याः प्रसूनान्वास्तनङ्गयोऽकिङ्कलालकाः । सत्यत्राश्रिन्नवलयै रमण्य इव रेजिरे ॥ ३५३ ॥

फल—बड़े-बड़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग—उदारचित्त होता है उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष तुंग—ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल—पक्की जड़वाले होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी बद्धमूल—पक्की जड़वाले थे । जिस प्रकार उत्तम राजा मनोहर—अत्यन्त सुन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी मनोहर—अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार उत्तम राजा सत्पत्र—अच्छी-अच्छी सवारियोंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी सत्पत्र—अच्छे-अच्छे पत्तोंसे युक्त थे ॥३४४॥ वहाँके कलेके वृक्ष स्त्रियोंके समान उत्तमप्रीति करनेवाले थे क्योंकि जिस प्रकार कलेके वृक्ष सदृष्टि—देखनेमें अच्छे लगते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी सदृष्टि—अच्छी आँखोंवाली थीं, जिस प्रकार कलेके वृक्ष सुकुमार होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार कलेके वृक्ष छाया—अनातपसे युक्त होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी छाया—कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार कलेके वृक्ष रसीले होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी रसीली—शृंगारसे युक्त थीं, और कलेके वृक्ष जिस प्रकार सबसे अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥३४५॥ वहाँके सुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे झुक रहे थे, नयी-नयी कोंपलों तथा फूलोंसे उज्ज्वल थे, कोकिलाओंके वार्तालापसे सुखरित थे, और चंचल भ्रमरोंके समूहसे व्यग्र थे ॥३४६॥ जिनमें बड़े-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अन्वे हो रहे थे, और जो मूलसे ही लेकर फल देनेवाले थे ऐसे कटहलके वृक्ष वहाँ अधिक सुशोभित होते थे ॥३४७॥ फूलोंके भारसे झुकी हुई वहाँकी झाड़ियाँ, लताएँ और वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीडा-भवन ही हो ॥३४८॥ वहाँकी भूमिमें गड्ढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे, पत्थर नहीं थे, ऊपर जमीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा फल देती रहती थी ॥३४९॥ जिस प्रकार प्रमादरहित श्रेष्ठ चारित्रको पालन करनेवाले द्विज कभी प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय नहीं प्राप्त करती थी ॥३५०॥ जिनमें निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जलसे भरे हुए हैं, और अनेक प्रकारके फूलोंसे आच्छादित हैं ऐसे वहाँके सरोवर ज्योतिर्लोककी शोभा हरण करते हैं ॥३५१॥ वहाँके वृक्ष ठीक राजाओंके समान आवरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्पनेत्र—कमलपुष्पके समान नेत्रोंवाले होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी पुष्पनेत्र—पुष्प रूपी नेत्रोंसे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तुंग—उदाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी समुत्तुंग—बहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतवाहु होते हैं—शाखाओंके समान लम्बी सुजाओंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी विटपायतवाहवः—शाखाएँ ही जिनकी लम्बी सुजाएँ हैं ऐसे थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी सदा सुन्दर फलोंको धारण करनेवाले थे ॥३५२॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ स्त्रियोंके समान सुशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंके लाल-लाल ओठ होते हैं उस प्रकार वहाँकी

आमर्ध्वं रसिकामूलात्पयन्ते विरसास्ततः । पीड्यन्ते सुतरीं यन्त्रैरिक्ष्वो जितदुर्जनाः ॥ ३५४ ॥  
 शब्दनिष्पादने लोपः प्रध्वंसः पापवृत्तिषु । दाहो विरहिवर्गेषु वेद्यः-श्रवणयोर्द्वये ॥ ३५५ ॥  
 दण्डो दाहपु शब्देषु निखिंशोक्तिस्तपस्त्रिषु । निर्धनत्वं विदानत्वं महापापे न दन्तिषु ॥ ३५६ ॥  
 सुरतेषु विलज्जत्वं कान्तऋत्यासु याचनम् । तापोऽनलोपर्जावेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३५७ ॥  
 नाकाण्डमृत्पयः सन्ति नापि दुर्मर्गागामिनः । सुक्त्वा विग्रहिणो सुक्तमारणान्तकच्छिद्रात् ॥ ३५८ ॥  
 प्राच्यवृत्तिविपर्यास संयमग्रहिणोऽभवत् । न पदकर्मसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विषाम् ॥ ३५९ ॥  
 शालयो लीलया वृद्धिसुपेता सर्वतर्पिणः । विनम्राः फलसंप्राप्ती भेद्युः सद्भूमिपोपामम् ॥ ३६० ॥  
 क्षरन्ति वारिदाः काले दुहते धेनवः सदा । फलन्ति भ्रूहहाः सर्वे पुष्पान्ति च लतास्तताः ॥ ३६१ ॥  
 नित्योत्सवा निरावह्ना निर्बन्धा धनिकाः प्रजाः । निर्मलाः<sup>३</sup> नित्यकर्मणो नियुक्ताः स्वासु वृत्तिषु ॥ ३६२ ॥

लताओंमें लाल-लाल पल्लव थे, जिस प्रकार स्त्रियाँ मन्द-मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उ प्रकार बहाँकी लताएँ फूलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ तन्वंगी-पतली होती हैं उसी प्रका बहाँकी लताएँ भी तन्वंगी-पतली थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ काले-काले केशोंसे युक्त होती हैं उस प्रकार बहाँकी लताएँ भी काले-काले भ्रमरोसे युक्त थीं, और जिस प्रकार स्त्रियाँ सत्पत्र-उत्त मोत्तम पत्र-रचनाओंसे सहित होती हैं उसी प्रकार बहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे यु थी ॥३५३॥ जो मूलसे लेकर मध्यभाग तक रसिक हैं और अन्तमें नीरस हैं ऐसे दुर्जनोंक जीतनेवाले ईश ही बहाँपर यन्त्रों-द्वारा अच्छी तरह पीडे जाते थे ॥३५४॥ बहाँपर लोप अनुबन्ध आदिका अदर्शन शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं होता था, नाश पापरूप प्रवृत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुष्योंमें होता था और वेध अर्था छेदन दोनो कानोंमें होता था, दूसरी जगह नहीं ॥३५५॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमें था । वहाँ-प्रजामें दण्ड अर्थात् जुर्माना नहीं था, निखिंश शब्दका कथन केवल शब्दोंमें था वहाँकी प्रजा यह निखिंश अर्थात् दुष्टता है ऐसा कथन नहीं था । निर्धनता अर्थात् निष्परिग्रहता तपस्त्रियोंमें थी । वहाँके मनुष्योंमें निर्धनता अर्थात् गरीबी नहीं थी और विदानत्व अर्थात् मदका अभाव मद सूख जानेपर केवल हाथियोंमें ही था, बहाँकी प्रजामें विदानत्व अर्थात् दान देनेका अभाव नहीं था ॥३५६॥ निर्लज्जपना केवल सम्भोग क्रियाओंमें था, याचना केवल सुन्दर कन्याओंकी होती थी, ताप केवल अग्निसे आजीविका करनेवालोंमें था और मारण केवल रसवादियोंमें था—रसायन आदि बनानेवालोंमें था ॥३५७॥ वहाँ कोई असमयमें नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीवो तथा मारणान्तिक समुद्रवात करनेवालोंको छोड़क अन्य कोई विग्रही-शरीररहित तथा मोड़ासे रहित नहीं थे ॥३५८॥ मिथ्या नयसे द्वेष रखनेवाले चारो ही वर्णवाले जीवोंके देवपूजा आदि छह कर्मोंमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उल्लंघन नहीं था अर्थात् देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योंकी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली आयी थी उसीके अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे । यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उल्लंघन था तो संयम ग्रहण करनेवालेके ही था अर्था संयमी मनुष्य ही पहलेसे चली आयी असंयमरूप प्रवृत्तिका उल्लंघन कर संयमकी नयी प्रवृत्ति स्वीकृत करता था ॥३५९॥ लीलापूर्वक वृद्धिको प्राप्त हुए पर्वसबको सन्तुष्ट करनेवाले धान्यके पौधे फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे—नीचेको झुक गये थे अत किसी अच्छे राजाकी उपमाको धारण कर रहे थे ॥३६०॥ वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गाथें सदा दूध देती थीं, स वृक्ष फलते थे और फैली हुई लताएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं ॥३६१॥ वहाँकी प्रजा नित्योत्स थी अर्थात् उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातंक थी उसमें किसी प्रकारकी धीमार नहीं होती थी, निर्बन्ध थी, हठरहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी औ अपने-अपने कर्मोंमें लगी रहती थी ॥३६२॥

हासि रनाख्या पुरी तस्य शुभा नामि रिवामौ । शृशं देशस्य देहस्य महरी, मध्यवर्तिनी ॥३६३॥  
भुरिनीरभवानेकप्रसूनोदितभूतिभिः । तिसृभिः परिखामिस्वन्नगरं परिवेष्टितम् ॥३६३॥  
विमाति गोपुरोपेवद्वाराद्यालकपद्धक्तिभिः । वप्रप्राकारदुर्लभ्यं सुरमैः कपिशोषकैः ॥३६४॥  
इन्द्रकोशवृद्धधनैर्युक्तं देवपथादिभिः । महाशुद्राग्निमहद्वैर्बोधिमर्वाहुभिश्च तत् ॥३६६॥  
राजमार्गां विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वर्गापवर्गमार्गांमाः सचरच्चारुतयः ॥३६७॥  
न नेपथ्यादिभिर्मंदस्तदमुषां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचोबोधादिभिर्मिदा ॥३६८॥  
तत्पुर्यां सौधकूटाग्रदध्वजमिरोधनात् । नातपस्य प्रवेशोऽस्ति विघ्नार्कदिनेष्वपि ॥३६९॥  
पुष्पाङ्गरागधृपादिसौगन्ध्यान्धोक्तालिभिः । भ्रमद्भिस्तत्र खे प्रावृट्शङ्का गृहशिक्षण्डिनाम् ॥३७०॥  
रूपलावणकान्त्यादिगुणैर्युक्त्वलिभियुक्ताः । युवानस्तैश्च तास्तत्र तदन्वेषोऽन्यसुखावहाः ॥३७१॥  
मदनोद्दीपनद्वयैर्निसर्गप्रेमतो गुणैः । कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिस्तत्र निरन्तरम् ॥३७२॥  
अहिसालक्षणे धर्मो यतयो विगतस्पृहा । देवोऽहंशैव निर्दोषस्तत्सर्वेऽप्यत्र धार्मिकाः ॥३७३॥  
यत्किञ्चित् संचितं पापं पंचसूनादिवृत्तिभिः । पात्रदानादिभिः सद्यस्तद्विष्णुसन्धुपासका ॥३७४॥  
न्याय्यो नृः प्रजा धर्म्या निर्जन्तु क्षेत्रमन्त्रहम् । स्वाध्यायस्तत्पुरं तस्मान्न स्वजन्ति यतीश्वराः ॥३७५॥  
नानापुष्पककानम्रमार्जैर्नन्दनैर्वनैः ॥ नन्दनं च विजीयेत तत्पुरोपात्तवर्निभिः ॥३७६॥

जिस प्रकार शरीरके मध्यमे बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजांगल देशके मध्यमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है ॥ ३६३ ॥ अगाध जलमें उत्पन्न हुए अनेक पुष्पों-द्वारा जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसी तीन परिखाओंसे वह नगर घिरा हुआ था ॥३६४॥ धूलिके ढेर और कोटकी दीवारोंसे दुर्लभ्य वह नगर गोपुरोंसे युक्त दरवाजों, अट्टालिकाओंकी पंक्तियों तथा बन्दरोंके शिर-जैसे आकारवाले बुरजोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥३६५॥ वह नगर, राजमार्गमें ही मिलनेवाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े आदिके चित्रों तथा बहुत छोटे दरवाजोवाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था ॥ ३६६ ॥ जो सार वस्तुओंसे सहित हैं तथा जिनमें सदाचारि मनुष्य इधरसे उधर टहला करते हैं ऐसे वहाँके राजमार्ग स्वर्ग और मोक्षके मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७ ॥ वहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें श्रेष्ठ वस्तुओंसे उत्पन्न हुए नेपथ्य—ब्रह्मपूणादिके कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवस्था, वर्ण, वचन और ज्ञानकी अपेक्षा भेद था ॥३६८॥ उस नगरमें राजभवनोंके शिखरोंके अग्रभागपर जो ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जत्र सूर्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोंमें भी धूपका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥३६९॥ पुष्प, अंगराग तथा धूप आदिकी सुगन्धसे अन्धे होकर जो ध्रमर आकाशमें डधर-डधर उड़ रहे थे उनसे घरके मयूरीको वर्षाऋतुकी शंका हो रही थी ॥३७०॥ वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि गुणोंसे युक्त युवक युवतियोंके साथ और युवतियों युवकोंके साथ रहती थी तथा परस्पर एक-दूसरेको सुख पहुँचाती थीं ॥३७१॥ वहाँ कामको उदीपित करनेवाले पदार्थ, स्वाभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे स्त्री-पुरुषोंमें निरन्तर प्रीति बनी रहती थी ॥३७२॥ वहाँ धर्म अहिंसा रूप माना जाता था, मुनि इच्छारहित थे, और देव रागादि दोषोंसे रहित अर्हन्त ही माने जाते थे इसलिए वहाँके सभी मनुष्य धर्मात्मा थे ॥३७३॥ वहाँके श्रावक, चक्री-चूल्हा आदि पाँच कार्योंसे जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥३७४॥ वहाँका राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जोवरहित-प्रासुक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नहीं छोड़ते थे ॥३७५॥ जिनके वृक्ष अनेक पुष्प और फलोंसे नन्न हो रहे हैं तथा जो सबको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्ती

१ महाशुद्राग्नि सद्वारं ल० । महाशुद्राग्नि सद्वारं: म०, ग० । महाशुद्राग्निसद्वारं: क०, घ० ।  
२ विघ्नार्कदिनेष्वपि (?) ल० । ३ तत्तेऽन्योऽन्यसुखावहा. क०, घ०, म० । घतेऽन्योऽन्यसुखावहः ग० । सुखावहं ल० । ४ निर्जन्तु ल० । ५ लतानम्र—ल० ।



निष्पन्नसारवस्तूनां निःशेषाणां निजोद्भव-। स्थानेष्वनुपमोग्यत्वात्तदेवायान्ति सर्वतः ॥३७७॥  
 तत्रस्थैरेव भुज्यन्ते तानि दानेन चेद्द्विहः। निर्यान्ति यान्तु तत्सादृक् र्थागमिगिजनैश्चितम् ॥३७८॥  
 तत्र तादात्मिकाः सर्वे तत्र दोषाय कल्पते। तत्पण्यात् सर्ववस्तूनि वर्द्धन्ते प्रत्यहं यतः ॥३७९॥  
 ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे भुवोभूद्वाजमन्दिरम्। महामेरुनिभं सास्वन्नद्वाशालादिभूषितम् ॥३८०॥  
 यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरम्। उद्भूनि वो उन्नतद्रव्यहर्षाण्यन्यानि वा भयुः ॥३८१॥  
 तद्वाजधानीनाथस्य काश्यपांश्वयमास्वतः। भूपस्याजितसेनस्य चितनेत्रप्रियप्रदा ॥३८२॥  
 बाळचन्द्रादिसुस्वप्नदर्शिनी प्रियदर्शना। ब्रह्मकल्पच्युतं सूनुं विश्वसेनमजीजनत् ॥३८३॥  
 गन्धारविषयख्यातं गान्धारनगरेशिन। अजितंजयभूमतुरजितायां सुता गता ॥३८४॥  
 सनत्कुमारदैराख्या विश्वसेनप्रियामवत्। श्रीह्रीष्टव्यादिसंसेव्या नभस्ये कृष्णं सप्तमी ॥३८५॥  
 दिने भरणिनक्षत्रे यामिनीतुयंभागगा। स्वप्नान् षोडश साद्राक्षीत्साक्षात्पुत्रं फलप्रदान् ॥३८६॥  
 दरनिद्रासमुद्भूतवाधा शुद्धसुवासना। तदनन्तरमैक्षिष्ट प्रविष्टं वदनं गजम् ॥३८७॥  
 तदैवासी दिवो देवस्ततो मेवरथामिधः। तस्यामवतरद् गर्भं शुक्रौ मुक्तोद्विन्दुवत् ॥३८८॥  
 तदैव याममेरी च तत्स्वप्नशुभसूचिनी। जज्जम्भे मधुरं सुप्तं बोधवन्तीव सुन्दरीम् ॥३८९॥  
 पश्चिमीव तदाकर्ण्य विकसनमुखपंक्रजा। शय्यागृहात्समुत्थाय कृतमंगलमजना ॥३९०॥

वनोसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था ॥३७६॥ संसारमें जितनी श्रेष्ठ वस्तुएँ उत्पन्न होती है उन सबका अपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सब जगहकी श्रेष्ठ वस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं और वहाँके रहनेवाले ही उनका उपभोग करते थे। यदि कोई पदार्थ वहाँसे बाहर जाते थे तो दानसे ही बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी जनोसे व्याप्त था ॥२७७-२७८॥ उस नगरके सब लोग तादात्मिक थे—सिर्फ वर्तमानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खर्च कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दोषाधायक नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ॥३७६॥ उस नगरमें ब्रह्मस्थानके उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल—उत्तमकोट आदिसे विभूषित था और भद्रशाल आदि वनोंसे सुशोभित महामेरुके समान जान पड़ता था ॥३८०॥ उस राजमन्दिरके चारों ओर यथायोग्य स्थानोंपर जो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए थे वे मेरुके चारों ओर स्थित नक्षत्रोंके समान सुशोभितहो रहे थे ॥३८२॥ उस हस्तिनापुर राजधानीमें काश्यपगोत्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे। उनके चित्त तथा नेत्रोंको आनन्द देनेवाली प्रियदर्शना नामकी स्त्री थी। उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्मस्वर्गसे च्युत हुए विश्वसेन नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥३८२-३८३॥ गन्धार देशके गान्धार नगरके राजा अजितंजयके उनकी अजिता रानीसे सनत्कुमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई थी। श्री, ह्री, धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। भादों वदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें रात्रिके चतुर्थ भागमें उसने साक्षात् पुत्ररूप फलको देनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥३८४-३८६॥ अल्पनिद्राके बीच जिसे कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्ध प्रकट हो रही है ऐसी रानी ऐराने स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥३८७॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमें आकर उस तरह अवतीर्ण हो गया जिस तरह कि शुक्तिमे मोतीरूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अवतीर्ण होती है ॥३८८॥ उसी समय सोती हुई सुन्दरीको जगानेके लिए ही मानो उसके शुभ स्वप्नोंको सूचित करनेवाली अन्तिम पहरकी मेरी मधुर शब्द करने लगी ॥३८९॥ उस मेरीको सुनकर रानी ऐराका मुखकमल, कमलिनीके समान खिल उठा। उसने शय्यागृहसे उठकर मंगलस्तान किया,

१ बाला चन्द्रादि-७०। २ गन्धार क०, ग०, म० ल०। ३ सप्तमे ल०। ४ साक्षात्सत्य-७०, स०, ग०, म०। ५ वदने ल०। ६ स्वातो ल०।

तत्कालोचितनेपथ्या कल्पचह्नीव जङ्गमा । सितातपत्रवित्रासिताकंवाळांशुमाकिका ॥३९१॥  
 प्रकीर्णकपरिक्षेपप्रपञ्चितमहोदया । जनैः कतिपयैरेव प्रत्यासन्नैः परिष्कृता ॥३९२॥  
 सावित्रचन्द्ररेखाया सभामिव विभावरीम् । कृत्वोपचारविनयां तामार्द्धासनमापयत् ॥३९३॥  
 नृपं साभिनिवेधात्मसदृशं स्वप्नावलीं क्रमात् । तत्कलान्यप्यबोधित राज्ञः सावधिलोचनात् ॥३९४॥  
 स्वर्गात्तदैव देवेन्द्राः सह देवैश्चतुर्विधैः । स्वर्गावतारकल्याणं संप्राप्य समुपादयन् ॥३९५॥  
 त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे वर्द्धमाने<sup>३</sup> महोदये । अभ्येत्थ नवम मासं माता त्रिजगदीशितुः ॥३९६॥  
 मासान् पञ्चदश प्रासत्तत्तुष्ट्यामराचनान् । शुचौ कृष्णचतुर्दश्यां याम्ययोगे निशात्यथे ॥३९७॥  
 नन्दन जगदानन्दसदोहमिव सुन्दरम् । असूतामलसद्वोधश्रितथोज्ज्वललोचनम् ॥३९८॥  
 शङ्खभेरीगजारातिघण्टारावात्रबोधिताः । जैनं<sup>४</sup> जन्मोत्सवं देवाः सभूय समवर्द्धयन् ॥३९९॥  
 तदा शची महादेवी प्रबोधितदिगन्तरा । गर्भगोहं प्रविश्योच्चैर्मायानिद्रावशीकृताम् ॥४००॥  
 जिनेन्द्रजननीमैत्रं कुमारसहितां सतीम् । परीत्य प्रप्रणम्यार्च्या मायाविष्कृतवालका ॥४०१॥  
 त्रिलोकमातुः पुरतो निवेद्य परमेश्वरम् । कुमारवरमादाय विश्वामरनमस्कृतम् ॥४०२॥  
 मृदुवाहुयुगान्नीत्वा स्वपतेरकरोल्करे । ऐरावर्तगजस्कन्धमारोप्य मस्तां पतिः ॥४०३॥  
 पुरेव पुरुदेव सं सुराद्रेर्मस्तकार्षितम् । अभिषिच्याम्बुभिः क्षीरमहाभूमोनिधिसंभवै ॥४०४॥

उस समयके योग्य वस्त्राभूषण पहने और चलाती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान किया । उस समय वह अपने ऊपर लगाये हुए सफेद छत्रसे बालसूर्यकी किरणोंके समूहको भयभीत कर रही थी, दुरते हुए चमरोंसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, और पासमें रहनेवाले कुछ लोगोसे सहित थी । जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने राजसभामें प्रवेश किया । औपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन दिया ॥३९०-३९३॥ उसने अपने-द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-क्रमसे राजाको सुनायी और अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे उनका फल मादूम किया ॥३९४॥ उसी समय चतुर्गिकायके देवोंके साथ स्वर्गसे इन्द्र आये और आकर गर्भावतार-कल्याणक करने लगे ॥३९५॥ उधर रानीके गर्भमें इन्द्र बड़े अभ्युदयके साथ बढ़ने लगा और इधर त्रिलोकीनाथकी माता रानी पन्द्रह माह तक देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही । जब नववां माह आया तब उसने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन याम्ययोगमें प्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया । वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समूह ही हो । साथ ही अत्यन्त निर्मल भति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था ॥३९६-३९८॥ शंखनाद, भेरीनाद, सिंहनाद और घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्मकी सूचना दी गयी है ऐसे चारों निकार्योंके देवोंने मिलकर जिनेन्द्र भगवान्का जन्मोत्सव बढ़ाया ॥३९९॥ उस समय दिशाओंके मध्यको प्रकाशित करनेवाली महादेवी इन्द्राणीने गर्भ-गृहमें प्रवेश किया और कुमारसहित पतिव्रता जिनमाता ऐराको मायामयी निद्रासे वशीभूत कर दिया । उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया और एक मायामयी बालक उसके सामने रखकर जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ठ कुमार जिन-बालकको उठा लिया तथा अपनी दोनो कोमल भुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमें सौंप दिया । इन्द्रने उन्हें ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान् आदिनाथको सुमेरु पर्वतके मस्तकपर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वतके मस्तकपर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका

१ वामार्धासन-ल० । २ दृष्टा स्वप्नावली ग०, ख०, म०, ल० । ३ वर्धमानमहोदयैः क०, घ० ।

४ जैनजन्मोत्सवं क०, घ०, ख० । जिनजन्मोत्सवं ग० । ५ शची ल०, म०, क०, घ० । ६ परीत्य त्रि. प्रणम्यान् मायाविष्कृतवालकम् ल० ।

प्रसाधनविशेषाणामपि चैकं प्रसाधनम् । आचारपालनायैव भूषयित्वा विभूषणैः ॥४०५॥  
 सर्वशान्तिप्रदो देवः शान्तिरित्यस्तु नाममाकम् । इति तस्याभिपेकान्ते नामासौ निरवर्तयत् ॥४०६॥  
 प्रीत्या सुरचरैः सार्द्धं मन्दरादेव्य मन्दिरम् । जनन्याः सर्वमावेद्य जगदीशं समर्पयत् ॥४०७॥  
 अनुष्यच्चोदितानन्दो बहुभावरसोदयः । संमदश्चेन्नमार्थाः सरागं कं न नर्तयत् ॥४०८॥  
 लोकपालांश्चिलोकानां पालकस्य महात्मनः । बालकस्यास्य कल्पेशः पालकान्पर्यवहरयत् ॥४०९॥  
 इति द्वितीयकल्याणसाकश्यसमनन्तरम् । सशक्राः सर्वगीर्वाणाः स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥४१०॥  
 चतुर्विंशत्पदशोपमश्रुतत्रिसागरैः । धर्मतीर्थस्य संताने पत्यतुयांशोपिते ॥४११॥  
 द्युच्छिन्ने मुक्तिसन्मार्गे तदभ्यन्तरजोवितः । शान्तिः समुद्रपाद्यानमन्त्रामरनायकः ॥४१२॥  
 लक्ष्मासामुश्रुत्वारिंशच्चापाङ्गः सुवर्णरुक् । ध्वजतोरणमूर्ध्नुशङ्खचक्रादिलक्षणः ॥४१३॥  
 पुण्याद् दृढरथो दीर्घमनुभूयाहमिन्द्रताम् । विश्वमेनाद्यशस्वत्यां सुतश्चक्रायुधोऽभवत् ॥४१४॥  
 महामणिरिवाभ्रमोक्षो गुणानां वा गणो मुनी । तत्र शान्तिरगाद् वृद्धिं प्रमदो बोदितोदिते ॥४१५॥  
 वर्द्धन्ते स्म गुणास्तस्मिन् स्पष्टैर्नावयवैः क्रमात् । तथा विधाय सौन्दर्यं कीर्तिलक्ष्मीः सरस्वती ॥४१६॥  
 अमातस्त्यात्तसौन्दर्यं रूपमापूर्णयौवने । विधोर्विभूतवैकल्यामिध पर्वणि मण्डलम् ॥४१७॥  
 मृद्वस्तनवः स्निग्धाः कृष्णाः केशा सुकुञ्चिताः । प्राञ्जिताश्चञ्चरीकामाः शुभास्वभस्तकथिताः ॥४१८॥  
 शिरो विराजते तस्य शिखरं या मरुन्मरो । ललाटात्पट्टमाजोऽस्माद्दहमेवोपरीति वा ॥४१९॥

अभिपेक किया ॥४००-४०४॥ यद्यपि भगवान् स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंसे एक आभूषण तथापि इन्द्रने केवल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूषणोंसे विभूषित किया था ॥४०५॥ ये भगवान् सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्ति' इस नामको प्राप्त हो ऐसा सोचकर इन्द्रने अभिपेकके बाद उनका शान्तिनाथ नाम रखा ॥४०६॥ तदनन्तर धर्मसब देवोंके साथ बड़े प्रेमसे सुमेरु पर्वतसे राजमन्दिर आया और मातासे सब समाचार कह कर उसने वे जिलोकीनाथ माताको सौप दिये ॥४०७॥ जिसे आनन्द प्रकट हो रहा है तथ जिसके अनेक भावों और रसोंका उदय हुआ है ऐसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही है क्यों जब हर्ष मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यको नहीं नचा देता ? ॥४०८॥ यद्यपि भगवान् तीन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन बालकरूपधारी महात्माकी रक्षा करने के लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था ॥४०९॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पूर्ण क समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥४१०॥

धर्मनाथ तीर्थकरके बाद पौन पत्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पत्य त मुनिके मार्गका विच्छेद हो लंनेपर जिन्हें मनुष्य और इन्द्र नमस्कार करते हैं ऐसे शान्तिना भगवान् उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी ॥४११-४१२॥ उनकी एक ला वर्षकी आयु थी, चालीस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी, ध्वजा, तोरण सूर्य, चन्द्र, शंख, और चक्र आदिके चिह्न उनके शरीरमें थे ॥४१३॥ पुण्यकर्मके उदयसे दृढ़ भी दीर्घकाल तक अहमिन्द्रपनेका अनुभव कर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वती चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥४१४॥ जिस प्रकार समुद्रमें महामणि बढता है, मुनिमें गुणों समूह बढता है और प्रकट हुए अभ्युदयमें हर्ष बढता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिना वढ रहे थे ॥४१५॥ उनमें अनेक गुण, अवयवोंके साथ स्पर्धा करके ही मानो क्रम-क्रमसे रहे थे और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ रही थी मानो सगी बहन ही हैं ॥४१६॥ जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता-खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होनेपर उनका रूप, सौन्दर्य प्राप्त कर अधिक सुशोभित हो रहा था ॥४१७॥ उनके मस्तकपर इकट्ठे हुए भ्रमरोंके समान, कोमल पतले, चिकने, काले और घूँघरवाले शुभ बाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥४१८॥ उनका शिर

१ अथ शान्ति म०, ल० । २ बोद्धतानन्दो ल० । ३ प्रमोदो ल० । ४ यथा विषाय क० ख०, ग०, घ०, म० । ५ सकुञ्चिता. ग०, म०, ल० ।

लक्ष्मीललाटपट्टेऽस्मितस्य पट्टद्वयाधिता । राजतामिति वा तुङ्ग विस्तीर्णं च व्यघाद्विधिः ॥४२०॥  
 सुरूपे कुटिले चास्य भ्रुवौ वेद्येव रेजतुः । कुटिलेति न रेखा किं पीयूषांशोर्विराजते ॥४२१॥  
 आधिक्यं चक्षुषीः प्राङ्मुः श्रुमात्रयवचिन्तका । वीक्ष्य तद्यक्षुषी व्यकमितीयमनयोः स्तुतिः ॥४२२॥  
 कर्णौ तस्य न वर्ण्येते निःशेषश्रुतपात्रताम् । यातौ चेद् दुर्लभं तनु शोभान्यत्रापि विद्यते ॥४२३॥  
 अर्थं विनिर्जिताशेषं मोहमल्लं विभेप्यते । मात्वत्रैवेति वा तुङ्गा संगला नासिका वृता ॥४२४॥  
 कपोलफलकौ इलक्ष्णौ धात्रा वा विपुलौ कृतौ । तद्वत्तजजरसरस्या विनोदेन चिलेखितुम् ॥४२५॥  
 स्मितमेदाः सरस्वत्याः किं किं शुद्धाक्षरावलिः । शंकामिति सिताः स्निग्धाः घनास्तेतुङ्गिजाः समाः ॥४२६॥  
 वटविम्बप्रवालादि परेषां भवत्पमा । नास्याधरस्य तेनायं स्मर्यते नाधरोऽधरः ॥४२७॥  
 सवेचिचक्रमन्येषां भाविश्मश्रु किमप्यदः । सदा इदमिदं भावादित्यकारीन शोभनम् ॥४२८॥  
 क्षयौ कलह्नी पद्भौस्थं रजसा दूषितं ततः । नैनद्वक्त्रस्य साधर्म्यं घत स्मे-दुसरोरुहे ॥४२९॥  
 ध्वनिश्चेन्निर्गततत्समाद्दिष्यो विश्वार्थदर्पणः । पृथक् सुकण्ठता तस्य कण्ठस्य किमु वर्ण्यते ॥४३०॥  
 स्पर्द्धमानभुजाग्रान्यां तौद्व्येन शिरसा समम् । त्रिहृदहाटकादिर्वा सोऽभास्त्रिभुवनप्रभुः ॥४३१॥  
 बाहू बहुतरं तस्य मातः स्माजानुलम्बिनौ । धात्रीं संघर्तुकामौ वा केयूरादिभिर्भूषणौ ॥४३२॥  
 न्यधापि वेधसा तस्य विस्तीर्णं वक्षसः स्थकम् । असंवाध वसन्त्वस्मिन्निति वा बहवः श्रियः ॥४३३॥

मेरुपर्वतके शिखरके समानं सुशोभित होता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट्टको प्राप्त होगा परन्तु उससे ऊँचा तो मैं ही हूँ ॥४१९॥ उनके इस ललाटपट्टपर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनोंसे पूजित लक्ष्मी सुशोभित होगी इस विचारसे ही मानो विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था ॥४२०॥ उनकी सुन्दर तथा कुटिल भौहें वेश्याके समान सुशोभित हो रही थीं । 'कुटिल है' इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित नहीं होती अर्थात् अवश्य होली है ॥४२१॥ शुभ अवयवोंका विचार करनेवाले लोग नेत्रोंकी दीर्घताको अच्छा कहते हैं सो मालूम पड़ता है कि भगवान्के नेत्र देखकर ही उन्होंने ऐसा विचार स्थिर किया होगा । यही उनके नेत्रोंकी स्तुति है ॥४२२॥ यदि उनके कान समस्त शास्त्रोंकी पात्रताको प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक बात दुर्लभ है । शोभा तो दूसरी जगह भी हो सकती है ॥४२३॥ 'ये भगवान्, सबको जीतनेवाले मोहरूपी मल्लको जीतेंगे इसलिए ऊँची नाक इन्हींमें शोभा दे सकेगी' ऐसा विचार कर ही मानो विधाताने उनकी नाक कुछ ऊँची बनायी थी ॥४२४॥ उनके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती विनोदसे कुछ लिखेगी यह विचार कर ही मानो विधाताने उनके कपोलरूपी पट्टिये चिकने और चौड़े बनाये थे ॥४२५॥ उनके सफेद चिकने सघन और एक बराबर दाँत यही शंका उत्पन्न करते थे कि क्या ये सरस्वतीके मन्त्र हास्यके भेद है अथवा क्या शुद्ध अक्षरोकी पंक्ति ही है ॥४२६॥ बरगदका पका फल, बिम्बफल और मूंगा आदि दूसरोंके ओठोंकी उपमा भले ही हो जावे परन्तु उनके ओठकी उपमा नहीं हो सकते इसीलिए इनका अधर—ओठ अधर—नीच नहीं कहलाता था ॥४२७॥ अन्य लोगोंका चिबुक तो आगे होनेवाली ढाढीसे ढक जाता है परन्तु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था इससे जान पड़ता है कि वह केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था ॥४२८॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलंकसे युक्त है और कमल कीचड़से उत्पन्न है तथा रजसे दूषित है इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सदृशता नहीं धारण कर सकते ॥४२९॥ यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थोंको प्रकट करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥४३०॥ वे त्रिलोकीनाथ ऊँचाईके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कन्धोंसे ऐसे सुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंवाला सुवर्णगिरि ही हो ॥४३१॥ घुटनों तक लम्बी एवं केयूर आदि आभूषणोंसे विभूषित उनकी दोनों भुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथिवीको उठाना ही चाहती हों ॥४३२॥ बहुतसी लक्ष्मियाँ एक-दूसरेकी

व्यासमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधात्तराम् । मध्वीकृताकंसंध्याभ्रहेमाद्रितटसंनिभम् ॥४३७॥  
 तन्मध्यं मुष्टिसंमाधि विभयुंद्धर्वतनोर्भरम् । गुरुं निराकुलं तस्य तानवं तेन शोभते ॥४३८॥  
 गम्भीरा दक्षिणावर्ता तस्याभ्युदयसूचिनी । नाभिः सपद्मा मध्यस्था स्थात्पदं न स्तुतेः कृतः ॥४३९॥  
 कटीतटी कटीसूत्रधारिणी हारिणी भृशम् । सवेदिकास्थली वास्य जम्बूद्वीपस्य मासते ॥४३७॥  
 वृते श्लक्ष्णे सुखस्थशे स्तां रम्मास्तम्भसंनिभे । किन्त्वस्योरु सदादत्तफले गुरुमरक्षमे ॥४३८॥  
 मर्यादाकारि यत्तस्मात्तदेतस्योरुहृद्यो । शस्यं जानुद्वयं सद्भिः सत्क्रियं किञ्च दस्यते ॥४३९॥  
 नमिताशेषदेवेन्द्रौ पादपद्मौ श्रिया श्रितौ । तयोरुपरि चेज्जह्वे तस्य का वर्णना परा ॥४४०॥  
 गुह्ययोरिव मन्त्रस्य गूढनेव गुणोऽभवत् । फलदा सा ततः सर्वं फलकृत्वाद् गुणि स्युत्तम् ॥४४१॥  
 कूर्मपृष्ठौ क्रमौ तस्य श्रित्वा तौ सुस्थिता धरा । धृता कूर्मैर्ग धात्रीति ध्रुवं रुद्धिस्वतोऽभवत् ॥४४२॥  
 पीनावग्रोन्नतौ सुस्थौ तस्यांगुष्ठौ सुखाकरौ । रेजतुर्दशयन्तौ वा मार्गं स्वर्गापवर्त्रयो ॥४४३॥  
 अष्टावंगुल्यस्तस्य वसुः श्लिष्टः परस्परम् । कर्माण्यष्टावपद्धोतुं निर्गता इव शक्तयः ॥४४४॥  
 दशधर्मा पुरैवेनं तदव्याजेनेव सेवितुम् । क्रमौ समाश्रितास्तस्य च्यराजन्त्र नखाः सुखाः ॥४४५॥  
 अस्यावयवभावाच्चे वासबाधा नमन्ति नौ । इतीव रागिणौ तस्य पादौ पल्लवसंनिभौ ॥४४६॥

बाधाके बिना ही इसमें निवास कर सकें यह सोचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षःस्थल बहुत चौड़ा बनाया था ॥४३३॥ जिसके मध्यमें मणियोंकी कान्तिसे सुशोभित हार पड़ा हुआ है ऐसा उनका वक्षःस्थल, जिसके मध्यमें सन्ध्याके लाल-लाल वादल पड़ रहे हैं ऐसे हिमाचलके तटके समान जान पड़ता था ॥४३४॥ मुट्टीमें समानेके योग्य उनका मध्यभाग चूँकि उपरिवर्ती शरीरके बहुत भारी बोझको बिना किसी आकुलताके धारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक ही शोभा देता था ॥४३५॥ उनकी नाभि चूँकि गम्भीर थी, दक्षिणावर्तसे सहित थी । अभ्युदयको सूचित करनेवाली थी, पद्मचिह्नसे सहित थी और मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान—प्रशंसाका पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥४३६॥ करधनीको धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी और जम्बूद्वीपकी वेदीसहित जगतीके समान जान पड़ती थी ॥४३७॥ उनके ऊरु केलेके स्तम्भके समान गोल, चिकने तथा स्पर्श करनेपर सुख देनेवाले थे अन्तर केवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक धार फल देते हैं परन्तु वे बार-बार फल देते थे और केलेके स्तम्भ बोझ धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं परन्तु वे बहुत भारी बोझ धारण करनेमें समर्थ थे ॥४३८॥ चूँकि उनके घुटनोंने ऊरु और जंघा दोनोंके बीच मर्यादा कर दी थी—दोनोंकी सीमा बाँध दी थी इसलिए वे सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे ? अवश्य की जावे ॥ ४३९॥ उनके चरणकमल समस्त इन्द्रोंको नमस्कार कराते थे तथा लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी । जब उनके चरणकमलोंका यह हाल था तब जंघाएँ तो उनके ऊपर थीं इसलिए उनका और वर्णन क्या किया जाये ? ॥४४०॥ जिस प्रकार मन्त्रमें गूढ़ता गुण रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुह्रों—एड़ीके ऊपरकी गाँठोंमें गूढ़ता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणता फल देनेवाली थी सो ठीक ही है क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होनेसे ही गुणी कहलाते हैं ॥४४१॥ उनके दोनों चरणोंका पृष्ठभाग कछुएके समान था और यह पृथिवी उन्हींका आश्रय पाकर निराकुल थी । जान पड़ता है कि 'पृथिवी कछुएके द्वारा धारण की गयी है' यह रूढ़ि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥४४२॥ उनके दोनों अँगूठे स्थूल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग ही दिखला रहे हो ॥४४३॥ परस्परमें एक-दूसरेसे सटी हुई उनकी आठों अँगुलियों ऐसी जान पड़ती थीं मानो आठों कर्मोंका अपह्व करानेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों ॥४४४॥ उनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख ऐसे सुशोभित होते थे मानो उन नखोंके बहाने उत्तम क्षमा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों ॥ ४४५ ॥ हम भगवान्के शरीरके अवयव हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव हम दोनोंको नमस्कार

नामृतशोनिशासंगाहुणत्वाद्भास्करस्य च । तेजस्तस्योपमानं स्याद् भूषणदमाजतेजसः ॥४४७॥  
 कान्ते का वर्णना तस्य यदि शक्रं सहस्रदहम् । शचीवदनपङ्कजविमुखस्तं निरीक्षते ॥४४८॥  
 भूषणानां कुलं छेमे शोभां तस्याङ्गसंगमात् । महामणिनिबद्धेक्षुधौवकुलधौतवत् ॥४४९॥  
 स्वनामभ्रुतिसंछुष्यन्मदारिकरिसंहतेः । रवोऽराजत राजेशो राजकण्ठीरवस्य वा ॥४५०॥  
 कीर्तिवह्नी जगत्प्रान्तं प्राप्य प्रागेव जन्मनः । तदीयालम्बनाम्बावादिष तावति सुस्थिता ॥४५१॥  
 कुलरूपवयःशीलकलाकान्त्यादिभूषणाः । कन्यकास्तरिपता तेनायोजयद्भक्तिदायिनीः ॥४५२॥  
 कामिनीनीलनीरेजदलोञ्जलविलोचनैः । प्रेमाभ्युत्थान्मुसंसिक्तेसुहुराह्लादिताशयः ॥४५३॥  
 बह्वभाबलितालोलौलालसंविभोचनैः । स्वममोधनलुण्टाकैरखण्डं स शमेयिवान् ॥४५४॥  
 पञ्चवर्गसहस्राब्दकाले गतवर्तीभित्तुः । कौमार्येण सुखैरेव दिव्यमानुषगोचरैः ॥४५५॥  
 ततोऽनु तदप्रमाणेन विश्वेसेनसमर्पिते । राज्येऽप्यच्छिन्नभोगस्य काले विगच्छिते तदा ॥४५६॥  
 साम्राज्यसंघनान्यस्य चक्रादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभूवद्यव चाविष्कृतौजसः ॥४५७॥  
 तेषु चक्रातपत्रासिद्धपदा शस्त्रगृहेऽभवन् । काकिणी चर्मचूलादिमणिश्च श्रीनिक्तेन ॥४५८॥  
 पुरोधाः स्थपतिः सेनापतिर्गृहपतिश्च ते । हास्तिनाख्यपुरे कन्यागजाश्च । खगभूधरे ॥४५९॥  
 नवापि निधयः पृथ्या नदीसागरसंगमे । तदानीमेव देवेशैरानीताः पुण्यचोदितैः ॥४६०॥  
 हस्याधिपत्यमासाद्य दशभोगाङ्गरुंगतः । तावत्येव गते काले स्वाकंकाराकन्यान्तरे ॥४६१॥

करते हैं यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तोंके समान उनके दोनो पैर रागी—रागसहित अथवा लालरंगके हो रहे थे ॥४४६॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है और सूर्य उष्ण है अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं हो सकते । हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूपर्णांग जातिके कल्पवृक्षके तेजके समान था ॥४४७॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके मुखकमलसे विमुख होकर उनकी ओर देखता रहता है तब उनकी कान्तिका क्या वर्णन किया जावे ? ॥४४८॥ जिस प्रकार महामणियोंसे निबद्ध देवीप्यमान उज्ज्वल सुवर्ण सुशोभित होता है उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे आभूषणोंका समूह सुशोभित होता था ॥४४९॥ अपने नामके सुनने मात्रसे ही जिन्होंने शत्रुरूपी हाथियोंके समूहका मद सुखा दिया है ऐसे राजाधिराज भगवान् शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दके समान सुशोभित होता था ॥४५०॥ उनकी कीर्तिरूपी लता जन्मसे पहले ही लोकके अन्त तक पहुँच चुकी थी, परन्तु उसके आगे आलम्बन न मिलनेसे वह वहीँपर स्थित रह गयी ॥४५१॥ उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था—अनेक कन्याओंके साथ उनका विवाह कराया था ॥४५२॥ प्रेमाभूतरूपी जलसे सींचे हुए स्त्रियोंके नीलकमलदलके समान नेत्रोंसे वे अपना हृदय धार-धार प्रसन्न करते थे ॥४५३॥ अपने मनरूपी धनको लूटनेवाली स्त्रियोंकी तिरछी चंचल लीलापूर्वक और आलस-भरी चितवर्णोंसे वे पूर्ण सुखको प्राप्त होते थे ॥४५४॥ इस तरह देव और मनुष्योंके सुख भोगते हुए भगवान्के जब कुमारकालके पचीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विश्वसेनेन उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया । क्रम-क्रमसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पचीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकट करनेवाले भगवान्के साम्राज्यके साधन चक्र, आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई ॥४५५-४५७॥ उन चौदह रत्नोंमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दण्ड ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे; काकिणी, चर्म और चूडामणि श्रीगृहमें प्रकट हुए थे, पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति हस्तिनापुरमें मिले थे और कन्या, गज तथा अश्व विजयाथर्व पर्वतपर प्राप्त हुए थे ॥४५८-४५९॥ पूजनीय नौ निधियाँ भी पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंके द्वारा नदी और सागरके समागमपर लाकर दी गयी थीं ॥४६०॥ इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब उनके

१ भूपणाङ्गकल्पवृक्षतेजस । २ शम् सुखम् एथिवान् प्राप्तवान् । ३ पञ्चविंशत् ल० ।

अलंकुर्वन्नित्रच्छायाद्वयमालोक्य दर्पणे । साश्रयं चिन्तयन्नेतत्किमित्यन्तर्गतं कृती ॥४६२॥  
 लब्धबोधिमतिज्ञानक्षयपशमसंपदा । स्वजन्मान्तरसंतानं स्मृत्वा निर्वेदमासवान् ॥४६३॥  
 घनच्छायासमाः सर्वसंपदः सशराहति- । विष्णुदुर्द्युतिवल्गुमीः काथो मायामयोऽपि वा ॥४६४॥  
 प्रातश्छायायुराध्मोयाः परकीया वियोगवत् । संयोगो हानिवत्तृद्धिर्जन्मेदं पूर्वजन्मवत् ॥४६५॥  
 इति चेतसि संपश्यन् सर्वमेतन्महोपतिः । निर्गन्तुमुद्ययौ गेहाद् दूरीकृतदुराशयः ॥४६६॥  
 तदा लौकान्तिका प्राप्य धर्मतीर्थस्य वर्द्धने । कालोऽयं तव देवस्य विरिचिच्छन्नसंततेः ॥४६७॥  
 इत्यत्रोचन् वचस्तेषामनुमत्य महामतिः । नारायणाय तद्राज्यं सुनवेऽश्राणयन्मुदा ॥४६८॥  
 ततः सुरगणाधीशविहितामिषवोस्सवः । युक्तिमद्वचनैर्वन्धून् मोचयित्वाग्रणीः सताम् ॥४६९॥  
 सर्वाथिसिद्धिं निचिकामारुह्य स मरुदृताम् । सहस्राश्रयनं प्राप्य कमनीयशिलातले ॥४७०॥  
 कुबेरदिङ्मुखो बद्धपत्यङ्गासनसुस्थितः । ज्येष्ठ्ये मास्यसिने पक्षे चतुर्दश्यपराह्णके ॥४७१॥  
 ऋक्षे षष्ठोपवासेन भरण्यां प्रणिधानवान् । कृतसिद्धनमस्कारस्यक्तवस्त्राद्युपच्छदः ॥४७२॥  
 पञ्चमुष्टिमिच्छुञ्च्य केशान् क्लेशानिवायतान् । जातरूपं हसन् दीप्त्या जातरूपमवाप्य स ॥४७३॥  
 सद्यः सामथ्रिकीं शुद्धिं समनःपर्ययामगात् । केशांस्तदैव देवेशो ज्वलत्पटलिकाश्रितान् ॥४७४॥  
 यथा बहुगुणीभूतानामोदमिलित्तालिभिः । पञ्चमाब्धिपतरङ्गाणां परभागे व्यघात्तराम् ॥४७५॥  
 चक्रायुधादि तद्राज्ञां सहस्रं सह संयमम् । शान्तिनाथेन सप्रापदापदामन्तकारिणा ॥४७६॥

पचीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब एक दिन वे अपने अलंकार-गृहके भीतर अलंकार धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दर्पणमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिखे । वे बुद्धिमान् भगव आश्चर्यके साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ? ॥४६१-४६२॥ उसी सम उन्हें बोधितो प्राप्ति हुई और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूर्व जन्मके सब वाते जानकर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥४६३॥ वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदा मेघोंकी छायाके समान है, लक्ष्मी, इन्द्रधनुष और बिजलीकी चमकके समान है, शरीर माया मय है, आयु प्रातःकालकी छायाके समान है—उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोग प समान हैं, संयोग-वियोगके समान है, वृद्धि हानिके समान है और यह जन्म पूर्व जन्मके समा है ॥४६४-४६५॥ ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥४६६॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर कह कि हे देव ! जिसकी चिरकालसे सन्तति टूटी हुई है ऐसे इस धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनका आपक यह समय है ॥४६७॥ महाबुद्धिमान् शान्तिनाथ चक्रवर्तीने लौकान्तिक देवोंकी वाणीका अनु मोदन कर अपना राज्य बड़े हर्षसे नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥४६८॥ तदनन्त देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिषेक किया । इस प्रकार सज्जनोंमें अग्रेसर भगवा युक्तिपूर्ण वचनोंके द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर देवताओंके द्वारा उठायी हुई सर्वार्थ सिद्धि नामकी पातकीमें आरूढ हुए और सहस्राश्रयनमें जाकर सुन्दर शिलातलपर उत्तरक ओर मुख कर पर्यकासनसे विराजमान हो गये । उसी समय ज्येष्ठशुक्ल चतुर्दशीके दिन सा समय भरणी नक्षत्रमें वेलाका नियम लेकर उन्होंने अपना उषयोग स्थिर किया, सिद्ध भग वान्को नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पंचसुद्धियोंके द्वारा लम्बे क्लेशों के समान केशोंको उखाड़ डाला । अपनी दीप्तिसे जातरूप—सुवर्णकी हँसी करते हुए उन्हें जातरूप—दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, और शीघ्र ही सामाथिक चारित्रसम्बन्धी विशुद्धता तथ मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया । इन्द्रने उनके केशोंको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें र लिया । सुगन्धके कारण उन केशोंपर आकर बहुत-से भ्रमर बैठ गये थे जिससे ऐसां जान पड़त था कि वे कई गुणित हो गये हैं । इन्द्रने उन केशोंको क्षीरसागरकी तरंगोंके उस ओर क्षेप दिय ॥४६९-४७५॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हजार राजाओंने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्र

१ सजातं म० । २ चतुर्दश्या पराह्णके म० । चतुर्थ्यामपराह्णके ल० । ३ प्रणिप्रणिधानवत् ल० ४ परं भाग ल० ।

भूयादस्माकमप्येवमित्याशासनतत्पराः । १ पुण्यपण्यं समादाय २ भक्तिमौल्येन सात्त्विकाः ॥४७७॥  
 पाकशासनमुखधात्र नाकलोकोग्मुख ३ ययुः । ४ स्वाशनाद् विश्वलोकैरे पवित्रं मन्दरं पुरम् ॥४७८॥  
 प्रविष्टाय प्रदावान्नं प्रासुकं परमोत्सवात् । सुमित्राख्यमहोपाळ. प्रापदाश्रयंपञ्चमम् ॥४७९॥  
 क्रमादेवं तपः कुर्वन्नुर्वाी सर्वा पवित्रयन् । तनूकृतकषायः सन् मोहारातिजिगीषया ॥४८०॥  
 बहुमिर्मुनिभिः सार्द्धं श्रीमान् चक्रायुधादिभिः । सहस्राभ्रवनं प्राप्य नन्धावतं तरोरथः ॥४८१॥  
 श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन धवले दशमीदिने । पौषे मासि दिनस्यान्ते पक्ष्यङ्कः सनमास्थितः ॥४८२॥  
 प्राङ्मुखो बाह्यसामग्रीं नैर्ग्रन्ध्यादिमवाप्तवान् । करणत्रयसंप्राप्तं क्षपकश्रेणिमभ्यगः ॥४८३॥  
 आरूढतुर्यं चारित्ररथो ५ धर्म्याभिधानभाक् । धरानासिहतमोहारिवीतरागोऽन्यसंयमः ॥४८४॥  
 द्वितीयशुक्लसद्धानचक्रविच्छिन्नवातिकः । एवं षोडशचर्षाणि छात्रस्थं भावमाश्रितः ॥४८५॥  
 निर्ग्रन्थो नीरजा बीलविभो विश्वैकवान्धवः । केवलज्ञानसाम्राज्यश्रियं शान्तामशिश्रियत् ॥४८६॥  
 तदा तीथकराख्योरुपुण्यकर्ममहामक्त् । संक्षोभितचतुर्भेदसुराम्भोधिविल्लसिततः ॥४८७॥  
 स्वसमुद्भूतसद्भक्तिवरज्ञानीतपूजनः । रत्नावलीमिरिस्थेत प्रार्थयत्प्राणभृत्पतिम् ॥४८८॥  
 चक्रायुधादयश्चास्य पटत्रिंशदराणनायकाः । शतान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाणां पारदर्शिनः ॥४८९॥  
 शून्यद्वितयवस्वेकचतुर्निर्मितशिक्षकाः । त्रिसहस्रावधिज्ञानसमुज्ज्वलविकोचनाः ॥४९०॥

शान्तिनाथ भगवान्के साथ संयम धारण किया था ॥४७६॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्यरूपी सौदा खरीद कर स्वर्गलोकके सन्मुख चले गये ॥४७७॥

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान् मन्दिरपुर नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाश्रयें प्राप्त किये ॥४७८-४७९॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथिवीको पवित्र किया और मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कुश किया ॥४८०॥ चक्रायुध आदिके अनेक मुनियोंके साथ श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथने सहस्राभ्रवनमें प्रवेश किया और नन्धावर्त वृक्षके नीचे वेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये । अत्यन्त श्रेष्ठ भगवान् पौष शुक्ल दशमीके दिन सायंकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे । पूर्वकी ओर मुख था, निर्ग्रन्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई क्षपक श्रेणीके मध्यमें अवस्थित थे, सूक्ष्मसाम्पराय नामक चतुर्थ चारित्ररूपी रथपर आरूढ थे, प्रथम शुक्लध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये । अन्तर्मुहूर्त वाद उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह वर्ष तक छात्रस्थ अवस्थाको प्राप्त रहे । मोहनीय कर्मका क्षय होनेसे वे निर्ग्रन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दर्शनावरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे वीतवित्र हो गये और समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्त केवलज्ञानरूपी साम्राज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥४८१-४८६॥ उसी समय तीर्थकर नामका बड़ा भारी पुण्यकर्मरूपी महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको क्षुभित करता हुआ बड़े वेगसे बह रहा था ॥४८७॥ अपने-आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्तिरूपी तरंगोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं ऐसे सब लोग रत्नावली आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्की पूजा करने लगे ॥४८८॥

उनके समवसरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणधर थे, आठ सौ पूर्वाके पारदर्शी थे, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, और तीन हजार अवधिज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे

१ पुण्य पण्य ल० । २ भक्तिमूल्येन प० । ३ लोकोत्सुका म०, ल० । ४ स्वाश्रमान् विश्वलोकेश ल० ।

५ सम्प्राप्ति म०, ल० । ६ श्रेष्ठ धर्म्यध्यान न भवति, अतः 'शुक्लाभिधानभाग' इति पाठः सुप्यु प्रतिभाति । अथवा चारित्रमोहस्य मन्वोदयसद्भक्तिवतया दशमगुणस्थाने यावत् विवक्षाविशेषतो धर्म्यध्यानमपि बहलाया प्रतिपादितं तदपेक्षया सगति करणीया ।



चतुःसहस्रसंख्योक्तकेवलावगमेश्वराः । षट्सहस्राणि संप्रोक्तविक्रियद्विभूयिताः ॥४९१॥  
 मनःपर्ययसद्बोधसहस्राणां चतुष्टयम् । शून्यद्वयचतुःषक्षलक्षिताः पूज्यवादिनः ॥४९२॥  
 ते द्विषष्टिसहस्राणि सर्वेऽपि मुनयो मताः । आर्यिका हरिषेणाद्या खद्वयत्रिखषट्मिताः ॥४९३॥  
 श्रावकाः सुस्कीर्त्याद्या लक्षद्वयनिरूपिताः । अर्हद्वास्यादिका प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणास्ततः ॥४९४॥  
 देवा देव्योऽप्यसंख्यातास्तियक्त्वाः संख्ययामिताः । इति द्वादशभिः सार्द्धं गणैः सद्मर्मादिशतः ॥४९५॥  
 विहरमासमात्राद्युः संमेदचलमागतः । व्यपेतव्याहृतिर्योगमास्थायाचलितं विशुः ॥४९६॥  
 ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वरात्रे कृतक्रियः । तृतीयशुक्लध्यानेन रुद्रयोगो विवन्धनः ॥४९७॥  
 अकारपञ्चकोच्चारमात्रकाले विथोगकः । चतुर्थशुक्लध्यानेन निराकृततनुत्रयः ॥४९८॥  
 भगवद्भरणिनक्षत्रे लोकाग्रं गुणविग्रहः । अतीतकाले ता. सिद्धा यत्रानन्ता निरञ्जनाः ॥४९९॥  
 चतुर्विधामराः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रुन्द्रभक्तयः । कृत्वान्त्येष्टिं तदागत्य स्वं स्वमावासमाश्रयन् ॥५००॥  
 चक्रायुधाद्योपेवमाध्यायान्व्यतनुत्रयम् । हित्वा नव सहस्राणि निर्धृतिं यतयोऽगमन् ॥५०१॥

### मालिनी

इति परममवाप्य ज्ञानदक्षसौख्यवीर्यं—

स्फुरिततनुनिवासव्याहृतिस्थानमुच्चैः ।

सुरपतिदृढपूज्यः शान्तिभट्टारको वो

दिशतु परमजसस्थानसंप्राप्तिमासः ॥५०२॥

शार्दूलबिक्रीडितम्

कर्माण्यष्ट सकारणानि सक्कान्धुन्मूल्य नैर्मल्यवान्

सम्पन्नश्चादिगुणाष्टकं निजमजः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः ।

॥४८९-४९०॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह हजार विक्रियात्रुद्धिके धारकों-से सुशोभित थे ॥४९१॥ चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सौ पूज्यवादी उनके साथ थे ॥४९२॥ इस प्रकार सब मिलाकर वासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सौ हरिषेणा आदि आर्यिकाएँ थीं, सुस्कीर्विको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अर्हद्वासी-को आदि लेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यच थे । इस प्रकार बारह गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे ॥४९३-४९५॥ विहार करते-करते जब एक माहकी आयु शेष रह गयी तब वे भगवान् सम्मेदशिखरपर आये और विहार बन्द कर वहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये ॥४९६॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशोके दिन रात्रिके पूर्व भागमें उन कृतकृत्य भगवान् शान्तिनाथने तृतीय शुक्लध्यानके द्वारा समस्त योगों-का निरोध कर दिया, बन्धका अभाव कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतने समय तक अयोग केवली अवस्था प्राप्त की । वहीं चतुर्थ शुक्लध्यान-के द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोकके अग्रभागपर जा विराजे । उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था । अतीत कालमें गये हुए कर्ममलरहित अनन्त सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये ॥४९७-४९९॥ उसी समय इन्द्रसहित, आलस्यरहित और बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार प्रकारके देव आये और अन्तिम संस्कार—निर्वाणकल्याणकी पूजा कर अपने-अपनेस्थानपर चले गये ॥५००॥ चक्रायुधको आदि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंको छोड़कर निर्वाणको प्राप्त हो गये ॥५०१॥

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख और वीर्यसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें निवास तथा परमोच्छ्र विहारके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ़ पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें ॥५०२॥ जो

स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्टं समाप्य स्फुटं  
 शान्तीशस्त्रिजगच्छिखामणिरभूदाविभवंरामासव ॥५०३॥  
 श्रोत्रेणः कुरुजः सुरः खगपतिर्देवो हलेशोऽमरो  
 यो वज्रायुधचक्रभृत्सुरपतिः प्राण्याहमिन्द्रं पदम् ।  
 पश्चान्मेवरथो मुनीन्द्रसहितः सर्वार्थसिद्धिं श्रितः  
 शान्तीशो जगदेकशान्तिरतुलां दिव्याच्छिखर्यं वश्रिम् ॥५०४॥  
 आदावनिन्दिताभोगभूमिजो विमलप्रभः । ततः श्रीविजयो देवोऽनन्तरीर्योऽनु नारकः ॥५०५॥  
 मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभूत्सहस्रायुधोऽजनि । ततोऽहमिन्द्रकल्पेशोऽनल्पद्विरभवत्ततः ॥५०६॥  
 च्युतो दृढरथो जज्ञे प्राज्ञो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरजक्रायुधो गणधरोऽक्षरः ॥५०७॥

मालिनी

इति हितकृतवेदी बद्धसौहार्दमात्रः  
 सकलजगद्बीशा शान्तिनाथेन सार्द्धम् ।  
 परमसुखपदं संप्राप चक्रायुषाङ्को  
 भवति किमिह नेष्टं संप्रथं गन्महद्भिः ॥५०८॥

शार्दूलविक्रीडितम्

अग्ने तावदिहासतां भगवतां मध्येऽपि तीर्थेशिनां  
 कोऽसौ द्वाद्वाजन्मसु प्रतिमंत्रं प्रापःप्रहृदि पराम् ।

कारणोंसे सहित समस्त आठों कर्मोंको उखाड़कर अत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके अष्ट महाप्रातिहार्यरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान् अनादि भूतकालमें जो कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे ॥५०३॥ जो पहले राजा श्रोत्रेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वज्रायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा पूजित होकर सर्वार्थसिद्धि गये, और फिर वहाँसे आकर जगत्को एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवान् हुए वे सोलहवें तीर्थंकर तुम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहें ॥५०४॥ जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्रायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमाम् दृढरथ हुआ, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षर—अविनाशी-सिद्ध हुआ ॥५०५-५०७॥ इस प्रकार अपने हित और किये हुए उपकारको जाननेवाले चक्रायुधने अपने भाईके साथ सौहार्द धारण कर समस्त जगत्के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्के साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ? ॥५०८॥ इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिए श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवान् तीर्थंकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने वारह भवोंमें-से प्रत्येक भवमें बहुत भारी बुद्धि प्राप्त की

सुवत्सा शान्तिजिनं ततो बुधजना ध्यायन्तु सर्वोत्तरं<sup>१</sup>  
 ३ सावं शान्तिजिनेन्द्रमेव सततं शान्तिं स्वयं प्रेप्सवः ॥५०९॥  
 ध्वस्तौ मुक्तिपथः पुरुप्रभृतिभिर्देवैः पुनर्दक्षितः  
 किन्स्वन्तं प्रथितावधेर्गमयितुं कोऽपि प्रभुर्नाभवत् ।  
 देवेनाभिहितस्त्वनेन समगादभ्याहतः स्वावधिं  
 तच्छान्तिं समुपेत तत्रभवतामाद्यं गुरुं धीधनाः ॥५१०॥

ह्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शान्तिचक्रधरतीर्थकरपुराणं  
 परिसमाप्तं-त्रिषष्टितमं पर्व ॥६३॥

हो ? इसलिए हे विद्वान् लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सबसे उत्तम और सबका भल करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । ॥५०९॥ भोगभूमि आदि कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका तदनन्तर भगवान् शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधाके अप अवधिको प्राप्त हुआ । इसलिए हे बुद्धिमान् लोगो ! तुम लोग भी आद्यगुरु श्री शान्तिना भगवान्की शरण लो । भावार्थ—शान्तिनाथ भगवान्ने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया थ वही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आद्यगुरु श्री शान्तिना भगवान् ही है । उनके पहले पन्द्रह तीर्थकरोंने जो मोक्षमार्ग चलाया था वह बीच-बीच बिनष्ट होता रहा है ॥५१०॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें शान्तिना तीर्थकर तथा चक्रवर्तीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## चतुःषष्टितमं पर्व

ग्रन्थान् कन्यामिव त्यक्त्वा सद्ग्रन्थान् मोक्षगामिनः ।

रक्षन् सूक्ष्मांश्च कुन्धुभ्यः कुन्धु पान्थान् स पातु वः ॥ १ ॥

द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य सीतादक्षिणकूलगे । वत्साख्यविषये राजा सुसीमानगराधिपः ॥२॥

अभूत् सिंहरथो नाम श्रीमान् सिंहपराक्रमः । संहतानपि विद्विष्टान् महिम्नीव वशं नयन् ॥३॥

मयादिव तमंहोऽरिर्द्विहितन्यायवृत्तकम् । दण्डिताखिलभूचक्रं नादौकिष्टातिदूरतः ॥४॥

भोगानुभव एवास्मै शास्त्रमार्गानुसारिणे । अदितामुत्रिकीं सिद्धिमैहिकीं चास्तविद्विषे ॥५॥

स कदाचिद् दिवोत्कायाः पातमालोक्य कल्पयन् । इयं मोहमहारातिं विधातायेति चेतसा ॥६॥

तद्देवापेत्य नत्वाषिद्वृषमं यतिपूर्वकम् । श्रुत्वा तद्बुद्धित भक्त्या धर्मतत्त्वस्य विस्तरम् ॥७॥

स्यां समाहितमोहोऽहं यद्युक्तासूचितापदः । ममेवेति विचिन्त्याशु सुधीर्मोहजिहासया ॥८॥

राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीशुभैः (?) । बहुभिः संयमं प्राप्य विदुषैकादशाङ्गकः ॥९॥

वद्व्या तत्कारणैस्तीर्थकरनामादिकं श्रुमन् । स्वयुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुत्तरम् ॥१०॥

अन्वभूद्प्रवीचारं सुखं तत्रास्तकौतुकम् । मानसं माननीयं यन्मुनीनां चापरागजम् ॥११॥

इह जन्ममति द्वीपे भरते कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्यपुराधीशः कौरवः काश्यपान्वयः ॥१२॥

जिन्होंने कन्याके समान सब परिग्रहोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करनेवाले सद्ग्रन्थोंकी तथा कुन्धुसे अधिक सूक्ष्म जीवोंकी रक्षा की वे कुन्धुनाथ भगवान् मोक्ष नगर तक जानेवाले तुम सब पथिकोंकी रक्षा करे ॥१॥ इसी जन्मद्वीपके पूर्वविदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश है । उसके सुसीमा नगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था । वह श्रीमान् था, सिंहके समान पराक्रमी था और बहुत-से मिले हुए शत्रुओंको अपनी महिमासे ही वश कर लेता था ॥२-३॥ न्यायपूर्ण आचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त पृथिवीमण्डलको दण्डित करनेवाले उस राजाके सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते थे—दूर-दूर ही बने रहते थे ॥४॥ शास्त्रमार्गके अनुसार चलनेवाले और शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो भोगानुभव प्राप्त था वही उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था ॥५॥ वह राजा किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोहरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है ॥६॥ उसने उसी समय यति-वृषभ नामक मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए धर्मतत्त्वके विस्तारको बड़ी भक्तिसे सुना ॥७॥ वह बुद्धिमान् विचार करने लगा कि मैं मोहसे जकड़ा हुआ था, इस उल्काने ही मुझे आपत्तिकी सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सौंप दिया और बहुत-से राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका वन्द्य किया । आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वह अन्तिम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥८-१०॥ वहाँ उसने वड़े कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय तथा चीतरागतासे उत्पन्न हुआ था ॥११॥

इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हरित्तिनापुर नामका नगर है उसमें

१ वत्साख्यविजये (?) ग०, । वत्साख्यनगरे (?) ख० । २ दिपिताखिल—क०, ख०, घ० । काङ्क्षिताखिल—म० । ३ आदिता-क०, घ० । ४ नत्वापि ख०, ग० । नन्वापि ल० । ५ धर्मतीर्थस्य ख० । ६ सूचितापदः ल० । ७ तत्रास्तकौतुकम् ख० । ८ हास्तिनाख्य ख०, ग०, ल० ।

सूरसेनो महाराजः श्रीकान्तास्याप्रवल्गुमा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामाप्तवती सती ॥१३॥  
 भागे मनोदरे यामे दक्षस्थां निशि पश्चिमे । श्रावणे बहुले पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाह्वये ॥१४॥  
 सर्वार्थसिद्धिदेवस्थ स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टषोडशसुस्वप्ना गजं वक्त्रप्रवेशिनम् ॥१५॥  
 निशम्य यामभेर्यादिमङ्गलध्वनिबोधिता । कृतनित्यक्रिया स्नात्वा धृतमङ्गलमण्डना ॥१६॥  
 आसौः कतिपयैरेव वृत्ता विद्युद्विलासिनी । स्रोतयेन्ती सदोद्योम साक्षाद्भूमिरीवापरा ॥१७॥  
 कृतानुरुपविनया मत्तुरर्द्धासने स्थिता । स्वप्नावली निवेशास्माद्द्विदत्वावधिचिक्षणात् ॥१८॥  
 फलान्यनुक्रमात्तेषां विकसद्ददनाम्बुजा । नक्षिनीवांसुस्पर्शाङ्गुष्णाङ्गोरतुपत्तराम् ॥१९॥  
 तदैवानिमघाधीशाः कल्याणामिषवं तयोः । विधाय बहुधाभ्यर्च्य तोषयित्वा यद्युदिवम् ॥२०॥  
 शुक्तिमुक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गर्भिणी । क्रोडीकृता सृताभीषुमेघरेखेव चावभौ ॥२१॥  
 नवमे मासि वैशाखशुक्लपक्षादिमे दिने । सासूताग्नेययोगे वा विभुं तमपरा दिक्षा ॥२२॥  
 तुरासाहं पुरोधाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमर्कं नीत्वा क्षीरसैन्धववारिभिः ॥२३॥  
 अभिषिच्य विभूत्सैनं कुन्धुमाहूय संजया । समानीय समप्यथन् पित्रोरावासमात्मनः ॥२४॥  
 शान्तीशतीर्थसंतानकालेऽत्रनि जिनेश्वरः । पलयोपमाद्धं पुण्यान्विषस्तदभ्यन्तरजीवितः ॥२५॥  
 समाः पञ्चसहस्रोनक्षत्राः संवत्सरस्थितिः । पञ्चत्रिंशद्वसुः काथो निष्टाष्टापदद्युतिः ॥२६॥  
 खपञ्चसुनिवह्निद्विप्रमसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काले च राजताम् ॥२७॥

कौरववंशी काश्यपगोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे । उनकी पट्टरानीका नाम श्रीका-  
 था । उस पतिव्रताने देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी ॥१२-१३॥ श्राव  
 कृष्ण दशमोंके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नक्षत्रमें ज  
 सर्वार्थसिद्धिके उस अहमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेको आयी तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अप  
 मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥१४-१५॥ प्रातःकाल भेरी आदिके मांगलिक  
 सुनकर जगी, नित्य कार्य कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने और कुङ्कु प्रामा  
 लोगोंसे परिवृत होकर बिजलीके समान सभारूपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दू  
 लक्ष्मीके समान राजसभामें पहुँची । वहाँ वह अपनी योग्यताके अनुसार विनय कर प  
 अर्धासनपर विराजमान हुई । अबधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पतिको सब स्व  
 सुनाये और उनसे उनका फल मालूम किया । अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखक  
 इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमलिनी खिल उठती  
 ॥१६-१९॥ उसी समय देवोंने महाराज सूरसेन और महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्या  
 सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की और सन्तुष्ट होकर स्वर्गकी ओर प्रया  
 किया ॥२०॥ जिस प्रकार मुक्ताविशेषसे सीप गर्भिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रान  
 श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी और जिस प्रकार चन्द्रमाको गोदीमें धारण करनेवाली मेघोंकी रेख  
 सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भमें धारण करती हुई रानी श्रीकान्ता सुशोभि  
 हो रही थी ॥२१॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाको उदित करती है उसी प्रका  
 रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यतीत होनेपर वैशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन आने  
 योगमें उस पुत्रको उदित किया—जन्म दिया ॥२२॥ उसी समय इन्द्रको आगे कर समर  
 देव और धरणेन्द्र आये, उस बालकको सुमेरु पर्वतपर ले गये, क्षीरसागरके जलसे उनक  
 अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंकृत किया, कुन्धु नाम रखा, वापस लाये, माता-पिताक  
 समर्पण किया और अन्तमें सब अपने स्थानपर चले गये ॥२३-२४॥ श्रीशान्तिनाथ तीर्थ  
 करके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पल्य बीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्धुनाथ भगवा  
 उपन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥२५॥ पंचानवे हजार वर्षके  
 उनकी आयु थी, पैतृस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थ  
 ॥२६॥ तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ थ

निजजन्मदिने<sup>१</sup> चक्रिणक्ष्मीं संप्राप्य संमदात् । दशाङ्गनोगान्निर्विड्य निःप्रतीपं<sup>२</sup> निरन्तरम् ॥२८॥  
 षडङ्गवलयसंयुक्तः कदाचित्कीदितुं वनम् । गत्वा रंत्वा चिरं स्वैरं निवृत्त्यायन्पुनः पुरम् ॥२९॥  
 मुनिमातपर्वणेन स्थितं कंचिन्निरूपयत् । मन्त्रिणं प्रति तर्जिन्या पश्य पश्यति चक्रभृत् ॥३०॥  
 स तं निरीक्ष्य तत्रैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैवं दृष्ट्वरं कुर्वस्तपः किं फलमाप्स्यति ॥३१॥  
 इत्यप्राक्षीन्नुपोऽप्यस्य भूयः स्मेरमुखोऽवदत् । भवेऽस्मिन्नैव निर्मूल्यं कर्माण्याप्नोति निर्दुलितम् ॥३२॥  
 न चेदेवं सुरेन्द्रत्वचक्रवर्तिवगोचरम् । सुखमभ्युदयं युक्त्वा क्रमाच्छाश्वतमेप्यति ॥३३॥  
 अपरित्यक्तसङ्गस्य भवे पर्यटनं भवेत् । इत्युच्चैर्मुक्तिसंसारकारणं<sup>३</sup> परमार्थं वित् ॥३४॥  
 कालो माण्डलिंक्षत्वेन थावाक्रीतः सुखायुषा । तावत्येव ममानीय महच्छक्रवर्तिताम् ॥३५॥  
 विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखलिप्सया । स्वातीतभवबोधेन ऋषबोधिर्दुर्धोचमः ॥३६॥  
 सारस्वतादिस्तोत्रमपि संभाष्य सादरम् । स्वजे निधोऽयं राजस्य भारं निष्क्रमणोत्सवम् ॥३७॥  
 स्वयं संप्राप्य देवेन्द्रैः शिविकां विजयातिधाम् । आरुह्यामरसवाह्यां सहेतुकवनं प्रति ॥३८॥  
 गत्वा षष्ठोपवासेन संयमं प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपक्षदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥३९॥  
 सहस्रेणाप तुयावबोधं च दिवसात्थये । पुरं हास्तिनमन्येषुस्तस्मै गतवतेऽदित ॥४०॥  
 आहारं धर्ममित्राक्यः प्राप चाश्रयंषड्भक्तम् । कुर्वन्नेवं तपो धोरं नीत्वा षोडशवत्सरान् ॥४१॥  
<sup>१</sup>निजदीक्षावने षष्ठेनोपवासेन शुद्धिमाक् । तिष्ठकद्रुममूकस्थश्चैत्रज्योत्स्नापरारुहके ॥४२॥

और इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिके दिन चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिली थी । इस प्रकार वे बड़े हर्षसे बाधा रहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे ॥२७-२८॥ किसी समय वे षडंग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए वनमें गये थे वहाँ चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीडा कर वे नगरको वापस लौट रहे थे ॥२९॥ कि मार्गमें उन्होंने किसी मुनिको आतप योगसे स्थित देखा और देखते ही मन्त्रीके प्रति तर्जनीं अंगुलीसे इशारा किया कि देखो । मन्त्री उन मुनिराजको देखकर वहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे वैश ! इस तरहका कठिन तप कर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ॥३०-३१॥ चक्रवर्ती कुन्थुनाथ हैंसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोंको नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करेंगे । यदि निर्वाण न प्राप्त कर सकेंगे तो इन्द्र और चक्रवर्तीके सुख तथा ऐश्वर्यका उपभोग कर क्रमसे शाश्वतपद-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ॥३२-३३॥ जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिभ्रमण होता है । इस प्रकार परमार्थको जाननेवाले भगवान् कुन्थुनाथने मोक्ष तथा संसारके कारणोंका निरूपण किया ॥३४॥ उन महानुभावने सुखपूर्वक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्त कर व्यतीत किया था ॥३५॥ तदनन्तर, अपने पूर्वभवका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ भगवान् कुन्थुनाथ निर्वाण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे राज्यभोगोंमें विरक्त हो गये ॥३६॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने आकर बड़े आदरसे उनका स्तवन किया । उन्होंने अपने पुत्रको राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया । तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य विजया नामकी पालकी-पर सवार होकर वे सहेतुक वनमें गये । वहाँ वेलाका नियम लेकर जन्मके ही मास पक्ष और दिनमें अर्थात् वैशाखशुक्ल प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नक्षत्रमें सार्यकालके समय एक हजार राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ धर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किये । इस प्रकार धोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये ॥३७-४१॥ किसी एक दिन

१ चक्रिणक्ष्मी इति पाठः शुद्धो माति । २ नि प्रतीपं इति पाठो भवेत् । ३ कारणं ल० ।  
 ४ जिनदीक्षा ल० ।

कृत्तिकायां तृतीयायां कैवल्यमुदापदयत्<sup>१</sup> । मुदा तत्कालसंप्राप्तसर्वाभिरसमथितम्<sup>२</sup> ॥४३॥  
 प्रार्थ्यं चतुर्थकल्याणपूजाविधिमवाप सः । तस्य स्वयंभूनामाथाः पञ्चत्रिंशद्गणेशिनः ॥४४॥  
 शतानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमाः । खपन्वैकत्रिवादभ्युक्ताः शिक्षका लक्षिताशयाः ॥४५॥  
 खड्ग्येन्द्रियपक्षोक्तास्तृतीयावगमामलाः । शून्यद्वेषद्विवह्वयुक्ताः केवलज्ञानभास्वराः<sup>३</sup> ॥४६॥  
 खड्ग्यैकेन्द्रियज्ञातविक्रियर्द्धिविभूषणाः । त्रिंशतत्रिसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥४७॥  
 पञ्चाशद्द्विसहस्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः । सर्वे ते पिण्डिताः पटिसहस्राणि यमेश्वराः ॥४८॥  
 भाविताथार्थिकाः शून्यपञ्चवह्निरूपगमिताः । त्रिकक्षाः श्राविका लक्षद्रव्यं सर्वेऽप्युपासका ॥४९॥  
 देवदेव्यस्त्वसंख्यातास्तिर्यङ्गः संख्यया मितः । दिव्येवध्वनिनामीषां कुर्वन्धर्मोपदेशानाम् ॥५०॥  
 देशान् विद्वह्य मासायुः संमेदाचलमास्थितः । प्रतिमायोगमादाय सहस्रमुनिभिः सह ॥५१॥  
 वैशाखव्यौस्त्रपक्षदिदिने रात्रेः पुरातने । भागे कर्माणि निर्मूल्य कृत्तिकायां निरञ्जनः ॥५२॥  
 प्राप्तगोर्वाणनिर्वाणपूजः प्रापत्परं पदम् । संशुद्धज्ञानवैराग्यसावाधमभिनश्वरम् ॥५३॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

आसीत् सिंहरथो नृपः पृथुतपाः सर्वार्थसिद्धीश्वरः  
 कल्याणद्वयभाक् षडङ्गशिविरखलोक्यमुख्यार्चितः ।  
 प्राप्तात्माष्टगुणस्त्रिविष्टपशिखाप्रोद्भासिचूडामणि-  
 दिंश्याद्दः श्रियमप्रतीपमहिमा कुन्धुर्जिनः शाश्वतीम् ॥५४॥

विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान् वेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके वनमें तिल वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहीं चैत्रशुक्ला तृतीयाके दिन सार्यकालके समय कृत्तिका नक्षत्र ऊन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हर्षके साथ सब देव आये । सबने प्रार्थना चतुर्थकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयम्भूको आदि लेकर पैंतीस गणधर थे, सात सौ मुनिरा पूर्वाके जानकार थे, तैंतालीस हजार एक सौ पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हज एक सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी थे, दो हजार पचा प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके सा थे ॥४२-४८॥ भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सौ पचास आर्थिकाएँ थीं, तीन ला श्राविकाएँ थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यच थे । भगवा दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे ॥४९-५०॥ इस प्रक अनेक देशोंमें विहार कर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदशिखर पहुँचे । वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ ऊन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोंको उखाड़ परमपद प्राप्त कर लिया । अब वे निरञ्जन-कर्मकलंकसे रहित हो गये । देवोंने उनके निर्वा कल्याणककी पूजा की । उनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण त अविनाशी था ॥५१-५३॥

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरण कर सर्वार्थसिद्धिके स्वामी हु फिर तीर्थकर और चक्रवर्ती इस प्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंके स्वामी तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, तीन लोकके शिखरपर चूडामणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधासे रहित थी

१ - मुपपादयत् ल० । २ समथितः ख० । ३ भास्कराः ल० । ४ देव्यस्त्वसंख्याता म०, घ०, दे देव्योऽप्यसंख्या- ल० । ५ तिर्यगनाः ग०, ख०, म०, तिर्यवका. ल० ।

देहज्योतिषि यस्य शाकलहिता. सर्वेऽपि मग्नाः सुरा  
 ज्ञानज्योतिषि पञ्चतस्वसहितं लभं नमश्चाखिलम् ।  
 लक्ष्मीधामदधद्विभूतविततध्वान्तः स धामद्वयं  
 पन्थानं कथयेत्वनन्तगुणभृत्कुन्धुर्भवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते कुन्धुचक्रधरतीर्थकरपुराणं  
 परिसमाप्तं चतुःषष्टितमं पर्व ॥ ६४ ॥



श्रीकुन्धुनाथ भगवान् तुम सबके लिए अविनाशी-मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें ॥६४॥ जिनके शरीर-  
 की कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पंचद्रव्य सहित  
 समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान है, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट  
 कर दिया, जो आभ्यन्तर और बाह्यके भेदसे दोनों प्रकारके तेजको धारण करते हैं और जो  
 अनन्तगुणोंके धारक हैं ऐसे श्रीकुन्धुनाथ भगवान् तुम सबके लिए मोक्षका मार्ग प्रदर्शित  
 करें ॥ ५५ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें कुन्धुनाथ  
 तीर्थकर और चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला चौसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥





## पञ्चषष्ठितमं पर्व

सरतारं परं सारं<sup>१</sup> नरनाथकृतानतिम् । अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारणम् ॥ १ ॥  
 द्वापे जम्बूद्वीपस्थिते सीतोत्तरतटाश्रिते । कच्छाख्यविषये क्षेमपुराधीशो महीपतिः ॥ २ ॥  
 नाम्ना धनपतिः पाता प्रजानां जनतामिषः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे स्म प्रस्तुतानिश्चम् ॥ ३ ॥  
 विनार्थिभिरपि त्यागी विनाप्यरिभिरुद्यमी । तर्पिताधिनि धृतारौ तस्मिंस्ती सहजौ गुणौ ॥ ४ ॥  
<sup>२</sup>स्ववृत्त्यनुगमेनैव वर्गत्रयनिषेविणः । राजा प्रजाश्च राज्येऽस्मिंस्तत्र धर्मव्यतिक्रम ॥ ५ ॥  
 कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वाहंन्नन्त्रतीर्थंक्रुद् । दिव्यध्वनिसमुद्भूतं<sup>३</sup> धर्मसारसायनम् ॥ ६ ॥  
 विरज्य राज्यभोगात्तरसाद्द्राव्यं निजात्मजे । नियोज्य संक्षु प्रब्रज्यां जैर्नी जन्मान्तकारिणीम् ॥ ७ ॥  
 आसाद्यैकादशाङ्गोरुपारावारस्य पारगः । द्वयष्टकारणसंबद्धतीर्थंक्रुन्नामपुण्यकृत ॥ ८ ॥  
<sup>४</sup>प्रायोपगमनेनापत्स जयन्नेऽहमिन्द्रताम् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्रमुद्रोपमायुर्हस्ततनुप्रम ॥ ९ ॥  
 शुक्लेत्रयाद्वयः सार्द्धैर्मसै षोडशभिः श्वसन् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्तवर्षैर्मानसमाहरन् ॥ १० ॥  
 अमृतं लिःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननिर्णतोक्तो कनाड्यर्थाद्विस्तृतिः ॥ ११ ॥  
 स्वावधिज्ञाननिर्णतप्रकाशवद्विक्रियः । अतिप्रज्ञानतरागादिराक्षीकृतनिर्वृतिः ॥ १२ ॥  
 सद्बोधोदयसंभूतमन्त्रमुद् भोगसुत्तमम् । उदितोदितपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तामस्त्रिभुवः ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अने राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरनाथ तीर्थंकरकी तुम सब लो सेवा करो—उनकी शरणमें जाओ ॥१॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक ७ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें धनपति नामका राजा राज्य करता था । वह प्रजाक रक्षक था और लोगोंको अत्यन्त प्यारा था । पृथिवीरूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोर पूर्ण किया करती थी ॥२-३॥ याचकोंको सन्तुष्ट करनेवाले और शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उ राजामे ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकोंके विना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओं न रहनेपर भी उद्यम किया करता था ॥४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपन वृत्तिके अनुसार त्रिवर्गका सेवन करते थे इसलिए धर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥५॥ किसी एक दिन उस राजाने अर्हन्नन्दन तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रेष्ठधर्मरूपी रसा यनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्र के लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्म-मरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ल ॥६-७॥ ग्यारह अंगरूपी महासागरके पारगामी होकर उसने सोलह कारणभावनाओंके द्वार तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया । अन्तमें प्रायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जय-विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ तैतीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, एक हा ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावके भेदसे दोनो प्रकारकी शुक्ल लेश्याएँ थीं, वह साढ़े सोल माहमें एक बार श्वास लेता था, और तैतीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृत आहार ग्रहण करता था । प्रवीचाररहित सुखरूपी सागरका पारगामी था, अपने अवधिज्ञान के द्वारा वह लोकनाडीके भीतर रहनेवाले पदार्थोंके विस्तारको जानता था ॥८-११॥ उस अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विक्रिया ऋ थी । उसके राग-द्वेष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोक्ष उसके निकट आ चुक था ॥ १२ ॥ वह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करता था

द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कुरुजाङ्गल -<sup>१</sup> हस्तिनाख्यं पुरं तस्य पतिगोत्रेण काश्यपः ॥११४॥  
 सोमवंशसमुद्भूतः<sup>२</sup> सुदर्शनममाह्वय । मित्रसेना महादेवी प्राणोभयोऽप्यस्य बह्वना ॥११५॥  
 वसुधारादिकां पूजां प्राप्य प्रीताञ्जुफलगुणे । माझेऽसितवृतीयायां रेवत्यां निशि पश्चिमे ॥११६॥  
 भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टपोढशसुस्वप्ना फलं तेषु निजाधिपम् ॥११७॥  
 अनुयुज्यावधिज्ञानतदुक्फलकसश्रुते । प्राप्तत्रैकोक्यराज्येव प्रासीदत्परमोदया ॥११८॥  
<sup>३</sup> तदागतामराभीषकृतवक्ष्याणसंमदा । निर्हुवा निमंदा नित्यरम्या सौम्याना शुचि ॥११९॥  
 संवाह्यमाना देवीमिस्तत्कालोचितं वस्तुभिः । मेघमालेन सद्गर्भसुद्वहन्वी जगद्धितम् ॥१२०॥  
 मार्गशीर्षं सिंते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तियौ त्रिविधसद्गोर्धं तनूजसुदपीपद्वं ॥१२१॥  
 तस्य जन्मोत्सवस्थाल वर्णनाथ मरुदराः । यदि स्वर्गं समुद्राख्यं सर्वेऽप्यत्र सजानयः ॥१२२॥  
 अत्यल्पं तृप्तिमापन्न दीनानाथवनीपका । इतीदमिह संप्राप्तं यदि तृप्ति जगत्त्रयम् ॥१२३॥  
 कुण्ठतीर्थशंसंताने पश्ये तुर्याशंसन्ति । सहस्रकोटिवर्षाने तदभ्यन्तरजीवित ॥२४॥  
 भरो जिनोऽजनि श्रीमानशौलिं चतुरुत्तराम् । वत्सराणां सहस्राणि परमायुः समुद्रहन् ॥२५॥  
 त्रिंशत्पातनृत्सेष चारुचामीकरच्छवि । लावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यवस्थाकरः परः ॥२६॥  
 सौन्दर्यस्य समुद्रोऽयमालयो रूपसपद । गुणाः किमस्मिन् संभूताः किं गुणेष्वस्य संभवः ॥२७॥

इस तरह प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हुआ—वहाँसे च्युत होनेके सम्मुख हुआ ॥१२३॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें कुरुजांगल नामका देश है । उसके हस्तिनापुर नगरमें सोमवंशमें उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था । उसकी प्राणोसे भी अधिक प्यारी मित्रसेना नामकी रानी थी ॥१४-१५॥ जब धनपतिके जीव जयन्त विमानके अहमिन्द्रका स्वर्गसे अबतार लेनेका समय आया तब रानी मित्रसेनाने रत्नवृष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बढ़ी प्रसन्नतासे फाल्गुन शुक्ल वृत्तीयाके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पिछले ग्रह सोलह स्वप्न देखे । सवेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल पूछा । तदनन्तर परम वैभवको धारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्नका फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥१६-१८॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने जिसके गर्भकल्याणकका उत्सव किया है, जो अत्यन्त सन्तुष्ट है, मदरहित है, निरन्तर रमणीक है, सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंके द्वारा देवियों जिसकी स्तुति किया करती है, और जो मेघमालाके समान जगतका हित करनेवाला उत्तम गर्भ धारण करती है ऐसी रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्ल चतुर्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीन ज्ञानोंसे सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१९-२१॥ उनके जन्मके समय जो उत्सव हुआ था उसका वर्णन करनेके लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खाली कर यहाँ आये थे ॥२२॥ उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग सन्तोषको प्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए थे ॥२३॥ श्रीकुण्डनाथ तीर्थकरके तीर्थके वाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पत्थका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवान्का जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । भगवान् अरनाथकी उत्कृष्ट-श्रेष्ठतम आयु चौदासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था, सुवर्णके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकी श्रेष्ठ खान थे, भगवान्को देखकर शंका होती थी कि ये सौन्दर्यके सागर-है या सौन्दर्य सम्पत्तिके घर है, गुण इनमें उत्पन्न हुए है या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्वयं गुणमय हैं—गुणरूप

<sup>१</sup> हस्तिनाख्य ख०, ग० । <sup>२</sup> समुद्भूतसु-ल० । <sup>३</sup> प्रीत्यानु घ०, ल० । <sup>४</sup> प्रसीदत् ल० । <sup>५</sup> ततो-गता ल० । <sup>६</sup> सस्तुभिः ल० । <sup>७</sup> -मृदयौयत् ल० । <sup>८</sup> समुद्रास्य क०, ख०, ग०, घ० । <sup>९</sup> -जिनश्री-ल० ।

अभूद्गुणमयः किं वेत्याशङ्कां स नयन् जनान् । अवर्द्धत समं लक्ष्म्या बालकल्पद्रुमोपमः ॥२८॥  
 तस्य शून्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवत्सरैः । गते कुमारकालेऽभूद्वाज्यं माण्डलिकोचितम् ॥२९॥  
 तावत्त्वेव गते काले तस्मिन् सकलचक्रिणा । भोगान्समन्वभूद्भ्रागे तृतीये स निजाद्युषः ॥३०॥  
 कदाविच्छारदाम्भोदविलयं प्रतिलोकनात् । समुद्भूतस्वजन्मोपयोगबोधि सुरोत्तमैः ॥३१॥  
 प्रबोधितोऽनुवादेन दत्त्वा राज्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढावधिष्ठितः ॥३२॥  
 शिशिकां वैजयन्त्याख्यां सहेतुकवनं गतः । दीक्षां षष्टोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥३३॥  
 शुक्लेऽगान्मार्गशीर्षस्य सायाह्ने भूसुजां सह । सहस्रेण चतुर्ज्ञानधारी च समजायत ॥३४॥  
 सम्यगेवं तपः कुर्वन् कदाचित्त्वाराणादिने । प्रायाच्चक्रपुरं तस्मै दत्त्वाज्ञमपराजितः ॥३५॥  
 महीपतिः सुवर्णामः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । छाद्यस्थेनागमंस्तस्य मुनेर्वर्षाणि षोडश ॥३६॥  
 ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां शुक्लपक्षेऽपराह्णे चूततरोरधः ॥३७॥  
 षष्टोपवासेनाहस्य घातीन्याहृत्यमासदत् । सुराश्चतुर्थकल्प्याणे संभूयैतमपूजयन् ॥३८॥  
 कुम्भार्थया गणेशोऽस्य त्रिंशत्पूर्वाङ्गवेदिनः । शून्यैकषट्मिता ज्ञेया शिक्षकाः सूक्ष्मद्वयः ॥३९॥  
 पञ्चदह्यष्टपञ्चाविनमितास्त्रिज्ञानधारिणः । शून्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवलज्ञानलोचनाः ॥४०॥  
 तावन्तः सद्ग्यारम्यब्धिनिमितां विक्रियद्विकाः । करणेन्द्रियखट्वयुक्ता मन पर्ययबोधनाः ॥४१॥  
 शतानि षट्सहस्रं च तत्रानुचरवादिनः । सर्वे ते संघिताः पञ्चाशत्सहस्राणि संयताः ॥४२॥  
 ज्ञेयाः षष्टिसहस्राणि यक्षिलाप्रमुखार्थिकाः । लक्षाः षष्टिसहस्राणि श्रावकाः श्राविकाश्च ताः ॥४३॥

ही हैं । इस प्रकार लोगोंको शांका उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवा भगवान् लक्ष्मीके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥२४-२८॥ इस प्रकार कुमार अवस्था इक्कीस हजार वर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरके योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ था । इस तरह भोग भोग हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरदऋतुके मेघोंका अकस्मात् विलय हो जाना देखकर अपने जन्मको सार्थक करनेवाला वैराग्य उत्पन्न हो गया । उस समय लौकान्तिक देवोंने उनके विचारोंका समर्थन कर उन्हें प्रबोधित किया और वे अरविन्द कुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर देवोंके द्वारा उठायी हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवा हो सहेतुक वनमें चले गये । वहाँ वेलाका नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ला दशमीके रेवती नक्षत्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा धार करते ही वे चार ज्ञानके धारी हो गये ॥२६-३४॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी स पारणाके दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा अपराजितने उन आहार देकर पंचाश्रय प्राप्त किये । इस तरह मुनिराज अरनाथके जब छद्मस्थ अवस्थाके सोल वर्ष व्यतीत हो गये ॥३५-३६॥ तब वे दीक्षावनमें कार्तिक शुक्ल द्वादशीके दिन रेवती न - सार्थकालके समय आम्रवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर विराजमान हुए । उसी समय घातिय कर्म नष्ट कर उन्होंने अर्हन्तपद प्राप्त कर लिया । देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकर्म उनकी पू की ॥३७-३८॥ कुम्भार्थको आदि लेकर उनके तीस गणधर थे, छह सौ दश ग्यारह अंग चौद पूर्वके जानकार थे, पैतीस हजार आठ सौ पैतीस सूक्ष्म बुद्धिको धारण करनेवाले शिक्षक ॥३९॥ अट्ठाईस सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, तैतालीस सौ विक्रिया ऋ धारण करनेवाले थे, बीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे ॥४०-४१॥ और सोलह सौ श्रेष्ठवाद थे । इस तरह सब मिलाकर पचास हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥४२॥ यक्षिलाको आ लेकर साठ हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख साठ हजार श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्या देव थे और संख्यात तिर्यच थे । इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान् भगवा

लक्षत्रयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । त्रिगम्भेदाच्च संख्याता वृत्तो द्वादशभिर्गणैः ॥ ४४ ॥  
 एभिर्धर्मोपदेशार्थं व्यहरद्विषयान् सुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्भेद्गिरिमस्तके ॥ ४५ ॥  
 सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमास्थितः । चैत्रकृष्णात्तरेवत्यां पूर्वरात्रेऽगमच्छिवम् ॥ ४६ ॥  
 तदागत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुतिशतैर्भक्त्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४७ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

स्यस्तं येन कुलालचक्रमिव तच्चक्रं धराचक्रचित्,

शीघ्रचासौ घटदासिक्वेव परमश्रीधर्मचक्रेऽसथा ।

सुभान्मन्त्रितभरानतान्स दुरितारारतेरवध्वंसकृत्,

पायाद्भयजनानरो जिनपतिः संसारभीरुन् सदा ॥ ४८ ॥

वसन्ततिलकावृत्तम्

क्षुत्तृप्तयादिगुरुर्मकृतोरुदीपा-

नष्टाद्दशापि सनिमित्तमपास्य झुद्धिम् ।

यो लब्धवांस्त्रिभुवनैकगुरुरीया-

नष्टादशो दिशतु शीघ्रमरः शिवं व. ॥ ४९ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

प्रागयोऽभून्वृषतिर्महान् धनपतिः पश्चाद्भ्रतानां पति,

स्वर्गाग्रे विलसज्जयन्तजपतिः प्रोक्षसुखानां पतिः ।

खट्खण्डाधिपतिश्चतुर्दशकसद्वर्त्मिणीनां पतिः,

त्रैलोक्याधिपतिः पुनास्वरपतिः सन् सश्रितान् चञ्चिरम् ॥ ५० ॥

अथास्मिन्नेव तीर्थेऽभूत्सुभौमो नाम चक्रभृत् । तृतीये जन्मन्यत्रैव भरतेऽसौ भुवः पतिः ॥ ५१ ॥

अरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए अनेक देशोंमें विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गयी तब उन्होंने सम्भेदाचलकी शिखरपर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पूर्वभागमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥४३-४६॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर निर्वाणकल्याणककी पूजा की । भक्तिपूर्वक सैकड़ों स्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥४७॥

जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्मचक्रको प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथिवीमण्डलको संचित करनेवाला अपना सुदर्शनचक्र कुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्ष्मीको घटदासी (पनिहारिन) के समान त्याग दिया । तथा जो पापरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाले हैं ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नश्रीभूत एवं संसारसे भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥४८॥ क्षुधा, तृपा, भय आदि बड़े-बड़े कर्मोंके द्वारा क्रिये हुए क्षुधा, तृपा आदि अठारहों दोषोंको उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहके तीर्थकर अरनाथ तुम लोगोंको शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ॥४९॥ जो पहले धनपति नामके बड़े राजा हुए, फिर व्रतोंके स्वामी मुनिराज हुए, तदनन्तर स्वर्गके अग्रभागमें सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी अहमिन्द्र हुए, फिर छहों खण्डके स्वामी होकर चौदह रत्नों और नौ निधियोंके अधिपति—चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तीनों लोकोंके स्वामी अरनाथ तीर्थकर हुए वे अतिशय श्रेष्ठ अठारहके तीर्थकर अपने आश्रित रहनेवाले तुम सबको चिरकाल तक पवित्र करते रहें ॥५०॥

अथानन्तर—इन्हीं अरनाथ भगवान्के तीर्थमें सुभौम नामका चक्रवर्ती हुआ था । वह

भूपालो नाम संग्रामे वलिमिर्त्रिजिगीषुभिः । प्राप्ताभिमानभंगः सन् भृशं निर्विद्य संसृते ॥५२॥  
 दीक्षां जैनैश्चरीमादात्मं भूतगुरुसंनिधौ । कदाचित्स तपः कुर्वन्निदानमकरोत्कुधी ॥ ५३॥  
 भूयान्मे चक्रवर्तित्वमिति भोगानुषङ्गनात् । क्षीरं विषेण वा तेन मनसा दूषितं तपः ॥५४॥  
 स तथैवाचरन् घोरं तपः स्वस्यायुषः क्षये । समाधाय महाशुक्रं संन्यासेनोदपद्यत ॥५५॥  
 तत्र षोडशवाराशिमानायुः सुखमास्त ५ सः । द्वीपेऽस्मिन् भारते कौशल्याख्ये ० राष्ट्रे गुणान्विते ॥५६॥  
 सहस्रवाहुरिक्ष्वाकुः साकेतनगराधिपः । राज्ञी तस्यामवच्छिन्नमत्याख्या हृदयप्रिया ॥५७॥  
 कन्याकुञ्जमहीशस्य ० पारताख्यस्य साध्विजा । तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपोऽभवत् ॥५८॥  
 तत्र प्रवर्द्धमानेऽस्मिन्निदमन्यदुर्दायते । सहस्रसुजभूमतुः पितृव्याच्छतविन्दुतः ॥५९॥  
 पारताख्यमहीशस्य श्रीमत्यास्तनयः स्वसुः । जमदग्निः सरामान्तः कौमारे मातृसृष्टयुतः ॥६०॥  
 निर्वेगात्तापसो भूत्वा पञ्चाग्निपति स्थितः । दृढग्राहिमहीशस्य विप्रेण हरिशर्मणा ॥६१॥  
 अभूदखण्डितं सख्यमेवं काले प्रयात्यसौ । दृढग्राही तपो जैनमग्रहीद् ब्राह्मणोऽपि च ॥६२॥  
 तापसव्रतमन्तेऽभुज्ज्योतिर्लोकं द्विजोत्तमः । दृढग्राही च सौधर्मं सोऽवधिज्ञानचक्षुषा ॥६३॥  
 मिथ्यात्वाज्ज्योतिषां ० लोके समुत्पन्नं द्विजोत्तमम् । विज्ञाय जैनसद्गमं तं ग्राहयितुमागमत् ॥६४॥  
 दृष्ट्वा तं तत्र मिथ्यात्वात्त्वमेवं कृतिसतोऽभवः । ० उत्कृष्टं बुद्धसम्यक्त्वादेवभूयमहं गतः ॥६५॥

तीसरे जन्ममे इसी भरतक्षेत्रमें भूपाल नामका राजा था ॥५१॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले विजिगीषु राजाओंके द्वारा हार गया । मान भंग होनेके कारण वह संसारसे इतना विरक्त हुआ कि उसने सम्भूत नामक गुरुके समीप जैनैश्वरी दीक्षा धारण कर ली । उस दुर्बुद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हो । उसने यह सब निदान भोगोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था । इस निदानसे अपने तपको हृदयसे ऐसा दूषित बना लिया जैसा कि कोई बिपसे दूधको दूषित बना लेता है ॥५२-५४॥ वह उसी तरह घोर तपश्चरण करता रहा । आयुके अन्तमें चित्तको स्थिर कर संन्याससे मरा जिससे महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥५५॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण आयुको धारण करनेवाला वह देव सुखसे निवास करने लगा । इधर इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्रमें अनेक गुणोंसे सहित एक कौशल नामका देश है । उसके अयोध्या नगरमें इक्ष्वाकुवंशी राजा सहस्र वाहु राज्य करता था । हृदयको प्रिय लगनेवाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी । वह चित्रमती कान्यकुब्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी । उत्तम पुण्यके उदयसे उसके कृतवीराधिप नामका पुत्र हुआ ॥५६-५८॥ जो दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । इसीसे सखन्ध रखनेवाली एक कथा और कही जाती है जो इस प्रकार है—राजा सहस्रवाहुके काका शतविन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी स्त्रीके जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । श्रीमती राजा पारतकी वहन थी । कुमार अवस्थामें ही जमदग्निकी माँ मर गयी थी इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया और पंचाग्नि तप तपने लगा । इसीसे सखन्ध रखनेवाली एक कथा और है । एक दृढग्राही नामका राजा था । उसकी हरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ अखण्ड मित्रता थी । इस प्रकार उन दोनोंका समय बीतता रहा । किसी एक दिन दृढग्राही राजाने जैन तप धारण कर लिया और हरिशर्मा ब्राह्मणने भी तापसके व्रत ले लिये । हरिशर्मा ब्राह्मण आयुके अन्तमें सरकार ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुआ—ज्योतिषो देव हुआ और दृढग्राही सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशर्मा ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिष लोकमें उत्पन्न हुआ है अतः वह उसे समीचीन जैनधर्म धारण करानेके लिए आया ॥६-६४॥ हरिशर्माके जीवको देखकर दृढग्राहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वके कारण इस तरह निन्द्यपर्यायमें उत्पन्न हुए हो और

१ प्राप्तोऽल० । २ स भूत ल० । ३ सुवी ल० । ४ सुखमाप सः ख० । ५ कौशल्याख्ये क०, घ० । ६ कान्यकुब्ज ल० । ७ परताख्यस्य क०, घ० । ८ निर्वेगात्तापसो म०, ल० । ९ ज्योतिषा क०, घ०, ज्योतिषे ल० । १० उत्कृष्टबुद्ध ल० ।

तस्मादुपेहि मोक्षस्य मार्गमित्यब्रवीत्तत् । तापसानां तपः कस्मादशुद्धमिति संशयात् ॥६६॥  
 'अन्वयुद्धं स तं सोऽपि दर्शयाम्येहि भूतलम् । इत्यन्योन्यं समालोच्य कीचकद्वन्द्वतागतौ ॥६७॥  
 जमदग्निमुनेर्दीर्घं त्रिमश्वश्रयमुपाश्रितौ । कांचित् कालकलां स्थित्वा सद्दृष्टिः सुरकीचकः ॥६८॥  
 समभाषत मायाज्ञो ज्योतिष्कामरकीचकीम् । पृथङ्नान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यहं प्रिये ॥६९॥  
 प्रतीक्षस्वात्र मां स्थित्वेत्यसौ चाहागमं तव । न श्रद्धभामि मे देहि शपथं यदि यास्यसि ॥७०॥  
 इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रूहि पातकेषु किमिच्छसि । पञ्चसु त्वमहं तस्मिन् दास्यामि तदिति स्फुटम् ॥७१॥  
 साप्याह तेषु मे चान्छा कस्मिंश्चिन्नैव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गतिं नैप्याम्यहं यदि ॥७२॥  
 इतोमं शपथं गन्तुं मुञ्चामि त्वां प्रियेति ३ताम् । तच्छ्रुत्वा कीचकः प्राह मुक्त्स्वैनं किञ्चिदीप्सितम् ॥७३॥  
 ब्रूहन्न्यमिति तद्द्वन्द्वविसंवाद स तापसः । श्रुत्वा क्रोधेन संतप्तो विधूर्णितविकोचनः ॥७४॥  
 हस्ताभ्यां हन्तुमुत्क्रोयाद् गृहीत्वा निश्चलं द्विजौ । मद्दुद्धरतपःप्राप्यभाविकोऽनभीप्सित ॥७५॥  
 युवाभ्यां केन तद्व्याचमि त्वाहातः खगोऽब्रवीद् । मागमः कोपमेतेन लोञ्जन्यं तव नश्यति ॥७६॥  
 १पृत्यातञ्जनतक्रेण पयोऽरूपेन न किं क्षतिम् । शृणुते दुर्गतेहेतुं विरं चोरं तपस्यतः ॥७७॥  
 कौमारव्रह्मचारित्वं तव संततिविच्छिदे । सत्तानभातिनः पुंसः का गतिनरकाद्रिना ॥७८॥  
 अपुत्रस्य गतिर्नास्तौत्सर्थाय किं न त्वया श्रुतम् । कुतोऽविचारयश्चेवं किञ्चनासि जडधीरिति ॥७९॥

मैं सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देवपर्यायको प्राप्त हुआ हूँ ॥६५॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दर्शन है उसे धारण करो । जब दृढप्राहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने भी कहा कि तुम पृथिवी तलपर चलो मैं सब दिखाता हूँ । इस प्रकार सलाह कर दोनोंने चिढ़ा और चिड़ियाका रूप बना लिया ॥६६-६७॥ पृथिवीपर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनिकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी और मूँछमें रहने लगे । वहाँ कुछ समय तक ठहरनेके बाद मायाको जाननेवाला सम्यग्दृष्टि चिड़ियाका जीव, चिड़ियाका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवसे बोला कि हे प्रिये ! मैं इस दूसरे वनमें जाकर अभी वापस आता हूँ मैं जबतक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना । इसके उत्तरमे चिड़ियाने कहा कि मुझे तेरा विदवास नहीं है यदि तू जाता ही है तो सौगन्ध दे जा ॥६८-७०॥ तब वह चिड़्या कहने लगा कि बोल तू पाँच पापोंमेंसे कितने चाहती है मैं तुझे उसीकी सौगन्ध दे जाऊँगा ॥७१॥ उत्तरमे चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमेंसे किसीमें मेरी इच्छा नहीं है । तू यह सौगन्ध दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊँ ॥७२॥ हे प्रिय ! यदि तू मुझे यह सौगन्ध देगा तो मैं तुझे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ूँगी अन्यथा नहीं । चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगन्ध दूँगा । इस प्रकार चिड़्या और चिड़ियाका वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोधसे सन्तप्त हो गया, उसकी आँखें धूमने लगीं, उसने क्रूरतावश दोनों पक्षियोंको मारनेके लिए हाथसे मजदूत पकड़ लिया, वह कहने लगा कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होनेवाला है उसे तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं किया ? यह कहा जाय । तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करे इससे आपकी सज्जनता नष्टहोती है ॥७३-७६॥ क्या थोड़ी-सी जामिनकी छॉँछसे दूध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि आप चिरकालसे चोर तपश्चरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण क्या है ? सो सुनिप ॥७७॥ आप जो कुमार कालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे है वह सन्तानका नाश करनेके लिए है । सन्तानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती है ? ॥७८॥ अरे 'पुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती' यह आर्पवाक्य—वेदवाक्य क्या आपने नहीं सुना ? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर बलेश

१ द्वन्द्वमागतौ ल० । २ दीर्घमश्ववाश्रा-क०, ख०, घ० । दीर्घं स्मृत्वाश्रय ल० । ३ तम् म०, ल० । ४-मुक्तोपाद् ल० । ५-मित्यहोत खगोऽ ल० । ६ ( आतञ्जनतक्रेण अमृततक्रेण दुग्धस्य दधिकरणहेतुभूत-तक्रेण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी )

श्रुत्वा तद्वचनं मन्दमिति निश्चित्य तत्तथा । वधूजनेषु सक्तानामज्ञानतपसः क्षितिः ॥८०॥  
 ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा द्विजद्वयम् । चञ्चितोऽगात्कुक्षीस्ताभ्यां कन्या कुब्जधिपं प्रति ॥८१॥  
 स्थास्तु नाज्ञानवैराग्यमित्यन्नाधोषयश्चिव । दृष्ट्वा पारतभूपालमात्ममातुलमत्रप ॥८२॥  
 आकारेणैव कन्यार्यागमनं स<sup>१</sup> निवेदयन् । आसनद्वयमाखोष्य सरागासनमास्थितः ॥८३॥  
 निजागमनवृत्तान्तं महीपतिमजो गमत् । तदाकर्ण्य नृपः खेदाद्विगृध्निगज्ञामित्यमुम् ॥८४॥  
 कन्याज्ञत ममास्थयत्र था स्वामिच्छति सास्तु ते । इत्यवोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥८५॥  
 अर्द्धदग्धशवं मत्वा तपोदग्धशरीरकम् । जुगुप्सयापलायन्त काश्चित्काश्चिद्गयाहिताः ॥८६॥  
 व्रीहया पीडितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा बालिकां सुताम् । तस्यैवाखोष्य मूढात्मा पांसुक्कीडापरायणाम् ॥८७॥  
 कदलीफलमादृश्यं प्राह मामिच्छतीति ताम् । वान्छामीत्यब्रवीत्सा च मामिभ्यं वान्छतीति ताम् ॥८८॥  
 नृपं निवेद्य संगृह्य समायासीद्वनं प्रति । पदं प्रति जनैर्निन्ध्यमानो दीनतमो जडः ॥८९॥  
 रेणुकीत्यभिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिर्धर्म इत्येषा तदा प्रभृति वागभूत् ॥९०॥  
 बोधो श्रद्धा विशेषस्य भेदौ वा तपसो यतेः । बाह्याभ्यन्तरनामानौ तावभूत्वां सुतौ स्तुतौ ॥९१॥  
 इन्द्र . श्वेतश्च रामान्तौ चन्द्रादित्यसमस्त्विषौ । कामार्थौ वा जनाभीष्टौ युक्तौ वा नयविक्रमौ ॥९२॥  
 प्रप्रात्येवं तयोः काले मुनिरन्येषु गगतः । अरिं जयोऽग्रजो मेहं रेणुक्यास्तद्विदक्षया ॥९३॥

उठा रहे हैं ? ॥७६॥ उसके मन्द वचन सुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि खीजनोंमें आसक्त रहनेवाले मनुष्योंके अज्ञान तपकी यही भूमिका है ॥८०॥ 'ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं' ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियोंको छोड़ दिया । इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्याकुब्ज नगरके राजा पारतकी ओर चला । वह मानो इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञानपूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता । वहाँ अपने मामा पारतको देखकर उस निर्लज्जने अपने आकार मात्रसे ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ । राजा पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो आसन रखे—एक रागरहित और दूसरा रागसहित । दोनों आसनोंको देखकर वह रागसहित आसनपर बैठ गया ॥८१-८२॥ उसने अपने आनेका वृत्तान्त राजाके लिए बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बड़े खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिक्कार हो, धिक्कार हो ॥८४॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सौ पुत्रियाँ हैं इनमेंसे जो तुझे चाहेगी वह तेरी हो जायेगी । राजाके ऐसा कहनेपर जमदग्नि कन्याओंके पास गया । उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका शरीर तपसे जल रहा है ऐसे जमदग्निको अधजला मुर्दा मानकर ग्लानिसे भाग गयीं और कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गयीं ॥८५-८६॥ लज्जासे पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस उन सब कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केलाका फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ? लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ । तापसने जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुझे चाहती है । इस प्रकार वह लड़कीको लेकर बनकी ओर चला गया । पद-पदपर लोग उसकी निन्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूर्ख था ॥८७-८८॥ जमदग्निने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया । उसी समयसे 'प्रवृत्ति ही धर्म है' यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥९०॥ जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजके तपके बाह्यतप और आभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमदग्निके इन्द्र और श्वेतराम नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगोंको प्रिय काम और अर्थ ही हो अथवा मिले हुए नय और पराक्रम ही हो ॥९१-९२॥ इस प्रकार उन दोनोंका

१ कन्यकुब्जा-८० । २ सन्निवेदयन् क०, ख०, म० । ३ तम् ल० । ४ नृग्यावेध ल० । ५ रेणुकात्यभि-  
 ल० । ६ बोधो श्रद्धा विशेषस्य भेदो वा तपस पते ल० । ७ इन्द्रादित्य ल० । ८ प्रप्रात्येव ल० । ९-राययौ ख० ।

<sup>१</sup> दद्या यथोपचारेण मुनिं मर्तृप्रचोदिता । पूज्य महानकाले मे दत्तं किं भवता धनम् ॥६४॥  
वदत्याह ततस्तेन मया दत्तं न किञ्चन । इदानीं दीयते भद्रे त्रिजगत्स्वपि दुर्लभम् ॥६५॥  
गृहाण येन प्राप्नोषि त्वं सुवानां परंपराम् । सम्यक्त्वं व्रतसंयुक्तं शीकमालासमुज्ज्वलम् ॥६६॥  
इत्युक्त्वा कालकल्पेव तद्वाचा चोदिता सती । सम्यग्गृहीतमित्याख्यन्सुनीशश्चातितुष्टवात् ॥६७॥  
कामधेनुमिधां विद्यामीप्सितार्थप्रदायिनीम् । तस्यै विश्राणशं चक्रे समन्त्रं परशुं च सः ॥६८॥  
अथान्यदा ययौ सादं कृतवीरने तस्मिन् । तपोवनं सनामित्वाद् भुक्त्वा गन्तव्यमित्यमुम् ॥६९॥  
सहस्रबाहुं समाप्य जमदग्निरभोजयत् । महाराजकुलेऽप्येषा सामग्री नास्ति भोजने ॥७०॥  
तपोवननिविष्टानामागता भवतां कुतः । इति स्वमातुरनुजामप्राक्षीद्रेणुकीं <sup>२</sup>मिथः ॥७१॥  
कृतवीरोऽन्नवीरसापि तद्विद्यालम्बनादिकम् । सोऽपि मोहोदयाविष्टस्तां धेनुमकृतजकः ॥७२॥  
होमधेनुरियं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैषा न युक्तेति तदुक्त्वा कोपवेगतः ॥७३॥  
परादं यद्वनं लोके तद्योग्यं पृथिवीसुजाम् । न धेनुरीदृशी भोग्या कन्दमूलफलाशिमिः ॥७४॥  
<sup>३</sup> इत्यस्या धेनुमादाय हठाकारेण गच्छतः । <sup>४</sup>श्वस्थितं पुरस्तात्तं जमदग्निं महीपतिः ॥७५॥  
हत्वा स्वमार्गमुल्लङ्घ्य क्रुमार्गोऽभ्रुत्पुरोमुख <sup>५</sup> । हृदन्तीं <sup>६</sup>रेणुकीं मर्तृमरणात् प्रहतोदरीम् ॥७६॥  
अथ पुत्रौ वनात्पुष्यकन्दमूलफलादिकम् । आदायालोक्य सप्राप्तौ किमेतदिति विस्मयात् ॥७७॥

काल सुखसे बीत रहा था । एक दिन अरिजय नामके मुनि जो रेणुकीके घड़े भाई थे उसे देखनेकी इच्छासे उसके घर आये ॥६३॥ रेणुकीने वितयपूर्वक मुनिके दर्शन किये । तदनन्तर पतिसे प्रेरणा पाकर उसने मुनिसे पूछा कि हे पूज्य ! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था ? ॥६४॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहनेपर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था । हे भद्रे ! अब ऐसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुर्लभ है । तू उसे ग्रहण कर । उस धनके द्वारा तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने व्रतसे संयुक्त तथा शीलकी मालासे उज्ज्वल सम्यक्स्वरूपी धन प्रदान किया और कालकल्पके समान उनके वचनोंसे प्रेरित हुई रेणुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यग्दर्शनरूपी धन ग्रहण किया । मुनिराज इस बातसे बहुत ही सन्तुष्ट हुए । उन्होंने मनोवाञ्छित पदार्थ देनेवाली कामधेनु नामकी विद्या और मन्त्रसहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान दिया ॥६५-६८॥ किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्रबाहु उस तपोवनमें आया । भाई होनेके कारण जमदग्निने सहस्रबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना चाहिए । यह कह जमदग्निने उसे भोजन कराया । कृतवीरने अपनी माँकी छोटी बहन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें ऐसी सामग्री तो राजाओंके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप लोगोंके लिए यह सामग्री कैसे प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया । मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतवीरने रेणुकीसे वह कामधेनु विद्या माँगी । रेणुकीने कहा कि हे तात ! यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदग्निकी होमधेनु है अतः तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है । रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया । वह क्रोधके वेगसे कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजाओंके योग्य होता है । कन्द मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती ॥६९-७४॥ ऐसा कहकर वह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके सामने खड़े हो गये । क्रुमार्गगामी राजा कृतवीर जमदग्निको मारकर तथा अपना मार्ग उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोदरी रेणुकी पतिकी मृत्युसे रोने लगी । तदनन्तर उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर वनसे लौटे तो यह सब देख आश्चर्यसे पूछने लगे कि यह क्या है ? ॥७५-७६॥ सब बातको ठीक-ठीक समझकर उन्हें क्रोध आ गया । स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको

<sup>१</sup> यष्ट्वा क०, घ० । <sup>२</sup> रेणुकाम् ल०, क०, घ० । <sup>३</sup> इत्युक्त्वा म०, ल० । <sup>४</sup> अङ्गस्थित ल० ।  
<sup>५</sup> पुरोमुख क०, घ० । <sup>६</sup> रेणुका ल० ।



१ पृथ्वा विजाय तत्सर्वं सकोपौ शोकनिर्मराम् । निर्वाण्य युक्तिमद्वाग्मिस्तौ सैवगिकचिक्रमौ ॥१०८॥  
 ध्वजीकृतनिशाओप्रपश्यु यमसंनिभौ । गोग्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥१०९॥  
 श्रूयते तत्तथैवास्तां क्रः सहेतु पितुर्वधम् । इत्युक्त्वाऽनुगताशेषस्तिनह्यनुनिकुमारकौ ॥११०॥  
 तद्गतं मार्गमन्वेत्य साकेतनगरान्तिवक्रम् । संप्राप्य कृतसंभ्रामौ कृतवीरणं सूचितम् ॥१११॥  
 सहस्रबाहुमाहृत्य सायाह्नेऽविक्षातं पुरम् । हाहाहलं पमान्याशु बोरोहःस्फुजितान्यलम् ॥११२॥  
 फलन्त्यक्षयचर्याणां दुःप्रहः दुःखसंततितम् । सहस्रबाहुसंताननि.येषीकरणोत्सुकम् ॥११३॥  
 ज्ञात्वा परशुरामीयमभिप्रायं महीपतिः । भूपालचरदेवेन निदानविपदृषितात् ॥११४॥  
 सशुद्धनेन तपसो महाशुक्रेऽत्र जन्मिना । रानीं सगर्भां चित्रमतीं तां शाण्डिल्यतापसः ॥११५॥  
 तद्भ्रजः नमादाय गत्वा विज्ञातचर्याया । स सुबन्ध्वाण्यनिर्ग्रन्थमुनेनगेवैचवृत्तकम् ॥११६॥  
 तत्समीपे निधायायं मदे ने नास्ति कश्चन । तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्यान्मदेपाऽत्र तिष्ठतु ॥११७॥  
 देवीति गतबांस्तस्मात्तदैवामृतं सा सुतम् । तदानंमेव तं तत्र भविष्यद्भरतःषिपः ॥११८॥  
 बालकोऽयमिति ज्ञानारत्नीचक्रुर्वनदेवताः । तामिः प्रपाल्यमानोऽयमनाबाधमचर्द्धत ॥११९॥  
 दिनानि कानिचिद्वीत्वा महीमांशिलेप्य जातवान् । बालकोऽयं कर्पमाशी मष्टारक, शुनाशुनम् ॥१२०॥  
 अनुगृह्यास्य वक्तव्यमिति देवोद्विष्टो मुनिः । एष चक्रो मवेदम् चत्परे षोडशे ध्रुवम् ॥१२१॥  
 साग्निबुद्धीगतस्यूकं किलामचृतमध्यगान् । उष्णान्पूषानुपादाय मक्षयिष्यति बालकः ॥१२२॥

युक्तिपूर्ण वचनोंसे सन्तुष्ट किया फिर तीक्ष्ण फरशाको ध्वजा वनानेवाले, यमतुल्य दोनों भाइयों परस्पर कहा कि गायके प्रह्वणमें यदि मरण भी हो जाय तो वह पुण्यका कारण है ऐसा सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों ही भाई चले पड़े। स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये ॥१०७-११०॥ सहस्रबाहु और कृतवीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके पहुँच गये। वहाँ कृतवीरके साथ संभ्राम कर उन्होंने राजा सहस्रबाहुको मार डाला और सार्य कालके समय नगरमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जो अकार्यमें प्रवृत्ति करते हैं उन लिए हलाहल विपके समान भयंकर पापोंके परिपाक असह्य दुःखोंकी परम्परा रूप फल ही प्रदान करते हैं। इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस व पता चला कि परशुराम, सहस्रबाहुकी समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी चित्रमती, निदानरूपी विपसे दूषित तपके कारण महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुए राजा जीव स्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात् उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया है व्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों ही वह वहन चित्रमतीको लेकर अज्ञात चल पड़ा और सुबन्धु नामक निर्ग्रन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये 'हे आर्य ! मेरे सठमें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर वापस आऊँगा। जबतक वापस आऊँ तबतक यह देवी यहाँ रहेगी' यह कहकर वह चित्रमतीको सुबन्धु मुनिके छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥१११-११७॥

इधर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया। यह बालक भरतक्षेत्रका भात्री चक्रवर्ती है विचारकर वन-देवताओंने उसे शीघ्र ही उठा लिया। इस प्रकार वन-देवियों जिसकी रक्षा करती ऐसा वह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा ॥११८-११९॥ जब कुछ दिन व्यतीत हो गये तब दिन रानीने मुनिके पृच्छा कि हे स्वामिन् ! यह बालक पृथिवीका आश्लेषण करता हुआ हुआ था अतः अनुग्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिए। इस प्रकार रानीके कहने मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहवें वर्षमें अवश्य ही चक्रवर्ती होगा और चक्रवत् होनेका यह चिह्न होगा कि यह बालक अग्निसे जलते हुए चूल्हेके ऊपर रखी कढ़ाईके धीके

१ पृथ्वा ल० । २ पुरीम् ल० । ३ धोराहःस्फुजितान्यलम् ल० । ४ चित्रमतिम् ल० । ५ तत्र ल० समागमिष्याम्येषा त्वत्र तिष्ठतु ल० । ६ स्वाक ल० । ७ उष्णान् पूषान् समादाय, क०, ग० । उष्णान् पूषानुपादाय ल० ।

अभिज्ञानमिदं भावि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम् । तस्मान्मा स्म भयं यातीरिति तामितिहुः खितात्म ॥१२३॥  
 सुवम्भवाख्यो भृशं स्वार्थप्रमनैर्षोऽकरुणात्मकः । ततस्तदप्रजोऽभेत्य तां नीत्वा गृहमात्मनः ॥१२४॥  
 समुद्रयुतोऽयमादिल्लघ्य मेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति संगीत्या चक्रे नाम कृतोत्सवः ॥१२५॥  
 तत्र शास्त्राणि सर्वाणि सप्रयोगाणि संततम् । सोपदेशं समभ्यस्यन् वदन्ते स्म स गोपितः ॥१२६॥  
 अथ तौ रेणुकीपुत्रौ प्रवृद्धोऽग्रपराक्रमौ । त्रिःससकृत्वो निर्मूलमापाद्य क्षत्रियान्वयम् ॥१२७॥  
 स्वहस्ताखिलभूपालविरांसि स्थःपनेच्छया । शिलास्तम्भेषु संगृह्य वद्धवैरौ गुरोर्वधात् ॥१२८॥  
 सार्वभौमीं श्रियं सभ्यकं संभूयानुबभूवतुः । निमित्तकुशलो नाम्ना कदाचित्स्व निमित्तचित् ॥१२९॥  
 भवत शत्रुरूपत्र प्रयत्नोऽत्र विधीयताम् । कः प्र ययोऽस्य चेद्वन्मि ३ विध्वस्ताखिलभूमुजात् ॥१३०॥  
 दन्ता यस्याक्षनं भूत्वा परिणश्यत्यसौ रिपुः । इतीन्द्ररामं राजानं परश्वीशमबुद्धुषत् ॥१३१॥  
 श्रुत्वा यथावन्नैमित्तिकोक्तं नेतसि धारयन् । कृत्वा परशुरामोऽपि दानशालां सुभोजनात् ॥१३२॥  
 तत्परीक्षार्थमायान्तु येऽत्र ४ विश्वनाथिनः । इत्याघोषयति रमैतत् श्रुत्वा तेऽपि समागमन् ॥१३३॥  
 तेषां पात्रस्थतदन्ताम् संप्रदर्श्य परीक्षितुम् । तान् भोजयति भूपाले प्रत्यहं स्वनिधोगिभिः ॥१३४॥  
 पितुर्मरणवृत्तान्तं स्वमानुरवबुद्धवान् । स्वचक्रेशित्वसंप्राप्तिकाळाधानं च तस्वतः ॥१३५॥  
 ५ सुखिद्वसुनिमिर्द्रिष्टत्वाःसस्वरूपकः । परिव्राजकवेषेण स्वरहस्यार्थवेदिना ॥१३६॥  
 राजपुत्रसमूहेन सुभौमोऽध्यागमत्पुरम् । सभायांश्चोदयत्येव काले कल्याणकृद्भिः ॥१३७॥

स्थित गरम-गरम पुओको निकासकर खा लेगा । इसलिये तू किसी प्रकारका भय मत कर । इस प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुखी किया ।

तदनन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया । यह बालक पृथिवीको छूकर उत्पन्न हुआ था इसलिये शाण्डिल्यने वड़ा भारी उत्सव कर प्रेमके साथ उसका सुभौम नाम रखा ॥१२०-१२५॥ वहाँपर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग सहित समस्त शास्त्रोका अभ्यास करता हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥१२६॥ इधर जिनका उग्र पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दोनो पुत्रोंने इक्कीस बार क्षत्रिय वंशको निर्मूल नष्ट किया ॥१२७॥ पिताके मारे जानेसे जिन्होंने वैर बाँध लिया है ऐसे उन दोनों भाइयोंने अपने हाथसे मारे हुए समस्त राजाओंके शिरोको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भोंमें संगृहीत कर रखा था ॥१२८॥ इस तरह दोनो भाई मिलकर समस्त पृथिवीकी राज्यलक्ष्मीका अच्छी तरह उपभोग करते थे । किसी एक दिन निमित्तकुशल नामके निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिए । इसका विश्वास कैसे हो ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ । मारे हुए राजाओंके जो दाँत आपने इकट्ठे किये हैं वे जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु होगा ॥१२९-१३१॥ निमित्तज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचार किया और उत्तम भोजन करानेवाली दानशाला खुलवायी ॥१३२॥ साथमें यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलाषी यहाँ आवे उन्हें पात्रमे रखे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे । इस प्रकार शत्रुको परीक्षाके लिए वह प्रतिदिन अपने नियोगियों—नौकरोंके द्वारा अनेक पुरुषोंको भोजन कराने लगा ॥१३३-१३४॥ इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्रवर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु मुनिके कहे अनुसार उसे अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार चिदित हो गया अतः वह परिव्राजकका वेप रखकर अपने रहस्यको सप्तज्ञनेवाले राजपुत्रोंके समूहके साथ अयोध्यानगरकी ओर चल पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि कल्याणकारी दैव भाग्यशाली पुरुषोंको समयपर प्रेरणा दे ही देता है ॥१३५-१३७॥ -उस

१ गेहमात्मनः म०, ल० । २ क्षत्रियान्वहम् ल० । ३ त्वद्वृत्ताखिल- ल०, ग० । त्वद्वृत्ताखिल- ल० । ४ भोजनायिनः । ५ सुबन्धुमुनि प० ।

तदा साकेतवास्तव्यदेवताऋन्दनं महत् । महोत्सवो दिवा तारादृष्ट्यादिरभवत्सुरे ॥१३८॥  
 १ तथागत्य कुमारोऽसौ शालां भोवनुसुपागतः । २ तमाहूय निवेद्योच्चैरासने हतभ्रुजुजाम् ॥१३९॥  
 नियुक्ता दर्वयन्ति स्म दन्तास्तस्थानुमावतः । ३ कलमात्रं तदासंस्ते तद्दृष्ट्वा परिचारिणः ॥१४०॥  
 व्यजिज्ञपन्नपूषं सोऽपि स घृत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद् मृत्स्थांस्तेऽपि तं प्राप्यं निटुराः ॥१४१॥  
 आहूतेऽसि महीशेन स्वमेह्याश्विन्दुदाहरम् । नाहं यूयमिवास्थादां जीविकां तत्तदन्विकीम् ॥१४२॥  
 किमित्येष्यामि यातेति तजितास्तत्प्रभावतः । मटा मयञ्चरप्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम् ॥१४३॥-  
 ध्रुत्वा परशुरामस्तत्कुटुम्ब्या रुनद्धसाधनः । ४ समागतस्तदाहोवय सुभौमोऽभिमुखं ययौ ॥१४४॥  
 बलं परशुरामः ५ स्वं तेन योद्धुं ६ सहादिशत् । जन्मप्रभृति तत्पाता भरतव्यन्तराधिपः ॥१४५॥  
 रक्षित्वाऽस्थान्कुमारं तं तस्मात्तस्याग्रतो बलम् । स्थातुमक्षममालोक्य स्वयं गजमचोदयत् ॥१४६॥  
 सहसैव सुभौमस्याप्यभवद् गन्धवारणम् । चक्रं च संनिधौ दिव्यं सार्वभौमत्वसाधनम् ॥१४७॥  
 सहस्रदेवतारक्ष्यं किं न स्यात् संगुले विधौ । वारणेन्द्रं समाह्वय पूर्वार्द्रिमिव ७ मास्करः ॥१४८॥  
 सहस्रारं करे कृत्वा कुमारश्चक्रमावभौ । तं दृष्ट्वा रुष्टवान् हन्तुं जामदग्न्योऽभ्युपागमत् ॥१४९॥  
 चक्रेण तं कुमारोऽपि लोकान्तरमजीगमत् । अकरोद्यान्यसैन्यस्य तद्देवामयघोषणाम् ८ ॥१५०॥  
 अरेशतीर्थसंतानकाले द्विशतकोटिषु । सद्वात्रिशत्वु जातोऽमृत्सुभौमो वरमरेण्वयम् ॥१५१॥

समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता बड़े जोरसे रोने लगे, पृथिवी काँप उठी और तारे आदि दिखने लगे ॥१३८॥ सुभौम कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दाँन शालामें पहुँचे तो वहाँके कर्मचारियोंने दुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया और मारे ९ राजाओंके संचित दौत दिखलाये परन्तु सुभौमके प्रभावसे वे सब दौत शालि चावलोकें भाव रूपी हो गये । यह सब देखकर वहाँके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी । भी 'उसे पकड़कर लाया जावे' यह कहकर मजबूत नौकरोंको भेजा । अत्यन्त क्रूर प्रकृतिव भृत्योंने सुभौमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने दुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभौ उत्तर दिया कि—'मैं तुम लोगोंके समान इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊँ ? 'तुम लोग जाओ' ऐसा कहकर उसने उनकी तर्जना की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भय- ९ वरसे प्रस्त हो गये और सब यथास्थान चले गये ॥१३९-१४३॥ यह सुनकर परशुराम बहु कुपित हुआ । वह युद्धके सब साधन तैयार कर आ गया । उसे आया देख सुभौम भी ७ सामने गया ॥१४४॥ परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी परन्तु भरतक्षेत्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभौमकुमारकी रक्षा की थी ८ उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामने नहीं ठहर सकी । देखकर परशुरामने सुभौमकी ओर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभौमके एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया । यही नहीं, एक हज़ार देव जिसकी रक्षा है और जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवोपनीत चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वचलपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ़ होकर सुभौमकुमार निकला । वह हजा आरेवाले चक्ररत्नको हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था । उसे देखकर परशुराम बहुत ही कुपित हुआ और सुभौमको मारनेके लिए सामने आया ॥१४५-१४६॥ सुभौ कुमारने भी चक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया—मार डाला तथा बाकी बची हुई सेनाके लि उसी समय अमय-घोषणा कर दी ॥१५०॥

श्री अरनाथ तीर्थकरके वाद दो सौ करोड़ बत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवत

१ तदागत्य म०, ल० । २ समाहूय क०, घ० । ३ शालिभोजनम् । ४ समागतं तदाहोवय म० समागमं तदाहोवय ल० । ५ परशुरामस्तत्तेन ल० । ६ समादिशत् ल०, ग०, म० । ७ पूर्वत्र ह्व ल० ८ घोषणम् क०, ल०, ग० ।

अभिभूताखिलारतिरष्टमश्रृङ्खलवर्तिषु । समा षष्टिसहस्रायुरष्टाविंशतिचापमः ॥१५२॥  
जातरूपच्छविः श्रीमानिक्ष्वाकुकुलकेसरी । विराजमानो विस्पष्टचक्रादिशुभलक्षणैः ॥१५३॥  
ततो रत्नानि शेषाणि निधयोऽपि नवामवन् । षट्खण्डस्याधिपत्येन प्रादुरासीत्स चक्रमृत्यु ॥१५४॥  
चक्रवर्तिस्वसं प्राप्यान् भोगान् दशविधांश्चिरम् । अन्व नूदिव देवेन्द्रो दिवि दिव्यान् नारतम् ॥१५५॥  
अन्येषुः सुपकारोऽस्य नास्नामृतसायन । रसायनाङ्गिकामरमै सुदादादम्बिकां हितः ॥१५६॥  
तन्नामश्रुतिमात्रेण तद्गुणस्याविचारकः । तद्वैरिचोदितः<sup>१</sup> कोपाद् भूपतिस्तमदण्डयत् ॥१५७॥  
सोऽपि तेनैव दण्डेन त्रियमाणोऽतितीव्रदुः । वध्यासं नृपमित्यात्तनिदानः पुण्यलेशतः ॥१५८॥  
ज्योतिर्लोकैः समरो भूत्वा विभङ्गज्ञानवीक्षणः । अनुस्मृत्य रुषा वैरं जिवांसुः स महौपतिम् ॥१५९॥  
जिह्वालोहुरमालङ्घ्य संघृत्य वणिगाकृतिम् । सुस्वाङ्गुफलदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥१६०॥  
निष्ठिता विक्रान्तीति कदाचित्तेन भाषितः<sup>२</sup> । आनेतव्यानि तान्येव गत्वेत्याख्यवृषोऽपि तम् ॥१६१॥  
आनेतुं तान्यशक्यानि प्रादुर्मयासाध्य देवताम् । तद्वनस्वामिनीं दीर्घं लब्धान्धेतानि कानिचित् ॥१६२॥  
आसक्तिस्तेषु चेदस्ति देवस्थ<sup>३</sup> तद्वनं मया । सह तत्र त्वमायाहि यथेष्ट तानि भक्ष्य ॥१६३॥  
इति प्रकर्मनं तस्य विश्वास्य<sup>४</sup> प्रतिपन्नवान् । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनश्यति विचारणम् ॥१६४॥  
एतद्वायं परित्यज्य रसेनेन्द्रियलोहपु । मत्स्यवर्तिक विनष्टेति मन्त्रिभविर्रितोऽप्यसौ ॥१६५॥

उत्पन्न हुआ था ॥१५१॥ यह सुभौम समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला था और चक्रवर्तियों-  
में आठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वर्षकी आयु थी, अट्ठाईस धनुष ऊँचा शरीर था,  
सुवर्णके समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान् था, इक्ष्वाकु वंशका सिंह था—शिरोमणि  
था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनेवाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोभित था ॥१५२-१५३॥ तदनन्तर  
बाकीके रत्न तथा नौ निधियाँ भी प्रकट हो गयीं । इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह  
चक्रवर्ती रूपमें प्रकट हुआ ॥१५४॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग  
करता रहता है उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिर  
काल तक उपभोग करता रहा ॥१५५॥ सुभौमका एक अमृतसायन नामका हितैषी रसोइया  
था उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कढ़ी परोसी ॥१५६॥  
सुभौमने उस कढ़ीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्रसे वह  
छुपित हो गया । इसीके बीच उस रसोइयाके शत्रुने राजाको उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश  
उसने उस रसोइयाको दण्डित किया । इतना अधिक दण्डित किया कि वह रसोइया उस  
दण्डसे त्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाको अवश्य  
मारूँगा । थोड़े-से पुण्यके कारण वह मरकर ज्योतिर्लोकमें विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण  
करनेवाला देव हुआ । पूर्व वैरका स्मरण कर वह क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा  
॥१५७-१५८॥ उसने देखा कि यह राजा जिह्वाका लोभी है अतः वह एक व्यापारीका वेप रख  
मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥१६०॥ किसी एक दिन उस देवने  
कहा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्त हो गये । राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो  
फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आओ ॥१६१॥ उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा  
सकते । पहले तो मैंने उस वनकी स्वामिनी देवीकी आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे  
॥१६२॥ यदि आपकी उन फलोंमें आसक्ति है—आप उन्हें अधिक पसन्द करते हैं तो आप  
मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिए और इच्छानुसार उन फलोंको खाइए ॥१६३॥ राजाने उसके  
मायापूर्ण वचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि  
जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है ॥१६४॥ यद्यपि मन्त्रियों-  
ने उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़-

१ रसायनाधिकामरमै म० । रसायनाङ्गिकामरमै ग० । रसायनाधिपामरमै ल० । २ चोदितस्तस्मात्  
क०, घ० । ३ भाषिते म०, ल० । ४ भवतः । ५ विववस्य ल० । ६ विचारणा ल० ।

तदुक्तमतिरुद्ध्याशः पोतेनागाहातम्बुधिम् । तदा रत्नानि तद्गोहात न्यपेतान्यखिलान्यपि ॥१६६॥  
 सहस्रयक्षरक्षाणि प्रत्येकं निधिभिः समम् । तद्विदित्वा वणिग्वैरी नीत्वा मध्येऽम्बुधिं द्विषम् ॥१६७॥  
 स्वप्राग्जन्माकूर्ति तस्य प्रकटीकृत्य दुर्वचः । उवत्वा वैरानुबन्धं च क्रूरश्चित्रवर्धं व्यधात् ॥१६८॥  
 सुभौमोऽपि विषयान्ते रौद्रध्यानपरायणः । श्याम्रीं गतिं समापन्नो दौर्मत्याहिकं न जायते ॥१६९॥  
 लोभात्सहस्रबाहुश्च प्राप तिर्यग्गतिं सतुक् । जमदग्निस्तुतौ हिंसापरतन्त्रौ गतावधः ॥१७०॥  
 तत एव त्यजन्त्येतौ रागद्वेषौ मनीषिणः । तस्यागादानुबन्ध्यापन्नाप्यन्ति च परं पदम् ॥१७१॥

### वसन्ततिलका

एकोऽपि सिंहसदृशः सकलावनीशो

हत्वा पितुर्वधकृतौ जमदग्निस्तुम् ।

कीर्त्या स्वया भवलिताऽखिलदिक सुभौम—

श्रक्री सुदुर्नयवैशात्ररकेऽष्टमोऽभूत् ॥१७२॥

भूबालभूपतिरसह्यवपोविधायी

शुक्लेऽभवन्महति षोडशसामराजुः ।

च्युत्वा ततः सकलचक्रधरः सुभौमो

रामान्तकृन्नरकनायकतां जगाम ॥१७३॥

नन्दिपेणो वलः पुण्डरीकोऽर्द्धमरताधिपः । राजपुत्राविमौ जातौ तृतीयेऽत्र भवान्तरे ॥१७४॥

सुकैत्वाश्रयशक्त्येन तपः कृत्वायुषोऽन्नघौ । आद्य बल्पे समुत्पद्य ततः प्रच्युत्य चक्रिणः ॥१७५॥

पश्चात्पट्टतक्रोव्यन्तरीती तत्रैव मारते । राक्षकपुरार्थं शादिक्वाकोदरसेनतः ॥१७६॥

-कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूर्खने एक न मानी । वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज-  
 द्वारा समुद्रमें जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमे प्रत्येककी एक-एक हजार यक्ष रक्षा  
 करते थे ऐसे समस्त रत्न निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये । यह जानकर वैश्यका वेष  
 रखनेवाला शत्रु भूतदेव अपने शत्रु राजाको समुद्रके बीचमें ले गया ॥१६५-१६७॥ वहाँ ले  
 जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्ब-  
 चन कहकर पूर्वबद्ध वैरके संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥१६८॥ सुभौम चक्रवर्ती  
 भी अन्तिम समय रौद्रध्यानसे भरकर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धिसे  
 क्या नहीं होता है ? ॥१६९॥ सहस्रबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तिर्यच गतिमें  
 गया और हिंसामें तत्पर रहनेवाले जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति—नरकगतिमें उत्पन्न  
 हुए ॥१७०॥ इसीलिए बुद्धिमान् लोग इन राग-द्वेष दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे  
 ही चिद्वान् पुरुष वर्तमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे और आगामी  
 कालमें प्राप्त करेगे ॥१७१॥ देखो, आठवाँ चक्रवर्ती सुभौम यद्यपि सिंहके समान एक था—  
 अकेला ही था तथापि वह समस्त पृथिवीका स्वामी हुआ । उसने अपने पिताका वध करनेवाले  
 जमदग्निके दोनों पुत्रोंको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्वल कर दी थी किन्तु  
 स्वयं दुर्नीतिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥१७२॥ सुभौम चक्रवर्तीका जीव पहले तो  
 भूबाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरकी आयुवाला  
 देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेवाला सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ  
 और अन्तमें नरकका अधिपति हुआ ॥१७३॥

अथानन्तर इन्हींके समय नन्दिपेणत्र लभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए  
 हैं । इनमेंसे पुण्डरीकका जीव तीसरे भवमें सुकेतुके आश्रयसे शल्य सहित तप कर आयुके अन्तमें  
 पहले स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभौम चक्रवर्तीके बाद छह सौ करोड़ वर्षबीत जाने

वैलयन्त्यां बलो देवो लक्ष्मीमत्यामजायत । पुण्डरीकस्त्वयोरायु खत्रयत्वेन्द्रियाब्दघन ॥१५७॥  
 पद्भिशतितन्त्रसेधौ धनुषां नियतायुषोः । स्वतप संचितात्पुण्यात्काले यात्यायुषोः सुखम् ॥१७०॥  
 अन्यदोपेन्द्रसेनाखनमहीडिन्द्रपुराधिपः । पद्मावतीं सुतां स्वस्थ पुण्डरीकाय दत्तवान् ॥१७१॥  
 अथ द्रौपदीं दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनो रिपुः । निजोपाग्नितकर्मानुरूपेण भवस्ततो ॥१८०॥  
 आन्वा क्रमेण संचित्य शुभं तदनुरोधतः । भूत्वा चक्रपुरावीशो वशीकृतवर्षधरः ॥१८१॥  
 ग्रीष्मार्कमण्डलाभत्वाद्दलोढा परेतजसाम् । तद्विवाहश्रुतेः क्रुद्धः संनद्धाशेषसाधनः ॥१८२॥  
 निशुम्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्दयः । प्रास्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीकं जिवांसुक ॥१८३॥  
 युद्ध्वा बहुविधेनामा तेनोद्यत्तेजसा चिरम् । तच्चक्राशनिघातेन घातितासुरयादधः<sup>३</sup> ॥१८४॥  
 तास्तुमात्रिव चन्द्राकीं संयुक्तौ लोकापालकौ । स्वप्रमाक्रान्तदिक्चक्रौ पालयित्वा चिरं धराम् ॥१८५॥  
 अविमक्तश्रियो प्रीतिं परमां प्रापतु. पृथक् । इयासच्छ्रुर्विशेषी वा रम्यैकविषयेऽसौ ॥१८६॥  
 तयोर्भवत्रयायातपरस्परसमुद्भवात् । प्रेम्णस्तृप्तेरयाज्ञांशमपि तृप्तिर्नृपत्वजा<sup>४</sup> ॥१८७॥  
 पुण्डरीकशिरं मुक्त्वा मोगांस्तत्रातितक्तितः । वधायुनारकं वीरं बह्मरम्भपरिग्रह ॥१८८॥  
 प्रान्ते रौद्राभिसंधानाद्ददमिध्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रमां भृत्वा प्राविशत् पापपाकवान् ॥१८९॥

पर इसी भरत क्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा वरसेनकी लक्ष्मीमती रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वैजयन्तीसे नन्दिषेण नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था । उन दोनोंकी आयु छपन हजार वर्षकी थी, शरीर छत्रवीस धनुष ऊँचा था, दोनोंकी आयु नियत थी और अपने तपसे संचित हुए पुण्यके कारण उन दोनोंकी आयुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७४-१७८॥ किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्रसेनने अपने पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥१७९॥ अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेतु नामका राजा था वह अत्यन्त अहंकारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था । वह अपने द्वारा उपाजित कर्माँके अनुसार अनेक भवोंमें घूमता रहा । अन्तमें उसने क्रम-क्रमसे कुछ पुण्यका संचय किया था उसके अनुरोधसे वह पृथिवीको वश करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ नामका अधिपति हुआ । उसकी आभा ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके मण्डलके समान थी । वह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको विलकुल ही सहन नहीं करता था । जब उसने पुण्डरीक और पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही क्रुपित हुआ । उसने सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुओंको मारने वाला था, नारकियोंसे भी कहीं अधिक निर्दय था, और अखण्ड पराक्रमी था । पुण्डरीकको मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा । जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत प्रकारका युद्ध किया और अन्तमें उसके चक्ररूपी बज्रके घातसे निष्प्राण होकर वह अधोगतिमें गया—नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ ॥१८०-१८१॥ सूर्य-चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिग्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे ॥१८५॥ वे दोनों ही भाई विना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-अलग रहनेवाले दो नेत्र ही हों ॥१८६॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी । भावार्थ—उन दोनोंका पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था ॥१८७॥ पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे और उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया । वह बहुत आरम्भ और परिग्रहका धारक था, अन्तमें रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्वरूपी भावना भी जाग्रत हो उठी जिससे मरकर वह पापोदयसे तमःप्रभा नामक छोटे नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८८-१८९॥

१ प्रस्थिताखण्डविक्रान्तः म०, ल० । २ बहुविधेनासी तेनोद्यत्तेजसा ल० । ३ घातितासुः

+ अयात् + अथ इतिच्छेदः । ४ नृपत्वजाम् ल०, म० । ५ क्रीत्वा ल०, म० । कृत्वा ल०, व० ।

हृत्कभृत्तद्वियोगेन जातनिर्वेगं सारथि । शिवघोषयति प्राप्य संथमं प्रत्यपद्यत ॥१९०॥  
स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं ततः कृत्वा निराकुलः । मूलोत्तराणि कर्माणि निर्मूल्यावाप निवृत्तिम् ॥१९१॥

वसन्ततिलका

जातौ तृतीयजनने धरणीक्षपुत्रौ

पश्चात्सुरौ प्रथमकल्पगतावभूताम् ।

श्रीनन्दिषेणहृत्कभृत्सुनिशुम्भशत्रुः

षष्ठस्त्रिखण्डधरणीदसु च पुण्डरीकः ॥१९२॥

इत्यार्षे त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतेऽरतीर्थकरचक्रधर-सुभौमचक्रवर्तिनन्दि-  
षेणबलदेव-पुण्डरीकाङ्घ्रिचक्रवर्तिनिशुम्भनामप्रतिशत्रुपुराणं परिसमाप्तं पञ्चपद्यित्तमं पर्वं ॥६५॥

उसके वियोगसे नन्दिषेण बलभद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसने शिवघोष नामक मुनिराजके पास जाकर संथम धारण कर लिया ॥१९०॥ उसने निर्द्वन्द्व होकर बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कर्मोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया ॥१९१॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्गमें देव हुए, तदनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्र हुआ और दूसरा निशुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु पुण्डरीक हुआ । यह तीन खण्डके राजाओं—नारायणोंमें छठा नारायण था ॥१९२॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अनानाथ तीर्थकर चक्रवर्ती, सुभौम चक्रवर्ती, नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला पैंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६५॥

## षट्षष्टितमं पर्व

मोहमल्लमल्लं यो व्यलेष्टानिष्टकारिणम् । करीन्द्रं वा हरिः सोऽयं मल्लिः शल्यहरोऽस्तु नः ॥१॥  
जम्बूपक्षिते द्वीपे मेरोः प्राक् कच्छकावती । विषये वीतशोकारुपपुरे वैश्रवणाह्वयः ॥२॥  
महावंशो महो तस्य महागुणमहीथिस । कुम्भकारकरालमृत्स्नेव वशवतिनी ॥३॥  
योगस्ताभ्यो महांस्तस्य प्रजानां प्रेमकारिणः । ता यस्मादुपयुज्यन्ते कोशदुर्गबलादिभिः ॥४॥  
महामयेषु सधर्तुं सचिनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च स-मार्गं संप्रवर्तयितुं स ता ॥५॥  
इति प्रवृद्धपुण्यानुभावसंपादितां श्रियम् । प्रियामिव नवोढां तामुत्प्रीत्यानुभवश्चिरम् ॥६॥  
कदाचिध्वावृद्धारम्भे जृम्भमाणां वनावलीम् । विलोकितुं पुरस्यायादुपशयसुदात्तधीः ॥७॥  
तत्र शाखोपशाखाः स्वाः प्रसार्येव नृपो महान् । अवगाह्य महौ तस्यौ न्यग्रोधः सेवितो द्विजैः ॥८॥  
तं विलोक्य महोपालः पश्य पश्यास्य विस्तृतम् । तुङ्गत्व बद्धमूलत्वं बहुजनचेति मामथम् ॥९॥  
दर्शयन्निति<sup>१</sup> सार्थ्यं प्रियाणां पार्श्ववतिनाम् । गत्वा वनान्तरे भ्रान्त्या तेनैवायात्<sup>२</sup> पुनः पथा ॥१०॥  
भामूलाद् मस्मितं वीक्ष्य वज्रपातेन तं वटम् । इत्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥११॥  
कस्य का तुङ्गता नाम यदस्यापीदृशी गतिः । इति चिन्तां समापन्नः संवत्तः ससृत्तिस्थितेः ॥१२॥

जिस प्रकार सिंह किसी हाथीको जीतता है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेवाले मोहरूपी मल्लको अमल्लकी तरह जीत लिया वे मल्लिनाथ भगवान् हम सबके शल्यको हरण करने वाले हैं ॥१॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक वीतशोक नामका नगर है । उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था । जिस प्रकार कुम्भकारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी समस्त पृथिवी उसके वश रहती थी ॥२-३॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना, किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका उपयोग करता था ॥४॥ वह किसी महाभयके समय प्रजाकी रक्षा करनेके लिए धनका संचय करता था और उस प्रजाको सन्मार्गमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था ॥५॥ इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्ष्मी वह नव विवाहिता स्त्रीके समान बड़े हर्षसे चिरकाल तक उपयोग करता रहा ॥६॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमें बढ़ती हुई वनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया ॥७॥ वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्त कर रहता है और अनेक द्विज—ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक वटका वृक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्त कर खड़ा था एवं अनेक द्विज—पक्षीगण उसकी सेवा करते थे ॥८॥ उस वटवृक्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई और बद्धमूलताको धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥९॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंको आश्चर्यके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वनमें चला गया और घूमकर फिरसे उसी मार्गसे वापस आया ॥१०॥ लौटकर उसने देखा कि वह वटवृक्ष वज्र गिरनेके कारण जड़ तक भस्म हो गया है । उसे देखकर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी है ? विस्तार किसका है ? और ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत वट वृक्षकी ऐसी दशा होगयी तब दूसरेका क्या विचार हो संकता है ? ऐसा विचार करता हुआ वह संसारकी स्थितिसे भयभीत हो गया । उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत-

१ विश्रवणाह्वय. ग० । २ वादवर्ष ल० । ३ तेनैवायात् पुर. पथा ल० । ४ चिन्तासमापन्नः ल० ।



प्रदाय राज्यं पुत्राय श्रीनागनगवर्तिनम् । श्रीनागपतिमायाय पीतधर्मरसायनः ॥१३॥  
 राजसिर्बहुभिः सार्द्धमवाप्यात्युन्नतं तपः । अङ्गान्येकादशाङ्गानि विधाय विधिराधिया ॥१४॥  
 संपाय तीर्थकृष्णाम गोत्रं चोपात्तभावनः । तपस्थनसुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिग्रहः ॥१५॥  
 सोऽनुचरविमानेषु संवभूवापराजिते । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्तोच्छ्रितः कृती ॥१६॥  
 भासान् षोडश मासाद् चातिवाह्यं मनाक् सकृत् । अस्तिथाहारमादत्ते मनसा योग्यपुद्गलात् ॥१७॥  
 त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्तवत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोऽस्य निःप्रवीचारी लोकान्वयन्तरावधेः ॥१८॥  
 तक्षेत्रमितमाशक्तिविक्रियस्थामरेशितुः । तस्मिन् षण्मासशेषायुत्पागमिष्यति भूतलम् ॥१९॥  
 अत्रैव मरते वङ्गविषये मिथिकाधिपः । इक्ष्वाकुभूपतिः कुम्भनामा काश्यपगोत्रजः ॥२०॥  
 प्रजावती महादेवी तस्य लक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिकृताचिन्त्यवसुधारादिवैभवा ॥२१॥  
 चैत्रमासं सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपद्दिने । अश्विन्यां षोडश स्वप्नात् व्यलोकित्येष्टसूचिनः ॥२२॥  
 तदैव मङ्गलान्युच्चैः पेटुर्मङ्गलपाठकाः । हता प्रमातभेरी च दरनिद्राविधातिनी ॥२३॥  
 प्रबुध्याधिकसंतोषास्तमात्वा मङ्गलवेषष्टक् । पतिं प्रति गदा रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥२४॥  
 संसत्कुमुद्वतीं सा विक्रासयन्ती स्वतेजसा । भानन्द्यद्विकोक्येनामभौशोऽप्यासनादिभिः ॥२५॥  
 सुस्थितार्दासिने सापि स्वप्नांस्तांस्तमवेदयत् । फलान्वयीषां शुश्रूषुः परितोषकराण्यतः ॥२६॥  
 यथाक्रमं नृपोऽप्युक्त्वा फलं तेषां पृथक् पृथक् । गजवस्त्रप्रवेशावकोकनादुगर्ममाभितः ॥२७॥  
 तवाहमिन्द्रं हृद्येनामानयत्प्रमदं परम् । कुर्वन्तरतद्रवः सत्यं समन्तादभरेश्वराः ॥२८॥

पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनसे धर्मरूपी रसायन पान किया ॥११-१३॥ अनेक राजाओंके साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूर्वक ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामकर्मक बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या की और अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अनुत्तर विमानोंमेंसे अपराजित नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । वहाँ उस कुशल अहमिन्द्रकी तैत् सागरकी स्थिति थी; एक हाथ ऊँचा शरीर था, साढ़े सोलह माह बीत जानेपर वह एक बा थोड़ी-सी खास ग्रहण करता था, तैत्तीस हजार वर्ष बीत जानेपर एक बार मानसिक आहार करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारी रहित था, लोकनाडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विष था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति तथा विक्रिया ऋद्धि थी । इस प्रकार भोगोपभोग करते हुए उस अहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी शेष रह गयी और वह पृथिवीपर आनेके लिये सम्मुख हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके बंग देशमें मिथिला नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुवंशी काश्यप गोत्री, कुम्भ नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०॥ उसकी प्रजावती नामकी रानी थी ज दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । देवोंने उसका रत्नवृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रक किया था ॥२१॥ उसने चैत्रशुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय अश्विनी नक्षत्रमें फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥२२॥ उसी समय मंगल पढ़नेवाले लोग उ-स्वरसे मंगल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विधात करनेवाली प्रातःकालकी भेरी बज ॥२३॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोषसे स्नान किया, मंगलवेष धारण किया, और चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अपने पतिके पास प ॥२४॥ वह अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनीको विकसित कर रही थी । राजाने उसे आती देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥२५॥ तदनन्तर अर्धासनपर बैठी हुई रानीने सब स्वप्न पतिके लिये निवेदन किये—कहे सुनाये क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नोंका सुखदा फल सुनना चाहती थी ॥२६॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन स्वप्नोंका पृथक्-पृथक् फल कहकू बतलाया कि चूँकि तूने सुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अहमिन्द्र तेरे

१ षवसन्नाहार-क०, घ० । २ चैत्रे मासे क०, घ० । ३ संसत् कुमुदिनी क०, घ० । कुमुद्वती ल०

४ इत्येता क०, घ० ।

समागत्य तयोः कृत्वा स्वर्गावतरणोत्सवम् । कल्याणभागिनोः<sup>१</sup> पित्रोर्व्युस्तोषास्वमाश्रयम् ॥२६॥  
 तमादायोदरं तस्या निर्बाधं भामते स्म तत् । संक्रान्तपूर्णशीतांशुसंयु<sup>२</sup>खीनतलोपमम् ॥३०॥  
 सुखेन नवमे मासि पूर्णे पूर्णेंद्रुभास्त्रम् । विभक्तसर्वावयवं सर्वलक्षणलक्षितम् ॥३१॥  
<sup>३</sup>मार्गशीर्षसितैकादशीदिनेऽश्विनीसंगमे । त्रिज्ञानलोचनं देवं तं प्राप्तुं प्रजावती ॥३२॥  
 तदामृताशिनं सर्वं संप्राप्य प्राप्तसंमदाः । तेजःपिण्डं समादाय बालं बालकसंनिभम् ॥३३॥  
 गत्वाचलेशे संस्थाप्य पञ्चमाग्निपयोजलैः । भूमिषिच्य विभूष्योच्चैर्मल्लिनामानमाजगुः ॥३४॥  
<sup>४</sup>ते पुनस्तं समानीय नामश्रावणपूर्वकम् । मातुरङ्ग<sup>५</sup>व्यवस्थाप्य स्वाश्रिवासान् ५पेदिरे ॥३५॥  
 भरेशतीर्थसंतानकालस्यान्ते स पुण्यमाक् । सहस्रकोटिवर्षस्य तदभ्यन्तरजीव्यमूत् ॥३६॥  
 समानां पञ्चपञ्चाशत् सहस्राण्यस्य जीवितम् । पञ्चविंशतिवाणामनोच्छ्रिते<sup>६</sup> कनकश्रुतेः ॥३७॥  
 शतसंवत्सरे पाते कुमारसमये पुरम् । चक्रत्सितपताकामिः सर्वत्रोद्बद्धतोरणैः ॥३८॥  
 विचित्ररङ्गबल्लभिविकीर्णकुसुमोत्करैः । निर्जिताम्भोनिधिध्वानैः प्रध्वनत्पटहादिभिः ॥३९॥  
 महिर्निजविवाहार्थं भूयो वीक्ष्य विभूषितम् । स्मृत्वापराजितं रम्यं विमानं पूर्वजन्मनः ॥४०॥  
 सा वीतरागता प्रीतिरजिता महिमा च सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां लज्जाविधायकः ॥४१॥

आया है । इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्षित कर रहा था उधर उसके वचनोंको सत्य करते हुए इन्द्र सब ओरसे आकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण—गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे । भगवान्के माता-पिता अनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े सन्तोषसे अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥२७-२६॥ माताका उदर जिन-बालकको धारण कर बिना किसी बाधाके ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमे चन्द्रमाका पूर्ण प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसा दर्पणका तल ही हो ॥२०॥ सुखसे नौ मास व्यतीत होनेपर रानी प्रजावतीने भग-सिर सुदो एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें उस देवको जन्म दिया जो कि पूर्ण चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे युक्त था और तीन ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला था ॥२१-२२॥ उसी समय हर्षसे भरे हुए समस्त देव आ पहुँचे और प्रातःकालके सूर्यके समान तेजके पिण्ड रवरूप उस बालकको लेकर पर्वतराज सुमेरु पर्वतपर गये । वहाँ उन्होंने जिन-बालकको विराजमान कर क्षीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहिनाये और मल्लिनाथ नाम रखकर जोरसे स्तवन किया ॥३३-३४॥

वे देवलोग जिन बालकको वहाँसे वापस लाये और इनका 'मल्लिनाथ नाम है' ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमे विराजमान कर अपने-अपने स्थानोपर चले गये ॥३५॥ अरनाथ तीर्थकरके बाद एक हजार करोड़ वर्ष बीत जानेपर पुण्यवान् मल्लिनाथ हुए थे । उनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ॥३६॥ पचपन हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी ॥३७॥ कुमारकालके सौ वर्ष बीत जानेपर एक दिन भगवान् मल्लिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चंचल सफेद पताकाएँ फहरायी गयी हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रंगावलियाँ निकाली गयी हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखेरे गये हैं और सब जगह समुद्रकी गर्जनाको जीतने-वाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं । इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूर्वजन्मके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण आ गया । वे सोचने लगे कि कहीं तो वीतरागतासे उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा और कहीं सज्जनोंको लज्जा उपन्न करने-वाला यह विवाह ? यह एक विडम्बना है, साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं

१. -भागिन. ल० । २ समुल्लेख संमुखं न दर्पणस्तस्य तलस्थोपमा यस्य तत् । ३ मार्गशीर्षे ल० । ४ तं म० ल० । ५ मातुरङ्गे ल० । ६-नोच्छ्रित ल० । ७ कनकश्रुति ल० । ८ प्रीतिरजिता महिमा च स. प० । प्रीतिरजिता महिमा च सा ल०, ग० । प्रीतिरजिता महिमा च सः क०, म० । प्रीतिस्तज्जाता महिमे च सा ल० ।

विहम्बनमिद्रं सर्वं प्रकृतं प्राकृतैर्जनैः । निन्दयन्निति निर्बिद्य सोऽभून्निकमणोद्यतः ॥४२॥  
 तदा द्युमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तराः । अनुमत्य मत्तं तस्य ययुः स्नेन तिरोहिताः ॥४३॥  
 तीर्थं कृत्स्वपि केवाचिदेवासीदीदृशी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारं महतामपि ॥४४॥  
 इति भक्त्या कृतालापा नमोभागे परस्परम् । परनिष्क्रान्तकल्याणमहाभिषवणोत्सवम् ॥४५॥  
 सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म कुमारसमरेश्वराः । कुमारोऽपि जयन्ताभिधान यानमधिष्ठितः ॥४६॥  
 गत्वा श्वेतवनोद्यानमुपवासद्वयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाश्रितः ॥४७॥  
 कृतसिद्धनमस्कारः परित्यक्तोपधिद्वयः । सायाह्ने त्रिशतैर्भूपैः सह रुप्राप्य संयमम् ॥४८॥  
 संयमप्रत्ययोत्पन्नचतुर्थज्ञानमास्वरः । भागोऽयमिति सचिन्त्य सम्यग्ज्ञानप्रचोदितः ३ ॥४९॥  
 मिथिलां प्राविशत्तस्मै नन्दिपेणनराधिपः । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप शुभनद्युतिः शुभम् ॥५०॥  
 १ दिनपट्टके गते तस्य छात्रस्थे प्राक्तने वने । अधस्तरोरशोकस्य त्यक्त्वाहृदितथाद् गतिः ॥५१॥  
 पूर्वोद्धे जन्मनीत्राप्राप्त्यस्य सत्सु दिनादिषु । वातित्रितयनिर्णशात्केवलकावगमोऽभवत् ॥५२॥  
 बोधिता इव देवेन्द्राः सर्वे ज्ञानेन तेन ते । संभूयागत्य तत्प्लामकुर्वन् सर्ववैदिनः ॥५३॥  
 अष्टाविंशतिरस्यासन् विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपञ्चेन्द्रियमानोक्ता मुनयः पूर्वधारिणः ॥५४॥  
 शून्यत्रितयरन्वद्भिप्रोक्तसंख्यानशिक्षकाः । द्विशतद्विसहस्रोक्तवृत्तियावगमस्तुताः ॥५५॥  
 तावन्त पञ्चमजानाः खद्वयाऽप्येकवादिनः । शून्यद्वयनवद्वयुक्तविक्रियद्विविभूषिताः ॥५६॥

बुद्धिमान् नहीं । इस प्रकार विवाहकी निन्दा करते हुए वे चिरक्त होकर दीक्षा धारण करने लिए उद्यत हो गये ॥३८-४२॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर विस्तारके साथ उस्तुति की, उनके दीक्षा लेनेके विचारका अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश-मार्ग अदृश्य हो गये ॥४३॥ अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तीर्थकरोंमें भी किन्हीं तीर्थकरों की ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्योंकि कुमारावस्थामें विषयोंका त्याग करना मह पुरुषोंके लिए भी कठिन कार्य है ॥४४॥ इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाशमें वार्तालाप करते ए उत्सवसे भरे इन्द्रोंने मल्लिनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक-महोत्स प्राप्त कराया—उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मल्लिनाथ कुमार जयन्त नामक पालकीपर आरूढ होकर श्वेतवनके उद्यानमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने दो दि उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास, नक्षत्र, दिन और पक्षका आश्रय ग्रहण कर अर्था अगहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालके समय सिद्ध भगवान्को नमस्का किया, बाह्याभ्यन्तर—दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर दिया और तीन सौ राजाओंके सा संयम धारण कर लिया ॥४५-४८॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मन-पर्ययज्ञान देदीप्यमान हो उठे । 'यह सनातन मार्ग है' ऐसा विचार कर सम्यग्ज्ञानसे प्रेरित हुए महाशु मल्लिनाथ भगवान् पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवा नन्दिपेण नामके राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पंचाश्रय प्राप्त किये ॥४९-५० छद्मस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त वनमें अशोक वृक्षके नीचे दिनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया—दो दिनके उपवासका नियम ले लिया । वहाँ जन्मके समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र आदिमें उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दर्श वरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥५५२॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आ-उन सर्वज्ञ भगवान्की पूजा की ॥५३॥

उनके समवसरणमें विशाखको आदि लेकर अट्ठाईस गणधर थे, पॉचसौ पचास पूर्वध थे, उनतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सौ पूष्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, हजार चार सौ वादी थे, दो हजार नौ सौ विक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे और एक हजार सात

१ विस्तरं ल०, ग०, क० । २ मास्करः ल० । ३ सम्यग्ज्ञाने प्रचोदितः ल० । ४ नन्दिपेणो नराधिपः । ५ दिने पट्टके ल० ।

अन्यपञ्चमुनीन् द्वैकमनःपर्ययबोधनाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि सर्वे संकलनां प्रिताः ॥५७॥  
 रुद्रप्रेन्द्रियपञ्चोक्ता बन्धुपेगादिकार्यिकाः । श्रावकाः लक्षमाः प्रोक्ताः श्राविकास्त्रिगुणास्ततः ॥५८॥  
 देवा देव्यस्त्वसंख्याताः गण्या कण्ठीरवाद्यः । एवं द्वादशभिर्देवो गणैरेभिः परिष्कृतः ॥५९॥  
 मुक्तिमार्गं नयन् मन्वपथिकान् प्रथितध्वनिः । विजहार महादेशान् मन्व्यसरवानुरोधतः ॥६०॥  
 ततो मासात्रंशेषाद्युःसमेदाचलमाश्रितः । प्रतिमाथोगमादाय मुनिभिः सह पञ्चभिः ॥६१॥  
 सहस्रैर्ध्यानमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः । फाल्गुनोष्णवल्पञ्चम्यां तनुवातं समाश्रयत् ॥६२॥  
 कल्याणनिर्वाणकल्याण<sup>१</sup>मन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समभ्यर्च्य तत्क्षेत्रमपवित्रयन् ॥६३॥

मालिनी

जननमृत्तितरङ्गाद् दुःखदुर्वारिपूर्ण-

दुपचितगुणरत्नो दुःस्पृहावर्तगर्तात् ।

स कुमतविभुद्वाद् ध्यातिनावा मवाग्धे-

रमजत सुवनाग्र<sup>२</sup> विग्रहग्राहसुकः ॥६४॥

स्वागता

येन शिष्टसुरुवर्धं विमुक्ते-

र्धं नमन्ति नमिताखिलकोकाः ।

यो गुणैः स्वयमधारि समग्रैः

स श्रियं दिशतु मल्लिरण्यः ॥६५॥

द्रतविलम्बितवृत्तम्

अजनि वैश्रवणो धरणीश्वरः

पुत्ररनुत्तरनाम्यपराजिते ।

पचास मनःपर्ययज्ञानी थे । इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥५४-५७॥ बन्धुपेणाको आदि लेकर पचपन हजार आर्यिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे और श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, और सिंह आदि तिर्यच संख्यात थे । इस प्रकार मल्लिनाथ भगवान् इन बारह सभाओंसे सदा सुशोभित रहते थे ॥५८-५९॥ जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे भगवान् मल्लिनाथने मन्व्य जीवरूपी पथिकोको मुक्तिमार्गमें लगाते हुए, मन्व्य जीवोके अनुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें विहार किया था ॥६०॥ जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई थी तब वे सन्मेदाचलपर पहुँचे । वहाँ पाँच हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया और फाल्गुन शुक्ला पंचमीके दिन भरणी नक्षत्रमें सन्ध्याके समय तनुवातचलय—मोक्षस्थान प्राप्त कर लिया ॥६१-६२॥ उसी समय इन्द्रादि-देवोंने स्वर्गसे आकर निर्वाण-कल्याणकका उत्सव किया और गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस क्षेत्रको पवित्र बना दिया ॥६३॥ जिसमें जन्म-मरणरूपी तरंगें उठ रही हैं, जो दुःखरूपी खारे पानीसे लबालब भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँरूपी भँवर पड़नेके गड्ढे हैं और जो मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसाररूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले मल्लिनाथ भगवान् शरीररूपी मगर-मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अग्रभागपर पहुँचे थे ॥६४॥ जिन्होंने मोक्षका श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, और जो समग्रगुणोंसे परिपूर्ण थे वे शल्यरहित मल्लिनाथ भगवान् तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥६५॥ जो पहले वैश्रवण नामके राजा हुए, फिर अपराजित नामके अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अतिशय दुष्ट मोहरूपी

१ मुनीन्द्रकृत म०, ल० । २ स्मृता. ख०, ग० । ३ सख्याता गुण्याः म० । ४ मन्वेत्यामर-ल० । ५ भुवनाग्रे ल० ।

जितखलाखिलमोहमहारिपु-

दिशतु मङ्गिरसावतुलं सुखम् ॥६६॥

मल्लेजिनस्य संतानेऽभूत्पशो नाम चक्रभृत् । द्वीपेऽस्मिन् प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छविषये नृपः ॥६७॥  
 श्रीपुरंशः प्रजापालस्तृतीयेऽजनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसंप्रोक्तगुणानामुत्तमाश्रयः ॥६८॥  
 सुराज्ञस्तस्य नाभूत्पराज्येऽस्यायुक्तिका विभिः । प्रजानां पञ्चभिर्बाधास्तद्वर्द्धन्त ताः सुखम् ॥६९॥  
 शक्तिप्रितयसंपत्त्या शत्रून्निजित्य जित्वरः । विश्रान्तविग्रहो भोगान् धर्मेणार्थेन चान्वभूत् ॥७०॥  
 स कदाचिद् बिलोत्थोल्कापातं जातावबोधनः । आपातरमणीयत्वमाकलय्येत्संपद्म् ॥७१॥  
 स्थास्तुबुद्ध्या विमुग्धत्वादन्वभूवमिमांश्चिरम् । न चेदुल्काप्रपातोऽयं भूयो भ्रान्तिमंवारणवे ॥७२॥  
 इत्यारोप्य सुते राज्यं शिवगुप्तजिनेश्वरम् । प्रपद्य परम पित्सु रयासीत् संयमद्वयम् ॥७३॥  
 समुत्कृष्टाण्ड्युद्धीद्धत्वा रूढाशुभास्त्रवः । क्रमात्कालान्तमासाद्य सुसमाहितमानसः ॥७४॥  
 निजराज्येन संक्रांतं स्वहस्तप्राप्तमच्युतम् । ततोऽप्य कल्पमालोक्य जितक्रेयो हि तुष्यति ॥७५॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमेवायुःप्रान्तेऽसावच्युताधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्यां महौमुजः ॥७६॥  
 इक्ष्वाकोः पद्मनामस्य रामायाश्चाभवत्पुतः । पद्माभिधानः पद्मादिप्रवास्ताशेषरक्षणः ॥७७॥  
 त्रिंशद्वर्षसहस्रायुर्द्वाविंशतिधनुस्तनुः । सुरसुप्रार्थ्यकान्त्यादिः कातस्वरविभास्वरः ॥७८॥

महारिपुको जीतनेवाले तीर्थंकर हुए वे मल्लिनाथ भगवान् तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें ॥६६॥

अथानन्तर—मल्लिनाथ जिनेन्द्रके तीर्थमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे पहले तीसरे भवमें इसी जन्मद्वीपके मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजापाल नामका राजा था । राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं वह उन सबका उत्तम आश्रय था ॥६७-६८॥ अच्छे राजाके राज्यमें प्रजाको अयुक्ति आदि पाँच तरहकी बाधाओंमेंसे कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी ॥६९॥ उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुओंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे और धर्म तथा अर्थके द्वारा समस्त भोगोंका उपभोग किया था ॥७०॥ किसी समय उल्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । अब वह इष्ट सम्पत्तियोंको आपात रमणीय—प्रारम्भमें ही मनोहर समझने लगा ॥७१॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगोंको स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया । यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो संसार-सागरमें मेरा भ्रमण होता ही रहता ॥७२॥ ऐसा विचारकर उसने पुत्रके लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास जाकर परमपद पानेकी इच्छासे निश्चय और व्यवहारके भेदसे दोनो प्रकारका संयम धारण कर लिया ॥७३॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी सुद्धियोंसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने अशुभ कर्मोंका आसन्न रोक दिया था और क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंको समाधिपुक्त किया था ॥७४॥ वह अपने राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे—पुरुषार्थसे प्राप्त हुए अच्युत स्वर्गको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्तुष्ट होता ही है ॥७५॥ वहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु थी । वह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें वहाँ से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं—

इसी जन्मद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक काशी नामक देश है । उसकी वाराणसी नामकी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशीय पद्मनाभ नामक राजा राज्य करता था । उसकी स्त्रीके पद्म आदि समस्त लक्षणोंसे सहित पद्म नामका पुत्र हुआ था । तीस हजार वर्षकी उसकी आयु थी, बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, वह सुवर्णके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे

१ मोहरिपुविभु—७०, म०, ग० । २ मुक्तिवादिभिः म० । ३ तदवतन्त म०, ल० । ४ शत्रुं निजित्य क०, घ० । ५ संपदाम् म०, ल० । ६ पत्तुमिच्छुः । ७ तपोऽह्वा क०, घ० ।

पुण्योद्यात्मकेणाप्य चक्रित्वं विक्रमाजितम् । दशाङ्गभोगाग्निःसङ्गममङ्गानन्वभूषिरम् ॥७६॥  
 पृथिवीसुन्दरीसुख्यास्तस्याष्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतुत्वचराधीशं पुत्रेभ्योऽद्यात्प्रसन्नवान् ॥८०॥  
 एवं सुखेन कालेऽस्य याति सत्यम्बुदोऽम्बरे । प्रक्षयः प्रमोदसुत्पाद्य सद्योऽसौ विकृतिं ययौ ॥८१॥  
 तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य तथाप्येधोऽगमल्लयम् । संपत्सु सर्वविद्धिदुसु का स्वैर्यास्था विवेकिनः ॥८२॥  
 इति चक्री-समालोच्य संयमेऽभूद्वत्तदा । सुकेतुः कुलवृद्धोऽस्य नाम्ना दुश्चरितोऽगवीत् ॥८३॥  
 राज्यसंप्राप्तिकालस्ते कनीयान् नवयौवनः । भोगान् भुङ्क्ष्व न कालोऽयं तपसः किं विधीमैवैः ॥८४॥  
 केनापि तपसा कार्यं किं वृथायासमात्रकम् । नात्र किंचित्फलं नैव परलोकश्च कश्चन ॥८५॥  
 कथं न परलोकश्चेद्भावात्परलोकिनः । पञ्चभूतात्मके काये चेतना मदशक्तिवत् ॥८६॥  
 पिष्टकिण्वादिसंयोगे तत्रात्मोक्तिः खपुष्पवत् । ततः प्रेत्योपभोगादिकादक्षा स्वकृतकर्मणः ॥८७॥  
 नन्व्यास्तस्यैव स भ्रुवा शून्यवादिनम् । आग्रहोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुरु निराकुलम् ॥८८॥  
 सत्यप्यात्मनि कौमारे सुकुमार. कथं तपः । सहसे निप्टुरं देव पुष्करैरपि दुष्करम् ॥८९॥  
 इत्युक्तं तदमात्यस्य स भ्रुवा शून्यवादिन । रूपादिरूप पद्मात्र भूतसङ्घोऽभिलक्ष्यते ॥९०॥  
 सुखदुःखादिसंबेधं चैतन्यं तद्विद्वक्षणम् । तद्वाच देहादिदान्योऽयं स्वसचित्त्यानुभूयते ॥९१॥

॥७६-७८॥ पुण्यके उदयसे उसने क्रमपूर्वक अपने पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्ती-पना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित दश प्रकारके भोगोका आसक्तिके विना ही उपभोग किया था ॥७९॥ उसके पृथिवीसुन्दरीको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था ॥८०॥ इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था । एक दिन आकाशमें सुन्दर बादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको हर्ष उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥८१॥ उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शत्रु हैं ऐसी सम्पत्तियोंमें विवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ? ॥८२॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हो, नवयौवनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं है, व्यर्थ ही निर्युद्धि क्यों हो-रहे हो ? ॥८३-८४॥ किसी भी तपसे क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है । व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है ॥८५॥ परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो, जब परलोकमें रहनेवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार आटा और किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पंचभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ है ऐसा कहना आकाश-पुष्पके समान है । जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी आकांक्षा करना नन्व्यापुत्रके, आकाश-पुष्पका-सेह्रा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है । इसलिए यह तप करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो ॥८६-८८॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी लिया जाये तो इस कुमारावस्थामे जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं जिसे प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेगे ? ॥८९॥ इस प्रकार शून्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमें जो पंचभूतोंका समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है—स्पर्श रस गन्ध और वर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है । मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ इत्यादिके द्वारा जिसका वेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है—पृथक् है । हमारे इस शरीरमें शरीरसे पृथक् चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और

१ खचराधीशं पुत्रेभ्यो ग०, म०, ल० । २ कालस्य ल० । ३ अति प्रौढे 'पुष्कलस्तु पूर्णश्रेष्ठे' क०, म०, टिप्पण्यम् । दुष्करं. ल० ।

बुद्धिपूर्वक्रियालिङ्गादन्यत्राप्यनुमोयते । अस्यात्मा भाविकोकश्च सत्त्वाच्चातीतसंस्मृतेः ॥१२॥  
 इहलोक्यादिपर्यन्तवीक्षणैर्जन्मिनां सताम् । बुद्धिकारणकार्यौ स्तां चैतन्यान्मन्मधीरिव ॥१३॥  
 इत्यादि युक्तिवादेन चक्री तं शून्यवादिनम् । श्रद्धाप्यात्मास्तितानं सम्यक् कृतबन्धुविसर्जनः ॥१४॥  
 वियोज्य स्वात्मने राज्यं सुकेत्वादिमहीमुखैः । जिनासमाधिगुप्ताख्याससं सयममाददौ ॥१५॥  
 विशुद्धिरिणामानामुत्तरोत्तरभाविनाम् । प्राप्य क्रमेण पर्यन्तं पर्यन्तं प्राप घातिनाम् ॥१६॥  
 नवकेवललब्धिविशुद्धव्याहृतीश्वरः । काले कायत्रयं हित्वा पदेऽभूत्पारमेश्वरः ॥१७॥  
 उदयाद्योदयादस्य धरणीधरणीमुदः । तानवं तानवं किंचित्संपदं संपदं श्रितः ॥१८॥  
 नापन्नापन्नभोगेन मामतो मामतोदयाः । सपद्माख्यः सपद्माख्यः संगमः संगमः सताम् ॥१९॥  
 मन्दराग इवोत्तुङ्गो मन्दरागोऽरिधारिणाम् । राजते राजतेजोभिर्नवमोऽनवमो मुदा ॥२०॥

बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती है इस हेतुसे अन्य पुरुषोंके शरीरमें भी आत्मा है—जीव है, अनुमानसे जाना जाता है । इसलिए आत्मा नामका पृथक् पदार्थ है यह मानना पड़ता साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि अतीत जन्मका स्मरण देखा जा है ॥१६०-१२॥ जिस प्रकार मद्दिवापान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँसे आता है पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोंके जो कारण औ कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँसे आती है ? पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होती इसलिए जीवोंका यद्यपि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादिसिद्ध है । इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तिन उ शून्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारको विदा किया अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आि राजाओंके साथ संयम ग्रहण कर लिया—जिन-दीक्षा ले ती ॥१२-१५॥ उन्होंने अनुक आगे-आगे होनेवाले विशुद्धि रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाको पाकर घातिया कर्मोंका अन्त प्रा क्रिया—घातिया कर्मोंका क्षय किया ॥१६॥ अब वे नव केवललब्धियोंसे देदीप्यमान हो उ और विशुद्ध दिव्यध्वनिके स्वामी हो गये । जब अन्तिम समय आया तब औदारिक, तैजस औ कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़कर परमेश्वर सम्बन्धी पदमें—सिद्ध क्षेत्रमें अधिष्ठित ह गये ॥१७॥

अनेक मुकुटबद्ध राजाओंसे हर्षित होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय सम्पत्तिको प्रा हुप चक्रवर्ती पद्मके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी कुछ भी कृशता उत्पन्न नहीं हुई थी ॥१८॥ अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु कीर्ति साथ-साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हुए थे । इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनोंके लि सन् पदार्थोंका समागम प्राप्त करानेवाले हैं ॥१९॥ जो मन्दराचलके समान उन्नत थे—उदार थे

१ सम्यक्कृतविसर्जन म० । २ परमेश्वर म०, ख० । परमेश्वरः ल० । ३ उदयाद्युदयास्तस्य क०, घ० । ४ धरणीधरा राजान्, तान् नयन्ति, इति धरणीधरण्य श्रेष्ठराजा मुकुटबद्ध इति यावत्, तैर्मोदते इति धरणी-धरणीमुद, तस्य । संपद समीचीनपदवीम्, संपदं संपत्तिम्, श्रित श्रयतीति श्रित् तस्य प्राप्तवत्, अस्य पद्म-चक्रवर्तिन, उदयात्, उत्कृष्ट अयः उदयः श्रेष्ठपुण्यं तस्मात्, तानवं तनोरिद तानव शरीरसंबन्धि, तानवं कार्यं, न उदयात् न उदितं न प्राप्तमिति यावत् । ५ आपन्नभोगेन प्राप्तभोगेन सह, या लक्ष्मीः, केवलम्, न आपत् न प्राप्ता कि तु मा लक्ष्मीस्तया मता आवृता उदया अभ्युदया अपि आपन् प्राप्ता, यमिति शेषः । पद्मा-च आख्या च इति पद्माख्ये तान्धां सहित सपद्माख्य लक्ष्मीप्रसिद्धिसहित, मत पूजितः, संगमयतीति संगम समीचीन-वस्तुप्रापकः, पद्म इति आख्या यस्य स पद्माख्यः पद्मनामकेयः, स चक्रवर्ती, सता सज्जनाना, संगम संगमन-शोलः, भवत्स्विति शेषः । ६ मन्दरश्वासावगच्छेति मन्दराग तुमेश्वरिव, उत्तुङ्ग उन्नतः उदाराशय, मन्दी रागो यस्य मन्दरागः, अन्तरागयुक्तः, अनासक्त इति यावत्, अरिधारिणाम् अराः सन्ति यस्मिन् स अरी चक्रं तद् अस्तीति शीला अरिधारिणस्त्वेषां चक्रवर्तिनाम्, नवमः नवमसंख्याकः, राजतेजोभि-राजप्रतापे, अनवमः नान्यः अनवमः श्रेष्ठ इति यावत्, एवभूतः पद्मचक्रवर्ती, मुदा हर्षण, राजते शोभते ॥

मालिनी

प्रथममजनि राजा यः प्रजापालनामा

शमितकरणवृत्त्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभूत् ।

सबलभरतनाथः शर्मणः सद्यः पद्मः

परमपदमवापत्सोऽमलं शं क्रियात्रः ॥१०१॥

तीर्थोऽस्मिन्नेव सभूतौ सप्तमौ रामकेशवौ । तृतीये तौ भवेऽभूतां साकेते राजपुत्रकौ ॥१०२॥

धर्मियस्वापिता त्यक्त्वा तौ स्नेहेन कनीयसे । भ्रात्र स्वस्मै वदौ यौवराज्यं पदमकल्पितम् ॥१०३॥

मन्त्रिणैव कृतं सर्वमिदमित्यतिकोपिनौ । अमात्ये बद्धवैरी तौ धर्मतीर्थान्वयानुगौ ॥१०४॥

शिवगुप्तमुनेरन्तेवासितामेत्य संयमम् । विधाय सुविशालाख्ये सौधमोऽमरतां गतौ ॥१०५॥

ततः प्रच्युत्य भूपत्य वाराणस्यां बभूवतु । इक्ष्वाकुतिककस्याग्निशिखस्य तनयो प्रियौ ॥१०६॥

मातापराजिता केशवती च क्रमशस्तयोः । नन्दमित्राह्वयो ज्येष्ठः कनिष्ठी दत्तसंज्ञकः ॥१०७॥

द्वात्रिंशत्सत्राब्दानौ द्वाविंशतिधनुस्तनू । चन्द्रेन्द्रनीलसङ्काशावर्द्धतामनुत्तरी ॥१०८॥

ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो भ्रान्त्वा संसारसागरे । क्रमेण विजयाद्वाद्रिमन्दराख्यपुराधिपः ॥१०९॥

बलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः । सोऽन्धेद्युर्वयोर्योर्मद्रक्षीरोदाख्योऽस्ति विश्रुतः ॥११०॥

महान्ममैत्र योग्योऽसौ दीयतां गन्धवारणः । इति दर्पात्प्रतिपटस्मी प्राहिणोऽप्यति तौ वचः ॥१११॥

श्रुत्वा तद्वचनं तौ च तेनात्राभ्यां सुते स्वयम् । देये चेदीयते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥११२॥

मन्दरागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे श्रेष्ठ थे, और चक्रवर्तियोंमें नौवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्म बड़े हर्षसे सुगोभित होते थे ॥१००॥

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, तदनन्तर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका धर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर परमपदको प्राप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे ॥१०१॥

अथानन्तर—इन्होंने मञ्जिनाथ तीर्थकरके तीर्थमें सातवे बलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥१०२॥ वे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया । यद्यपि छोटे भाईके लिए युवराज पद देनेका निश्चय नहीं था फिर भी राजाने उसे युवराज पद दे दिया ॥१०३॥ दोनों भाइयोंने समझा कि यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर बहुत क्रुपित हुए और उसपर वैर बाँधकर धर्मतीर्थके अनुगामी बन गये । उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया । जिससे आयुके अन्तमें मरकर सौधमो स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें देव पदको प्राप्त हो गये ॥१०४-१०५॥ वहाँसे च्युत होकर बनारसके राजा इक्ष्वाकुवंशके शिरोमणि राजा अग्निशिखके प्रिय पुत्र हुए ॥१०६॥ क्रमशः अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं । नन्दमित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था ॥१०७॥ बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु थी । बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, क्रमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्ण था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे ॥१०८॥

तदनन्तर—जिसका वर्णन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर क्रमसे विजयार्थ पर्वतपर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ । किसी एक दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्रने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंके पास जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज है वह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए ही दिया जावे ॥१०९-१११॥ दूतके वचन सुनकर उन दोनोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम

१ सभूताम् ल० । २ म० पुस्तके एवं पाठ 'सोऽन्धेद्युर्वयोर्योर्मद्रक्षीरोदाख्योऽतिविश्रुतिः । बलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः' ॥११०॥



इति प्रत्याह तुः कर्णकटुकं तदुदीरितम् । समाकर्ण्य बलीन्द्राख्यो विभ्रत्काकानुकारिताम् ॥११३॥  
 योद्धुमाभ्यां समं भीमकोपः संनद्धवाँस्तदा । खरोन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां सुरकान्तारप्रपतिः ॥११४॥  
 केशवत्या महाभ्राता संभेदाद्रौ सुसाधिते । सिंहपक्षीन्द्रवाहिन्यौ महाविद्ये यथाविधि ॥११५॥  
 दत्त्वा ताभ्यां कुमारभ्यां नाम्ना केसरविक्रमः । तदीयकार्यसाहाय्यं बन्धुत्वेनावभन्यत् ॥११६॥  
 तयोस्तुमुल्लुद्युद्धेन बल्योर्वलिनीरभूत् । संप्रामः क्षयकालो वा संहर्तुं सकलाः प्रजाः ॥११७॥  
 तत्र मायामये युद्धे बलीन्द्रतनयं क्रुधा । मुखं शतवर्कं सृत्योः सीरपाणिरनीनयत् ॥११८॥  
 बलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा समुत्पन्नरुषारमनः । प्रहितं चक्रमुद्विश्य केशवं कौक्षिकोपमम् ॥११९॥  
 तत्रं प्रदग्धिगीकृत्य दक्षिणं बाहुमाभ्रितम् । तदेवादाय दत्तोऽपि हत्वा तं तच्छिरोऽग्रहीत् ॥१२०॥  
 युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रदत्ताभयघोषणौ । त्रिखण्डधरणीचक्रं सचक्रं चक्रतुः स्वकम् ॥१२१॥  
 चिरं राज्यसुखं मुक्त्वा स्वायुरन्ते स चक्रभूत् । वद्भवायुनारिकं वोरमं वधिस्थानमेयिवान् ॥१२२॥  
 तन्निर्वेदेन रामोऽपि संभूतजिनसंनिधौ । दीक्षित्वा बहुभिर्भूपैरभूद्गृहकेवली ॥१२३॥

### खग्धरा

जातौ साकेतपुर्यां प्रथितनृपसुतौ तौ समादाय दीक्षां  
 प्रान्ते सौधर्मेकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयातौ ।  
 वाराणस्यामभूतां पुरुकुलतिककौ नन्दमित्रश्च दक्षौ  
 दत्तोऽसौ सप्तमीं क्षमां समगमदपरोऽप्याप कैवल्यकक्ष्मीम् ॥१२४॥

दोनोंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा सकता ॥११२॥ इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र अत्यन्त क्रुपित हुआ । वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया । उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरविक्रम नामक विद्याधरोंके राजाने जो कि दत्तकी माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्भेदशिखरपर विधिपूर्वक सिंहवाहिनी और गड्ढवाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों कुमारोंके लिए दे दीं और भाईपना मानकर उनके कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥११३-११६॥ तदनन्तर उन दोनोंकी बलवान् सेनाओंका प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयंकर संप्राम हुआ ॥११७॥ बलीन्द्रके पुत्र शतबलि और बलभद्रमें खूब ही मायामयी युद्ध हुआ । उसमें बलभद्रने शतबलिको क्रोधवशा यमराजके मुखमें पहुँचा दिया ॥११८॥ यह देख, बलीन्द्रको क्रोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी सुजापर आ गया । दत्तनारायणने उसी चक्रको लेकर उसे मार दिया और उसका शिर हाथमें ले लिया ॥११९-१२०॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरोंने अभय घोषणा की और चक्रसहित तीनों खण्डोंके पृथिवी-चक्रको अपने आधीन कर लिया ॥१२१॥ चिरकाल तक राज्यसुख भोगनेके बाद चक्रवर्ती-नारायणदत्त, नरकगति सम्बन्धी भयंकर आयुका बन्ध कर सातवें नरक गया ॥१२२॥ भाईके वियोगसे बलभद्रको बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥१२३॥

जो पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तमें सौधर्म-स्वर्गमें देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इक्ष्वाकु वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए । उनमें-से दत्त तो भरकर सातवीं भूमिमें गया और नन्दिषेण

वसन्ततिलका

मन्त्री चिरं जननवा रिनिधौ भ्रमित्वा

पश्चाद् बलीन्द्र इति नामधरः खगेशः ।

दत्तादवासमरणो नरकं दुरन्तं

प्रापत्ततः परिहरन्स्वसुबद्धवैरम् ॥१२५॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे मल्लितोर्थकर-पद्मचक्रि-नन्दिमित्र-  
बलदेव-दत्तनामवासुदेव-बलीन्द्राख्यप्रतिवासुदेवपुराणं परिसमाप्तम् ॥६६॥



कैवल्य-लक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥१२४॥ मन्त्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ और दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिये सबजन पुरुषोंको वैरका संस्कार छोड़ देना चाहिए ॥१२५॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसग्रहमें मल्लिनाथतीर्थकर, पद्मचक्रवर्ती, नन्दिमित्र बलदेव, दत्त नारायण और बलीन्द्र प्रति-  
नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला छयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



## सप्तषष्ठितमं पर्व

निवृत्तौ व्रतशब्दार्थो यस्याभूत् सर्ववस्तुषु । देवाञ्च स व्रतं स्वस्य सुव्रतो मुनिसुव्रतः ॥१॥  
 तृतीये जन्मनीहार्स जिनेन्द्रो मुनिसुव्रतः । भारतेऽङ्गाख्यविषये नृपश्चम्पापुराधिपः ॥२॥  
 हरिवर्माभिधोऽन्वेषुरयोद्याने जिनेश्वरम् । अनन्तवीर्यनाम्नासावनगरं विवन्दिषुः ॥३॥  
 गत्वारमपरिवारेण ससपर्यः परीत्य तम् । त्रि समभ्यर्च्य वन्दिषुवा प्राक्षीदमं सनातनम् ॥४॥  
 संसारी मुक्त इत्यात्मा द्विधा कर्ममिरष्टमिः । बद्धं संसारिणं प्राहुस्तैस्तुक्तो मुक्त इष्यते ॥५॥  
 मूलभेदेन तान्यष्टौ ज्ञानावृत्त्यादिनामभिः । ज्ञेयान्युत्तरभेदेन बस्वैर्बन्धकात्सख्यथा ॥६॥  
 बन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्प्रकृत्यादिविकल्पितः । प्रत्ययोऽपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिजिनोदितः ॥७॥  
 उदयादिविकल्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो द्रव्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥८॥  
 रोधो गुण्यादिमिस्तेषां तपसा रोधनिर्जरं । तुरीयशुक्लध्यानेन मोक्षः सिद्धरततो भवेत् ॥९॥  
 कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । मुक्तस्यातुल्यमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम् ॥१०॥  
 इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं भगवांस्तमवबुधत् । स्ववचोरश्मिजाज्ञेन भव्याब्जानां प्रबोधकः ॥११॥  
 सोऽपि तत्तत्सद्भावमवगम्य यथोदितम् । निर्विद्य संवृतेऽर्जुणोऽपुत्रे राज्यं नियोज्य तत् ॥१२॥  
 ग्रन्थद्वयपरित्यागे पटुश्चटुकमायंयौ । संयमं बहुभिः साद्धं मूर्धन्यैरुर्वर्गामिभिः ॥१३॥  
 अवादीभरदेकादशज्ञानि गुरुसंगमात् । अर्धनात्तीयं कृद्गोत्रं श्रद्धासुदृष्ट्यादिभावनः ॥१४॥

जिनके नामके व्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थोंका त्याग था और जो उत्तम व्रतके धारी थे ऐसे श्री मुनिसुव्रत भगवान् हम सबके लिए अपना व्रत प्रदान करें ॥१॥ भगवान् मुनिसुव्रतनाथ इस भवसे पूर्व तीसरे भवमे इसी भरतक्षेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमे हरिवर्मा नामके राजा थे । किसी एक दिन वहाँके उद्यानमें अनन्तवीर्य नामके निर्धन्य मुनिराज पधारे । उनकी बन्दना करनेकी इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनके पास गये । वहाँ उन्होंने उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, तीन बार पूजा की, तीन बार बन्दना की और तदनन्तर सनातन धर्मका स्वरूप पूजा ॥२-४॥ मुनिराजने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्तके भेदसे दो प्रकारका है । जो आठ कर्मोंसे बद्ध है उसे संसारी कहते हैं और जो आठ कर्मोंसे मुक्त है—रहित है उसे मुक्त कहते हैं ॥५॥ उन कर्मोंके ज्ञानावरणादि नामवाले आठ मूल भेद हैं और उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं ॥६॥ प्रकृति आदिके भेदसे बन्धके चार भेद हैं और मिथ्यात्व अधिरति कषाय तथा योगके भेदसे प्रत्यय-कर्म-बन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है ॥७॥ उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके भेदसे कर्मोंकी अवस्था चार प्रकारकी होती है तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है ॥८॥ गुप्ति आदिके द्वारा उन कर्मोंका संवर होता है तथा तपके द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं । चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोक्ष होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है ॥९॥ सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है और एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है । मुक्त जीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रहित एवं आत्यन्तिक-अन्तातीत होता है ॥१०॥ इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंके जालसे भव्यजीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवान् अनन्तवीर्य मुनिराजने राजा हरिवर्माको तत्त्वका उपदेश दिया ॥११॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा कहे हुए तत्त्वके सद्भावको ठीक-ठीक समझकर संसारसे विरक्त हो गये । उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर दिया और शीघ्र ही

चिरमेवं तपः कृत्वा प्राप्ते स्वाराधनाविधिः । भविष्यत्पञ्चकल्याणः प्राणतेन्द्रोऽभवद्विभुः ॥१५॥  
 सागरोपमविंशत्यामितायुः शुक्ललेङ्गकः । साद्धरिस्त्रयोत्सेधो मासैर्दशभिरुच्छ्वसन् ॥१६॥  
 संवत्सरसहस्राणां विंशत्यामाहिताहृतिः । मनाग्मनःप्रवीचारभोगोऽष्टद्विसमन्वितः ॥१७॥  
 आपञ्चमावनेरामगोचर्यावृतावधिः । तत्क्षेत्रमितशक्त्यादिक्षिरं तत्रान्नवभूत् सुखम् ॥१८॥  
 तस्मिन् षण्मासलेशायुष्यागमिष्यति भूतकम् । जन्मगेहाङ्गणं तस्य रत्नपृष्ठ्याचितं सुरैः ॥१९॥  
 अत्रैव भरते राजा पुत्रे राजगृहाह्वये । सुमित्रो मगधाधीशो हरिवंशशिखामणि ॥२०॥  
 गोत्रेण काश्यपस्तस्य देवो सोमाह्वया सुरैः । पूजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने ॥२१॥  
 स्वप्नान् कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोन्मुखे । प्राणताधीश्वरैःपश्यत् षोडशेष्टार्थसूचकान् ॥२२॥  
 गजराजं च वक्त्रं स्व प्रविशन्तं प्रभाविनम् । तैवेव परिलोषेण प्रबुद्धा शुद्धवेषधत् ॥२३॥  
 नृपभावेद्यत्स्वप्नास्तत्कफश्रवणेच्छया । सावधिः सोऽप्यनाषिष्ट संभूतिं त्रिजगत्पतेः ॥२४॥  
 तद्वाक्श्रवणसंकुलमनोवदनपङ्कजा । तदैवायातदेवेन्द्रकृतामिषवणोत्सवा ॥२५॥  
 सुरोपनीतभोगोपभोगैः स्वर्गसुखावहैः । नवमं मासमासाद्य सुखेनासूत् सुप्रजाम् ॥२६॥  
 संवत्सरचतु पञ्चाशलक्षप्रमितं ब्रजन् । मल्लीशतीर्थसंतानकालान्तर्गतजीवितम् ॥२७॥  
 तज्जन्मलमयायातैः स्वर्दासिञ्चासदिदमुखैः । मेरौ सुरेन्द्रैः संप्रण मुनिसुव्रतसुश्रुतिम् ॥२८॥

स्वर्ग अथवा मोक्ष जानेवाले राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१२-१३॥ उन्होंने गुरुके समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर गोत्रका बन्ध किया ॥१४॥ इस तरह चिर काल तक तप कर आयुके अन्तमे समाधि-मरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक होनेवाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ ॥१५॥ वहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्ल लेङ्गा थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, वह दस माहमें एक बार श्वास लेता था, बीस हजार वर्षमें एक बार आहार ग्रहण करता था, मन-सम्बन्धी थोड़ा-सा कामभोग करता था, और आठ ऋद्धियोंसे सहित था ॥१६-१७॥ पाँचवीं पृथ्वी तक उनके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदिका संचार था । इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक सुखका उपभोग करता रहा । जब उसकी आयु छह माहकी रह गयी और वह वहाँ पृथिवी तलपर आनेवाला हुआ तब उसके जन्मगृहके आँगनकी देवोंने रत्नपृष्ठिके द्वारा पूजा की ॥१८-१९॥

इसी भरतक्षेत्रके मगधदेशमे एक राजगृह नामका नगर है । उसमें हरिवंशका शिरोमणि सुमित्र नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ वह कार्यपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सोमा था, देवोंने उसकी पूजा की थी । तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रमें जब पूर्वोक्त प्राणतेन्द्र स्वर्गसे अवतार लेनेके सम्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे और उनके बाद ही अपने सुँहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान् हाथी देखा । इसी हृषीसे वह जाग उठी और शुद्ध वेषको धारण कर राजाके पास गयी । वहाँ फल सुननेकी इच्छासे उसने राजाको सब स्वप्न सुनाये ॥२१-२३॥ अवधिज्ञानी राजाने बतलाया कि तुम्हारे तीन जगत्के स्वामी जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होगा ॥२४॥ राजाके वचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवोंने आकर उसका अभिषेककृत किया ॥२५॥ स्वर्गीय सुख प्रदान करनेवाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्दसे वीतने लगा । अनुक्रमसे नीवाँ माह पाकर उसने सुखसे उत्तम बालक उत्पन्न किया ॥२६॥ श्रीमल्लिनाथ तीर्थकरके बाद जब चौवन लाख वर्ष बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ॥२७॥ जन्म समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त विद्मण्डलको व्याप्त करनेवाले इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतपर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया

त्रिंशत्सहस्रवर्षायुश्चापविंशतिसंमितः । सर्पाक्षानगलच्छायाः संपन्नाखिललक्षणः ॥२९॥  
 खट्वेन्द्रियमसाङ्गवर्षैः कौमारनिर्गमे । राज्याभिषेकं संप्राप्य प्रासानन्दपरंपरः ॥३०॥  
 शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्तमवस्सरपरिक्षये । गर्जद्घनघटाटोपसमये यागहस्तिनः ॥३१॥  
 वनस्मरणसंत्यक्तकवलग्रहणं नृपः । निरीक्ष्यावधिनेत्रेण विज्ञातैतन्मनोगतः ॥३२॥  
 तत्पूर्वभवसंबद्धं कौतूहलवतां नृणाम् । अवोचद् वृत्तित्पुत्रैः स मनोहरया गिरा ॥३३॥  
 पूर्वं ताडपुराधीशो नाम्ना नरपतिर्नृपः । महाकुलाभिमानादिहुल्लेइयाविण्टचित्तकः ॥३४॥  
 पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः कुज्ञानमोहितः । दत्त्वा किमिच्छकं दानं तत्फलात्समभूदिमः ॥३५॥  
 नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं न राज्यं पूज्यसंपदम् । कुदानस्य च नैःफल्यं वनं स्मरति हुर्मति ॥३६॥  
 तद्भवःश्रवणोरश्वस्वपूर्वमवसंसृष्टे । संयमासंयमं सद्यो जग्राह गजसत्तमः ॥३७॥  
 तदप्रत्ययसमुत्पन्नयोधित्वयागोन्मुखो नृपः । लोकान्तिकैस्तदैवैत्य प्रस्तुतोक्त्या प्रतिश्रुतः ॥३८॥  
 स्वराज्यं युवराजार्थं विजयाय त्रितीर्य सः । सुरैः संप्राप्तनिःक्रान्तिकह्याणद्रुमशीगुणः (?) ॥३९॥  
 अपराजितनामोसशित्रिकामविरूढवान् । रुद्रकीर्तिः शरन्मूढिरुढो नरखगा मरैः ॥४०॥  
 प्राप्य षष्टोपशालेन वनं नीलाभिधानलम् । वैशाखे बहुले पक्षे श्रवणे दशमीदिने ॥४१॥  
 सहस्रभूयैः मायाह्वे सहै संयममग्रहीत् । कैश्यमोशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदश्वनः ॥४२॥

और मुनिसुव्रतनाथ यह नाम रखा ॥२९॥ उनकी आयु तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीस धनुषकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, और स्वयं वे समस्त लक्षणों सम्पन्न थे ॥३०॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सौ वर्ष वीत जानेपर वे राज्याभिषेक पा आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे ॥३१॥ इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वर्ष वीत गये किसी दिन गर्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने वनका स्मरण कर प्राप्त उठान छोड़ दिया—खाना-पीना बन्द कर दिया । महाराज मुनिसुव्रतनाथ, अपने अवधिज्ञानरूप नेत्रके द्वारा देखकर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये । वे कुतूहलसे भरे हुए मनुष्यों सामने हाथीके पूर्व भवसे सम्बन्ध रखनेवाला वृत्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस प्रकार कहने लगे ॥३२-३३॥ पूर्वभवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था वहाँ अपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओसे इसका चित्त सदा विरा रहत था, वह पात्र और अपात्रकी विशेषतासे अनभिज्ञ था, मिथ्याज्ञानसे सदा मोहित रहता था वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ॥३४-३५॥ यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर रहा है और न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥३६॥ भगवान्के वचन सुननेसे उत्तम हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इसलिए उसने शीघ्र ही संयमासंयम धारण कर लिया ॥३७॥ इसी कारणसे भगवान् मुनिसुव्रतको वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वे सम परिग्रहोका त्याग करनेके लिए समुत्सुक हो गये । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उस्तुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया ॥३८॥ उन्होंने युवराज विजयके लिए अराज्य देकर देवोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥३९॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, जिनका मोहकर्म दूर हो रहा है, और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं ऐ वे भगवान् अपराजित नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥४०॥ नील नामक वन जाकर उन्होंने वलाके उपवासका नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमीके दिन श्रवण नक्षत्र सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । शाश्वतपद-मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले सौधर्म इन्द्रने सर्वदर्शी भगवान् मुनिसुव्रतनाथके बालोंका समूह पंचम

शाश्वतं पद्ममन्विच्छन्नं प्रापयत्पद्ममाम्बुधिम् । चतुर्थावगमः शुद्धमतांप्सीत् सोऽप्यलं तपः ॥४३॥  
 समभावनया वृष्यन् वृसोऽपि तनुसंस्थितेः । कदाचित्पारणाकाले प्राथाद्राजगृहं पुरम् ॥४४॥  
 प्रदाय प्रासुकहारं तस्मै चामीकरच्छविः । वृषो वृषभसेनाख्यः पञ्चाश्रयंभवपिवान् ॥४५॥  
 मासोनवसरे याते छात्रस्थे स्वतपोवने । चम्पकद्रमसूलस्थो विहितोपोपितद्वयः ॥४६॥  
 स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाह्ने केवलज्ञानं सद्व्यानेनोदपादयत् ॥४७॥  
 तदैवागत्य देवेन्द्रात्सत्कल्याणं व्यधुमुदा । मानस्तम्भादिविन्यासविषद्विंविभूषितम् ॥४८॥  
 मल्लिप्रभृतयोऽभूवन्नष्टादशगणेशिनः । द्वादशाङ्गधरा पञ्चशतानि परमेष्ठिनः ॥४९॥  
 शिक्षकास्तस्य सद्गन्थाः सहस्राण्येकविंशतिः । मर्त्तुरष्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणाः ॥५०॥  
 तावन्तः केवलज्ञानाः विक्रियद्विसशृद्धयः । द्विशतद्विसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥५१॥  
<sup>१</sup>सहस्राद्दं सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम् । <sup>२</sup>सहस्रं पिण्डितास्त्रिंशत्सहस्राणि मुनीश्वराः ॥५२॥  
<sup>३</sup>पुष्पदन्तादयः पञ्चाशत्सहस्राणि चार्थिकाः । एककाः श्रावकाः कक्ष्यस्त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥५३॥  
 असंख्यातो मरुत्संघः संख्यातो द्वादशो गणः । एषां धर्मं ब्रुवन्नायंक्षेत्राणि च्यहरचिरम् ॥५४॥  
 विहृत्य मासमात्रायुः संमेदाचलमूर्द्धनि । प्रतिमायोगधारी सन् ससहस्रमुनीश्वराः ॥५५॥  
 फाल्गुने श्रवणे कृष्णद्वादश्यां निशि पश्चिमे । भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिजुवतः ॥५६॥  
 कृत्वा पञ्चमकल्याणसपर्यामूर्जितोदयम्<sup>४</sup> । वन्दित्वा सुरवन्दारवृन्दं यातं यथायथम्<sup>५</sup> ॥५७॥

शार्दूलचिक्रीडितम्

व्याप्तं त्वत्प्रमया सदो विजयते नीलोत्पलानां वनं

ध्वान्तं वाक् च मनोगतं ध्रुतवतीमं मातुजां मासुराम् ।

सागर-क्षीरसागर भेज दिया । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और इस तरह उन्होंने दीर्घकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ॥४१-४३॥ यद्यपि वे समभावसे ही तप रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजगृह नगरमें गये ॥४४॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले वृषभसेन नामक राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाश्रय प्राप्त किये ॥४५॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा लेनेके वनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षके नीचे स्थित होकर दो दिनके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात् वैशाख कृष्ण नवमीके दिन श्रवण नक्षत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥४६-४७॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्षसे ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्धियों—सम्पदाओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की ॥४८॥ उन परमेष्ठीके मल्लिको आदि लेकर अठारह गणधर थे, पाँच सौ द्वादशांगके जाननेवाले थे, सज्जनोंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिक्षक थे, एक हजार आठ सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रया ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी थे, और एक हजार दो सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥४९-५२॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, संख्यात तिर्यंच और असंख्यात देव-देवियोंका समूह था । इस तरह उनकी बारह सभाएँ थीं । इन सबके लिए धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकाल तक आर्य क्षेत्रमें विहार किया । विहार करते-करते जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गयी तब सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥५३-५६॥ उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पंचमकल्याणककी पूजा की, बड़े वैभवके साथ वन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥५७॥

<sup>१</sup> सहास्रं सहस्रं तु क०, घ० । <sup>२</sup> पिण्डिताः पिण्डितास्त्रिंशत् ल० । <sup>३</sup> पुष्पदन्तादयः ल० ।  
<sup>४</sup> -मूर्जितोदयाम् ल० । <sup>५</sup> यथायथम् ल० ।

बोधश्चाखिलजं तमो व्यपहरद् ब्रह्मं जगद्ब्रह्मिन्दुं,  
 वन्दे तन्मुनिसुव्रतस्य भगवन्साह्यं तवेन्द्रादिभिः ॥५८॥  
 कार्यं कारणतो गुणं च गुणिनो भेदं च सामान्यतो  
 वनत्येकः पृथगेव कोऽप्यपृथगित्येकान्ततो न द्वयम् ।  
 तत्सर्वं घटते तत्रैव नयसंयोगात्तत्स्वं सता-  
 मासीऽभृमुंनिसुव्रताय भगवस्तुभ्यं नमः कुर्महे ॥५९॥  
 प्रागासीद्हरिवर्मनामनृपतिर्लब्ध्वा तपो बद्धवान् -  
 नामान्त्यं बहुभावनः श्रुचिमतिर्यः प्राणतेन्द्रोऽभवत्  
 च्युत्वाऽस्मान्मुनिसुव्रतो हरिकुलव्योमामलेन्दुजिनो  
 भूत्वा मध्यकुमुद्वर्ती व्यकचयल्लक्ष्मीं प्रदिश्यात्मनः ॥६०॥  
 तन्तीर्थं एव चक्रेशो हरिपेणसमाह्वयः । स तृतीयभवेऽनन्तजिनतीर्थं नृपो महान् ॥६१॥  
 कृत्वा तपः समुत्कृष्टं क्रोडपि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकर्त्तपेऽभृत्सुविशालविमानके ॥६२॥  
 षट्सागरोपमात्मायुःसुंक्त्वा भोगाननारतम् । ततः प्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन् राज्ये भोगपुरेशितुः ॥६३॥  
 प्रभोरिद्वक्त्रकुवंशस्य पद्मनामस्य मामिमी । ऐरानयोः सुतो जातो हरिपेणः सुरोत्तम ॥६४॥  
 शमायुतमितात्मायुः कनकच्छूरसच्छवि । धनुर्विंशतिमानाङ्गः क्रमेणापूर्णयौवनः ॥६५॥  
 कद्राचिचेन गत्वात्मा पद्मनाममहीपतिः । जिनं मनोहरोद्यानेऽनन्तवीर्याभिधानकम् ॥६६॥  
 अभिवन्द्य ततः श्रुत्वा तत्त्वं संसारमोक्षयोः । संत्यज्य राजसीं वृत्तिं शमं स्थातुं समुत्सुकः ॥६७॥

हे प्रभो ! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो न कमलौंका वन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेवाले आपके वचन सूर्यसे उत्पन्न दीप्ति पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थोंसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्कारको नष्ट करता है इसलिए हे भगवन् मुनिसुव्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-सा सब संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस-ज्ञानरूपी सूर्यको सदा नमस्कार करता हूँ ॥५८ कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको और सामान्यसे विशेषको पृथक् बतलाते हैं और को एक—अपृथक् बतलाते हैं ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे हैं अतः घटित नहीं होते आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन् ! सज्जनपुर आपकी आज्ञा कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥५९॥ जो हरिवर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्त कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिभरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र और वहाँसे आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीर्थकर होके भव्यजीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित किया वे श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिये अपनी लक्ष्मी प्रदान करें ॥६०॥

इन्हीं मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें हरिपेण नामका चक्रवर्ती हुआ। वह अपनेसे पूर्व तीस भवमें अनन्तनाथ तीर्थकरके तीर्थमें एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी कारणसे उत्कृष्टतप क सनत्कुमार रवर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें भो नगरके स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा पद्मनामकी रानी ऐराके हरिपेण नामका उत्तमपुत्र हुआ ॥६१-६४॥ दश हजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कनकच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, चौ धनुष ऊँचा शरीर था और क्रम-क्रमसे उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था ॥६५॥ किसी एक दिन राज पद्मनाम हरिपेणके साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तवीर्य नामक जिने-

१ गुणितो ल० । २ तृतीया ल० । ३ सुविशालविमानक ल० । ४ ऐरा तयो ल० । ५ कनकच्छूर ल० । ६ क्रमेण ल० । ७ महामति ल० । ८ तत्त्वे क०, घ०, म० । ९ राजसा ल० ।

राज्यमारं समागोष्य सुते भूपतिभिः समम् । बहुभिः संयमं प्रारत् प्रपित्सुः परमं पद्मम् ॥६८॥  
हरिषेणोऽप्युपादाय श्रावकव्रतमुत्तमम् । मुक्तेद्वितीयसोपानमिति मत्वाऽविशत् पुरम् ॥६९॥  
तपस्यतश्चिरं वीरं पद्मनाभमहासुनेः । दीक्षावनेऽभूत् कैवल्यं प्रतिमायोगघाणिः ॥७०॥  
आसंक्रातपत्रासिदग्धरत्नानि तद्धिने । हरिषेणमहीशस्य तद्देवायुषवेऽमनि ॥७१॥  
श्रीगृहे काकिणीचर्ममणिरत्नानि चाभवन् । युगपत्तष्टचित्तोऽसौ नत्वा तद्दृश्यशंसिने ॥७२॥  
दत्त्वा तुष्टिघ्नं प्रायाजिनपूजाविधित्सया । पूजयित्वाभिवन्द्यैर्न जिर्नं प्रति निवर्त्य सः ॥७३॥  
पुरं प्रविश्य चक्रस्य कृतपूजाविधिर्दिशः । जेतुं समुद्यतस्तस्य तदानीमभवत् पुरे ॥७४॥  
पुरोहितो गृहपतिः स्थपतिश्च चम्पतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगाद्देरानयन् खगाः ॥७५॥  
नदीमुखेषु संभूताश्चापि महतो निधीन् । आनिन्धरे स्वयं मक्त्या गणवद्धामिघाः सुराः ॥७६॥  
स तैः श्लाघ्यषडङ्गेन बलेन प्रस्थितो दिशः । जित्वा तत्साररत्नानि स्वीकृत्य विजितास्त्रिकः ॥७७॥  
स्वराजधान्यां संसेव्यः सुरभूपखगाधिपैः । दशाङ्गभोगान्निर्व्यग्रं निर्विशन् सुचिरं स्थितः ॥७८॥  
कदाचित् कार्तिके मासे नन्दीश्वरदिनेऽव्ययम् । कृत्वाऽष्टसु महापूजां सोमवासोऽन्तिमे दिने ॥७९॥  
हर्म्यदृष्टे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाश्वरे । मासमानः समाकोक्य राहुप्रासीकृतं विभुम् ॥८०॥  
धिगस्तु संसृतेर्मावं ज्योतिर्लोकैकनायकः । अस्तस्तारापतिः कष्टं पूर्णं स्वैर्वैष्टितोऽप्ययम् ॥८१॥

की वन्दना कर उन्होने उनसे संसार और मोक्षका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़कर शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये ॥६६-६७॥ परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सौपा और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥६८॥ 'यह मोक्ष-महलकी दूसरी सीढ़ी है' ऐसा मानकर हरिषेणने भी श्रावकके उत्तम व्रत धारण कर नगरमें प्रवेश किया ॥६९॥ इधर चिर काल तक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीक्षावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया और वहीं उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७०॥ उसी दिन राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड्ग और दण्ड ये चार रत्न प्रकट हुए तथा श्रीगृहमे काकिणी, चर्म और मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार देनेवालोंने दोनों समाचार एक साथ सुनाये इसलिये हरिषेणका चित्त बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । वह समाचार सुनानेवालोंके लिए बहुतसा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला और जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना कर वहाँसे वापस लौट नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ चक्ररत्नकी पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमें पुरोहित, गृहपति, स्थपति और सेनापति ये चार रत्न प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयार्थ पर्वतसे हाथी, घोड़ा और कन्यारत्न ले आये ॥७१-७५॥ गणवद्ध नामके देव नदीमुखों-नदियोंके गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नौ बड़ी-बड़ी निधियाँ भक्तिपूर्वक स्वयं ले आये ॥७६॥ उसने छह प्रकारकी प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओंको जीतकर उनके सारभूत रत्न ग्रहण किये, सबपर विजय प्राप्त की और अन्तमें देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओंके द्वारा सेवित होते हुए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया । वहाँ वह दश प्रकारके भोगोंका निराकुलतासे उपभोग करता हुआ चिर काल तक स्थित रहा ॥७७-७८॥

फिरसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीश्वर पर्वसम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महापूजा की और अन्तिम दिन उपवासका नियम लेकर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठे था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाशमें शरद् ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो । वहीं बैठे-बैठे उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने ग्रस लिया है ॥७९-८०॥ यह देख वह विचार करने लगा कि संसारकी इस अवस्थाको धिक्कार हो । देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिर्लोकका मुख्य नायक है, पूर्ण है और अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे ग्रस लिया । जब इसकी यह दशा है तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्या दशा होती होगी ।

१ राजभार क०, घ० । २ महाभक्त्या म०, ल० ।



अत्र का गतिरन्वेषां प्राप्ते कालेऽविलङ्घिनि । विधौ विलसतीत्यात्तनिर्वेदो मरताधिपः ॥८२॥  
 अनुप्रेक्षास्वरूपाख्या मुखेन स्वसमास्थितान् । धर्मसारं निरूप्याशु कृत्वा तत्त्वार्थवेदिनः ॥८३॥  
 दत्त्वा राज्यं सतां पूज्यो महासेनाय सूनवे । तत्प्रार्थितेन संतप्यं दीनानाथवनीपकान् ॥८४॥  
 श्रीनागजिनमासाद्य सीमन्ताचलसुस्थितम् । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा संगं ध्यङ्गमनङ्गजित् ॥८५॥  
 बहुभिः सह संप्राप्य संयमं शमसाधनम् । क्रमेण प्राप्तवह्निद्विंशत्युरन्ते चतुर्विधाम् ॥८६॥  
 आराधनां समाराध्य प्रायोपगमनं श्रितः । क्षीणपापः कृपासूर्तिरापान्तिमसमुत्तरम् ॥८७॥

भूपः कोऽपि पुरा श्रिया श्रितवपुः पापोपलेपाद् भृशं  
 विभ्यत्प्राप्य तपो भवस्य शरणं मत्वा तृतीयेऽभवत् ।  
 कल्पेऽन्ते भुवमेत्य चक्रिपदवीं संप्राप्य भुङ्क्त्वा सुखं

स श्रीमाम् हरिपेणराजवृषभः सर्वार्थसिद्धिं ययौ ॥८८॥

तोशेऽस्मिन्नेव संभूतावष्टमौ रामवैश्वौ । रामलक्ष्मणनामानौ तत्पुराणं निगद्यते ॥८९॥  
 इहैव भारते क्षेत्रे राष्ट्रे मलयनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रत्नपुराधिपः ॥९०॥  
 सुक्तं तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचूलसमाह्वयः । विजयाख्येन तस्यासीत्संप्रीतिर्मन्त्रिसुनुना ॥९१॥  
 पितृसल्लाकितौ बाकौ कुक्कादिभद्रचोदितौ । अमृतां दृष्टचारित्रौ दन्तिनौ वा निवर्तितौ ॥९२॥  
 अन्वेषुस्तपुरे गौतमा-वैश्रवणसंभव- । श्रीदत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजानं सतीम् ॥९३॥  
 दीयमानां समालोक्य पाण्यग्भःशेकपूर्वकम् । कुबेरदत्तां केनापि महापापविधायिना ॥९४॥

इस प्रकार चन्द्रग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिषेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने अनुप्रेक्षाओं स्वरूपका वर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंको श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप बतलाया और शी ही उन्हें तत्त्वार्थका ज्ञाता बना दिया ॥८१-८३॥ सत्पुरुषोंके द्वारा पूजनीय हरिषेणने अ महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवांछित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंक सन्तुष्ट किया । तदनन्तर कामको जीतनेवाले उसने सीमन्त पर्वतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनि राजके पास जाकर विविध प्रकारके परिग्रहका विधिपूर्वक त्याग कर दिया । उसने अने राजाओंके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अने ऋद्धिर्था प्राप्त कीं और आयुके अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएँ आराध कर प्रायोपगमन ना संन्यास धारण कर लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्तिस्वरूप है ऐसा वह चक्रवर्ती अन्तिम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥८४-८७॥ श्रीमा हरिषेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिङ्गित था ऐसा कोई रा था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिय जिससे तृतीय स्वर्गमें देव हुआ, फिर आयुके अन्तमें वहाँसे पृथिवीपर आकर हरिषेण चक्रवत् हुआ और सुख भोगकर सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ ॥८८॥

अथानन्तर—इन्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें राम और लक्ष्मण नामके आठवें बल भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है ॥८९॥ उसी भरतक्षेत्रके म नामक राष्ट्रमे रत्नपुर नामका एक नगर है । उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे ॥९०॥ उनक गुणकान्ता नामकी स्त्रीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था । उन्हीं प्रजापति महाराजके मन्त्रीका विजय नामका पुत्र था । चन्द्रचूल और विजयमें बहुत भारी स्नेह था । ये दोनों ही पुत्र अपने-पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाड़से उनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमण्ड सद उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्त हाथियोंके समान दुराचारी हो गये थे ॥९१-९२॥ क्विसीं एक दिन उसी नगरमें रहनेवाला कुबेर सेठ, उसी नगरमें रहनेवाले वैश्रवण सेठकी गौतम स्त्रीसे उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदत्ता नामक

तस्याः स्वानुचरोणोक्तं श्रुत्वा रूपादिरूपदम् । कुमारं तां स्वसाकृतुं सह मित्रे ससुधते ॥१९॥  
 बणिक्संघसामाक्रोशध्वनिमाकर्ण्य भूपतिः । स्वतनूजदुराचारद्वारूढकोपवाचकः ॥१९॥  
 पुररक्षकमाहूय दुरात्मानं कुमारकम् । लोकान्तरातिथिं सद्यो विधेहीति समादिशत् ॥१९॥  
 तदैव सोऽपि राजाज्ञाचोदितस्तमुलाह्वये । जीवप्राह गृहोत्थानमानयज्ञद्वयं विभोः ॥२०॥  
 तदा लोच्य किमित्येष पापीहानीयते हृतम् । निशातयूक्तमारोप्य इमंशाने स्थाप्यतामिति ॥१९॥  
 राज्ञोक्ते प्रदिशते हन्तुं कुमारं पुररक्षकम् । न्यायानुवर्तिनां युक्तं न हि स्नेहानुवर्तनम् ॥१००॥  
 तदामात्योत्तमः पौरान्पुरस्कृत्य महीपतिम् । व्यजिज्ञपदिति व्यक्तमुत्क्षिप्तकरकुड्मकम् ॥१०१॥  
 कृत्याकृत्यविवेकोऽस्थं न बाह्यादेवं विद्यते । प्रमादोऽस्माकमेवायं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥१०२॥  
 न दान्तोऽयं नृमिदंन्ती शैशवे चेद् यथोचितम् । प्राप्तैश्वर्यं न किं कुर्षादसौ दपग्रहाहितः ॥१०३॥  
 न बुद्धिमान् न दुर्बुद्धिर्न वर्षं दण्डमहति । आहायवृद्धिरैषोऽतः शिक्षणोऽयुष्वाप्यकम् ॥१०४॥  
 न कोपोऽस्मिन्स्वबास्थेयं न्यायमार्गं निर्नाषया । निगुह्यस्येक एवायं राज्यसंवत्सित्तुर्वौ ॥१०५॥  
 अन्प्रसंघितसतोऽन्वयमच्युतं तदिति श्रुतिः । सा तवाद्य समयाति संवतानोच्छेदकारिणः ॥१०६॥  
 एतत्पूकारतो ज्येष्ठं तनूजमवधीन्नुपः । इत्यवाच्यमयग्रस्ता पौराश्रिते पुरास्थिताः ॥१०७॥  
 तत्क्षमस्वापरायं मे महाशत्रुप्रार्थितोऽस्यसुम् । एतन्मन्त्रिवचः श्रुत्वा विरूपकमुदीरितम् ॥१०८॥

पुत्री दे रहा था। उसी समय महापापके करनेवाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुवेरदत्ताके रूप आदिकी प्रशंसा की। उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक अपने अधीन करनेके लिए तत्पर हो गया। ॥६३-६५॥ यह देख, वैद्योंका समूह चिन्ताता हुआ महाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते ही महाराजकी क्रोधाग्नि अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त मड़क उठी। उन्होंने नगरके रक्षकको बुलाकर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो—मार डालो ॥६६-६७॥ उसी समय राजाज्ञासे प्रेरित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भौड़मेंसे इस राजकुमारको जीवित पकड़कर महाराजके समीप ले आया ॥६८॥ यह देख राजाने विचार किया कि इस पापीको शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाये? कुछ देर तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षकको आदेश दिया कि इसे इमशानमें ले जाकर पैनी शूलोपर चढ़ा दो ॥६९॥ राजाके कहते ही नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल दिया। सो ठीक ही है क्योंकि न्यायके अनुसार चलनेवाले पुरुषोंको स्नेहका अनुसरण करना उचित नहीं है ॥१००॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया और हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥१०१॥ हे देव! इसे कार्य और अकार्यका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नहीं है, यह हम लोगोंका ही प्रमाद है क्योंकि माता-पिताके द्वारा ही बालक सुरिक्षित और सदाचारी बनाये जाते हैं ॥१०२॥ यदि हाथीको बाल्यावस्थामें यथायोग्य रीतिसे बशमें नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्योंके द्वारा बशमें नहीं किया जा सकता, यही हाल बालकोंका है। यदि वे बाल्यावस्थामें बश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी ग्रहसे आक्रान्त हो क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं ॥१०३॥ यह कुसार न तो बुद्धिमान् है और न दुर्बुद्धि ही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं है। अभी यह आहार्य बुद्धि है—इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए ॥१०४॥ कुमारपर आपका कोप तो है नहीं, आप तो न्यायमार्गपर ले जानेके लिए ही इसे दण्ड देना चाहते हैं परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्यकी सन्तति धारण करनेके लिए यह एक ही है—आपका यही एक मात्र पुत्र है ॥१०५॥ यदि आप इस एक ही सन्तानको नष्ट कर देंगे तो कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया' यह लोकोक्ति आज ही आपके शिर आ पड़ेगी ॥१०६॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके रोने-चिल्लानेसे महाराजने अपने बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्दाके भयसे अस्त हुए थे सभी नगरवासी आपके

अविश्रित्विरे शास्त्रार्थं भवन्तिः श्रुतपारणैः । दुष्टानां निग्रहः शिष्टपालनं भूमुजां मतम् ॥१०९॥  
 नीतिशास्त्रेषु तत्कनेहमोहासक्तिभयादिभिः । अस्मामिर्लङ्घिते न्याये भवन्तस्तस्य वर्तकाः ॥११०॥  
 तस्माद्युक्तं युष्माकं मां योजयितुमुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महामुजा ॥१११॥  
 कृत्याकृत्यविवेकातिदूरो मूढो महामुजः (?) । स सांख्यपुरुषस्तेन कृत्यं नात्रापन्न च ॥११२॥  
 तस्मान्न प्रतिषेधोऽहमिति राज्ञामिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव पुन्येत्युभयात् ॥११३॥  
 सुते निःस्निग्धतां भर्तृर्वातन् देवाहमेव तम् । दण्डयिष्यामि मत्वेति निर्गम्यं तदनुज्ञया ॥११४॥  
 प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनगिर्यं द्विमब्रवीत् । हे कुमार तवावश्यं मरणं समुपस्थितम् ॥११५॥  
 विभी. शक्नोषि किं<sup>३</sup> मर्तुमित्यवादीत्स चेदज्ञम् । विभेमि चेदहं मृत्योः किमित्येतदनुष्ठितम् ॥११६॥  
 सलिलं वा तृषार्त्तस्य शीतलं मरणं मम । तत्र का भीरिति व्यवर्तं तदुक्तमवबुध्य सः ॥११७॥  
 नागरेभ्यो महामर्त्रे कुमारायात्मनेऽपि च । लोकद्वयहितं कार्यं निश्चित्य सचिवाप्रणो ॥११८॥  
 तद्विभ्रमस्वकं गत्वा महाबलगणेशिनम् । अभिवन्द्य निजायातकार्यं चात्मे न्यवेदयत् ॥११९॥  
 मनःपर्ययसंज्ञानचक्षुः स गणनायकः । मा भैषीद्वाविंशौ रामकेनवाविह भाविनौ ॥१२०॥  
 तृतीयजन्मनीत्याह तच्छ्रुत्वा सचिवो मुदा । तौ तत्रानीय संश्राप्य धर्मं संयममापयत् ॥१२१॥  
 ततो भूपतिमासाद्य मन्त्रीतोदमबोधयत् । वारणारेतिवामीशेरेकस्य गुहाश्रितः ॥१२२॥

सामने खड़े हुए हैं ॥१०७॥ इसलिए हे महाराज ! हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगोंका यह अपराध क्षमा कर दिया जाय । मन्त्रीके यह वचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग शास्त्रके पारगामी होकर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं । दुष्टोंका निग्रह करना और सज्जनोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, नीतिशास्त्रोंमें बतलाया गया है । स्नेह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जावेंगे । आप लोगका मुझे उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं है । यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोष-पूर्ण हो जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिए । जो मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्योंके विवेकसे दूर रहता है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान है । उससे इस लोक और परलोकसम्बन्धी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥१०८-११२॥ इसलिए इस कार्यमें मुझे रोकना ठीक नहीं है । महाराजके इस प्रकार कहनेपर लोगोंने समझा कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं ऐसा समझ सब लोग भयसे अपने-अपने घर चले गये ॥११३॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है ऐसा जानते हुए मन्त्रीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं इसे दण्ड स्वयं दूंगा । इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मन्त्री भी चला गया ॥११४॥ वह अपने पुत्र और राजपुत्रको साथ लेकर वनगिरि नामके पर्वतपर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्या आप निर्भय हो मरनेके लिए तैयार है ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है इसमें भयकी कौन-सी बात है ? इस तरह कुमारकी बात सुनकर मुख्य मन्त्रीने महाराज, राजकुमार और स्वयं अपने दोनों लोकोंका हित करने-वाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥११५-११८॥ तदनन्तर मन्त्रीने उसी पर्वतके शिखरपर जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की और उन्हें अपने आनेका सब कार्य भी निवेदन किया ॥११९॥ मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले उन गणधर महाराजने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भवमें इस भरतक्षेत्रके नारायण और बलभद्र होनेवाले हैं ॥१२०॥ यह सुनकर मन्त्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन दोनोंको संयम धारण करा दिया ॥१२१॥ तदनन्तर वह मन्त्री राजाके समीप आया और यह

१ चात्रापन्न च ल० । २ निर्गत्य ल० । ३ मिवावादीत् ल० । ४ निजायात-क०, थ० । ५ -मापयन् क० थ० ।

अनादृतस्वसौख्यस्य कस्यचिद् वनवासिनः । स्वकार्यैर्वृत्तितीव्रस्य जनस्याल्युप्रचेष्टितुः ॥१२३॥  
 तावपितौ मया सोऽपि तावाह कृतदोषयोः । भवतोर्न सुखं स्मर्यां दुःखं भोग्यं सुदुष्करम् ॥१२४॥  
 स्मर्तव्या देवता चित्ते परलोकनिमित्तत । इत्येतत्तौ च भद्र एव मा कृथाः कष्टदण्डनम् ॥१२५॥  
 आवाग्यामावयोः कार्यमित्यात्मकरभाषिताम् । वेदनां तद्भ्रमापाद्य परलोकोग्मुखाद्युभौ ॥१२६॥  
 अभूतां तद्विलोक्याहमभिप्रेतार्थनिष्ठितम्<sup>२</sup> ।<sup>३</sup> सुविधायामगतो देव सिद्धं भवदुर्द्वारितम् ॥१२७॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं राजा महादुःखाकुलो मनाक् । निवातस्त्वित्तमिदक्ष्माजसमानो निश्चलं स्थितः ॥१२८॥  
 आत्मना मन्त्रिभिर्वन्दुर्जैश्चालोक्य निश्चितम् । कार्यं हितमनुष्ठेयं तत्प्राग्नातुष्ठितं त्वया ॥१२९॥  
 करजाकमतिक्रान्तमिव सर्षिमहीरुहं । प्रसूनमिव संशुष्कं कार्यं कालातिपातितम् ॥१३०॥  
 तत्र शोको न कर्तव्यो वृथेति सचिवोदितम् । श्रुत्वा तद्वचनं ब्रूहि तर्कं तद्वृत्तकं कथम् ॥१३१॥  
 हृद्यप्राक्षीत्ततोऽस्यामिप्रायवित्सचिवोऽवदत् । यतयो वनगिर्यद्विगुहागहनवासिनः ॥१३२॥  
 धैर्यसिधारानिमिन्नकषायविषयद्विषः । स्थूलसूक्ष्मासुभृदक्षानितान्तोद्यतवृत्तयः ॥१३३॥  
 मिया मियेव कोपेन कोपेनेवाजिताशयाः । असयतेषु भोगोपभोगेष्वेव निरादराः ॥१३४॥  
 तेभ्यस्तौ धर्मलज्जानं श्रुत्वा निबिद्य दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात् परितुष्टो महोपतिः ॥१३५॥  
 लोकद्वयहितो नान्यस्त्वमेवेत्यमिनन्ध तम् । दुष्पुत्र इव भोगोऽयं पापापकापकारणम् ॥१३६॥

कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहता था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने सुखोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्योंमें अत्यन्त तीव्र था और उग्र चेष्टाका धारक था । मैंने वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौप दिये । उस गुहावासीने भी उनसे कहा कि आप दोनोंने बहुत भारी दोष किया है अतः अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, अब तो आपको कठिन दुःख भोगना पड़ेगा । परलोकके निमित्त हृदयमें इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिए । यह सुनकर उन दोनोंने मुझसे कहा कि 'हे भद्र ! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिए, यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं अर्थात् स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं । यह कह वे दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हो गये । यह देख मैं इष्ट अर्थकी पूर्ति कर वापस चला आया हूँ । हे राजन् ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया ॥१२२-१२७॥ मन्त्रीके वचन सुनकर राजा महादुःखसे व्यग्र हो गया और कुछ देर तक हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़े हुए वृक्षके समान निश्चल बैठ रहा ॥१२८॥ तदनन्तर राजाने अपने आप, मन्त्रियों तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया और तत्पश्चात् मन्त्रीसे कहा कि तुम्हें सदा हितकारी कार्य करना चाहिए, आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया ॥१२९॥ मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीत हो चुकता है और जो फूल साँपवाले वृक्षपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमें शोक करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती—अतीत हो चुका है अतः अब आपको इस विषयमें शोक नहीं करना चाहिए । मन्त्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथार्थ वात क्या है ? तदनन्तर राजाका अभिप्राय जाननेवाला मन्त्री बोला कि वनगिरि पर्वतकी गुफाओं और सघन वनोंमें बहुत-से यति-मुनि रहते हैं । उन्होंने अपने धैर्यरूपी तलवारकी धारासे कषाय और विषयरूपी शत्रुओंको जीत लिया है, क्या स्थूल क्या सूक्ष्म—सभी जीवोंकी रक्षा करनेमें वे निरन्तर तत्पर रहते हैं । भय मानो भयसे ही और क्रोध मानो क्रोधके कारण ही उनके हृदयको नहीं जीत सका है । वे भोग-उपभोगके पदार्थोंमें असंयमियोंके समान सदा निरादर करते रहते हैं । वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं । इस प्रकार मन्त्रीके स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही सन्तुष्ट हुआ ॥१३०-१३५॥ 'दोनों लोकोंका हित करनेवाला तू ही है' इस प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप और निन्द्याके कारण है ।

१-तवाह ल० । २ निष्ठितो ल० । ३ सुविधाय यातो ल० । ४ पापापकापकारणम् क०, घ०, ङ० ।

इति स्वकुलयोग्याय दत्तराज्यमहामरः । गत्वा गणेशमभ्यर्च्य वनाद्गौ नवसंयत्तौ ॥१३७॥  
 मया कृतो महान् दोषस्तं क्षमेथां युचामिति । निगदन्नावयोर्लोकद्वितथैकगुरुर्मवान् ॥१३८॥  
 संयमोऽयं त्वयैवापि ताभ्यां संप्राप्य संस्तवम् । बहुमिर्भूम्यै (?) सार्द्धं त्यक्तसङ्ग सं संयमम् ॥१३९॥  
 प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिर्षातिकर्मविधातकृत् । केवलावगमभयोतिलोकाग्रे व्यद्युतत्तारम् ॥१४०॥  
 तौ समुत्कृष्टचारित्रौ द्वौ खड्गपुरबाह्यगौ । आतापयोगमादाय तस्थुतस्यकविप्रहौ ॥१४१॥  
 तत्पुराधिपसोमप्रमाह्वयस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तत्सुनुः सुप्रभः सुप्रभाङ्गधृत् ॥१४२॥  
 पुरुषोत्तमनामा च गुणैश्च पुरुषोत्तमः । मधुसूदनमुच्छिद्य कृतदिरजयपूर्वकम् ॥१४३॥  
 नृत्वेचरसुरार्थीशप्रवद्धितमहोदयम् । प्रविशन्तं प्रभावन्तं नगरं पुरुषोत्तमम् ॥१४४॥  
 चन्द्रचूलमुनिर्दंष्ट्रा निदानमकृताज्ञकः । जीवनावसितौ रुम्यगाराध्योमौ चतुर्विधम् ॥१४५॥  
 सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । त्रिजयः स्वर्णचूलेऽन्यो मणिचूले मणिप्रभे ॥१४६॥  
 जातवन्तो तदुत्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसंभोगौ ततश्च्युत्वेह मारते ॥१४७॥  
 वाराणसीपुराधीशो राज्ञो दशरथभृतेः । सुतः सुबालासंज्ञायां शुभस्वप्नपुरस्तरम् ॥१४८॥  
 कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यजायत । मवायां हृत्पृष्ठान्वी चूलान्तकनकामरः ॥१४९॥  
 त्रयोदशसहस्राब्दे रामनामानताखिलः । तत एव महीमर्तुः कैकेयामभवत्पुरः ॥१५०॥  
 सर.सूर्येन्दुकलमक्षेत्रसिंहान् महाफलान् । स्वमान् संदर्श्य माघस्य शुद्धशुक्लादिमे दिने ॥१५१॥

ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके योग्य किसी पुत्रको राज्यका महान् भार सौंप दिया औ वनगिरि नामक पर्वतपर जाकर गणधर भगवान्की पूजा की। वहीपर नवदीक्षित राजकुमा तथा मन्त्रि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा कीजिए। राजाके वचन सुनकर नवदीक्षित मुनियोंने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोकोंके गुरु है, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है। इस प्रकार उन दोनोंसे प्रशंसा पाक राजाने सब परिग्रहका त्याग कर अनेक राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१३६-१३९॥ क्रम-क्रमसे मोह कर्मका विध्वंस कर अवशिष्ट घातिया कर्मोंका नाश किया और केवलज्ञानरूप व्यक्तिको प्राप्त कर वे लोकके अभ्रभागमें देदीप्यमान होने लगे ॥१४०॥

इधर उत्कृष्ट चारित्रिका पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथ शरीरसे ममत्व छोड़कर खड्गपुर नामक नगरके बाहरस्थित थे ॥१४१॥ उस समय खड्गपुर नगर के राजाका नाम सोमप्रभ था। उसके सुदर्शना और सीता नामकी दो स्त्रियाँ थीं। उन दोनों उत्तम कान्तिवाले शरीरको धारण करनेवाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्त इस प्रकार दो पुत्र थे। इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह दिग्विजयके द्वारा मधुसूदन ना प्रतिनारायणको नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था। मनुष्य, विद्याधर और देवेन्द्र ७ ऐश्वर्यको बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था ॥१४२-१४४॥ नगरमें प्रवेश करते अज्ञानी चन्द्रचूल मुनि ( राजकुमारका जीव ) निदान कर बैठा। अन्तमें जीवन समाप्त होने पर दोनों मुनियोंने चार प्रकारकी आराधना की, चार प्रकारके आहारका त्याग किया। उनमें- एक तो सनत्कुमार स्वर्गके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्र विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी। चिर काल तक वहाँके सुख भोगकर वे वहाँसे च्युत हुए ॥१४५-१४७॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी सुबा नामकी रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देखे और उसीके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन म नक्षत्रमें सुवर्णचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार वलभद्र हुआ। उसक तेरह हजार वर्षकी आयु थी, राम नाम था, और उसने सब लोगोंको नन्त्रीभूत कर रखा था। उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी कैकेयी थी। उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खे

विशाखे स चक्राङ्को मणिचूळोऽमृताननः । षड्गुणद्विसहस्राब्दजीवितो लक्ष्मणाह्वयः ॥१५२॥  
 तौ पञ्चदशचापोधौ द्वात्रिंशल्लक्षणाश्विनौ । आदिसंहननौ संस्थानं चाभूदादिमं तयोः ॥१५३॥  
 अमेयवीर्यौ हंसाग्रनीलोत्पलसमस्विवौ । तयोः सपञ्चपञ्चाशत्-पञ्चाशद्वर्षसंमिते ॥१५४॥  
 कुमारकाले निष्क्रान्ते नितान्तपरमोदये । भारतेऽस्मिन्नयोध्यायां भरतादिमहीशितुः ॥१५५॥  
 गतेष्विद्वचाकुसुखेषु संख्यातीतेष्वनन्तरम् । हरिषेणमहाराजे दशमे चक्रवर्तिनि ॥१५६॥  
 सर्वार्थसिद्धावुत्पन्ने सवत्सरसहस्रके । काले गतवति प्राभूत् सगराख्यो महीपतिः ॥१५७॥  
 निःस्रग्दमण्डलश्चण्डः सुकसाया स्वयंवरे । मधुपिङ्गलनामानं कुमारवरमागतम् ॥१५८॥  
 दूष्यलक्ष्मायमित्युक्त्वा निरास्य भूपमध्यगम् । सगरे बद्धवैरः सन् निष्कम्य मधुपिङ्गलः ॥१५९॥  
 सलज्जः संयमी भूत्वा महाकालासुरोऽभवत् । सोऽसुरः सगराधीशवंशनिर्मूलनोद्यतः ॥१६०॥  
 द्विजवेषं समादाय संग्राह्य सगराह्वयम् । अथर्ववेदविहितं प्राणिहिंसापराधगम् ॥१६१॥  
 कुरु यागं श्रियो वृद्धये शत्रुविच्छेदनेच्छया । इति तं दुर्मते भूपं पापाभीरुर्वर्षमोहयत् ॥१६२॥  
 अनुष्टाय तथा सोऽपि प्राविशत्पापिनां क्षितित्म् । निर्मूलं कुलमप्यस्य नष्टं दुर्मार्गवर्तनात् ॥१६३॥  
 श्रुत्वा तत्साम्बजो रामपितास्माकं क्रमागतम् । साकेतपुरमित्येत्य तदध्यास्यान्वापद्यत् ॥१६४॥  
 तत्रास्य देव्यां कस्यांचिदमवन्नरताह्वयः । शत्रुघ्नश्चान्यदप्येकं दशाननवधाधशः ॥१६५॥

और सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देखे और उसके गर्भसे माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन विशाखा नक्षत्रमे मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुआ । उसके शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी आयु थी और लक्ष्मण उसका नाम था ॥१४८-१५२॥ वे दोनों ही भारी पन्द्रह धनुष ऊँचे थे, बत्तीस लक्षणाँसे सहित थे, वज्रवृषभना-  
 राचसंहननके धारक थे और उन दोनोंके समचतुरस्रसंस्थान नामका पहला संस्थान था ॥१५३॥ वे दोनों ही अपरिमित शक्तिवाले थे, उनमें-से रामका शरीर हंसके अंश अर्थात् पंखके समान सफेद था और लक्ष्मणका शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था । जब रामका पंचपन और लक्ष्मणका पचास वर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे भरा हुआ कुमारकाल व्यतीत हो गया तब इसी भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था । वह सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इक्ष्वाकुवंशके शिरोमणि अर्ख्यात राजा हो चुके थे और उनके बाद जब हरिषेण महाराज नामक दसवाँ चक्रवर्ती मरकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकनेपर सगर राजा हुआ था । वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था । एक बार उसने सुलसाके स्वयंवरमें आये हुए एवं राजाओंके बीचमे बैठे हुए मधुपिगल नामके श्रेष्ठ राजकुमारको 'यह दृष्ट लक्षणाँसे युक्त है' ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा मधुपिगल सगर राजाके साथ वैर बाँधकर लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा । अन्तमें संयम धारण कर वह महाकाल नामका असुर हुआ । वह असुर राजा सगरके वंशको निर्मूल करनेमें तत्पर था ॥१५४-१६०॥ वह ब्राह्मणका वेप रखकर राजा सगरके पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मीकी वृद्धिके लिए, शत्रुओंका उच्छेद करनेके लिए अथर्ववेदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरनेवाले उस महाकाल नामक असुरने उस दुर्बुद्धि राजाको मोहित कर दिया ॥१६१-१६२॥ वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात् नरकमें प्रविष्ट हुआ । इस प्रकार कुमारोंमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो गया । इस राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो हमारी वंशपरम्परासे चला आया है । ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंके साथ अयोध्यानगरमें गये और वहीं रहकर उसका पालन करने लगे ॥१६३-१६४॥ वहीं इनकी किसी अन्य रानीसे भरत

१ चापाङ्गी क०, घ० । २ नितान्तपरमोदयो ल० । नितान्तपरमोदयम् ल० । ३ भरतादिमहीशुजि ल० । भारतादिमहीशितु ल० । ५ अपूर्व म०, ल० । ६ भूतं ल० ।

कारणं प्रकृतं भावि रामलक्ष्मणयोरिदम् । मिथिलानगराधीशो जनकस्तस्य बल्लमा ॥१६६॥  
 सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्यभूत्तस्याः संप्राप्तनवयौवना ॥१६७॥  
 तां वरीतुं समायातनृपदूतान् महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकूल्यं यस्येति सोऽमुचत् ॥१६८॥  
 नृप कदाचिदास्थानौ विद्वज्जनविराजिनीम् । आस्थाय कार्यकुशल कुशलादिमति हितम् ॥१६९॥  
 सेनापतिं समप्राक्षीत् प्राञ्चप्रवृत्तं कथान्तरम् । पुरा किलान्न सगरः सुलसा चाहुतीकृता ॥१७०॥  
 परे चाश्वद्वयः प्रापन् सशरीराः सुरालयम् । इतीदं श्रूयतेऽद्यापि यागेन यदि गम्यते ॥१७१॥  
 स्वर्लोकः क्रियतेऽस्माभिरपि याज्ञो यथोचितम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा स सेनापतिरब्रवीत् ॥१७२॥  
 नागासुरैः सदा क्रुद्धैर्मात्सर्येण परस्परम् । अन्योन्यारब्धकार्याणां प्रतिघातो विधीयते ॥१७३॥  
 अयं चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञो विनिर्मितस्तस्य विघातः शङ्कयतेऽरिभिः ॥१७४॥  
 नागाराहुपकर्ताऽभूत्समेश्च विनमेरपि । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तत्पक्षपातिनः ॥१७५॥  
 यागः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । यद्यप्येतन्न बुधेरन् रूप्यशैलनिवासिनः ॥१७६॥  
 निश्चितो रावणः शौर्यशाली मानग्रहाहितः । तस्मात्प्रागपि शङ्कास्ति स कदाचित् विघातकृत् ॥१७७॥  
 स्यात्तद्गामाय शक्त्या दास्यामः कन्यकामिमाम् । इति तद्वचनं सर्वे तुष्टुवुस्तत्समासिनः ॥१७८॥  
 निरचिन्वञ्च भूपेन साकं तत्कार्यमेव ते । तदैव जनको दूतं प्राहिणोद्गामलक्ष्मणौ ॥१७९॥  
 मन्वीययागरक्षार्थं ग्रहेतव्यौ कृतस्वरम् । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम् ॥१८०॥

तथा शत्रुघ्न नामके दो पुत्र और हुए थे । रावणको मारनेसे राम और लक्ष्मणका जो यश हो  
 वाला था उसका एक कारण था—वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनकराज्य करते  
 उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणोंसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी । राजा जन  
 की वसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । जब वह नवयौवनको प्राप्त हुई त  
 उसे धरनेके लिए अनेक राजाओंने अपने-अपने दूत भेजे । परन्तु राजाने यह कहकर कि मैं यह पु  
 उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकूल होगा, उन आये हुए दूतोंको विदा कर दिया ॥१६५-१६८

अथानन्तर—किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे सुशोभित सभामें बैठे हुए थे  
 वहींपर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापति वैठा था । रा  
 जनकने उससे एक प्राचीन कथा पूछी । वह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर, रानी सुलसा त  
 घोड़ा आदि अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थे । वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे, य  
 बात सुनी जाती है । यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हो तो हम लोग  
 यथायोग्य रीतिसे यज्ञ करें' । राजाके इस प्रकार वचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि स  
 क्रोधित हुए नागकुमार और असुरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हु  
 कार्योंमें विघ्न करते हैं ॥१६६-१७३॥ चूँकि यज्ञकी यह नयी रीति महाकाल नामक असुर  
 चलायी है अतः प्रतिपक्षियोंके द्वारा इसमें विघ्न किये जानेकी आशंका है ॥१७४॥ इ  
 सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धरणेन्द्रने नमि तथा विनमिका उपका  
 किया था इसलिए उसका पक्षपात करनेवाले विद्याधर अवश्य ही यज्ञका विघात करें  
 ॥१७५॥ यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विघ्न दूर करनेमें समर्थ होते हैं । य  
 विजयार्थ पर्वतपर रहनेवाले विद्याधरोंको इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है तथापि य  
 निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी ग्रहसे अधिष्ठित है उससे इस बा  
 का भय पहलेसे ही है कि कदाचित् वह यज्ञमें विघ्न उपस्थित करे ॥१७६-१७७॥ हाँ, ए  
 उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम  
 कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विघ्न दूर कर देंगे । इस प्रकार सेनापतिके वचनोंकी सभा  
 बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥१७८॥ राजा जनकके साथ-ही-साथ सब लोगोंने इस कार्य  
 निश्चय कर लिया और राजा जनकने उसी समय सत्युरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा भेंटके सा

सलेखोगायनं सन्तं नृपं दशरथं प्रति । तथान्नांश्च महीदसूनुं दूतानानेतुमादिशत् ॥१८१॥  
 अयोध्येऽशोऽपि लेखायं दूरीकं चात्रधारथन् । तत्रप्रयोजननिश्चित्यै मन्त्रिणं वृच्छति स्म सः ॥१८२॥  
 जनकोक्तं निवेद्याप्र किं कार्यं क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्त्र्यवोचद् वचोऽब्रुमम् ॥१८३॥  
 निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्थोभयलोकजम् । हितं कृतं मवेचस्माद्गतस्तिरस्वनयोरिति ॥१८४॥  
 वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधार्य सः । प्रजल्पति स्मातिशयमत्याख्यो मन्त्रिणां मतः ॥ १८५॥  
 धर्मो यागोऽयमित्येतत्प्रमाणपदवी वचः । न प्राप्नोत्यत एवात्र न वर्तन्ते मनीषिणः ॥१८६॥  
 प्रमाणभूय वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो भवेत् । सर्वप्राणिवशासियज्ञागमविधायिनः ॥१८७॥  
 कथमुन्मत्तकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । विरुद्धालपितासिद्धानति चेद्वेदवादिनः ॥१८८॥  
 सिद्धे वैकत्र घातोक्तैरन्यत्रैतन्निषेधनात् । स्वयंभूत्वाददोषोऽस्य विरोधे सत्यपीत्यसूत् ॥१८९॥  
 प्रदृष्योऽसि स्वयंभूत्वं कीदृशं तु तदुच्यताम् । बुद्धिमत्कारणस्पन्दसंबन्धनिरपेक्षणम् ॥१९०॥  
 स्वयंभूत्वं मवेन्मेघभेकादीनां च सा गतिः । ततः सर्वज्ञनिर्दिष्टं सर्वप्राणिहितत्वकम् ॥१९१॥  
 ज्ञेयमागमशब्दाख्यं सर्वदोषविवर्जितम् । चतुर्वै यज्ञशब्दश्च दानदेवर्षिपूजयोः ॥१९२॥  
 यागो यज्ञः क्रतुः पूजा सपर्येज्याऽऽरो मखः । मह इत्यपि पर्यायवचनान्धर्मान्विधेः ॥१९३॥  
 यज्ञशब्दान्विधेर्बुद्धान्पूजास्वरूपकात् । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्यं तत्याकाहिविजेश्वरः ॥१९४॥

एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया । आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम तथा लक्ष्मणको भेजिए । यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावेगी । राम-लक्ष्मणके सिवाय अन्य राजपुत्रोंको बुलानेके लिए भी अन्य-अन्य दूत भेजे ॥१८९-१९१॥ अयोध्याके स्वामी राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अर्थ समझा, दूतका कहा समाचार सुना और इस सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पूछा ॥१८२॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्त्रियोंको सुनाया और पूछा कि क्या कार्य करना चाहिए ? इसके उत्तरमें आगमसार मन्त्री निम्नांकित अशुभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विघ्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाला हित होगा और उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी ॥१८३-१८४॥ आगमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहे हुएका निश्चय कर अतिशयमति नामका श्रेष्ठ मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह वचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं है इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष इस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥१८५-१८६॥ वचनकी प्रमाणता वक्तकी प्रमाणतासे होती है । जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है ऐसे यज्ञप्रवर्तक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी मनुष्यके वचन पागल पुरुषके वचनके समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं । यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका विधान और दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारके वाक्य क्यों मिलते ? कदाचित् यह कहा कि वेद स्वयम्भू है, अपने-आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है । तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयम्भूपन कैसे है—इसका क्या अर्थ है ? यह तो कहिए । यदि बुद्धिमान् मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना अर्थात् किसी भी बुद्धिमान् मनुष्यके हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है । स्वयंभूपनका उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं तो मेघोंकी गर्जना और मेढकोंकी टर्रटर्र इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी तो अपने-आप ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए आगम वही है—शास्त्र वही है जो सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ हो, समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो और सब दोषोंसे रहित हो । यज्ञ शब्द, दान देना तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अर्थमें आता है ॥१८७-१९२॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख और मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥१९३॥ यज्ञ शब्दका वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है, तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग पुण्यका संचय



शतक्रतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुताः<sup>१</sup> । प्रादुर्भूताः प्रसिद्धास्ते लोकेषु समयेषु च ॥१९५॥  
 हिंसायां यज्ञशब्दश्चेत्कर्तुर्नारीक गतिः । प्रयाति सोऽपि चेत्स्वर्गं विद्विहसानामधोगतिः ॥१९६॥  
 तव स्यादियमिभ्रायो हिंस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां पूज्यत्वाच्च इत्ययम् ॥१९७॥  
 वर्धते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । एतस्त्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिन्नेषं इत्यपि ॥१९८॥  
 हिंसायामिति धात्वर्थपाठे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थो यदि प्राणवधात्मकम् ॥१९९॥  
 यज्ञं कथं चरन्त्यार्या इत्यशिक्षितलक्षणम् । आर्षानार्षविकल्पेन यागो द्विविध इत्यते ॥२००॥  
<sup>३</sup> तीर्थेणा जगदाद्येन परमब्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषड्ब्रह्मभेदे यथाख्यदेशने ॥२०१॥  
 त्रयोऽग्नयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराग्नयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनानुतिभिर्वने ॥२०२॥  
 स्थित्व विंयतिमुन्यस्तं शरणाः परमद्विजाः । इत्यात्मयज्ञमिष्टार्थमष्टमीमवनी ययुः ॥२०३॥  
 तथा तीर्थगणाधीशोपकेवलिसद्गुः । संस्कारमहिताग्नीन्द्रमुकुटोत्थाग्निपु त्रिभु ॥२०४॥  
 परमात्मपदं प्राप्तान्निजान् पितृपितामहान् । उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफलादिभिः ॥२०५॥  
 आर्षोऽरावकवेदोक्तमन्त्रोच्चारणपूर्वकम् । दानादिसत्क्रियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥२०६॥  
 नित्यमिद्वेन्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिता । लौकान्तिकाश्च सूत्वात्परमद्विजा ध्वस्तवत्सपाः ॥२०७॥

करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं । इसलिए ही लोक और शाखोंमें इन्द्रके शतक्र शतमख और शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते है ॥१९४-१९५ यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिए यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते है उनकी अधो होनी चाहिए—उन्हें नरक जाना चाहिए ॥१९६॥ कदाचित् आपका यह अभिप्राय हो कि य जिसकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात् सबको वितरण जाता है और उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान और पूजा करना है उसकी सार्थकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो अर्थ आपने किया है वह आपके ही घर मान्य हो सर्वत्र नहीं । यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा ही है तो फिर धातुपाठमें जहाँ धातुओके बतलाये हैं वहाँ यजधातुका अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र 'यज देवपू संगतिकरणदानेषु' अर्थात् यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण और दान देना इतने अर्थोंमें आ है । यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता । चित् आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है तो आर्य पुरुष प्राणिहि से भरा हुआ यज्ञ क्यों करते है ? तो आपका यह कहना अशिक्षित अथवा मूर्खका लक्षण है चिह्न है । क्योंकि आर्ष और अनार्षके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥१९७-२०० इस कर्मभूमिरूपी जगत्के आदिमें होनेवाले परमब्रह्म श्रीयुषभदेव तीर्थकरके द्वारा कहे हुए वे जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधाग्नि, कामाग्नि उदराग्नि ये तीन अग्निर्था बतलायी गयी हैं । इनमें क्षमा, वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ वाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रेष्ठ द्विज वनमें निवास करते है वे आत्मयज्ञ इष्ट अर्थको देनेवाली अष्टम पृथिवी-सोक्ष स्थानको प्राप्त होते है ॥२०१-२०३॥ इसके सि तीर्थकर गणधर तथा अन्य केवलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निकुमार इन् मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्निर्था हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाअ करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको उद्देश्य ऋषिप्रणीत वेदसे कहे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा आहुति जाती है वह दूसरा आर्ष यज्ञ कहलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते है वे इन्द्र सामानिक

१ श्रुतिः ल० । २ इष्यते म०, ल० । ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्योः क्रमपरिवर्तो वि

४ स्थित्वाप्यं ख० । ५ अनगारा ।

द्वितीयज्ञानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन कर्तृणां तीर्थदेशिनाम् ॥२०८॥  
 पञ्चकल्याणभेदेषु देवयज्ञविधानतः । चित्तपुण्यफलं भुक्त्वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम् ॥२०९॥  
 यागोऽयसृष्टिभिः प्रोक्तो यत्तगारिद्वयाश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्थास्वाप्सरं परया परः ॥२१०॥  
 एवं परंपरायात्तदेवैयञ्चिधिदिवह । द्विकोकहितकृत्येषु वर्तमानेषु सततम् ॥२११॥  
 मुनिसुव्रततीर्थेऽसत्ताने सगरद्विपः(?) । महाकालासुरो हिंसायज्ञमज्ञोऽन्ववाहमुष्णम् ॥२१२॥  
 कथं तदिति चेदस्मिन् भारते चारणादिके । युगले नगरे राजाननि नाज्ञा सुयोधनः ॥२१३॥  
 देवी तस्याविधिख्यातिस्तन्ना सुलसानयोः । तस्याः स्वयंवरायें दूतोऽस्याः पुत्रमागतः ॥२१४॥  
 महाशमण्डले साकेवेशिनः सगराह्वयम् । तत्रागन्तुं समुद्युक्तमन्यदा स्वशिरोरुहाम् ॥२१५॥  
 कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा संकोपलेपिना । निविद्य विमुपं याते विलोचय कुशाका तदा ॥२१६॥  
 धात्री मन्वोदरी नाम तमिक्त्वा पलितं नवम् । पवित्रं द्रव्यलाभं ते वदतीत्ययवृद्धयुष ॥२१७॥  
 तत्रैव सचिवो विश्वभूष्येत्यान्यभूयताम् । पराद्मुली सा त्वामेव सुलसामिषयत्कम् ॥२१८॥  
 यथा तथाहं कर्तास्मि कौशलेनेत्यभाषत । तद्ब्रूचःश्रवणारभीतः साकेतनगराधिपः ॥२१९॥  
 चतुरङ्गशलेनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केषुचित्तत्र यातेषु सुलसान्तिके ॥२२०॥  
 मन्त्रोदर्यां कुलं रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नय । विनयो विनवो बन्धु संपदन्त्ये च ये स्तुता ॥२२१॥  
 गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेणे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यात्सौरिभ्रान्तं जिताशया ॥२२२॥

माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमे समस्त पापोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२०४-२०७॥ दूसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्र आदिके भेदसे अथवा तीर्थकरोंके पंच कल्याणकोके भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ अर्थात् पूजन करते हैं वे पुण्यका संचय करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम-क्रमसे सिद्ध अवस्था—मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२०८-२०९॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थके आश्रयसे दो प्रकारका निरूपण किया है । इनमेसे पहला मोक्षका साक्षात् कारण है और दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है ॥२१०॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आयी है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरन्तर विद्यमान रहती है ॥२११॥ किन्तु श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमे सगर राजासे द्वेष रखनेवाला एक महाकाल नामका असुर हुआ । उसी अज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है ॥२१२॥ महाकालने ऐसा क्यो किया । यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिए । इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है । उसमें सुयोधन नामका राजा राज्य करता था ॥२१३॥ उसकी पट्टरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नामकी पुत्री थी । उसके स्वयंवरके लिए दूतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमें आया था । अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमे जानेके लिए उद्यत था परन्तु उसके वालोंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे उसे चिदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंवरमे जानेसे विमुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ । राजा सगरकी एक मन्वोदरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी । उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है और तुम्हें किसी पवित्र वस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है । उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी वहाँ आ गया और कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओंसे विमुख होकर जिस तरह आपको ही जाहेगी उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दूँगा । मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥२१४-२१६॥ वह चतुरंग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और कुछ दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया । सगरकी मन्वोदरी धाय उसके साथ आयी थी । उसने सुलसाके पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विश्व, बन्धु, सम्पत्ति तथा

तद्विद्वत्वाऽतिथियुक्त्विमद्बोभिः प्रदूष्य तम् । सुरम्यविषये पोदनाधीद् बाहुबलीशिनः ॥२२३॥  
 कुले महीभुजां ज्येष्ठो मद्भ्राता तृणपिङ्गलः । तस्य सर्वयशा देवी तयोस्तुग्मधुपिङ्गलः ॥२२४॥  
 सर्वैर्वरगुणैर्गण्यो नवे वयसि वर्तते । स त्वया मालया माननीयोऽद्य मदपेक्षया ॥२२५॥  
 साकेतपतिना किं ते सपत्नीदुःखदायिना । इत्याहैतद्वचः सापि सोपरोधाऽभ्युपानमत् ॥२२६॥  
 तदा प्रभृति कन्यायाः समीपेगमनादिकम् । उपायेनातिथिर्देवी मन्दोदर्या न्यवारयत् ॥२२७॥  
 धात्री च प्रस्तुतार्थस्थ विधातमवदद् विभोः । नृपोऽपि मन्त्रिण प्राह यदस्माभिरमीप्सितम् ॥२२८॥  
 तत्त्वया सर्वथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेत्य तत् । वरस्य लक्षणं शस्तमप्रकास्तं च वर्णयते ॥२२९॥  
 येन तादृग्विध ग्रन्थं ससुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरविधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥२३०॥  
 मञ्जूषायां विनिक्षिप्य तदुद्यानवर्नान्तरे । धरातिरोहितं कृत्वा न्यधाद्विदितं परैः ॥२३१॥  
 दिनेषु केपुचिघातेपूद्यानावनिबोधने । हलात्रेणोद्धृतं मन्त्री मया दृष्टं यदृच्छया ॥२३२॥  
 पुरातनमिदं शास्त्रमित्यजानञ्चिव स्वयम् । विरिमतो राजपुत्राणां समाजे तदवाचयत् ॥२३३॥  
 संभावयतु विद्वान् कन्यां वरकदम्बके । न मालया मृतिस्तस्याः सा तं चेतसमवीमवत् ॥२३४॥  
 तेनापि न प्रवेष्टव्या समाहोभीत्रपावता । प्रविष्टोऽप्यत्र यः पापी ततो निर्घात्यतामिति ॥२३५॥  
 तदासौ सर्वमाकर्ण्य कज्जया मधुपिङ्गलः । तद्गुणत्वात्ततो गत्वा हरिपेणगुरोस्तपः ॥२३६॥

योग्य वरमें अन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं उन सबका व्याख्यान किया । यह सब जानकर रा कुमारी सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गयी ॥२२०-२२२॥ जब सुलसाकी माता अतिथि इस बातका पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण वचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की और क कि सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशमें होनेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ तृणपिंग नामका मेरा भाई है । उसकी रानीका नाम सर्वयशा है, उन दोनोंके मधुपिगल नामका पु है जो वरके योग्य समस्त गुणोंसे गणनीय है—प्रशंसनीय है और नयी अवस्थामें विद्यमान आज तुझे मेरी अपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिए ॥२२३-२२५ सौतका दुःख देनेवाले अयोध्यापति—राजा सगरसे तुझे क्या प्रयोजन है ? माता अतिथि यह वचन कहे जिन्हें सुलसाने भी उसके आप्रह्वंश स्वीकृत कर लिया ॥२२६॥ उसी समय अतिथि देवीने किसी उपायसे कन्याके समीप मन्दोदरीका आना-जाना आदि बिलकुल रो दिया ॥२२७॥ मन्दोदरीने अपने प्रकृत कार्यकी रुकावट राजा सगरसे कही और राजा सगर अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए बुद्धिमान् मन्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक ऐसा ग्रन्थ बनवा कि जिसमें वरके अच्छे और बुरे लक्षण बताये गये थे । उसने वह ग्रन्थ पुस्तकके रूपमें निब कर एक सन्दूककीमें रखा और वह सन्दूककी उसी नगरसम्बन्धी उद्यानके किसी वनमें जमीन छिपाकर रख दी । यह कार्य इतनी सावधानीसे किया कि किसीको इसका पता भी नहीं च ॥२२८-२३१॥ कितने ही दिन बीत जानेपर वनकी पृथिवी खोदते समय उसने हलके अग्रभाग वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छालुसार खोदते हुए मुझे यह सन्दूककी मिली है । य कोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ वह आश्चर्य प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानत ही नहीं हो । उसने वह पुस्तक राजकुमारोंके समूहमें बचवायी । उसमें लिखा था कि कन्या औ वरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद और पीली हो, मालाके द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहिए । अन्यथा कन्याकी मृत्यु हो जाती है या वर मर जाता है । इसलिए पाप डर औ लज्जावाले पुरुषको सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिए । यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाये तो उ निकाल देना चाहिए ॥२३२-२३५॥ मधुपिगलमें यह सब गुण विद्यमान थे अतः वह यह सब लज्जावश वहाँसे बाहर चला गया और हरिपेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया

१ सापराधा ख० । २ समीपे गमनादिकम् म०, ल० । ३ मञ्जूषाया कुषीः शास्त्रं विनिक्षिप्य वनागत ल०, म० ।

प्रपन्नस्तद्विदित्वा गुप्तं सगरभूपतिः । विश्वभूश्लेषसिद्धावन्ये च कुटिलाशयाः ॥२३७॥  
 सन्तस्तद्बान्धवाश्रान्ये विषादमगमैस्तदा । न पश्यन्त्यर्थिनः पापं वञ्चनासंचितं महत् ॥२३८॥  
 अथ कृत्वा महापूजां दिनान्पद्यौ जिनेशिनाम् । तदन्तेऽभिषवं चैनां सुलसां कन्यकोत्तमाम् ॥२३९॥  
 स्नातामलंकृतां शुद्धतिथिवारादिसिन्धौ । पुरोधाराथमारोप्य नीत्वा चारुमटाद्युताम् ॥२४०॥  
 नृपान् भद्रास्नानारूढान् स स्वयंवरमण्डपे । यथाक्रमं विनिर्दिश्य कुलजात्यादिभिः पृथक् ॥२४१॥  
 न्यरंमत् सा समासक्ता साकेतपुरनायकम् । अकरोत् कण्ठदेशं तं मालालंकृतविग्रहम् ॥२४२॥  
 अनयोगसुरभूश्लेषं संगमो वेधसा कृत । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमनुष्यद् भूपमण्डलम् ॥२४३॥  
 कव्याणविधिपर्याप्तौ स्थित्वा तत्रैव कानिचित् । दिनानि सगरः श्रीमान् सुखेन सुकसांचितः ॥२४४॥  
 साकेतनगरं गत्वा भोगाननुभवन् स्थित । मधुपिङ्गलसाधोश्च वर्तमानस्य सयमे ॥२४५॥  
 पुरमेकं तनुस्थित्यै विशतो वीक्ष्य लक्षणम् । कश्चिन्नैमित्तिको यूनाः पृथ्वीराज्याहं देहः ॥२४६॥  
 लक्षणैरेव भिक्षाशी किल किं लक्षणगमैः । इत्यनिन्दत्तदाकर्ण्य परोऽप्यवमभाषत ॥२४७॥  
 एष राज्यश्रियं सुञ्जन् (?) मृषा सगरमन्त्रिणा । कृत्रिमागममादश्यं दूषितः सन् हिया तपः ॥२४८॥  
 प्रपन्नवान् गते चास्मिन् सुलसां सगरोऽग्रहीत् । इति तद्बन्धनं श्रुत्वा मुनिः क्रोधानिदीपितः ॥२४९॥  
 जन्मान्तरे फलेनास्य तपसः सगरान्वयम् । सर्वं निर्मूलयामीति विधीः कृतनिदानकः ॥२५०॥  
 मृत्वासात्रसुरेन्द्रस्य महिषानीक आदिभे । वक्षामेदे चतु षष्टिसद्वानुसुरनायक ॥२५१॥

यह जानकर अपनी इष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायवाले अन्य मनुष्य हर्षको प्राप्त हुए ॥२३६-२३७॥ मधुपिङ्गलके भाई-बन्धुओंको तथा अन्य सज्जन मनुष्योंको उस समय दुःख हुआ । देखो स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी पापको नहीं देखते हैं ॥२३८॥ इधर राजा सुयोधनने आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवान्की महापूजा की, और उसके अन्तमें अभिषेक किया । तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाको स्नान कराया, आभूषण पहनाये, और शुद्ध तिथि वार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओंसे घिरी हुई उस कन्याको पुरोहित रथमें बैठाकर स्वयंवर-मण्डपमें ले गया ॥२३९-२४०॥ वहाँ अनेक राजा उत्तम-उत्तम आसनोंपर समाकूट थे । पुरोहित उनके कुल जाति आदिका पृथक्-पृथक् क्रमपूर्वक निर्देश करने लगा परन्तु सुलसा अयोध्याके राजा सगरमें आसक्त थी अतः उन सब राजाओंको छोड़ती हुई आगे बढ़ती गयी और सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर मालासे अलंकृत किया ॥२४१-२४२॥ 'इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया है' यह कहकर वहाँ जो राजा ईर्ष्यारहित थे वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए ॥२४३॥ विवाहकी विधि समाप्त होनेपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर सुलसाके साथ वहीपर कुछ दिन तक सुखसे रहा ॥२४४॥ तदनन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा । इधर मधुपिङ्गल साधु संयम धारण कर रहे थे । एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमें गये थे । वहाँ कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि 'इस युवाके विद्व तो पृथिवीका राज्य करनेके योग्य है परन्तु यह भिक्षा भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यर्थ है' । इस प्रकार उस निमित्तज्ञानीने लक्षणशास्त्र—सामुद्रिक शास्त्रकी निन्दा की । उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था वह कहने लगा कि 'यह तो राज्यलक्ष्मीका ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने मूठ-मूठ ही कृत्रिमशास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लज्जावश तप धारण कर लिया । इसके चले जानेपर सगरने सुलसाको स्वीकृत कर लिया' । उस निमित्तज्ञानीके वचन सुनकर मधुपिङ्गल मुनि क्रोधानिसे प्रबलित हो गये ॥२४५-२४६॥ 'मैं इस तपके फलसे दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशको निर्मूल करूँगा' ऐसा उन वृद्धिहीन मधुपिङ्गल मुनिने

१ विदित्वागात् ल०, म० । विदित्वापु -ल० । २ पर्याप्तो ल० । ३ देहज व० । ४ -गमे ल० । ५ श्रियो ग० । ६ -माकर्ण्य ल० । -माकल्प्य म० ।

महाकाळोऽभवत्तत्र देवैरावेष्टितो निजैः । देवलोकमिमं केन प्राप्नोऽहमिति संस्मरन् ॥२५२॥  
 ज्ञात्वा विमङ्गलानोपयोगेन प्राक्तने भवे । प्रवृत्तमखिलं पापो कोपाविच्छ्रुतचेतसा ॥२५३॥  
 तस्मिन् मन्त्रिणि भूपे च रुडवैतोऽपि तौ तदा । अनिच्छन् हन्तुमत्युग्रं सुचिकीर्षुरहं तयोः ॥२५४॥  
 तदुपायसहायार्थं संचिन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन् महत्पापमात्मनो चिग्विमूढताम् ॥२५५॥  
 इदं प्रकृतमात्रान्यत्तदभिप्रायसाधनम् । द्वीपेऽत्र मरते देवो धवले स्वस्तिकावती ॥२५६॥  
 पुरं विश्वावसुतस्य पाळको हरिवंशजः । देव्यस्य श्रीमती नाम्ना वसुरासांतं सुतोऽनयोः ॥२५७॥  
 तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः सर्वशास्त्रविशारदः । अभूत् क्षीरकदम्बाख्यो विख्यातोऽध्यापकोत्तमः ॥२५८॥  
 'सर्मापे तस्य तत्सूनुः पर्वतोऽन्यश्च नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुगवसुश्च महीपते. ॥२५९॥  
 एते त्रयोऽपि विद्यानां पारमावत् स पर्वतः । तेष्वधीर्विपरीतार्थग्राही मोहविपाकतः ॥२६०॥  
 शेषौ यथोपदिष्टार्थग्राहिणौ ते त्रयोऽप्यगुः । वनं दर्मादिकं चेतुं सोपाध्यायाः कदाचन ॥२६१॥  
 गुरु श्रुतधरो नाम तत्राचलशिक्षातले । स्थितो मुनित्रयं तस्मात्कृत्वाष्टान्निमित्तकम् ॥२६२॥  
 तत्समाप्तौ स्तुतिं कृत्वा सुस्थितं तन्निरीक्ष्य सः । तन्नपुण्यपरीक्षायं समपृच्छन्मुनीश्वरः ॥२६३॥  
 पठच्छात्रत्रयस्यास्य नाम किं कस्य किं कुलम् । को भावः का गतिः प्राप्ते भवजि. कथ्यतामिति ॥२६४॥  
 तेष्वेकोऽभावतात्मजः शृण्वित्वस्मत्समीपगः । वसु. क्षितिपतेः सूनुः तीव्ररागादिदूषितः ॥२६५॥

निदान कर लिया। अन्तमें मरकर वे असुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहली कक्षमें चौं हजार असुरोका नायक महाकाल नामका असुर हुआ। वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मी देवोंने घेर लिया। मैं इस देवलोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ। जब वह इस बात स्मरण करने लगा तो उसे विमंगवाधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्वभवका सब समाचार याद गया। याद आते ही उस पापीका चित्त क्रोधसे भर गया। मन्त्री और राजाके ऊपर उस वैर जम गया। यद्यपि उन दोनोंपर उसका वैर जमा हुआ था यथापि वह उन्हें जानसे मारना चाहता था, उसके बदले वह उनसे कोई भयंकर पाप करवाना चाहता था ॥२५०-२५४ वह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहायकोका विचार करता हुआ पृथिवीपर आया परन्तु उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पापका संचय होता है आचार्य कहते हैं कि ऐसी मूढताके लिए धिक्कार ही ॥२५५॥ उधर वह अपने कार्यके यो उपाय और सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायको सिद्ध करनेवाली दूस घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके धवल देशमें ए स्वस्तिकावती नामका नगर है। हरिवंशमे उत्पन्न हुआ राजा विश्वावसु उसका पालन कर था। इसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था। उन दोनोंके वसु नामका पुत्र था ॥२५६-२५७॥ उसी नग एक क्षीरकदम्ब नामक पूज्य ब्राह्मण रहता था। वह समस्त शास्त्रोका विद्वान् था और प्रशिष्ट अध्यापक था ॥२५८॥ उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देशसे आया हुआ नारद अ राजाका पुत्र वसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥२५९॥ ये तीनों ही छात्र विद्याओंके पार प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पर्वत निर्दुद्धि था, वह मोहके उदयसे सदा विपरीत अर्थ ग्रह करता था। बाकी दो छात्र, पदार्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही ग्रहण करते थे। कि एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए वनमें गये थे ॥२६०-२६१॥ एक पर्वतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थे। अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरुसे अष्टां निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे। जब अष्टांगनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूर्ण हो गया तब तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बैठ गये। उन्हें बैठा देखकर श्रुतधर मुनिराजने उनकी चतुराई परीक्षा करनेके लिए पूछा कि 'जो ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्या नाम है? क्या कुल है क्या अभिप्राय है? और अन्तमें किसकी क्या गति होगी? यह आप लोग कहें ॥२६२-२६४ उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे। वे कहने लगे कि मुनिए, यह जो राजाका पुत्र व

हिंसाधर्मं विनिश्चिन्त्य नरकावासमेष्यति । पुरोऽन्नवीदर्यं मध्यस्थितो ब्राह्मणपुत्रकः ॥२६६॥  
 पर्वताख्यो विधीः क्रूरो महाकालोपदेशनात् । पठित्वाधर्वणं पापशास्त्रं दुर्मागंदेशकः ॥२६७॥  
 हिंसैव धर्म इत्यज्ञो रौद्रध्यानपरायणः । बहुस्तत्र प्रवर्त्यास्मिन् नरकं यास्यतीत्यतः ॥२६८॥  
 वृतीयोऽपि ततोऽजादीदेव पश्चादवस्थितः । नारदाख्यो द्विजो धीमान् धर्मध्यानपरायणः ॥२६९॥  
 अहिंसाक्षणं धर्ममाश्रितानामुदाहरन् । पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भूत्वा परिग्रहम् ॥२७०॥  
 परित्यज्य तप प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेप्यति । इत्येवं तैस्त्रिभिः प्रोक्तं श्रुत्वा सभ्यग्मथोदितम् ॥२७१॥  
 सोपदेशं श्रुतं सर्वैरित्यस्तावीन्मुनिश्च तान् । सर्वमेतदुपाध्यायः प्रत्यासन्नदुमाश्रयः ॥२७२॥  
 प्रणिधानात्तदाकर्ण्यं तदेतद्विधिचेष्टितम् । एतयोरश्रुतं धिनिधक् किं मयात्र विधीयते ॥२७३॥  
 विचिन्त्येति यतीन् मन्व्या तल्प्य एवाभिवन्ध तान् । नैमनस्येन तैश्च्छात्रैर्नगरं प्राविशत् समम् ॥२७४॥  
 शास्त्रबालकत्वर्थं रेकवत्सरे परिपूर्णे । वसोः पिता स्वयं पटं बध्वा प्रायात्तपोवनम् ॥२७५॥  
 वसु निष्कण्टकं पृथ्वीं पाकयन् हेळयान्यदा । वनं विहर्तुमभ्येत्य पयोधरपथाद् द्विजान् ॥२७६॥  
 प्रस्खल्य पतितान् वीक्ष्य विस्मयादिति खाद् द्रुतम् । पततां हेतुनावश्रयं भवितव्यमिति स्फुटम् ॥२७७॥  
 मत्वाकृप्य धनुर्वाणममुञ्चत्तथ्यदेशवित् । स्लक्षित्वा पतितं तस्मात्तं समीक्ष्य महीपतिः ॥२७८॥  
 तत्रदेश स्वयं गत्वा रथिकेन सहात्पृशत् । आकाशस्फटिकस्तम्भं विज्ञायावदितं परैः ॥२७९॥

हमारे पास वैठा हुआ है वह तीव्र रागादिदूषित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चय कर नरक जावेगा। तदनन्तर वीचमे बैठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ब्राह्मणका लड़का है इसका पर्वत नाम है, यह निर्वुद्धि है, क्रूर है, यह महाकालके उपदेशसे अथर्ववेद नामक पापप्रवर्तक शास्त्रका अध्ययन कर खांटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिंसाको ही धर्म समझता है, निरन्तर रौद्रध्यानमें तत्पर रहता है और बहुत लोगोंको उसी मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः नरक जावेगा ॥२६५-२६८॥ तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे वैठा है इसका नारद नाम है, यह जातिका ब्राह्मण है, बुद्धिमान् है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंको अहिंसारूप धर्मका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा और अन्तमें परिग्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अन्तिम अनुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा। इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लोगोंने मेरा कहा उपदेश ठीक-ठीक ग्रहण किया है? ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोंकी स्तुति की। इधर एक वृक्षके आश्रयमें वैठा हुआ क्षीरकदम्ब उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था। सुनकर वह विचारने लगा कि विधिकी लीला बड़ी ही विचित्र है, देखो, इन दोनोंकी—पर्वत और वसुकी अशुभगति होनेवाली है, इनके अशुभ कर्मको धिक्कार हो, मैं इस विषयमें कर ही क्या सकता हूँ ? ॥२६६-२७३॥ ऐसा विचारकर उसने उन मुनियोंको वहीं वृक्षके नीचे बैठे-बैठे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने नगरमें आ गया ॥२७४॥ एक वर्षके बाद शाखाध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण होनेपर वसुके पिता विश्वावसु, वसुको राज्यपट्ट बाँधकर स्वयं तपोवनके लिए चले गये ॥२७५॥ इधर वसु पृथिवीका अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा। किसी एक दिन वह विहार करनेके लिए वनमें गया था। वहीं क्या देखता है कि बहुत-से पक्षी आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचार करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्षी नीचे गिर रहे हैं इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिए ॥२७६-२७७॥ यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुष खींचकर एक बाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे गिर पड़ा। यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया और सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकाशस्फटिका स्तम्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रंगसे इतना मिलता-जुलता था कि किसी दूसरेको आज तक

आनाय्य तेन निर्माप्य वृधुपाद्वचतुष्टयम् । तस्मिन्हासनमाह्वयं सेव्यमानो नृपादिसिः ॥२८०॥  
 वसु सत्यस्य माहात्म्यास्थितः खे सिंहविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोन्नतिः ॥२८१॥  
 तस्यावेवं प्रयात्यस्य काले पर्वतनारदौ । समित्पुष्पार्थमभ्येत्य वनं नद्याः प्रवाहजम् ॥२८२॥  
 जलं पीत्वा भयूराणां गतानां मार्गदर्शनात् । वमापे नारदस्तत्र हे पर्वत शिखावल् ॥२८३॥  
 तेष्वेकोऽस्ति रित्रयः सप्तैवेति तच्छ्रवणादसौ । मृपेत्यसोढा चित्तेव व्यधात् पणितम्बधनम् ॥२८४॥  
 गत्या ततोऽन्तरं किञ्चित् सद्भूतं नारदोदितम् । विदित्वा विस्मयं सोऽगामनागरमापुरोगतः ॥२८५॥  
 करेणुमार्गमाकोच्य सस्मितं नारदोऽवदत् । अन्धवामेक्षणा हस्तिवज्रैकाद्राधुना गता ॥२८६॥  
 अन्धसर्पविलायानमिव ते पूर्वभाषितम् । आसीद्यादृच्छिकं सत्यमिदं तु परिहास्यताम् ॥२८७॥  
 प्रयाति तव विज्ञानं मया विदितमस्ति किम् । इति स्मितं स सासूर्यं चित्ते विस्मयमासवान् ॥२८८॥  
 तमसत्यं पुनः कर्तुं करिणीगमनानुगम् । पुराऽन्तर्नारदोद्दिष्टमुपलभ्य तथैव तत् ॥२८९॥  
 सशोको गृहमागत्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥  
 नाबोचच्छास्त्रयोधात्म्यमस्ति मय्यस्य नादर । इति पुत्रवचस्तरया हृदयं निमित्तास्त्रवत् ॥२९१॥  
 विदार्य प्राविशत्यायाद् विपरीतावमर्शनात् । ब्राह्मणी तद्दृच्छित्तेनावधार्यं श्रुचं गता ॥२९२॥  
 कृत्वा स्नानानिहोत्रादि भुक्त्वा स्वब्राह्मणे स्थिते । अन्नवीत् पर्वतप्रोक्तं तन्निद्राम्यं विदां वरः ॥२९३॥  
 निर्विशेषोपदेशोऽहं सर्वेषां पुरुषं प्रति । विभिक्षा बुद्धयस्तस्मान्नारदः कुशलोऽभवत् ॥२९४॥

उसका बोध नहीं हुआ था ॥२७८-२७९॥ राला वसुने उस स्तम्भको धर लाकर उसके चार बड़े पाये बनवाये और उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर आरूढ हुआ । उस समय अने राजा आदि उसकी सेवा करते थे । लोग बड़े आश्चर्यसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कह थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्म्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें बैठता है ॥२८०-२८१॥ इस प्रकार इधर राजा वसुका समय बीत रहा था उधर एक दिन पर्वत और नार समिधा तथा पुष्प लानेके लिए वनमें गये थे । वहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नद प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । उनका मार्ग देखकर नारदने पर्वतसे कहा कि हे पर्वत ! जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और बाकी सात स्त्रियाँ हैं । नारदकी बात पर्वतने कहा कि तुम्हारा कहना झूठ है, उसे मनमें यह बात सख नहीं हुई अतः उसने को शर्त बाँध ली ॥२८२-२८३॥ तदनन्तर कुछ आगे जाकर जब उसे इस बातका पता चला नारदका कहा सच है तो वह आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वे दोनों वहाँसे कुछ और आगे बढ़े त नारद हाथियोंका मार्ग देखकर मुसकराता हुआ बोला कि यहाँसे जो अभी हस्तिनी गयी उसका बाँया नेत्र अन्धा है ॥२८४-२८६॥ पर्वतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अन्धे साँपक बिलमें पहुँच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञ हँसीको प्राप्त होता है । मैं क्या समझूँ ? इस तरह हँसते हुए ईर्ष्याके साथ उसने कहा औ चित्तमें आश्चर्यप्राप्त किया ॥२८७-२८८॥ तदनन्तर नारदको झूठा सिद्ध करनेके लिए वह हस्तिनी के मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगर तक पहुँचनेके पहले ही उसे इस बात पता चल गया कि नारदने जो कहा था वह सच है ॥२८९॥ अब तो पर्वतके शोकका पार नह रहा । वह शोक करता हुआ बड़े आश्चर्यसे घर आया और नारदकी कही हुई सब बात माता कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदको शास्त्रकी यथार्थ बात बतलाते हैं उ प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं । ये सदा मेरा अनादर करते हैं । इस तरह पापोदयसे विपरीत विचा करनेके कारण पुत्रके वचन, तीक्ष्णश्रुतिके समान उसके हृदयको चीरकर भीतर घुस गये । ब्राह्मण पुत्रके वचनोंका विचार कर हृदयसे शोक करने लगी ॥२९०-२९२॥ जब ब्राह्मण क्षीरकन्दम्बस्नान अग्निहोत्र तथा भोजन करके बैठा तब ब्राह्मणीने पर्वतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनायी । उ

१ इति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठः। ल० पुस्तके तु अष्टो विपयंस्तो वा । २ पुरा तनारदोद्दिष्टं ल०, ग० । पुरोऽन्तर्नारदोद्दिष्टं म० । पुरोऽन्तर्नारदादिष्टं ल० ।

प्रकृत्या स्वन्सुतो मन्द्ने नात्स्यास्मिन् विधीयताम्<sup>१</sup> । इति तत्प्रत्ययं कर्तुं नारदं सुतसंनिधौ ॥२९५॥  
 वद केन वने भ्रान्त्यन् पर्वतस्योदयादयः । विस्मयं बद्धिति प्राह सोऽपि सप्रभ्रयोऽभ्यधात् ॥२९६॥  
 वनेऽह पर्वतेनामा गच्छन्नमकथारतः<sup>२</sup> । शिखिनां पीतचारीणां सद्यो नथा निवर्तने ॥२९७॥  
 स्वचन्द्रककलापाभोमध्यमज्जनगौरवात् । सीत्वा व्यावृष्य विसुखं कृतप्रस्त्रापदस्थितिः ॥२९८॥  
 कलापी गत्वा नैक शोयाश्च तज्जलादिवा<sup>३</sup> । पत्रभारां विधूयागुस्तं दृष्ट्वा सममाविषि ॥२९९॥  
 पुसामेकः खिप्रश्चान्था इति मत्त्रानुमानतः । ततो वनान्तरात् किञ्चिदागत्य पुरसनिधौ ॥३००॥  
 तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाभ्यां प्रयाणके । स्वमूत्रघट्टनाद्गोरे दक्षिणे तर्ष्वीरुधाम् ॥३०१॥  
 भङ्गेन मार्गात् प्रच्युत्य ध्रमादाकृढयोषितः । शीतच्छायाभिलाषेण सुसायाः पुक्लिनस्थले ॥३०२॥  
 उदरस्पर्शमार्गेण दृश्याया गुह्यमशक्त्या । करिणीश्रितंगेहाप्रसितोद्यत्केतनेन च ॥३०३॥  
 मया तदुक्तमित्ये नद्वचनाद् द्वि त्रसत्तमः । निजापराधमाचस्यामावमाविरभावयत् ॥३०४॥  
 तदा पर्वतमातापि प्रसन्नभूत् पुनश्च स । तस्यास्त्वन्मुनिवान्यार्थसंप्रत्ययविधिस्तुकः ॥३०५॥  
 स्वपुत्रछात्रयोर्भावपरीक्षायै द्विजाग्रणीः । स्थित्वा सजानिरैकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥३०६॥  
 देशोऽर्धित्वा परादृश्ये गन्धमाह्यादिमङ्गलैः । कर्णच्छेदं<sup>४</sup> विधायैतावद्यैवान्यत्तं युवाभ् ॥३०७॥  
 हृत्पदादीक्षतः पापी पर्वतोऽस्ति न कश्चन । वनेऽस्मिन्निति विच्छिद्य कर्णौ पितरमागतः ॥३०८॥

सुनकर ज्ञानियोंसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो सबको एक-सा उपदेश देता हूँ परन्तु प्रत्येक पुरुषकी बुद्धि भिन्न-भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है । तुम्हारा पुत्र स्वभावसे ही मन्द है, इसलिए नारदपर व्यर्थ ही ईर्ष्या न करो । यह कहकर उसने विश्वास दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कहा कि कहो, आज वनमें घूमते हुए तुमने पर्वतका क्या उपद्रव किया था ? गुरुकी बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्चर्य है ? यह कहते हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मैं पर्वतके साथ विनोद-वार्ता करता हुआ वनमें जा रहा था । वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं ॥२९३-२९७॥ उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके भयसे अपने पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लौटा था और बाकी जलसे भीगे हुए अपने पंख फटकारकर जा रहे थे । यह देख मैंने अनुमान-द्वारा पर्वतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी त्रियों हैं । इसके बाद वनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी है । उसके दाहिनी ओरके वृक्ष और लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी बाँयों आँखसे कानी है । उसपर वैठी हुई स्त्री मार्गकी थकावटसे उत्तरकर शीतल छायाकी इच्छासे नदीके किनारे सोयी थी वहाँ उसके उदरके रपर्शसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने जाना था कि यह स्त्री गर्भिणी है । उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी झाड़ीमें उलझकर लग गया था इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहने थी । जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उसी घरके अग्रभागपर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा । इस प्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी सब बातें कही थीं । नारदकी ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने ब्राह्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है—मैंने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ॥२६८-३०४॥ उस समय पर्वतकी माता भी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी । तदनन्तर उस ब्राह्मणने पर्वतकी माताको उन मुनियोंके वचनोंका विश्वास दिलानेकी इच्छा की । वह अपने पुत्र पर्वत और विद्यार्थी नारदके भावोंकी परीक्षा करनेके लिए खीसहित एकान्तमें बैठा । उसने आटेके दो बकरे बनाकर पर्वत और नारदको सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि मार्गालिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ ॥३०५-३०७॥ तदनन्तर पापी पर्वतने सोचा कि इस वनमें कोई नहीं है इसलिए वह एक

१. विधीयते म०, ल० । २. कर्मकथारतः क०, घ० । नर्मकथांतरम् ल० । ३. तज्जलाद्रिति ख०, म० । ४. विधायैना-ल० ।



त्वया पूज्य यथोद्दिष्टं तत्तथैव मया कृतम् । इति वीतघृणो हर्षात् स्वप्रेषणमवबुधत् ॥३०९॥  
 नारदोऽपि वनं यातोऽदृश्यदेवोऽस्य कर्णयोः । कर्तव्यशब्दे इत्युक्तं गुरुणा चन्द्रभास्करौ ॥२१०॥  
 नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्च पश्यन्ति देवताः । सदा संहिता सन्ति पत्रिणो मृगजातयः ॥३११॥  
 नैते शम्भ्या निराकृतुमिदं त्वं गुरुमविधिम् । मन्वात्माऽदृष्टदेशस्य वने केनाप्यसंभवात् ॥३१२॥  
 नामादिचतुर्थेषु पापापख्यातिकारण । क्रियायामविशेषत्वाच्चाहामानीतवानिमम् ॥३१३॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा स्वस्तस्य जडारमताम् । विचिन्त्यैकान्तवायुक्तं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥  
 कार्यमित्येतदेकान्तमन्तं कुमतमेव तत् । कारणानुमतं कार्यं क्वचित्क्वचिदुच्यते ॥३१५॥  
 इति स्याद्वादसंदर्भं सत्यमित्यभिप्रेतवाच् । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निधाय बुधसत्तमः ॥३१६॥  
 हे नारद त्वमेवात्र सूक्ष्मप्रज्ञो यथार्थवित् । इतः प्रभृत्पुत्राऽप्याथपदे त्वं स्थापितो मया ॥३१७॥  
 व्याख्येयानि त्वया सर्वशास्त्राणीति प्रपूज्य तम् । प्राबद्धं यद् गुणैरेव प्रीतिः सर्वत्र धीमताम् ॥३१८॥  
 निजामिभुसुमासीनं तनूजं चैवमत्रवीत् । विनाङ्गत्वं विवेकेन व्यधाद्येतद्विरूपकम् ॥३१९॥  
 कार्यकार्यविवेकस्ते न श्रुतादपि विद्यते । कथं जीवसि मञ्जुः परोक्षे गतधीरिति ॥३२०॥  
 एवं पित्रा सशोकेन कृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारदे बद्धवैरोऽभूत् कुधियामीहती गतिः ॥३२१॥  
 स कदाह्रिदुपाध्यायः सर्वसंगाम् परित्यजन् । पर्वतस्तस्य मातां च मन्दबुद्धी तयापि तौ ॥३२२॥

बकरेके दोनों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया और कहने लगा कि हे पूर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है । इस प्रकार दयाहीन पर्वतने बड़े हर्षसे अ कार्य पूर्ण करनेकी सूचना पिताको दी ॥३०८-३०९॥ नारद भी वनमें गया और सोचने कि 'अदृश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना है' ऐसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अदृ स्थान है ही कहाँ ? देखो न, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे आदि देवता सब ओरसे दे रहे हैं । पक्षी तथा हरिण आदि अनेक जंगली जीव सदा पास हो रह रहे हैं । ये किसी तरह यहाँसे दूर नहीं किये जा सकते । ऐसा विचार कर वह मन्वात्मा गुरुके पास वापस गया और कहने लगा कि वनमें ऐसा स्थान मिलना असम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा है इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चारों पदार्थोंमें तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं है । इसलिए मैं इस बकराको ऐ ही लेता आया हूँ ॥३१०-३१३॥ नारदके वचन सुनकर उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूर्खता विचार किया और कहा कि जो एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य मानते हैं वह एकान्तव हैं और मिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत होता है । ऐसा जो स्याद्वादका कहना है वही सत्य है । देखो, मेरे परिणाम सदा दयासे उ रहते हैं परन्तु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्दय हैं । यहाँ कारणके अनुसार कार्य कहाँ हुआ ? इस प्रकार वह श्रेष्ठ विद्वान् बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और शिष्यकी योग्यता हृदयमें विचार कर कहने लगा कि हे नारद ! तू ही सूक्ष्मबुद्धिवाला और पदार्थको यथ जाननेवाला है इसलिए आजसे लेकर मैं तुझे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता हूँ । आज तू ही समस्त शास्त्रोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका स्तकार कर उसे बढ़ावा दि सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह विद्वानोंकी प्रीति गुणोंसे ही होती है ॥३१४-३१८॥ नारद इतना कहनेके बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कहा—हे पुत्र ! तूने विवेकके वि ही यह विरुद्ध कार्य किया है । देख, शास्त्र पढ़नेपर भी तुझे कार्य और अकार्यका विवेक हुआ । तू-निर्बुद्धि है-अतः मेरी आँखोंके ओझल होनेपर कैसे जीवित रह सकेगा ? इस प्रश्न शोकसे भरे हुए पिताने-पर्वतकी शिक्षा दी परन्तु उस मूर्खपर उसका कुछ भी असर हुआ । वह उसके विपरीत नारदसे वैर रखने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्यों ऐसी ही दशा होती है ॥३१९-३२१॥ किसी एक दिन क्षीरकदम्बने समस्त परिग्रहोंके त्य

१. यथादिष्टं ल०, म० । २. तथा म० । ३. सन्नियो म०, ल० । विद्यायैतद्विरूपकम् क०, घ०, ख म० । विद्या ह्येतद्विरूपकम् ल० ।

पालनीयौ त्वया भद्र मत्परोक्षेऽपि सर्वथा । इत्यथोचद् वसुं सोऽपि प्रीतोऽस्मि स्वदनुग्रहात् ॥३२३॥  
 अनुक्तसिद्धमेतत्तु वक्तव्यं किमिदं मम । विधेयः संशयो नात्र पूज्यपाद यथोचितम् ॥३२४॥  
 परलोकमनुष्ठातुमर्हसीति द्विजोत्तमम् । मनोहरकथाम्लानमालयाम्भयच्यवनृपः ॥३२५॥  
 ततः क्षीरकदम्बे च सन्धक संप्राप्य संयमम् । प्राग्ने संन्यस्य संप्राप्तं नाकिनां लोकमुत्तमम् ॥३२६॥  
 पर्वतोऽपि पितृस्थानमध्यास्याशेषशास्त्रवित् । शिक्षाणां विश्वदिकानां व्याख्यातुं रतिमातनोत् ॥३२७॥  
 तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि विद्वज्जानान्वितः । सूक्ष्मधीर्विहितस्थानो बभार व्याख्यया यशः ॥३२८॥  
 गच्छत्येवं तयोः काले कदाचित्साधुसंसदि । अजैर्होतव्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थप्ररूपणे ॥३२९॥  
 विवादोऽभून्महांस्त्वत्र विगताङ्कुरशक्तिकम् । यववीजं त्रिवर्षस्यमजमित्यभिधीयते ॥३३०॥  
 तद्विकारेण सप्तार्चिसुखे देवाचर्चनं विदः । वदन्ति यज्ञमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ॥३३१॥  
 पर्वतोऽप्यजगद्वेने पशुभेदः प्रकीर्तितः । यज्ञोऽग्नौ तद्विकारेण होत्रमित्यवदद्विधीः ॥३३२॥  
 द्वयोर्वचनमाकर्ण्य द्विजप्रमुखसाधवः । मात्सर्याचारदेनैव धर्मं प्राणवधादिति ॥३३३॥  
 प्रतिष्ठापयित्वा घान्यां दुरात्मा पर्वतोऽग्नवीत् । पतितोऽयमयोग्योऽतः सह संभाषणादिभिः ॥३३४॥  
 इति हस्ततलास्फालनेन निर्भरत्यं तं क्रुधा । घोषयामासुरत्रैव दुर्दुर्द्वेरीदृशं फलम् ॥३३५॥  
 एवं बहिः कृतः सर्वैर्मानमद्गादगाहनम् । तत्र ब्राह्मणवेषेण चयसा परिणामिना ॥३३६॥

करनेका विचार किया इसलिये उसने राजा वसुसे कहा कि यह पर्वत और उसकी माता यद्यपि मन्दबुद्धि हैं तथापि हे भद्र ! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारसे प्रालन करना चाहिए । उत्तरमें राजा वसुने कहा कि मैं आपके अनुग्रहसे प्रसन्न हूँ । यह कार्य तो बिना कहे ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते हैं ? हे पूज्यपाद ! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिए, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिए । इस प्रकार मनोहर कथारूपी अम्लान मालाके द्वारा राजा वसुने उस उत्तम ब्राह्मणका खूब ही सत्कार किया ॥३२२-३२५॥ तदनन्तर क्षीरकदम्बने उत्तम संथम धारण कर लिया और अन्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्गलोकमें जन्म प्राप्त किया ॥३२६॥

इधर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला पर्वत भी पिताके स्थानपर बैठकर सब प्रकारकी शिक्षाओंकी व्याख्या करनेमें प्रेम करने लगा ॥३२७॥ उसी नगरमें सूक्ष्म बुद्धिवाला नारद भी अनेक विद्वानोंके साथ निवास करता था और शास्त्रोंकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥३२८॥ इस प्रकार उन दोनोंका समय बीत रहा था । किसी एक दिन साधुओंकी सभामें 'अजैर्होतव्यम्' इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमें बड़ा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता था कि जिसमें अङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी है ऐसा तीन वर्षका पुराना जौ अज कहलाता है और उससे बनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निके मुखमें देवताकी पूजा करना—आहुति देना यज्ञ कहलाता है । नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धतिके अनुसार था परन्तु निह्वेद्धि पर्वत कहता था कि अज शब्द एक पशु विशेषका वाचक है अतः उससे बनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥३२६-३३२॥ उन दोनोंके वचन सुनकर उत्तम प्रकृतिवाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वतकी नारदके साथ ईर्ष्या है इसीलिये यह प्राणवधसे धर्म होता है यह बात पृथिवीपर प्रतिष्ठापित करनेके लिए कह रहा है । यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है अतः हम सब लोगोंके साथ वार्तालाप आदि करनेमें अयोग्य है ॥३३३-३३४॥ इस प्रकार सबने क्रोधवशा हाथकी हथेलियोंके ताड़नसे उस पर्वतका तिरस्कार किया और घोषणा की कि दुर्बुद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है ॥३३५॥ इस प्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पर्वत मान-भंग होनेसे वनमें चला गया । वहाँ महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेप रखकर भ्रमण कर रहा था । उस समय वह वृद्ध

१ विधेये ल०, म० । २ संप्राप्तो क०, घ० । ३ पदेन ल० । ४ प्रकीर्तयते ल० । ५ तयोर्वचन- म०, ल० । ६ पतितोऽयमयोग्यो न. क०, घ० । ७ क्रुद्धा क०, घ०, म० । क्रुधात् ल० ।

१ कृतान्तारोहणासन्नसोपानपदवीरिव<sup>१</sup> । वल्कीरुद्रहता भूयः स्वलतेवान्घचक्षुषा ॥३३७॥  
 विरलेन शिरोमेन सितेन दधता ततम् । राजतं वा शिरस्त्राणमन्तिकान्तकजाङ्गयात् ॥३३८॥  
 जराङ्गनासमासंगं सुखाद्दामीलचक्षुषा । चकच्छिन्नकरेणैव करिणा कुपिताहिना ॥३३९॥  
 द्वोर्ध्वश्वासिना राजवल्लभेनेव नाग्रः । प्रस्फुटं पश्यता भग्नशृष्टेनापटुसाविणा ॥३४०॥  
 राज्ञेव योग्यदण्डेन शमेनेव तनूभृता । विश्वभूनुपकन्यासु<sup>२</sup> बद्धक्रोधमिवात्मनः ॥३४१॥  
 वक्तुं धारयता यज्ञोपवीतं त्रिणीकृतम् । तेन स्वामिमतारम्मसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३४२॥  
 महाकालेन दष्टः सन् पर्वतः पर्वते भ्रमन् । प्रतिगम्य तमानम्य सोऽभ्यधादमिवादनम् ॥३४३॥  
 महाकालः समाश्रास्य स्वस्ति तेऽस्त्विति ल. दरम् । तमत्रिज्ञातपूर्वत्वात्कुतस्त्वस्त्वं वनान्तरे ॥३४४॥  
 परिभ्रमणमेतत्ते ब्रूहि मे केन हेतुना । इत्यपृच्छदसौ चाऽ निजवृत्तान्तमादितः ॥३४५॥  
 तं निशम्य महाकालः सगरं मम वैरिणम् । निर्वशीकर्तुमेव श्यात्समर्थो मे प्रतिष्कसः ॥३४६॥  
 इति निशित्य पापात्मा विप्रलम्भनपण्डितः । त्वल्पिता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥  
 ३ भौमोपाध्यायसान्धिष्ये शास्त्राभ्यासमकुर्वहि । त्वरिपता मे ततो विद्धि धर्मभ्राता तमीक्षितुम् ॥३४८॥  
 समागमनेभैतच्च वैकल्यं समपद्यत । मा भैषीः शत्रुविष्वंसे सहायस्ते भवाम्यहम् ॥३४९॥  
 इति क्षीरकदम्बात्मजेषांनुगताः स्वयम् । आथर्वणगताषष्टिसहस्रप्रमिताः पृथक् ॥३५०॥

अवस्थाके रूपमें था, वह बहुत-सी बलि अर्थात् शरीरकी सिक्कड़नोंको धारण कर रहा था सिक्कड़नें ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढियोंका मार्ग ही हो। अन्तरह वह बार-बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिरपर बिरले-बिरले सफेद बाल वह एक सफेद रंगकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराज भयसे उसने चाँदीका टोप ही लगा रखा हो, उसके नेत्र कुञ्ज-कुञ्ज बन्द थे जिससे ऐसा जा पड़ता था मानो घृद्धावस्थारूपी स्त्रीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे ही उसके नेत्र बन्द हो रहे, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हाथीके समान थी, वह क्रुद्ध सोंपके समान लम्बी-लम्बी आभर रहा था, राजाके प्यारे मनुष्यके समान वह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पी टूटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता अर्थात् सबके लिए योग्य दण्ड—सजा देता है उसी प्रकार वह भी योग्य दण्डसे सहित था अर्थात् अपने अनुकूल दण्ड—लाठी लिये हुए था, ऊपरसे इतना शान्त दिखता था मानो शर धारी शम—शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सगर राजा और सुलसा कन्याके ऊपर हमारा वै बंधा हुआ है यह कहनेके लिए ही मानो वह तीन लड़का यज्ञोपवीत धारण कर रहा था, व अपना अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकालने पर्वतपर घू हुए क्षीरकदम्बके पुत्र पर्वतको देखा। ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्वतके सम्मुख जाकर उ नमस्कार किया और पर्वतने भी उसका अभिवादन किया ॥३३६-३३८॥ महाकालने आश्वास देते हुए आदरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो। तदनन्तर अज्ञान बनकर महाकालने पर्वत पूछा कि तुम कहाँसे आये हो और इस बनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा है पर्वतने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया। उसे सुनकर महाकालने सोचा कि यह मेरे वैरी राजाको निर्वश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साधर्मो है। ऐसा विचार कर ठगने चतुर पापी महाकाल पर्वतसे कहने लगा कि हे पर्वत! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपने और मैंने भौम नामक उपाध्यायके पास शास्त्राभ्यास किया था इसलिये तुम्हारे पिता मेरे धर्माई हैं। उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था परन्तु खेद है कि वह-निष्फल हो गया। तुम डरो मत—शत्रुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ॥३४४-३४९॥ इस प्रकार ७ महाकालने क्षीरकदम्बके पुत्र पर्वतके इष्ट अर्थका अनुसरण करनेवाली अथर्ववेद सम्बन्धी सा

ऋचो वेदरहस्यानीदुष्पुष्पाद्याध्याप्य पर्वतम् । शान्तिपुष्टयभिचारात्मक्रियाः पूर्वोक्तमन्त्रैः ॥३५१॥  
 निशिताः पवनोपेतवह्निष्वाकासमाः फलम् । इष्टैस्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पशुर्हिसनात् ॥३५२॥  
 ततः साकेतमध्यास्य शान्तिकादिकप्रदम् । हिंसाधामं समारभ्य प्रभावं विदधामहे ॥३५३॥  
 इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थमात्मीयान् दितिपुत्रकान् । तीव्रान् सगराप्स्यथ बाबां तीव्रज्वरादिभिः ॥३५४॥  
 क्रुधन्वमिति सप्रथमं सद्भिन्नस्त्वपुं गतः । सगर मन्त्रगर्भाशीर्वादिनालोच्य पर्वतः ॥३५५॥  
 सप्रभाव प्रकाश्यास्य त्वहेशविषमाशिवम् । शममिष्यामि यज्ञेन स मन्त्रेणात्रिकम्भितम् ॥३५६॥ -  
 यज्ञाय वेधसा सृष्टा पशवस्तद्विहिसनात् । न पापं पुण्यमेव स्यात्स्वर्गोऽस्तुखसाधनम् ॥३५७॥  
 इति सप्रथम्य तं पापं पुनरप्येवमब्रवीत् । त्वं पशूनां सहस्राणि वष्टि यारास्य सिद्धये ॥३५८॥  
 क्रुध सप्रहमन्यत् द्रव्यं तद्योग्यमित्यसौ । राजापि सर्ववर्तूनि तथैवासमै समर्पयत् । ३५९॥  
 प्रारभ्य पर्वतो यागं प्राणिनोऽमन्त्रयत्तदा । महाकालः शरीरेण सह स्वर्गमुपागत ॥३६०॥  
 इत्याकाशे विमानैस्तानीयमानानदर्शयत् । देशशिवोपसर्गं च तदैवासौ निरस्तवान् ॥३६१॥  
 तदृष्ट्वा देहिनो मुग्धास्तत्पक्ष्मणेन मोहिताः । तां गतिं प्रेषवो यागमृत्सिमावक्ष्यञ्जलम् ॥३६२॥  
 तद्यज्ञावसितौ जात्यं हयमेकं विधानत । इयाज सुलसां देवीमपि राजाज्ञया खलः ॥३६३॥  
 प्रियकान्तावियोगोत्थशोकदावानलक्षिषा । परिप्लुष्टतन् राजा राजधानीं प्रविष्टवान् । ३६४॥  
 शय्यातले विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिहिसनम् । वृत्तं महदिवं धर्मः किमधर्मोऽयमित्यसौ ॥३६५॥  
 संशयामस्तथान्येषुमुनिं यत्तिवराभिधम् । अभिवन्ध मयारब्ध भट्टारक यथास्थितम् । ३६६॥

हजार ऋचाएँ पृथक्-पृथक् स्वयं बनायीं । ये ऋचाएँ वेदका रहस्य बतलानेवाली थी, उसने पर्वतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्त्रोंसे वायुके द्वारा वडी हुई अग्नि-की ज्वालामें शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएँ की जावे तो पशुओंकी हिंसासे इष्ट फल-की प्राप्ति हो जाती है । तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर रहें और शान्ति आदि फल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करे ॥३५०-३५३॥ ऐसा कहकर महाकालने वैरियोंका नाश करनेके लिए अपने क्रूर असुरोंको बुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरके देशमें तीव्र ज्वर आदिके द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो । यह कहकर असुरोंको भेजा और स्वयं पर्वतको साथ लेकर राजा सगरके नगरमें गया । वहाँ मन्त्र मिश्रित आशीर्वादके द्वारा सगरके दर्शन कर पर्वतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल हो रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा ॥३५४-३५६॥ विधाताने पशुओंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होता है ॥३५७॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार पशुओंका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थोंका संग्रह करो । राजा सगरने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएँ उसके लिए सौंप दीं ॥३५८-३५९॥ इधर पर्वतने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंको मन्त्रित करना शुरू किया—मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोंको विमानोंमें बैठाकर शरीरसहित आकाशमें जाते हुए दिखलाया और विश्वास दिला दिया कि ये सब पशु स्वर्ग गये हैं । उसी समय उसने देशके सब अमंगल और उपसर्ग दूर कर दिये ॥३६०-३६१॥ यह देख बहुते-से भोले प्राणी उसकी प्रतारणा—मायासे मोहित हो गये और स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे ॥३६२॥ यज्ञके समाप्त होनेपर उस दृष्ट पर्वतने विधिपूर्वक एक उत्तम जातिकी घोड़ा तथा राजाकी आज्ञासे रसकी सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया ॥३६३॥ प्रिय स्त्रीके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकरूपी दावानलकी ज्वालामें जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥३६४॥ वहाँ शय्यातलपर अपना शरीर डालकर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियोंकी हिंसा हुई है—सो यह धर्म है या अधर्म ? ॥३६५॥ ऐसा संशय करता हुआ

ब्रूहि किं कर्म पुण्यं मे पापं चेदं विचार्य तत् । इत्यवोचदसौ चाह धर्मशास्त्रबहिष्कृतम् ॥३६७॥  
 पतवेव विधातारं सप्तमीं प्रापयेत्क्षितिम् । तस्यामिज्ञानमप्यस्ति दिनेऽस्मिन् सप्तमेऽशनिः ॥३६८॥  
 पतिष्यति ततो विद्धि सप्तमीं धरणींति ते । तदुक्तं भूपतिर्मेत्वा ब्राह्मणं तं न्यवेदयत् ॥३६९॥  
 तन्मृषा किमसौ वेत्ति नद्यः क्षणकस्ततः । शङ्कास्ति चेत्तवैतस्याः शान्तिरत्र विधीयते ॥३७०॥  
 इत्युक्तिमिर्मनस्तस्य संधार्य शिथिलीकृतम् । यत्नं पुनस्तमारब्धं स ततः सप्तमे दिने ॥३७१॥  
 माययाऽसुरपापस्य सुलसा नभसि स्थिता । देवभावं गता प्राच्यपशुभेदपरिष्कृता ॥३७२॥  
 यागमृत्युफलैर्नैषा लब्धा देवगतिर्मया । तं प्रमोदं तवायुतां विमानेऽहमिहागता ॥३७३॥  
 यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितरश्चेत्यमाषत । तद्द्वयःश्रवणाद् दृष्टं प्रत्यक्षं यागमृत्युजम् ॥३७४॥  
 फलं जैनमुनेर्वाक्यमस्त्यमिति भूपतिः । तीव्रहिसानुरागेण सद्दर्भद्वेषिणोदयात् ॥३७५॥  
 संभूतपरिणामेन मूलोत्तरविकलिरात् । तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदृष्टसङ्केशसाधनात् ॥३७६॥  
 नरकायुःप्रभृत्यष्टकर्मणां स्त्रोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥३७७॥  
 विभीषणाशनित्वेन तत्काले पतिते रिपौ । तत्कर्मणि प्रसक्ताखिलाङ्गिभिः सगरः सह ॥३७८॥  
 शैवेऽजनिं दुष्टात्मा महाकालोऽपि तत्क्षणे । स्ववैरपवनापूरणेन गत्वा रसातलम् ॥३७९॥  
 तं दण्डयितुमुक्तोऽस्तु नीयनरकावधौ । अन्नित्रप्यानवलोकयैनं विश्वभूपरिद्विषम् ॥३८०॥  
 मृतिप्रयोगसंपादां ततो निर्गत्य निर्द्युगः । पर्वतस्य प्रसादेन सुलसासहितः सुखम् ॥३८१॥  
 प्राप्सोऽहमिति शसन्तं विमानेऽरिमदशयत् । तं दृष्ट्वा तत्परोक्षेत्र विश्वभू. सचिव स्वयम् ॥३८२॥

वह यतिघर नामक मुनिके पास गया और नमस्कार कर पूछने लगा कि हे स्वामिन् ! मैंने कार्य प्रारम्भ किया है वह आपको ठीक-ठीक विदित है । विचार कर आप यह कहिए कि यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्र-बहिष्कृत है, यह कार्य ही अपने करनेवालेको सप्तम नरक भेजेगा । उसकी पहचान यह कि आजसे सातवे दिन वज्र गिरेगा उससे जान लेना कि तुझे, सातवीं पृथिवी प्राप्त हुई मुनिराजका कहा ठीक मानकर राजाने उस ब्राह्मण-पर्वतसे यह सब बात कही ॥३६६-३६६ राजाकी यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह मूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है फिर भी तुझे यदि शंका है तो इसकी भी शान्ति कर डालते हैं ॥३७०॥ इस तरहके वचन राजाका मन स्थिर किया और जो यज्ञ शिथिल कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिय तदनन्तर सातवे दिन उस पापी असुरने दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आका खड़ी है, पहले जो पशु होमे गये थे वे भी उसके साथ हैं । वह राजा सगरसे कह रही है यज्ञमें मरनेके फलसे ही मैंने यह देवगति पायी है, मैं यह सब हर्षकी बात आपको कहनेके ही विमानमें बैठकर यहाँ आयी हूँ । यज्ञसे सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर वृष्ट हुए उसके यह वचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनेका फल प्रत्यक्ष दिखाई दे है-अतः जैन मुनिके वचन असत्य हैं । उसी समय तीव्र हिसासे अनुराग रखनेव एवं सद्दर्भके साथ द्वेष करनेवाले कर्मकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे उत्त हुए परिणांसे, नरकायुको आदि लेकर आठों कर्मोंका तत्कृतनेवाला अपने योग्य उत् स्थितिबन्ध एवं उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पढ़ गया । उसी समय भयंकर वज्रपात होनेसे श पतन हो गया और उस कार्यमें लगे हुए सब जीवोंके साथ राजा सगर मरकर रौरव नरक सातवे नरकमें उत्पन्न हुआ । अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने वैर वायुके झंकारसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानेकी अब तोसरे नरक तक ही थी । वहाँतक उसने उसे खोजा परन्तु जब पता नहीं चला वह निर्दय वहाँसे निकला और विश्वभू मन्त्री आदि शत्रुओंको मारनेका उपाय करने ल उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमें बैठा हुआ कह रहा है कि मैं प

विषयाधिपतिभूत्वा महामेधे कृतोद्यमः । विमानान्तर्गता देवा पितरश्च न योऽङ्गणे ॥३८३॥  
 सर्वेषां दृशिता व्यक्तं महाकालस्य मायया । महामेधस्त्वया यागो मन्त्रिन् पुण्यवता कृतः ॥३८३॥  
 हृति विश्वमुवं स्रुप. संभूयांसोऽविपुस्तदा । नारदस्तापसाञ्चैतदाकर्ण्यैष दुरात्मना ॥३८५॥  
 दुर्माणां द्विपतानेन धिक् लोकेष्य प्रकाशित । निचार्योऽयमुपायेन केनचित्पापपण्डितः ॥३८६॥  
 हृति सर्वेऽपि संगत्य साकेतपुरमागताः । यथाविधि समाकोच्य सच्चिं पापिनो नराः ॥३८७॥  
 नितान्तमर्थकामार्थं कुर्वन्ति प्राणिनां वधम् । न केऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां सन्ति घातकाः ॥३८८॥  
 वेद्विद्विरहिंसीका वेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवल्लीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥  
 हृति पूर्वेष्विवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेतद्ब्रध्नाप्रार्थं कर्म कर्मनिबन्धनम् ॥३९०॥  
 तापसैरभ्यवायीति सर्वप्राणिहितैषिभिः । विश्वभूरिद्रमाकर्ण्य तापसा भो. कथं मया ॥३९१॥  
 दृष्टं शक्यमपह्नोतुं साक्षात्स्वर्गस्य साधनम् । इति ब्रुवन् पुनर्नारदेनोक्तः पापभीरुणा ॥३९२॥  
 भ्रमात्योत्तम विद्वत्स्वं किमिति स्वर्गसाधनम् । सगरं सपरीवारं निर्मूल्यवित्मिच्छता ॥३९३॥  
 उपायोऽर्थं व्यधाःत्येवं प्रत्यक्षफलदर्शनात् । केनचित्कुहुकठेन मुग्धानां मोहकारणम् ॥३९४॥  
 ततः शीलोपवासादिविधिनापार्णमोदितम् । आचरेति स तं प्राह पर्वतं नारदोदितम् ॥३९५॥  
 श्रुतं त्वथेत्यसौ शास्त्रेणासुरोक्तेन दुर्मतिः । मोहितो नारदेनापि प्रागिदं किं न वा श्रुतम् ॥३९६॥  
 ममास्य च गुरुर्नान्यो मत्पितृवातिगर्वितः । समस्सरतयाप्येष मरयद्य किमिबोच्यते ॥३९८॥

प्रसादसे ही सुखको प्राप्त हुआ हूँ । यह देख, विश्वभू मन्त्री जो कि सगर राजाके पीछे स्वयं उसके देशका स्वामी बन गया था महामेध यज्ञमें उद्यम करने लगा । महाकालकी मायासे सब लोगोंको साफ-साफ दिखाया गया था कि आकाशागणमें बहुत-से देव तथा पितर लोग अपने-अपने विमानोंमें बैठे हुए हैं । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति कर रहे हैं कि मन्त्रिन् ! तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत अच्छा कार्य किया । इधर यह सब होरहा था उधर नारद तथा तपस्वियोंने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रुने लोगोंके लिए यह मिथ्या मार्ग बतलाया है अतः इसे धिक्कार है । पाप करनेमें अत्यन्त चतुर इस पर्वतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिए । ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये । वहाँ उन्होंने पाप करते हुए विश्वभू मन्त्रीको देखा और देखा कि बहुत-से पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए बहुत-से प्राणियोंका वध कर रहे हैं । तपस्वियोंने विश्वभू मन्त्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए तो प्राणियोंका विघात करते हैं परन्तु धर्मके लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियोंका घात नहीं करते । वेदके जाननेवालोंने ब्रह्मनिरूपित वेदमें अहिंसाको कल्प लताके समान, अथवा सखीके समान जगत्का हित करनेवाली बतलाया है । हे मन्त्रिन् ! यदि तुम पूर्वे ऋषियोंके इस वाक्यको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कर्मबन्धका कारण है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए ॥३७१-३६०॥ सब प्राणियोंका हित चाहनेवाले तपस्वियोंने इस प्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियो ! जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वर्गका साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्तर इस प्रकार कहनेवाले विश्वभू मन्त्रीसे पापभीरु नारदने कहा कि हे उत्तम मन्त्रिन् ! तू तो विद्वान् है, क्या यह सब स्वर्गका साधन है ? अरे, राजा सगरको परिवार-सहित निर्मूल नष्ट करनेकी इच्छा करनेवाले किसी मायावीने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्योंको ही मोहित करनेका कारण है ॥३९१-३९५॥ इसलिए तू ऋषिप्रणीत आगममें कही हुई शील तथा उपवास आदिकी विधिका आचरण कर । इस प्रकार नारदके वचन सुनकर विश्वभूने पर्वतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा कहे शास्त्रसे मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा कि यह शास्त्र क्या नारदने भी पहले कभी

१ दुर्माणांघिहृतोऽनेन म० ल० । २ कोऽपि ल० । ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म० । वेदो ब्रह्मनिरूपितः ल० । ४ पूर्वपवाचयस्य ल० । ५ मत्पितृ वाति ल० (१)

सश्रुतो मद्गुरोर्धर्मभ्राता जगति विश्रुतः । स्थविरस्तेन च श्रौतं रहस्यं प्रतिपादितम् ॥३९६॥  
 शृंगमृत्पुष्पफलं साक्षात्मनयापि प्रकटीकृतम् । न चेत् ते प्रत्ययो विश्वेदात्मनोभिधिपारगम् ॥३९६॥  
 वसुं प्रसिद्धं सत्येन पृच्छेरित्यन्वमापत । तच्छ्रुत्वा नारदोऽवादीत्को दोषः पृच्छयतामसौ ॥४००॥  
 इदं तावद्विचाराहं वधश्चेद्धर्मसाधनम् । अहिसादानशीलादि भवेत्पापप्रसाधनम् ॥४०१॥  
 अस्तु चेन्मत्स्यवन्धादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधर्मतपोब्रह्मचारिणो यान्त्वधोगतिम् ॥४०२॥  
 यज्ञे पशुवधाद्धर्मो नेतरत्रेति चेन्न तत् । वधस्य दुःखहेतुत्वे साहस्यादुभयत्र वा ॥४०३॥  
 फलेनापि समानेन भाव्यं कस्तन्निषेधकः । अथ त्वमेवं मन्येथा पशुसृष्टे स्वयंभुवः ॥४०४॥  
 यज्ञार्थत्वात् तस्यातिविनियोजनुरवागमः । इत्येवं चात्सुगन्धाभिलाषः साधुविगर्हितः ॥४०५॥  
 तत्सर्गस्यैव साधुत्वाद्दस्यन्यच्चान्न दुर्वटम् । यदर्थं यदि तस्यान्यथोपयोगेऽर्थकृन्न तत् ॥४०६॥  
 यथान्यथोपयुक्तं स श्लेषमादिशमनौषधम् । यज्ञार्थपशुसर्गेण क्रयविक्रयणादिकम् ॥४०७॥  
 तथान्यथा प्रयुक्तं तन्महादोषाय कल्पते । दुर्वलं वादिनं दृष्ट्वा ब्रूमः त्वामभ्युपेत्य च ॥४०८॥  
 यथा शस्त्रादिभिः प्राणिभ्यापात्री वधयत्सहसा । मन्त्रैरपि पशून् हन्ता वधयते निर्विशेषतः ॥४०९॥  
 पश्वादिलक्षण. सर्गो व्यच्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्सपुष्पादि चासन्नं क्रियते कुतः ॥४१०॥

नहीं सुना । इसके और मेरे गुरु पृथक् नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनोंके गुरु थे फिर भी अधिक गर्व करता है । मुझपर ईर्ष्या रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता है । विद् स्थविर मेरे गुरुके धर्म भाई तथा जगत्में प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुझे यह श्रुतियाँका रहस्य बत है । यज्ञमें मरनेसे जो फल होता है उसे मैंने भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी तुझे विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेदरूपी समुद्रके पारगामी राजा वसुसे जो कि सत्य कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो । यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोष है वसुसे पूछ जावे ॥३९५-४००॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मका सा मानो जायेगी तो अहिंसा, दान, शील आदि पापके कारण होजावेगे ॥४०१॥ हो जावे यदि आपका कहना है तो मछलियों पकड़नेवाले आदि पापी जीवोंको शुभ गति होनी चाहिए औ सत्य, धर्म, तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको अयोगतिमें जाना चाहिए ॥४-२ कदाचित् आप यह कहें कि यज्ञमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है उसका फल समान ही होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित् आप यह मानते कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु-हिंसा करनेवालेके लिए पाप-वन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यह मूर्ख जनकी अभिलाषा है त साधुजनोंके द्वारा निन्दित है ॥४०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही ब्रह्माने पशुओंकी सृष्टि की है य यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जो व जिस कार्यके लिए बनायी जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता । कि श्लेषम आदिको शमन करनेवाली औषधका यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो विपरीतफलदायी होता है । ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पशुओंसे यदि क्रय-विक्रय आ कार्य किया जाता है तो वह महान् दोष उत्पन्न करनेवाला होना चाहिए । त् वाद् चाहता है परन्तु दुर्वल है—युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जि प्रकार शस्त्र आदिके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी मन्त्रोंके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता ॥४०६-४०९॥ दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फूल आदि असत् पदा

१ पशुसृष्टि' म०, ल० । २ यज्ञार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ० । ३ तस्याति ल० । ४ इत्थं ल०  
 ५ दुर्वटा ल० । ६ प्रयुक्तं तु म०, ल० । ७ चासन्नः ल० ।

अथामिष्येज्यते तस्य वाच्यं प्राकप्रतिबन्धकम्<sup>१</sup> । प्रद्वीपज्वलनात्पूर्वं घटादेरन्धकारवत् ॥४११॥  
 अस्तु वा नाहतव्यक्तिसृष्टिवादो विधीयते । इति श्रुत्वा वचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तवन् ॥४१२॥  
 वसुना चेद् द्वयोर्वादि विच्छेदः सोऽभिगम्यताम्<sup>२</sup> । इति ताभ्यां समं ससद्गच्छस्वस्तिकावतीम् ॥४१३॥  
 तत्सर्वं पर्वतेनोक्तं ज्ञात्वा तज्जननी<sup>३</sup> तदा । सह तेन वसुं दृष्ट्वा पर्वतस्त्वपरिग्रहः ॥४१४॥  
 तपोवनोन्मुखेनाथं गुरुणापि तवार्षितः । नारदेन सहास्येह तवाध्यक्षे मन्विष्यति ॥४१५॥  
 विवादादो यदि भङ्गोऽत्र भावी भाविष्यमाननम् । विद्वध्यस्य शरणं नान्यदित्याख्यस्तोऽपि सादरम् ॥४१६॥  
 विधिस्तुगुरुश्रुषामन्त्र मास्मान् शङ्कयाः । जयमस्य विधास्यामीत्यस्या मयसपाकरोत् ॥४१७॥  
 अन्येधुर्वसुमाकाशस्फटिकांहयुद्दृष्टताननम् । सिंहाङ्कितं समारुह्य स्थितं ससुपुगम्यते ॥४१८॥  
 संपृच्छन्ति स्म सर्वेऽपि विश्वभूसचिवाद्यः । स्वत्तः प्रागप्यर्हिसाधिधर्मरक्षणतत्पराः ॥४१९॥  
 चत्वारोऽत्र महीपाला भूता हिममहासम । वत्सादिगिरिपर्यन्तनामानो हरिवंशजाः ॥४२०॥  
 पुरा चैष व्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीट् । अभूत् ततो भवांश्चासीदहिसाधर्मरक्षकः ॥४२१॥  
 स्वमेव सत्यवादीति प्रबोधो भुवनत्रये । विष्वक्त्वात्तुलादेश्यो वस्तुसंदेहसन्विधौ ॥४२२॥  
 स्वमेव प्रत्यथोत्पादी छिन्धि नः संशयं विभो । अर्हिसालक्षणं धर्मं नारदः प्रत्यपद्यत् ॥४२३॥  
 पर्वतस्त्वद्विपर्याससुपाध्यायोपदेशनम् । यादृक् तादृक् त्वया<sup>४</sup> वाच्यमित्यसौ चार्थितः पुरा ॥४२४॥

क्यों नहीं बना देता ? ॥४१०॥ यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे रोकनेवाला कौन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेवाला है उसी प्रकार प्रकट होनेके पहले पशु आदिको रोकनेवाला भी कोई होना चाहिए ॥४११॥ इस प्रकार आपके सृष्टिवादमें यह व्यक्तिवाद आदर करनेके योग्य नहीं है । इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥४१२॥ सब कहने लगे कि यदि राजा वसुके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला जावे । ऐसा कह सभाके सब लोग नारद और पर्वतके साथ स्वस्तिकावती नगर गये ॥४१३॥ पर्वतके द्वारा कही हुई यह सब जब उसकी माताने जाना तब वह पर्वतको साथ लेकर राजा वसुके पास गयी और राजा वसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपोवनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सौपा था । आज तुम्हारी अप्यक्षतामें यहाँ नारदके साथ विवाद होगा । यदि कदाचित् उस वादमें इसकी पराजय हो गयी तो फिर यमराजका मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह तुम निश्चित समझ लो, इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा वसुसे कहा । राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला कि हे माँ ! इस विषयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पर्वतकी ही विजय कराऊँगा । इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माँका भय दूर कर दिया । ॥४१४-४१५॥ दूसरे दिन राजा वसु आकाश-स्फटिकके पायोसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी समय वे सब विश्वभू मन्त्री आदि राजसभामें पहुँचकर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अर्हिसा आदि धर्मकी रक्षा करनेमें तत्पर रहनेवाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नामके चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥४१६-४१७॥ इन सबके अतीत होनेपर महाराज विश्वावसु हुए और उनके वाद अर्हिसा धर्मकी रक्षा करनेवाले आप हुए है । आप ही सत्यवादी है इस प्रकार तीनों लोकामें प्रसिद्ध हैं । किसी भी दशामें संदेह होनेपर आप विष, अग्नि और तुलाके समान है । हे स्वामिन् ! आप ही विश्वास उत्पन्न करनेवाले हैं अतः हम लोगोंका संशय दूर कीजिए । नारदने अर्हिसालक्षण धर्म बतलाया है और पर्वत इससे विपरीत कहता है अर्थात् हिंसाको धर्म बतलाता है । अब उपाध्याय—गुरुमहाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिए ।

१ प्रतिबन्धनम् ल० । २ सोऽभिगम्यते ल०, म० । ३ तज्जननी ल० । ४ विवादे यदि भङ्गोऽत्र भावी भावि यमाननम् । विद्वध्यस्य शरणं (विद्वि अस्य इति पदच्छेदः) म० । ५ वंशजा हरे. म० । ६ वाच्य-ल० ।



गुप्तपत्न्याप्तनिर्दिष्टं बुध्यमानोऽपि भूपतिः । महाकालमहामोहेनाहितो दुःषमावधेः ॥४२५॥  
 सामीप्याद्रक्षणानन्दरौद्रध्यानपरायणः । पर्वताभिहितं तत्त्वं दृष्टे काऽनुपपन्नता ॥४२६॥  
 स्वर्गमस्यैव यागेन सजानिः सगरोऽप्यगार । उर्वरप्रदीपमन्थेन को दीपेन प्रकाशयेत् ॥४२७॥  
 पर्वतोक्तं भयं हित्वा क्रुद्धं स्वर्गसाधनम् । इति हिंसानृतानन्दो<sup>२</sup> बध्वायुर्मारक<sup>३</sup> प्रति ॥४२८॥  
 मिथ्यापापापवादाभ्यामर्भोरुग्णीदिदम् । अहो महापतेर्वक्त्रादपूर्वं घोरमीदृशम् ॥४२९॥  
 निर्यातमिति वैषम्याद्भुक्ते नारदतापसैः<sup>४</sup> । आक्रोशदम्बरं नचः प्रतिकृज्जलन्वाः ॥४३०॥  
 सद्यः सरसि शुष्णणि रक्तवृष्टिरनारता । तीव्रांशोरंशवो मन्दा विश्वाशाश्च मलीमसाः ॥४३१॥  
 बभूवुः प्राणिनः कम्पमाद्भुम्यविह्वलाः । तदा महाध्वनिघात्री द्विधाभेदे<sup>५</sup>मुपागता ॥४३२॥  
 वलोस्वस्मिन् महारन्ध्रे भ्रमज्ज्वलित्स्वविष्टरम् । तद्दृष्ट्वा देवविद्याधरेशा घनपथे स्थिताः ॥४३३॥  
 अतिक्रम्यादिर्म मार्गं वसुराजमहामते । धर्मविध्वंसन मार्गं माभिधा इत्यबोधयन् ॥४३४॥  
 पर्वतं वसुराजं च सिंहासननिमज्जनात् । परिग्लानमुखी दृष्ट्वा महाकालस्य किंकरा ॥४३५॥  
 तापसाकारमादाय भयं मात्र स्म गच्छतम् । इत्यात्मोत्थापितं चास्या दर्शयन् हरिविष्टरम् ॥४३६॥  
 नृपोऽप्यहं कथं तत्त्वविद्विभेस्यमृषं वचः । पर्वतस्यैव निश्चिन्वन्नित्याकण्ठं निमग्नवान् ॥४३७॥  
 अनेनेयमवस्थाभूमिन्मिथ्यावादेन भूपते । त्यजेममिति संप्रार्थितोऽपि यत्नेन साधुभिः ॥४३८॥

इस प्रकार सब लोगोंने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यद्यपि आप्त भगवान्के द्वारा क ह्युप धर्मतत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहलेही प्रार्थना कर चुकी थी, इसके सिवा वह महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहेसे युक्त था, दुःषमा नामक पंचम कालकी सी निकट थी, और वह स्वयं परिग्रहानन्द रूप रौद्र ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि तत्त्व पर्वतने कहा है वही ठीक है । जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सक है ॥४२०-४२६॥ इस पर्वतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया है जो दीपक स्वयं जल रहा है—स्वयं प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दीपकके द्वारा क प्रकाशित करेगा ? ॥४२७॥ इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही कर वही स्वर्गका साधन है । इस प्रकार हिंसानन्दी और मृपानन्दी रौद्र ध्यानके द्वारा रा वसुने नरकायुक्ता बन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप और लोकनिन्दासे नह डरनेवाले राजा वसुने उक्त वचन कहे । राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद और तपस्व कहने लगे कि आश्चर्य है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसक कोई विपम कारण अबश्य है । उसी समय आकाश गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह उलट बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किर फीकी पड़ गयीं, समस्त दिशाएँ मलिन हो गयीं, प्राणी भयसे विह्वल होकर काँपने लगे बड़े जोरका शब्द करती हुई पृथिवी फटकर दो टुक हो गयी और राजा वसुका सिंहासन महागर्तमे निमग्न हो गया । यह देख आकाशमार्गमें खड़े हुए देव और विद्याधर कहने ल कि हे बुद्धिमान् राजा वसु ! सनातन मार्गका उल्लंघन कर धर्मका विध्वंस करनेवाले मार्ग निरूपण मत करो ॥४२८-४३४॥ पृथिवीमें सिंहासन घुसनेसे पर्वत और राजा वसुका मु फीका पड़ गया । यह देख महाकालके किंकर तपस्वियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आ लोग भयको प्राप्त न हों । यह कहकर उन्होंने वसुका सिंहासन अपने-आपके द्वारा उठाक लोगोंको दिखला दिया । राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धँस गया था तथा जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे कैसे डर सकता हूँ ? फिर भी कहता हूँ कि पर्वतके वचन ही सत्य हैं । इतना कहते ही वह कण्ठ पर्यन्त पृथिवी धँस गया । उस समय साधुओंने—तपस्वियोंने बड़े यत्नसे यद्यपि प्रार्थना की थी कि राजान् ! तेरी यह अवस्था असत्य भाषणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यज्ञ

१ योगिन ल० । २ हिंसानृतानन्दो क०, ल० । ३ नरकं ल० । ४ तापसाः ल० । ५ भक्ति—म० ल० । ६ महापते ल० । ७ इत्यात्मस्थापित क०, ल०, ल० ।

तथापि यज्ञमेवाज्ञः सन्मार्गं प्रतिपादयन् । युवा कुपित एवासी निगीर्णोऽन्याभगात्क्षितिम् ॥४३९॥  
 अथासुरो जगत्प्रत्ययाथादाय नरेन्द्रयोः । दिव्यं रूपमवापावावां यागश्रद्धया दिवम् ॥४४०॥  
 नारदोक्तमपाकर्ण्यमित्युक्त्वापददृश्यताम् । शोकाश्रयंवतागात्स्वर्बसुर्नहि-महीमिति ॥४४१॥  
 संविलंवदमानेन जनेन महता सह । प्रयागे विश्वभूगत्वा राजसूयविधिं व्यधात् ॥४४२॥  
 महापुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमूढताम् । परमब्रह्मनिदिष्टमार्गंक्ता मनाक् स्थिताः ॥४४३॥  
 नाद्वेनैव धर्मस्य मर्यादित्यमिनन्द्य तम् । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितटामिधम् ॥४४४॥  
 तारासाश्च दयाधर्मविध्वंसविधुराशयाः । कलयन्तः कर्किं वालं विचेष्टुः स्वं स्वमाश्रमम् ॥४४५॥  
 ततोऽन्येषु खगो नाम्ना देवो दिनकरादिमः । पर्वतस्यालिकप्राणिविहङ्गद्वरितं त्वया ॥४४६॥  
 निरुध्यतामिति प्रीत्या निर्दिष्टो नारदेन सः । करिष्यामि तथेतीत्वा नागान् गन्धारपन्नगान् ॥४४७॥  
 स विधया समाहूतांस्तप्रपञ्चं यथास्थितम् । अचोबत्तेऽपि संप्राप्ते मद्ब्रुवा दैत्यमकुर्वत ॥४४८॥  
 यज्ञविघ्नं समालोक्य विश्वभूपर्वताह्वयौ । शरणान्वेषणोष्णकौ महाकालं यदृच्छया ॥४४९॥  
 पुरः संनिहितं दृष्ट्वा यागविघ्नं तमूचतुः । नागैर्द्वेषिभिरस्माकं विहितोऽयमुपद्रवः ॥४५०॥  
 नागविद्याश्च विद्यानुप्रवादे परिभाषिताः । निविद्धं जिनबिम्बानामुपयत्सां विजृम्भणम् ॥४५१॥  
 ततो युवां जिनाकारान् सुरुपां दिव्यचतुष्टये । निवेद्याभ्यर्च्य यज्ञस्य प्रक्रमेयामिमं विधिम् ॥४५२॥  
 इत्युपायमसावाह तौ च तन्वक्तुस्तथा । पुनः खगाधिपोऽभ्येत्य यज्ञविघ्नविधित्तया ॥४५३॥

को ही सन्मार्गं बतलाता रहा । अन्तमें पृथिवीने उसे कुपित होकर ही मानोनिगल लिया और वह मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४३९॥ तदनन्तर वह असुर जगत्को विश्वास दिलानेके लिए राजा सगर और वसुका सुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहां न सुनकर यज्ञकी श्रद्धासे ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया । इस घटनासे लोगोको बहुत शोक और आश्चर्य हुआ । उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई कहता था कि नहीं, नरक गया है । इस तरह विवाद करते हुए विश्वभू मन्त्री अपने घर चला गया । तदनन्तर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया । इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा मनुष्योंकी मूढताकी निन्दा करने लगे और परम ब्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाये मार्गमें तल्लीन होते हुए थोड़े दिन तक यो ही ठहरे रहे ॥४४०-४४३॥ इस समय नारदके द्वारा ही धर्मकी मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान किया ॥४४४॥ तापस लोग भी दया धर्मका विध्वंस देख बहुत दुःखी हुए और कलिकालकी महिमा समझते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये ॥४४५॥

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदने उससे बड़े प्रेमसे कहा कि इस समय पर्वत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना चाहिए । उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवश्य रोकूंगा । ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गन्धारपन्नग नामक नागकुमार देवोंको बुलाया और विघ्न करनेका सब प्रपंच उन्हें यथा योग्य बतला दिया । नागकुमार देवोंने भी संप्राममें दैत्योंको मार भगाया और यज्ञमें विघ्न मचा दिया । विश्वभू मन्त्री और पर्वत यज्ञमें होनेवाला विघ्न देखकर शरणकी खोज करने लगे । अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा । दिखते ही उन्होंने उससे यज्ञमें विघ्न आनेका सच समाचार कह सुनाया, उसे सुनते ही महाकालने कहा कि हम लोगोके साथ द्वेष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव किया है । नागविद्याओंका निरूपण विद्यानुवादमें हुआ है । जिनबिम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है अर्थात् जहाँ जिनबिम्ब होते हैं वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ॥४४६-४५१॥ इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और तदनन्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो ॥४५२॥ इस प्रकार-महाकालने यह उपाय कहा और उन

दृष्ट्वा जैनेन्द्रभिन्धानि विद्याः क्रामन्ति नात्र मे । नारदाय निवेद्येति स्वस्वधाम समाश्रयन् ॥४५३॥  
 निर्दिष्टं यज्ञनिवृत्तौ विश्वभूः पर्वतश्च तौ । जोवितान्ते चिरं दुःखं नरकेऽनुभवतुवः ॥४५५॥  
 महाकालोऽप्यभिप्रेतं साधयित्वा स्वरूपधत् । प्रारभवे पोदनाधीशो नृपोऽहं मधुपिङ्गलः ॥४५६॥  
 मयैवं सुखसाहेतोर्महत्पापमनुष्ठितम् । अहिंसाकक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैरभिभाषितः ॥४५७॥  
 अनुष्ठेयः स धर्मिष्ठैरित्युक्त्वासौ तिरोदधत् । स्वयं चादास्वदुःखेष्टाप्रायश्चित्तं दद्याद्ग्रीचीः ॥४५८॥  
 निवृत्तिमेव संभोहाद्विहितात्पापकर्मणः । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिसाधर्मप्रवृत्तकाः ॥४५९॥  
 प्रयत्नुस्ते गतिं पापाञ्जारकीमिति केचन । दिव्यबोधैः समाकर्ण्य मुनिभिः समुदाहृताम् ॥४६०॥  
 पर्वतोद्दिष्टदुर्मार्गं नोपेयुः पापभीरवः । केचित्तु दीर्घसंसारस्तस्मिन्नेव व्यवस्थिताः ॥४६१॥  
 इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममाहृतम् । समासीनाश्च सर्वेऽपि मन्त्रिणं तुष्टुवुस्तराम् ॥४६२॥  
 तदा सेनापतिर्नात्ना महोदय महाबलः । पुण्यं भवतु पापं वा यागे नस्तेन किं फलम् ॥४६३॥  
 प्रभावदर्शनं श्रेयो भूभृन्मध्ये कुमारयोः । इत्युक्तवांस्ततो राजा पुनश्चेत्तत् विचारवत् ॥४६४॥  
 इति मत्वा विसृज्यैतान् मन्त्रिसेनापतीन् पुनः । हितोपदेशिनं प्रश्नं तमपृच्छपुरोहितम् ॥४६५॥  
 गतयोजनकागारं स्यान्न वेष्टं कुमारयोः । इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च लक्षितम् ॥४६६॥  
 अस्मत्कुमारयोस्तत्र यागे भावी महोदयः । संशयोऽत्र न कर्तव्यस्त्वय्यान्यच्चेदमुच्यते ॥४६७॥  
 अयास्मिन् नारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्त्रिविधा रामा भविष्यन्ति महौजसः ॥४६८॥

दोनोंने उसे यथाविधि किया । तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विघ्न करने इच्छासे आया और जिनप्रतिभाएँ देखकर नारदसे कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं सकती ऐसा कहकर वह अपने स्थानपर चला गया ॥४५३-४५४॥ इस तरह वह यज्ञ निर्मासमाप्त हुआ और विश्वभू मन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके नरकमें दुःख भोगने लगे ॥४५५॥

अन्तमे महाकाल असुर अपना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ अ कहने लगा कि मैं पूर्ण भवमें पोदनपुरका राजा मधुपिङ्गल था । मैंने ही इस तरह सुलसा निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है । जिनेन्द्र भगवान्ने जिस अहिंसाकक्षण धर्मका निरू किया है धर्मात्माओंको उसीका पालन करना चाहिए इतना कह वह अन्तर्हित हो गया दयासे आर्द्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्चित्त स्वयं ग्रहण किया ॥४५६-४५७॥ मोहवश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है । हिसा धर्ममें प्र रहनेवाले विश्वभू आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये और पापसे डरनेव कितने ही लोगोंने सम्यग्ज्ञानके धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सुनकर पर्वतके द्वारा क मिथ्यामार्गं स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था ऐसे कितने ही लोग च मिथ्यामार्गमें स्थित रहे आये ॥४५६-४६१॥ इस प्रकार अतिशयमति मन्त्रीके द्वारा कहा हु आगम सुनकर प्रथम मन्त्री, राजा तथा अन्य सभासद लोगोंने उस द्वितीय मन्त्रीकी ब भारी स्तुति की ॥४६२॥ उस समय राजा दशरथका महाबल नामका सेनापति बोला कि य पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या प्रयोजन है ? हम लोगोंको तो राजाओंके व दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है । सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशर कहा कि अभी इस बातपर विचार करना है । यह कहकर उन्होंने मन्त्री और सेनापतिकी विदा किया और तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रश्न पूछा कि रा जनकके घर जानेपर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें पुरोहित भी पुराणों निमित्तशार्योंके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके यज्ञमें महान् ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिए । इ सिवाय एक बात और कहता हूँ ॥४६३-४६७॥ वह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थ

हत्याख्याताः पुराणत्रैमुनीशैः प्राग्मया श्रुताः । तेष्वष्टमाविमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥४६६॥  
माविनौ रावण हृत्वेत्यवादीद्गाविविद्गिरः । तत्तद्वृक्तं तदाकर्ण्य परितोषमगान्नुपः ॥४७०॥

शार्दूलविक्रीडितम्

कृत्वा पापमदं क्रुधा पशुवधस्योत्सूत्रमाभूत्तल,  
हिंसायज्ञमवर्तयत् कपटधीः क्रूरो महाकालकः ।  
तेनागास्वस्रुः सपर्वतखलो घोरं धरं नारकीं  
दुर्भागान् दुरितावहान्विदधत्तं नैतन्महत्पापिनाम् ॥४७१॥  
व्यामोहात्सुकसाप्रियस्ससुकसः सार्द्धं स्वयं मन्त्रिणा  
शत्रुच्छत्राविवेकज्ञान्यहृदयः संपाद्य हिंसाक्रियाम् ।  
नष्टो गन्तुमद्यः क्षिति दुरिविनामक्रूरनाशं सुधा  
दुःकर्माभिरतस्य किं हि न भवेदन्यस्य चेद्विबधम् ॥४७२॥  
वसन्ततिलकावृत्तम्  
स्वाचार्यवर्यमनुसृत्य हितानुशासी  
वादे समेत्य बुधसंसदि साधुवादम् ।  
श्रीनारदो विहितभूरितपाः कृतार्थः  
सर्वार्थसिद्धिमगमत् सुधियामधीशः ॥४७३॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुर्भागवर्तनप्रपञ्चव्यावर्णनं  
नाम सप्तषष्टितमं पर्व ॥ ६७ ॥

तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायण ) और महाप्रतापी बलभद्र होते हैं ऐसा पुराणोंके जाननेवाले मुनियोंने कहा है तथा मैंने भी पहले सुना है । हमारे ये दोनों कुमार उन महापुरुषोंमें आठवें बलभद्र और नारायण होंगे ॥४६८-४६९॥ तथा रावणको मारने । इस प्रकार भविष्यको जाननेवाले पुरोहितके वचन सुनकर राजा सन्तोषको प्राप्त हुए ॥४७०॥ कपट रूप बुद्धिको धारण करनेवाले क्रूरपरिणामी महाकालने क्रोधवश समस्त संसारमें शास्त्रोंके विरुद्ध और अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलायी इसी कारणसे वह राजा वसु, दुष्ट पर्वतके साथ घोर नरकमें गया सो ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है ॥४७१॥ मोहनीय कर्मके उदयसे जिसका हृदय शत्रुओंका छल समझनेवाले विवेकसे शून्य था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा और विश्वभू मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रियाएँ कर अधोगतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य अपने क्रूर परिणामोंको नष्ट न कर व्यर्थ ही दुष्कर्ममें तल्लीन रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥४७२॥ जिसने अपने श्रेष्ठ आचार्य गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शास्त्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोंमें श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान् नारद कृतकृत्य होकर सर्वार्थ-सिद्धि गया ॥४७३॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें मिथ्यामार्गकी प्रवृत्तिके विस्तारका वर्णन करनेवाला सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## अष्टषष्टं पर्व

पुरोहितः पुनश्चासौ तत्कथां श्रोतुमर्हसि<sup>१</sup> । इति संबोधय भूवात् ततो वक्तुं प्रचक्रमे ॥१॥  
 क्रमेण श्रव्यशब्दार्थसारवाणिर्भवावलीम्<sup>२</sup> । दशास्थस्य दशाशास्थप्रकाशितस्वयशःश्रियः ॥२॥  
 अथास्ति<sup>३</sup> नाकलीकामो धातकीखण्डपूर्वभाग् । भारते भूगुणैर्युक्तो देशः सारसमुच्चयः ॥३॥  
 तस्मिन्नागपुरे<sup>४</sup> ख्यातो नरदेवो महीपतिः । स कदाचिदनन्ताख्यराणेशात्कृतवन्द्यः ॥४॥  
 श्रुतधर्मकथो जातनिवेदो ज्येष्ठसूतवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥५॥  
 चरंस्तपः समुत्कृष्टं दृष्ट्वा विद्याधराधिपम् । सद्यश्चपलवेगाख्यं निदानसकरोदधीः ॥६॥  
 प्रान्ते संन्यस्य सौधर्मकल्पेऽभूदश्रुताशनः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयार्धमहाचले ॥७॥  
 खगोशो दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटपुराधिपः । विनम्यन्वयसंभूतः सहस्रग्रीवखेचरः ॥८॥  
 ऋधात्मभ्रातृपुत्रोरुवलेनोत्सादितस्ततः । गत्वा लङ्कापुरं<sup>५</sup> त्रिशासहस्राब्दान्यपालयत् ॥९॥  
 तस्य पुत्रः शतग्रीवस्तत्षडंशोनवत्सरान् । पाति स्म तस्सुतः पञ्चाशद्ग्रीवोऽप्यन्यपालयत् ॥१०॥  
 वत्सराणां सहस्राणि त्रिंशतिं तस्य चात्मजः । पुलस्त्यस्त्रिंशं मेघैकवर्षायुस्तस्य वल्लभा ॥११॥  
 मेघश्रीरनयोः सूनुः स देवोऽभूद्दशाननः । चतुर्दशसहस्राब्दपरमायुर्महीतकम् ॥१२॥  
 पालयन्नयदा कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेचराचलकेशितुः<sup>६</sup> ॥१३॥

तदनन्तर जिसके शब्द और अर्थ सुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण है ऐसा पुरोहि  
 'महाराज, आप यह कथा श्रवण करनेके योग्य हैं' इस प्रकार महाराज दशरथको सम्बोधित  
 अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दशों दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले रावणके भवान्तर क  
 लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतक्षेत्रमें स्वर्गलोकके समान आभ  
 वाला एवं पृथिवीके गुणोंसे युक्त सारसमुच्चय नामका देश है ॥३॥ उसके नागपुर नगरमें न  
 देव नामका राजा राज्य करता था । वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास ग  
 उन्हें वन्दना कर उसने उनसे धर्म-कथा सुनी और विरक्त होकर भोगदेव नामक बड़े पुत्र  
 लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया । तपश्चरण करते समय उ  
 मूर्खने कदाचित् चपलवेग नामक विद्याधरके राजाको देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया  
 जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर सौधर्म स्वर्गमे देव हुआ ।

अथानन्तर-इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें जो विजयार्ध नामका महान् पर्वत है उ  
 दक्षिण श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर है । उसमें राजा विनमिके वंशमें उत्पन्न हुआ सहस्रग  
 नामका विद्याधर राज्य करता था । उसके भाईका पुत्र बहुत बलवान् था इसलिए उसने क्रो  
 होकर सहस्रग्रीवको बाहर निकाल दिया था । वह सहस्र ग्रीव वहाँसे निकलकर लंका नगरी ग  
 और वहाँ तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा ॥४-९॥ उसके पुत्रका नाम शतग्रीव था  
 सहस्रग्रीवके बाद उसने वहाँ पचचीस हजार वर्ष तक राज्य किया था । उसका पुत्र पञ्चाश  
 ग्रीव था उसने भी शतग्रीवके बाद बीस हजार वर्ष तक पृथिवीका पालन किया था,  
 पञ्चाशद्ग्रीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक र  
 किया । उसकी स्त्रीका नाम मेघश्री था । उन दोनोंके वह देव रावण नामका पुत्र हुआ । चौ  
 हजार वर्षको उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद वह भी पृथिवीका पालन करने लगा  
 एक दिन लंकाका ईश्वर रावण अपनी स्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए किसी वनमें गया था

१-मर्हति क०, ल० । २ भवावलीम् ल० । ३ अथास्मिन् क०, ख०, ग०, घ० । ४ नाकपुरे ल  
 ग० । ५ लङ्कापुरीम् क०, घ० । ६ त्रिखमेवैक (१५०००) क०, ख०, ग०, घ०, म० । त्रिखर्वक ल  
 (?) । ७ खेचराचलकेशितु ल० ।

सुताममितवेगस्य विद्यासाधनतत्पराम् । लोको मणिमतिं वीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥१४॥  
 तं दुरात्मात्मसाक्तुं तद्विद्यासिद्धिमस्यंहन् । सापि द्वादशवर्षोपवासकलेशकुरोहृता ॥१५॥  
 तत्सिद्धिविघ्नहेतुत्वात् कुपित्वा खेचरशिने । पुत्रिकास्यैव भूत्वेनं वध्यासमिति दुर्मतिम् ॥१६॥  
 कृत्वा भवान्ते मन्दोदरीगर्भं समधिष्ठिता । भूकम्पादिमहोत्पातैस्तज्जन्मसमयोद्भवैः ॥१७॥  
 विनाशो रावणस्येति नैमित्तिकवचःश्रुतेः । दशाननोऽतिभीतः सन् यत्र क्वचन पापिनीम् ॥१८॥  
 त्यजेमामिति मारीचमाज्ञापयदसावभीः<sup>३</sup> । सोऽपि मन्दोदरीगेहं गत्वा देवस्य देवि मे ॥१९॥  
 कर्मैवं निर्घृणस्थायीदिति तस्यै न्यवेदयत् । सापि देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥२०॥  
 हति प्रभूतद्रव्येण मञ्जूषायाम्<sup>३</sup> निधाय ताम् । तत्संनिधानपत्रेण सहोक्त्वेद् च तं सुदुः ॥२१॥  
 मारीचं मानसे स्निग्धः प्रकृत्या बालिकासिमाम् । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गलज्जले ॥२२॥  
 विशृज्य कोचने तस्मै स्वतनूजान् समर्पयत् । स नीत्वा मिथिलोद्याननिकटप्रकटे क्वचित् ॥२३॥  
 धरान्तं कृतमञ्जूषो विषण्णो न्यवृत्तच्छुचा । तस्मिन्नेव दिने दृष्ट्वा गेहनिर्माणं प्रति ॥२४॥  
 भूमिसंशोधने क्लङ्गलाग्नलगनां विधोगिनः । मञ्जूषामेतदाश्चर्यमिति भूपमत्रोचयन् ॥२५॥  
 सुरूपां बालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवतिनीम् । नृपस्तद्वचतारथं विलेसाद्वबुध्य सः ॥२६॥  
 तत्पूर्वापरसंबन्धमेवा सीतामिधानिका । सुता भवेत्तत्प्रेतां वसुधायै ददौ मुदा ॥२७॥

जहाँ विजयार्थ पर्वतके स्थालक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणिमती विद्या सिद्ध करनेमें तत्पर थी उसे देखकर चंचल रावण काम और मोहके वश हो गया। उस कन्याको अपने अधीन करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली। वह कन्या उस विद्याकी सिद्धिके लिए बारह वर्षसे उपवासका क्लेश उठाती अत्यन्त दुर्बल हो गयी थी। विद्याकी सिद्धिमें विघ्न होता देख वह विद्याधरोके राजापर बहुत कुपित हुई। कुपित होकर उसने निदान किया कि मैं इस राजाकी पुत्री होकर इस दुर्बुद्धिका वध अवश्य करूँगी ॥१०-१६॥ ऐसा निदान कर वह आयुके अन्तमें मन्दोदरीके गर्भमें उत्पन्न हुई। जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा। यद्यपि रावण निर्भय था तो भी निमित्तज्ञानियोंके वचन सुनकर अत्यन्त भतभीत हो गया। उसने उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो। मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया और कहने लगा कि हे देवि, मैं बहुत ही निर्दय हूँ अतः महाराजने मुझे ऐसा काम सौंपा है यह कह उसने मन्दोदरीके लिए रावणकी आज्ञा निवेदित की—सूचित की। मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं करती हूँ ॥१७-२०॥ यह कहकर उसने एक सन्दूककीमें बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुत्रीको रखा, और मारीचसे बार-बार यह शब्द कहे कि हे मारीच ! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेहपूर्ण है अतः इस बालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी बाधा न हो। ऐसा कह उसने जिनसे अश्रु झर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए वह पुत्री सौंप दी। मारीचने ले जाकर वह सन्दूककी मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी और स्वयं शोकसे विषाद करता हुआ वह लौट गया। उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख रहे थे, वे हल चलाकर उसकी नोकसे वहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय वह सन्दूककी हलके अग्रभागमें आ लगी। वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समझ राजा जनकके लिए इसकी सूचना दी ॥२१-२५॥ राजा जनकने उस सन्दूककीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या देखी और पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया। तदनन्तर उसका सीता नाम रखकर 'यह तुम्हारी पुत्री होगी' यह कहते हुए उन्होंने वड़े हर्षसे वह पुत्री वसुधा रानीके

१-मन्यहरन् ल० । २-द्वयान्वयीः ख० । ३-विधाय ताम् ल० । ४-पत्रेण क०, घ० । ५-मन्य मे स्निग्ध. ख०, ग० । मान्य मे स्निग्ध म० । मान्यसे स्निग्ध ल० । ६-समर्पयत् ल० ।

वसुधा<sup>१</sup> वसुधागेहे गुण्यन्जी कलागुणान् । अवर्धयदिमां गूर्वा<sup>२</sup> लङ्केऽपि न वेत्यमूम् ॥२८॥  
 वार्ता जनकथागस्य तस्मान्नात्रागमिष्यति । दास्यत्यवश्यं रामाय तां कन्यां मिथिलेश्वरः ॥२९॥  
 तत्कुमारौ प्रहेतव्याविति नैमित्तिकोक्तिः । राज्ञाखिलबलेनामा प्रहितौ रामलक्ष्मणौ ॥३०॥  
 प्रत्युद्यतौ महीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसंवितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥३१॥  
 रूपादिगुणसंपत्त्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरैः प्रशंसद्भिः प्रेक्ष्यमाणौ<sup>३</sup> समं ततः ॥३२॥  
 पुरं प्रविश्य भूपोके स्थाने न्यवसतां सुखम् । दिनैः कतिपयैरेव नृपमण्डलसन्निधौ ॥३३॥  
 निर्वर्त्यामिमत्तं यज्ञविधानं तदनन्तरम् । महाविभूतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपतिः ॥३४॥  
 दिनानि कानिचित्तत्र सीतयेव श्रिया समम् । नवप्रेमसमुद्भूतं सुखं रामोऽन्वभूद् भृशम् ॥३५॥  
 तदा दशरथाभ्यर्णादायातसचिवीक्तिभिः । जनकानुमतः शुद्धतियो परिजनान्वितः ॥३६॥  
 अभ्ययोध्यां<sup>४</sup> पुरीं सीतासमेतो जातसंमदः । लक्ष्मणेन च गत्वाशु स्वानुजाभ्यां स्वबन्धुभिः ॥३७॥  
 परिवारैश्च स प्रत्यग्गम्यमानो निजां पुरीम् । विभूत्या दिविजेन्द्रो वा विनीतं प्राविशऽज्यथौ ॥३८॥  
 दृष्ट्वा यथोचितं प्रोत्या पितरौ प्रीतचेतसौ । तस्यौ प्रवर्द्धमानश्रीः सप्रियः सानुजः सुखम् ॥३९॥  
 तदा तदुत्सवं भूयो बद्धयन्नात्मना मधुः । कोकिलालिङ्गुलालापदिण्डिमो मण्डयन् दिशः ॥४०॥  
 संधि तपोधनैः सार्धं विग्रहं शिथिलव्रतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां वहन् ॥४१॥

लिए दे दी ॥२६-२७॥ रानी वसुधाने भूमिग्रहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण कि है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है । यह कन्या इतनी गुप्त रखी गयी है कि लंके रावणको इसका पता भी नहीं है । इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर रावणको नहीं है अतः वह इस उत्सवमें नहीं आवेगा । ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह क रामके लिए अवश्य देखेंगे । इसलिए राम और लक्ष्मण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य भेजे जानेके योग्य हैं । इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके राम और लक्ष्मणको भेज दिया ॥२८-३०॥ अनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनों अगवानी की । 'पूर्व जन्ममें संचित अपने अपरिमित पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आ गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच ही अनुपम हैं—उपमा रहित है,' इस प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे दोनों भाई साथ-ही-साथ नगरमें प्र कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हुए स्थानपर सुखसे ठहर गये । कुछ दिनोंके बाद अनेक राजाओंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञकी वि पूरी की और बड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ॥३१-३४॥ रामचन्द्र कुछ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वही जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए साति सुखका उपभोग किया ॥३५॥ तदनन्तर राजा दशरथके पास आये हुए मन्त्रियोंके रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लक्ष्मणके बड़े हर्षसे अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई भरत और शत्रुघ्ने, बन्धुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अगवानी की । प्रकाश इन्द्र बड़े वैभवके साथ अपनी नगरी अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी चन्द्रजीने बड़े वैभवके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥३६-३८॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये । तदनन्तर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोत्तर रही है ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने-लगे ॥३९॥

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ वसन्त ऋतु आ पहुँचा । कोयलों भररोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, वह समस्त दिशाओं सुशोभित कर रहा था । जो कामदेव, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिथिल

१ वसुधागेहे ल० । २ गूढं म०, ल० । ३ प्रेक्षमाणौ ल० (?) । ४ अन्वयोध्यां पुरं ग ५ कोकिलालिङ्गुलालाप -म० ।

१ कामिनीं खण्डयन्मानं विद्युक्ताद् दृषयन् शृणुम् । संयुक्तान् पिण्डताञ् कुर्वन् प्रचण्डः प्राविशजगत् ॥१२॥  
 तदागमनमात्रेण सद्गनस्पतिजातयः । काश्चिद्भुरिराः काश्चित्सानुरागाः सपल्लवैः ॥१३॥  
 काश्चिक्कोरकिताः काश्चिसहासाः कुसुमोदरैः । स्वावध्यायावचित्तेशाः कान्ता इव निरन्तरम् ॥१४॥  
 डिमानीपदलोन्मुक्तं सुव्यक्तं, चन्द्रमण्डलम् । ज्योत्स्नां प्रसारथामास दिक्षु लक्ष्मीविधायिनीम् ॥१५॥  
 सारमामोदमादाय विकिरन्पुष्पजं रजः । सरोवारिक्रणः सार्द्धमपाच्य पवनो ववौ ॥१६॥  
 तद्दन्त्यामिश्र रामस्य रामाभिः ससमिर्तुप । प्रेक्ष्याभिलक्ष्मणस्वापि पृथिवीदेविकादिभिः ॥१७॥  
 प्रीत्या षोडशमानाभिर्जिनपूजापुरस्सरम् । तच्चामिर्नरेन्द्राणां विवाहमकरोत् कृती ॥१८॥  
 ततः सर्वतृषु प्रेम्णा तामिस्तौ सुखमीयतुः । ताश्च ताभ्यामथो यस्माद्बाह्यहेतो सुखप्रदः ॥१९॥  
 एवं स्वपुण्यपाका<sup>१</sup>प्रसुखानुभवतत्परौ । तौ लब्ध्वावसरावित्थं कदाचित्प्रोचतुर्नृपम् ॥२०॥  
 काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरवरं पुरा । वाराणसी तदद्याद्भूदधिष्ठितनायकम् ॥२१॥  
 आशा यद्यसि देवस्य तदावासुदितोदितम् । विधास्याव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्त्वहुदौरितम् ॥२२॥  
 १ वियोगमेतयोः सोढुमक्षमा भरतादयः । अस्मद्दृश्या महीनाथाः स्थित्वात्रैव पुरे पुरा ॥२३॥  
 षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं बहवोऽपालयंश्चिरम् । एकदेशस्ययोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥२४॥  
 विभासि मवतोस्तेजो व्याप्नोति महिमण्डलम् । ततः किं तत्प्रयागेन मा यातमिति<sup>२</sup> सोऽब्रवीत् ॥२५॥

शिथिलाचारियोंके साथ विग्रह रखता है उस कामदेवके साथ वह वसन्त ऋतु अपना खास सम्बन्ध रखता था। वह वसन्त कामी मनुष्योंका मान खण्डित करता था, विरही मनुष्योंको अत्यन्त दुःख देता था, और संयुक्त मनुष्योंको परस्परमें सम्बद्ध करता था। इस प्रचण्ड शक्तिवाले वसन्त ऋतुने संसारमें प्रवेश किया ॥१४०-४२॥ वसन्त ऋतुके आते ही वनमें जो उत्तम वनस्पतियोंकी जातियाँ थीं उनमेंसे कितनी ही अंकुरित हो उठीं और कितनी ही अपने पल्लवोंसे सानुराग हो गयीं, कितनी ही वनस्पतियोंपर कलियाँ आ गयी थीं, और कितनी ही वनस्पतियाँ जिनके प्राण-वल्गम अपनी अवधिके भीतर आ गये हैं ऐसी स्त्रियोंके समान फूलोंके समूहसे निरन्तर हँसने लगीं ॥१४३-४४॥ उस समय चन्द्रमाका मण्डल बर्षके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था और सब दिशाओंमें शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फैला रहा था ॥१४५॥ दक्षिण दिशाका बायु श्रेष्ठ सुगन्धिको लेकर फूलोंसे उत्पन्न हुई परागको बिखेरता हुआ सरोवरके जलके कर्णोंके साथ बह रहा था ॥१४६॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्र-देवकी पूजापूर्वक अन्य सात सुन्दर कन्याओंके साथ रामचन्द्रका तथा पृथिवी देवी आदि सोलह राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था ॥१४७-४८॥ तदनन्तर राम और लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुओंमें उन स्त्रियोंके साथ प्रेमपूर्वक सुख प्राप्त करने लगे और वे स्त्रियाँ उन दोनोंके साथ प्रेमपूर्वक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठीक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही सुखका देनेवाला होता है ॥१४९॥ इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तत्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥१५०॥ कि काशीदेशमें वाराणसी (बनारस) नामका उत्तम नगर हमारे पूर्वजोंकी परम्परासे ही हमारे अधीन चल रहा है परन्तु वह इस समय स्वामिरहित हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों उसे बढ़ते हुए वैभवसे युक्त कर दें। उनका कथा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं। पूर्वकालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होनेपर भी समस्त पृथिवी-मण्डलमें व्याप्त हो रहा है

१ कामिता ल० । २ स्वपल्लवैः ल० । ३-मपाच्यः पवनो क०, ल० । ४ स्वपुण्यपाकात्-ल०, ग० । स्वपुण्यपाका त-क० । ५ वियोगमक्षमः सोढुमेतयोर्भरतादयः म०, ल० । ६ मागतामिति ल० । मायातामिति क०, वा० ।



निषिद्धावपि तौ तेन पुनश्चैवमवोचर्ताम् । आवयोरेव देवस्य खेहो याननिषेधनम् ॥५६॥  
 शौर्यस्य संभवो वाषवावत्पुण्यस्य च स्थितिः । तावदुत्साहसन्नाहं न मुञ्चन्त्युदयाधिनः । ५७॥  
 बुद्धिं शक्तिमुपायं च जयं गुणविकल्पनम् । सम्यक्प्रकृतिभेदांश्च विदित्वा राजसुनुना ॥५८॥  
 महोद्योगो विधातव्यो विरुद्धान्विजिगीषुणा । स्वभावविनयोद्भूता द्विधा बुद्धिनिगद्यते ॥५९॥  
 मन्त्रोत्साहप्रभूता च त्रिधा शक्तिरुदाहृता । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णोतिर्मन्त्रशक्तिर्मतागमे ॥६०॥  
 शौर्योन्नितत्वाद्दुत्साहशक्तिः शक्तिज्ञसंमता । प्रभुशक्तिर्महोभन्तुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥६१॥  
 सामाथोपप्रदां भेदं दण्डं च नयकोविदाः । वदन्युपायांश्चतुरो वैरथः साध्यते नृपैः ॥६२॥  
 प्रियं हितं वचः कायपरिष्वङ्गादि साम तत् । हस्त्यश्वदेशरत्नादि दत्ते लोपप्रदा मता । ६३॥  
 कृत्यानामुपज्ञापेन स्त्रीकृतिं भेदमादिशेत् । शण्णमुष्टिवधं दाहलोपविध्वंसनादिकम् ॥६४॥  
 शत्रुक्षयकरं कर्म<sup>१</sup>पण्डितैर्दण्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रवृत्तिविरोधिनी ॥६५॥  
 कामादिशत्रुवित्रासो वा जयो जयशालिनः । सन्धिः सविग्रहो नेतुरासनं यानसंश्रयौ ॥६६॥  
 द्वैधीभावश्च षट् प्रोक्ता गुणाः प्रणयिनः श्रियः । कृतविग्रहयोः पश्चात्केनचिद्धेतुना तयोः ॥६७॥  
 मैत्रीभावः स सन्धिः स्यात्सावधिर्विगतावधिः । परस्परापकारोऽरिजिजिगीष्वोः स विग्रहः ॥६८॥

इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ? मत जाओ ? यद्यपि महाराज दशरथने उन बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दो पर जो महान् प्रेम है वही हम दोनोंके जानमें बाधा कर रहा है ॥५९-५६॥ जबतक शूरवीर का होना सम्भव है और जबतक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तबतक अभ्युदयके इच्छ पुरुष उत्साहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥५७॥ जो राजपुत्र विरुद्ध शत्रुओंको जीतना चा है उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकल्प और प्रजा अथवा मन्त्री आदि प्रकृति भेदोंको अच्छी तरह जानकर महान् उद्योग करना चाहिए । उनमेंसे बुद्धि दो प्रका कही जाती है, एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और दूसरी विनयसे उत्पन्न हुई ॥५८-५९॥ श तीन प्रकारकी कही गयी है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति, तीसरी प्रभुत्व-शक्ति । सहा साधनके उपाय, देश-विभाग, काल-विभाग और बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पाँच अंगों द्वारा मन्त्रका निर्णय करना आगममें मन्त्रशक्ति बतलायी गयी है ॥६०॥ शक्तिके जाननेवाले शू वीरतासे उत्पन्न हुए उत्साहको उत्साह-शक्ति मानते हैं । राजाके पास कोश (खजाना) और द (सेना) की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥६१॥ नीतिशास्त्रके विद्वान् सा दान, भेद और दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं । इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन करते हैं ॥६२॥ प्रिय तथा हितकारी बचन बोलना और शरीरसे आलिंगन आदि करना सा कहलाता है । हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा—दान कहलाता है । उपज अर्थात् परस्पर फूट डालनेके द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना—सिद्ध करना भेद कहलाता शत्रुके पास आदि आवश्यक सामग्रियोंकी चोरी करा लेना, उनका वध करा देना, आग ल देना, किसी वस्तुको छिपा देना अथवा सर्वथा नष्ट कर देना इत्यादि शत्रुओंका क्षय करनेव जितने कार्य है उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं । इन्द्रियोंकी अपने अपने योग्य विषयों विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्रुओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्य जय कहलाती है ॥६३-६५॥ सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधीभाव राजाके छह गुण कहे गये हैं । ये छहों गुण लक्ष्मीके स्नेही हैं । युद्ध करनेवाले दो राजाओं पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं । यह सन्धि दो प्रकारकी अवधि सहित—कुछ समयके लिए और अवधि रहित—सदाके लिए । शत्रु तथा उ जीतनेवाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विग्रह कहते

१ 'सहायः साधनोपायो विभागो देशकालयो । विनिपातप्रतीकारः सिद्धे पञ्चाङ्गमिष्यते' । २ सा भायस्य उपप्रदा दानमित्ति यावत्, भेदं, दण्डं च, चतुर उपायान् वदन्ति । ३ पण्डितैः ल० । ४ विजयो क०, ५०

मामिहान्योऽहमप्यन्यमशको हन्तुमित्यसौ । तूष्णींभावा भवेत्केतुरासनं वृद्धिकारणम् ॥६९॥  
 ३३शुद्धौ शत्रुहानौ वा द्वयोर्वाभ्युद्यमं स्मृतम् । अरिं प्रति विभोर्यान् तावन्मात्रफलप्रदम् ॥७०॥  
 अनन्यशरणस्याहुः संश्रयं सत्यसंश्रयम् । संधिविग्रहयोर्बुद्धिर्द्वैधीभावो द्वेषां प्रति ॥७१॥  
 स्वान्धमात्यौ जनस्थानं कोशो दण्डः सगुप्तिकः । मित्रं च भूमिपालस्य सप्त प्रकृतयः स्मृताः ॥७२॥  
 इमे राज्यस्थितेः प्राज्ञैः पदार्थां हेतवो मताः । तेषूपायवली शक्तिः प्रधानव्यवसायिनी ॥७३॥  
 पानीयं खननाद्बह्विर्मैथनादुपलभ्यते । अदृश्यमपि संप्राप्यं सत्फलं व्यवसायतः ॥७४॥  
 फलप्रसवहीनं वा सहकारं विहंगमाः । विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कुत्सितागामम् ॥७५॥  
 राजमुत्रमनुत्साहं त्यजन्ति विपुलाः श्रियः । स्वकीयबोधसामन्तमहामात्यादयोऽपि च ॥७६॥  
 पुत्रं पिताप्यजुद्योगं मत्वायोग्यं विषोदति । इति विज्ञापनं श्रुत्वा तयोर्नरपतिस्तदा ॥७७॥  
 युवाभ्यामुक्तमेवेदं प्रत्यपादि कुळोचितम् । इत्याविष्कृतहर्षासिर्भाविस्सीरभृत्ः स्वयम् ॥७८॥  
 विन्यस्य राज्ययोग्योऽनुकुटु लक्ष्मणस्य च । प्रबध्य यौवराज्याधिपत्यपटं महौजसः ॥७९॥  
 महाभ्युद्यसंपादिसत्याश्रीमिः प्रबद्धयन् । पुत्रौ प्रस्थापयामास पुरीं वाराणसीं प्रति ॥८०॥  
 गत्वा प्रविश्य तामुच्चैः पौरान् ज्ञानपदानपि । दानमानादिभिः सम्यक् सदा तोषयतोस्तयोः ॥८१॥  
 दुष्टमिग्रहशिष्टानुपालनप्रविधानयोः । अविलङ्घयतोः पूर्वमर्यादां नीतिवेदिनोः ॥८२॥  
 प्रजापालनकार्यैकनिष्ठयोर्निष्ठितार्थयोः । काले गच्छति कल्याणैः कल्पैः निःशक्यसौख्यदैः ॥८३॥

॥६६-६८॥ इस समय मुझे कोई दूसरा और मैं किसी दूसरेको नष्ट करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ  
 ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उसे आसन कहते हैं। यह आसन नामका गुण  
 राजाओंकी वृद्धिका कारण है ॥६६॥ अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि होनेपर दोनोंका शत्रुके  
 प्रति जो उद्यम है—शत्रुपर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं। यह यान अपनी वृद्धि और  
 शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है ॥७०॥ जिसका कोई शरण नहीं है उसे अपनी शरणमें  
 रखना संश्रय नामका गुण है और शत्रुओंमें सन्धि तथा विग्रह करा देना द्वैधीभाव नामका  
 गुण है ॥७१॥ स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गड और मित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ  
 कहलाती हैं ॥७२॥ विद्वान् लोगोंने ऊपर कहे हुए ये सब पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण  
 माने हैं। यद्यपि ये सब कारण है तो भी साम आदि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना  
 प्रधान कारण है ॥७३॥ जिस प्रकार खोदनेसे पानी और परस्परकी रगड़से अग्नि उत्पन्न होती  
 है उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है—दिखाई नहीं देता वह भी प्राप्त करनेके  
 योग्य हो जाता है ॥७४॥ जिस प्रकार फल और फूलोंसे रहित आमके वृक्षको पक्षी छोड़ देते  
 हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रको  
 विशाल लक्ष्मी छोड़ देती है। यही नहीं, अपने योद्धा सामन्त और महामन्त्री आदि भी उसे  
 छोड़ देते हैं ॥७५-७६॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समझकर दुखी होता  
 है। राम और लक्ष्मणकी ऐसी प्रार्थना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न  
 हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह अपने कुलके योग्य ही कहा है। इस प्रकार  
 हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने भावी बलभद्र-रामचन्द्रके शिरपर स्वयं अपने हाथोंसे राज्यके योग्य  
 विशाल मुकुट बाँधा और महाप्रतापी लक्ष्मणके लिए यौवराजका आधिपत्य पट्ट प्रदान किया।  
 तदनन्तर महान् वैभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीर्वादके द्वारा बढ़ाते हुए राजा दशरथने  
 उन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरके प्रति भेज दिया ॥७७-८०॥ दोनों भाइयोंने जाकर उस उत्कृष्ट  
 नगरमें प्रवेश किया और वहाँके रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियोंको दोनों भाई सदा  
 दान मान आदिके द्वारा सन्तुष्ट करने लगे। वे सदा दुष्टोंका निग्रह और सज्जनोंका पालन  
 करते थे, नीतिके जानकार थे तथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रजा  
 पालन करना ही मुख्य कार्य था। वे कृतकृत्य हो चुके थे—सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी  
 भी कार्यको प्रारम्भ कर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। इस प्रकार शक्य रहित उत्तम सुख प्रदान

ह्रो लङ्कामधिष्ठाय त्रिलण्डमरतावनेः । अक्षीश्वरोऽहमेवेति गर्वपर्वतमास्करम् ॥८३॥  
 संभावयन्तमात्मानं रावणं शत्रुरावणम् । निजतेजःप्रतापापहसितोणांशुमण्डलम् ॥८५॥  
 दण्डोपनतसामन्तविनम्रमुकुटाग्रिम - । स्फुरन्मणिमयूखाम्बुविकसच्चरणाम्बुजम् ॥८६॥  
 निजासने समासीनं कीर्षमाणप्रकीर्णकम् । अवतीर्णं धराभागमिव नीलनवाम्बुदम् ॥८७॥  
 आभाषमाणमाक्षिप्य स्रभ्रभङ्गं भयंकरम् । अनुजैरात्मजैर्मौलैर्मन्दैश्च परिवारितम् ॥८८॥  
 पिङ्गोचक्रजटाजटप्रभापिञ्जरिताम्बरः । इन्द्रनीलाक्षसूत्रोत्खलयालंकृतान्गुलिः ॥८९॥  
 तीर्थाम्बुसंश्रुतोद्भासिपञ्चरागकमण्डलुः । सुवर्णसूत्रयज्ञोपवीतपूतनिजाकृतिः ॥९०॥  
 खादेत्य नारदोऽन्वेष्टुः सोपह्वारं<sup>३</sup> समैक्षत । तदालोक्य चिराद्भद्र दंष्टोऽसीति स्वयास्थिताम् ॥९१॥  
 कौतस्कुतः किमर्थं वा तवागमन्मित्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन् कुधीरिदमभाषत ॥९२॥  
 दसदुर्जयभूपोप्रकरिकण्ठीरवाचित । एतन्मनः समाधाय दशास्थ श्रोतुमर्हसि ॥९३॥  
 वाराणसीपुरादध ममात्रागमनं विभो । तत्पुरीपतिरिक्ष्वाकुवंशाम्बरदिवाकरः ॥९४॥  
 सुतो दशरथाख्यस्य रामनामातिविश्रुतः । कुलरूपवयोज्ञानशौर्यलत्प्यादिभिर्गुणैः ॥९५॥  
 अनणीयान् स्वपुण्येन स संप्रत्युद्योन्मुखः । तस्यै यज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम् ॥९६॥  
 स्वनामश्रवणादेयगार्विकामुक्चेतसम् । पर्याप्तस्त्रीगुणैकध्वृत्तिसंपत्कृताकृतिम् ॥९७॥

करनेवाले श्रेष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥८१-८३॥ इधर रावण, त्रिख भरतक्षेत्रका मैं ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने-आपको गर्वरूपी पर्वतपर विद्यमान सूर्यके समा समझने लगा । वह शत्रुओंको रूलाता था इसलिये उसका रावण नाम पड़ा था । अपने और प्रतापके द्वारा उसने सूर्य मण्डलको तिरस्कृत कर दिया था । दण्ड लेनेके लिए पास आ हुए सामन्तोंके नम्रीभूत मुकुटोंके अग्रभागमें जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूप जलके भीतर उस रावणके चरणकमल विकसित हो रहे थे । वह अपने सिंहासनपर बैठ आ था, उसपर चमर दुराये जा रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथिवीपर अवत हुआ नीलमेघ ही हो । वह भौहू टेढ़ी कर लोगोंसे वार्तालाप कर रहा था जिससे बहुत भयंकर जान पड़ता था । छोटे भाई, पुत्र, मूलवर्ग तथा बहुत-से योद्धा उसे घेरे हुए ॥८५-८८॥ ऐसे रावणके पास किसी एक दिन नारदजी आ पहुँचे । वे नारदजी अपनी पील तथा ऊँची उठी हुई जटाओंके समूहको प्रभासे आकाशको पीतवर्ण कर रहे थे, इन्द्रनीलमणि बने हुए अक्षसूत्र-जपमालाको उन्होंने अपने हाथमें किसी बड़ी चूड़ीके आकार सदृश ले रखा था जिससे उनकी अंगुलियों बहुत ही सुशोभित हो रही थी, तीर्थोंदकसे भरा हुआ उनक पद्मराग निर्मित कमण्डलु बड़ा भला मालूम होता था और सुवर्णसूत्र निर्मित यज्ञोपवीतसे उनक शरीर पवित्र था । आकाशसे उतरते ही नारदजीने द्वारके समीप रावणको देखा । यह दे रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बैठिए, कहाँसे आ रहे है ? औ आपका आगमन किसलिये हुआ है ? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर दुर्बुद्धि नारद कहने लगा ॥८६-९२॥ अहंकारी तथा दुर्जय राजारूपी क्रुद्ध हस्तियोंको नष्ट करनेमें सिंह समान हे दशानन ! जो मैं कह रहा हूँ उसे तू चिन्त स्थिर करसुन ॥९३॥ हे राजन् ! आज बनारससे यहाँ आना हुआ है । उस नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुवंशरूपी आकाशका सूर्य राज दशरथका अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है । वह कुल, रूप, वय, ज्ञान, शूरवीरता तथा सत्य आि गुणोंसे महान् है और अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युदय-पेश्वर्यके सम्मुख है । मिथिलाके राज जनकने यज्ञके बहाने उसे स्वयं बुलाकर साक्षात् लक्ष्मीके समान अपनी सीता नामकी पुत्र प्रदान की है । वह ईतनी सुन्दरी है कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहंकारी कामियों चित्तको ग्रहण कर लेती है—वश कर लेती है, संसारकी सब स्त्रियोंके गुणोंको इकट्ठा करके उनक

१-माभाषण ल०, म०, २-नीलजानिजाकृतिः ल० । ३ सोपचारं ल० । ४ अनणीयः ल० ।

नेत्रगोचरमात्राखिलानङ्गसुखदायिनीम् । जेतुं संभोगरत्यन्ते शक्तां मुक्तिवपुसपि ॥९८॥  
 त्वामनाहत्य योग्यां ते त्रिखण्डाखण्डसंपदम् । स्त्रीरत्नं स्वारत्नां लक्ष्मीमिवादाग्निमिथिकाधिपः ॥९९॥  
 तस्य भोगोपभोगैकनिष्ठस्य विपुलश्रियः । पाद्वै स्थित्वा सहिष्णुत्वाद् भवन्तमवलोकितुम् ॥१००॥  
 इह प्रेम्णागतोऽस्मीति नारदोक्त्या खगेशिना । इच्छा पश्यति भो चक्षुः कामिनामित्युदीरितम् ॥१०१॥  
 सर्वं प्रकुर्वता सद्यः सीतार्त्नबन्धवाकृत्तुते । अनङ्गशरसंपाताज्जर्जरीकृतचेतसा ॥१०२॥  
 धन्यान्धत्र न सा स्थातुं योग्या साग्यविहीनके । मन्दाकिन्याः स्थितिः क्व स्यात् प्रविहृत्य महाम्बुधिम् ॥१०३॥  
 बलात्कारेण तां तस्मादपहृत्याविदुर्वलात् । रत्नमालामिवालोलां करिष्यामि ममोरसि ॥१०४॥  
 इति कामाग्निवत्सन तेन पापेन संसदि । स्वस्यामगार्थनार्येण दुर्जनानामियं गतिः ॥१०५॥  
 स नारदः पुनस्तत्र प्रदीप्तं कोपपावकम् । प्रज्वालयितुमस्येदमाचक्षेऽतिपापवीः ॥१०६॥  
 परिप्राप्तोद्यो रामो महाराज्यपदे स्थितः । यौवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणोऽप्यात्सहोद्भवः ॥१०७॥  
 धाराणीं प्रविष्टार्त्नां तार्त्नां विश्वनरेश्वराः । स्वसुतादानसंमानितार्त्नां सबन्धमादधुः ॥१०८॥  
 ततस्ते तेन रामेण लक्ष्मणाविष्कृतौजसा । न युद्धं युज्यतेऽस्मामित्यज्यतां विग्रहाग्रहः ॥१०९॥  
 इत्येतदुक्तमाकर्ण्य कृपितस्मितमुद्दहन् । मध्वभावं मुने संक्षु श्रोष्यसीति विसृज्य तम् ॥११०॥  
 मन्त्रशालां प्रविश्यात्मगतमित्थममन्यत । उपायसाध्यमेतद्धि कार्यं नहि बलात्कृते ॥१११॥

सम्पदासे ही मानो उसका शरीर बनाया गया है, वह नेत्रोंके सामने आते ही सब जीवोंको कामि सुख प्रदान करती है और सम्भोगसे होनेवाली वृष्टिके बाद तो मुक्तिरूपी स्त्रीको भी जीतनेमें समर्थ है। स्त्रीरूपी रत्न सर्वथा तुम्हारे योग्य था परन्तु मिथिलापतिने तीन खण्डकी अखण्ड सम्पदाको धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है ॥९४-९९॥ भोगोपभोगमें निमग्न रहनेवाले तथा विपुल लक्ष्मीके धारक रामके पास रहकर मैं आया हूँ। मैं उसे सहन नहीं कर सका इसलिए आपके दर्शन करनेके लिए प्रेमवश यहाँ आया हूँ। नारदजीकी बात सुनकर विद्याधरोंके राजा रावणने 'कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है नेत्र नहीं देखते हैं' इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा। उस समय सीता सम्बन्धी वचन सुननेसे रावणका चित्त कामदेवके वाणोंकी वर्षासे जर्जर हो रहा था। रावणने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है। महासागरको छोड़कर गंगाकी स्थिति क्या कहीं अन्यत्र भी होती है? मैं अत्यन्त दुर्बल रामचन्द्रसे सीताको जबरदस्ती छीन लाऊँगा और स्थायी कान्तिका धारण करनेवाली रत्नमालाके समान उसे अपने वक्षःस्थल-पर धारण करूँगा ॥१००-१०४॥ इस प्रकार कामाग्निसे सन्तप्त हुए उस अनार्य-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्जन मनुष्योंका ऐसा स्वभाव ही होता है ॥१०५॥

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी प्रज्वलित क्रोधाग्निकी और भी अधिक प्रज्वलित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वर्य निरन्तर बढ़ रहा है ऐसा राम तो महाराज पदके योग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पदपर नियुक्त है ॥१०६-१०७॥ जबसे ये दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियों देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥१०८॥ इसलिए लक्ष्मणसे जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिए ॥१०९॥ नारदकी यह बात सुनकर रावण क्रोधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि हे मुने! तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोगे। इतना कहकर उसने नारदको तो विदा किया और स्वयं मन्त्रशालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूर्वक सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं है। विद्वान् लोग उपायके द्वारा बड़ेसे-बड़े पुरुषकी भी लक्ष्मी हरण कर लेते हैं। ऐसा विचार उसने मन्त्रीकी बुलाकर कहा कि राजा दशरथके लड़के राम

महीयसोऽप्युपायेन श्रीरप्याहियते बुधैः । इत्यतोऽन्त्यामहाय्य दसौ दशरथात्मजौ ॥११२॥  
 जिगीषू मःपद्ं दुष्टानुच्चेदाहौं कृतस्वरम् । पत्नी सीताभिचानाऽस्तित रामाख्यस्य दुरात्मनः ॥११३॥  
 तामाहरिष्ये तौ हन्तुं तदुपायं विचिन्तय । इत्यवोचत् स मारीचो विनयाकुञ्जिताक्षकः ॥११४॥  
 शृणु महारक स्वामिन् हितकार्यानुवर्तनम् । अहितप्रतिषेधश्च मन्त्रिकृत्यमिदं ह्ययम् ॥११५॥  
 भवतिरूपितं कार्यमपथ्यमयथास्करम् । पापानुबन्धि दुःसाध्यमयोर्व्यं सद्भिर्गर्हितम् ॥११६॥  
 -अन्यदारहृतिर्नाम पातकेष्वतिपातकम् । को हि नाम कुले जातो जानुचिचिन्तयेदिति ॥११७॥  
 अस्यन्योऽपि तदुच्छ्रित्यामुपायः किमनेन ते । भवद्दंशविनाशैकहेतुना धूमकेतुना ॥११८॥  
 इत्याख्यत् सायंकोपाख्यं तन्मारीचं वचो विधीः । नादादासन्नमृत्युध्वाद् दृष्टरिष्ट ह्यवौषधम् ॥११९॥  
 गृहीतमेव नेत्येतन्नावादीच्छेति मन्त्रिणम् । किमनेन वृथा मन्त्रिन् चचनेनेष्टवातिना ॥१२०॥  
 वेत्सि चेद् ब्रूहि सीतापहरणोपायमार्य मे । एवं तेनोच्यमानोऽसौ तव चेद्रेष निश्चयः ॥१२१॥  
 परीक्ष्य सत्या संकल्पया तस्यास्त्वय्यनुरक्तनाम् । आनेया सा सुखेनैव जिग्धोपायेन केनचित् ॥१२२॥  
 विरक्ता चेत्त्वया देव हठादाक्षिप्यतामिति । प्रत्याह तत्समाकर्ष्यं प्रशंसन्साधु साध्विति ॥ १२३ ॥  
 तदैव कातरः सूर्पणखामाहूय केनचित् । प्रकारेण त्वया सीता मयि रक्ता विधीयताम् ॥ १२४ ॥  
 इत्याह सादरं सापि तत्संगीर्थं विहायसि । तदैव रंहसा गत्वा प्रापद् चाराणसीं पुरीम् ॥ १२५ ॥  
 चित्रकूटासिधोषाने नन्दनाम्नातिसुन्दरे । रामो रन्तुं तदा गत्वा वसन्ते सीतया सह ॥ १२६ ॥

और लक्ष्मण बड़े अहंकारी हो गये हैं । वे हमारा पद जीतना चाहते हैं इसलिए शीघ्र ही उ  
 उच्छेद करना चाहिए । दुष्ट रामचन्द्रकी सीता नामकी स्त्री है । मैं उन दोनों भाइयोंको मार  
 लिए उस सीताका हरण करूँगा । तुम इसका उपाय सोचो । जब रावण यह कह चुका  
 मारीच नामका मन्त्री विनयसे हाथ जोड़ता हुआ बोला ॥११०-११४॥ कि हे पूज्य स्वामि  
 हितकारी कार्यमें प्रवृत्त कराना और अहितकारी कार्यका निषेध करना मन्त्रीके यही दो  
 हैं ॥११५॥ आपने जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपथ्य है—अहितकारी है, अक  
 करनेवाला है, पापानुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सज्जनोंके द्वारा निन्दनीय है, परस्त्र  
 अपहरण करना सब पापोंमें बड़ा पाप है, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा  
 कभी इस अकार्यका विचार करेगा ॥११६-११७॥ फिर उनका उच्छेद करनेके लिए दूसरे उ  
 भी विद्यमान हैं अतः आपका वंश नष्ट करनेके लिए धूमकेतुके समान इस कुकृत्यके करनेसे  
 लाभ है ? ॥११८॥ इस प्रकार मारीचने सार्थक वचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटका  
 मरनेवाला मनुष्य औपध ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार निर्बुद्धि रावणने उसके वचन ग्रहण  
 किये ॥११९॥ वह मारीचसे कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्यों  
 कहा ? हे मन्त्रिन् ! इष्ट वस्तुका घात करनेवाले इस विपरीत वचनसे क्या लाभ है ? ॥११  
 हे आर्य ! यदि आप सीता-हरणका कोई उपाय जानते हैं तो मेरे लिए कहिए । इस प्र  
 रावणके वचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि आपका यही निश्चय है तो पहले दूतीके  
 इस बातका पता चला लीजिए कि उस सीताका आपमें अनुराग है या नहीं ? यदि उ  
 आपमें अनुराग है तो वह स्नेहपूर्ण किसी सुखकर उपायसे ही लायी जा सकती है और  
 आपमें विरक्त है तो फिर हे देव, हठपूर्वक उसे ले आना चाहिए । मारीचके वचन सु  
 रावण उसकी प्रशंसा करता हुआ 'ठीक-ठीक' ऐसा कहने लगा ॥१२१-१२३॥ उसी समय  
 कायरने शूर्पणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सीताको सुखमें अनुरक्त कर ॥१  
 इस प्रकार उसने बड़े आदरसे कहा । शूर्पणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी समय  
 आकाशमें चल पड़ी और बनारस जा पहुँची ॥१२५॥ उस समय वसन्त ऋतु थी  
 रामचन्द्रजी नन्दन बनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक वनमें रमण करनेके लिए सी

मध्येवनं परिक्रम्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम् । सप्रसूनां सदासां वा सरागां वा सपल्लवाम् ॥१२७॥  
 कतां समुसुकस्तन्वी तन्वीमन्यामिध प्रियाम् । आलोकमानो जानक्यालोकितः स सकोपया ॥१२८॥  
 कुपितेयं विना हेतोः प्रसाद्येत्वेवमग्रवीत् । पश्य चन्द्रानने भुङ्गं लतायाः कुसुमे भृशम् ॥१२९॥  
 तवास्ये माम्बिवासक्तं तत्र तर्पयितुं स्वयम् । रागं पिण्डीद्रुमाः पुष्पैरुद्गमिन्तीव नूतनैः ॥१३०॥  
 मम नैत्रालिनोः प्रीत्यै वध्वैमिश्रिन्नोखरम् । स्वहस्तेन प्रिये मेऽमूनलंकुरु शिरोरुहान् ॥१३१॥  
 एतत्पुष्पैः प्रवालैश्च भूषणानि प्रकलये । तवापि त्वं विभग्नस्यैतैर्जङ्गमेव लतापरा ॥१३२॥  
 इत्युक्तिमिरिमां मूलीभूतामालोक्य कामिनीम् । पुनश्चैवमभाषिष्ट मृष्टेष्टवचनो नृपः ॥१३३॥  
 स्वद्वन्द्वं दर्पणे वीक्ष्य चक्षुषी ते कृतार्थके । त्वदास्यसौरभेणेव तृसा ते नासिका भृशम् ॥१३४॥  
 स्वच्छुब्धमेयसल्लापैः कर्णौ पूर्णरसौ तव । तव विम्बाधरस्वादास्वजिह्वान्यरसास्पृहा ॥१३५॥  
 परिरम्भ्य कर्तो तृप्तौ तव त्वकठिनस्तनौ । मनोऽपीन्द्रियसंतृप्ता संतृप्तं नितरां प्रिये ॥१३६॥  
 स्वस्यामेवं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्त एवेति सीतां स चतुरोक्तिभिः ॥१३७॥  
 ततः प्रसन्नया सार्द्धं सुखं सर्वेन्द्रियोद्भवम् । संप्राप्य नूतनं भूपः कोपोऽपि सुखदः क्वचित् ॥१३८॥  
 तत्रैव लक्ष्मणोऽप्येवं स्वप्रियाभिः सहारमत् । दृष्टौ तदा मुदा कामस्तेभ्योऽभ्यर्थमद सुखम् ॥१३९॥  
 एवं रामशिरं रन्वा कान्ते पश्य रवि केशैः । सर्वां दहति मूर्खस्यस्तीव्रः कस्यात्र शान्तये ॥१४०॥

साथ गये हुए थे ॥१२६॥ वहाँ वे वनके बीचमें घूम-घूमकर नाना वनस्पतियोंको देख रहे थे । वहाँ एक लता थी जो फूलोंसे सहित होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो हँस ही रही हो तथा पल्लवोंसे सहित होनेके कारण ऐसी मालूम होती थी मानो अनुरागसे सहित ही हो । वह पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कृश शरीरवाली कोई दूसरी स्त्री ही हो । वे उसे बड़ी उत्सुकतासे देख रहे थे । उस लताको देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीताने कुछ क्रोध-युक्त होकर देखा । उसे देखते ही रामचन्द्रने कहा कि यह विना कारण ही कुपित हो रही है अतः इसे प्रसन्न करना चाहिए । वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, जिस प्रकार मैं तुम्हारे मुखपर आसक्त रहता हूँ उसी प्रकार इधर यह भ्रमर इस लताके फूलपर कैसा आसक्त हो रहा है ? इधर ये अशोक वृक्ष स्वयं सन्तुष्ट करनेके लिए नये-नये फूलोंके द्वारा मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं ॥१२७-१३०॥ हे प्रिये ! मेरे नेत्ररूपी भ्रमरोंको सन्तुष्ट करनेके लिए तू इन फूलोंके द्वारा चित्र-विचित्र सेहुरा बाँधकर अपने हाथसे मेरे इन केशोंको अलंकृत कर । मैं तेरे लिए भी इन पुष्पों और प्रवालोंने भूषण बनाता हूँ । इन फूलों और प्रवालोंने तू सच-मुच ही एक चलती-फिरती लताके समान सुशोभित होगी ॥१३१-१३२॥ इस प्रकार रामने यद्यपि कितने ही शब्द कहे तो भी सीता क्रोधवशा चुप ही बैठी रही । यह देख मिष्ट तथा इष्ट वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥१३३॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दर्पणमें तेरा मुख देखकर कृतकृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी सुगन्धियसे ही मानो अत्यन्त चम हो गयी है ॥१३४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रससे लुभावलब भर गये हैं । तेरे अधर-विम्बिका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्वा अन्य पदार्थोंके रससे निःस्पृह हो गयी है ॥१३५॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोका स्पर्श कर सन्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये ! तेरी समस्त इन्द्रियोंके सन्तुष्ट हो जानेसे तेरा मन भी खूब सन्तुष्ट हो गया है । इस तरह तू इस समय अपने-आपमें चम हो रही है इसलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवान्के समान जान पड़ती है फिरभी हे प्रिये ! तुझे क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा रामने सीताको समझाया । तदनन्तर प्रसन्न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपूर्व सुखका अनुभव किया । सो ठीक ही है क्योंकि कहीं-कहीं क्रोध भी सुख-दायी हो जाता है ॥१३६-१३८॥ वहाँपर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करते थे । उस समय कामदेव बड़े हर्षसे उन सबके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था ॥१३९॥ इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक क्रोड़ा कर सीतासे कहने लगे कि हे प्रिये ! यह सूर्य अपनी

लक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविजितारातिसंनिभाः । छायाभास्मिनि सखीनां प्रकुर्वन्ति महीरुहः ॥१४१॥  
 वैराज्यपरिवारो वा मृगरूपः सगणकः । क्वाप्यं लब्धाश्रयस्तसो भ्राम्यतीतस्ततोऽपि च ॥१४२॥  
 इति चेतोहरैः सीतां मोदयन् स तथा सह । शचीदेव्येव देवेशः कृत्वा वनविनोदनम् ॥१४३॥  
 किञ्चित् विश्वामिवालक्ष्य तां जलाशयमासदत् । तत्र सिञ्चन् प्रियां शीतैर्यन्त्रमुक्तपयःकणैः ॥१४४॥  
 द्वैपक्षिमीलितालोलनयनेन्द्रीवरोज्ज्वलम् । तद्वन्नक्रमलं पश्यन्नसावर्षं तदातुषत् ॥१४५॥  
 वक्षोदहनमसौ वारि प्राविशत् सस्मितां प्रियाम् । परिभ्रमोत्सुकां विद्वानिङ्गितज्ञा हि नागराः ॥१४६॥  
 भ्रमराः कलकं मुक्त्वा कान्तास्याब्जेऽपतन् समम् । तैराकुलीकृतां दृष्ट्वा खेदी ह्लादी च सोऽभवत् ॥१४७॥  
 एवं जले चिरं रन्त्वा तत्राप्यं मनोरथम् । सान्तःपुरो वने रम्यप्रदेशे स्थितिमाव्रजत् ॥१४८॥  
 तदा सर्पणखागत्य तयोर्नृपतनूजयोः । वीक्षमाणातुलां लक्ष्मीमनुरक्ता लविस्मयम् ॥१४९॥  
 प्रभूतप्रसवानन्नक्रान्नाशोकमहीरुहः । अधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिशिलातले ॥१५०॥  
 वनलक्ष्मीमिवालोक्य भूय्यमाणां सखीजनैः । युक्तमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति चादिनी ॥१५१॥  
 वभूव रथविरा रूपपरावर्तनविचया । सीताविलाससंदर्शसंभूतव्रीडयेव सा ॥१५२॥  
 तद्रूपं वर्णयन्वीर्यं सकौतुकममन्वत । स्वबुद्धिकौशलादेतत्कृतं रूपं न वेधसा ॥१५३॥  
 यादृच्छिकं न चेदन्यत्किमकारीति नेदशम् । शेषदेव्यो जराजीर्णां तां दृष्ट्वा यौवनोद्धताः ॥१५४॥

किरणोंसे सवक्रो जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मस्तकपर स्थित हुआ उग्र प्रकृतिका धा  
 किसकी शान्तिके लिए होता है ? - ॥१४०॥ लक्ष्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित  
 शत्रुके सम्मान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने-आपमें लीन कर रहे हैं ॥१४१॥ शत्रु राजाओं  
 परिवारोंके समान इन वृक्षों सहित हरिणोंको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है इसलिए  
 सन्तप्त होकर इधर-उधर घूम रहे हैं ॥१४२॥ इस प्रकार चित हरण करनेवाले शब्दोंसे सीता  
 प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-क्रीड़ा करने  
 ॥१४३॥ रामचन्द्र सीताको कुछ खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पहुँचे और सीताको य-  
 छोड़ी हुई जलकी ठण्डी बूँदोंसे सींचने लगे ॥१४४॥ उस समय कुछ-कुछ वन्द हुए चंचल ने  
 रूपी नीलकमलोंसे उज्वल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत कुछ सन्तुष्ट  
 थे ॥१४५॥ वे बुद्धिमान् रामचन्द्रजी आलिंगन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सी  
 के समीप छाती तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य ईशारोंको  
 तरह समझते हैं ॥१४६॥ वहाँ बहुत-से भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके मुखकमल  
 आ झपटे उनसे वह व्याकुल हो उठी । यह देख रामचन्द्रजी कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न  
 हुए ॥१४७॥ इस तरह जलमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर और मनोरथ पूर्ण कर रामचन्द्रजी अ  
 अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥१४८॥ उसी समय वहाँ शूर्पण  
 आयी और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाको बड़े आश्चर्यके साथ देखती हुई उन  
 अनुरक्त हो गयी ॥१४९॥ उस समय सीता बहुत भारी फूलोंके भारसे झुके हुए किसी  
 अशोक वृक्षके नीचे हरे मणिके शिला-तलपर बैठी हुई थी, आस-पास बैठी हुई सखियाँ उस  
 शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसे देख शूर्पणखा  
 लगी कि इसमें रावणका प्रेम होना ठीक ही है ॥१५०-१५१॥ रूपपरावर्तन विधासे वह  
 वन गयीं उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देखनेसे उत्पन्न हुई लज्जाके का  
 ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥१५२॥ कवि लोग उसके रूपका वर्णन क  
 थे, और कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुशलत  
 नहीं बनाया है अपितु अनायास ही वन गया है । यदि ऐसा न होता तो वह इसके सम  
 ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता ? ॥ १५३ ॥ सीताको छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे उद्धत  
 बुद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दिखनेवाली उस बुद्धियाको देख हँसी करती

का त्वं ब्रह्म कुनस्था वेल्यवोचन्हासपूर्वकम् । उद्यानपालकस्याहं मातात्रैवेति सा पुनः ॥१५५॥  
 तासां चित्तपरीक्षार्थमिमां वाचमुदाहरत् । युधमद्रुपुण्यभागिन्यो मान्याः सन्त्यन्ययोषितः ॥१५६॥  
 यस्मादाभ्यां कुमारार्भ्यां सह भोगपरायणाः । युधमामि । प्राक्कृतं किं वा पुण्यं तन्मम कथ्यताम् ॥१५७॥  
 तत्करिष्यामि येनास्य राज्ञो भूत्वा महीपते । इमं विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्वचः ॥१५८॥  
 श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्यास्तर्हणं स्मरविह्वलम् । वपुरेव जराग्रस्तमित्यलं सहसाऽहसत् ॥१५९॥  
 मा हासः कुलसौरूप्यकलापुण्यजामिह । समप्रेमं फलप्राप्तेः किमन्यजन्मनः फलम् ॥१६०॥  
 वदतेति वदन्तीं तां पुनर्मो जन्मनः फलम् । तवेदमेव चेदस्मद्विमुना विधिना वयम् ॥१६१॥  
 स्वामथ योजयिष्याम । परिमुक्तविचारणम् । महादेवी भवेत्यासां हासत्राणशरन्वयताम् ॥१६२॥  
 उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्याज्जनकात्मजा । किमिस्थाकाङ्क्षसि स्त्रीत्वं त्वं हितानवबोधिनी ॥१६३॥  
 स्त्रीतामनुभवन्तीमिरत्रामुमिरनीप्सितम् । प्राप्तं प्राप्यं च दुर्बुद्धे महापापफलं शृणु ॥१६४॥  
 अनिष्टलक्षणादुत्पन्नैरग्राह्यत्वाच्छुचा गृहे । स्वे वासो मृत्युपर्यन्तं कुलरक्षणकारणात् ॥१६५॥  
 अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पन्नगोदयोः । शोकोत्पादनबन्ध्यात्वं निर्माग्यत्वाद्गौरवम् ॥१६६॥  
 दुर्मगत्वेन कान्तानां परित्यागाःपरासव । अस्पृश्यत्वं रजोदोषात् खण्डनात्कल्हादिभिः ॥१६७॥  
 दुःखदावागिनसंतापो वन्यानामिव भूत्हाम् । चक्रवर्तिसुतानां च परपादोपसेवना ॥१६८॥

बोली कि वतला तो सही तू कौन है ? और कहाँसे आयी है ? इसके उत्तरमें बुढिया कहने लगी कि मैं इस बगीचाकी रक्षा करनेवालेकी माता हूँ और यहींपर रहती हूँ ॥१५४-१५५॥ तदनन्तर उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि हे माननीयो ! आप लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ है वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि इन कुमारोंके साथ आप लोग भोग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं । आप लोगोंने पूर्वभ्रममें कौन-सा पुण्य कर्म किया था, वह मुझसे कहिए । मैं भी उसे करूंगी, जिससे इस राजाकी रानी होकर इसे अन्य रानियोंसे विरक्त कर दूंगी । इस प्रकार उसके वचन सुन सब रानियाँ यह कहती हुई हँसने लगी कि इसका शरीर ही बुडापासे ग्रस्त हुआ है चित्त तो जवान है और कामसे विह्वल है ॥१५६-१५९॥ इसके उत्तरमें बुढिया बोली कि आप लोग कुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है । आप सबको एक समान प्रेम रूपो फलकी प्राप्ति हुई है इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता है ? आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहती हुई बुढियासे वे फिर कहने लगी कि यदि तेरे जन्मका यही फल है तो हम तुझे अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वक मिला देगी । तू बिना किसी विचारके इनकी पट्टरानी हो जाना । इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसीरूपी बाणोंका निशाना बनती हुई बुढियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती ॥१६०-१६३॥ स्त्रीपनेका अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इस लोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं । हे दुर्बुद्धे ! यह स्त्रीपर्याय महापापका फल है । सुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता इसलिए शोकसे अपने घर ही रहना पड़ता है । इसके सिवाय कन्याको मरण पर्यन्त कुलकी रक्षा करनी पड़ती है ॥१६४-१६५॥ यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें प्रविष्ट हुई और जिस घरमें उत्पन्न हुई—उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है । यदि भाग्यहीन होनेसे कोई बन्ध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता ॥१६६॥ यदि कोई स्त्री दुर्मगा अथवा कुरूप हुई तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है । रजोदोषसे वह अस्पृश्य हो जाती है—उसे कोई छूता भी नहीं है । यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमें उत्पन्न हुए वृक्षोंके समान उसे दुःखरूपी दवानलमें सदा जलना पड़ता है । औरकी बात जाने दो चक्रवर्तीकी पुत्रीको भी



मानमङ्गः सपत्नीषु दृष्टोत्कर्षेण केनचित् । स्वभाववक्त्रवाक्कायमनोभिः कुटिलात्मता ॥१६६॥  
 गर्भसूतिसमुत्पन्नरोगादिपरिपीडनम् । शोचनं स्त्रीसमुत्पावपत्यभरणसुखम् ॥१७०॥  
 रहस्यकार्यब्राह्मत्वं सर्वकार्येष्वतन्त्रता । विधवात्वे महादुःखपात्रत्वं दुष्टचेष्टया ॥१७१॥  
 दांश्रीलोपवासादिपरलोकहितक्रिया- । विधानेष्वप्रधानत्वं संतानार्थानवापनम् ॥१७२॥  
 कुलनाशोऽगतिर्मुक्तेरित्याद्यन्यथ दूषितम् । साधारणमिदं सर्वस्त्रीणां कस्मात्त्वामवत् ॥१७३॥  
 तस्मिन्सुखामिलाषित्वं वयस्थस्मिन् गतत्रये । न चिन्तयसि ते भाविहितं मतिविपर्ययात् ॥१७४॥  
 स्त्रीत्वे सतीत्वमेवैकं श्लाघ्यं तत्पतिमात्मनः । विहपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवर्तकम् ॥१७५॥  
 त्यक्त्वान्यं चेदृशं वास्तां चम्रिणं वामिलाषिणम् । पश्यन्त कुट्टिचाण्डालसदृशं नामिलापुत्राः ॥१७६॥  
 तमप्याक्रम्य भोनेच्छं सद्यो दृष्टिविषोपमाः । नयन्ति भस्मसाङ्गान् यद्वलात् कुलयोषितः ॥१७७॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा मन्त्रोऽद्रिश्च चालयते । शक्यं चाकथितुं नास्याश्चित्तमित्याकुलाकुला ॥१७८॥  
 गृहकार्यं भवद्वाङ्मथुतेर्विस्मृत्य द्रुःखिता । यामि देव्यहमित्येतच्चरणवचनम्य सा ॥१७९॥  
 गत्वानिष्ठितकार्यत्वाद्दिघषणा रावणं प्रति । अशक्यारम्भवृत्तीनां क्रोधादन्यकुतः फलम् ॥१८०॥  
 इष्टुं तं स्वोचितं देव सीता शीलवती न सा । वज्रयष्टिरिवान्येन भेत्तुं केनापि शक्यते ॥१८१॥  
 इति स्वगतवृत्तान्तमुक्त्वा तेऽभिमतं मया । नोक्तं शीलवती कोपवह्निभीत्येति साङ्गवीत् ॥१८२॥

दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है ॥१६७-१६८॥ और सपत्नियोंमें यदि किसीकी उत्कृष्ट हुई तो सदा मानभंगका दुःख उठाना पड़ता है । स्वभाव, मुख, वचन, काय, और मनकी रचनेमें सदा कुटिलता बनी रहती है ॥१६९॥ गर्भधारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न होने अनेक रोगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती है । यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक जाता है, किसीकी सन्तान मर जाती है तो उसका दुःख भोगना पड़ता है ॥१७०॥ करने योग्य खास कार्योंमें उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्योंमें उन्हें परतन्त्र रहना प. है, दुर्भाग्यवशा यदि कोई विधवा हो गयी तो उसे महान् दुःखोंका पात्र होना पड़ता दान, शील, उपवास आदि परलोकका हित करनेवाले कार्योंके करनेमें उसकी कोई प्रधानता न रहती । यदि स्त्रीके सन्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती नहीं है । इनके सिवाय और भी अनेक दोष हैं जो कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जा हैं फिर क्यों तुझे इस निन्द्य स्त्रीपर्यायमें सुखकी इच्छा हो रही है । हे निर्लज्जे ! तू इस अवस्थ में भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही है इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि हो गयी है ॥१७१-१७४॥ स्त्री पर्यायमें एक सतीपना ही प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही कि अपने पतिको चाहे वह कुरूप हो; बीमार हो, दृष्टि हो, दुष्ट स्वभाववाला हो, अथवा बरताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरेकी वात जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इ. करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं चाहना । यदि कोई ऐसा जबरदस्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो उसे कुलवती स्त्रियों दृष्टिविष सर्पके समा अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती है ॥१७५-१७७॥ इस प्रकार सीताके वचन शूर्पणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचित् मन्दरगिरि—सुमेरु पर्वत तो हिलाया जा है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता । ऐसा विचार कर वह बहुत ही व्याकुल ॥१७८॥ और कहने लगी कि हे देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूलकर दुःखी अव जाती हूँ ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गयी ॥१७९॥ कार्य न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुँची सो ठीक ही है क्योंकि अशक्य प्रारम्भ करनेवाले मनुष्योंको क्लेशके सिवाय और क्या फल हो सकता है ? ॥१८०॥ शूर्पणखा पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दर्शन किये और तदनन्तर निवेदन किया कि हे देव सीता शीलवती है, वह वज्रयष्टिके समान किसी अन्य स्त्रीके द्वारा भेदन नहीं की जा सक ॥१८१॥ इस तरह अपना वृत्तान्त कहकर उसने यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधाग्नि

श्रुत्वा तद्बचनं सर्वमसत्यमवधारयन् । प्रकटीकृतक्रोपाग्निरिज्जिताकारवृत्तिभिः ॥१२३॥  
 मुग्धे फणीन्द्रनिश्वासमोगाटोपविकोकनात् । भीत्वा तद्ग्रहणं कौ वा विषवादी विसुखति ॥१२४॥  
 बाह्यस्यैषं वचः श्रुत्वा भीत्वा तस्यास्त्वभमागता । गजकर्णचला स्त्रीणां चित्तवृत्तिर्न वेत्सि किम् ॥१२५॥  
 नास्याश्चित्तं स्वयाम्भेदि न जाने केन हेतुना । उपायकुशलाभास्तीत्यलो तामभ्यतर्जयत् ॥१२६॥  
 भोगोपभोगद्वारेण रक्षयेयं मनो यदि । तत्र यद्बस्तु नान्यत्र तस्त्वप्नेऽप्युपलभ्यते ॥१२७॥  
 अथ शौचादिभौ रामसदशो न क्वचित्पुमान् । वीणादिभिश्चेत्सा सर्वकलागुणविशारदा ॥१२८॥  
 सुग्रह तलहस्तेन भूमिष्ठैर्मानुमण्डलम् । पातालादपि शेषाहिः सुहरो द्विभक्तकेन च ॥१२९॥  
 समुत्तानयितुं शक्ता सप्तमुद्रा वसुंधरा । भेत्तु शीलवतीचित्तं न शक्य मन्मथेन च ॥१३०॥  
 ह्याख्यत्साप्यदः पापादवकर्ण्य स रावण । निर्मलैः केतनैर्दूरास्वइयतां जनयद्भृशम् ॥१३१॥  
 हंसावकीर्ति संदेह लवनिर्मोकहासिभिः । विशो मुखत्पद्मेमवण्टाचट्टकनि स्वने ॥१३२॥  
 कुर्वद्वर्षैर्धनाश्लेषं विश्लिष्टैरिव बन्धुभिः । यथो पुष्पकमारुह्य गगने सह मन्त्रिणा ॥१३३॥  
 १. राजदण्डप्रनिविश्ववारिदच्युतवाल्लवैः । मन्दगन्धवहानीतैर्विनीताध्वपरिश्रम. ॥१३४॥  
 सीतोऽसुकस्तथा गच्छन् ददशो पुष्पकस्थित । शरद्वकलाहकान्तःस्थो वालो नीलवकलाहक ॥१३५॥  
 संप्राप्य चित्रकूटाख्यं प्रधानं नन्दनं वनम् । प्रविष्ट इव सीतायाश्चित्तं तुष्टिमगादकम् ॥१३६॥

तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥१२२॥ शूर्पणखाके वचन सुन रावणने वह सब भूत समझा और अपनी चेष्टा तथा मुखाकृति आदिसे क्रोधाग्निको प्रकट करता हुआ वह कहने लगा कि हे मुग्धे ! ऐसा कौन विषवादी—गारुडिक है जो सर्पका निश्वास तथा फणाका विस्तार देख उसके भयसे उसे पकड़ना छोड़ देता है ॥१२३-१२४॥ उसकी बाह्य धीरताके वचन सुनकर ही तू उससे डर गयी और यहाँ वापस चली आयी । स्त्रियोंकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके समान चंचल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ॥१२५॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया । तू उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है । ऐसा कह रावणने शूर्पणखाको खूब डाँट दिखायी ॥१२६॥ इसके उत्तरमें शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोगोपभोगकी वस्तुओंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके पास है वे अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं मिलती है ॥१२७॥ यदि शूर-वीरता आदिके द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूरवीर पुरुष कहीं नहीं है । यदि वीणा आदिके द्वारा उसे बश करना चाहती तो वह स्वयं समस्त कला और गुणोंमें विशारद है । भूमिपर खड़े हुए लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालक भी पाताल लोकसे शेषनागाका हरण कर सकता है ॥१२८-१२९॥ और समुद्र सहित पृथिवी उठायी जा सकती है परन्तु शीलवती स्त्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता । शूर्पणखाके वचन सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमानपर सवार हो मन्त्रीके साथ आकाशमार्गसे चल पड़ा । पुष्पक विमानपर साँपकी नयी काँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पताकाएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको 'यह हँसोंकी पंक्ति है' ऐसा सन्देश उत्पन्न कर रहा था । सुवर्णकी बनी छोटी-छोटी घण्टियोंके चंचल शब्दासे वह पुष्पक विमान दिशाओंको मुखरित कर रहा था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ आलिंगन कर रहा था मानो बिछुड़े हुए बन्धुओंके साथ ही आलिंगन कर रहा हो ॥१३०-१३३॥ उस पुष्पक विमानपर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंसे पानीकी छोटी-छोटी बूँदें झड़ने लगती थीं, मन्द-मन्द वायु उन्हें उड़कर ले आती थी जिससे रावणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता जाता था ॥१३४॥ सीतामे उसुक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद् ऋतुके मेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥१३५॥ जब वह चित्रकूट नामक आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सन्तुष्ट हुआ मानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका

तदाज्ञयाथ मारीचः परार्धमणिनिमित्तः । भूत्वा हरिणपोतोऽसौ सीतायाः स्वमदर्शयत् ॥१९७॥  
 तं मनोहारिणं दृष्ट्वा पश्य नायातिकौतुकम् । हरिणश्चित्रवर्णोऽयं रञ्जयत्यञ्जसा मनः ॥१९८॥  
 इति सीतावचः श्रुत्वा विनेतुं तत्कुतूहलम् । तदानिनीषया गत्वा रामो वामे विधौ विधीः ॥१९९॥  
 श्रीवामङ्गेन वा पश्यन् कुर्वन् दूरं पुनः प्लुतिम् । चलान् धावन् क्षण खादन् विमयो वा तृणाङ्गुलम् ॥२००॥  
 हस्तत्राह्णमिवात्मानं कृत्वोद्धृष्टीयार्गिदूरगः । वृथा कर्षति मां मायामृगो वैषोऽतितुर्ग्रहः ॥२०१॥  
 वदन्नित्यन्वगासोऽपि मृगोऽगाद्गनाङ्गणम् । कुतः कृत्यपरामर्शः स्त्रीवशीकृतचेतसाम् ॥२०२॥  
 लोफमानो नमो रामस्तनुतामतिरूपयन् । तस्यै तथैव विभ्रान्तो घटान्तरगताहिवत् ॥२०३॥  
 अथातो रामरूपेण परिवृत्तो दशाननः । सीतामित्वा पुरो श्रुत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥२०४॥  
 वारुणीदिक् प्रिये पश्य विन्ममेपांशुमाखिनः । सिन्दूरतिलकं न्यस्तं विभ्रतीव विराजते ॥२०५॥  
 आरोह शिबिकां तस्माद्वाशु सुन्दरि बन्धुराम् । पुरीगमनकाकोऽयं वर्तते सुखरात्रये ॥२०६॥  
 इत्यवादीत्तदाकर्ण्य सा मायाशिविकाकृति । विमानं पुष्पक मोहादासरोह धरासुता ॥२०७॥  
 रामं वा तुरगाह्वमात्मानं स्म प्रदर्शयन् । महोगतमिव आर्षितं जनयन् दुहितुर्महे ॥२०८॥  
 तां भुजङ्गीमिवाणैपीदुपायेन स्वमृत्यवे । पतिव्रताग्र्यां पापी मायाशुश्रुद्दशाननः ॥२०९॥  
 क्रमाल्लङ्घामवाप्यैनमवतार्य वनान्तरे । सद्यो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनक्रमम् ॥२१०॥

हो ॥१९६॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मारीचने श्रेष्ठ मणियासे निर्मित हरिणके बच्चेका बनाकर अपने-आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥१९७॥ उस मनोहारी हरिणको देख सीता रामचन्द्रजीसे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देखिए, यह अनेक व वाला हरिण हमारे मनको अनुरंजित कर रहा है ॥१९८॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होने बुद्धिरहित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुतूहल दूर करनेके लिए उस हरिणको लाने इच्छासे चल पड़े ॥१९९॥ वह हरिण कभी तो गरदन मोड़कर पीछेकी ओर देखता था, क दूर तक लम्बी छलांग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, और क निर्भय हो घासके अंकुर खाने लगता था ॥२००॥ कभी अपने-आपको इतने पास ले आता कि हाथसे पकड़ लिया जावे और कभी उछलकर बहुत दूर चला जाता था । उसकी ऐसी चे देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है अ कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चले गये पर कुछ समय बाद ही वह उछलकर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिन चित्त स्त्रीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ होता है ? ॥२०१-२०२॥ जि प्रकार बड़ेके भीतर रखा हुआ साँप दुःखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी अ देखते तथा अपनी हीनताका वर्णन करते हुए वहींपर आश्रयसे चकित होकर ठहर गये ॥२० अथानन्तर रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर सीताके पास आया और कहने लगा मैंने उस हरिणको पकड़कर आगे भेज दिया है ॥२०४॥ हे प्रिये ! अब सन्ध्याकाल हो च है । देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-बिम्बको धारण करती हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मा सिन्दूरका तिलक ही लगाये हो ॥२०५॥ इसलिए हे सुन्दरि ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकी सवार होओ, सुख-पूर्वक रात्रि बितानेके लिए यह नगरीमें वापस जानेका समय है ॥२० रावणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकारका बना दिया । सी भ्रान्तिवश उसपर आरूढ़ हो गयी ॥२०७॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावणने अ आपको ऐसा भिखाया मानो घोड़ेपर सवार पृथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे ॥२०८॥ इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण उपाय-द्वारा पतिव्रताओंमें अ गामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी मृत्युके लिए ले गया ॥२०९॥ क्र क्रमसे लंका पहुँचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा और शीघ्र ही मा

इन्द्रनीलच्छविं देहं गूढार्थं शिष्यसंततेः । आचार्यो वा स तस्याः स्वं सुचिरात्समदर्शयत् ॥२११॥  
 भयेन लज्जया रामविरहोत्थुष्वा च सा । अगाद्राजसुता मूर्च्छामतिकृच्छ्रप्रतिक्रियाम् ॥२१२॥  
 सद्यः शीलवतीस्पर्शाद्विद्या गगनगामिनी । विनश्यतीति मोक्षाऽसौ जानकीं स्वयमस्फुरन् ॥२१३॥  
 विद्याधरीः समाहूय शीतान्ध्रुपवननादिभिः । मूर्च्छामस्या निराकुर्युरिति दक्षा न्ययोजयत् ॥२१४॥  
 उपायैस्तामिच्छद्भूतमूर्च्छां चोच्चन्द्ररासुता । यूयं काः कः प्रदेशोऽयमिति शङ्काकुलाशया ॥२१५॥  
 विद्याधर्यो वय लङ्कापुरमेतन्मनोहरम् । वनं रावणराजस्य त्रिलण्डाधिपतिरिदम् ॥२१६॥  
 स्वादृशी वनिता लोके न काचित्पुण्यगामिनी । महेन्द्रमिव पौलोमी सुमद्रेवादिभूपतिम् ॥२१७॥  
 श्रीमती वज्रजङ्घं वा त्वमेनं कुरु ते पतिम् । स्वामिनी भव सौभाग्याद्भावणस्य महाश्रियः ॥२१८॥  
 जानकी तामिरित्युक्ता सुदूना दीनमानसा । किं पौलोम्यादयः शीलमङ्गेन ताः पतीन् स्वयम् ॥२१९॥  
 प्राणोभ्योऽयधिकान् का वा विक्रीणन्ति गुणान् श्रिया । त्रिलण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु षट्खण्डस्याखिलस्य वा  
 किं तेन यदि शीलस्य खण्डनं मण्डनस्य मे । प्राणाः सर्तां न हि प्राणाः गुणाः प्राणाः प्रियास्तत ॥२२०॥  
 तद्व्ययात्पालयाम्येतान् गुणप्राणाञ्च जीविकांम् । मूर्तिर्विनशरी यातु विनाशमचिनश्चरम् ॥२२१॥  
 विनश्यति न मे शीलं कुञ्जशैलानुकारि तत् । इति प्रत्युत्तर दत्त्वा गृहीत्वा सा व्रतं तदा ॥२२२॥  
 वदिष्यामि न मोक्षे ये थावन्न श्रूयते मया । रामस्य क्षेमचार्यैति मनसालोच्य सुव्रता ॥२२३॥  
 अचबोधितवैधव्यविरहस्वरूपभूषणा । यथार्थं चिन्तयन्त्यास्त संततं संसृतेः स्थितिव् ॥२२५॥

दूरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया । जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराके लिए किसी गूढ अर्थको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्तिवाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया ॥२१०-२११॥ उसे देखते ही राजपुत्री सीता, भयसे, लज्जासे, और रामचन्द्रके विरहसे उत्पन्न शोकसे तीव्र दुःखका प्रतिकार करनेवाली मूर्च्छाको प्राप्त हो गयी ॥२१२॥ शीलवती पतिव्रता स्त्रीके स्पर्शसे मेरी आकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया ॥२१३॥ किन्तु चतुर विद्याधरियोंको बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल तथा हवा आदिसे इसकी मूर्च्छा दूर करो ॥२१४॥ जब उन विद्याधरियोंके अनेक उपायोंसे सीताकी मूर्च्छा दूर हुई तब शंकासे व्याकुलहृदय होती हुई वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं ? और यह प्रदेश कौन है ? ॥२१५॥ इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगी कि हम लोग विद्याधरियाँ हैं, यह मनोहर लंकापुरी है, यह तीन खण्डके स्वामी राजा रावणका वन है । इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी स्त्री पुण्यशालिनी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्तीको और श्रीमतीने वज्रजंघको अपना पति बनाया था, उसी प्रकार आप भी इस रावणको अपना पति बना रही हैं । आप सौभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक रावणकी स्वामिनी होओ ॥२१६-२१७॥ इस प्रकार विद्याधरियोंके कहनेपर सीता बहुत ही दुःखी हुई, उसका मन दीन हो गया । वह कहने लगी कि 'क्या इन्द्राणी आदि स्त्रियाँ अपना शील भंग कर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ? ॥२१८॥ ऐसी कौन-सी स्त्रियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने गुणोंको लक्ष्मीके बदले बेच देती हैं । रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी हो और चाहे समस्त लोकका स्वामी हो ॥२२०॥ यदि वह मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? सज्जनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होते हैं ॥२२१॥ मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा कर्हूंगी जीवनकी नहीं । यह नरद्वर शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुलाचल्लोका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता' । इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर उत्तम शील व्रतको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि जबतक रामचन्द्रजीकी कुशलताका समाचार नहीं सुन लूंगी तबतक न बोलूंगी और न भोजन ही कर्हूंगी ॥२२-२२४॥ वैधव्यपत्ना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़े-से ही आभूषण रख छोड़े थे वाकी सब दूर कर दिचे थे ऐसी सीता वहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने

प्रादुरासंस्तदोत्पावा लङ्घ्यायां किंकरा इव । तद्ध्वंसिकालराजस्य समन्ताद्भयदायिनः ॥२२६॥  
 उत्पन्नमायुधागारे चक्रं वा कालचक्रवत् । यज्ञशालाप्रवद्धस्य वस्तकस्यैव शाह्वलम् ॥२२७॥  
 तदुत्पत्तिफलस्थास्या नवबोद्धुः खगेशिनः । उन्नतदारं महाचक्रं महातोषमञ्जीजनत् ॥२२८॥  
 रामो नाम बलो भावी लक्ष्मणोऽप्यनुजातवान् । तस्य रूढप्रतापो तौ द्वाप्यमिमुखोदयो ॥२२९॥  
 सीता शीलवती नेयं जीवन्ती ते भविष्यति । अभिमूर्तिः सतीलानामत्रैव फलदायिनी ॥२३०॥  
 उत्पाताश्च पुरेऽभूवन् बहवोऽशुभसूचकाः । लोकद्वयोर्हितं वादमयशश्च युगावधि ॥२३१॥  
 'सुच्यतां संक्षिप्यं यावन्न' चेदं रुढिमृच्छति । इति युक्तिमतीं वाणीमुक्तो मन्व्यादिभिस्तदा ॥२३२॥  
 प्रत्यभाषत लङ्केशो यूयं युक्तिविरोधि किम् । अस्मृत्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥२३३॥  
 चक्ररत्नं समुत्पन्नं सीतापहरणेन मे । षट्खण्डार्धाधिपत्यं च तेन चिन्त्य करस्थितम् ॥२३४॥  
 स्वयं गुहागतां लक्ष्मीं हन्यात्पादेन को विधीः । इति तद्भाषितं श्रुत्वा व्यरमन् हित्वादिनः ॥२३५॥  
 इत्. परिजनो रामं माथाभगिभृगानुगम् । विपिने नष्टद्विग्मागं सूर्यंऽस्ताचलमेयुषि ॥२३६॥  
 अट्टान्निवप्य सीतां च बैमनस्यमगात्तराम् । सह्यं स्तनोर्वियोगोऽपि स्वामिनः केन सङ्घते ॥२३७॥  
 मागालुदयमायाति मर्त्यलोकैकचक्षुषि । ध्वान्ते भियेव निर्याते दलन्तीष्वट्जराशिषु ॥२३८॥  
 घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विधा मुदा । अर्थः शब्देन चा योगं साधुना जानकीप्रियः ॥२३९॥

लगी ॥२२५॥ उसी समय लंकामें उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किंकरोंके समान भय उत्पन्न करनेवाले अनेक उत्पात सब ओर होने लगे ॥२२६॥ जिस प्रकार यज्ञशालामें बँधे हुए बकरा समीप हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामें कालचक्रके समान प्रकट हुआ । विद्याधरोंका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था—उसे नहीं मालूम था कि इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान रहा है ऐसे उस महाचक्रने उसे बहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया ॥२२७-२२८॥

तदनन्तर मन्त्रियोंने उसे समझाया कि 'रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, और उनका भाई लक्ष्मण नारायण होनेवाला है । इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा है और वे ही महान् अभ्युदयके सम्मुख हैं । सीता शीलवती स्त्री हैं, यह जीते जी तुम्हारी नहीं ह शीलवान् पुरुषका तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है । इसके सिवाय नगरमें अशु सूचना देनेवाले बहुत भारी उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने युगान्त तक अपयश बढ़ानेवाले इस कुकार्यको उसके पहले ही शीघ्र छोड़ दो जवतक कि वात सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती है' । इस प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिसे भरे वचन रावणसे क रावण प्रत्युत्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप लोग बिना कुछ सोचे-विचारे ही युक्ति-वचन क्यों कहते हैं ? अरे, प्रत्यक्ष वस्तुमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सी का अपहरण करनेसे ही मेरे चक्ररत्न प्रकट हुआ है, इसलिए अब तीन खण्डका आर्ति मेरे हाथमें ही आ गया यह सूचना चाहिए । ऐसा कौन मूर्ख होगा जो घरपर आयी लक्ष्मीको पैरसे ठुकरावेगा ?' । इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका उपदेश देनेवाले मन्त्री चुप हो गये ॥२२९-२३५॥

इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे जने मायामय मृगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये और सूर्य अस्ताचलपर चला गया । परिवारके लोग उन्हें तथा सीताको बहुत ढूँढ़ा पर जब वे न देखे तो बहुत ही खेद-खिन्न हुए । सो ठीक ही क्योंकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है ॥२३२-२३७॥ सवेरा होनेपर मनुष्य-लोकके चक्षुस्वरूप सूर्यका उदय हुआ, अन्धकार मानो भय भाग गया, कमलोंके समूह फूल उठे, रात्रिके कारण परस्पर द्वेष रखनेवाले चकवा-चकवियं युगल हर्षसे मिलने लगे और जिस प्रकार अर्थ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको प्राप्त होता है अथ

स्वयं परिजनेनापि मास्करो दिवसेन वा । दृष्ट्वा तं मध्विया क्वेति नृपः प्रप्रच्छ साकुलः ॥२४०॥  
 देव देवी च देवो वा नांस्मामिरवलोकितः । देवी छायेव ते तस्मात्स्वमवैवीति सोऽभ्यधात् ॥२४१॥  
 इति तद्वचनाल्लघ्वरन्ध्रा रामं समग्रहीत् । मूर्च्छां सीतासपत्नीव मोहयन्ती मनः क्षणम् ॥२४२॥  
 तदा शीतक्रिया सीतासलीव सहसा नृपम् । व्यल्लेषयन्नः सोऽपि क्व सीतेति प्रबुद्धवान् ॥२४३॥  
 देवीं परिजनः सर्वं समन्तात्प्रतिमूर्च्छम् । अन्वेषयन् विलोक्योत्तरीयं वंशविदारितम् ॥२४४॥  
 तस्यास्तदा तदानीय रावत्राय समर्पयत् । उत्तरीयांशुकं देव्या भवत्येतदितः कुतः ॥२४५॥  
 इति विज्ञाततत्त्वस्य शोकव्याकुलमानसः । सदानुजस्ततश्चिन्तां कुर्वन्पूर्वाश्वरः स्थितः ॥२४६॥  
 तत्क्षणे संभ्रमाक्रान्तो दूतो दशरथान्तिकात् । तं प्राप्य विनतो मूर्च्छां कार्यमित्थमभाषत् ॥२४७॥  
 गृहीत्वा रोहिणीं राहौ प्रयाते गगनान्तरम् । एकाकिनं तुषारांशुं भ्राम्यन्तं समलोकयि ॥२४८॥  
 स्वप्ने किं फलमेतस्येत्यन्वयुद्धक महोपतिः । पुरोहितमसौ चाह सीतामद्य दशाननः ॥२४९॥  
 गृहीत्वायास्स मायावी रामः स्वामी च कानने । तां समन्वेषितुं शोकादाकुलो भ्राम्यति स्वयम् ॥२५०॥  
 मद्धुत् दूतमुखादेतत्प्रापणीयमिति स्फुटम् । तद्राजाज्ञागतोऽस्मीति लेखगर्मकरण्डकम् ॥२५१॥  
 न्यधाध्याये तदादाय शिरसा रघुनन्दन । विमोच्य पत्रमत्रस्थं स्वयमित्थमवाचयत् ॥२५२॥  
 इतो विनीतानगरात् श्रीमत श्रीमतां पति । प्रेमप्रसारितास्मीयभुजाभ्यां स्वप्रियारामजौ ॥२५३॥

सूर्य दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीवल्लभ रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ आ मिले । परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया—सीता कहाँ है ? परिजनने उत्तर दिया कि हे देव ! 'हम लोगोंने न आपको देखा है और न देवीको देखा है । देवी तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि कहाँ गयी ? इस प्रकार परिजनके वचनोंसे प्रवेश पाकर क्षण-भरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी सपत्नीके समान मूर्च्छाने रामचन्द्रको पकड़ लिया—उन्हें मूर्च्छा आ गयी ॥२३८-२४२॥ तदनन्तर—सीताको सखीके समान शीतोपचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मूर्च्छासे जुदा किया और 'सीता कहाँ है' ? ऐसा कहते हुए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये ॥२४३॥ परिजनके समस्त लोगोंने सीताको प्रत्येक वृक्षके नीचे खोजा पर कहीं भी पता नहीं चला । हाँ, किसी वंशकी झाड़ीमें उसके उत्तरीय वस्त्रका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सौंप दिया । उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वस्त्र है, यहाँ कैसे आया ? ॥२४४-२४५॥ थोड़ी ही देरमें रामचन्द्रजी उसका सब रहस्य समझ गये । उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया और वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे ॥२४६॥ उसी समय सम्भ्रमसे भरा एक दूत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा और मस्तक झुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥२४७॥ उसने कहा कि आज महाराज दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर दूसरे आकाशमें चला गया है और उसके विरहमें चन्द्रमा अकेला ही वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है । स्वप्न देखनेके बाद ही महाराजने पुरोहितसे पूछा कि 'इस स्वप्नका क्या फल है' ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी रावण सीताको हरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे आकुल हो वनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं । दूतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र ही उनके पास भेज देना चाहिए । इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा और महाराजकी आज्ञानुसार मैं यहाँ आया हूँ । ऐसा कह दूतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया । रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार वाँचने लगे ॥२४८-२५२॥ उसमें लिखा था कि, इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीवानोके स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे फैलायी हुई अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलिंगन कर तथा उनके शरीरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर

परिष्वज्यानुयुज्याङ्गक्षेमवार्ता ततः परम् । इदमाज्ञापयत्यत्र दक्षिणाढ्यन्तरस्थिताः ॥२५७॥  
 षट्पञ्चाशन्महाद्वीपाश्चक्रवर्त्यनुवर्तिनः । केशवाश्च स्वमाहात्म्यात्तदर्थपरिरक्षिणः ॥२५८॥  
 द्वीपोऽस्ति तेषु लङ्काख्यात्रिकूटाद्रिविभूषितः । तस्मिन् विनमिसंतानविद्याधरधरशिनाम् ॥२५९॥  
 चतुष्टये अतिक्रान्ते प्रजापालनलोलुपे । रावणास्थः खलो कौककण्टकः स्त्रीषु लम्पटः ॥२६०॥  
 ततोऽभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुता । रूपलावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाश्रितम् ॥२६१॥  
 तदैव मद्नामोच्चवाणनिर्मित्रमानसः । पौलस्त्यो ध्वस्तधीधैर्यौ मायावी न्यायदूरगः ॥२६२॥  
 अनन्यवेद्यमागत्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम् । अनैवीद्यावदस्माकमुद्योगसमयो भवेत् ॥२६३॥  
 तावत्स्वकायसंरक्षा कर्तव्येति प्रियां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोऽस्य दूतं स्वं धीरयत्रिति ॥२६४॥  
 पितृलेखार्थमाध्याय रुद्रशोकः क्रुधोद्धतः । अन्तकस्याङ्गमारोहं स लङ्केशः किमिच्छति ॥२६५॥  
 शशस्य सिद्धपोतेन किं विरोधेऽस्ति जीविका । सत्यमासन्नमृत्यूनां सद्यो विध्वंसनं मतेः ॥२६६॥  
 इत्युद्धतोद्विष्टैः कोपमाविश्रमेऽथ लक्ष्मणः । जनको भरतः शत्रुशत्रुं तद्वृत्तकश्चनेः ॥२६७॥  
 संप्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद् । वाक्यैः शोकं समं नेतुं तदैवं ते सममुव्रज ॥२६८॥  
 चौर्येण रावणस्यैव परदारापहारिण । परामभवः परिद्रोग्धा दुरात्माधर्मवर्तनः ॥२६९॥  
 सीताशापेन दाह्योऽसौ निर्विचार्यमकार्यकृत् । महापापकृतां पापमस्मिन्नेव फलिव्यति ॥२७०॥  
 उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि सीताप्रत्ययन प्रति । हति तैर्वीधितो रामः सुतोऽथित इवामवत् ॥२७१॥

समुद्रके बीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके अनुगामी हैं अर्थात् सबमें चक्रवर्तीका शासन चलता है । नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन द्वीपोंमेंसे आधे की रक्षा करते हैं ॥२५३-२५५॥ उन द्वीपोंमें एक लंका नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुभित है । उसमें क्रम-क्रमसे राजा विनमिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रज रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है ॥२५६-२७०॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप ला और कान्ति आदिका वर्णन किया । उसी समय रावणका मन कामदेवके अमोघ वा खण्डित हो गया । उसकी बुद्धिकी धीरता जाती रही । न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह माय जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह गुप्तरूपसे आकर सती सीताको उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोंके उद्योग करनेका समय आत तबतक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिए इस प्रकार प्रिया सीताके प्रति उसे समझानेके कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिए । ऐसा महाराज दशरथने अपने पत्रमें था । पिताके पत्रका मतलब समझकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे हो उठे । वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमें चढ़ना चाहता है ॥२५८-२६२॥ वचचेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है ? सच है कि जिनकी निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥२६३॥ इस प्रकार रोष-भरे द्वारा रामचन्द्रने क्रोध प्रकट किया । तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत और शत्रुघ्न यह स चार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण शब्दों-उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥२६४-२६५॥ उन्होंने कहा 'रावण चोरीसे परस्त्री हरकर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है । वह द्रोह करनेवा दुष्ट है और अयर्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है । उसने चूं कि बिना विचार किये ही यह किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है । महापाप करनेवालोंका पाप इसी लो फल देता है ॥२६६-२६७॥ अब सीताको वापस लानेका कोई उपाय सोचना चाहिए । प्रकार उन सबके द्वारा समझाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावध

तत्काले खेचरद्वन्द्वं दौवारिकनिवेदितम् । नृपानुगतमागत्य यथोचितमे लोकत ॥२६९॥  
 भविव्यहृलक्षदेवोऽपि कृततद्योगसंपदः । एतदागमनं कस्मात् कौ भवन्तौ कुमारौ ॥२७०॥  
 इत्यन्वयुद्धत् सुग्रीवस्तत्रेदं सम्यगब्रवीत् । खगाद्विदक्षिणश्रेण्यां पुरं किलकिलाह्वयम् ॥२७१॥  
 तदधीशो बलीन्द्राख्यो विख्यातः खचरेष्वसौ । प्रियङ्गुसुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूज्ज्वी ॥२७२॥  
 बालिसुग्रीवनामानावजायवहि भूशुभाम् । पितर्युपरतेऽजायताप्रजस्थाधिराजता ॥२७३॥  
 ममापि युवराजत्वमत्रनिधे क्रमागतम् । एवं गच्छति तत्स्थानमपहृद्य मदप्रजः ॥२७४॥  
 क्रोमाक्रान्वाशयो देशात् स निर्वासयति स्म माम् । एषोऽपि दक्षिणश्रेण्यां विद्युत्कान्तापुरेशिनः ॥२७५॥  
 प्रमञ्जनखगाधीशस्तनूजोऽमिततेजवाक् । त्रिधाविद्योऽञ्जनादेव्यामग्न्याहवपराक्रमः ॥२७६॥  
 नमश्चरकुमाराराणां समुद्राय परस्परम् । कदाचिदात्मविद्यानामनुभावपरिक्षणे ॥२७७॥  
 विजयाद्विगिरेमूर्च्छि क्रमं विन्यस्य दक्षिणम् । वामपादेन भास्वन्तमपहाय पुनस्तदा ॥२७८॥  
 त्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमकृत्वाद्भुतम् । ततः प्रभृति विद्येशैर्विस्मयाहितमानसैः ॥२७९॥  
 अणुमानिति हर्षेण निखिलैरभ्यषाच्ययम् । पीतव्याकरणाम्भोधिः सखा प्राणाधिको मम ॥२८०॥  
 गत्वा कदाचिदेतेन सह लभेदपर्वतम् । सिद्धकूटामिधे तीर्थक्षेत्रेऽहंप्रतिमा बहूः ॥२८१॥  
 अभ्यर्च्य भक्त्या वन्दित्वा स्थितोऽस्मिन् शुभभावनः । जटामुकुटसंधारी सुकायज्ञोपवीतकः ॥२८२॥  
 काषायबन्धः कक्षावल्गुभ्रमरकमण्डलः । करोद्धृनातपत्राणो वैष्टिकब्रह्मसद्व्रतः ॥२८३॥  
 नारदो विशिखारूढो रौद्रध्यानपरायणः । अवतीर्थ नभोभागाररीस्य जिनमन्दिरम् ॥२८४॥

गये ॥२६९॥ उसी समय द्वारपालोंने दो विद्याधरोंके आनेका समाचार कहा । राजा रामचन्द्रने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥२६९॥ होतहार बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कहाँसे आये है ? और आप कौन हैं ? इसके उत्तरमें सुग्रीव कहने लगा कि विजयार्थ पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें एक किलकिल नामका नगर है । विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका स्वामी था । उसकी प्रियंगुसुन्दरी नामकी स्त्री थी । उन दोनोंके हम बालि और सुग्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़े भाई बालिको राज्य प्राप्त हुआ और सुझे क्रमप्राप्त युवराज पद मिला । इस प्रकार कुछ समय न्यतीत होनेपर मेरे बड़े भाई बालिके हृदयको डोभने धर दबाया इसलिये उसने मेरा स्थान छीनकर सुझे देशसे बाहर निकाल दिया । यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी । सो यह भी दक्षिण श्रेणीके विद्युत्कान्त नगरके स्वामी प्रभंजन, विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है । यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, अंजना देवीमें उत्पन्न हुआ है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है ॥२७०-२७६॥ किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्याओंके माहात्म्यकी परीक्षा देनेकी बात निश्चित हुई । उस समय इसने विजयार्थ पर्वतके शिखरपर दाहिना पैर रखकर बाये पैरसे सूर्यके विमानमें ठोकर लगायी । तदनन्तर उसी क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया । यह देख, विद्याधरोंके चित्त आश्चर्यसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े हर्षसे इसका 'अणुमान्' यह नाम रखा । इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात् यह सब प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥२७७-२८०॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ सम्मोदशिखर पर्वतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थक्षेत्रमें अर्हन्त भगवान्की बहुतसी प्रतिमाओंकी भक्तिपूर्वक पूजा-वन्दना कर वहींपर शुभ भावना करता हुआ बैठ गया । उसी समय वहाँपर विमानमें बैठे हुए नारदजी आ पहुँचे । वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे थे, मोतियोंका यज्ञोपवीत पहने थे, गेरुआ वस्त्रोंसे सुशोभित थे, उनकी बगलमें रत्नोंका कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें छाता लिये हुए थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, और सदा रौद्रध्यानमें

१ यथातिम ल० (?) । २ शुभयज्ञोपवीतकः ल० । ३-ऽविशिखारूढ. ल० । ( विमानारूढः ) ।



समुपाविक्षेदकत्र जिनस्तवनपूर्वकम् । समुपेत्य तमप्राक्षं किं मुने स्थानमात्मनः ॥२८५॥  
 संपद्यते न वेत्येतद्भचनादब्रवीदसौ । रामलक्ष्मणयोरर्द्धभरतस्वामितांचिरात् ॥२८६॥  
 भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताभ्यां तदेप्सितम् । संपत्स्यते च तत्प्रेष्यं किंचिद्भ्रामनोऽरामम् ॥२८७॥  
 विहरन्ती वने वीक्ष्य रावणो माययाग्रहीत् । तद्रामलक्ष्मणावद्य लङ्काभिमग्नोचितम् ॥२८८॥  
 अन्धेवितारौ पुरुषं तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्भचनात्तोषाद्देवास्मिंस्त्वां प्रतीयिव ॥२८९॥  
 तौ च तद्भचनात् पूजासुचितान् चक्रुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रमङ्गनतनुद्भवः ॥२९०॥  
 तवाद्देशोऽस्ति चेद्देव्याः स्थानमन्वेपयान्यहम् । तत्प्रत्ययार्थमाख्येयमभिज्ञानं महोपते ॥२९१॥  
 इति तेनोक्तमाकर्ण्य विनम्यन्वयलेन्दुना । यथामिप्रेतमेतेन प्रसेत्स्यत्यस्तसंशयम् ॥२९२॥  
 इति मत्वा स्वनामाङ्कमुद्रिकां मत्प्रियेदृशी । वर्णादिमिरिति व्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ नृपः ॥२९३॥  
 स रामचरणाम्भोज विनम्य गगनान्तरम् । समुत्पत्य समुल्लङ्घ्य समुद्रं सत्रिकूटकम् ॥२९४॥  
 द्विषट्कयोजनायामं नवयोजनविस्तृतम् । द्वात्रिंशद्गोपुरोपेतं रत्नप्राकारवेष्टितम् ॥२९५॥  
 नानामवनसंकीर्णं मणितोरणमास्वरम् । महाभेरसमुत्तुङ्गं रावणावासमाजितम् ॥२९६॥  
 अलिपुंस्कोकिलापार्लसत्कुसुमपल्लवैः । सरागहासं गायद्भिरिवोद्यानैर्नोहरम् ॥२९७॥  
 लङ्कानगरमासाद्य सीतान्वेषणतत्परः । गृहीतभ्रमराकारो दशाननसमागृहम् ॥२९८॥  
 इन्द्रजित्प्रमुखान् भूपकुमारान् वीक्ष्य सादरम् । मन्दोदरीप्रभृत्येतद्वनिताश्च निरूपयन् ॥२९९॥  
 नताखिलखगाधीशमौलिकालाङ्घितक्रमम् । मध्ये सिंहासनं सिंहचक्रमं शकृत्सनिभम् ॥३००॥

तत्पर रहते थे । उन्होंने आकाशसे उत्तरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर उन भगवान्का स्तवन किया और तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये । मैंने उनके पास जा पूछा कि हे मुने ! क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कि राम और लक्ष्मणका बहुत ही शीघ्र आघे भरत खण्डका स्वामीपन प्रकट होनेवाला ॥२८५-२८६॥ यदि तू उनके दूतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध जायेगा । उन्हें दूत भेजनेका कार्य यो आपड़ा है कि रामकी स्त्री वनमें विहार कर रही उसे रावण छलपूर्वक हरकर ले गया है । इसलिए आज राम और लक्ष्मण अपना कार्य करानेके लिए लंका भेजने योग्य किसी पुरुषकी खोज करते हुए बैठे हैं । इस प्रकार नार वचन सुनकर हे देव ! बड़े सन्तोषसे हम दोनों आपके पास आये हैं ॥२८७-२८८॥ दोनों धरोंके उक्त वचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया । तदनन्तर प्रभु पुत्र अणुमान् (हनुमान्) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थ खोज करूँ । हे राजन् ! देवीको विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइए ॥२९२९॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विश्वास हो गया कि विनभिके वर आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जा ॥२९३॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप-रंग आदिसे ऐसी है यह स्पष्ट बताकर उसके अपने नामसे चिह्नित मुद्रिका ( अँगूठी ) दे दी ॥२९३॥ अणुमान् रामचन्द्रके चरण-क्रम नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ा और समुद्र तथा त्रिकूटाचलको लॉधकर लंका जा पहुँचा । वह लंका नगर बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा था, बत्तीस सहित था, रत्नोंके कोटसे युक्त था, महाभेरके समान ऊँचा था, रावणके महलोंसे सुशोभित था, एवं जिनमें भ्रमर और पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं तथा फूल और पत्तों भित हैं अतएव जो राग तथा हासके साथ गाते हुए-से जान पड़ते हैं ऐसे बाग-बगीचोंसे था, ऐसे लंका नगरमें जाकर सीताकी खोजमें तत्पर रहनेवाले अणुमान्ने भ्रमरका रूप लिया और क्रम-क्रमसे वह रावणके सभागृह, इन्द्रजित् आदि राजकुमारों तथा मन्दोदरी रावणकी स्त्रियोंको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था ॥२९४-२९५ तदनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाओंके मुकुटोंकी मालाओंसे जिसके चर

नीलाद्रिमिव गङ्गोत्तरङ्गैश्च महीरुहैः । दोधूयमानमालोक्य रावणं रावितद्विषम् ॥३०१॥  
 अहो पापस्य कोऽप्येव विपाकोऽयमपीदृशः । किल धिग्धर्ममुलूङ्घ्य परदारामिलांपुङ्कः ॥३०२॥  
 ध्रुवं तन्नारादेनोक्तमकालमरणं ध्रुवम् । भावीति भावयन् सीतां तत्समायामलक्षयन् ॥३०३॥  
 मन्दमन्दप्रभे मानौ दीने सति दिनात्यये । सहायसंपदं प्राथो मन्वानः संपदावहाम् ॥३०४॥  
 उदयास्तमयौ नित्यं देहिनामिति रावणम् । रविर्धयौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन् ॥३०५॥  
 दूतो रामस्य गत्वाऽन्त पुरपश्चिमगोपुरम् । आरुह्य लोकमानोऽयं भ्रमराराधराजितम् ॥३०६॥  
 वनं सर्वतुङ्कं नाम नन्दनं नन्दनोपमम् । फलप्रसवमारारवनग्रकन्नमहीरुहैः ॥३०७॥  
 मन्दमन्धत्रहोद्गतानाप्रसंवपांशुभिः । कृतकाद्रिसरोवापीलतालालितमण्डपैः ॥३०८॥  
 मदनोद्दीपनैर्देशोरन्यैश्चातिमनोहरम् । इष्ट्वा तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥३०९॥  
 तत्रैकस्मिन् समालसद्देवो विद्याधरीजनैः । सामादिभिर्वशीकृतुमिद्विजाकारवेदिभिः ॥३१०॥  
 परीतां शिक्षिपाक्षमाजमूले शोकाकुलीकृताम् । ध्यायन्तीं निभृता मृत्वा शीर्त्वापि कुलरक्षणे ॥३११॥  
 सयत्नां शीलमालां वा समालोक्य धरात्मजाम् । इयं सा रावणानीता सीता ज्ञाताभिवर्णितैः ॥३१२॥  
 अभिज्ञानैर्नृपेन्द्रेण मम पुण्योदयादिति । तद्दर्शनसमुत्पन्नरागो रावणपापिना ॥३१३॥  
 कल्पवल्लीव दानेन तापितेयं सतीत्यलम् । शोकाभितप्तचित्तोऽपि नीतिमार्गविशारदः ॥३१४॥

कमल पजित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठा है, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान है, बुरते हुए चमरोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो गंगाकी विशाल तरंगोंसे सुशोभित नीलाचल ही हो और जिसने समस्त शत्रुओंको रूला दिया है ऐसे रावणको देखकर अणुमान्ने सोचा कि इस पापीके यह ऐसा ही विचित्र कर्मका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उल्लंघन कर परस्त्रीकी इच्छा की ॥३००-३०२॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण होनेवाला है सो ठीक ही कहा था । इस प्रकार विचार करते हुए अणुमान्ने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी ॥३०३॥ धीरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी, दिन अस्त हो गया और सूर्य रावणके लिए यह सूचना देता हुआ ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं वे सब प्रायः सम्पत्तिशालियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबका उदय और अस्त नियमसे होता है ॥३०४-३०५॥ इस प्रकार सब ओरसे चिन्तवन करता हुआ वह रामचन्द्रका दूत अणुमान् अन्तःपुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका वन देखने लगा । वह नन्दन वन भ्रमरोंके शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी ओभा बिखर रही थी, साथ ही नन्दनवनके समान जान पड़ता था, फल और फूलोंके बोझसे झुके हुए सुन्दर-सुन्दर वृक्षों, मन्द-मन्द वायुसे उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, कृत्रिम पर्वतों, सरोवरों, बावलियों तथा लताओंसे सुशोभित मण्डपों और कामको उद्दीपित करनेवाले अन्य अनेक स्थानोंसे अत्यन्त मनोहर था । उसे देख वह अणुमान् कुछ देर तक हर्ष और कौतुकके साथ वहाँ खड़ा रहा ॥३०६-३०८॥ वही किसी समीपपर्ती स्थानमें उसने सीताको देखा । उस सीताको साम आदि उपायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्रायानुकूल चेष्टाओंको जाननेवाली अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थीं । वह शिक्षिपा वृक्षके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बैठी थी, चुपचाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीर्ण-शीर्ण होकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयत्नशील थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी, मानो शीलकी-पातिव्रत्य धर्मकी माला ही हो । ऐसी सीताको देख अणुमान्ने विचार किया कि यह वही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है । उसने राजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिह्नोंसे उसे पहचान लिया और साथ ही यह विचार किया कि मेरे पुण्योदयसे ही मुझे आज इस सतीके दर्शन हुए हैं । दर्शन करनेसे उसे वृद्धा अनुराग उत्पन्न हुआ । उसने समझा कि जिस प्रकार दानलके द्वारा कल्पलता सन्तापित होती है उसी प्रकार पापी रावणके द्वारा यह सती सन्तापित की गयी है । इस प्रकार उसका चित्त यद्यपिशोकसे सन्तप्त हो

प्रारब्धकार्यैर्हसिद्धानुद्यतस्य विवेकिनः । प्राहुर्नातिविद्ः कोपं व्यसनं कार्यविघ्नकृत् ॥३१॥  
 तस्माद्दस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षमः । निजागमनं वातां तामवबोधयितुं सतीम् ॥३१॥  
 मनगावसरावेषी स्थितस्तावन्नशाकरः । उदयक्ष्माभ्युद्भासिचूडामणिनिभौ वभौ ॥३१७॥  
 दशाननोऽप्यतिक्रान्तं तत्रास्या दिनसप्तके । सीता कीदृगवस्थेति चिन्तयन् दीपिकावृतः ॥३१८॥  
 दीव्यकल्पद्रुमोपेतनीलाद्रिरिव जङ्गमः । निरीक्षितुं तथेवायात् सोत्कण्ठोऽन्वःपुरान्वितः ॥३१९॥  
 मञ्जुः कुशलोद्गन्तं संशोष्यामि कदा न्विति । मत्वा तां स्तिमिताकारां चिरं व्रीक्ष्य सविस्मयः ॥३२०॥  
 न काचिबेदशी स्त्रीषु पतिमन्येति चिन्तयन् । अपसृत्य स्थितः किञ्चिद् दूर्तां मञ्जरिकाभिधाम् ॥३२१॥  
 प्राहिणोत्तद्रभिप्रायं परिज्ञातुं विवेकिनीम् । जानकीं विनयेनासौ प्रपद्य शृणु महच्चः ॥३२२॥  
 भट्टारिके खगेन्द्रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मजा । देव्यः पञ्चसहस्राणि त्वत्समाना मनोरमाः ॥३२३॥  
 तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा महादेवापदे स्थिता । त्रिलण्डाधिपतेभ्यः सश्रीर्वंशःस्थले चिरम् ॥३२४॥  
 विफलं मा कृष्या त्रिदृचपलं तव यौवनम् । हस्तात् पुलस्तिपुत्रस्य रामस्त्वा नेप्यतीत्यद्ः ॥३२५॥  
 वितर्कणं कदम्बोद्वनं वा विद्धि निष्फलम् । क्षुधातनिकृपारातिवन्नान्तर्वर्तिनं भृगुम् ॥३२६॥  
 परित्याजयितुं ब्रूहि कः समर्थतमः पुमान् । इत्यभ्यधात्तदाकर्ण्य निश्चक्रा वसुधासुता ॥३२७॥  
 वसुधैव स्थिता भूत्वा के वा ज्ञाताः पतिव्रताम् । तां दृष्ट्वा खेचराभीशः स्वयमागत्य कातरः ॥३२८॥  
 कुलं चेद्रमिदं तिष्ठेनं विचारभ्रमं हि तत् । लज्जा चेद्दीनसंभ्रवात्सा तस्याः प्रसवोऽत्र न ॥३२९॥

गया तथापि वह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारब्ध किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है कार्यमें विघ्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं । इसलिए असमयमें क्रोध व्यर्थ है ऐसा विचारकर उसने क्षमा धारण की और उस पतिव्रताको अपने आनेका सम वतलानेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ वह वहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया । ७ समय चन्द्रमाका उदय हो गया और वह उदयाचलके शिखरपर चूडामणिके समान सुशो होने लगा ॥३१०-३१७॥ उसी समय 'आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं देखना चाहिए कि उसकी क्या दशा है' ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया । वह दीपिकाओंसे आवृत था—उसके चारों ओर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जा पड़ता था मानो देदीप्यमान कल्पवृक्षोंसे सहित चलता-फिरता नीलागिरि ही हो । वह उससे सहित था तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे युक्त था ॥३१८-३१९॥ 'मैं अपने पतिका कुशल स क्व सुनूँगी' ऐसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बैठी हुई थी । उसे रावण बड़ी देर आश्चर्यसे देखता रहा और स्त्रियोंके बीच ऐसी पतिव्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार कर वह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा । वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए मंजरिका नामकी विवेकवती दूती उसके पास भेजी । वह दूती सीताके पास आकर कहने लगी कि हे स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियाँ हैं जो विद्याध राजाओंकी पुत्रियाँ हैं और तुम्हारे ही समान मनोहर हैं । तुम उन सबकी स्वामिनी हो महादेवीके पदपर स्थित होओ और तीन खण्डके स्वामी रावणके वक्षःस्थलपर चिरकाल त लक्ष्मीके साथ-साथ निवास करो ॥३२०-३२४॥ विजलीके समान चंचल अपने इस निष्फल न करो । 'रावणके हाथसे राम तुम्हें वापस ले जावेगा' इस विचारको तुम कदम् विशाल वनके समान निष्फल समझो । भूखसे पीड़ित सिंहके मुखके भीतर वर्तमान झुड़ानेके लिए कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मंजरिका नामकी दूतीने कहा परन्तु सीता उसे सुनकर पृथिवीके समान ही निश्चल बैठी रही सो ठीक ही है क्योंकि पतिव्रता स्त्रीको भेद न करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? उसे निश्चल देख रावण ख डरते-डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रक्षा करनेके लिए बैठी है तो बात विचार करनेके योग्य नहीं है । यदि लज्जा आती है तो वह नीच मनुष्योंके संसर्ग

रामे चेद्येन तद्विद्धि जन्मान्तरितसंनिभम् । चिरं परिचितं कस्माद्भिस्मैराम्यधुनैव तस्मै ॥३३०॥  
 हृति चेत्संस्तौ जन्तौ केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिचिदुर्गाकिंकूटाद्रिः खगेश्वराः ॥३३१॥  
 दुर्गापालाः पुरं लंका मेघनादादयो मदाः । नायकोऽहं कथं तस्य तव मत्तुः प्रवेशनम् ॥३३२॥  
 तस्मात्तदाशामुज्झित्वा मदाशां पूरय प्रिये । अवश्यं साविकार्योऽस्मिन् किं काकहरणेन ते ॥३३३॥  
 हसन्त्याश्च रुदन्याश्च तव प्राधृणिकोऽस्म्यहम् । मत्कान्तकान्तात्संताने कान्ते चूकामगिर्भव ॥३३४॥  
 न चेदसि विभाग्यत्वादद्यैव घटदासिका । अतिथिर्वा भव प्रेतनाथावासनिवासिनाम् ॥३३५॥  
 इति तां मामिवापुण्यः स्वकर्तुं व्यर्थमब्रवीत् । तदाकण्यापि भूभृतां समाहितमनास्तदा ॥३३६॥  
 ध्यातव्यम्येव नैर्मन्द्यमादधानाभवस्थिरा । खगेशवक्त्रनिर्घातवाग्जालज्वलनावली ॥३३७॥  
 सीताधैर्याम्बुधिं प्राप्य सद्यः शान्तिमगात्तदा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसंपदा ॥३३८॥  
 स्त्रीस्त्वमपि जेतारं मामेषा परिभाबुका । किलेति क्रुध्यतः पत्युर्दीप्तक्रोधदानकम् ॥३३९॥  
 सद्यः सीताकतां दग्धुं जूमममर्णं मनोरणे । मन्दोदरी हितश्रव्यवचनामृतवारिभिः ॥३४०॥  
 प्रथमव्य किमस्थाने जनवत्क्रोपवान् भवेः । विचिन्तय किमेषा ते दण्डयोग्यावभासते ॥३४१॥  
 मन्दारप्रसवारुधमाकागिनक्षेपमहति । सतीनां परिभूत्याश्च खगामित्वादिकां ध्रुवम् ॥३४२॥  
 विद्याविनाशमायान्ति तस्स्यां त्रिर्वा विपक्षकः । पुरा स्वयंप्रनाहोत्तरश्रीवः खगाधिपः ॥३४३॥  
 प्रयावतीनिमित्तेन प्रसिद्धो मञ्जुपदनः । समासक्तः सुवारायां विधीरशनिवोपकः ॥३४४॥

होती है अतः यहाँ उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥३२५-३२९॥ यदि राममें तेरा प्रेम है तो तू उसे अब मरे हुएके समान समझ । जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय एकदम कैसे भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ? कदाचित् यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझे ले जायेंगे सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल है, लंका नगर है, मेघनाद आदि योद्धा है और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो सकता है ? ॥३३०-३३२॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो । जो कार्य अवश्य ही पूर्ण होनेवाला है उसमें समय बितानेसे तुझे क्या लाभ है ? ॥३३३॥ तू चाहे रो और चाहे हँस, मैं तो तेरा पाहुना हो चुका हूँ । हे सुन्दरी ! तू मेरी सुन्दर खियोंके समूहमें चूड़ामणिके समान हो ॥३३४॥ यदि तू अभाग्यवश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुझे आज ही घटदासी बनना पड़ेगा अथवा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़ेगा ॥३३५॥ इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लक्ष्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास करता है उसी प्रकार उस रावणने सीताको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास किया । उसे सुनकर सीता निश्चलचित्त हो धर्म्यध्यानसे युक्तके समान निर्मलता धारण करतीहुई निश्चल बैठी रही । रावणके मुखसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्निकी पंक्ति सीताके धैर्यरूपी समुद्रको पाकर शीघ्र ही उसी समय शान्त हो गयी । उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सौभाग्यरूपी सम्पदाके द्वारा समस्त खियोंको भी जीतता हूँ—उन्हें अपने वश कर लेता हूँ फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही है' ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र ही जलानेके लिए रावणके मनरूपी युद्धस्थलमे जो प्रचण्ड क्रोधरूपी दावानल फैल रही थी उसे मन्दोदरीने हितकारी तथा सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्त कर कहा कि, आप इस तरह साधारण पुरुषके समान अस्थानमें क्यों क्रोध करते हैं ? जरा सोचो तो सही, यह स्त्री क्या आपके दण्ड देने योग्य है ? आप यह याद रखिए कि सती खियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं और ऐसा होनेसे आप पञ्जरहित पक्षीके समान हो जावेंगे ।

पराभवं परिप्राप्तो मा भूस्त्वमपि तादृशः । मा मंस्था मां सगतीति मद्ब्रह्मत्वं प्रमाणयन् ॥३४५॥  
 त्यज सीतागतं मोहमित्यसौ निजगाद् तम् । तदुक्तेरुत्तरं वाक्यमभिधातुमशक्नुवन् ॥३४६॥  
 समं प्राणैरिथं त्याज्येत्यगात्स कुपितः पुरम् । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुत्रीशुगाहिता ॥३४७॥  
 सीतां मिथः श्रितामाविविदादेशभयात् क्षिती । यां निक्षेपयति स्मेति मया ककहकारणात् ॥३४८॥  
 आगतामेव मत्पुत्रीं तां त्वां मे मन्यते मनः । पापेन विधिनाऽऽनीता मद्दे त्वं दुःखकारिणा ॥३४९॥  
 अलङ्घ्यं केनचिच्चान्न प्रायेण विधिचेष्टितम् । इह जन्मनि किं बन्धुः किं वा त्वं मेऽन्यजन्मनि ॥३५०॥  
 न जाने त्वां त्रिलोक्याद्य मम स्नेहः प्रवर्द्धते । यदि मज्जननीत्वं त्वं पद्मनेत्रेऽवहृद्यते ॥३५१॥  
 त्वां मे मात्रवित्तुं वष्टि सपत्नीं खचराधिपः । तेन बाले मृति वापि याहि मा गास्तशीप्सितम् ॥३५२॥  
 स्तनप्रसूतमित्येवं वदन्ती प्रापहुत्सुका । तस्याः पयोधरद्वन्द्वमभिपेक्षतुमिवापतत् ॥३५३॥  
 जलं गद्गदकण्ठयाश्रुश्रुभ्यां स्नेहसूचनम् । सोकानलपरिष्कानं वक्त्राब्जं चासवत्त्वात् ॥३५४॥  
 तद्दीक्ष्य जानकीं सर्वं प्राप्ता स्वामिन्न मातरम् । जायते स्मार्द्रहृदया वाष्पाविलविलोचना ॥३५५॥  
 तदभिप्रायमाज्ञाय दशाननवधूत्तमा । यदि स्वकार्यसंसिद्धिमभिकामयसे शृश्या ॥३५६॥  
 कृताञ्जलिर्हं याचे गृहाणाहारमम्बिके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः सुसाधनम् ॥३५७॥  
 वदन्ति निपुणाः क्षमाजे प्रसवादि कुतोऽसति । स्थिते वपुषि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम् ॥३५८॥  
 न चेत्तद्दर्शनं साध्यं वपुषैव महत्ततः । न चेन्मद्ब्रह्म आह्वं त्वयाहमपि भोजनम् ॥३५९॥

पहले स्वयंप्रभाके लिए अश्रुधारीव विद्याधर, पद्मावतीके कारण राजा मधुसूदन और सुतार आसक्त हुआ निर्दुद्धि अज्ञानिधोप पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन-जैसे मत हो? ऐसा मत समझिए कि मैं सौतेके भयसे ऐसा कह रही हूँ। आप मेरे वचनको प्रमाण मा हूए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिए। ऐसा मन्दोदरीने रावणसे कहा। रावण उसके व का उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हो सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापस चला कि अब तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ॥३३६-३४७॥ इधर जो अपनी छोड़ी पुत्रीके शोकसे युक्त है ऐसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमि ज्ञानीके आदेशके डरसे पृथिवीमें नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू गयी है ऐसा मेरा मन मानता है। हे भद्रे! तू दुःख देनेवाले पापी विधाताके द्वारा यहाँ ला गयी है। सो ठीक ही है क्योंकि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लघन नहीं सकता। मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सन्धिनी है। न जाने क्यों तुझे देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। हे कमललोचने! बहुत सम्भव है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पुत्री है, यह तू भी समझ रही है। परन्तु यह वि धरोंका राजा तुझे मेरी सौत बनाना चाहता है इसलिए हे बेटी! चाहे मरणको भले ही हो जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना। प्रकार कहती हुई मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गयी। उसके स्तनसे दूध झरने लगा और उ स्तनयुगल सीताका अभिपेक्ष करनेके लिए ही मानो नीचेकी ओर झुक गये ॥३४८-३५३॥ उस कण्ठ गद्गद हो गया, दोनों नेत्रोंसे स्नेहको सूचित करनेवाला जल गिरने लगा और उस स उसका मुखकमल शोकरूपी अग्निसे मलिन हो गया ॥३५४॥ यह सब देख सीताको ऐसा ल लगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गयी हूँ, उसका हृदय आर्द्र हो गया और नेत्र आँसु से भर गये ॥३५५॥ उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पट्टरानी मन्दोदरी कहने लगी यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ! मैं हाथ जोड़कर याच करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है और शरीरका सा आहार है ॥३५६-३५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो फूल आ कहींसे आचगे? इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुझे तेरे स्वामी रामचन्द्रका दर्शन सकेगा ॥ ३५८॥ यदि उनका दर्शन साध्य न हो तो इस शरीरसे महान् तप ही कर

त्यजामीत्यवदस्तीताप्येतच्छ्रुत्वावधार्य च । ममामातापि मातेव मद्दुःखे दुःखिताऽजनि ॥३६०॥  
 इति चित्ते विनम्यैतच्चरणौ क्षिप्रमैक्षत । मञ्जूषास्थापनाकाले मरुसुताया इवेक्षितम् ॥३६१॥  
 पृथग्नां मधुरं सत्याः संतापयति सर्वतः । इति प्रलयमापन्ना तदा रावणबहुभा ॥३६२॥  
 आसैर्दुःखेन तद्दुःखाद् विनीता प्राविशत्पुरम् । शिशिपास्थस्ततोऽभ्येत्य दूतः प्लवगविद्यया ॥३६३॥  
 परावृत्त्या कपेर्मूर्त्या स्वयं निद्रात्यभिद्रुतान् । विधाय रक्षकाञ्च देव्याः पुरस्तात्सववस्थितम् ॥३६४॥  
 प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सर्वं श्राव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन लेखगर्भकरण्डकम् ॥३६५॥  
 मयानीतमिदं देवीत्यग्रेऽस्याः स तदक्षिपत् । तं दृष्ट्वा किमर्थं मायाविग्रहो रावणोऽधमः ॥३६६॥  
 शङ्कमानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवत्सलाञ्छनम् । रत्नाङ्गुलीयकं चात्मपतिनामाक्षराङ्कितम् ॥३६७॥  
 ममेदमपि भाव्येव मायेवात्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येतत्पत्रं तस्यैव वा भवेत् ॥३६८॥  
 मद्गमयादिति निर्भिद्य मुद्रां पत्रमवाचयत् । वाचनानन्तरं वीतशोक्या स्त्रिधवोक्षया ॥३६९॥  
 जीवितार्हं स्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः । इत्युक्तं सीतया कर्णो पिधाय पवनात्मज ॥३७०॥  
 मत्स्वामिनो महादेवी मातर्नेहान्यबल्पना । त्वां नेतुं मम सामर्थ्यमद्यैवास्ति पतिव्रते ॥३७१॥  
 नास्ति भट्टारकस्याज्ञा स्वयमेव महीपतिः । हृत्त्वैव्य रावणं तस्य त्वां नेष्यति सह श्रिया ॥३७२॥  
 तत्साहसेन तस्कीर्तिभ्याप्यास्ताम् भुवनत्रयम् । ततः शरीरसंधारणार्थमाहारमाहर ॥३७३॥

चाहिए। यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे वचन नहीं मानती है तो मैं भी भोजन छोड़े देती हूँ। मन्दोदरीके वचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है। ऐसा विचार कर वह मन-ही-मन मन्दोदरीके चरणोंको नमस्कार कर उनकी ओर बड़े स्नेहसे देखने लगी। उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मञ्जूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी ओर देख रही है। इस पतिव्रताका यह मधुर दर्शन मुझे सब ओरसे सन्तप्त कर रहा है। इस प्रकार शोकको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीताके दुःखसे विनम्र हो आप्तजनकोंके साथ-साथ नगरमें बड़े दुःखसे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी शिशुपा वृक्षपर बैठे हुए दूत अणुमानने प्लवग नामक विद्याके द्वारा अपना बन्दर-जैसा रूप बना लिया और वनकी रक्षा करनेवाले पुरुषोंको निद्रासे युक्त कर वह स्वयं सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ ॥३६५-३६४॥ वानर रूपधारी अणुमानने सीताको नमस्कार कर उसे अपना सब धृतान्त सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके आदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूँ। इतना कह उसने वह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया। वानरको देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्या यह मायाभयी शरीरको धारण करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥३६५-३६६॥ इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके चिह्नसे चिह्नित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अंकित रत्नमयी अंगूठीपर जा पड़ी। उसे देख वह फिर भी संशय करने लगी कि मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि यह दृष्ट रावणकी ही माया है। क्या है ? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है और मेरे भाग्यसे ही यहाँ आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई सुहर तोड़कर पत्र बाँचा। पत्र बाँचते ही उसका शोक नष्ट हो गया। वह स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुझे जीवित रखा है अतः मेरे पिताके पदपर अधिष्ठित है—मेरे पिताके समान है। जब सीताने उक्त वचन कहे तब पवनपुत्र अणुमानने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेवी है, इसपर अन्य कल्पना न कीजिए। हे पतिव्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि स्वामीकी आज्ञा नहीं है। राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही आकर रावणको मारेंगे और उसकी लक्ष्मीके साथ-साथ तुम्हें ले जावेंगे। उस साहसपूर्ण कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर रहेगी

१ तद्दृष्ट्वा म०, ल० । २ -भवत् ल०, म० । ३ पत्रं त्ववाचयत् ल० । ४ वचनानन्तर ल० ।  
 ५ व्याप्यताम् ल० ।

भगवत्यत्र को दोषो राज्ञा तं संगमोऽचिरात् । इत्याख्यस्ता ततस्त्यक्त्वा चैनमस्यं महीसुता ॥३७४॥  
 कायस्थितिसमादानं चाम्युपेत्य कृतत्वरम् । तस्काकोचितकार्योक्तिकुशला तं व्यसर्जयत् ॥३७५॥  
 प्रणम्य सोऽपि तत्पादपङ्कजं मासकरोदये । गत्वा तवो ज्ञादित्याप रामं स्वागमनोन्मुखम् ॥३७६॥  
 चदनाब्जप्रसादेन कार्यातिदिं न्यवेदयत् । प्रणम्य स्वामिना सम्यक् परिभ्योदितानसः ॥३७७॥  
 उपविष्टो मुदा तेन पृष्टो दृष्टेति मधिया । सप्रपञ्चमुदीर्योच्चैर्वचस्तत्प्रोतिहेतुकम् ॥३७८॥  
 निसर्गान्नाचणो इतश्चक्रं चान्यस्समुद्ययौ । लङ्कयां दुर्मित्तानि चासनं कृत्वाश्च खेचराः ॥३७९॥  
 सन्ति तस्सेवकाः सर्वमेतदाकोच्य मन्त्रिभिः । जानक्यानयनोपायो निश्चेतव्यो यथा तथा ॥३८०॥  
 इतीदमुचितं कार्यमवदत् पवनात्मजः । तदुक्तं चेतसा सम्यगवधार्योजिताश्रयः ॥३८१॥  
 ततः सेनापतिं पट्टबन्धनानिलनन्दनम् । कृत्वाधिराज्यपट्टं च सुग्रीवस्य महीपतिः ॥३८२॥  
 सह ताम्भ्यां समप्राक्षीनमन्त्रिणं कृत्यनिर्णयम् । तत्रैवमङ्गरोऽनोचदेव त्रेधा महीसुजः ॥३८३॥  
 लोभधर्मासुराह्नादिविजयान्तामिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्ये भेददण्डने ॥३८४॥  
 नयज्ञैः कार्यसिद्धयर्थमिष्ट्युराषः प्रयुज्यते । अन्तिमो रावणस्तेषु नीचत्वात्करकर्मकृत् ॥३८५॥  
 भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ तत्तस्मिन्नीतिवेदिभिः । क्रमस्तथापि नोद्धृद्यथः साम तावत्प्रयुज्यताम् ॥३८६॥  
 कः सामविद्यथोक्तव्य इत्यस्मिन् संप्रभारणे । दक्षतादिगुणोपेता बहवः सन्ति भूचराः ॥३८७॥

अतः शरीर धारण करनेके लिए आहार ग्रहण करो ॥३६७-३७३॥ हे भगवति ! आहार करनेसे क्या दोष है ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र ही हो जायेगा । प्रकार जब अणुमान्ने कहा तब सीताने उदासीनता छोड़कर शीघ्र ही शरीरकी स्थितिके आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया और उस समयके योग्य कार्योंके कहनेमें कुशल सीताने दूतको शीघ्र ही विदा कर दिया ॥३७४-३७५॥ दूत अणुमान् भी सीताके चरणकमलोंको नम कर सूर्योदयके समय चला और अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुँचते ही पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रज कार्यासिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलि कर आसनपर बैठनेके लिए कहा । जब वह हर्ष पूर्वक आसनपर बैठ गया तब रामचन्द्रने उ पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है ? उत्तरमें अणुमान्ने रामचन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उ वचन विस्तारके साथ कहा । वह कहने लगा कि रावण स्वभावसे ही अहंकारी है फिर उसके रत्न भी प्रकट हो गया है । इसके सिवाय लंकामें बहुतसे अपशकुन हो रहे हैं और उसके धर सेवक बहुत ही कुशल हैं । इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ अच्छी तरह विचार कर नि तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना चाहिए । इस यह योग्य कार्य अणुमान्ने सूचित किया । बलिष्ठ अभिप्रायको धारण करनेवाले रामचन्द्रने मान्ने के कहे वचनोंका हृदयमें अच्छी तरह विचार किया । उसी समय उन्होंने अणुमान्को पतिका पट्ट बाँधा और सुग्रीवको युवराज बनाया ॥३७७-३८२॥ तदनन्तर उन्होंने उन दोनोंके स साथ मन्त्रीसे करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा । उत्तरमें अंगदने कहा कि हे स्वामिन् ! राजा प्रकारके होते हैं— १ लोभ-विजय, २ धर्म विजय और ३ असुर-विजय । नीतिके जाननेवाले वि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यवहार करना तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं । इन तीन प्रका राजाओंमें रावण अन्तिम—असुरविजय राजा है । वह नीच होनेसे क्रर कार्य करनेवाला इसलिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद और दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चा तो भी क्रमका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । सर्व प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग क चा चाहिए ॥३८३-३८६॥ यदि आप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेव

१ 'स्नानवस्त्रार्चनं कृत्वा मन्दोदर्युपरोधत.' इति म० पुस्तकेऽधिक. पाठः । २-वासन् ल० । ३ 'सेना पट्टबन्धेनाकृतानिलनन्दनम्' ल० । ४ मन्त्रिणं कर्मनिर्णयम् म० । मन्त्रिणः कर्मनिर्णयम् ल० । ५ भेददण्डनम्

किंतु नाकाशगामित्वसामर्थ्यं तेषु विद्यते । तस्मात्सेनापतिः प्रेष्यस्त्वथार्थं नूतनः कृतः ॥३८८॥  
 हृत्पमार्गः पराधृष्यः सिद्धकार्यः श्रुतागमः । जात्यादिविद्यासंपन्नः स्यादस्मात्कार्यनिर्णयः ॥३८९॥  
 इत्येतदुपदेशेन मनोवेगाभिधानकम् । विजयं कुमुदाख्यानं खयातं रविगतिं हितम् ॥३९०॥  
 सहायीकृत्य संपूज्य कुमारं भवतोऽपरः । कार्यविस्कार्यकृच्छास्ति नात्रेति श्लाघयन्नृपः ॥३९१॥  
 पवमानात्मजं वाच्यस्त्वथैवं स विभीषणः । अत्र स्वमेव धर्मज्ञः प्राज्ञः कार्यविपाकवित् ॥३९२॥  
 हितो लङ्केश्वरायास्मै सूर्यवंशाग्रिमाय च । सीताहरणमन्याय्यमाकल्पमथशस्करम् ॥३९३॥  
 अपथ्यमिति संश्रय्य रावणं रतिमोहितम् । मोचनीया त्वया सीता तथा सति भवत्कुलम् ॥३९४॥  
 त्वयैव रक्षितं पापादपायादपवादतः । इति सामोक्तिमिस्तस्मिन् स्वीकृत्ये स्वीकृता द्विषः ॥३९५॥  
 गोमिन्या सह सीतापि वेत्सि दूतोत्तमापरम् । स्वमेव कृत्यं निर्णीयं दिग्दृष्टं श्रीभ्रमेहि माम् ॥३९६॥  
 इत्यमुञ्जत्सहायैस्तैः स कुमारः प्रणम्य तम् । गत्वाप्य सहसा लङ्कां ज्ञातो वीक्ष्य विभीषणम् ॥३९७॥  
 राममद्धारकेणाहं प्रेषितो भवदन्तिकम् । इति सप्रश्रयं सर्वं तदुक्तं तमजीगमत् ॥३९८॥  
 इदं च स्वयमाहासौ स्वामिसंदेशहारिणम् । प्रापय त्वं लंगाधीश मां तस्मै हितकारिणम् ॥३९९॥  
 रामाभिप्रेतकार्यस्य त्वया सिद्धिस्तथासति । कार्यमेतत्तु मद्द्वारा विधातुं भवतो भवेत् ॥४००॥  
 त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां विमुञ्जति स मन्दधीः । नापराधस्त्ववापुष्यः स्वयमेव विनन्दयति ॥४०१॥

कौन है जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्षता—चतुरता आदि गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा हैं परन्तु उनमें आकाशमें चलनेकी सामर्थ्य नहीं है इसलिए आपने जो वह नया सेनापति बनाया है इसे ही भेजना चाहिए ॥३८७-३८८॥ इस अणुमान्ने मार्ग देखा है, इसे दूसरे दवा नहीं सकते, एक बार यह कार्य सिद्ध कर आया है, अनेक शाखाका जानकार है तथा जाति आदि विद्याओंसे सहित है, इसलिए इससे कार्यका निर्णय अवश्य ही हो जावेगा ॥३८९॥ अंगदके इस उपदेशसे रामचन्द्रने मनोवेग, विजय, कुमुद और हितकारी रविगतिको सहायक बनाकर अणुमान्का आदर-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कुमार ! यहाँ आपके सिवाय कार्यको जाननेवाला तथा कार्यको करनेवाला दूसरा नहीं है । राजा रामचन्द्रने अणुमान्से यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषणसे कहना कि इस लंका द्वीपमें आप ही धर्मके जानकार हैं, विद्वान् हैं और कार्यके परिपाक-फलको जाननेवाले हैं । लंकाके ईश्वर रावण और सूर्यवंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका हित करनेवाले हैं, इसलिए आप रावणसे कहिए—जो तू सीताको हरकर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपूर्ण है, कल्पान्तकाल तक अपयज्ञ करनेवाला है, तथा अहितकारी है । इस प्रकार रतिसे मोहित रावणको सुनाकर आप सीताको छुड़ा दीजिए । ऐसा करनेपर आप अपने कुलकी पापसे, बिनाशसे तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभीषण वशमें हो गया तो शत्रु अपने वशमें ही समझिए । हे दूतोत्तम ! इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ-साथ सीता भी आयी हुई ही समझिए । इसके सिवाय और जो कुछ करने योग्य कार्य हैं उनका तथा शत्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापस आओ ॥३९०-३९६॥ इस प्रकार कहकर रामचन्द्रने अणुमान्को सहायकोंके साथ विदा किया । कुमार अणुमान् भी रामचन्द्रको नमस्कार कर गया और शीघ्र ही लंका पहुँच गया । वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीषणके दर्शन किये और विनयपूर्वक कहा कि मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछ कहा था वह सब बड़ी विनयके साथ विभीषणसे निवेदन कर दिया ॥३९७-३९८॥ साथ ही उसने अपनी ओरसे यह बात भी कही कि हे विद्याधरोंके ईश ! आप स्वामीका सन्देश लानेवाले तथा हित करनेवाले मुझको रावणके पास तक भेज दीजिए । आपसे रामचन्द्रके इष्टकार्यकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी और ऐसा हो जानेपर यह कार्य मेरे-द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥३९९-४००॥ आपके द्वारा ऐसा कहे जानेपर

१ लक्ष्म्या 'लक्ष्मीर्गोमिनीन्द्रा' इति कोशः । २ =नेहि तम् ल० । ३ गत्वाह ल० । मद्वाचा ग० । ३९



वर्धमानश्रियं दृष्ट्वा रामं तत्पुण्यचोदितम् । इतो द्वितयलोकैकहितं यायामधीश्वरम् ॥४०२॥  
 इति रक्तं स्वयं भूयो रणधीगोचरं वक्रम् । पञ्चाशत्कोटिसंयुक्तं लक्ष्माचतुरशीतिकम् ॥४०३॥  
 'साद्भक्तिकोटिसंख्यातं खेचरानीकमप्यदः । वलेन तेन संप्राप्य स नृसिंहः सलक्ष्मणः ॥४०४॥  
 हर्तुमद्यैव सीतां वा सीतां च खचरोशिनः । समर्थः किंतु दाक्षिण्यं विभोर्नैसर्गिकं त्वधि ॥४०५॥  
 ततोऽहं प्रेषितस्तेन त्वं च किं वेत्सि नेदगम् । इति तद्बचनं श्रुत्वा कार्यविद् रावणानुजः ॥४०६॥  
 तदानीमेव तं नीत्वा दशाननमजिज्ञप्तम् । वचोहरोऽयं रामेण प्रहितो देवसंनिधिम् ॥४०७॥  
 इत्यस्मावपि योग्येन क्रमेणाळोक्य रावणम् । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रास्तापणपूर्वकम् ॥४०८॥  
 अन्वैर्हितमितालापैः शृणु देवेति बोधयन् । प्राज्ञो विज्ञापयामास प्रस्पष्टमधुरध्वनिः ॥४०९॥  
 अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्धमानो निजौजसा । आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसो गुणसूषणः ॥४१०॥  
 रावणः कुशली देवं श्रिण्वद्वाखण्डनायकम् । कुशलोद्गतसंपन्नपूर्वमित्थमभाषत ॥४११॥  
 सीतान्यस्येति नीता सावस्मदीयेत्यजामता । किं जातं नास्ति दोषो द्राक् प्रेषणीया मनीषिणा ॥४१२॥  
 न चेद्दिनमिवशैकभूषणस्य महात्मनः । नानारूपमिदं कर्म धर्म-धर्मविघातकम् ॥४१३॥  
 कुलपुत्रमहाम्भोधेनं युक्तं मलधारणम् । सीताविभोचनोत्तुङ्गतरङ्गैः क्षिप्यतां बहिः ॥४१४॥  
 इति तस्मिन्माकण्यं प्रत्युवाच खगेश्वरः । सीतां नानवतुध्याहमानैर्बं किंतु भूभुजः ॥४१५॥

भी वह मूर्ख यदि सीताको नहीं छोड़ता है तो इसमें आपका अपराध नहीं है, वह पापी अपने-आ ही नष्ट होगा ॥४०१॥ इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है ऐसे रामचन्द्रको देख उनके प्रेरित हुई तथा 'हम लोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले रामचन्द्रजीकी शरण जा चाहिए' इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भावनासे ओतप्रोत पचास करोड़ चौरासी लाख भूमिगोचरियोंकी सेना और साढ़े तीन करोड़ विद्याधरोकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है वे रामचन्द्र इतनी सब सेना तथा लक्ष्मणको साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे । यद्यपि सीताके समान विद्याधरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीको भी आज ही हरनेमें समर्थ हैं किन्तु उ आपमें स्वाभाविक प्रेम है इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है । क्या आप इस तरहके सब समा नहीं जानते ? इस प्रकार अणुमानके वचन सुनकर कार्यको जाननेवाला विभीषण उसी सम उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव ! रामचन्द्रने यह दूत आपके पास भेजा है ॥४०२-४०५॥ बुद्धिमान् तथा स्पष्ट और मधुर शब्द बोलनेवाले अणुमानने भी पूर्वक रावणके दर्शन किये, योग्य भेट समर्पित की । तदनन्तर रावणके द्वारा ब्रतलाये हुए आ पर वैठकर श्रवण करनेके योग्य हित-मित शब्दों-द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरु किया हे देव, सुनि ॥४०६-४०९॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि तथा साहस अपने अनुकूल बनानेवाला है, गुण ही जिनके आभूषण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं ऐसे रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आप पहले तो कुशल-प्रश्न पूछा है और फिर यह कहला भेजा है कि आप सीताको किसी दूसे की समझकर ले आये हैं । परन्तु वह मेरी है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए उ विगड़ा नहीं है । आप बुद्धिमान् हैं अतः उसे शीघ्र भेज दीजिए ॥४१०-४१२॥ य आप सीताको न भेजेंगे तो विनमि वंशके एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका विचित्र कार्य धर्म तथा सुखका विघात करनेवाला होगा ॥४१३॥ कुलीन पुत्ररूपी मरु सागरको यह कलंक धारण करना उचित नहीं है । अतः सीताको छोड़ने रूप बड़ी-तरंगोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए ॥४१४॥ अणुमानके यह वचन सुनकर ने उत्तर दिया कि मैं सीताको बिना जाने नहीं लाया हूँ किन्तु जानकर लाया हूँ । राजा हूँ अतः सर्व रत्न मेरे ही हैं और विशेष कर खीरत्न तो मेरा ही है ! तुम्हारे

ममैव सर्वरत्नानि खीरत्नं तु विशेषतः । प्रेषयत्विति किं वक्तुं युक्तं मां ते महोपतेः ॥४१६॥  
 जित्वा मां विग्रहेणाद्यु<sup>३</sup> गृह्णीयात् केन वार्यते । इति तन्नाशार्संस्विवचनं दैवबोदितम् ॥४१७॥  
 श्रुत्वा रामोदयापादिमिभितं श्रुमसूचकम् । इदमेवात्र नोऽमीष्टमिति चित्तेऽनिकात्मजः ॥ ४१८ ॥  
 क्याजहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दशाननम् । अन्यायस्य निषेद्धा त्वं निषेध्यश्रेष्ठिपेद्धरि ॥४१९॥  
 बाह्वग्निरिवात्मनोभी केन वा स निषिध्यते । अभेद्येयं महं खयातो राघवः सिंहविक्रमः ॥४२०॥  
 अकीर्तिनिष्फलाचन्द्रमिति स्मर्तुं तवोचितम् । मया बन्धुत्वसंबन्धात्तव पथमुदाहृतम् ॥४२१॥  
 प्रभो गृहाण चेतुभ्यं रोचते चेन्न मा गृहीः । इति दूतवचः श्रुत्वा पीलस्यः पुनरब्रवीत् ॥४२२॥  
 रत्नं ममानिवेद्येदं जनकेन समर्पितम् । दर्पाद्वाशरथौ तस्मादाहृतेयं मया खया ॥४२३॥  
 मथोग्यवस्तुस्वीकारादकीर्तिश्रेष्ठवेन्मम । चक्ररत्नं च मदस्तादादृष्टौ स राघवः ॥४२४॥  
 इत्यन्वतोऽजनासुरजोचदशकधरम् । वचः प्रसन्नगम्भीरं तत्तदुक्त्यनुसारि<sup>४</sup> यत् ॥४२५॥

रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताको भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है । ॥४१६-४१६॥ [वह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमानी मालूम होता है । वह मेरी श्रेष्ठताको नहीं जानता है । 'मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है' यह समाचार क्या उसके कानोंके समीप तक नहीं पहुँचा है ? भूमिगोचरियों तथा विद्याधर राजाओंके मुकुटोंपर मेरे चरण-युगल, स्थल-कमल—गुलावके समान सुशोभित होते हैं यह बात आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है—बड़ेसे लेकर छोटे तक सब जानते हैं । सीता मेरी है यह बात तो बहुत छोटी है किन्तु समस्त विजयार्थ पर्वत तक मेरा है । मेरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जो इसे ग्रहण करना चाहता है वह पराक्रमी नहीं है—शूरवीर नहीं है । इस सीताको अथवा अन्य किसी स्त्रीको ग्रहण करनेकी उसमे शक्ति है तो वह यहाँ आवे और युद्धके द्वारा मुझे जीतकर शीघ्र ही सीताको ले जावे । कौन मना करता है ? ] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे रावणके नाशको सूचित करनेवाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्रके अभ्युदयको प्रकट करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं और इस विषयमें मुझे भी यही इष्ट है—मैं चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें रावणको परास्त करे और अपना अभ्युदय बढ़ावे ॥४१७-४१८॥ तदनन्तर वह अणुमान् रामचन्द्रकी ओरसे दुष्ट और दुराचारी रावणसे फिर कहने लगा कि 'आप अन्यायको रोकनेवाले हैं, यदि रोकनेवालेको ही रोकना पड़े तो समुद्रमें ब्रह्मानलके समान उसे कौन रोक सकता है ? यह सीता अभेद्य है—इसे कोई विचलित नहीं कर सकता और मैं सिंहके समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥४१९-४२०॥ इस अकार्यके करनेसे ज्वरतक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपकी निष्प्रयोजन अकीर्ति बनी रहेगी इस बातका भी आपको विचार करना उचित है । मैंने भाईपनेके सम्बन्धसे आपके लिए हितकारी वचन कहे हैं । हे स्वामिन् ! यदि आपको सचिकर हो तो ग्रहण कीजिए अन्यथा मत कीजिए ।' इस प्रकार दूत-अणुमान्के वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा ॥४२१-४२२॥ कि 'चूँकि राजा जनकने अहंकार वश मुझे सूचना दिये बिना ही यह सीतारूपी रत्न रामचन्द्रके लिए दिया था इसलिये क्रोधसे मैं इसे ले आया हूँ ॥४२३॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनेसे यदि मेरी अकीर्ति होती है तो हो । वह रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्ररत्न भी ग्रहण करना चाहता है' इस प्रकार रावणने कहा । तदनन्तर अणुमान् रावणके कहे अनुसार उससे प्रसन्न तथा गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी है यह आप क्यों कहते हैं ? यह सब जानते

१ [ दर्पिष्ठानामसो प्रभो ज्येष्ठता मे नं दुष्यते । चक्रोत्पत्तिर्न किं तस्य श्रवणोपास्तवर्तिनी । भूमन्वचरभूपा-  
 लभोलिमालाद्यलाम्बुजम् । मत्कमद्वद्भित्पेतदागोपालप्रसिद्धितम् ॥ सीता ममैयमित्यल्पेतदाहचराचलात् ।  
 सीता नाम्यस्य ता नाभो जिघृक्षुरिव विक्रमो ॥ इमा वतां वयद्यस्ति शनितरत्रैव राघवः । ] इत्ययं कोष्ठकान्तर्गतः  
 पाठः क० ख० ग० घ० पुस्तकेषु मूलनिबद्धो वर्तते किन्तु 'ल०' पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेणामा क०, ख०, ग०,  
 घ०, म० । ३ अभेद्योऽय-क०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५-दावात् ल० । ६ तदुक्त्यनु-ल० ।

सीता मयाहृतेत्येतर्किकं वक्षि विदितं जनैः । करे कस्य स्थिता सेति विभो त्वद्धरणक्षणे ॥४२६॥  
 किमेतेन मन्वच्छौर्यं वदान्न प्रकटीमवेत् । किं वृथोक्त्या प्रियेणैव राज्ञी संस्रुत्वयाप्यन्ताम् ॥४२७॥  
 इति तद्गूढहासोक्तिवह्निं संतापिताशयः । पुष्पकाधिपतिर्दृष्टिं विषाहीन्द्रफणामणिम् ॥४२८॥  
 आदातुमिच्छतो गन्तुं गतिं रामोऽभिवान्छति । दूतस्त्वं तत्र वध्योऽसि याहि याहीत्यतर्जयत् ॥४२९॥  
 निर्जित्य सिन्धुरारातिं गजितेनोजिता क्रुधा । ततः कुम्भनिक्कुम्भोऽग्रकुम्भकर्णादिभिर्मतैः ॥४३०॥  
 इन्द्रजित्सेन्द्रचर्मातिकन्यार्कं खरदूषणैः । खरेण दुर्मुखखरयेन महासुखखरोक्षिना ॥४३१॥  
 क्रुद्धैः कुमारैरन्यैश्च तर्षयमानोऽनिलात्मजः । गजितेन वृथानेन वनिताजनसंमुखम् ॥४३२॥  
 किं कृत्यमत्र संग्रामे मदीयं शृणुतोत्तरम् । इत्यत्रादीचेदा नेदमुचितं दुरुदीरितम् ॥४३३॥  
 इति तान् चारुस्थन् क्रुद्धान् नयवेदी विभीषणः । याहि भद्रानिवायौऽयमकार्यं खरदूषणैः ॥४३४॥  
 शुभाशुभविधाकानां भाविनां को निवारकः । इत्युवाचाणुमश्रैत्य जानकीं वज्रिताशनाम् ॥४३५॥  
 मन्दोदर्युपरुन्धास्या द्वाग्दृष्ट्वा पारणाविधिम् । ततो वाराशिसुलङ्घ्य रामाभ्यर्णमुपागतः ॥४३६॥  
 नत्वा किं बहुनोक्तेन सीता तेन न भोक्ष्यते । अतस्तदनु रूपं वा कार्यं मा भूत शीतकाः ॥४३७॥  
 शंसन्ति निश्चिते कृत्ये कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहावाय तत्प्रोक्तमिदं वाक्कुलकेशरी ॥४३८॥  
 चतुरङ्गव्रलेनामा चित्रकूटवनान्तरे । कालमेव वलं मत्वाऽनैषीद्वर्षं तु मिल्वरः ॥४३९॥

है कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमें थी—किसके पास थी आप सीताको हरकर नहीं लाये हैं किन्तु चुराकर लाये हैं। अतः यह कहिए कि इस का क्या आपकी शूर-वीरता प्रकट होती है? अथवा इन व्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ है। अमीठे वचनोंसे ही रानी सीताको शीघ्र वापस कर दीजिए ॥४२४-४२७॥ इस प्रकार अणुमा उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विस्वामी रावण कहने लगा कि 'रामचन्द्र, दृष्टिविष सर्पके फणामणिको ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषकी गतिको प्राप्त करना चाहता है—भरना चाहता है। तू दूत होनेके मारने योग्य नहीं है अतः यहाँसे चला जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहको जीतनेवा अपनी गर्जनासे अणुमान्को ललकारा। तदनन्तर कुम्भ, निक्कुम्भ एवं क्रूर प्रकृतिवाले कुम्भ आदि योद्धाओंने इन्द्रजित्, इन्द्रचर्म, अतिकन्यार्क, खरदूषण, खर, दुर्मुख, महासुख आ विद्याधरोने और क्रुद्ध हुए अन्य कुमारोंने अणुमान्को बहुत ही ललकारा। तब अणुमा कहा कि बीजनोंके सामने इस व्यर्थकी गर्जनासे क्या लाभ है? इससे कौन-सा कार्य सि होता है? आप लोग मेरा उत्तर संग्राममें ही सुनिए। यह सुन नयोंके जाननेवाले विभीषण उन क्रुद्ध विद्याधरोंको रोकते हुए कहा कि यह दुर्वचन कहना ठीक नहीं है। विभी अणुमान्से भी कहा कि हे भद्र! तुम अपने घर जाओ। अकार्य करनेके कारण जिसे मनुष्योंने छोड़ दिया है ऐसे इस रावणको कोई नहीं रोक सकता—यह किसीकी बात माननेवा नहीं है। ठीक ही है आगे आनेवाले शुभ-अशुभ कर्मके उदयको भला कौन रोक सकता है? इस विभीषणने कहा तब अणुमान्, जिसने आहार-पानी छोड़ रखा था ऐसी सीताके पास ॥४२८-४३५॥ मन्दोदरीके उपरोधसे सीताने कुछ थोड़ा-सा खाया था उसे देख अणुमान् शीघ्र समुद्रको पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया ॥४३६॥ और नमस्कार कर कहने लगा कि व कहनेसे क्या लाभ है? सबका सारांश यह है कि रावण सीताको नहीं छोड़ेगा इसलिए इसके कार्य करना चाहिए, विलम्ब मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य निश्चित किये हुए का शीघ्रता करनेकी प्रशंसा करते हैं—जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र ही कर चाहिए। अणुमान्की बात सुनकर इक्ष्वाकु वंशके सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरंगसेनाके साथ चित्र नामक वनमें जा पहुँचे। वे यद्यपि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समय

१ तवापिताम् क०, ५०। तवापिता ८०। २ संतपिताशयः ८०। ३. दृष्ट ग०। ४ यत्र ल ५०, म०।

तत्रत्यं बालिनो दूतः समीक्ष्य रघुनन्दनम् । प्रणम्योपायं न दत्वेत्यन्नवीदविमोहितम् ॥४४०॥  
 विज्ञापयति मत्स्वामी बालीति बलवानलम् । पूज्यपादो यदि प्रेक्ष्यं मामिच्छति महीपतिः ॥४४१॥  
 १ न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं सुग्रीवानिलुपन्नयोः । यावत् किञ्चित्कराचार्यो वेत्ति वैतत्पराक्रमम् ॥४४२॥  
 तिष्ठत्वत्रैव देवोऽहं गत्वा कङ्कां दशाननम् । मानभङ्गे नियोजयार्यामानयेऽद्यैव जानकीम् ॥४४३॥  
 इत्याकर्णिततद्वाक्यः प्राप्राक्षील्लक्ष्मणाग्रजः । सामभेदविदो वाच्यं किञ्चिन्धेयाः किमुत्तरम् ॥४४४॥  
 इति मन्त्रिगणं सर्वसंमतः संस्तुतोऽङ्गदः । शत्रुमित्रसुदासीन इति भूपाल्यो मताः ॥४४५॥  
 रावणस्तेषु नः शत्रुबाली मित्रस्य विद्विषः । ३ न कुर्मो यदि तत्कार्यं संबन्धीयात्स शत्रुणा ॥४४६॥  
 तथा चोपचयः शत्रोर्दुःखच्छेदो हि तेन सः । अथ बालिवचः कुर्मः कर्म तत्त्वार्यं दुष्करम् ॥४४७॥  
 ततो हठात्तवायातं किञ्चिन्धेशविनाशनम् । प्राक् पश्चाच्छक्तिसंपत्त्या सुखोच्छेद्यो दशाननः ॥४४८॥  
 इत्यन्नवीतवादाद्य दूतमाहूय भूपतिः । महामेषामिधानं मे प्रदायानेकपात्रिमम् ॥४४९॥  
 सहाभ्येतु मया कङ्कां चर्च्यं पश्चात्तदीप्सितम् । इत्युक्त्वामामुनात्मीयमपि दूतं व्यसर्जयत् ॥४५०॥  
 गत्वा तौ रामसंदेशात् सुग्रीवस्याग्रजन्मनः । कोपमानयतः स्मासावित्यवबोधन्मदोद्धतः ॥४५१॥  
 एवं प्रार्थयमानो मं रामो रामापहारिणम् । निर्मूल्यानीय सीतां किं यश्चो दिक्षु विकीर्णवाञ् ॥४५२॥

बलवान् मानकर उन्होंने वर्षाऋतु वही बितायी ॥४३७-४३९॥ जब रामचन्द्र चित्रकूट वनमें निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दूत उनके पास आया और प्रणाम करनेके अनन्तर भेंट समर्पित करता हुआ बड़ी सावधानीसे यह कहने लगा ॥४४०॥ कि हे देव ! मेरे स्वामी राजा बालि बहुत ही बलवान् है । वे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं— कि यदि पूज्यपाद महाराज रामचन्द्र मुझे दूत बनाना चाहते हैं तो सुग्रीव और अणुमानको दूत न बनावे क्यौंकि वे दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं । यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठहरिए, मैं अकेला ही लंका जाकर और रावणका मान भंग कर आर्या जानकीको आज ही लिये आता हूँ ॥४४१-४४३॥ इस प्रकार बालिके दूतके वचन सुनकर रामचन्द्रने साम और भेदको जाननेवाले मन्त्रियोंसे पूछा कि किञ्चिन्ध्या नगरके राजा बालिको क्या उत्तर दिया जावे ॥४४४॥ इस प्रकार मन्त्रि-समूहसे पूछा । तब सर्वप्रिय एवं सर्वप्रशंसित अंगदने कहा कि शत्रु, मित्र और उदासीनके भेदसे राजा तीन प्रकारके होते हैं । इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण हमारा शत्रु है, और बालि मित्रका शत्रु है । यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वह शत्रुके साथ सन्धि कर लेगा—उसके साथ मिल जावेगा ॥४४५-४४६॥ और ऐसा होनेसे शत्रुकी शक्ति बढ़ जायेगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःखसाध्य हो जायगा । यदि बालिकी बात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है ॥४४७॥ इसलिए सबसे पहले किञ्चिन्ध्या नगरीके स्वामीके नाश करनेका काम जबरदस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और सम्पत्ति बढ़ जानेसे रावणका नाश सुखपूर्वक किया जा सकेगा ॥४४८॥ इस प्रकार अंगदके वचन स्वीकृत कर रामचन्द्रने बालिके दूतको बुलाया और कहा कि आपके यहाँ जो महामेष नामका श्रेष्ठ हाथी है वह मेरे लिए समर्पित करो तथा मेरे साथ लंकाके लिए चलो, पीछे आपके इष्ट कार्यकी चर्चा की जायेगी । ऐसा कहकर उन्होंने बालिके दूतको बिदा किया और उसके साथ ही अपना दूत भी भेज दिया ॥४४९-४५०॥ वे दोनों ही दूत जाकर सुग्रीवके बड़े भाई बालिके पास पहुँचे और उन्होंने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया । तब सबसे उद्धत हुआ बालि कहने लगा कि इस तरह मुझपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या कीको अपहरण करनेवाले रावणको नष्ट कर तथा सीताको वापस लाकर दिशाओंमें अपना यश

१ मा ल०, म० । २ सोप्राक्षीत् ल० । ३ कुर्मो यदि ल० । ४ अभियाति, 'याञ्चायामभिवाणे च प्रार्थना कथ्यते बुधे ।। इति कैशवः । यद्वा अवरुणद्वि, इत्यर्थः । प्रा अर्थयते । 'प्रा स्याद्याञ्चावरोधयोः' इत्यभिधानात् । प्रा अवरोधेन, प्रा इति तृतीयात्तम्, आकारान्तस्य प्राञ्चदस्य योगविभागात् 'आतोवातोः' इत्यालोपः ।

दशाश्वे साम सामोक्त्या समीपसौ सामवायिके । परुषोक्तिर्मयीत्यस्य धीशौर्यं पश्य कीदृशे ॥४५॥  
 इमां तद्गर्वदुर्भाषां श्रुत्वा राघवसेनिना । चौथेण परदारणां नेतुस्त्वमार्गगामिनः ॥४५॥  
 दोषद्वयानुरूपं त्वं दण्डं द्रक्ष्यसि चाचिरात् । किं तेन तव चेत्पथ्यमिच्छेत्छिद्य दुर्मदम् ॥४५॥  
 दृष्ट्वा गर्जं क्रुल्लासं स्वामिनो वृद्धिमेष्यति । अवश्यमचिरेणेति दूतेनोद्दीपितः क्रुधा ॥४५६॥  
 बाली कालानुकारी तं प्रत्याह परुषं वचः । चारणाशां त्यजस्वस्वित चेदाशा नास्ति वा रणम् ॥४५७॥  
 यातु मत्यादसेवां स मयासा यातु चारणम् । तदा तस्याश्रुमां वाणीं तद्दिनाशविधायिनीम् ॥४५८॥  
 श्रुत्वा दूतोऽभ्युपेत्येषद्वलिनं बालिनोऽन्तकम् । प्रातिकूल्येन बाली वः कृत्रिमः शत्रुकथितः ॥४५९॥  
 पारिपन्थिकवन्मार्गो दुर्गस्तस्मिन् विरोधिनि । इत्यप्रवीततो रामः सुग्रीवप्रमुखं बलम् ॥४६०॥  
 लक्ष्मणं नाथकं कृत्वा प्राहिणोत्सादिरं वनम् । गत्वा वैद्याधरं सैन्यं बालिनोऽभ्यागतं बलम् ॥४६१॥  
 जवानेष वनं वज्रं प्रवल्कलच्छसंतति । स्वयं सर्वबलेनामा योद्धुं बाली तदागमत् ॥४६२॥  
 पुनस्तथोरभूद् युद्धं बलयोः काललीलयोः । प्रलये बान्तकस्तत्र प्रायस्त्वसिमुपेयिवान् ॥४६३॥  
 आकर्णाकृष्टनिमुक्कनिशातसितपत्रिणा । लक्ष्मणेन शिरोऽग्राहि तालं वा बालिनः फलम् ॥४६४॥  
 तदा स्वस्थानमापञ्चौ सुग्रीवानिकनन्दनौ । सद्यः फलति ससेवा प्रायेण प्रभुमाश्रिता ॥४६५॥  
 ततः सर्वेऽगमन् रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत । स्वस्थानं सबलो सकत्या सुग्रीवेण सहानुजः ॥४६६॥

फैला लेंगे ? ॥४५१-४५२॥ स्त्रीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके कहला भेजे हैं और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है ऐसे मेरे लिए ये कठोर कहला रहे हैं । इनकी बुद्धि और शूरवीरता तो देखो कैसी है ? ॥४५३॥ गर्वसे भरी हुई वा की इस नीच भाषाको सुनकर रामचन्द्रके दूतने कहा कि रावण चोरीसे परस्त्री हरकर ले है सो उस उन्मार्गगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप ही देखेंगे । अथवा इससे आपको क्या प्रयोजन ? यदि आपको महामेघ हाथी देना इष्ट इस दुष्ट अहंकारको छोड़कर वह हाथी दे दो और स्वामीकी सेवा करो । ऐसा करनेसे अवश्य ही शीघ्र बुद्धिको प्राप्त होंगे । इस प्रकार कहकर दूतने बालिको क्रोधसे प्रवर्लित दिया ॥४५४-४५६॥ तब यमराजका अनुकरण करनेवाला बालि उत्तरमें निम्न प्रकार वचन कहने लगा । उसने कहा कि 'यदि रामचन्द्रको जीनेकी आशा है तो हाथीकी आशा दें, यदि जीनेकी आशा नहीं है तो युद्धमें मेरे सामने आवें और उन्हें हाथीपर बैठनेक इच्छा है तो मेरे चरणोंकी सेवाको प्राप्त हों फिर मेरे साथ इस हाथीपर बैठकर गमन क इस प्रकार बालिका विनाश करनेवाली उसकी अशुभ वाणीको सुनकर वह दूत उसी स बालिको नष्ट करनेवाले बलवान् रामचन्द्रके पास वापस आ गया और कहने लगा कि व प्रतिकूलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥४५७-४५९॥ उस विरोधीके रहते हुए आ मार्ग चोरोंके मार्गके समान दुर्गम है अर्थात् जबतक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं त आपका लंकाका मार्ग सुगम नहीं है । इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन्द्रने लक्ष्म नाथक बनाकर सुग्रीव आदिकी सेना खदिर-वनमें भेजी । जिसमें शस्त्रोंके समूह देदीप्य हो रहे हैं ऐसी विद्याधरोंकी सेनाने सामने आयी हुई बालिकी सेनाको उस तरह काट जिस तरह कि वज्र वनको काट डालता है—नष्ट कर देता है । जब सेना नष्ट हो चुकी बालि अपनी सन्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके लिए आया ॥४ ४६२॥ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः वृष्ट हो गया ॥४६३॥ अन्तमें लक्ष्मणने कान तक खीं छोड़े हुए तीक्ष्ण सफेद बाणसे ताल वृक्षके फलके समान बालिका सिर काट डाला ॥४६४॥ समय सुग्रीव और अणुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योंकि अच्छी तरह हुई प्रभुकी सेवा प्रायः शीघ्र ही फल देती है ॥४६५॥ तदनन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके

विभोर्मनोहरोद्याने किष्किन्धे शरदागमे । बलं चतुर्दशाक्षौहिणीप्रभं भृशुत्वामभूत् ॥४६७॥  
 लक्ष्मणश्च जगत्पादगिरी निरशनस्त्वदा । सप्ताहं शिवघोषाख्यमोक्षस्थाने कृताचनः ॥४६८॥  
 प्रज्ञासि साधयामास भटाष्टन्नतरक्षितः । सुग्रीवोऽपि महाविद्याः पूजयामास सुव्रतः ॥४६९॥  
 सोपवासो गिरी संभेदाख्ये सिद्धशिलातले । तथान्येऽपि स्वविद्यानां खगाः पूजामकुर्वन्त ॥४७०॥  
 एवं भूलेचराधीशं बलं चकितकेतनम् । रामलक्ष्मणसुग्रीवमरुजन्दननायकम् ॥४७१॥  
 करीन्द्रमकराकीर्णं तुरंगमतुरंगकम् । प्रलयाम्भोधिसङ्काशं लङ्कां प्रति चचाक तत् ॥४७२॥  
 लङ्कापुरेऽप्यणुमतो विनिवृत्तौ दशाननः । कुम्भकर्णादिभिर्नास्मदुग्रवंशास्य भास्वतः ॥४७३॥  
 कर्मेदुसुचितं स्वभावपौरुषस्य तव प्रभो । खीरत्नमेतदुच्छिष्टं तदस्मदनुरोधतः ॥४७४॥  
 विसृज्यतामिति प्रोक्तोऽप्यासक्तस्यक्तुमक्षमः । भूयस्त्वणमनुष्यस्य रामनाम्नो बलं किल ॥४७५॥  
 सीतां नेतुमतोऽस्माकमुपर्यागच्छतीति वाक् । श्रूयतेऽद्य कथं सीतामोक्षः कुलकलङ्ककृत् ॥४७६॥  
 इत्याख्यचन्द्रचः सोढुमक्षमो रावणाजुजः । सूर्यवंशास्य शौर्यं किं रामस्त्वणमनुष्यकः । ४७७॥  
 न शृणोसि वचः पथ्यं वन्धूनां मद्रवान्धकः । परदारार्पणं दोषं वदन् दोषविदांबरः ॥४७८॥  
 परस्त्रीग्रहणं शौर्यं त्वदुपजं भवेद् मुनि । मिथ्योत्तरेण किं मार्गविच्छेदोन्मागवर्तनम् ॥४७९॥  
 दुहर्षं तव दुहर्षेर्लोकद्वयभावहम् । विषयाननिषिद्धांश्च परित्यक्तुं वयस्तव ॥४८०॥

गये । सुग्रीव, रामचन्द्रको लक्ष्मण और सब सेनाके साथ-साथ बड़ी भक्तिसे अपने नगरमें ले आया और किष्किन्धा नगरके मनोहर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया । उस समय शरद-ऋतु आ गयी थी और रामचन्द्रके साथ राजाओंकी चौदह अक्षौहिणी प्रमाण सेना इकट्ठी हो गयी थी ॥४६६-४६७॥ जहाँसे शिवघोष मुनिने मोक्ष प्राप्त किया था ऐसे जगत्पाद नामक पर्वतपर जाकर लक्ष्मणने सात दिन तक निराहार रहकर पूजा की और प्रज्ञासि नामकी विद्या सिद्ध की । विद्या सिद्ध करते समय एक सौ आठ योद्धाओंने उसकी रक्षा की थी । इसी प्रकार सुग्रीवने भी उस समय उत्तम व्रत और उपवास धारण कर सम्भेदाचलपर सिद्धशिलाके ऊपर महा-विद्याओंकी पूजा की । इनके सिवाय अन्य विद्याधरोंने भी अपनी-अपनी विद्याओंकी पूजा की । इस प्रकार जिसमें ध्वजाएँ फहरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अणुमान् जिसमें प्रधान हैं, जो बड़े-बड़े हाथीरूपी मगरमच्छोंसे व्याप्त हैं, और घोड़े ही जिसमें बड़ी-बड़ी तरंगें हैं ऐसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंकी सेना लंकाके लिए रवाना हुई ॥४६८-४७२॥

अथानन्तर—जब अणुमान् लंकासे लौट आया था तब कुम्भकर्ण आदि भाइयोंने रावणसे कहा था कि 'हे प्रभो ! आप हमारे उब वंशमे सूर्यके समान देदीप्यमान हैं और आपका पौरुष भी सर्वत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है । यह खीरत्न उच्छिष्ट है इसलिए हमलोगोके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए ।' इस प्रकार सबने कहा परन्तु 'चूँकि रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका । वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र वृण-मनुष्य हैं—वृणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, 'उनकी सेना सीताको लेनेके लिए यहाँ हमारे ऊपर आ रही है' ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको कैसे छोड़ा जा सकता है, यह बात तो इतलको कर्लक लगानेवाली है ॥४७३-४७६॥ रावणका छोटा भाई विभीषण उसकी यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रको वृणमनुष्य मानते हैं पर सूर्य-वंशीय रामचन्द्रकी क्या शूर-वीरता है इसका आपको पता नहीं है । आप कामसे अन्धे हो रहे हैं इसलिए भाइयोंके हितकारी वचन नहीं सुन रहे हैं । आप परस्त्रीके समर्पण करनेको दोष वतला रहे हैं इसलिए मालूम होता है कि आप दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं ? (व्यंग्य) ॥४७७-४७८॥ परस्त्रीग्रहण करना शूर-वीरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो रहा है । आप जो अपनी दुर्बुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न करनेवाले एवं दुर्धर उन्मार्गकी प्रवृत्ति नहीं होगी और सुमार्गका विनाश नहीं होगा ? जो

परामृशत्र किं युक्तं निषिद्धविषयैषणम् । विद्धि वैधाधरौ लक्ष्मीमिमां तव गुणप्रियाम् ॥४८१॥  
 अनर्पयन्तं सीतां त्वां त्यजत्यद्यैव निर्गुणम् । कार्याकारिणामत्र गणनायां किमग्रिमम् । ४८२॥  
 स्वं क्रोड्यभिलाषात्मकार्येण परयोषिति । प्रतिकूलोऽसि पुण्यस्य दुर्वृत्त्या पापसंचयात् ॥४८३॥  
 ततोऽननुगुणं दैवं विना दैवात्कृतः श्रियः । परस्त्रीहरणं नाम पापं पापेषु दुस्तरम् ॥४८४॥  
 विस्तरेण किमुक्तेन नेष्यत्येनो महातमः । आस्तां तावद्दो भावि शपैः शीलालयस्त्रियः ॥४८५॥  
 धलमाभूलतो दग्धुं कुलं क्रोधविधायिनाम् । नानिच्छन्तां प्रतीच्छामीत्येकमेव तव व्रतम् ॥४८६॥  
 पोतभूतं मवादिष्ये तत्तरितुं किं विनाशयेः । प्राणैरपि यशः क्रयं सतां प्राणैश्च तेन च ॥४८७॥  
 पापं कल्पान्तस्थाधि क्रीणास्यशोऽथशश्च धिक् । कल्पेयं दुहिता सीता किं तन्न ज्ञायते त्वया ॥४८८॥  
 सुज्ञानमप्यविज्ञेयं कामच्यामुग्धमानसैः । अत्यौत्सुक्यमनासेषु प्राप्तेषु परितोषणम् ॥४८९॥  
 मुञ्चमानेषु चैरस्यं विषयेषु न वेत्सि किम् । अयोग्यायामनाथायां नाशहेतौ वृथा रतिम् ॥४९०॥  
 मा कृथा. पापदुःखापलेपमाक परयोषिति । आदेशः कीदृशः सोऽपि स्मार्यो वा माविधेदिनाम् ॥४९१॥  
 चक्रस्य परिपाकं च प्रादुर्भूतं च भावय । वलानामष्टमं रामं लक्ष्मणं चाध्वंक्रिणाम् ॥४९२॥  
 भामनन्ति पुराणज्ञा प्राज्ञ तच्च विचिन्तय । यादृशार्पयतो दोषस्तादृशपद्यतस्तथा ॥४९३॥  
 सीतां नेति विनिश्चित्य तां रामाय समर्पय । इति लक्ष्मीलतावृद्धिताभनं धर्मशर्मदम् ॥४९४॥

विषय निषिद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अवस्था है फिर जरा च कीजिए इस अवस्थामें निषिद्ध विषयकी इच्छा करना क्या आपके योग्य है? आप यह नि समझिए कि यह विधाधरोंकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी प्रिया है। यदि आप सीताको नहीं करेंगे तो निर्गुण समझकर यह आपको आज ही छोड़ देगी। पर-स्त्रीकी अभिलाषा रूप इस अकार्यसे आप अपने-आपको अकार्य करनेवालोंमें अग्रणी—मुखिया क्यों बनाते इस समय आप इस दुष्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे हैं, पुण्यके कूल रहनेसे दैव अनुकूल नहीं रहता और दैवके विना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है? स्त्रीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है ॥४७९-४८४॥ अधिक विस्तारके कहनेमें क्या लाभ है? यह पाप आपको सातवें नरक ले जावेगा। अथवा इसे जाने दो, पाप परभवमें दुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूत स्त्रियों अपने प्रति क्रोध करने कुलको शापके द्वारा इसी भवमें आमूल नष्ट करनेके लिए समर्थ रहती हैं। आपने व्रत था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूँगा। आपका यह एक व्रत ही असंसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो? पुरुषोंको प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप ऐसे अज्ञानी हैं कि प्राण और यश दूसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं अतः आपके लिए ई है। यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते? ठीक ही है जिनका चित्त मोहित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती है। क्या न नहीं जानते कि ये पंचेन्द्रियोंके विषय जबतक प्राप्त नहीं हो जाते तबतक इनमें उत्सुकता है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोष होने लगता है, और जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब आ जाती है। इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप और दुःखका संचय वाली परस्त्रीमें व्यर्थका प्रेम मत कीजिए। भविष्यत्की बात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने आदेश दिया था—क्या कहा था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए ॥४८२-४९३॥ चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कीजिए। पुराणोंके जाननेवाले रामको आठवाँ बलभद्र लक्ष्मणको आठवाँ नारायण कहते हैं। हे विद्वन्! आप इसका भी विचार कीजिए। सीताको सौपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सौपनेमें नहीं है ॥४९२-४९३॥ इसलिए इन सब ।

१ गणनीय ल० । २ अनुकूलम् । ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ० । ४ शाप. शीलालयस्त्रियः ।  
 ५ किं तत्तरितुं ल०, म० । ६ मुञ्चमानेषु ल० । ७ भावि निधेदिनाम् ल० ।

वचोऽवोचद् विचार्योच्चैर्यशः कर्तुं शशिप्रभम् । भाषा विभीषणायैव भाषमाणाय भीषणः ॥४९५॥  
 क्वथितो रावणो दूतेनैकत्वमुपागम्य मे । परामर्चं समासभ्ये प्राग्दुस्सहमवीजलः ॥४९६॥  
 संप्रथयिषि दुष्कोऽहं त्वया सहजताज्जकात् । अवध्यो याहि महेशादित्यमाषट-निष्ठुरम् ॥४९७॥  
 सोऽपि दृश्वरितस्थास्य नाशोऽवश्यं भविष्यति । सहानेन विनाशो मां दूषयत्ययशस्करः ॥४९८॥  
 निर्वासितोऽहं निर्भर्त्स्यं देशाद्विमुदाहरन् । इष्ट एव किलारण्ये वृष्टो देव इति श्रुतिः ॥४९९॥  
 पुण्यान्ममाद्य संपथा यामि रामकृमान्मुञ्चम् । इत्यन्तर्गातमाळोच्य विनिश्चित्य विभीषणः ॥५००॥  
 जलधेर्जलमुल्लङ्घ्य सौजन्यमिव सस्वरम् । महावदीप्रवाहो वा वारिषिं राममासदत् ॥५०१॥  
 लक्ष्मणप्रमुखांन्मुख्यान् वेलाकीकावहान् बहून् । प्रत्युद्गमय्य विस्रम्भ्य तमानीय परीक्षया ॥५०२॥  
 सोऽपि ज्ञातानुभावत्वाद्देकीभावमुपागमत् । ततः कतिपयैरेव प्रयाणैर्गतवद्बलम् ॥५०३॥  
 जलधेस्त्वत्माश्रित्य संनिविष्टं समन्ततः । तदा तत्राणुमानित्यं रामं विश्वापयन्मिथः ॥५०४॥  
 देवादेशोऽस्ति चेद्गत्वा लङ्कां शौर्योऽजिहीर्षया । वनभङ्गेन ते शत्रोर्मानभङ्गं करोम्यहम् ॥५०५॥  
 लङ्कादाहेन दाहं च देहस्थाहितकारिणः । तथा सति स मानिस्त्वादसौ वेदागमिष्यति ॥५०६॥  
 स्थानभ्रंशास्तुलोच्छेयो नागच्छेत्तेजसः क्षतिः । इति श्रुत्वास्य विश्वाप्तिं तदस्त्वित्यवदद्वृषः ॥५०७॥  
 सहाय्यंश्चादिशत्तस्य विषेक्षान् शौर्यशाकिनः । लब्धाशः सोऽपि संतुष्य सद्यो वानरविद्यया ॥५०८॥  
 प्रादुर्भावितदुःप्रेक्षमानावानरसेनया । हुतं वाराशिसुल्लङ्घ्य विक्रमाद् वनपालकान् ॥५०९॥

निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सौंप दीजिए । इस प्रकार विभीषणने अच्छी तरह विचार कर यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी लताको बढानेवाले तथा धर्म और सुख देनेवाले उत्कृष्ट वचन कहे । परन्तु इस प्रकारके उत्तम वचन कहनेवाले विभीषणके लिए वह भयंकर रावण कुपित होकर कहने लगा कि 'तूने दूतके साथ मिलकर पहले समाके बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था और इस समय भी तू दुर्बचन बोल रहा है । तू मेरा भाई होनेसे मारने योग्य नहीं है इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा' । इस प्रकार रावणने बहुत ही कठोर शब्द कहे ॥४९४-५०७॥ रावणकी बात सुनकर विभीषणने विचार किया कि इस दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा और यह अपयश करनेवाला नाश मुझे दूषित करेगा ॥४९८॥ इसने तिरस्कार कर मुझे देशसे निकाल दिया है यह अच्छा ही किया है क्योंकि मुझे यह इष्ट ही है । 'बादल जंगलमें ही बरसे' यह कहावत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हुई है । अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप ही जाता हूँ । इस प्रकार चित्तमें विभीषणने विचार किया और ऐसा ही निश्चय कर लिया ॥४९९-५००॥ वह शीघ्र ही सौजन्यकी तरह समुद्रके जलका उल्लंघन कर गया और जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास पहुँचता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ॥५०१॥ रामचन्द्रने तरंगोकी लीला धारण करनेवाले लक्ष्मण आदि अनेक बड़े-बड़े योद्धाओंको विभीषणकी अगवानी करनेके लिए भेजा और वे सब परीक्षा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे ले आये । विभीषण भी रामचन्द्रके प्रभावको समझता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्त हो गया—हिलमिल गया । तदनन्तर कुछ ही पड़ाव चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ पहुँची और चारों ओर ठहर गयी । उस समय अणुमान्ने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि हे देव ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शूर-वीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लकामें जाऊँ और वनका नाश कर आपके शत्रुका मान भंग करूँ ॥५०२-५०५॥ साथ ही लंकाको जलाकर शत्रुके शरीरमें दाह उत्पन्न करूँ । ऐसा करनेपर वह अहंकारी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा और उस दशामें स्थान-भ्रष्ट होनेके कारण वह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा । यदि यहाँ नहीं भी आवेगा तो उसके प्रतापकी क्षति तो अवश्य होगी । अणुमान् ही यह विजति सुनकर राजा रामचन्द्रने वैसा करनेकी अनुमति दे दी और शूर-वीरतासे सुशोभित अनेक विद्याधरोंको उसका सहायक बना दिया । रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अणुमान् बहुत सन्तुष्ट हुआ । उसने वानर-विद्याके द्वारा शीघ्र ही अनेक भयंकर वानरोंकी सेना बनायी और उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्रका उल्लंघन किया । वहाँ वह



आग्रहं निग्रहं कृत्वा वनभङ्गं व्यधात् क्रुधा । ऊर्ध्वीकृतकरा घोरां क्रोशन्तो वनपालकाः ॥५१०॥  
 प्राविशन्नगरीं घोरां श्रावयन्तोऽश्रुतश्रुतिम् । तदा राक्षसविद्योद्यद्भवजमालोपकक्षिताः ॥५११॥  
 अभियाता पुरारक्षा योद्धं पवननन्दनम् । अयानिलसुतद्विष्टवानरांनीकनायकाः ॥५१२॥  
 तानमञ्जन् समुद्धृत्य प्रहृत्य वनपादपैः । ततः स्फुरन् महाज्वालविद्ययाऽसौ बहिःपुरम् ॥५१३॥  
 निरधाक्षीदधिक्रिप्य रक्षरक्षोबलं बली । एवं रावणदुर्वारप्रतापमोद्यतहुसम् ॥५१४॥  
 प्रोन्मूह्य वानरांनीकनायको रामनायथौ । संनाह्य रावणः स्थित्वा बलं संग्रामसंमुखम् ॥५१५॥  
 नागतो रावणः केन हेतुनेति विभीषणम् । अप्राक्षोदथ सोऽप्यशक्यलङ्कायां नास्ति रावणः ॥५१६॥  
 बालिलोकान्तरापतिं सुग्रीवाणुमतोरपि । विद्याबलावलेपित्वसवगम्य स्वयं च सः ॥५१७॥  
 निवेद्य निजरक्षायां सुतमिन्द्रजिदाह्वयम् । अष्टोपवासमासाद्य सन्त्यगनियमितेन्द्रियः ॥५१८॥  
 आदित्यपादशलेन्द्रे विद्या संसाधयन् स्थितः । राक्षसादिमहाविद्यासिद्धादुपचितो भवेत् ॥५१९॥  
 तद्विघ्नपूर्वकं कङ्कामवष्टभ्य निवेशनम् । प्रयोजनमिति श्रद्धयत् सीतापतिं प्रति । ५२०॥  
 नायकाम्यां ततः सुग्रीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दृष्ट्वा गरुडसिंहादिवाहिन्यौ बन्धमोचनीम् ॥५२१॥  
 हननावरणीं विद्याश्रवत्सोऽस्य पृथक् पृथक् । प्रज्ञप्तिविद्याविकृतविमानेन महाबलम् ॥५२२॥  
 लङ्कापुरबहिर्भागे तन्निवेशयतः स्म तौ । नभश्चरकुमारेषु तदा रामाज्ञया गिरिम् ॥५२३॥  
 संग्राप्य युद्धयमानेषु रावणस्याप्रसूजना । संभूयेन्द्रजिता यूयं युध्यध्वमिति संक्रुधा ॥५२४॥

अपने पराक्रमसे वन-पालकोंको पकड़ कर उनका निग्रह करने लगा और क्रोधसे उसने राव संमस्त वन नष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चि हुए नगरीमें गये और जो कभी नहीं सुने थे उन भयंकर शब्दोंको सुनाने लगे । उस स राक्षस-विद्याके प्रभावसे फहरोती हुई ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग मानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये । यह देख अणुमानने भी वानर-सेनाके से पतियोंको आज्ञा दी और तदनुसार वे सेनापति लोग वनके वृक्ष उखाड़कर उन्हींसे प्रहार हुए उन्हीं मारने लगे । तदनन्तर बलवान् अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्षसोंकी रू सेनाको अपनी देदीप्यमान महाज्वाल नामकी विद्यासे वहाँका वहीं भस्म कर दिया । इस प्र वानर सेनाका सेनापति अणुमान्, रावणके दुर्वार प्रताप रूपी ऊँचे वृक्षको उखाड़कर रामच के समीप वापस आ गया । इधर रामचन्द्र तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सम्मुख खड़े गये ॥५०६-५१५॥ उस समय उन्हींने विभीषणसे पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय रावण लंकामें नहीं है । बालिका परलोक ग और सुग्रीव तथा अणुमानके विद्याबलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रा नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिन उपवास लेकर और इन्द्रियोंको अच्छी तरह कर आदित्यपाद नामके पर्वतपर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है । राक्षसादि महाविद्या सिद्ध हो जानेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जावेगा । इसलिए इस समय हम लोगोंका काम है कि उसकी विद्यासिद्धिमें विघ्न किया जाये और लंकाको घेरकर ठहरा जाये, प्रकारं विभीषणने रामचन्द्रसे कहा । तदनन्तर सुग्रीव और अणुमानने अपने द्वारा सिद्ध की गरुडवाहिनी, सिंहवाहिनी, बन्धमोचनीं और हननावरणी नामकी चार विद्याएँ अलग-अ रामचन्द्र और लक्ष्मणके लिए दीं । इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रज्ञप्ति नामकी विद्यासे ब हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको लंकानगरीके बाहर मैदानमें ले जा खड़ी कर दी । उसी समय कितने ही विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद ना पर्वतपर जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणके बड़े पुत्र इन्द्रजितने क्रोधमें आकर विद्या राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब मिलकर इनसे युद्ध करो । इन्द्रजितकी बात सुनकर विद्या-देवताओंने कहा कि हमलोगोंने आ

प्रेषिताः खचराधीशाः प्राच्याः सर्वाश्च देवताः । इत्यन्तं कालमस्माभिर्मन्त्रपुण्यबलोद्घात ॥ ५२५ ॥  
 (व्यामिशिवितं कार्यं साधितं पुण्यसंशये । समर्था नेत्यसात्रुको व्यक्तं तामिर्देशाननः ॥ ५२६ ॥  
 भवतीनिर्वराकीभिर्यातं किं मम साध्यते । इन्मथहं पौरुषेणैव नृशुगान् सह खेचरात् ॥ ५२७ ॥  
 सहयैः साधितं कार्यं लज्जायै ननु मानिनाम् । इति क्रुद्धः पुरीमागाचदैवासी सहेन्द्रजित् ॥ ५२८ ॥  
 दुश्चेष्टस्यास्तपुण्यस्य भूतं माविं विनश्यति । परिवारस्तुलाद् ज्ञात्वा परैर्लङ्कोपरोधनम् ॥ ५२९ ॥  
 हरिणैर्हरिरारुद्धः पश्य काकविपर्ययम् । अथवासन्नमृत्युनां मवेत्प्रकृतिविभ्रमः ॥ ५३० ॥  
 इति गजन्समाक्रान्तनुङ्गमातङ्गसिंहवत् । रविकीर्तिं स्वसेनान्धं हरिणध्वजमादिशत् ॥ ५३१ ॥  
 युद्धायास्फाल्यतां भेरी शत्रुपक्षक्षयावहा । इत्यादिष्टस्तदैवासौ तथा कृत्वाखिलं बलम् ॥ ५३२ ॥  
 कालान्ते कालदूतो वा सहसैकीचकार तत् । अथ निर्गत्य लङ्काया विमलनिजसाधनः ॥ ५३३ ॥  
 सुकुम्भेन निकुम्भेन कुम्भकणेन चापरैः । सह त्रैरिन्द्रजिन्मुख्येनेन्द्राख्येनेन्द्रकीर्तिना ॥ ५३४ ॥  
 इन्द्रवर्माभिधानेन तनुजैरपरैरपि । महामुखातिक्रियाख्यं दुर्मुखालयैर्महाबलैः ॥ ५३५ ॥  
 खरदूषणधूमालयप्रमुखैश्च लगेश्वरैः । इत्र क्रूरग्रहैर्भास्वाश्लेदाघः परिवारितः ॥ ५३६ ॥  
 त्रिजगद्भ्रमसनालोककालकीलं विडम्बयत् । न तौ मम पुरः स्थातुं समर्थौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५३७ ॥  
 तिष्ठतः क्षशगोमायू किं पुनः संहतौ हरेः । अरावणं भवेद्य जगदेतस्ततोस्तयोः ॥ ५३८ ॥  
 सहावश्यमहं ताभ्यां पालयामि महीं नहि । इत्याद्यतर्कितायतनिजामङ्गलमाहपन् ॥ ५३९ ॥

पुण्योद्यसे इतने समय तक आपका वांछित कार्य किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो गया है इसलिए आपके कहे अनुसार कार्य करनेमें हम समर्थ नहीं हैं । जब उक्त विद्या-देवताओंने रावणसे इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग जा सकती हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध होनेवाला है ? मैं अपने पुरुषार्थसे ही इन मनुष्यरूपी हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अमी मार डालता हूँ ॥ ५१६-५२७ ॥ सहायकोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लज्जा उत्पन्न करता है । इस प्रकार क्रुद्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रजितके साथ नगरमें आ गया । देखो, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता है ऐसे दुश्चरित्र मनुष्यका भूत और भावी सब नष्ट हो जाता है । नगरमें आने-पर उसने परिवारके लोगोंसे ज्ञात किया कि शत्रुओंने लंकाको घेर लिया है ॥ ५२८-५२९ ॥ उस समय रावण कहने लगा कि समयकी विपरीतता तो देखो, हरिणोंने सिंहको घेर लिया है । अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनके स्वभावमें विभ्रम हो जाता है ॥ ५३० ॥ इस प्रकार किसी ऊँचे हाथीपर आक्रमण करनेवाले सिंहके समान गरजते हुए रावणने हरिणकी ध्वजा धारण करनेवाले अपने रविकीर्ति नामक सेनापतिको आदेश दिया ॥ ५३१ ॥ कि युद्धके लिए शत्रुपक्षका क्षय करनेवाली भेरी बजा दो । उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और कल्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनी समस्त सेना इकट्ठी की । तदनन्तर सेनाका अलग-अलग विभाग कर रावण लंकासे बाहर निकला ॥ ५३२-५३३ ॥ उस समय वह सुकुम्भ, निकुम्भ, कुम्भकण तथा अन्य भाइयोंमें सबसे मुख्य इन्द्रजित्, इन्द्रकीर्ति, इन्द्रवर्मा तथा अन्य राजपुत्रोंसे एवं महाबलवान् महामुख, अतिक्रिय, दुर्मुख, खरदूषण और धूम आदि प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट ग्रहोंसे घिरे हुए शौषम ऋतुके सूर्यके समान जान पड़ता था और तीनों जगतको प्रसनेके लिए सत्कृष्ण यमराजकी लीलाको विडम्बित कर रहा था । वह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थ नहीं हैं । अरे, बहुत-से खरगोश और शृगाल इकट्ठे हो जावें तो क्या वे सिंहके सामने खड़े रह सकते हैं ? आज उनके जीतेजी यह संसार रावणसे रहित भले ही हो जाये परन्तु मैं उनके साथ इस पृथिवीका पालन कदापि नहीं करूँगा । इस प्रकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अर्मगलको

१ दुश्चेष्टस्याप्तपुण्यम् ल० । २ च तद्वयति ल० । ३ कायिकः ल०, क०, व०, म० । कामार्कः ग० । ४ इति ग० ।

कालमेघमहागर्भगजस्कन्धमधिष्ठितः । प्रतिवातहतप्रोद्यद्वाक्षसध्वजराजितः ॥ ५४० ॥  
 १ अग्रे सरस्फुरच्चक्रद्वयस्थगिताम्बरः । नानानूनानकध्वानभिन्नाज्ञानेकपञ्चतिः ॥ ५४१ ॥  
 खेचराधीश्वरो धोदुं सन्नद्धोऽस्थान्मदोद्धतः । इतो रामस्तदायानकथाकर्णनघृणितः ॥ ५४२ ॥  
 दुर्निवारो रिपुं कोपपावकेनेव निर्दहन् । चक्षुःप्रान्तविनिर्गच्छत् उबलद्वीक्षाशिखावलीः ॥ ५४३ ॥  
 उलमुकालीरिवायोद्धुं विक्षिपन् विष्णु मंथु सः । महाविद्यासमूहासपञ्चमङ्गलान्वितः ॥ ५४४ ॥  
 तालध्वजः समारुह्य गजमञ्जनपर्वतम् । लक्ष्मणो बलयाकम्बिविषधृगरुद्धध्वजः ॥ ५४५ ॥  
 उदयाद्रिभिवारुह्य गजं विजयपर्वतम् । जिनेशिनं प्रणम्येतौ विद्वद्विघ्नविनाशनम् ॥ ५४६ ॥  
 सुग्रीवानिकुपुत्रादिलगेशैः परिवेष्टितौ । सूर्याचन्द्रमसौ बैरितमो हन्तुं ससुषृतौ ॥ ५४७ ॥  
 भासमानौ नथौ वीसौ दसदुर्मतिघातिनौ । रावणामिसुखं योद्धुं विभज्य ध्वजिनीं निजाम् ॥ ५४८ ॥  
 युद्धभूमिमधिष्ठाय तत्पथुस्त्रासितद्विधौ । तत्र तूर्यमहाध्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम् ॥ ५४९ ॥  
 निर्भर्त्सयन्तो बोद्धुं च निष्ठुरप्रहृतेर्मयात् । गुहागह्वरदेवादीन् विशान्तो वा समन्ततः ॥ ५५० ॥  
 गजवृंहितवाहोरुहेषाघोषाविशेषतः । वर्धयन्तो मदानां च सुतरां वीर्यसंपदम् ॥ ५५१ ॥  
 द्विधां मयं प्रकुर्वन्तो नभोसागमरोभयन् । तदाविष्कृतसंरम्भाः कलत्राणीव दुर्जयाः ॥ ५५२ ॥  
 हस्ताग्रमितमध्यानि नवाम्बोदकुलानि वा । सवाराणि मनांसीव गुणनन्त्राणि धीमताम् ॥ ५५३ ॥

वह रावण स्वयं कह रहा था ॥ ५३४-५३६ ॥ उस समय वह कालमेघ नामक महा मदनो हाथीके ऊपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी ओरसे आनेवाली ) वायुसे ताड़ित होकर राती हुई राक्षसध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररत्न देदीप्यमान हो रहा उसके छत्रसे सूर्य आच्छादित हो गया था—सूर्यका आतप रुक गया था और उसने अनेक प्रकारके बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दसे दिग्गजोंके कान बहरे कर दिये थे । इस प्रकार ओर मद्से उद्धत हुआ रावण युद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामच उसके आनेकी बात सुनकर क्रोधसे झूमने लगे ॥ ५४०-५४२ ॥ वह उस समय अत्यन्त दुर्नि थे और क्रोधरूपी अग्निके द्वारा मानो शत्रुको जला रहे थे । उनके नेत्रोंके समीपसे जो जल हुई दृष्टि निकल रही थी वह बाणोंके समान जान पड़ती थी और उसे वे जलते हुए अंगार समान युद्ध करनेके लिए दिशाओंमें बड़ी शीघ्रतासे फेंक रहे थे । महाविद्याओंके समूहसे उन्हें सेनाका पाँचवाँ अंग प्राप्त हुआ था वे उससे सहित थे । उनकी तालकी ध्वजा थी और अंजनपर्वत नामक हाथीपर सवार होकर निकले थे । साथ ही, जिसकी ध्वजामें बलया साँपको पकड़े हुए गरुड़का चिह्न बना है ऐसा लक्ष्मण भी विजयपर्वत नामक हाथीपर स होकर निकला । इन दोनोंने पहले तो समस्त विघ्न नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवको नमस् किया और फिर दोनों ही सुग्रीव तथा अणुमान् आदि विद्याधरोंसे वेष्टित हो सूर्य-चन्द्र समान शत्रुरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए चल पड़े ॥ ५४३-५४७ ॥ वे दोनों भाई नय समान सुशोभित थे और हृत् तथा दुर्बुद्धियोंका घात करनेवाले थे । रावणके सामने-युद्ध कर लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रखा था, इस प्रकार शत्रुओंको भयभीत करते हुए युद्ध-भूमिमें जाकर ठहर गये । वहाँ इनके नगाड़ोंके बड़े भारी शब्द शत्रुओंके नगाड़ोंके शब्द तिरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा-जान पड़ता था कि मानो वे शब्द उँचे उठते हुए दण्डोंके प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़ आदि देवोंमें सब ओरसे प्रवेश कर रहे हों—छिप रहे ॥ ५४८-५५० ॥ हाथियोंकी चिंवाड़ें और घोड़ोंके हींसनेके शब्द विशेष रूपसे योद्धाओंकी वीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे ॥ ५५१ ॥ उस संयम जो आरम्भ प्रकट हो थे वे शत्रुओंको भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे और दित्रियोंके समान दुर्ज ॥ ५५२ ॥ धनुष धारण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष लेकर निकले थे । उन धनुषोंका मध

१ अग्रसरध० । २ बलयाकारसर्पसहितगरुडपतकाः (स पुस्तके टिप्पणी) लक्ष्मणोऽपि मुवाकम्बि-  
 भृगरुद्धध्वजः ल० ।

दुरुक्तवचनानीव हृदिभेदनि दूरतः । दिग्ग्यापिमौर्वीनाद्स्वात् कोपहुङ्कारवन्ति वा ॥ ५४४ ॥  
 कणान्म्यणप्रबलित्वाग्निगदन्तीव मन्त्रणम् । कृच्छ्रकृत्येऽप्यमङ्गत्वात्सङ्गतानीव सज्जनैः ॥ ५४५ ॥  
 शरासनानि संधार्य निरागच्छन् धनुर्धराः । खड्गवर्मधरा धीरमष्ट्राश्च पट्टारटिनः ॥ ५४६ ॥  
 धनान् सतहितः कृष्णान् गर्जिनो विजिगीषवः । नानाप्रहरणोपेता नानायुद्धविशारदाः ॥ ५४७ ॥  
 परे च परितः प्रायुर्गोदं परबलं भटाः । अतिद्रुताः खुरापातैर्दारयन्त इवावनिम् ॥ ५४८ ॥  
 सचामरा महीशा वा समहामणिपीठकाः । आकृतेरिष्टभृत्वा वा स्वस्वामिहितकारिणः ॥ ५४९ ॥  
 भुञ्जाना इव सम्राज्ञा मधुरैः किङ्किणीरवैः । विजयं वा स्वसैन्यस्य घोषयन्तो निरन्तरम् ॥ ५५० ॥  
 सपक्षा इव संपन्नकङ्कटा रागनान्तरम् । लिलङ्घयिषवो<sup>३</sup> कालाजबफेनप्रसूनकैः ॥ ५५१ ॥  
 स्वपादनटनुत्तार्थमचयन्तो धराशिव । हया यवनकाश्मीरवाह्नीकादिसमुद्रवाः ॥ ५५२ ॥  
 स्फुरदुक्तातलङ्गाखुक्विसत्साद्यधिष्ठिताः । महासैन्यान्विधसंभूततरङ्गासा विनिर्गताः ॥ ५५३ ॥  
 द्विधो भीषयितुं वोचेहैषाघोषैर्विभीषणैः । स्वायुकुलानिलाः शस्त्रमण्डाः प्रोहण्डकेतवः ॥ ५५४ ॥  
 संग्रामाभोनिधेः पोता प्रचेछुः पृथवो रथाः । चक्रगेनैक चेचक्री विक्रमो नस्तयोर्द्वयम् ॥ ५५५ ॥  
 मत्वेति वा द्रुतं पेतुर्दिक्रचक्रामिणो रथाः । नायकाधिष्ठिता शक्यैः संपूर्णास्तूर्णवाजिनः ॥ ५५६ ॥

भाग हाथके अप्रभागके बराबर था, वे नये वादलोंके समूहके समान जान पड़ते थे, बाण सहित थे, बुद्धिमान् पुरुषोंके मनके समान गुण—डोरी ( पक्षमें दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) से नम्र थे, कठोर वचनोंके समान दूरसे ही हृदयको भेदन करनेवाले थे, उनकी प्रत्यंचाका शब्द दिशाओंमें फैल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रोध वश हुंकार ही कर रहे हों, खिचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो कुछ मन्त्र ही कर रहे हो, और सज्जनोंकी संगतिके समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी भ्रम नहीं होते थे ऐसे धनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले । कुछ धीर वीर योद्धा तलवार और कवच धारण कर जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिजली सहित गरजते हुए काले मेघोंको ही जीतना चाहते हों । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शत्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ पहुँचे । उनके साथ जो घोड़े थे वे बड़े बेगसे चल रहे थे और उनके खुरोंके आघातसे मानो पृथिवीको बिदार रहे थे ॥ ५५३-५५५ ॥ वे घोड़े चमरोंसे सहित थे तथा महामणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे । अथवा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेवकके समान मरण-पर्यन्त अपने स्वामीका हित करनेवाले थे ॥ ५५५ ॥ उनके मुखमें घासके प्रास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुए-से जान पड़ते थे और छोटी-छोटी घंटियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसे मालूम हो रहे थे मानो निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा ही कर रहे हों ॥ ५५० ॥ वे घोड़े कवच पहने हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो पंखोंसे युक्त होकर आकाशके मध्यभागको ही लाँघना चाहते हों । उनके मुखोंसे लार रूपी जलका फेन निकल रहा था जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पैररूपी नटोंके नृत्य करनेके लिए फूलोंसे पृथिवीकी पूजा ही कर रहे हों । वे घोड़े यूनान, काश्मीर और बाह्लीक आदि देशोंमें उत्पन्न हुए थे, उनपर ऊँची उठायी हुई देदीप्यमान तलवारोंकी किरणोंसे सुराभित घुड़सवार बैठे हुए थे, वे महासेनारूपी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उधर चल रहे थे, और भय उत्पन्न करनेवाले जोर-जोरसे हींसनेके शब्दोंसे शत्रुओंको भयभीत करनेके लिए ही मानो निकले हुए थे । इनके सिवाय वायु जिनके अनुकूल चल रही हैं जिसमें शस्त्ररूपी वर्तन भरे हुए हैं, जिनपर ऊँचे हण्ड वाली पताकार फहरा रही हैं, और संग्रामरूपी समुद्रके जहाजके समान जान पड़ते हैं ऐसे बड़े-बड़े रथ भी वहाँ चल रहे थे । चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्रसे पराक्रमी है तो हमारे पास ऐसे दो चक्र बिद्यमान हैं ऐसा समझ कर समस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वहाँ बड़ी तेजीसे आ रहे थे । जिनके भीतर उनके स्वामी बैठे हुए

संनद्धाः सन्तु नो युद्धे बद्धकक्षाः कथं रथाः । धावन्तु पत्तयो वाहा गजाश्चैभिः किमानुरैः ॥ ५६७ ॥  
जयोऽस्मात्स्विति वा मन्दं समरः स्यन्दना ययुः । सन्मार्गगामिभिः शस्त्रधारिभिश्चक्रवर्तिभिः ॥ ५६८ ॥  
रथैर्दिग्भ्रमक्रमाक्रम्य तैर्द्विचक्रं किमुच्यते । महीधरनिभैः पूर्वकायैरौदर्यधारिणः ॥ ५६९ ॥  
पश्चात्प्रसारिताप्राङ्गुली विकृद्धयं स्वपेचकाः । अम्मोरुहाकरा बोधद्रक्तपुष्करशोभिनः ॥ ५७० ॥  
परप्रणेयवृत्तित्वाद्भक्तानुविधायिनः । रूपेवोत्थापयन्तोऽलीन् वर्णतालैः कटस्थितान् ॥ ५७१ ॥  
सवलका इवाम्भोदाः समुद्यद्बलध्वजैः । केचित्परमदामोदमात्रायाम्भोदवल्ग्विनः ॥ ५७२ ॥  
करैः प्रविकसत्पुष्करैस्तेयोद्धुं समुद्यताः । निक्षितोद्बुधुशावातदकत्रियार्णं वारिताः ॥ ५७३ ॥  
मुहुर्विभूतमूर्द्धानः करेणुगणसंनिधौ । प्रशान्भोभूतसंरम्भा महामात्राद्यधिष्ठिताः ॥ ५७४ ॥  
मातङ्गास्तुङ्गदेहत्वादाक्रामन्त इवाखिलम् । सर्वतो निर्ययुर्वोच्चैर्ङ्गमा धरणीधराः ॥ ५७५ ॥  
केतवश्चानुकृत्रानिलेरिता विद्विषं प्रति । चेत्तदुदण्डान् परित्यज्य पुरो योद्धुमिवोद्यताः ॥ ५७६ ॥  
नमसः शुद्धरूपस्य मालं जलधराकृतिम् । अथवापनयन्तो वा संच्छादितरन्वित्विषः ॥ ५७७ ॥  
धृतदण्डप्रवृत्तित्वाद् वयोतीलानुकं रिणः । काले विमुक्तिमन्वाद्य मुनिमार्गानुसारिणः ॥ ५७८ ॥  
बकावष्टमखिन्नावनीमिःश्वसितसंनिभे । मिथ्याज्ञान इवाशेषबोधविध्वंसकारणे ॥ ५७९ ॥

हैं, जो अनेक शस्त्रोंसे परिपूर्ण हैं, और जिनमें शीघ्रतासे चलनेवाले वेगगामी घोड़े हुए हैं ऐसे तैयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकक्ष क्यों न हों ? पैदल चलने सिपाही, घोड़े और हाथी भले ही आगे दौड़ते चले जावें पर इन व्यग्र प्राणियोंसे क्या बाला है ? विजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है । यह सोचकर ही मानो बोझसे भरे धीरे-धीरे चल रहे थे । सन्मार्गपर चलनेवाले, शस्त्रोंके धारक एक चक्रवाले चक्रवर्ति जब समस्त दिशाओंपर आक्रमण किया था तब दो चक्रवाले रथोंने समस्त दिशाअ आक्रमण किया इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जिनकी पूङ्गुका मूलभाग पीछेकी ओर पसारी अगली अंगुलीके समान था अर्थात् कुंछ ऊँचेकी ओर उठ रहा था जो ऊपरकी ओर हुए सूँडके लाल-लाल अग्रभागसे सुशोभित थे और इसीलिए जो कमलोंके सरो समान जान पड़ते थे । जिनकी वृत्ति परप्रणेय थी—दूसरोंके आधीन थी अतः वचोंके समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलोंपर स्थित भ्रमरोंको मानो क्रो ही कानरूपी पंखोंकी फटकारसे उड़ रहा था । उड़ती हुई सफेद ध्वजाओंसे जो लाओंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूँघकर आकाशमें खिले हुए कमलके समान अग्रभाग सूँडोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पैनी नोकवाले अंकुशोंकी चोटसे अ प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके स बार-बार अपना भरतक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्त होगया था, जिनपर प्रधान बैठे हुए थे और जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसारपर आक्रमण करते हुए-से जान थे ऐसे चलते-फिरते पर्वतोंके समान ऊँचे-ऊँचे हाथी सब ओरसे निकलकर चल रहे थे ॥५५५॥ उस समय अनुकूल पवनसे प्रेरित ध्वजाएँ शत्रुओंकी ओर ऐसी जा रही थीं मानो दण्ड छोड़कर पहले ही युद्ध करनेके लिए उद्यत हो रही हों ॥५७६॥ अथवा सूर्यकी किरणोंको ढकनेव वे ध्वजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो निर्मल आकाशमें जो मेघरूपी मैल छाया हुआ था उ दूर कर रही हों ॥५७७॥ अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात् दण्डोंमें लगी हुई इसलिए वृद्ध पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समयपर मुक्त होती थीं—खोलकर फेंक जाती थीं इसलिए मुनिमार्गका अनुसरण करती थीं ॥५७८॥ उस समय धूल उड़कर चारों फैल गयी थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सेनाके बोझसे खिन्न हुई पृथिवी साँस हीले

१ 'उल्लूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पेवकाः' इत्यमरः । २ 'अपाङ्गदेशो निर्याणम्' इत्यम

३ 'महामात्राः प्रधानानि' इत्यमरः । ४ विद्विष, ल० ।

महाभये वा संप्राप्ते रणविघ्नविधायिनि । पुरानजितपुण्ये वा समस्तनयनाप्रिये ॥ ५८० ॥  
 रजस्येव नभोभागलक्ष्मिन्वाहितरंहसि । मूर्च्छितं गर्भगं कुङ्कुमलिखितं चातिशय्य तत् ॥ ५८१ ॥  
 वलं कलवलं किंचिद्विचेष्टममवचत्वा । विभ्रस्तवैरिभूपालचित्तद्वोभोपमे दानैः ॥ ५८२ ॥  
 पृथी तस्मिन् रजशोभे प्रशान्ते सति सक्रुधः । प्रस्पष्टदृष्टिसंचाराः सेनानायकचोदिताः ॥ ५८३ ॥  
 गतिं प्रपातसंशुद्धा नवाब्दा वा धनुर्धराः । शरवृष्टिं विमुञ्चन्तो हृद्ययानि वितोषिनाम् ॥ ५८४ ॥  
 कुर्वन्ति स्मापरागाणि सद्गदानां रणाङ्गणे । युद्धयन्ते स्माहवोऽसाहाः सेऽपि तैरिव चोदिताः ॥ ५८५ ॥  
 द्विषतो वा न सत्त्वाभिव्यक्तिः स्यात्सुहृदः सताम् । मया मञ्जीवितु दांतुं नृपाञ्जीवितमाददे ॥ ५८६ ॥  
 तस्य कालोऽयमित्येको व्यतरत्तदणं रणे । भृत्यकृत्यं यशः शूरगतिश्चात्र त्रयं फलम् ॥ ५८७ ॥  
 पुरुषार्थत्रयं चैतदेवेत्यन्योन्ययुध्यते । नास्मद्वले मृत्तिं वीक्षे कस्थापि स पराभवः ॥ ५८८ ॥  
 ममेति मन्यमानोऽन्यः प्राग्गुणान्नियत स्वयम् । अयुध्यन्तैवमुत्कोधाः सर्वशस्त्रैरनारतम् ॥ ५८९ ॥  
 सव्यापसव्यमुक्ताधैमुक्तामुक्तेः नाकुलम् । अभीतसार्गणैवैव भार्गणा भार्गमात्मनः ॥ ५९० ॥  
 मध्ये विधाय गत्वा द्वाक परत्र पतिताः परे । दूरं त्यक्त्वा गुणान्वाणैस्तीक्ष्णैः शोणितपायिभिः ॥ ५९१ ॥  
 ऋजुवाञ्छिहरे प्राणान् गुणोऽपि न गुणः खले । न वै न फलं किंचित्थाप्यह्नन् शराः परान् ॥ ५९२ ॥

हो । अथवा पूर्ण ज्ञानको नाश करनेका कारण मिथ्याज्ञान ही फैल रहा हो ॥ ५८९ ॥ अथवा युद्धमें वित्र करनेवाला कोई बड़ा भारी भय ही आकर उपस्थित हुआ था । जिसने पूर्वभ्रममें पुण्य संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार वह धूलि भी सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लग रही थी ॥ ५९० ॥ इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाशको उल्लंघन कर रही थी अर्थात् समस्त आकाशमें फैल रही थी । उस धूलिके भीतर समस्त सेना ऐसी हो गयी मानो मूर्च्छित हो गयी हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथवा दीवालपर लिखे हुए चित्रके समान निश्चेष्ट हो गयी हो । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया । जिस प्रकार किसी पराजित राजाके चित्तका श्लोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाता है उसी प्रकार जब वह धूलिका बहुत भारी श्लोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया और दृष्टिका कुङ्कुम-संचार होने लगा तब सेनापतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गयी है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा वर्षासे शुद्ध नये बादलोंके समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे और युद्धके मैदानमें शत्रु-योद्धाओंके हृदय राग-रहित करने लगे । सेनापतियोंके द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५९१-५९२ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु मित्रसे प्रकट होता है । मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आज्ञाविका पायी है—वेतन ग्रहण किया है । अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें वह ऋण चुका रहा था । युद्ध करनेमें एक तो सेवकका कर्तव्य पूरा होता है, दूसरे यशकी प्राप्ति होती है और तीसरे शूर वीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैं ॥ ५८६-५९० ॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे परस्पर लड़ रहा था । 'मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्योंकि वह मेरा ही पराभव होगा' यह मानता हुआ कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था । इस प्रकार तीव्र क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-बायें दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे छोड़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंसे बिना किसी आकुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे । दोनों ओरसे एक दूसरेके सम्मुख छोड़े जानेवाले बाण, वीचमें ही अपना मार्ग बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पड़ रहे थे । गुण अर्थात् धनुषकी डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीक्ष्ण एवं खून पीनेवाले बाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका घात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेवाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं । बाणोंका न तो किसीके साथ वैर था और न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शत्रुओंका घात कर रहे थे ॥ ५८८-५९१ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा

१ ( कलकल यथा स्यात्, क० टि० ) कलकलां काचित् ख० । २ फलत्रयम् ख० । ३ आनीत-ल०, म० । ४ परं प्रपतिताः ल० । ५ दूरे ख० ।

परंपरितवृत्तीनां तीक्ष्णानामीदृशी गतिः । खगाः खगैः खगान् जम्बुद्वैरा खगा ह्व ॥ ५९३ ॥  
 तृणाय मन्यमानाः स्वान् प्राणान् पापाः परस्परम् । लक्ष्यबद्धास्मष्टान्विताश्रुपातिशितैः शरैः ॥५२  
 धन्विनः पालयन्ति स्म गिरीन्वा करिणो बहून् । एकेनैकः शरिणेममवधीन्ममभेदिना ॥ ५९५ ॥  
 स्वीकुर्वन्त्यत एवान्यमर्मज्ञान् विजिगीषवः । प्रघातमूर्च्छितः कश्चित्प्रवहल्लोहितो मंडः ॥ ५९६ ॥  
 आपतद् गृद्धपक्षानिकोत्थितोऽहन्बहून् पुनः । नीयमानमिवाःमानं वीक्ष्यान्यो देवकन्यया । ५९७  
 सोत्सवः सहस्रोदस्थात्सहासो दरमूर्च्छितः । बाणाङ्किते रणत्तूर्यरणरङ्गे<sup>५</sup> निरन्तरम् ॥ ५९८ ॥  
 नृत्यस्कवन्धके सद्यः शरच्छादितमण्डपे । बद्धान्नजाकमालोऽन्यो बहूकालाज्ञवाचितः ॥ ५९९ ॥  
 राक्षसेन विवाहेन वीरलक्ष्मीं समाक्षिपत् । डाकिन्यश्चटुलं नेटुराचवन् भैरवं शिवाः ॥ ६०० ॥  
 ऊर्व्वचक्रव्रतमद्वह्विस्फुल्लिङ्गविभीषणाः<sup>५</sup> । उत्क्षिप्तकतिंकाजाकश्चकलोलकपालभृत् ॥ ६०१ ॥  
 अतिपातनिपीतास्त्रमवमीदु राक्षसीगणः । निशातशरनाराचचक्राद्युनिपातनात् ॥ ६०२ ॥  
 निःप्रमं निःप्रतापं च तदाभूदकमण्डलम् । स्याद्वादिभिः समाक्रान्तकुवादिक्कलवत्तदा ॥ ६०३ ॥  
 दशाननत्रकान्थापन् मङ्गं रामवसैनिकैः । इति प्रवृत्ते संग्रामे सुचिरं तद्राणाङ्गणे ॥ ६०४ ॥  
 मृताः केचित्पुनः केचित् प्रहताः प्राणमोक्षणे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्ठगतासवः ॥ ६०५ ॥  
 समवर्ती नरान् सर्वान् प्रस्तान् वरयितुं तदा । निःशक्तिर्वान्तवानेतामिति शङ्काविधाधिनः ॥ ६०६ ॥

प्रेरित रहती है ऐसे तीक्ष्ण (पैने-कुटिल) पदार्थोंकी ऐसी ही अवस्था होती है। जि परस्पर वैर बँधा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधर पक्षियोंके समान अपने प्राणोंको लृणके स मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे ॥ ५९२-५९४ ॥ धनुष घा करनेवाले कितने ही योद्धा लक्ष्यपर लगायी हुई अपनी दृष्टिके साथ-ही-साथ शीघ्र पड़नेवाले ती बाणोंके द्वारा पर्वतोंके समान बहुत-से हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक यो अपने मर्मभेदी एक ही बाणसे हाथीको मार गिराया था सो ठीक ही है क्योंकि इसीलिए विजयकी इच्छा करनेवाले शूर-वीर दूसरेका मर्म जाननेवालोंको स्वीकार करते हैं—अ पक्षमें मिलाते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मूर्च्छित हो खूनसे लथ-पथ हो गया था तथा अ हुए गृद्ध पक्षियोंके पंखोंकी वायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंको मारने लगा था। एक अल्प मूर्च्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या-द्वारा ले जाया जाता हुआ देख उस साथ हँसता हुआ अकस्मात् उठ खड़ा हुआ। जो बाणोंसे भरा हुआ है, जिसमें रणके म बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर सिर रहित धड़ नृत्य कर रहे हैं, और जिसमें बाणों मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसकी सब अंतर्दियोंका समूह बँध रहा है और बहुत-से खूनके प्रवाहसे पूजित हैं ऐसे किसी एक योद्धाने राक्षस-विवाहके द्वारा वीर-लक्ष्मी अपनी ओर खींचा था। उस युद्धस्थलमें डाकिनियाँ बड़ी चपलतासे नृत्य कर रही थीं शृगाल भयंकर शब्द कर रहे थे। वे शृगाल ऊपरकी ओर किये हुए मुखोंसे निकलनेवाले अ चिनगारियों (तिलगों) से बहुत ही भयंकर जान पड़ते थे। जिसकी कैँचियोंका समूह ऊप ओर उठ रहा है और जो चंचल कपालोंको धारण कर रहा है ऐसा राक्षसियोंका समूह ब अधिक पिये हुए खूनको उगल रहा था। अत्यन्त तीक्ष्ण बाण, नाराच और चक्र आदि शस्त्र पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभाहीन तथा कान्तिरहित हो गया था। जिस प्र स्थाद्वादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्यावादियोंका समूह पराजयको प्राप्त होता है उसी प्रकार समय रामचन्द्रजीके सैनिकोंके द्वारा आक्रान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। प्रकार उस रणांगणमें संग्राम प्रवृत्त हुए बहुत समय हो गया ॥ ४९५-६०४ ॥ उस युद्धमें कितने लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, और कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठ प्राण हो गये ॥ ६०५ ॥ उस समय वे मरणासन्न पुरुष ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमरा

१ नाना खगाः खगै ल० । २ लक्ष्यबद्धा क०, ख०, घ०, ग०, म० । ३ निरन्तरे ख०, ग०  
 ४ प्रचुरश्विरक्षरणवचितः । ५ विभीषणः ल० ।

इतस्ततो मदा व्यस्ताः सङ्घे जर्जराङ्गकाः । जनयन्त्यन्तकस्यापि वीक्षमाणस्य भीरसम् ॥६०७॥  
 वाजिनोऽत्र समुच्छिन्नचरणाः सत्त्वशाकिनः । अङ्गेनैव समुत्थातुमुद्यन्ति स्मोजितौजसः ॥६०८॥  
 अमानिमा मदनमुक्तशरनाराचकीकृताः । प्रक्षरद्वातुनिष्यन्दगिरयो बाल्यवेणवः ॥६०९॥  
 चक्राद्यवयवैर्मानैर्विस्त्रिस्ता सर्वतो रथाः । भान्ति स्म भिन्नपोता वा तत्संग्रामाधिभण्यगाः ॥६१०॥  
 दिनान्येवं बहून्यासीत् संग्रामो बलयोद्दयोः । प्रायेण विसुखे दैवे स्वं बलं वीक्ष्य भङ्गुरम् ॥६११॥  
 संतप्तो मायया सीताशिरश्छेदं दशाननः । विधाय तव देवीयं गृहाणेति रुषाक्षिपत् ॥६१२॥  
 शिरस्तत्पश्यतो भ्रूयुर्हृदि मोहे कृतास्पदे । खेचरेश्वरसैन्यस्य समीक्ष्य समरोत्सवम् ॥६१३॥  
 सीतां शीलवतीं कश्चिदपि स्पृष्टुं त्वया विना । शक्तो नास्ति दशस्यस्य मायेयं मात्र गाः शुचम् ॥६१४॥  
 नाथेति राचवं तथ्यमब्रवीद् रावणानुजः । विभीषणस्य तद्वाक्यं श्रद्धाय रघुतन्दनः ॥६१५॥  
 गजारिगजयूथं वा भास्करो वा तमस्तत्तिम् । बलं विभेदयामास सद्यो विद्याधरंशिनः ॥६१६॥  
 प्रकाशयुद्धमुच्छिरवा मायायुद्धविषिस्तया । स पुत्रैः सह पीठस्थो लङ्कते स्म नमोऽङ्गणम् ॥६१७॥  
 तं वीक्ष्य तद्रणे दक्षौ दुरीक्ष्यं रामलक्ष्मणौ । गजारिविनतासूनुवाहिनीभ्यां<sup>३</sup> समुद्यतौ ॥६१८॥  
 सुग्रीवाणुमदाद्यात्मविद्याधरवकान्वितौ । रावणेन समं रामो लक्ष्मणोऽप्यग्रत्सुना ॥६१९॥  
 सुग्रीवः कुम्भकर्णं भरतुग्रविकीर्तिना । खरेण केतुरञ्जादिरङ्गदशैन्द्रकेतुना ॥६२०॥

खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समर्थ नहीं हो सका, इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था ॥६०६॥ जिनके अंग जर्जर हो रहे हैं ऐसे कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे और वे देखनेवाले यमराजको भी भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे—उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था ॥६०७॥ जिनके पैर कट गये हैं ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर रहे थे ॥६०८॥ योद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए बाणों और नाराचोंसे कीलित हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनसे गेरूके निर्झर झर रहे हैं और जिनपर छोटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे पर्वत ही हो ॥६०९॥ चक्र आदि अवयवोंके टूट जानेसे सब ओर बिखरे पड़े रथ ऐसे जान पड़ते थे मानो उस संग्रामरूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही टूटकर बिखर गये हों ॥६१०॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओंमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा । एक दिन रावण भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख बहुत दुःखी हुआ । उसी समय उसने मायासे सीताका सिर काटकर 'तो, यह तुम्हारी देवी है ग्रहण करो' यह कहते हुए क्रोधसे रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ॥६११-६१२॥ इधर सीताका कटा हुआ सिर देखते ही रामचन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया और उधर रावणकी सेनामें युद्धका उत्सव होना शुरू हुआ । यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीलवती सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेके लिए भी समर्थ नहीं है । हे नाथ, यह रावणकी माया है अतः आप इस विषयमें शोक न कीजिए । विभीषणकी इस बातपर विश्वास रखकर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाको शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके समूहको अथवा सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करता है ॥६१३-६१६॥ अब रावण खुला युद्ध छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाशरूपो आँगनमें जा पहुँचा ॥६१७॥ उस माया-युद्धमें रावणको दुरीक्ष्य ( जो देखा न जा सके ) देखकर, अत्यन्त चतुर राम और लक्ष्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुड़वाहिनी विद्याओंके द्वारा अर्थात् इन विद्याओंके द्वारा निर्मित—आकाशगामी सिंह और गरुड़पर आरूढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए । सुग्रीव, अणुमान् आदि अपने पक्षके समस्त विद्याधरोंकी सेना भी उनके साथ थी । रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके साथ लक्ष्मण, कुम्भकर्णके साथ सुग्रीव, रविकीर्तिके साथ अणुमान्, खरके साथ कमलकेतु, इन्द्रकेतुके

१ वीक्ष्यमाणस्य क०, ख०, ग०, म० । २ 'अमान् इमाः' इति पदच्छेदः अमान्-शोभन्ते स्म, इमा गमा । ३ विनोताभ्या ल० ।



इन्द्रवर्माभिधानेन कुमुदो युद्धविश्रुतः । खरदूषणान्नापि नीलो मायाविशारदः ॥६२३॥  
 पृथ्वयःपि तैरन्ध्रे रामभृत्या रणोद्धताः । दशास्पनायकैः सार्द्धं मायायुद्धमकुर्वत ॥६२४॥  
 तदा रामेण संग्रामे परिभूतं<sup>१</sup> दशाननम् । अवलोक्येन्द्रजिन्मर्ष्यं प्राविशद्वाह्यैर्जावितम् ॥६२५॥  
 तं<sup>२</sup> शक्त्यापातयद् रामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कुपित्वाधावदुद्दिश्य सशस्त्रं लक्ष्मणाग्रजम् ॥६२६॥  
 तन्मध्ये लक्ष्मणस्तूर्णमभूत् दशकन्धरः । मायागजं समाह्वय व्यधाशाराचपञ्जरं ॥६२७॥  
 प्रहारावरणेनापि प्रतापी गरुडध्वजः । सिंहपोत इव दस्रो दुर्निवारोऽरिवारणैः ॥६२८॥  
 तत्पञ्जरं विभिद्यत्सौ निर्ययौ निजविद्यया । दृष्ट्वा तद्गावणः क्रुद्ध्वा प्रतीतं चक्रमादिशात् ॥६२९॥  
 सिंहनादं तदा कुर्वन् गगने नारदाद्यः । बाहौ प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे स्वस्य तिष्ठता ॥६३०॥  
 चक्रेण विक्रमेणेव मूर्त्तौभूतेन चक्रिणा । तेन तेन शिरोऽप्राहि त्रिखण्डं वा खगेशितुः ॥६३१॥  
 सोऽपि प्रागेव बद्धायुर्द्वाराचारादधोगतिम् । प्रापदापत्करी घोरं पापिनं का परा गतिः ॥६३२॥  
 विजयाब्जं समापूर्य केशवो विश्वविद्विषाम् । अभयं घोषयामास स धर्मो जितभूषणाम् ॥६३३॥  
 तदावशिष्टपौलस्त्यमहामात्राद्योऽल्लिचत् । मलिना बलचक्रेशपापङ्कजमाश्रयन् ॥६३४॥  
 मन्दोदर्यादितद्देवीदुःखनोदनपूर्वकम् । विभीषणाय लङ्कैश्यपट्टवन्धं<sup>३</sup> विधाय सौ ॥६३५॥  
 दशकण्ठानत्रयाथावतिश्वभुक्तिं वितेरतुः । अभूतां च त्रिखण्डेशौ प्रचण्डौ बलकेशवौ ॥६३६॥

साथ अंगद, इन्द्रवर्माके साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद और खरदूषणके साथ माया करनेमें नील युद्ध कर रहे थे। इसी प्रकार युद्ध करनेमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य रावणके मुखिया लोगोंके साथ माया-युद्ध करने लगे ॥६१८-६२३॥ उस समय इन्द्रजीतने कि रामचन्द्रजी युद्धमें रावणको दबाये जा रहे हैं—उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह रा प्राणोंके समान बीचमें आ घुसा ॥६२३॥ परन्तु रामचन्द्रजीने उसे शक्तिकी चोटसे गिरा यह देख रावण कुपित होकर शस्त्रोंसे सुशोभित रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा ॥६२४॥ इसी व लक्ष्मण बड़ी शीघ्रतासे उन दोनोंके बीचमें आ गया और रावणने मायामयी हाथीपर होकर उसे नाराच-पंजरमें घेर लिया। अर्थात् लगातार बाण वर्षा कर उसे ढँक लिया ॥६ परन्तु गरुडकी ध्वजा फहरानेवाला लक्ष्मण प्रहरणावरण नामकी विद्यासे बड़ा प्रतापी वह सिंहके बन्धेके समान दृप्त बना रहा और शत्रुरूपी हाथी उसे रोक नहीं सके ॥६२६॥ अपनी विद्यासे नाराच-पंजरको तोड़कर बाहर निकल आया। यह देख रावण बहुत हुआ और उसने क्रोधित होकर विश्वासपात्र चक्ररत्नके लिए आदेश दिया ॥६२७॥ उसी नारद आदि आकाशमें सिंहनाद करने लगे। वह चक्ररत्न मूर्तिधारी पराक्रमके समान प्रद देकर लक्ष्मणके दाहिने हाथपर आकर ठहर गया। तदनन्तर चक्ररत्नको धारण करने लक्ष्मणने उसी चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका सिर काटकर अपने अधीन कर ॥६२८-६२९॥ रावण, अपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था। दुःख देनेवाली भयंकर (अधोगति) नरक गतिको प्राप्त हुआ सो ठीक ही है, क्योंकि, मनुष्योंकी और क्या गति हो सकती है? ॥६३०॥ तदनन्तर लक्ष्मणने विजय-शंख व-समस्त शत्रुओंको अभयदानकी घोषणा को सो ठीक ही है। क्योंकि, राजाओंको जीत विजयी राजाओंका यही धर्म है ॥६३१॥ उसी समय रावणके बचे हुए महासन्त्री अ भ्रमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया ॥ रावणकी मन्दोदरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम लक्ष्मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकी वंश-परम्परासे आयी हुई विभूति उसे प्रदान कर दी। इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र और नारायण होकर तीन बलशाली स्वामी हुए ॥६३३-६३४॥

१ मायायुद्धं मकुर्वत, म०, ल० । २ परिभूतदशाननम् ख० । ३ शत्रुयाथावतयद्राम ल० । ४ रावणेशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेशु, ग० । ५ विजयशंखम् । ६ सदावशिष्ट ल० । ७ लङ्कै बन्धं घ० । ८ आभूतां ल० ।

अथ शीलवतीं सीतामशोकवनमध्यगाम् । संग्रामविजयाकर्णनोदीर्णप्रमदान्विताम् ॥ ६३५ ॥  
 रावणानुजमुग्रचपवमानागमजादयः । गत्वा यथोचितं दृष्ट्वा ज्ञापयित्वा जवोत्सवम् ॥ ६३६ ॥  
 समयुजत रामेण समं लक्ष्मीमिवापराम् । महामणिं वा हारेण कुशलाः कवयोऽथवा ॥ ६३७ ॥  
 वाचं मनोहरार्थेन सन्तो धर्मेण वा धियम् । सञ्ज्वल्यमित्रसंवन्धाद् भवन्तीपिततसिद्धयः ॥ ६३८ ॥  
 बहन्ती जानको दुःखसां प्राणप्रियदर्शनात् । रामोऽपि तद्विद्योगोत्थशोकन्याकुलिताशयः ॥ ६३९ ॥  
 तौ परःपरःसंदर्शात्परं प्रीतिमवापनुः । तृतीयप्रकृतिं प्राप्य नृपो वा सापि वा नृपम् ॥ ६४० ॥  
 आरभ्य त्रिरहाद्दृष्टं यद्यत्तददृष्टवाम् । अन्योन्यमुखदुःखानि निवैद्य सुखिनः प्रिया ॥ ६४१ ॥  
 कृतदोषो हनः सीता निर्दोषेति निरूप्य ताम् । स्व्यकरोद्वाधवः सन्तो विचारानुचराः सदा ॥ ६४२ ॥  
 ततोऽरिखे तुरोऽगच्छस्फुरशीठगिरौ स्थितः । अत्रैवाभिषवं प्राप्य सर्वतीर्थसंभ्रुसंभृतैः ॥ ६४३ ॥  
 अष्टोत्तरसहस्रोत्सवर्णककनौमुदा । देवविद्याधाराधीशः स्वहस्तेन समुद्धृतैः ॥ ६४४ ॥  
 कोटिकाख्यशिलां तस्मिन्नुज्जहं राघवानुजः । तन्माहात्म्यप्रनुष्टः सच्च सिंहनादं व्यधाद्वज्रकः ॥ ६४५ ॥  
 तन्निसासी सुनन्दार्णवो यक्षः संपूज्य तौ मुदा । अस्मि सौमन्दर्कं नाम्ना समानं चक्रिणोऽदित ॥ ६४६ ॥  
 अनुगृह्यं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपणे । वने निवेश्य शिविरं रथमावृणु चक्रभृत् ॥ ६४७ ॥  
 गोपुरेण प्रविश्याद्विधे निजनामाङ्कितं शरम् । मागधावासमुद्दिश्य न्यमुञ्जत् कुञ्जितक्रमः ॥ ६४८ ॥  
 मागधोऽपि शरं व्रीक्ष्य मत्वा स्व स्वल्पपुण्यकम् । अस्मिष्टवन् महापुण्यश्चक्रवर्तीति लक्ष्मणम् ॥ ६४९ ॥

नदनन्तर जो अशोक वनके मध्यमे बैठी है, और संग्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार सुननेसे प्रकट हुए हर्षसे युक्त है ऐसी शीलवती सीताके पास जाकर विभीषण, सुग्रीव तथा अणुमान् आदिने उसके यथायोग्य दर्शन और विजयोत्सवकी खबर सुनायी ॥६३५-६३६॥ तत्पश्चात् जिस प्रकार कुशल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथवा कुशल कवि शब्दको मनोहर अर्थके साथ अथवा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलाते हैं उसी प्रकार उन विभीषण आदिने दूसरी लक्ष्मीके समान सीताजीको रामचन्द्रजीके साथ मिलाया । सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम भृत्य और मित्रोंके सम्बन्धसे दृष्ट-सिद्धियाँ ही ही जाती हैं ॥ ६३७-६३८ ॥ उधर जबतक रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं हो गया था तबतक सीता दुःखको धारण कर रही थी और इधर रामचन्द्रजीका हृदय भी सीताके वियोगसे उत्पन्न होनेवाले शोकसे व्याकुल हो रहा था । परन्तु उस समय परस्पर एक-दूसरेके दर्शन कर दोनों ही परम प्रीतिको प्राप्त हुए । रामचन्द्रजी तृतीय प्रकृतिवाली शान्त स्वभाववाली सीताको और सीता शान्त स्वभावाले राजा रामचन्द्रजीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥६३९-६४०॥ विरहसे लेकर अबतकके जो-जो वृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेसे पूछे सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दूसरेको अपना सुख-दुःख बतलाकर ही सुखी होते हैं ॥६४१॥ 'जिसने दोष किया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष है' ऐसा विचार कर रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया । सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार ही काम करते हैं ॥६४२॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्दरपीठ नामके पर्वतपर ठहरे । वहाँपर देव और विद्याधरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए सुवर्णके एकहजार आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दोनोंको बड़े हर्षसे अभिषेक किया । वहीपर लक्ष्मणने कोटि-शिला उठायी और उसके माहात्म्यसे सन्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ॥६४३-६४५॥ वहाँके रहनेवाले सुनन्द नामके यक्षने उन दोनोंकी बड़े हर्षसे पूजा की और लक्ष्मणके लिए बड़े सम्मानसे सौमन्दर्क नामकी तलवार दी ॥६४६॥ तदनन्तर दोनों भाइयोंने गंगा नदीके किनारे-किनारे जाकर गंगाद्वारके समीप ही वनमें सेना ठहरा दी । लक्ष्मणने रथपर सवार हो गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश किया और पैरको कुछ टेढ़ा कर मागध देवके निवास-स्थानकी ओर अपने नामसे चिह्नित बाण छोड़ा ॥६४७-६४८॥ मागध देवने भी बाण देखकर अपने-आपको

रत्नहारं त्रिरीटं च कुण्डलं शरमप्यमुम् । तीर्थान्मुपूर्णकुम्भान्तर्गतमस्मै ददौ सुरः ॥६५०॥  
 ततोऽनुजलधिं गत्वा वैजयन्ताख्यगोपुरे । वशोकृत्य यथा प्राच्यं तथा वरतजुं च तम् ॥६५१॥  
 कटकं साङ्गदं चूलामणिं मौलिविभूषणम् । ग्रैवेयकं ततश्चक्री कटिसूत्रं च लब्धवान् ॥६५२॥  
 ततः प्रतीचीभागस्य सबलः सिन्धुगोपुरे । प्रविश्यान्धिं प्रभासं च विनतीकृत्य पूर्ववत् ॥६५३॥  
 माकां संतानकाख्यानां मुक्ताजालप्रकम्बकम् । श्वेतच्छत्रं ततो भूषणान्यन्यान्यपि चाददौ ॥६५४॥  
 ततः सिन्धोस्तटे गच्छन् प्रतीचीखण्डवासिनः । स्वकीयां श्रावयित्वाश्रां सारवस्तुनि चाददत् ॥६५५॥  
 ऐन्द्रस्यामिमुखो भूत्वा विजयाधनिवासिनः । विनमस्य गजाश्वान्निघाधरकुमारिका ॥६५६॥  
 रत्नानि चात्मसात्कृत्य पूर्वखण्डनिवासिनः । विधाय करदान् स्लेच्छान् विजयी निर्गतस्ततः ॥६५७॥  
 द्विगुणाष्टसहस्राणि पट्टबन्धान् महीभुजः । दशोत्तरभाताख्यातपुराधीशान् खगेशिनः ॥६५८॥  
 त्रिखण्डवासिदेवांश्च विधायान्निघाधिनः । द्वाचत्वारिंशद्वन्द्यान्ते परिनिष्ठितद्विजयः ॥६५९॥  
 कृताञ्जलिनिरासेभ्यो देवखेचरभूचरैः । अग्रजामेसरश्चक्री सचक्रः सर्वपूजितः ॥६६०॥  
 कृतमङ्गलनेपथ्यां प्रार्थ्यमानसमागमाम् । कान्तामिव विनीतां तां शक्रवत्प्राविशत्पुरीम् ॥६६१॥  
 कर्मगोचरसंशुद्धशुभवेकादिसिन्धौ । नरविद्याधरा न्यन्तराधिप्रमुखाः समम् ॥६६२॥  
 सिंहासनं समारोप्य श्रीमन्तौ रामलक्ष्मणौ । तीर्थान्मुपूर्णसौवर्णसहस्राष्टमहाघटैः ॥६६३॥  
 अभिविच्य त्रिखण्डाधिराभ्ये संपूजितौ युवाम् । प्रवर्धमानलक्ष्मीकावाशास्त्वयशोयुषौ ॥६६४॥

अल्प पुण्यवान् माना और यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती है ऐसा समझकर लक्ष्मणकी की। यही नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस बाणको तीर्थ-जलसे भरे कलशके भीतर रखकर लक्ष्मणके लिए भेंट किया ॥६४९-६५०॥ तदनन्तर समुद्रके किनारे-चलकर वैजयन्त नामक गोपुरपर पहुँचे और वहाँ पूर्वकी भाँति वरतनु देवको वश ॥६५१॥ उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तकको सुशोभित करनेवाला चूलामणि, और कटिसूत्र प्राप्त किया ॥६५२॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ-ही-साथ लक्ष्मण पति दिशाकी ओर गया और वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश कर उसने पूर्वकी भाँति प्रभास नामके देवको वश किया ॥६५३॥ प्रभास देवसे लक्ष्मणने सन्तानक नाम माला, जिसपर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, और अन्य-अन्य आ प्राप्त किये ॥६५४॥ तत्पश्चात् सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके खण्डमें रहनेवाले लोगोंको अपनी आज्ञा सुनायी और वहाँकी श्रेष्ठ वस्तुओंको ग्रहण कि ॥६५५॥ फिर दोनों भाई पूर्व दिशाकी ओर सम्मुख होकर चले और विजयाधर पर्वतपर र वाले लोगोंको वश कर उसने हाथी, घोड़े, अश्व, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त कि पूर्व खण्डमें रहनेवाले स्लेच्छोको कर देनेवाला बनाया और तदनन्तर विजयी होकर वहा बाहर प्रस्थान किया ॥६५६-६५७॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्टबन्ध राजाओंको, सौ दस नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको और तीन खण्डके निवासी देवोंको आज्ञाकारी बन था। उसकी यह दिग्विजय बयालीस वर्षमें पूर्ण हुई थी। देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी रा हाथ जोड़कर सेवा करते थे। इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलनेवाले च रत्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लक्ष्मणने, मांगलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समाग प्रार्थना करनेवाली कान्ताके समान उस अयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया ॥६५ ६६१॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ मुहूर्तके आनेपर मनुष्य, विद्याधर और ० देवोंके मुखिया लोगोंने एकत्रित होकर श्रीमान् राम और लक्ष्मणको एक ही साथ सिंहासन विराजमान कर उनका तीर्थजलसे भरे हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशों अभिषेक किया। इस प्रकार उन्हें तीन खण्डके साम्राज्यपर विराजमान कर प्रार्थना की आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहे और आपका वश दिशाओंके अन्त तक फैल जावे। प्रार्थना करने बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट वाँधे, मणिमय आभूषण पहिनाये और बड़े-बड़े आशीर्वादाने

हृद्यारोपितरत्नोत्सुकुटौ मणिभूषणौ । अङ्कृत्य महाशीमिः<sup>१</sup> पूजयामासुत्सुकाः ॥ ६६५ ॥  
 पृथिवीसुन्दरीमुख्या केशवस्य मनोरमाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देव्यः सत्योऽभवन् श्रियः ॥ ६६६ ॥  
 सीताद्यष्टसहस्राणि रामस्य प्राणवहलभाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देशास्त्वावन्महीभुजः ॥ ६६७ ॥  
 शून्यं पञ्चाष्टरन्ध्रोक्तख्याता द्रोणमुखः स्मृताः<sup>२</sup> । पत्तनानि सहस्राणि पञ्चविंशतिसंख्यया ॥ ६६८ ॥  
 कर्बटाः खत्रयद्वयेकप्रमिताः प्रार्थितार्थदाः । मटम्बास्तत्प्रमाणाः स्युः सहस्राण्यष्ट खेटकाः ॥ ६६९ ॥<sup>३</sup>  
 शून्यपत्तकवस्वविभिता ग्रामा महाफलाः । अष्टाविंशमिता द्वीपाः समुद्रान्तर्वर्तिनः ॥ ६७० ॥  
 शून्यपत्तकपक्षाब्धिभितास्तुङ्गमतङ्गजाः । रथवयांस्तु तावन्तो नवकोट्यस्तुरंगमाः ॥ ६७१ ॥  
 खसप्तकद्विधाभुक्ता युद्धसौष्टवाः पदातयः । देवाश्चाष्टसहस्राणि गणबद्धामिमानकाः ॥ ६७२ ॥  
 हलायुधं महारत्नमपराजितनामकम् । अमोघाख्याः शारास्तीक्ष्णा संज्ञया कौमुदी गदा ॥ ६७३ ॥  
 रत्नावर्तसिका माला रत्नान्येतानि सौरिणः । तानि यक्षसहस्रेण रक्षितानि पृथक् पृथक् ॥ ६७४ ॥  
 चक्रं सुदर्शनाख्यानं कौमुदीस्युदिता गदा । अग्निः सौनन्दकोऽमं.बमुखौ शक्तिः शारासनम् ॥ ६७५ ॥  
 शार्ङ्गं पञ्चमुखः पाञ्चजन्यः शङ्खो महाध्वनिः । कौस्तुभं स्वप्रभानारत्नासमानं महामणिः ॥ ६७६ ॥  
 रत्नान्येतानि ससैव केशवस्य पृथक् पृथक् । सदा यक्षसहस्रेण रक्षितान्यमित्तद्युतेः ॥ ६७७ ॥  
 एवं तपोर्महाभागधेययोर्मोर्गसंपदा । निमग्नयोः मुखाम्मोघौ काले गच्छन्त्यथान्यदा ॥ ६७८ ॥  
 जिनं मनोहरोद्याने शिवगुप्तसमाह्वयम् । विनयेन समासाद्य पूजयित्वाभिबन्ध तम्<sup>४</sup> ॥ ६७९ ॥  
 श्रद्धालुधर्मप्राक्षीद्वीमान् रामः सकेशव । प्रत्यासत्तात्मनिष्ठत्वात्किण्ठितार्थं<sup>५</sup> निरञ्जनम् ॥ ६८० ॥

अलंकृत कर उत्सुक हो उनकी पूजा की ॥६६२-६६५॥

लक्ष्मणके पृथ्वीसुन्दरीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतिव्रता रानियाँ थीं और रामचन्द्रजीके सीताको आदि लेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानियाँ थीं । सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके अधीन थे । नौ हजार आठ सौ पचास द्रोण-मुख थे, पचीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले बारह हजार कर्बट थे, बारह हजार मटम्ब थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले अष्टतालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके भीतर रहनेवाले अट्टाईस द्वीप थे, बयालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नव क्रोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शूर-वीर बयालीस करोड़ पैदल सैनिक थे और आठ हजार गणबद्ध नामके देव थे ॥ ६६६-६७२ ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोघ नामके तीक्ष्ण बाण, कौमुदी नामकी गदा और रत्नावर्तसिका नामक माला ये चार महारत्न थे । इन सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यक्षदेव रक्षा करते थे ॥ ६७३-६७४ ॥ इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र, कौमुदी नामकी गदा, सौनन्दक नामका खड्ग, अमोघमुखी शक्ति, शार्ङ्ग नामका धनुष, महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पाँचजन्य नामका शंख और अपनी कान्ति-के भारसे शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले लक्ष्मणके थे और सदा एक-एक हजार यक्ष देव उनकी पृथक्-पृथक् रक्षा करते थे ॥ ६७५-६७७ ॥

इस प्रकार सुखरूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग और सम्पदाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त नामके जिनराज पधारै । श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान् राम और लक्ष्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर उनकी पूजा-बन्दना की । तदनन्तर आत्म-निष्ठाके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृत्य एवं कर्ममल

१ वर्षयामासु ख०, ग०, घ० । २ म० पुस्तकेऽय पाठो मूले मिलितः, क० पुस्तके त्वञ्चलिकायां लिखितः, अन्यत्र नास्त्येव । 'ग्रामो वृत्त्यावृतः स्यान्नगरमुरुचतुर्गोपुरोद्भासिसालं, खेट नचद्विवेष्ट परवृत्तमभितः कर्बट पत्तनेन । ग्रामैर्युक्त मग्न्धं दलितदशशतं. पत्तन रत्नयोनिः, द्रोणास्य सिन्धुवेलावलयवलयित वाहन चाद्रि-रुचम्' । ३ अष्टद्विसमिता-ल० । ४ खग्रास्तीक्ष्णा ल० । ५ मेघमुखी क०, ग०, ख० । ६-बन्धतां ख० । ७ निष्ठितार्थनिरञ्जनं क०, ख० । निष्ठितार्थो निरञ्जनः ल० ।

मन्यानुग्रहसुखात्मप्रवृत्तिः सोऽप्यभाषत । स्ववाक्प्रसरसज्योत्सना समाह्लादिततत्समः ॥ ६८१ ॥  
 प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैर्ज्ञानहेतुभिः । गुणमुख्यनयादानविशेषबलकामतः ॥ ६८२ ॥  
 स्याच्छब्दलाञ्छितास्तित्वनास्तित्वाद्यन्तसंततम् । जीवादीनां पदार्थानां तत्त्वमाप्तस्वबलक्षयम् ॥ ६८३ ॥  
 मार्गणा गुणजीवानां समाप्तं संसृतिस्थितम् । अन्यच्च धर्मसंबन्धं व्यक्तं युक्तिसमाश्रितम् ॥ ६८४ ॥  
 कर्मभेदान् फलं तेषां सुखदुःखादिभेदकम् । बन्धमोचनयोर्हेतु स्वरूपं मुक्तिमुक्तयोः ॥ ६८५ ॥  
 इति धर्मविशेषं तत् ततः श्रुत्वा मनीषिणः । सर्वे रामादयोऽभूवन् गुहीतोपासकप्रताः ॥ ६८६ ॥  
 निदानशल्यदोषेण भोगासक्तः स केशवः । ब्रह्मायुर्नारकं घोरं नागृहीदृशनादिकम् ॥ ६८७ ॥  
 एवं संवत्सराज्ञोत्वा साकेते कतिचित्सुखम् । तदाधिपत्यं भरतशत्रुघ्नाभ्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥  
 स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम् । प्राविक्षतामधिक्षिप्य शकलीलां स्वसंपदा ॥ ६८९ ॥  
 सुतो विजयरामाख्यो रामस्यामरसंनिभः । पृथिवीचन्द्रनामाभूच्छन्द्रामः केशवस्य च ॥ ६९० ॥  
 अन्यैश्च पुत्रपौत्राद्यैः परीतौ तौ धृतोदयौ । नयतः स्म सुखं कालं त्रिवर्गफलशालिनौ ॥ ६९१ ॥  
 कदाचित् लक्ष्मणो नागवाहिनीशयने सुखम् । सुतो न्यग्रोधवृक्षस्य भङ्गनं मत्तदन्तिना ॥ ६९२ ॥  
 सैहिकेयनिर्गणार्करसातलनिवेशनम् । सुधाधवलितोच्चुङ्कप्रसादैकांशविच्युतिम् ॥ ६९३ ॥  
 स्वप्ने दृष्ट्वा समुत्थाय समासाद्य निजाग्रजम् । स्वप्नान् संश्रयं सर्वान् यथादृष्टान्यवेदयत् ॥ ६९४ ॥  
 पुरोहितस्तदाक्षर्यं फलं तत्रेत्यमब्रवीत् । न्यग्रोधोन्मूलनाद् व्याधिमसाथं केशवो ब्रजेत् ॥ ६९५ ॥

कलंकसे रहित उक्त जिनराजसे धर्मका स्वरूप पूछा ॥ ६७८-६८० ॥ भव्य जीवोका अ करना ही जिनका मुख्य कार्य है ऐसे शिवगुप्त जिनराज भी अपने वचन-समूहरूपी उक्त चन्द्रिकासे उस सभाको आह्लादित करते हुए कहने लगे ॥ ६८१ ॥ कि इस संसारमें जीवादि नौ पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय निक्षेप तथा निर्देश आदि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्ति कारण हैं बोध होता है। गौण और मुख्य नयोंके स्वीकार करने रूप बलके मिल जाने 'स्यादस्ति,' 'स्यान्नास्ति' आदि भंगो-द्वारा प्रतिपादित धर्मोंसे वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रह हैं। इनके सिवाय शिवगुप्त जिनराजने आप्त भगवान्का स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जी समाप्त, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्ययुक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मोंके भेद, दुःखादि अनेक भेद रूप कर्मोंके फल, बन्ध और मोक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप आदि विविध पदार्थोंका विवेचन भी किया। इस प्रकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप सुनकर रा चन्द्रजी आदि समस्त बुद्धिमान् पुरुषोंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ ६८२-६८६ ॥ परन्तु भोगों आसक्त रहनेवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके कारण नरककी भयंकर आयुका वन कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दर्शन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया ॥ ६८७ ॥ इस प्रका राम और लक्ष्मणने कुछ वर्ष तो अयोध्यामें ही सुखसे बिताये तदनन्तर वहाँका राज्य भर और शत्रुघ्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारके साथ बनारस चले गये और अप सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको तिरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ६८८-६८९ ॥ रामचन्द्रके देव समान विजयराम नामका पुत्र था और लक्ष्मणके चन्द्रमाके समान पृथिवीचन्द्र नामका पु उत्पन्न हुआ था ॥ ६९० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग फलसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र और लक्ष्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे सम बिताते थे ॥ ६९१ ॥ किसी एक दिन लक्ष्मण नागवाहिनी शय्यापर सुखसे सोया हुआ था वहाँ उसने तीन स्वप्न-देखे—पहला मत्त हाथीके द्वारा बट वृक्षका उखाड़ा जाना, दू राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसातलमें चला जाना और तीसरा चूनासे सफेद किये हुए ऊँचे राजभवनका एक देश गिर जाना। इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचन्द्रज पास गया और विनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन गया ॥ ६९२-६९४ ॥ पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, बट वृक्षके उखड़ने से लक्ष्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा, राहुके द्वारा प्रसत सूर्यके गिरनेसे उसके भाग्य, भो

राहुप्रस्ताकैसंपाताद् भाग्यभोगाद्युषां क्षयः । सुहृद्ग्रासादमङ्गलं त्वं प्रयाता तपोवनम् ॥ ६६६ ॥  
 इत्येकान्ते वचस्तस्य श्रुत्वा रामो यथार्थवित् । धीरोदात्ततया नाथात् मनगापि मनःक्षतिम् ॥ ६६७ ॥  
 लोकद्वयहितं सत्त्वा कार्याभासं घोषणाम् । प्राणिनो महि हन्तव्याः कैश्चित्ते द्वयोद्यतः ॥ ६६८ ॥  
 चकार शान्तिपूजां च सर्वज्ञसवनावधिम् । ददौ दानं च दीनेभ्यो येन यद्यदमीप्सितम् ॥ ६६९ ॥  
 बभूव क्षीणपुण्यस्य ततः कतिपर्यैर्दिनेः । केशवस्य महाव्याधिरसातोद्यचोदितः ॥ ७०० ॥  
 दुःसाधेनामयेनासौ माघे मास्यसितेऽन्तिदे । दिने तेनागमञ्चक्री पृथ्वीं पङ्कप्रभाभिधाम् ॥ ७०१ ॥  
 तद्वियोगेन शोकान्तिस्ततहृदयो बलः । कथं कथमपि ज्ञानाःसंधार्याऽमानमात्मना ॥ ७०२ ॥  
 कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । सर्वान्तःपुरदुःखं च प्रशमय्य प्रसन्नवाक् ॥ ७०३ ॥  
 सर्वप्रकृतिसान्निध्ये पृथिवीं सुन्दरीसुते । ज्येष्ठे राज्यं विधाथोद्यैः सपट्टं केशवात्मजे ॥ ७०४ ॥  
 अष्टौ विजयरामाद्याः सीतायाः सात्त्विकाः सुताः । लक्ष्मीमननिवाञ्छसु तेषां ज्येष्ठेषु सप्तसु ॥ ७०५ ॥  
 दस्वाजितञ्जयाख्याय योवराज्यं कनीयसे । मिथिलामर्पयित्वास्मै त्रिनिबंदपरायणः ॥ ७०६ ॥  
 साकेतपुरमभ्येत्य वने सिद्धार्थनामनि । वृषभस्वामिनिष्कान्तितीर्थभूमौ महौजसः ॥ ७०७ ॥  
 शिवगुप्ताभिधानस्य समीपे केवलेशिनः । संसारमोक्षयोर्हेतुफलं सम्यक् प्रबुद्धवान् ॥ ७०८ ॥  
 निदानशल्यदोषेण चतुर्धा नारकीं भुवम् । केशवः प्राप्त इत्येतद्वृध्वाऽस्मादेव सुहृदधीः ॥ ७०९ ॥  
 निरस्ततद्गतस्नेहविधिरामिनिबोधिकात् । वेदात्प्रादुर्भवंदबोधिः सुग्रीवाणुसदादिभिः ॥ ७१० ॥

और आयुका क्षय सूचित करता है तथा ऊँचे भवनके गिरनेसे आप तपोवनको जावेगे ॥ ६९५-६९६ ॥ पदार्थको यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह वचन एकान्तमें सुने परन्तु धीर-वीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकारभावको प्राप्त नहीं हुए ॥ ६९७ ॥ तदनन्तर दयामें उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका हितकर मानकर यह घोषणा करो दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥ ६९८ ॥ इसके सिवाय उन्होंने सर्वज्ञ देवका स्तनपन तथा शान्ति-पूजा को और दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया ॥ ६९९ ॥ तदनन्तर जिसका पुण्य क्षीण हो गया है ऐसे लक्ष्मणको कुछ दिनोंके बाद असाता वेदनीय कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ ॥ ७०० ॥ उसी असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका स्वामी लक्ष्मण मरकर माघ कृष्ण अमावस्याके दिन चौथी पंचप्रभा नामकी पृथिवीमें गया ॥ ७०१ ॥ लक्ष्मणके वियोगसे उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसे रामचन्द्रजीने ज्ञानके प्रभावसे किसी तरह अपने-आप आत्माको सुस्थिर किया, छोटे भाई लक्ष्मणका विधिपूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूर्ण वचन कहकर समस्त अन्तःपुरका शोक शान्त किया ॥ ७०२-७०३ ॥ फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने पृथिवीसुन्दरी नामकी प्रधान रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणके बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पट्ट बाँधा ॥ ७०४ ॥ सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताके विजयराम आदिक आठ पुत्र थे । उनमें-से सात बड़े पुत्रोंने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितंजय नामके छोटे पुत्रके लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे विरक्त हो गये ॥ ७०५-७०६ ॥ विरक्त होते ही वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस वनमें पहुँचे जो कि भगवान् वृषभदेवके दीक्षाकल्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया था । वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामके केवलीके समीप संसार और मोक्षके कारण तथा फलको अच्छी तरह समझा ॥ ७०७-७०८ ॥ जब उन्हें इन्हीं केवली भगवान्से इस बातका पता चला कि लक्ष्मण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गयी । तदनन्तर जिन्होंने लक्ष्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है और आभिनिबोधिक-मतिज्ञानसे

१ योग्यभोगा—७० । २ घोषणम्- ग०, म०, ल० । ३ सुन्दरे सुते- ७० । ४ परायणैः ७० ।  
 ५ बुदा देवो विशुद्धव- ७० ।

विभीषणादिभिश्चामा भूमिपैः पञ्चभिः शतैः । अशीतिशतयुत्रैश्च सह संयममाप्तवान् ॥७११॥  
 तथा सीतामहादेवी पृथिवीसुन्दरीयुताः । देव्यः श्रुतवती क्षान्तिनिकटे तगसि स्थिताः ॥७१२॥  
 तौ राजयुवराजौ च गृहीतश्रावकप्रतौ । जिनाङ्घ्रिप्रपुगममानस्य सस्यक् प्राविशतौ पुरीम् ॥७१३॥  
 मोक्षमार्गमनुष्ठाय यथाशक्ति यथाविधि । रामाणुमन्तौ संजावौ श्रुतकेवलिनौ मुनी ॥७१४॥  
 जाताः शेषाश्च बुद्ध्यादिसप्तर्ष्याविकृतोदयाः । एवं छद्मस्थकालेऽस्य पञ्चाब्दोत्तमचतुःशतैः ॥७१५॥  
 व्यतीतवति सद्ध्यानविशेषाद्भवतिनाः । रामस्य केवलज्ञानमुदपायकविभवत् ॥७१६॥  
 समुद्रगतैकछन्नादिप्रातिहार्यविभूषितः । असिञ्जन्न्यसस्यानां वृष्टिं धर्ममयीमसौ ॥७१७॥  
 एवं केवलबोधेन नीत्वा षट्शतवत्सरान् । फाल्गुने मासि पूर्वाह्ने शुक्लपक्षे चतुर्दशी ॥७१८॥  
 दिने संमेदगिर्यग्रे तृतीयं शुक्लमाश्रितः । योगत्रितयमारुह्य समुच्छिन्नक्रियाश्रयः ॥७१९॥  
 निःशेषन्यक्कृतातिकर्मां सोऽणुमदादिभिः । शरीरत्रितयापायादावपस्पदमुत्तमम् ॥७२०॥  
 विभीषणादयः केचित् प्रापन्ननुदिशं पुनः । रामचन्द्राप्रदेव्याद्याः काश्चिदीयुरितोऽच्युतम् ॥७२१॥  
 शेषाः कल्पेऽभवान्नादौ लक्ष्मणइवागतः क्रमात् । नरकात् संयमं प्राप्य मोक्षलक्ष्मीमवाप्स्यति ॥७२२॥  
 २..... । विनेयात्तस्य जन्तूनां भवेद्भैरव्यमीदृशम् ॥७२३॥

### वसन्ततिलका

प्रोच्छ्रद्धय गोपदमिवाभ्युनिधि स्वसैन्यै-

रुद्ध्वा रिपो. पुरमगारमिबैकमल्पम् ।

निर्मूल्य बैरिक्कलमादिवं सस्यमीष-

लक्ष्म्या सह क्षितिसुतामपहृत्य शत्रोः ॥७२४॥

जिन्हें वैराग्यकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने सुधीव, अणुमान् और विभीषणआदि पाँच राजाओं तथा एक सौ अस्सी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ॥७०६-७११॥ प्रकार सीता महादेवी और पृथिवीसुन्दरीसे सहित अनेक देवियोंने श्रुतवती आर्यिकाके स दीक्षा धारण कर ली ॥७१२॥ तदनन्तर जिन्होंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये हैं ऐसे राजा त युवराजने जिनेन्द्र भगवान्के चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रवेश ॥७१३॥ रामचन्द्र और अणुमान् दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक मोक्षमार्ग अनुष्ठान कर श्रुतकेवली हुए ॥७१४॥ शेष बचे हुए मुनिगज भी बुद्धि आदि सात ऋद्धिय ऐङ्गवर्थको प्राप्त हुए । इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तीन सौ पंचानवे वर्ष बीत गये शुक्लध्यानके प्रभावसे घालिया कर्मोंका क्षय करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूर्य-नि समान केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥७१५-७१६॥ प्रकट हुए एकछत्र आदि प्रातिहार्यसे विभू हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंको सींचा ॥७१७॥ इस प्रकार केवलज्ञानके द्वारा उन्होंने छह सौ वर्ष बितकर फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीके प्रातःकालके समय सम्मेदाचलके शिखरपर तीसरा शुक्लध्यान धारण किया और तीनों योंनि निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके आश्रयसे समस्त अधा कर्मोंका क्षय किया । इस प्रकार औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंका नाश जानेसे उन्होंने अणुमान् आदिके साथ उन्नत पद-सिद्ध क्षेत्र प्राप्त किया ॥७१८-७२०॥ विभी आदि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा लक्ष्मणकी पट्टरानियों तथा पृथिवीसुन्दरी आदि कितनी ही आर्यिकाएँ अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुईं ॥७२१॥ शेष रा प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुईं । लक्ष्मण नरकसे निकलकर क्रम-क्रमसे संयम धारण कर मो लक्ष्मीको प्राप्त होगा ॥७२२॥ सो ठीक ही है क्योंकि जीवोंके इसी प्रकारकी विचित्रता है ॥७२३॥ जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लंघन किया, जिन्होंने अपनी से शत्रुके नगरको एक छोटे-से घेरके समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रुके समस्त वंशको घ

शार्दूलविक्रीडितम्

आनम्राभरभूनभश्चरशिरःपीठेदृष्टताङ्घ्रिद्वयौ

निष्कण्ठीकृतदक्षिणार्धंभरताखण्डत्रिखण्डाधिपौ ।

साकेतं समधिष्ठितौ हतञ्जुचिम्रीद्वासिमास्वत्प्रभौ

दिक्प्रान्तद्विपद्वर्षसर्पशमनव्यग्रोप्रवीरश्रियौ ॥७२५॥

सीरादिप्रभृतिप्रसिद्धबिहसद्रत्नावलीरक्षित-

श्रीसंपादितभोगयोगसुखिनौ सर्वाधिस्तर्पकौ ।

चन्द्राकीविच तेजसा स्वयशसा विद्वं प्रकाश्य स्फुटं

श्रीमन्तौ बलकेशवौ क्षितिमिमां संपालय सार्धं चिरम् ॥७२६॥

वसन्ततिलका

एकखिलोकशिक्षरं सुखमध्यतिष्ठ-

दन्यश्चतुर्थनरकाबनिनायकोऽभूत् ।

भोग्ये समेऽपि परिणामकृताद्विशेषा-

न्मा तद्व्यधादद्बुधवत् सुबुधो<sup>१</sup> निदानम् ॥७२७॥

शार्दूलविक्रीडितम्

देशे सारसमुच्चये नरपतिर्देवो नरादिस्ततः

सौधर्म<sup>२</sup> निमिषोऽभवत्पुखनिधिस्तरमाच्युतोऽस्मिन्नभूत् ।

आक्रान्ताखिलखेचरोऽञ्जकशिरोमाको विनम्यन्वथे

स्त्रीलोको निजवंशकेतुरहिताचाराग्रणी रावणः ।७२८॥

खेतके समान शीघ्र ही निर्मूल कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुसे सीताको छीन लिया, जिनके दोनों चरण, नश्रीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोके मस्तकरूपी सिंहासनपर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अर्धभरत क्षेत्रको निष्कण्ठक बना दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा व्येष्ट मासके सूर्यकी प्रभाको भी तिरस्कृत करती थी । जिनकी वीरलक्ष्मी दिशाओंके अन्तमें रहने-वाले दिग्गजोंके गर्व-रूपी सर्पको शान्त करनेमें सदा व्यग्र रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा सुशोभित रत्नोंकी पंक्तिसे अनुरजित लक्ष्मीके द्वारा प्राप्त काये हुए भोगोंके संयोगसे जो सदा सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको सन्तुष्ट रखते थे, जो तेजसे चन्द्र और सूर्यके समान थे, और जिन्होंने अपने यशसे समस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान् बल-भद्र और नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र और लक्ष्मण चिरकाल तक साथ-ही-साथ इस पृथिवीका पालन करते रहे । उन दोनोंमें-से एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परिणामोंके द्वारा की हुई विशेषतासे तीन लोकके शिखरपर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ नरककी भूमिकां नायक हुआ । इसलिये आचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मुखके समान कर्मी भी निदान नहीं करना चाहिए ॥७२४-७२५॥ रावणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशमें नरदेव नामका राजा था । फिर सौधर्म स्वर्गमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुआ और तद-नन्तर वहाँसे न्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोंके देदीप्यमान मस्तकोंकी मालापर आक्रमण करनेवाला, स्त्रीलम्पट, अपने वंशको नष्ट करनेके लिए केतु ( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियोंमें अग्रेसर रावण हुआ ॥ ७२८ ॥

१ द्विपसर्पदंशमन ल० । २ प्रबुधो क०, घ० । ३ देवः ।





## एकोनसप्ततितमं पर्व

यस्य नामापि घर्तणां मुक्त्यै हृदयपङ्कजे । निर्गमयताक्षत्रान् भोक्षकक्ष्मीं स मद्धुज्ज्वलः ॥१॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे त्रिषथे वत्सनामनि । कौशाब्ध्यां नगरे राजा पार्थिवाख्यो विभुर्विशाम् ॥२॥  
 चक्षुरिक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीं वक्षःस्थले दधत् । साक्षाच्चक्रीव दिक्चक्रमाक्रम्यामात् स विक्रमी ॥३॥  
 तनूजस्तस्य सुन्दर्यां देव्यां सिद्धार्थनाममाक । मुनिं मनोहरोद्याने परमावधिवीक्षणम् ॥४॥  
 धृष्ट्वा मुनिवराख्यानं कदाचित् विनयानतः । संवृच्छथ धर्मसद्भावं यथावत्तदुदीरितम् ॥५॥  
 समाकर्ण्य समुत्पन्नसंवेगः स महीपतिः । स्तित्मूलधनेनाधमर्णो मृत्योरिहासुमृत् ॥६॥  
 बहून् दुःखानि तद्वृद्धिं सर्वो जन्मनि दुर्गतः । रत्नत्रयं समावर्ष्य तस्मै थावन्न दास्यति ॥७॥  
 ऋणं सवृद्धिकं तावत्कृतः स्वास्थ्यं कुतः सुखम् । इति निश्चित्य कर्मरौशिहन्तु विहितोद्यमः ॥८॥  
 सुताय श्रुतशास्त्राय प्रजापालनशालिने<sup>१</sup> । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्त्वा राज्यमुदात्तयोः ॥९॥  
 प्राञ्जलीत् पूज्यपादस्य मुनेर्मुनिवरश्रुतेः । पादमूलं समासाद्य सतां सा वृत्तिरिदशी ॥१०॥  
 सिद्धार्थो व्याप्तसम्भक्तो गृहीताणुव्रतादिकः । भोगान् सुखेन सुखानः प्रचण्डोऽपालयत्प्रजा ॥११॥  
 काले गच्छति तस्यैवं कदाचित् स्वगुरोर्मुनेः । श्रुत्वा शरीरसंभ्यासं विच्छिन्नविषयस्त्रहः ॥१२॥  
 सद्यो मनोहरोद्याने बुद्धत्वरार्थविरत्ति । महाबलानिघाख्यातात् केवलं भगमेक्षणत् ॥१३॥

अथानन्तर—भक्त लोगोके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिके लिए पर्याप्त है—मुक्ति देनेमें समर्थ है ऐसे नमिनाथ स्वामी हम सबके लिए शीघ्र ही भोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥१॥ इसी जन्मद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके वत्स देशमें एक कौशाब्धी नामकी नगरी है । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ वह इक्ष्वाकु वंशके नेत्रके समान था, लक्ष्मीको अपने वक्षःस्थलपर धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं-पर आक्रमण कर साक्षात् चक्रवर्तीके समान सुशोभित होता था ॥३॥ उस राजाके सुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका पुत्र हुआ था । एक दिन वह राजा मनोहर नामके उद्यानमें गया था । वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामके मुनिके दर्शन किये और विनयसे नष्ट होकर उनसे धर्मका स्वरूप पूछा । मुनिराजने धर्मका यथार्थ स्वरूप बतलाया उसे सुनकर राजाको वैराग्य उत्पन्न हो आया । वह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी मरण-रूपी मूलधन लेकर मृत्युका कर्जदार हो रहा है ॥४-६॥ प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंको भोगता और कर्जकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है—दुर्गतियोंमें पड़कर दुःख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है । जबतक यह प्राणी रत्नत्रयरूपी धनका उपार्जन कर मृत्युरूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तबतक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? वह सुखी कैसे रह सकता है ? ऐसा निश्चय कर वह कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेका उद्यम करने लगा ॥७-८॥ उत्कृष्ट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक शास्त्रोंके सुनने एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धार्थ नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पूज्यपाद मुनिवर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि सत्यरुहोकी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है ॥९-१०॥ प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर तथा अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगता हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥११॥

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराजका समाधिमरण सुना । समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गयी । उसने शीघ्र ही मनोहर नामके उद्यानमें जाकर महाबल नामक केवली भगवान्से तत्त्वार्थका विस्तार-

१-शीलने ल० । २ शिवं सुवी ल० । ३ महाबलानिघाख्याताकेवल-व०, म० । महाबलानिघाना-ध्यात् केवला-ल० ।

राज्यभारं समारोप्य श्रीदत्ते स्वसुते सति । कठघ्नायिकसम्यक्त्वः शमी संयममाददे ॥१३॥  
 स ध्रुवैकादशाङ्गानि बद्ध्वा षोडशकारणैः । अन्यनामादिकमणि पुण्यानि पुरुषोत्तमः ॥१५॥  
 स्वायुर्वन्ते समाराध्य विमाने कवसत्तमः । देवोऽपराजिते पुण्यादुत्तरेऽनुत्तरेऽभवत् ॥१६॥  
 त्रयस्त्रिंशत्पयोऽध्यायुरेकः रत्निसमुच्छ्रितः । निश्वासाहालेऽद्यादिमावैस्तत्रोत्तितैर्युतः ॥१७॥  
 जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन् षण्मासैरागमिष्यति । जम्बूद्वीपेऽक्षिते द्वीपे विषये वङ्गनामान् ॥१८॥  
 मिथिलायां महीपाठः शोमान् गोत्रेण काश्यपः । विजयादिमहाराजो विख्यातो वृषमान्वये ॥१९॥  
 अनुरक्तं व्यधात् क्लृप्तमुद्यत्त्रिव रविर्जगत् । स्वविरागाद् विरक्तं तत् सोऽतपस्तप्य तादृशम् ॥२०॥  
 अवृणीत गुणास्त्रितं कश्मीश सुकृतोदयात् । पुष्कलाविष्कियं तस्मिन् पुरुषार्थत्रयं ततः ॥२१॥  
 तस्य राज्ये रवावेव तापः कोपोऽपि कामिषु । विग्रहाख्या तनुष्वेव मुनिष्वेव विरागता ॥२२॥  
 परार्थग्रहणं नाम कुकविष्वेव बन्धनम् । काव्येष्वेव विवादश्च विद्वत्स्वेव जयाधिषु ॥२३॥  
 शरव्याप्तिः सत्स्त्वेव ज्योतिःस्त्वेवानवस्थितिः । क्रौर्यं क्रूरग्रहेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥२४॥

के साथ स्वरूप समझा ॥११-१३॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षा सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया और शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥१४॥ उस पुरुषो ग्यारह अंग धारण कर सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध ॥१५॥ और आयुके अन्तमें समाधिभरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर विमानमें शोभायमान देव हुआ ॥१६॥ वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा था, तथा श्वासोच्छ्वास, आहार, लेश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंके ि बतलाये गये हैं वह उन सबसे सहित था ॥१७॥ जब इस अहमिन्द्रके जीवनका अन्त और वह छह माह बाद वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूद्वीपसे सुशोभित जम्बूद्वीपके वङ्ग नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी। वहाँ भगवान् वंशज, काश्यपगोत्री विजयमहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य कर ॥१८-१९॥ जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य संसारको अनुरक्त—लालवर्णका कर ले उसी प्रकार उसने राज्यगदीपर आरूढ़ होते ही समस्त संसारको अनुरक्त—प्रसन्न कर लिये और ज्यों-ज्यों सूर्य स्वयं राग—लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों वह संसारको चिर लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी ज्यों-ज्यों विराग—प्र रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारको विरक्त—प्रसन्नतासे रहित करता जाता था । स यह है कि संसारकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि वैसा ही तप किया था और वैसा ही उसका प्रभाव था ॥२०॥ चूंकि पुण्य कर्मके उदयसे गुणोंके समूह तथा लक्ष्मीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म, अर्थ, का तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ॥२१॥ उस राजाके राज्यमें यदि ताप—दुःख तो सूर्यमें ही था अन्यत्र ताप—दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्योंमें ही था अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विग्रह नाम था तो शरीरोंमें ही था अन्यत्र विग्रह अर्थात् युद्धका नहीं था, विरागता—चीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी वहाँके अन्य मनुष्योंमें विरा स्नेहका अभाव नहीं था । परार्थ ग्रहण—अन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका ग्रहण कुकवियोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें परार्थग्रहण—दूसरेके धनका ग्रहण करना नहीं बन्धन—हरबन्ध, छत्रबन्ध आदिकी रचना काव्योंमें ही थी वहाँके अन्य बन्धन—पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था । विवाद—शास्त्रार्थ यदि था तो वि इच्छा रखनेवाले विद्वानोंमें ही था वहाँके अन्य मनुष्योंमें विवाद—कलह नहीं था । शरव्या एक प्रकारके रुणका विस्तार नदियोंमें ही था वहाँके मनुष्योंमें शरव्याप्ति—वाणोंका नहीं था । अनवस्थिति—अस्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देवोंमें ही थी—वे ही ि

१ अहमिन्द्रः । २ ल० पुस्तके तु 'अवृणीत गुणानेव सवान् सुकृतोदयात्' इति पाठः । अत्र द्वित छन्दोमञ्जः ।

वपिला-तन्महादेवी वसुधारादिपूजिता । श्रीहीडन्यादिभिः सेव्या सुखसुप्तानिश्चावधौ ॥२५॥  
 शरदादिद्वितीयायां नक्षत्रेष्वदिमे सति । स्वर्गावतरणे मर्तुदंष्ट्रा स्वमान् पुरोदितान् ॥२६॥  
 स्ववक्त्राञ्जप्रविष्टैभमप्यालोक्य विनिद्रिका । प्रसातपटह्वानश्रवणाविष्कृतोत्सवा ॥२७॥  
 अपृच्छत् फलमेतेषां नृपं देशावधीक्षणम् । सोऽप्यवादीद् भवद्गर्भं भावित्तीर्थकृदित्यद् ॥२८॥  
 तद्देशागत्य देवेन्द्राः स्वर्गावतरणोत्सवम् । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत् समम् ॥२९॥  
 आषाढे स्वातियोगे तं कृष्णपक्षे महौजसम् । दशम्यां विश्वलोकेशमसूत तनुजोचमम् ॥३०॥  
 देवा द्वितीयकल्याणमप्यभ्येस्य तदा व्यष्टुः । नमिनामानमप्येनं व्याहरन् मोहमेदिनम् ॥३१॥  
 मुनिसुव्रततीर्थशासंताने वर्षमानतः । गतेषु षट्सु लक्षेषु नमिनाथसमुद्भवः ॥३२॥  
 आयुर्दशसहस्राणि वर्षाणां परमं मतन् । उस्सेधो धनुषां पञ्चदश चास्याभिधीयते ॥३३॥  
 जातरूपश्रुतिः सार्द्धद्विसहस्राब्दसमिति । गते कुमारकालेऽभिषेकमापत् सराज्यवचम् ॥३४॥  
 राज्ये पञ्चसहस्राणि वत्सराणामगुर्विभोः । तदा प्रावृद्धवनटोपसंकटे गगनाङ्गे ॥३५॥  
 देवं वनविहाराय गतवन्तं महोदयम् । गजस्कन्धसमाहृढं भानुमन्तमिवापरम् ॥३६॥  
 नमस्तलगावौ देवकुमारौ विहितानतौ । एवं विज्ञापयामासतुर्बद्धकरपङ्कजौ ॥३७॥  
 द्वीपेऽस्मिन् प्रातिवदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानादपराजितात् ॥३८॥

गमन करते रहते थे वहाँके मनुष्योंमें अनवस्थिति—अस्थिरता नहीं थी। क्रूरता यदि थी तो दुष्ट प्रहोमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें क्रूरता—दुष्टता—निर्दयता नहीं थी और पिशाचता—पिशाच जाति यदि थी तो देवोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें पिशाचता—नीचता नहीं थी ॥२२-२४॥ विजयमहाराजकी महादेवीका नाम वपिला था, देवोंने रत्नवृष्टि आदिसे उसकी पूजा की थी, श्री, ह्री, श्रुति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। शरद् ऋतुकी प्रथम द्वितीया अर्थात् आश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रिके पिछले पहर जब कि भगवान्का स्वर्गावतरण हो रहा था तब सुखसे सोयी हुई महारानीने पहले कहे हुए सोलह स्वप्न देखे ॥२५-२६॥ उसी समय उसने अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गयी और प्रातःकालके वाजोंका शब्द सुननेसे उसके हर्षका ठिकाना नहीं रहा ॥२७॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे इन स्वप्नोंका फल पूछा और राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमें भावी तीर्थकरने अवतार लिया है ॥२८॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर अपने नियोगके अनुसार भगवान्का स्वर्गावतरण महोत्सव—गर्भकल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर सब साथ-ही-साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥२९॥ वपिला महादेवीने आषाढ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगमें समस्त लोकके स्वामी महाप्रतापी श्रेष्ठपुत्रको उत्पन्न किया ॥३०॥ देवोंने उसी समय आकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया और मोह शत्रुको भेदन करनेवाले जिन बालकका नमिनाथ नाम रखा ॥३१॥ भगवान् मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरकी तीर्थ-परम्परामें जब छह लाख वर्ष बीत चुके थे तब नमिनाथ तीर्थकरका जन्म हुआ था ॥३२॥ भगवान् नमिनाथकी आयु दस हजार वर्षकी थी, शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था और कान्ति सुवर्णके समान थी। जब उनके कुमारकालके अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने अभिषेकपूर्वक राज्य प्राप्त किया था ॥३३-३४॥ इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान्को पाँच हजार वर्ष बीत गये। एक दिन जब कि आकाश वर्षाऋतुके बादलोंके समूहसे व्याप्त हो रहा था तब महान् अभ्युदयके धारक भगवान् नमिनाथ दूसरे सूर्यके समान हाथीके कन्धेपर आरूढ़ होकर वन-विहारके लिए गये ॥३५-३६॥ उसी समय आकाशमार्गसे आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे ॥३७॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक वत्सकावती नामका

अवतीर्थं समुत्पन्नस्तीर्थनाथोऽपराजितः । तस्य केवलपूजार्थं देवेन्द्राः समुपागताः ॥३२॥  
 तत्सन्नायामभूत् प्रदत्तः किमस्ति भरतेऽधुना । कश्चितीर्थं कृदित्याह सोऽप्येवं सकलार्थदत्क ॥३०॥  
 चङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरे नमिनाथकः । भावित्तीर्थकरः पुण्यादवतीर्णोऽपराजितात् ॥३१॥  
 देवोपनीतभोगानां भोक्ता संप्रति स्नाध्वति । तपः प्राग्भातकीखण्डे कृत्वा सौधर्मनामनि ॥३२॥  
 संभूयेतौ द्वितीयेऽह्नि गत्वा तद्गृहचनभृते । सवन्तमीक्षितुं पूज्यमावामैव सकौतुकौ ॥३३॥  
 इति सोऽपि समासन्नकेवलकावगमोदयः । चित्ते विधाय सत्सर्वं महीशः प्राविशत् पुरम् ॥३४॥  
 तत्र स्वभद्रसंबन्धं स्मृत्वा तीर्थकरं च तम् । आजर्जवसंजातसद्भावं भावयन्मुहुः ॥३५॥  
 अनादिबन्धनैर्गाढं बद्ध्वात्मात्मानमात्मना । कायकारागृहे स्थित्वा पापी पक्षीव पञ्जरे ॥३६॥  
 कुञ्जरो वारिंतालानो कलयत्फलमात्मनः । नाना दुःखानि भुञ्जानो भूयस्वरैव रञ्जितः ॥३७॥  
 इन्द्रियार्थेषु संसक्तो रतितीव्रतरोदयात् । अशुचिध्वेवसंबद्धतृष्णोऽवस्करकोटवत् ॥३८॥  
 विश्रयन्मृत्योस्तमाधावनं वर्ज्यदुःखस्तदर्जयत् । विपर्यस्तमतिः कण्ठमार्गैरौद्राह्निताशया ॥३९॥  
 भवे आम्रत्यविश्राम्यन् प्रताम्यन् पापपाकतः । इदं निरुद्धं विरुद्धिमसीष्टार्थविधातिनीम् ॥४०॥  
 इति निर्वेदसंयोगाद् भोगरागातिदूरगः । सारस्वतादिसर्वापरागामरसमर्चितः ॥५१॥  
 क्षयोपसमसंवाप्तश्चस्त्वं स्वचलनोदयः । लब्धबोधिः सुप्तं राज्ये निजे संयोज्य सुप्रमम् ॥५२॥

देश है । उसकी सुसीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके ती उत्पन्न हुए हैं । उनके केवलज्ञानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे ॥३२-३६॥  
 समाप्तमें प्रदत्त हुआ कि क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीर्थकर है ? सर्वदर्शी अपरा भगवान्ने उत्तर दिया कि इस समय बंगदेशके मिथिलानगरमें नमिनाथ स्वामी अपरा विमानसे अवतीर्ण हुए हैं वे अपने पुण्योदयसे तीर्थकर होनेवाले हैं ॥३०-४१॥ इस स देवोंके द्वारा लाये हुए भोगोंका अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं—गृहस्थावस्थामें विद्यमान हे देव ! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धातकीखण्ड द्वीपके रहनेवाले थे, वहाँ तपश्चर सौधर्म नामक स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं । दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके गये थे । वहाँ उनके वचन सुननेसे पूजनीय आपके दर्शन करनेके लिए कौतुकवश वहाँ आ ॥३२-४३॥ जिन्हें निकट-कालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है ऐसे भगवान् न देवोंकी उक्त समस्त बातोंको हृदयमें धारण कर नगरमें लौट आये ॥४४॥ वहाँ वे विदेह अपराजित तीर्थकर तथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें होने भावोंका बार-बार विचार करने लगे ॥४५॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने आपको अपने-आपके ही द्वारा अनादिकालसे चले आये बन्धनोंसे अच्छी तरह जक शरीर-रूपी जेलखानेमें डाल रखा है और जिस प्रकार पिंजड़ेके भीतर पापी पक्षी दुःखी है अथवा आलान—खम्भेसे बँधा हुआ हाथी दुःखी होता है उसी प्रकार यह आत्मा निर दुःखी रहता है । यह यद्यपि नाना दुःखोंको भोगता है तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता रति नोकषायके अत्यन्त तीव्र उदयसे यह इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त रहता है और वि कीड़ाके समान अपवित्र पदार्थोंमें तृष्णा बढ़ाता रहता है यह प्राणी मृत्युसे डरता किन्तु उसी ओर दौड़ता है, दुःखोंसे छूटना चाहता है किन्तु उनका ही संचय करता हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात है कि आर्त और रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस जीवकी विपरीत हो गयी है । यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गतिरूप भ्रममें भ्रमण करता है और प उदयसे दुःखी होता रहता है । इष्ट अर्थका विघात करनेवाली, दृढ़ और अनादि कालसे इस मूर्खताको धिकार हो ॥४६-५०॥

इस प्रकार वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए । उसी स सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवोंने—लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की ॥४१॥ क

१ मायामैवः ख०, ग०, मावामैवं म०, ल० (आवाम्, ऐव, इण् धातौलुट्त्तमपहपद्वितीयवच रूपम् आवाम् आगतौ इति भावः) । २ निर्वेदसवैगात् ल० । ३ प्रशस्त ल० पाठे छन्दोमङ्गः ।

साभिषेकं सुरैः प्राप्य परिनिःक्रान्तिपूजनम् । यानमुत्तरकुर्वाख्यं समारुह्य मनोहरम् ॥५३॥  
 गत्वा चैत्रवनोद्यानं पण्डोपवसनं श्रितः । आषाढकालपक्षेऽश्विनक्षत्रे दशमीदिने ॥५४॥  
 अपराह्णे सहज्जेण क्षत्रियाणां सहाग्रहीत् । संयमं सयमापाद्यं<sup>३</sup> सज्जानं च चतुर्थकम् ॥५५॥  
 भोक्तुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतवते नृपः । सुवर्णवर्णो दत्त्वात्रमवापाश्रयपञ्चकम् ॥५६॥  
 छात्रस्थेन ततः काले प्रयाते नववत्सरे । निजदोक्षावने रम्ये मूले वक्रुकभूरुहः ॥५७॥  
 तस्य षष्ठोपवासस्य नक्षत्रेऽश्वामिधानके । मार्गशीर्षशुभौ पक्षे दिनान्ते केवलं विभो ॥५८॥  
 दिने तृतीयनन्दायामभूदखिलगोचरम् । ५नाकनाथकसंचार्यतुर्थकव्यागभागिनः ॥५९॥  
 सुप्रभायादयः सप्तदशासन् गणनायकाः । चतुःशतानि पञ्चाशत् सर्वपूर्वधरा मताः ॥६०॥  
 शिक्षकाः षट्शतद्वादशसहस्राणि सद्मताः । त्रिज्ञानधारिणां संख्या सहस्रं षट् शताधिकम् ॥६१॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञाना मुनयो चिक्रियद्विकाः । सर्वे सार्धसहस्रं स्युर्मनःपर्ययबोधनाः ॥६२॥  
 शून्यपञ्चद्विकैकोप्तास्यक्तसङ्गाः प्रकीर्तिता । सहस्रं चादिनां संख्या ते सर्वेऽपि समुच्चिताः ॥६३॥  
 विश्रुतिः स्युः सहस्राणि मङ्गिनीप्रमुखार्थिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि तदष्टांशाधिका मता ॥६४॥  
 श्रावका लक्षमेक तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः । देवा देव्योऽप्यसंख्यातास्तिर्यग्नाः संख्यया मिताः ॥६५॥  
 एवं द्वादशसंख्यायान् गणैर्नैर्नमीश्वरः । सद्मदेशनं इषंशार्यक्षेत्राणि सर्वतः ॥६६॥

क्षयोपशम होनेसे उनके प्रशस्त संज्वलनका उदय हो गया अर्थात् प्रत्याख्यानानवरण क्रोध मान माया लोभका क्षयोपशम और संज्वलन क्रोध मान माया लोभका मन्द उदय रह गया जिससे वैराग्य प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सौंप दिया ॥५२॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुण्ड नामकी मनोहर पालकीपर सवार हो चैत्रवन नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने बेलाका नियम लेकर आषाढकृष्ण दशमीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सार्यकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थ— मुनःपर्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥५३-५५॥ पारणाके लिए भगवान् बीरपुर नामक नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा दत्तने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किये ॥५६॥ तदनन्तर जब छद्मस्थ अवस्थाके नव वर्ष बीत गये तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावनमें मनोहर बकुल वृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए । वहींपर उन्हें मार्गशीर्ष शुक्लपक्षकी ॐ तीसरी नन्दा तिथि अर्थात् एकादशीके दिन सार्यकालके समय समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ—उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुर्थ— ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥५७-५९॥ सुप्रभार्यको आदि लेकर उनके सत्रह गणधर थे । चार सौ पचास समस्त पूर्वोंके जानकार थे, बारह हजार छह सौ अच्छे ब्रतोंको धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार छह सौ अवधिज्ञानके धारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात् एक हजार छह सौ ही केवलज्ञानी थे, पन्द्रह सौ विक्रियाश्रद्धिके धारक थे, बारह सौ पचास परिग्रह रहित मन पर्ययज्ञानी थे और एक हजार वादी थे । इस तरह सत्र मुनियोंकी संख्या बीस हजार थी । मंगिनीको आदि लेकर पैतालिस हजार आर्थिकार्षेयों, एकलाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकार्षेयों, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यच थे ॥६०-६५॥ इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश करते हुए भगवान् नमिनाथने नञ्जीभूत बारह सभाओंके साथ आर्य क्षेत्रमें सब ओर विहार किया । जब उनकी आयुका एक साह बाकी रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्मैद शिखरपर जा विराज-

१ प्राणपरिनिष्क्रान्तिपूजनः ल०, घ० । २ चित्रवनोद्यान म०, ल० । ३ संयमासाद्यं घ० । ४ नायनायक घ०, ल० । ५ भोगिनः म० । ६ संख्यात्र म०, घ० ।

\* अर्थोक्ति शास्त्रमें नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथय क्रमात्' इस श्लोकके क्रमानुसार प्रतिपदा आदि तिथियोंके क्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम हैं । षष्ठीसे दशमी तककी तथा एकादशीसे पूर्णिमा तककी तिथियोंके भी यही नाम हैं इस प्रकार तीसरी नन्दा तिथि एकादशी होती है ।

विहृत्य विहृतिं त्यक्त्वा मासं संसेदपर्वते । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिभायोगमास्थितः ॥६७॥  
 वैशाखे मासि कृष्णार्थां चतुर्दश्यां निशात्यये । मुक्तिमश्न्याह्वनक्षत्रे नमिस्तीर्थकरोऽगमत् ॥६८॥  
 अकुर्वन्पञ्चमं देवाः कल्याणं चाखिलेशिनः । स्वं स्वमोकंश्च संप्राप्तपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥६९॥

पृथ्वीच्छन्दः

कनकनकविग्रहो विहितविग्रहो घातिभिः

सहहितजयो जयेति च नृतो नतैर्नाकिभिः ।

भियं भवभन्ना<sup>३</sup> बहूं नयतु नः क्षयं नायको

विनेयविदुषां स्वयं विहृतविग्रहोऽन्ते नमिः ॥७०॥

शार्दूलविक्रीडितम्

कौशाम्भ्यां प्रथितस्तृतीयजनने सिद्धार्थनामा नृपः

कृत्वा तत्र तपोऽतिवोरमभवत्तुर्येऽमरोऽनुचरे ।

तस्मादेश्य पुरे बभूव मिथिलानाम्नीन्द्रवन्धो नमि-

स्तीर्थेऽक्षिजगद्धितार्थवचनव्यक्त्यैकविशो जिनः ॥७१॥

पृथ्वीवृत्तम्

नमिर्नमितसामरामरपतिः पतञ्जामरो

भ्रमद्भ्रमरविभ्रमभ्रमितपुष्पवृष्ट्युत्करः ।

करोतु चरणारविन्दमकरन्दसंपाथिनां

विनेयमधुपाथिनामविरतोऽरुत्सिं जिनः ॥७२॥

जगत्त्रयजयोऽसिक्तमोहमाहात्म्यमर्दनान् । एकविशो जिनो कञ्चलक्ष्मीर्लक्ष्मीं ददातु नः ॥७३॥

मान हुए । वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिभा योग धारण कर लिया और वैश कृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥६६-६८॥  
 उसी समय देवोंने आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ तीर्थकरका पंचम—निर्वाणकल्याण उत्सव किया और तदनन्तर पुण्यरूपी पदार्थको प्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानको गये ॥६९॥  
 जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मोंके साथ किया था, समस्त अहितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्रीभूत देव जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान् शिष्योंके स्वामी थे और अन्तमें जिन्होंने नष्ट कर दिया था—मोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्ब बहुत भारी भयको नष्ट करें ॥७०॥  
 जो तीसरे भवमें कौशाम्बी नगरमें सिद्धार्थ नामके राजा थे, वहाँपर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए वहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा बन्दीय तीनों जगत्के हितकारी व प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इक्षीसर्वे तीर्थकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रहे थे और जिनपर उड़ते हुए भ्रमरोंसे सुशो पुष्पवृष्टियोंका समूह पड़ा करता था ऐसे श्री नमिनाथ भगवान् चरण-कमलके मकरन्द-पान करनेवाले शिष्यरूपी भ्रमरोंके लिए निरन्तर सन्तोष प्रदान करते रहे ॥७१-७२॥  
 जगत्को जीतनेसे जिसका गर्व बढ़ रहा है ऐसे मोहका-माहात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे श्री नमिनाथ भगवान् हम सबके लिए भी मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥

१ नमितीर्थे म०, ल० । २ अहिताना जयः, अथवा बाहितो घृतो जयो येन सः । ३ भवः सं भवः कारणं यस्यास्ताम् भियम् ।

द्वीपेऽस्मिन्नुत्तरे भागे महत्त्वैरावताह्वये । लक्ष्मीमान् श्रीपुराधीशो वसुधरमहीपतिः ॥ ७३ ॥  
 पद्मावतीवियोगेन मृत्युं निर्विण्णमानसः । वने मनीहरे रम्ये वरचर्माखिलेक्षिणः ॥ ७५ ॥  
 निर्णय धर्मसद्भावं तनये विनयधरे । निवेशितात्ममारः सन् बहुभिर्भूमुत्रैः<sup>१</sup> समम् ॥ ७६ ॥  
 संयमं सन्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन् । स्वाराधनविधानेन महाशुके सुरोऽभवत् ॥ ७७ ॥  
 पौडशाब्धुपमस्त्रायुर्दिशान् भोगान् सुभुज्य सः । तत प्रच्युत्य तर्तार्यै वत्साख्यविषयेऽजनि ॥ ७८ ॥  
 नृपस्येक्ष्नाकुर्वशास्य कौशाभ्नीनगरेक्षिनः । तनूजो विजयाख्यस्य प्रभाकर्या प्रभाधिकः ॥ ७९ ॥  
 सर्वकक्षणसंपूर्णो जयसेनसमाह्वयः । त्रिसहस्रशरजीवी<sup>२</sup> षट्त्रिहस्तसमुच्छ्रिति ॥ ८० ॥  
 तप्तचामीकरच्छायः स चतुर्दशरत्ननाक् । निधिमिन्तवमिः सेव्यो भोगैर्दशविधैः सुखम् ॥ ८१ ॥  
 विरमेकादशदशकवयः काकमजीगमत् । अन्येषुस्तङ्गसौधाध्रे सुसुप्तोऽन्तःपुरावृतः ॥ ८२ ॥  
 कुर्वन् पर्वशशाङ्कामो दिगन्तरविकोकनम् । उरुकाभिपतनं वीक्ष्य सुनिर्वेगपरायणः ॥ ८३ ॥  
 उच्चैःस्थितमिदं पश्य आस्वयं पर्ययद्वयम् । परित्यज्य सुसंप्रापदधोगतिमपप्रभम् ॥ ८४ ॥  
 उन्नतमूर्जितं तेजो ममेति मदमावहन् । धनाचरन् हितं मूढः पारलौकिकमात्मने ॥ ८५ ॥  
 विषयेषु विषक्तः सन्नधुनेपववितर्षिषु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र प्रमाद्वान् ॥ ८६ ॥  
 इत्याकलय्य काकादिक्लेश्या चक्रेऽवक्रभीः । त्यक्तं चक्रादिसाम्राज्यं परिच्छिद्योच्छ्रितेच्छया ॥ ८७ ॥  
 सुष्ठु राज्यमनिच्छसु महीयःसु कनीयसे । दत्त्वा पुत्राय साम्राज्यं वरदत्ताभिधायितः ॥ ८८ ॥

अथानन्तर—इसी जन्मवृद्धीपके उत्तर भागमें एक ऐरावत नामका बड़ा भारी क्षेत्र है उसके श्रीपुर नगरमें लक्ष्मीमान् वसुधर नामका राजा रहता था ॥७३॥ किसी एक दिन पद्मावती स्त्रीके वियोगसे उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर मनीहरे नामके वनमें गया । वहाँ उसने वरचर्म नामके सर्वज्ञ भगवान्से धर्मके सद्भावका निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सब भार सौंपकर अनेक राजाओंके साथ, संयम धारण कर लिया । तदनन्तर कठोर तपश्चरण कर समाधिभरण किया जिससे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ ॥७५-७७॥ वहाँपर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंका अनुभव कर वह वहाँसे च्युत हुआ और इन्हीं नमिनाथ तीर्थकरके तीर्थमें<sup>१</sup> वत्स देशकी कौशाब्नी नगरीके अधिपति, इक्ष्वाकुवंशी राजा विजयकी प्रभाकरी नामकी देवीसे कान्तिमान् पुत्र हुआ ॥७८-७९॥ वह सर्व लक्षणोंसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार वर्षकी आयु थी, साठ हाथकी ऊँचाई थी, तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी, वह चौदह रत्नोंका स्वामी था, नौ निधियों सदा उसकी सेवा करती थीं, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दस प्रकारके भोग भोगता हुआ सुखसे समय बिताता था । किसी एक दिन वह ऊँचे राजभवनकी छतपर अन्तःपुरवर्ती जनोके साथ लेट रहा था ॥८०-८२॥ पौर्णमासीके चन्द्रमाके समान कान्तिका धारक वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया । उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु अभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपनी दो पर्यायें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई नीचे चली गयी ॥८३-८४॥ 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है, तथा बलवान् है' इस तरहके मदको धारण करता हुआ जो मूढ प्राणी अपनी आत्माके लिए हितकारी परलोक सम्बन्धी कार्यका आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वर तथा सन्तुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात् तेज रहित होकर अधोगतिको जाता है ॥८५-८६॥ ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तीने काल आदि लक्ष्मियोंकी अनुकूलतासे चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निश्चय कर लिया ।

१ निवेशितात्म-८० । २ स-८० । ३ विनयः पाठः (भूभूमिर्वृद्धिः समम्) ४ प्रभकर्यां ख०, ग० ।

५ 'हायनोऽन्तः सरत् नमा' ह्यपरः । ६ वरैः घ०, ख० । ७ परिच्छेद्य यदुच्छया घ० । ८ पुत्रेषु 'तुक्' लोके चारुप्रभाः ।



केवलावगमात् प्राप्य संयमं बहूमिः समम् । श्रुतबुद्धितपोविक्रियौषघर्द्धिविभूषितः ॥ ८९ ॥  
 चारणस्वमपि प्राप्य प्रायोपगमनं श्रितः । संमेदे चारणोत्तुङ्गकृते स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥  
 जयन्तेऽनुत्तरे जातो विमाने कवसत्तमः<sup>१</sup> । पुण्योत्तमानुभागोत्थमन्वभूत् सुचिरं सुखम् ॥ ९१ ॥

### पृथ्वीवृत्तम्

बसुंधरमहीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त स-

त्तपाः समजनिष्ठ षोडश समुद्रमिषायुषा ।

सुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजप्रसेननामा ततो

बभूव बलसत्तमः सुखनिधिर्जयन्ते विभुः ॥ ९२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंग्रहे नमितीर्थकरजयसेनचक्रवर्तिपुराण  
 परिसमाप्तम् एकोनसप्ततितमं पर्व ॥६९॥

वह अपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी उदात्त इच्छा राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजा साथ बरदत्त नामके केवली भगवान्से संयम धारण कर लिया । वह कुछ ही समयमें श्रुत तप विक्रिया और औषध आदि ऋद्धियोंसे विभूषित हो गया ॥८९-९०॥ चारण ऋद्धि भी प्राप्त हो गयी । अन्तमें संमेदशिखरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन सं धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र और वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका चिरकालके लिए अनुभव करने ॥९०-९१॥ जयसेनका जीव पहले भवमें बसुंधर नामका राजा था फिर समीचीन तप प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ, वहाँसे च्यकर जयसेन नामका च हुआ और फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्डार स्वरूप अहमिन्द्र हुआ ॥९२॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिरुक्षण महापुराणके संग्रहमें नमि तीर्थकर तथा जयसेन चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६९॥

## सप्ततितमं पर्व

क्षान्त्यादिदक्षधर्माशक्तम्बनं यमुदाहरत् । सन्तः सद्धर्मचक्रस्य स नेमिः शंकरोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 संवेगजननं पुण्यं पुराणं जिनचक्रिणाम् । बलानां च श्रुतज्ञानमेतद् वन्दे त्रिशुद्धये ॥ २ ॥  
 पूर्वानुपूर्व्यां वक्ष्येऽहं कृणमद्भक्तसत्क्रियः । पुराणं हरिवंशाख्यं यथावृत्तं यथाद्भुतम् ॥ ३ ॥  
 अथ जम्बूमति द्वीपे विद्महेऽपरनामनि । सीतोदोदकटे देवो सुगन्धिबलसमाह्वये ॥ ४ ॥  
 पुरे सिंहपुरे कथातो भूपोऽहं द्वाससंहरः । देव्यस्य जिनदत्ताख्या तयोः पूर्वमवाजित्वात् ॥ ५ ॥  
 पुण्योदयात् समुद्रभूतकामभोगैः सत्सुयो । काले गच्छस्यथान्पेक्षुरहतां परमेष्ठिनाम् ॥ ६ ॥  
 आष्टाहिकमहमपूजां विधाय नृपतिप्रिया । कुलस्य तिलकं पुत्रं लक्ष्मीयांहमिति स्वयम् ॥ ७ ॥  
 आशास्थाली सुखं सुता निवार्या सुप्रसन्नयोः । सिंहं भाक्कन्दुपथाभिषेकानैक्षिष्ट सुवता ॥ ८ ॥  
 स्वप्नानन्तरमेवास्या गमै प्रादुरभूच्छ्रुती । नवमासावसानेऽसावसूत सुतमूर्जितम् ॥ ९ ॥  
 तजन्मनः प्रभृत्यन्वैरजत्रपस्तपिशाभवत् । ततोऽपराजिताख्यानमकुर्वस्तस्य बान्धवाः ॥ १० ॥  
 रूपादिगुणसंपत्या सार्धं वृद्धिमसावगात् । आयौवन मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम् ॥ ११ ॥  
 तदा मनोहरोद्यानगतं विमलवाहनम् । तीर्थकर्तारमाकर्ण्य वनपालमुखानुपः ॥ १२ ॥  
 स्वाम्त पुरपरोवारपरोतो भक्तिचोदितः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य मुहुर्मुंक्षिक्त्वाञ्जलिः ॥ १३ ॥  
 प्रप्रगम्य समभ्यर्च्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधर्मान्मृतस्तरमाटकस्माद् भोगिनस्पृह ॥ १४ ॥

अथानन्तर—सम्बन्धन लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्म रूपी अरोंका अवलम्बन  
 बतलाते हैं जो समीचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल हैं ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंको  
 शान्ति करनेवाले हैं ॥१॥ जिनेन्द्र भगवान्, नारायण और बलभद्रका पुण्यवर्धक पुराण संसारसे  
 भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिये इस श्रुतज्ञानको मन-वचन-कायकी शुद्धिके लिए वन्दना  
 करता हूँ ॥२॥ भंगलाचरण रूपी सत्क्रिया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूँगा और वह भी  
 पूर्वाचार्योंके अनुसार जैसा हुआ है अथवा जैसा सुना है वैसा ही कहूँगा ॥३॥ इसी जम्बूद्वीपके  
 पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर सुगन्धिला नामके देशमें एक सिंहपुर नामका  
 नगर है उसमें अर्हदास नामका राजा राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम जिनदत्ता था ।  
 दोनों ही पूर्वभवमें संचित पुण्यकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे सन्तुष्ट रहते थे । इस  
 प्रकार दोनोंका सुखसे समय बीत रहा था । किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र  
 भगवान्की अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनेके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके तिलकभूत  
 पुत्रको प्राप्त करूँ । ऐसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिमें सुखसे सोयी । उसी रात्रिकी  
 अच्छे त्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक इस  
 प्रकार पाँच स्वप्न देखे । स्वप्न देखनेके बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अवतीर्ण हुआ और  
 नौ माह बीत जानेपर रानीने बलवान् पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर  
 उसका पिता शत्रुओं-द्वारा अजय हो गया था इसलिये भाई-बान्धवोंने उसका नाम अपराजित  
 रखा ॥४-१०॥ वह रूप आदि गुणरूपी सन्ततिके साथ-साथ यौवन अवस्था तक बढ़ता गया  
 इसलिये देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ॥११॥ तदनन्तर किसी एक दिन राजाने  
 वनपालके मुखसे सुना कि मनोहर नामके उद्यानमें विमलवाहन नामक तीर्थकर पधारै हुए  
 हैं । सुनते ही वह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ  
 वहाँ गया । वहाँ जाकर उसने बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प  
 अक्षत आदिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धर्मरूपी अमृतका पान किया । यह सब

'तुजेऽपराजिताख्याय दत्त्वा सहाङ्गसंपदम् । तपोऽयं समुपादत्तं पञ्चभिर्भुञ्जतां शतैः ॥ १५ ॥  
 कुमारोऽपि गृहीताणुवतादिः शुद्धदर्शनः । प्राविशोऽक्षितो लक्ष्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ॥  
 तन्त्रावापगतां चिन्तां<sup>३</sup> निधाय निजमन्त्रिणु । सक्तः शास्त्रोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १७ ॥  
 कदाचिन्नजपित्रामा जिनं विमलवाहनम् । मुक्त्या वशीकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥  
 अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमलवाहनम् । इति प्रतिज्ञयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥  
 तदा शक्राश्रया यक्षपतिविमलवाहनम् । तस्य संदर्शयामास साक्षात्कृत्वा महाशुभम् ॥ २० ॥  
 जैनगेहे समभ्यर्च्य तं सोऽपि कृतवन्दनः । शुद्धते स्म स्नेहशौकार्चंचेतसां का विचारणा ॥ २१ ॥  
 वसन्तसमयेऽन्येद्युर्नन्दोदवरदिदेष्वसौ । जिनचैत्यानि संपूज्य तत्संस्तवनपूर्वकम् ॥ २२ ॥  
 तत्र स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विदधत्सुधीः । खाद् विचक्षणौ साधु प्रापस्तुतस्थतुः पदः ॥ २३ ॥  
 प्रणिपत्य तयोर्देवतास्तवावसितो नृपः । सोपचारं समभ्येत्य श्रुत्वा धर्ममभाषत ॥ २४ ॥  
 भगवन्तावहं पूज्यौ क्वचिध्यागदृष्टवानिति । ज्येष्ठो मुनिरुवाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षितौ ॥ २५ ॥  
 तद्दर्शनप्रदेशं च वक्ष्यामि शृणु भूपते । पुष्करार्धापरार्द्रान्द्रापरभागे महासरिव् ॥ २६ ॥  
 तस्याश्वास्त्युत्तरं भागे गन्धिक्वो विषयो महान् । तत्खगाद्रथुत्तरश्रेण्यां सूर्यप्रमपुराधिपः ॥ २७ ॥  
 राजा सूर्यप्रभस्तस्य धारिणी प्राणवल्कसा । तयोश्चिन्तागतियज्येष्टस्वजुमोऽनुमतोगतिः ॥ २८ ॥  
 ततश्चपलगत्यावयस्त्रिभस्त्रैरतौ मुहुं गतौ । चिरं धर्मार्थकामैवां के न तुष्यन्ति सस्तुतैः ॥ २९ ॥

करते ही अकस्मात् उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गयी जिससे उसने अपराजित नामक लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सौ राजाओंके साथ ज्येष्ठ तप धारण कर ॥१२-१५॥ कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अणुजत आदि श्रावकके व्रत किये और फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मीसे यु अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ॥१६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अ मन्त्रिधोपर छोड़ दी और स्वयं शास्त्रोक्त मार्गसे धर्म तथा काममें लीन हो गया ॥१७॥

किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान् मादन पर्वतपर मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं । यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 'मैं श्री वि वाहन भगवान्के दर्शन किये बिना भोजन नहीं करूँगा ।' इस प्रतिज्ञासे उसे आठ दिनका वास हो गया ॥१८-१९॥ तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यक्षपतिने उस राजाको महान् शुभ रूप विमलवाहन भगवान्का साक्षात्कार कराकर दर्शन कराया । राजा अपराजितने जिन-मन्दि उन विमलवाहन भगवान्की पूजा-वन्दना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही है क्व जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें तत्त्वका विचार कैसे हो सकता ॥२०-२१॥ किसी एक दिन वसन्त ऋतुकी आष्टाह्निकाके समय बुद्धिमान् राजा अपरा जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर उनकी स्तुति कर वहींपर बैठ आ हुआ था और धर्मोपदेश कर रहा कि उसी समय आकाशसे दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकर वहींपर विराजमान हो ग जिनेन्द्र भगवान्की स्तुतिके समाप्त होनेपर राजाने बड़ी विनयके साथ उनके सम्मुख ज उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना और तदनन्तर कहा कि हे पूज्य ! मैंने प कभी आपको देखा है । उन दोनों मुनियोंमें जो ज्येष्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ रा- ठीक कहते हो, हम दोनोंको आपने देखा है ॥२२-२५॥ परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्था कहता हूँ सुनो । पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम सुमेरुकी पश्चिम दिशामें जो महानदी है उत्तर तटपर एक गन्धिल नामका महादेश है । उसके विजयार्ध पर्वतकी श्रेणीमें सूर्यप्रभ नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था । उसकी स्त्रीका धारिणी था । उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति, दूसरा मनोगति और तीसरा चप

१ समुपादत्तं ल० । २ तन्त्रवीगतां (?) ल० । ३ निजाय ल० । ४ महाशुभः ख०, गु महाशुभः ल० ।

तस्यामेवोत्तरश्रेण्यामरिन्दमपुरेश्वरात् । अरिजयाख्यादजितसेनायामभवत् सुता ॥ ३० ॥  
सती प्रीतिमती मेरुगिरेः सकलखेचरान् ।<sup>१</sup> त्रिभ्रान्त्या साजयच्चिन्तागतिं मुक्त्वा<sup>२</sup> स्वविद्यया ॥ ३१ ॥  
जिह्वा चिन्तागतिवैगतात् पश्चादिति चाब्रवीत् । संभावय कनीयांसं मम त्वं रत्नमालया ॥ ३२ ॥  
श्रततद्वचना साह नाहं जितवतोऽपरैः । मालामिमां क्षिंपामीति स.तामित्यब्रवीत् पुनः ॥ ३३ ॥  
गतियुद्धं त्वया पूर्वमनुजाभ्यां कृतं मम । अनिलाषात्ततस्त्याज्या मया तद्वचनश्रुतेः ॥ ३४ ॥  
निर्विण्णा सा निवृत्तार्थिकाभ्यासेऽगात्तपः परम् । तद्वीक्ष्य बहवस्तत्र निर्विद्यं तपसि स्थिताः ॥ ३५ ॥  
अनुजाभ्यां सभं चिन्तागतिश्चालोक्य साहसम् । कन्याया जातसंवेगो गुरुं दमवरामिधम् ॥ ३६ ॥  
संप्राप्य संयमं प्राप्य शुद्धशुद्धकमधिष्ठितः । प्रान्ते सामानिकस्तुथकल्पेऽजायत सानुजः ॥ ३७ ॥  
तत्र भोगान्बहून् भुक्त्वा ससाग्निपरमायुषा । ततस्तावनुजौ जन्मद्वीपपूर्वविद्देशे ॥ ३८ ॥  
विषये पुष्कलावस्थां विजयाधोत्तरे तटे । राजा गगनचन्द्राख्यः पुरे गगनबल्लभे ॥ ३९ ॥  
सुनो गगनसुन्दर्या तस्यामितमस्तित्ततः । आवाममिततेजाश्च जातौ, विद्यात्रयान्वितौ ॥ ४० ॥  
अन्येषुः पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूर्वजम् । आवयोः परिश्रुष्टेन जन्मत्रितयवृत्तकम् ॥ ४१ ॥  
सर्वं स्वयंप्रभाष्येन तीर्थनाथेन भाषितम् । ततोऽस्मद्व्रजः क्वाद्येत्यावयोरनुयोजने ॥ ४२ ॥  
भूमौ सिंहपुरे जातो राजते सोऽपराजितः । नाम्ना राज्यं समासाद्य स्वयमित्यहंतोदितम् ॥ ४३ ॥  
तत्समीपे समादाय संयमं त्वां विलोकितुम् । त्वयि जन्मान्तरस्नेहादिहागमनभावयोः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे । धर्म, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माता-पिता सदा प्रसन्न रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम पुत्रोंसे कौन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ? ॥२६-२६॥ उसी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्दमपुर नगरके राजा अरिजय रहते थे । उनकी अजितसेना नामकी रानी थी और दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी । उसने अपनी विद्यासे चिन्तागतिको छोड़कर समस्त विद्याधरोंको मेरु पर्वतकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें जीत लिया था ॥३०-३१॥ तत्परचात् चिन्तागति उसे अपने वेगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोंकी मालासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागतिके वचन सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि जिसने मुझे जीता है उसके सिवाय दूसरेके गलेमें मैं यह माला नहीं डालूंगी । इसके उत्तरमें चिन्तागतिने कहा कि चूँकि तूने पहले उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे ही मेरे छोटे भाइयोंके साथ गतियुद्ध किया था अतः तू मेरे लिए त्याज्य है । चिन्तागतिके यह वचन सुनते ही वह संसारसे विरक्त हो गयी और उसने विवृत्ता नामकी आर्थिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया । यह देख वहाँ बहुत-से लोगोंने विरक्त होकर वीक्षा धारण कर ली ॥३२-३५॥ कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे चिन्तागतिने भी अपने-दोनों छोटे भाइयोंके साथ दमवर नामक गुरुके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आठों शुद्धियोंको पाकर तीनों भाई चौथे स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए ॥३६-३७॥ वहाँ सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त अनेक भोगोका अनुभव कर चुकत हुए और दोनों छोटे भाइयोंके जीव जन्मद्वीपके पूर्व विद्देश क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावती देशमें जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमें गगनबल्लभ नगरके राजा गगनचन्द्र और उनकी रानी गगनसुन्दरीके हम दोनों अमितमति तथा अमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं । हम दोनों ही तीनों प्रकारकी विद्याओंसे युक्त थे ॥३८-४०॥ किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये । वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीर्थकरसे हम दोनोंने अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पूछा । तब स्वयंप्रभ भगवान्ने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम है, और स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है ॥४१-४३॥ यह सुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वयं-

१ सकलखेचरात् ल० । २ त्रिस्ताया (?) ल० । ३ स्वविद्यया ग०, घ० । ४ निवृत्तार्थिका ल० । ५ पूर्वकम् ग०, घ० । पूर्वजम् ख० ।

पुण्योद्भवोदितान् भोगान् सर्वान् भूयोऽत्र भुङ्क्वान् । मासप्रमाणजीवी त्वं हितमद्य स्मराशक्ति ॥४३॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं राजा बन्दिन्त्वा तौ मुनीश्वरौ । युवां जन्मान्तरस्नेहाक्षिप्तद्वन्द्वं गतावपि ॥ ४६ ॥  
 उपकारं महान्तं मे कृतवन्तौ हितैषिणौ । इत्याख्यत् स ततः प्रीतौ तौ निजस्थानमीश्वरुः ॥ ४७ ॥  
 तद्वै स महीशोऽपि दत्त्वा-राज्यं यथाविधि । प्रीतिकरकुमाराय कृत्वाष्टाह्निकपूजनम् ॥ ४८ ॥  
 बन्धून् विसर्ज्य प्रायोपगमसंन्याससुप्तमम् । विधाय षोडशे कल्पे द्वाविंशत्यब्धिजीवितः ॥ ४९ ॥  
 सातंकरे विमानेऽभूद्च्युतेन्द्रो महद्विकः । दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यमाकम् ॥ ५० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये कुरुनाडके । हस्तिनारख्यपुराधीशः श्रीचन्द्रस्य महीपतेः ॥ ५१ ॥  
 श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाद्यः सुप्रतिष्ठः सुतोऽभवत् । आपूर्णशौवनस्यास्य सुनन्दासीत् सुखप्रदा ॥ ५२ ॥  
 सुतं योच्यतमं मत्वा श्रीचन्द्रधरणीश्वरः । दत्तराज्योऽग्रहीद् दीक्षां सुमन्दरयति श्रितः ॥ ५३ ॥  
 सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये निःक्रेपे सुप्रतिष्ठितः । यशोधरमुनेर्दानाद्वाषाश्रयंपञ्चकम् ॥ ५४ ॥  
 अन्तःपुरान्वितोऽन्येषुः शशाङ्क इरनिसेके । रम्ये हर्म्यतले स्थित्वा कुर्वन् दिगवलोकनम् ॥ ५५ ॥  
 उल्कापतनमालोक्य मङ्गुरं भावयन् जगत् । सुदृष्टेर्ज्येष्ठपुत्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ ५६ ॥  
 सुमन्दरजिनाभ्याशे लक्ष्मणोऽधिरदीक्षत । क्रमेणैकादशाज्ञानां पारगो भावनापरः ॥ ५७ ॥  
 सम्यक्त्वादिसु बद्ध्वास्तौ तीर्थकृत्कर्म निर्मलम् । स्वायुरन्ते समाधाय मासं संन्यासमास्थितः ॥ ५८ ॥  
 अनुत्तरे जयन्ताख्ये संप्रापद्दहमिन्द्रवाम् । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्ततनुच्छ्रितः ॥ ५९ ॥

प्रभ भगवान्के समीप संयम धारण कर लिया और तुम्हें देखनेके लिए तुम्हारे जन्मान् स्नेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥४४॥ हे भाई ! अब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग कर चुका है । अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेष रह गयी है । शीघ्र ही आत्मकल्याणका विचार कर ॥४५॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर मुनिराजोंकी बन्धना की और कहा कि आप यद्यपि निर्ग्रन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं तो जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बड़ा उपकार किया है । यथार्थमें आप ही मेरे हितेच्छु तदनन्तर उधर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थानपर गये इधर राजा अपराजित अपना राज्य विधिपूर्वक प्रीतिकर कुमारके लिए दिया, आष्टाह्निक पूजा की, भाइयोंको किया और स्वयं प्रायोपगमन नामका उच्छृष्ट संन्यास धारण कर लिया । संन्यासके वह सोलहवें स्वर्गके सातंकर नामक विमानमें बाईस सागरकी आयुवाला बड़ी-बड़ी ऋका धारक अच्युतेन्द्र हुआ । वह पुण्यात्मा वहाँके दिव्य भोगोंका चिरकाल तक उपभोग वहाँसे च्युत हुआ ॥४६-२०॥ और इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्वन्धी कुरुजांगल हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रतिष्ठ नामका यशस्वी पुत्र हुआ । यह पूर्ण युवा हुआ तब सुनन्दा नामकी इसकी सुख देनेवाली स्त्री हुई ॥५१-२१॥ श्रीचन्द्र राजा ने पुत्रको अत्यन्त योग्य समझकर उसके लिए राज्य दे दिया और स्वयं सुमन्दर नामक सु राजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥५३॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्ठक राज्यमें अच्छी त प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ । एक दिन उसने यशोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे पंचाश्चर्यकी प्राप्ति हुई थी ॥५४॥ किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणोंके स निर्मल सुन्दर राजमहलके ऊपर अन्तःपुरके साथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि अ उसकी दृष्टि उल्कापातपर पड़ी । उसे देखते ही वह संसारको नष्टकर समझने लगा । तदनन्तर उ सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्दर नामक जिनेसमीप दीक्षा धारण कर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह अंगोंका अभ्यास किया और दर्शनविशु आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर नामक निर्मल नामकर्मका किया । जब आयुका अन्त आया तब समाधि धारण कर एक महीनेका संन्यास लिया जि प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया । वहाँ उसकी तैत्तीस सागर

साधुषोऽश्वसासान्तनिःश्वोऽभूश्चिरात्कुलम् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दव्यतीती भोगसंपदम् ॥६०॥  
 मुञ्जानो नि प्रवीचारं लोकनालीगतवधिः । बलदीप्तिविकारादिगुणस्तक्षेत्रमात्रकः ॥६१॥  
 एवं देवगती दिव्यसुखं सुखमहाम्बुधेः । संप्राप जातसंतुष्टिः, स्थितश्चिरसुखायुषा ॥६२॥  
 यतः परं तद्दुःकृतः क्लिाते चंडवर्णनम् । द्वीपे जम्बूपति क्षेत्रे भरते वत्सदेशजे ॥६३॥  
 कौशाम्ब्याख्ये सुविरुधातो नगरे भगवा नृपः । तद्देवी वीतशोकाभूत्सुतः ख्यातो रघुस्तयोः ॥६४॥  
 सुमुखो नाम तत्रैव जातः श्रेष्ठी महद्दिकः । इतः कश्चिद्विषये पुरादन्तपुराह्वयात् ॥६५॥  
 सार्धेन सममागच्छद् वीरदत्तो वणिक्सुतः । नाम्ना व्याघमयादेत्ये मार्यया वनमाकया ॥६६॥  
 कौशाम्बीनगरं तत्र सुमुखाख्यं समाश्रयत् । वनमाकां समाकोच्य स श्रेष्ठी विहरन् वने ॥६७॥  
<sup>१</sup>विकायसायकैस्तीक्ष्णैः कदाचिच्छरधीकृतः । मायावी वीरदत्तं तं पापी वाणिज्यहेतुना ॥६८॥  
 प्राहिणोद् द्वादशशब्दानां द्रवा पुष्कलजीविकाम् । स्वीचकार सहाकीर्यां वनमाकां विक्रोमिताम् ॥६९॥  
 अतिवाह्यगतो वीरदत्तो द्वादश वत्सरान् । तद्विक्रियां समाकर्ण्य स्मरन् संसारदुःस्थितम् ॥७०॥  
<sup>३</sup>शोकाकुलः सुनिर्विण्णः क्षीणपुण्यो निराश्रयः । वणिक् समग्रहीद् दीक्षां प्रोष्ठिकाख्यमुनिं श्रितः ॥७१॥  
 जीवितान्ते स संन्यस्य कल्पे सौ धर्मनामनि । जातश्चित्राङ्गदो देवः प्रवीचारसुखाकरः ॥७२॥  
 स श्रेष्ठी वनमाका च धर्मसिंहतपोभूते । दृत्वा प्रासुकमाहारं निन्दित्वा निजदुष्कृतम् ॥७३॥  
 अन्येषुरश्रानेः पापात् संप्राप्य मरणं समम् । भरते हरिवर्षाख्ये देशे भोगपुरेशिनः ॥७४॥  
 प्रमञ्जनाख्यनृपतेर्मुकण्डवाख्या मनोरमा । हरिवंशोऽजनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयोः सुतः ॥७५॥

आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह साढ़े सोलह माहके अन्तमें एक बार श्वास ग्रहण करता था, बिना किसी आकुलताके जब तैतीस हजार वर्षे बीत जाते थे तब एक बार आहार ग्रहण करता था, उसका सुख प्रवीचार-मैथुनसे रहित था, लोक-नाड़ीके अन्त तक उसके अवधि-ज्ञानका विषय था, वहींतक उसके बल, कान्ति तथा विक्रिया आदि गुण भी थे ॥५५-६१॥ इस प्रकार वह देवगतिमें दिव्य सुखका अनुभव करता था, सुखरूपी महासागरसे सदा सन्तुष्ट रहता था और सुखदायी लम्बी आयु तक वहीं विद्यमान रहा था ॥६२॥

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उत्पन्न होगा उस वंशका वर्णन किया जाता है । जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक वत्स नामका देश है । उसकी कौशाम्बी नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध राजा भगवा राज्य करता था । उसकी महादेवीका नाम वीतशोका था । कालक्रमसे उन दोनोंके रघु नामका पुत्र हुआ ॥६३-६४॥ उसी नगरमें एक सुमुख नामका बहुत धनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिंग देशके दन्तपुर नामक नगरमें वीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोके डरके कारण अपने साथियों तथा वनमाला नामकी स्त्रीके साथ कौशाम्बी नगरीमें आया और वहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा । किसी दिन सुमुख सेठ वनमें घूम रहा था कि उसकी दृष्टि वनमालापर पड़ी । उसे देखते ही कामदेवने उसे अपने बाणोका मानो तरकश बना लिया — वह कामदेवके बाणोंसे घायल हो गया । तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने वीरदत्तको तो बहुत भारी आजीविका देकर बारह वर्षके लिए व्यापारके हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं लुभायी हुई वनमालाको अपकीर्षिके साथ स्वीकृत कर लिया—अपनी स्त्री बना लिया ॥६५-६९॥ बारह वर्षे बिताकर जब वीरदत्त वापस आया तब वनमालाके विकारको सुन संसारकी दुःख-मय स्थितिका विचार करने लगा । अन्तमें शोकसे आकुल, पुण्यहीन, आश्रयरहित, वीरदत्तने विरक्त होकर प्रोष्ठिल मुनिके पास जिन-दीक्षा धारणा कर ली ॥७०-७१॥ आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें प्रवीचारकी खान स्वरूप चित्रांगद नामका देव हुआ ॥७२॥ इधर सुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्मसिंह नामक मुनिराजके लिए प्रासुक आहार देकर अपने पापकी निन्दा की ॥७३॥ दूसरे ही दिन वज्रके गिरनेसे उन दोनोंकी साथ-ही-साथ मृत्यु हो गयी । उनमेंसे सुमुखका जीव तो भरत क्षेत्रके हरिवर्षे

१ कामवाणं । २ दण्डीकृतः । ३ शोकाकुलं छ० । ४ भारते छ० ।

वस्वालयपुराधीशो वज्रचापमहीपतेः । तत्रैवासौ सुभायाश्च वनमालारूपिणी ॥३६॥  
 विद्युन्मालेति भूत्वा तुक् विद्युदुद्योतहासिनी । आपूर्णयौवनस्यासीत् सिंहकेतोः रतिप्रदा ॥७३॥  
 जातु तौ दम्भतो दृष्ट्वा देवे विहरणे वने । चित्राङ्गदे समुद्भूत्य हनिष्यामीति गच्छति ॥७४॥  
 रघुः पुरातनो भूप सुसुखस्य सखा प्रियः । अणुव्रतफलेनाभूत् कल्पे सौधर्मनामानि ॥७५॥  
 बर्धः सूर्यप्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा । शृणु मद्बचनं मद्र फलं कि तेऽनयोऽमूर्ते ॥८०॥  
 पापासुबन्धि कर्मदमयुक्तं युक्तिकारिणाम् । संसारद्गुमदुःखामिधानं दुःखफलप्रदम् ॥८१॥  
 ततो मिथुनमेतत्त्वं विसृज्येत्यभ्यधानुमुहुः । श्रुत्वा तज्जातकारुण्यस्तदमुञ्चदसौ सुरः ॥८२॥  
 तौ संबोध्य सभाश्वस्य तयोश्चम्पापुरे वने । सुखासि माघिनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजा व्यसर्जयत् ॥८३॥  
 तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीर्तिनाममहीभुजि । विपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसंततिसंस्थितेः ॥८४॥  
 सपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं वारणं श्रुतलक्षणम् । गन्धादिभिः समभ्यर्च्यमुञ्चत् सन्मन्त्रिमण्डलम् ॥८५॥  
 सोऽपि दिव्यो राज्ञो गत्वा वनं पुण्यविपाकतः । तासुद्भूत्य निजस्कन्धमारोप्य पुरमागमत् ॥८६॥  
 सिंहकेतोर्विभायामिषेकं मन्त्र्यादयस्तदा । राज्यासनं समारोप्य बद्ध्वा पट्टं ससंमदाः ॥८७॥  
 त्वं कस्यान्नागतः कस्मादित्वाहुः सोऽज्रवीदिदम् । प्रभञ्जनः पिता माता मृकण्डू मण्डिता गुणैः ॥  
 हरिबंधामलक्ष्योमसोमोऽहमिह केनचित् । सुरेणानीय मुक्तः सन्न सह पत्न्या वने स्थितः ॥८९॥  
 इति तद्बचनं श्रुत्वा मृकण्डूवास्तनयो यतः । मार्कण्डेयस्तु नाभैष इति ते तमुदाहरत् ॥९०॥  
 एष देवोपनीतं तद्राज्यं सुचिरमन्वभूत् । संताने तस्य गिर्यन्वी हरिर्हिमगिरिः परः ॥९१॥

नामक देशमें भोगपुर नगरके स्वामी हरिचंशीय राजा प्रभंजनकी मृकण्डू नामकी रानीसे  
 नामका पुत्र हुआ और वनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी  
 वज्रचापकी सुभा नामकी रानीसे बिजलीकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाली विद्युन्माला  
 की पुत्री हुई जो सिंहकेतुके पूर्ण यौवन होनेपर उसकी खी हुई ॥७४-७७॥ किसी दिन वन-  
 करते समय चित्रांगद देवने उन दोनों दम्पतियोंको देखा और 'मैं इन्हें मारूँगा' ऐसे वि-  
 वह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥७८॥ पहले जन्ममें सेठ सुसुखका प्रियमित्र राजा रघु  
 के फलसे सौधर्म स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था । वह उस समय चित्रांगदको  
 कर कहने लगा कि 'हे भद्र ! मेरे बचन सुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुझे क्या फल मिले  
 यह काम पापका, बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूर्वक काम करनेवालोंके अयोग्य है, सं-  
 वृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है । इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे' इस प्रकार  
 बार-बार कहा । उसे सुनकर चित्रांगदको भी दया आ गयी और उसने उन दोनोंको छोड़  
 तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पतियोंको सम्बोध कर आश्यासन दिया और आगे  
 वाले सुखकी प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके वनमें छोड़ दिया ॥७९-८३॥ देव य  
 उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीर्ति विना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी  
 ठीक-ठीक चलानेके लिए लिए सुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको ढूँढनेके  
 किसी शुभ लक्षणवाले हाथीको गन्ध आदिसे पूजा कर छोड़ा था ॥८४-८५॥ वह दिव्य  
 भी वनमें गया और पुण्योदयसे उन दोनों—सिंहकेतु और विद्युन्मालाको अपने कन्धेपर  
 कर नगरमें वापिस आ गया ॥८६॥ प्रसन्नतासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अं-  
 किया, राज्यासनपर बैठाया और पट्ट बाँधा ॥८७॥ तदनन्तर उन लोगोंने पूछा कि आप  
 के पुत्र हैं और यहाँ कहाँसे आये हैं ? उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि 'मेरे पिताका नाम  
 है और माताका नाम गुणोंसे मण्डित मृकण्डू है । मैं हरिवंशरूपी निर्मल आकाशका  
 हूँ, कोई एक देव मुझे पत्नीसहित लाकर यहाँ वनमें छोड़ गया है, मैं अबतक वनमें ही  
 था' ॥८८-८९॥ सिंहकेतुके बचन सुनकर लोग चँकि उठे मृकण्डूका पुत्र है इसलिए उ  
 मार्कण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे ॥९०॥ इस प्रकार वह मार्कण्डेय, देवय

तृतीयो वसुगिर्याख्यः परेऽपि बहवो गताः । तदा कुशार्थविषये तद्दृशान्धरमास्वतः ॥११॥  
 अवार्थनिजशौर्येण निजिताज्ञेषविद्विषः । खयातशौर्यपुराधीनासूरसेनमहीपतेः ॥१२॥  
 सुतस्य शूरवीरस्य धारिण्याश्च तनुङ्गवै । विख्यातोऽन्धकवृष्टिश्च पतिवृष्टिर्नारादिवाक् ॥१३॥  
 धर्मा बान्धकवृष्टेश्च सुभद्रयाश्च तुगवराः । समुद्रविजयोऽक्षोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥१५॥  
 हिमवान् विजयो विद्वानचलो धारणाह्वयः । पूरणं पूरितार्थोच्छो नवमोऽप्यमिनन्दनः ॥१६॥  
 चसुदेवोऽन्तिमशैवं दशाम्भुवन् शशिप्रभाः । कुन्ती माद्री च सोमे वा सुते प्रादुर्बभूवुतः ॥१७॥  
 समुद्रविजयादीनां नवानां सुरतप्रदाः । शिवदेव्यनु तस्य धृतीश्वरार्थः स्वर्थप्रभा ॥१८॥  
 सुनीताख्या च शीता च प्रियावाक् च प्रभावती । कालिङ्गी सुप्रभा चेति बभूवुर्धुवनोत्तमाः ॥१९॥  
 पद्मावत्या द्वितीयस्य दृष्टेश्च तनयास्त्रयः । उग्रदेवमहाधुक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥२०॥  
 गान्धारी च सुता प्रादुरभवन् शुभदायिनः । अथ कौरवमुह्यस्य हस्तिनाख्यपुरेशिनः ॥२१॥  
 कालिनाममहोशस्य शतक्याश्च पराशरः । तस्य मत्स्यकुलोत्पन्नराजपुत्र्यां सुतोऽभवत् ॥२२॥  
 सत्यवत्यां सुधोर्व्याप्तः पुनर्व्याप्तसुभद्रयोः । छतराष्ट्रो महान् पाण्डुबिद्वुश्च सुताख्यः ॥२३॥  
 अथात्रैव विद्वारार्थं कदाचिद् वज्रमाकिनि । नमोयायिनि विस्मृत्य गते हस्ताङ्गुलीयकम् ॥२४॥  
 विकीर्य पाण्डुभूपालो गहने तत्समग्रहीत् । स्मृत्वा खर्गं विद्वल्यैर्य मुद्रिकां तामितस्ततः ॥२५॥  
 अन्विच्छन्तं विकीर्याह पाण्डुः किं मृग्यते स्वया । इति तद्वचनं श्रुत्वा विद्याधन्म मुद्रिका ॥२६॥  
 विनष्टैवदत्तस्य पाण्डुश्चैतामदर्शयत् । पुनः किमनया कृत्यसिति तस्यानुयोजनात् ॥२७॥

प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करता रहा । उसीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि तथा वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए । उन्हींमें कुशार्थ देशके शौर्यपुर नगरका स्वामी राजा शूरसेन हुआ जो कि हरिवंशरूपी आकाशका सूर्य था और अपनी शूरवीरतासे जिसने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था । राजा शूरसेनके वीर नामका एक पुत्र था । उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था । इन दोनोंके अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि नामके दो पुत्र हुए ॥११-१२॥ अन्धकवृष्टि-की रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके धर्मके समान गम्भीर समुद्रविजय १, स्तिमितसागर २, हिमवान् ३, विजय ४, विद्वान् अचल ५, धारण ६, पूरण ७, पूरितार्थोच्छ ८, अभिनन्दन ९ और वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दस पुत्र हुए तथा चन्द्रिकाके समान कान्तिवाली कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई ॥१५-१७॥ समुद्रविजय आदि पहलेके नौ पुत्रोंके क्रमसे सम्भोग सुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, धृतीश्वरा, स्वयम्भवा, सुनीता, सीता, प्रियावाक्, प्रभावती, कालिङ्गी और सुप्रभा नामकी संसारमें सबसे उत्तम स्त्रियाँ थीं ॥१८-२६॥ राजा शूरवीरके द्वितीय पुत्र नरवृष्टिकी रानीका नाम पद्मावती था और उससे उनके उग्रसेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ॥२०॥ इनके सिवाय एक गान्धारी नामकी पुत्री भी हुई । ये सब पुत्र-पुत्रियाँ अत्यन्त सुख देनेवाले थे । इधर हस्तिनापुर नगरमें कौरव वंशी राजा शक्ति राज्य करता था । उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ । उस पराशरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसे बुद्धिमान् व्यास नामका पुत्र हुआ । व्यासकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्डु और विद्वर थे तीन पुत्र हुए ॥२१-२७॥

अथानन्तर—किसी एक समय वज्रमाली नामका विद्याधर क्रोड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके वनमें आया था । वह वहाँ अपने हाथकी अँगूठी भूलकर चला गया । इधर राजा पाण्डु भी उसी वनमें घूम रहे थे । इन्हें वह अँगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली । जब उस विद्याधरको अँगूठीका स्मरण आया तब वह लौटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ-वहाँ उसकी खोज करने लगा । उसे ऐसा करते देख पाण्डुने कहा कि आप क्या खोज रहे हैं ? पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी

१ धर्मा इव । २ चन्द्रिके इव । ३ धृतिश्वराय ख०, ग० । ४ धृतिश्वरा ल० । ५ शतक्याश्च ग०, घ०, म० । शतक्याश्च ख० ।



भद्रेषा कामरूपस्य साधनीत्यब्रवीत्स्वगः । यद्येवं कानिचिद् भ्रातर्दिनान्घेषास्तु मत्करे ॥१०८॥  
 प्रभावमस्याः पश्यामीत्यथितस्तेन सोऽप्यदात् । पाण्डुश्च तत्कृतादृश्यनिजरूपेण संगमम् ॥१०९॥  
 कुन्त्या सहाकृतोत्पन्नस्तत्र कर्णाह्वयः सुतः । ततः परैरविदित मन्जूषार्थ्यं सकुण्डलम् ॥११०॥  
 सरलकवचं लेख्यपत्रकेण सहार्भन्मम् । कुन्तीपरिजनः काकिन्धाः प्रवाहे मुमोच तम् ॥१११॥  
 चम्पापुरेश्वरो यान्तीमानाथ्यादित्यनामकः । बालमानुमित्रान्तत्स्थं बालकं स सविस्मयः ॥११२॥  
 पश्यन् स्वदेव्यै<sup>२</sup> राधायै तोकः स्यादिति भाववित् । दत्त्वा सकृद्विलोचयैर्न राधाकर्णपरिस्पृशम् ॥१३॥  
 अस्तु कर्णाभिधानोऽयमिति सादरमब्रवीत् । पाण्डोः कुन्त्या च माद्र्या च पाणिग्रहणपूर्वकम् ॥१४॥  
 प्राजापत्येन संबन्धो विवाहेनाभवत् पुनः । कुन्त्यामजनि धर्मिष्ठो धर्मपुत्रो<sup>३</sup> धराधिपः ॥१५॥  
 भीमसेनोऽनुपार्थश्च त्रयो वर्गत्रयोपमाः । माद्र्यां तु नकुलो ज्येष्ठः सहदेवस्ततोऽन्भवत् ॥१६॥  
 धृतराष्ट्राय गान्धारी दत्ता दुर्योधनोऽजनि । तयोर्दुःशासनः पश्चादय दुर्धर्षणस्ततः ॥१७॥  
 दुर्मर्षणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं महौजसः । एवं सुखेन सर्वेषां कालो गच्छति लीलया ॥१८॥  
 अन्धेषुः सुप्रतिष्ठाख्यो मुनीन्द्रो गन्धमादने । गिरौ सनिहितः शूरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥१९॥  
 पुत्रपौत्रादिभिः सार्धं गत्वाभ्यर्च्यामिनुत्य तम् । श्रुत्वा धर्मं तदुद्दिष्टं स संवेगपरायणः ॥२०॥  
 कृत्वाभिषेचनं दत्त्वा राज्यमन्धकवृष्टये । योग्योऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥२१॥  
 संयमं स्वयमादाय तपांस्तुष्टैः समाचरन् । गतेषु द्वादशाब्देषु पवंते गन्धमादने ॥२२॥  
 प्रतिमायोगमालम्ब्य सुप्रतिष्ठस्य तिष्ठतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्रवं क्रुधा ॥२३॥

अँगूठी गिर गयी है । इसके उत्तरमें पाण्डुने उसे अँगूठी दिखा दी । पश्चात् पाण्डुने उस धरसे पूछा कि इससे क्या काम होता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि हे भद्र ! यह इच्छानुसार रूप बनानेवाली है । यह सुनकर पाण्डुने प्रार्थना की कि हे भाई ! यदि तो यह अँगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, मैं इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डु प्राथनापर उस विद्याधरने वह अँगूठी उन्हें दे दी । पाण्डुने उस अँगूठीके द्वारा किये अदृश्य रूपसे कुन्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न कुन्तीके परिजनोंने दूसरोंको विदित न होने पावे इस तरह छिपाकर उस बालकको एक कचीमें रखा, उसे कुण्डल तथा रत्नोंका कवच पहिनाया और एक परिचायक पत्र साथ यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥१०४-१११॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई कचीको मँगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान बालकको देख विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो जायेग विचार कर उसने वह पुत्र राधाके लिए दे दिया । राधाने जब उस पुत्रको देखा तब व कर्ण—कानका स्पर्श कर रहा था इसलिए उसने बड़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती और माद्रीके साथ पाणिग्रहणपूर्वक प्रा विवाहसे सम्बन्ध हो गया । कुन्तीके धर्मपुत्र—युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्प फिर क्रमसे भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुए । उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप । समान जान पड़ते थे । इसी प्रकार माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकु हुआ था ॥११२-११६॥ धृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गयी थी अतः उन दोनोंके सर्व दुर्योधन उत्पन्न हुआ । उसके पश्चात् दुःशासन, दुर्धर्षण तथा दुर्मर्षण आदि उत्पन्न सब महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सबका काल लीलापूर्वक सुखसे व्यतीत हो ॥११७-११८॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक पर्वतपर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मु आकर विराजमान हुए । राजा शूरवीर अपने पुत्र पौत्र आदिके साथ उनकी वन्दना गया । वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की और उनके द्वारा कहा हुआ उपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने अभि अन्धकवृष्टिके लिए राज्य दे दिया और 'यह योग्य है' ऐसा समझकर छोटे पुत्र नरवृष्टि

उपसर्गं विजित्यास्य सोढ्वाऽशेषपरीषहान् । ध्यानेनाहस्य घातीनि प्रादुरासीत् स केवली ॥१२४॥  
 देवैरन्धकवृष्टिश्च सह पूजार्थमागतः । अपृच्छदेवं देवाय देवस्ते केन हेतुना ॥१२५॥  
 महोपसर्गं पूज्यस्य कृतवानिति विस्मयात् । तदुक्त्यवसितो व्यक्तं जिनेन्द्रोऽप्येवमब्रवीत् ॥१२६॥  
 द्रोपेऽस्मिन् मारुते क्षेत्रे कलिङ्गविषये पुरे । काम्ब्यां वणिक्सुतः सूरदत्तोऽन्यश्च सुदत्त्वाक् ॥१२७॥  
 लङ्काद्वीपादिषु स्वैरं समावर्ज्यं निजं धनम् । सुरो न्यक्षिपतां गूढं प्रवेनो शुक्लमीलुको ॥१२८॥  
 मूले क्षुपविवोपस्थानमिज्ञानमथोऽन्यदा । कश्चिन्मद्ययोगार्थं वने तद्योग्यभूहाम् ॥१२९॥  
 मूलाभ्युत्खन्य संगृह्यन् विळोक्य बहु तद्धनम् । किमनेन मुधा मूलखननेनात्पहेतुना ॥१३०॥  
 सूरभृतमिष्टं लब्धं धनं दारिद्र्यविद्वुतिम् । विदधात्यामृतेभोगैरित्यादाय गतस्ततः ॥१३१॥  
 तदागत्य वणिक्पुत्रो तत्प्रदेशे निजं धनम् । अनिरीक्ष्य मृगौ हत्वाऽश्रद्धघातौ परस्परम् ॥१३२॥  
 बद्ध्वायुः क्रोधलोभाभ्यामार्षं नरकमीयतुः । तत्र दुःख चिरं मुक्त्वा ततो विन्ध्याद्रिकन्दरे ॥१३३॥  
 जातौ मैपौ पुनस्तत्राप्यन्योन्यवधकारिणौ । गोकुले वृषभौ जातौ गङ्गातटनिवासिनि ॥१३४॥  
 तत्र जन्मान्तरद्वेषात् कृतयुद्धौ गतासुकौ । समेदपर्वते जातौ वानरौ वा नरौ धिया ॥१३५॥  
 शिलासलिलहेतोस्तौ कलहं खलु चक्रतुः । सृत्वस्तयोः सपथकः परः कण्ठगतासुकः ॥१३६॥  
 सुरदेवादिगुर्वन्तचारणाभ्यां तस्युसुकः । श्रुत्वा पञ्चनमस्कारं धर्मश्रुतिपुरस्सरम् ॥१३७॥

युवराज पद दे दिया । तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने लगा । अनुक्रमसे बारह वर्ष बीत जानेपर वही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्वतपर प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय सुदर्शन नामके देवने क्रोधवश कुछ उपसर्ग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गको जीतकर तथा समस्त परिपहो-को सहकर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोका क्षय करते हुए केवलज्ञानी हो गये ॥११६-१२४॥ उस समय सब देवोके साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था । वहाँ उसने आश्चर्य-से पूछा कि हे देव ! इस देवने पूजनीय आपके ऊपर यह महान् उपसर्ग किस कारण किया है ? अन्धकवृष्टिके ऐसा कह चुकनेपर जिनेन्द्र भगवान् सुप्रतिष्ठ केवली इस प्रकार कहने लगे—

इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कलिग देशके कांचीपुर नगरमें सूरदत्त और सुदत्त नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे ॥१२५-१२७॥ उन दोनोंने लंका आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार बहुत-सा धन कमाया और लौटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय लगा कि इस धनपर टैक्स देना पड़ेगा । इस भयसे उन्होंने वह धन नगरके बाहर ही किसी झाड़ोके नीचे गाड़ दिया और कुछ पहचानके लिए चिह्न भी कर दिये । दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा । खोदते समय उसे वह भारी धन मिल गया । धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है ऐसे इन वृक्षोंकी जड़ोंके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुझे अब बहुत भारी धन मिल गया है यह मेरी सब दरिद्रताको दूर भगा देगा । मैं मरण पयन्त इस धनसे भोगोंका सेवन करूँगा, ऐसा विचार वह सब धन लेकर चला गया ॥१२८-१३१॥ दूसरे दिन जब वैश्यपुत्र उस स्थानपर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर अविश्वास करते हुए लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरेको मारकर मर गये । वे क्रोध और लोभके कारण नरकायुका बन्ध कर पहले नरकमें जा पहुँचे । चिरकाल तक वहाँके दुःख भोगनेके बाद वहाँसे निकले और विन्ध्याचलकी गुफामें मेला हुए । वहाँ भी परस्पर एक दूसरेका वध कर वे गंगा नदीके किनारे बसनेवाले गोकुलमें बैठे हुए । वहाँ भी जन्मान्तरके द्वेषके कारण दोनों युद्ध कर मरे और सम्भेदपर्वतपर बुद्धिसे मनुष्योंकी समानता करनेवाले वानर हुए ॥१३२-१३५॥ वहाँपर भी परस्पर निकलने-वाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे । उनमेंसे एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वहाँसुरगुरु और देवगुरु नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज आ पहुँचे । उन्होंने उसे पञ्चनमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे उसने बड़ी उत्सुकतासे

सौधर्मकल्पे चित्राङ्गदाख्यो देवोऽजनिष्ट सः । ततो निर्गत्य जम्बवादिद्वीपे भरतमध्ये ॥१३॥  
 सुरम्यविषये पोदनेनः सुस्थितभूपते । सुकक्षणार्थां पुत्रोऽभूत् सुप्रतिष्ठं वरिष्ठधीः ॥१३२॥  
 कदाचित् प्रावृद्धारम्भे गिरावसितनामनि । युक्तं मर्कटयोर्वीक्ष्य स्मृतप्राग्जन्मचेष्टितः ॥१३०॥  
 सुधर्माचार्यमासाद्य दीक्षित्वामवदीष्टतः । सुरदत्तवरः सोऽहं सुदत्तोऽप्यनुजो भवे ॥१३१॥  
 आन्वान्ते, सिन्धुतीरस्थकृत्वायणतपस्विनः । विशालायाश्च तोकोऽभूदगोतमाख्यः कुदर्शनात् ॥१३  
 तपः पञ्चाग्निमध्येऽसौ विधाय ज्योतिषां गणैः । देवः सुदर्शनो नास्मा भूत्वा प्राग्जन्मवैरतः ॥१३४  
 ममायमकरोदीदृगिति तद्वाक्यमादरात् । श्रुत्वा सुदर्शनो मुक्तवैरः सद्धर्ममग्रीहत् ॥१३५॥  
 अथातोऽन्धकवृष्टिश्च श्रुत्वा मुक्तयन्करौ । स्वपूर्वभवंसंवनभमष्टचञ्जिनपुङ्गवम् ॥१३५॥  
 वीतरागोऽपि सोऽप्याह तस्पृष्टं शिष्टगीर्णुणः । निर्निमित्तहित्वाकथानं नाम तेषु त्रिसर्गजम् ॥१३६  
 द्वीपेऽत्रैव विनीतायां नरेन्द्रोऽनन्तवीर्यवाक् । सुरेन्द्रदत्तस्तत्रैव बैद्यो वैश्वणोपमः ॥१३७॥  
 दशभिर्नित्यपूजायामष्टम्यां द्विगुणैस्त्वतः । चतुर्गुणैरमावस्यायां पर्वण्यष्टमिर्गुणैः ॥१३८॥  
 दीनारैरहंतां पूजां करोति विहित्यथैः । सहित, पात्रदानेन सशरीकः सोपवासकः ॥१३९॥  
 धमशील इति ख्यातिं स समापापपापकः । गन्तुं वारिपथं चान्दन्नन्येषुर्वणिजां वरः ॥१४०॥  
 द्वादशाब्दैः समावर्ज्य धनमागन्तुकः परम् । जिनपूजाव्यथायाथं द्वादशाब्दनिवन्धनम् ॥१४१॥  
 मित्रस्य रुद्रदत्तस्य ब्राह्मणस्य करे न्यर्थात् । अनेन जिनपूजादि कुर्वहं वा त्वमित्यसौ ॥१४२॥

सुना और धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधर्म स्वर्गमें चित्रांगद नामका देव हुआ । निकलकर वह उसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदतपुर नगरके स्वाम सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उल्लूख बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ १३२॥ किसी एक समय वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें उसने असित नामके पर्वतपर दो व युद्ध देखा । जिससे उसे अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेष्टाओंका स्मरण हो गया ॥१३० समय उसने सुधर्माचार्यके पास जाकर दीक्षा ले ली । वही सूरदत्तका जीव मैं यह हुआ हूँ । मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें भ्रमण करता हुआ अन्तमें सिन्धु नदीके रहनेवाले मृगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामकी स्त्रीसे गोतम नामका पुत्र हुआ । दर्शनके प्रभावसे वह पञ्चाग्नियोंके मध्यमें तपश्चरण कर सुदर्शन नामका ज्योतिष्क दे है । पूर्व भवके वैरके कारण ही इसने सुष्टपर यह उपसर्ग किया है । सुदर्शन दे सुप्रतिष्ठ केवलीके वचन बड़े आदरसे सुने और सब वैर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत ॥१३१-१३४॥ तदनन्तर राजा अन्धकवृष्टिने यह सब सुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भवका सम्बन्ध पूछा ॥१३५॥ शिष्ट वचन बोलना ही जिनकी विशेष गुण है ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान् कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिन निमित्तके हितकी बात कहना उन-जैसोंका स्वाभाविक गुण है ॥१३६॥

वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीर्य नामका राजा र उसी नगरीमें कुबेरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था । वह सेठ प्रतिदिन दस द अष्टमीको सोलह दीनारोंसे, अमावसको चालीस दीनारोंसे और चतुर्दशीको अस्सी अर्हन्त भगवान्की पूजा करता था । वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था, शी करता था और उपवास करता था । इन्हीं सब कारणोंसे पापरहित उस सेठने 'धर्मशील' इ प्रसिद्धि प्राप्त की थी । किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे जाकर धन कमानेकी इच्छा क बारह वर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इसलिये बारह वर्ष तक भगवान्की पूजा कर जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मणके हाथमें सौप दिया दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कार्य करते रहना क्योंकि आपमेरे ही समान हैं ॥१४

तस्मिन् गते स विप्रोऽपि खीणतव्यसनादिभिः । धनं कलिपर्यैरेव दिनेन्ययमनीनयत् ॥१५३॥  
 ततश्चौर्यादिदुष्कर्मसक्तं तलवरो द्विजम् । श्येनकाख्यो अमन् इष्ट्वा रात्रौ त्वां हन्म्यहं नहि ॥१५४॥  
 द्विजाख्याधारिणं याहि नगराद् दक्ष्यसे यदि । पुनः कृतान्तवचनं त्वं नेष्यसे दुष्क्रियो मया ॥१५५॥  
 इत्यत्यतर्जयत् सोऽपि काककाख्येन पापिना । सममुत्कासुखीन्वापनिवासपतिनागमत् ॥१५६॥  
 स कदाचिदयोध्यायां गोकुलापहृतौ द्विजः । श्येनकेन हतोऽयासीन्महापापादधोगतिम् ॥१५७॥  
 ततश्च्युत्वा महामत्स्यो हरिर्दंष्ट्रिविपोरगः । शार्दूलो पक्षिणामीशो व्यालो व्याधश्च संभवन् ॥१५८॥  
 प्रथिद्वयाधोगतोः सर्वाः कृच्छ्रात्ताभ्यो विनिर्गतः । त्रसस्थावरभावेन चिरकालं परिभ्रमन् ॥१५९॥  
 जम्बूपलक्षिते द्वीपे मरते कुरुनाडके । हास्तिनाल्यं पुरं पाति धराधीशे धनंजये ॥१६०॥  
 सुतो गोतमपुत्रस्य संबभूव द्विजात्मजः । कपिष्ठकस्य निःश्रीकः सोऽनुन्धयाश्च गोतमः ॥१६१॥  
 तत्समुत्पत्तिमात्रेण तच्छेषमभवत् कुक्कुम् । अकन्धाक्षः कृशीभूतजठरः प्रकटास्थिकः ॥१६२॥  
 तिरावनद्दृष्ट्वाभयो यूकाञ्चितशिरोरुहः<sup>१</sup> । शयानश्चैव सर्वैश्च तर्जितो यत्र तत्र वा ॥१६३॥  
 कराग्रकपरैणोपकक्ष्यमाणोऽनपायिना । सुमित्रेणैव सर्वत्र शरीरस्थितहेतुना ॥१६४॥  
 वाञ्छितेन रसेनेव देहीति वचसा रुद्रः । लोलुपो निवृत्तिं प्राप्तुं भिक्षामात्रेण दुर्विधः ॥१६५॥  
 काकवत्पर्वसु भ्रान्तः पश्यन् वकिं<sup>२</sup> विसर्जनम् । अनास्थानिव शीतोष्णवातं<sup>३</sup> वाधाः सहन् सुदुः ॥१६६॥

सेठके चले जानेपर रुद्रदत्त ब्राह्मणने वह समस्त धन परस्त्रीसेवन तथा जुआ आदि व्यसनोके द्वारा कुछ ही दिनोंमें खर्च कर डाला ॥१५३॥ तदनन्तर वह चोरी आदिमें आसक्त हो गया । श्येनक नामक कोतवालने उसे चोरी करते हुए एक रातमें देख लिया । देखकर कोतवालने कहा कि चूँकि तू ब्राह्मण नामको धारण करता है अतः मैं तुझे मारता नहीं हूँ । तू इस नगरसे चला जा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराजके मुखमें भेज दिया जायेगा—मारा जायेगा ॥१५४-१५५॥ यह कहकर कोतवालने उसे डौंटा । रुद्रदत्त भी, वहाँसे निकलकर उल्कामुखीपर रहनेवाले भीलोंके स्वामी पापी कालकसे जा मिला ॥१५६॥ वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करनेके लिए आया था उसी समय श्येनक कोतवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापके कारण अयोगतिमें गया ॥१५७॥ वहाँसे निकलकर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर सिंह हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिविष नामका सर्प हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर शार्दूल हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर गरुड़ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर सर्प हुआ फिर नरक गया और वहाँसे आकर भील हुआ । इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर वहाँसे बड़े कष्टसे निकला और त्रस-स्थावर योनियोंमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा ॥१५८-१५९॥ अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशके हास्तिनापुर नगरमें जब राजा धनंजय राज्य करते थे तब गोतम गोत्री कपिष्ठल नामक ब्राह्मणकी अनुन्धरी नामकी स्त्रीसे वह रुद्रदत्तका जीव गोतम नामका महादरिद्र पुत्र हुआ । उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया । उसे खानेके लिए अन्न नहीं मिलता था, उसका पेट सूख गया था, हड्डियाँ निकल आयी थीं, नर्सासे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था, उसके बाल जुआंसे भरे थे, वह जहाँ कहीं सोता था वहीं लोग उसे फटकार वतलाते थे, वह अपने शरीरकी स्थितिके लिए कभी अलग नहीं होनेवाले श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके अग्रभागमें खप्पर लिये रहता था ॥१६०-१६४॥ वाञ्छित रसके समान वह सदा 'देओ देओ' ऐसे शब्दोंसे केवल भिक्षाके द्वारा सन्तोष प्राप्त करनेका लोलुप रहता था परन्तु इतना अभाग था कि भिक्षासे कभी उसका पेट नहीं भरता था । जिस प्रकार पर्वके दिनोंमें कौआ बलिको हूँदनेके लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी भिक्षाके लिए इधर-उधर भटकता रहता था । वह

१ इत्यतर्जयत् ल० । २ व्यालकाष्य ल० । ३ कपिष्ठकस्य ल० । ४ स्तसावगद ल० । ५ तनूहः ल० । ६ वलिविमञ्जनम् ल० । ७ वातः वाधाः ल० (?) ।

मलुधारी परिभ्रष्टशेषेन्द्रियविजृम्भणः । जिह्वाविषयमेवेच्छन् दण्डधारीव भूपतिः ॥१६७॥

तमस्तमः प्रजातानां रूपमीदृग्मवेदिति । वेधसेव स्फुटीकर्तुमिहस्थानां विनिर्मितः ॥१६८॥

दधन्माषमषीवर्णमर्कमीत्यः तमश्चयः । नररूपधरो वातिशुशुप्स्यः पापमाक कचिच्च ॥१६९॥

आकण्ठपूर्णहारोऽपि नयनाभ्यामनृतसवान् । परिवीतकटिर्जाणंछिद्रिताञ्जुमकपटैः ॥१७०॥

व्रणवैगन्ध्यसंलक्षमक्षिकौषैरितस्ततः । मुद्गयंच्छववदावेध्व्यो मुखैरेरनपायिभिः ॥१७१॥

पौरवाककंसंधातैरनुयातैरनुक्षणम् । उपलादिप्रहारेण ताड्यमानः प्रकोपवान् ॥१७२॥

अनुधावनपतन्नेव दु खैः काकमजीगमत् । कदाचिहृड्धकालादिरनुयातो महासुनिम् ॥१७३॥

समुद्रसेननामानं पर्यटन्तं तनुस्थितेः । व्रणिवैश्रवणागारं तेनाकण्ठमभोज्यत ॥१७४॥

पुनर्मुन्याश्रमं गत्वा क्रुह त्वामिव, मामपि । इत्यवादीदसौ वास्तु मन्वोऽयमिति निश्चयात् ॥१७५॥

दिवसैः सहवासेन कैश्चिदक्षिततन्मनाः । अग्राहयन्मुनिस्तेन संयमं शमसाधनम् ॥१७६॥

बुद्ध्यादिकर्द्धयंस्तस्य जाताः संवसरादतः । स श्रीगोतमनाम्नामा गुरुस्थानमवाप स. ॥१७७॥

जीवितान्ते गुरुस्तस्य मध्यमैवेयकोध्वगे । विमाने सुविशाकाकथं समुत्पन्नः सुरोत्तमः ॥१७८॥

स श्रीगोतमनामापि विहिताराधनाविधिः । सम्यक् संन्यस्य तत्रैव संप्रापदहमिन्द्रताम् ॥१७९॥

तत्र दिव्यं सुखं सुक्त्वा तस्माद्विप्रचरो मुनिः । अष्टाविंशतिवाध्यायुरतिक्रान्ती च्युतो मवान् ॥१८०॥

मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा वायुकी बाधाको बार-बार सहता था, वह सदा मलिन था, केवल जिह्वा इन्द्रियके विषयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोंके विषय छूट गये थे । जिस प्रकार राजा सदा दण्डधारी रहता है—अन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोंको देता है उसी प्रकार वह भी सदा दण्डधारी रहता था—हाथमें लाठी लिये रहत ॥१६५-१६७॥ 'सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारकियोंका रूप ऐसा होता है' यहाँके लोगोंके बतलानेके लिए ही मानो विधाताने उसकी सृष्टि की थी । वह उद्वेग अथवा स्याही-जैसा धारण करता था । अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यके भयसे मानो अन्धकारका मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो । वह अत्यन्त घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं पर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेत्रोंसे वह अतृप्त-जैसा ही मालूम होता, वह शीर्ण तथा छेदवाले अशुभ वस्त्र अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीरपर बहुत-से घा रहते थे, उनकी बड़ी दुर्गन्ध आती थी तथा भिनभिनाती हुई अनेक मक्खियाँ उसे सदा रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मक्खियोंसे उसे क्रोध भी बहुत पैदा होता था । न बालकोंके समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचे, वह झुंझलाकर उन बालकोंका पीछा भी करता था परन्तु बीचमें ही गिर पड़ता था । प्रकार बड़े कष्टसे समय बिता रहा था । किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल प्राप्तिसे आहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया । वैश्रवण यहाँ मुनिराजका आहार हुआ । सेठने उस गोतम ब्राह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण भोजन करा दि भोजन करनेके बाद भी वह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा और कहने लगा कि आप मुझे भी अब जैसा बना लीजिए । मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया कि यह बार भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तदनन्तर उ उसे शान्तिका साधनभूत संयम ग्रहण करा दिया ॥१६८-१७६॥ बुद्धि आदिक ऋद्धियाँ भी एक वर्षके बाद ही प्राप्त हो गयीं । अब वह गोतम नामके साथ-ही-साथ गुरुके स्थानको हो गया—उनके समान बन गया ॥१७७॥ आयुके अन्तमें उसके गुरु मध्यमत्रैवेयकके सुवि नामके उपरितन विमानमें अहमिन्द्र हुए और श्री गोतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें पूर्वक आराधनाओंकी आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम त्रैवे सुविशाल विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥१७८-१७९॥ वहाँके दिव्य सुखका उपभोग

अजन्मन्धकवृन्द्याख्य इति तद्गावयन् सुधीः । स्वपुत्रमवसंबन्धं सोऽन्वयुहक्ता पुनर्जिनम् ॥१८१॥  
 सर्वमाषास्वभावेन ध्वनिना निजगाद सः । जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मङ्गलाह्वये ॥१८२॥  
 नृपो मेघरथो नाज्ञा पुरे मद्रिलनामनि । सुमद्रायां सुतस्तस्य रथान्तददलसंज्ञकः ॥१८३॥  
 पट्टवन्धं स्वपुण्येन थीवराजस्य सोऽभिभः । तत्र नन्दयशोनाम्न्यां धनदत्तवणिक्पतेः ॥१८४॥  
 धनादिदेवपालाख्यौ देवपालौ जिनादिकौ । अर्हन्तौ दत्तदासान्तौ जिनदत्तश्च सप्तमः ॥१८५॥  
 प्रियमित्रोऽष्टमो धर्मरुचिश्चान्योऽमवत् सुतः । प्रियदर्शना ज्येष्ठा च जाते दुहितरौ ततः ॥१८६॥  
 नृपः सुदर्शनोद्याने मन्दिरस्थविरान्तिके । कदाचिद् वणिगीशश्च पुत्रादिपरिवारितौ ॥१८७॥  
 सक्रियं धर्ममाकर्ण्य निर्विध स महीपतिः । दृषवा दृढरथायाभिषेकपूर्वं स्वकं पदम् ॥१८८॥  
 आढदे संयमं पश्चाच्छ्रेष्ठी च नवमिः सुतैः । ततो नन्दयशा पुत्रिकाद्वयेनागमत्तपः ॥१८९॥  
 सुदर्शनायिकाभ्येनौ तूर्णनिर्णीतसंस्तुतिः । क्रमाद् चाराणसीवाह्यं केवलज्ञानिनोऽमवत् ॥१९०॥  
 वने प्रियङ्गुलुण्डाख्ये मनोहरतमद्रुमे । गुरुर्मैवरथो ध्यात्वा धनदत्तश्च ते त्रयः ॥१९१॥  
 धर्माभूतकीं वृष्टिसुद्विप्तो निरन्तरम् । जीवितान्ते तले सिद्धशिलायाः सिद्धिमव्रजन् ॥१९२॥  
 पुरे राजगृहे पूज्यास्त्रिजगज्जननायकैः । धनदेवादिकास्तस्मिन्नेवान्येषुः शिलातले ॥१९३॥  
 नवापि विधिना संन्यस्यन्ते वीक्ष्य सुताशुता । निदानमकरोन्नन्दयशा मे जन्मनीह वा ॥१९४॥  
 परत्राप्येवमेवैभिर्धम्बुखं भवतादिति । स्वयं च कृतसंन्यासा तैः सहान्तकरूपजे ॥१९५॥

वह ब्राह्मण मुनिका जीव अट्टार्ईस सागरकी आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत हुआ और तू अन्धक-  
 वृष्टि नामका राजा हुआ है । इस प्रकार अपने भवोंका अनुभव करता हुआ बुद्धिमान् अन्धक-  
 वृष्टि फिर भगवान्से अपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पूछने लगा ॥१८०-१८१॥ वे भगवान् भी  
 सर्वभाषा रूप परिणमन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे—

जम्बूद्वीपके मंगला देशमें एक मद्रिलपुर नामका नगर है । उसमें मेघरथ नामका राजा  
 राज्य करता था । उसकी देवीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके हृदय नामका पुत्र हुआ ।  
 अपने पुण्योदयसे उसने थीवराज्यका पट्ट धारण किया था । उसी मद्रिलपुर नगरमें एक धनदत्त  
 नामका सेठ रहता था, उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था । उन दोनोंके धनपाल, देवपाल,  
 जिनदेव, जिनपाल, अर्हदत्त, अर्हदास, सातवाँ जिनदत्त, आठवाँ प्रियमित्र और नौवाँ धर्मरुचि  
 ये नौ पुत्र हुए थे । इनके सिवाय प्रियदर्शना और ज्येष्ठा ये दो पुत्रियाँ भी हुई थीं ॥१८२-१८६॥  
 किसी एक समय सुदर्शन नामके वनमें मन्दिरस्थविर नामके मुनिराज पधारे ! राजा मेघरथ  
 और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रादिसे परिवृत्त होकर उनके पास गये । राजा मेघरथ  
 क्रिया सहित धर्मका स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया अतः अभिषेक पूर्वक हृदय नामक पुत्रके  
 लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया । तदनन्तर धनदत्त सेठने भी अपने नौ  
 पुत्रोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया । नन्दयशा सेठानी भी अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदर्शना  
 नामकी आर्थिकाके पास गयी और शीघ्र ही संसारके स्वरूपका निर्णय कर उसने भी तप धारण  
 कर लिया—क्रम-क्रमसे विहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे और वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर  
 वृक्षासे युक्त प्रियगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए । वहाँ सबके गुरु मन्दिरस्थविर,  
 मेघरथ राजा और धनदत्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यानकर केवलज्ञानी होगये । तदनन्तर निरन्तर  
 धर्माभूतकी वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आयुके अन्तमें  
 राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए । किसी दूसरे दिन धनदेव  
 आदि नौ भाई, दोनो बहिनो और नन्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास धारण  
 किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्दयशाने उन्हें देखकर निदान किया कि 'जिस प्रकार ये सब इस  
 जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ हो और इन सबके  
 साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी बना रहे । ऐसा निदान कर उसने स्वयं

शातंकरे समुत्पद्य विमाने भोगमन्वभूत् । विशत्यन्मोघिमानायुस्ततः प्रच्युत्य सा तव ॥१६९॥  
 त्रियाजनि सुभद्राख्या धनदेवादयः सुताः । प्रख्यातपौरुषा जाताः समुद्रविजयादयः ॥१७०॥  
 प्रियदर्शना ज्येष्ठा च कुन्ती माद्रीति, विश्रुते । अथाष्टच्छन्महीपालो वसुदेवभवावलीम् ॥१६८॥  
 जिनेन्द्रोऽप्यज्रवीदित्थं शुभं गम्भीरभाषया । प्रकृतिस्तादृशी तेषां यथा मन्वेष्वनुग्रहः ॥१६९॥  
 ग्रामं पलाशकूटाख्ये विषये कुरुनामनि । दुर्गतः सोमशर्मण्यो द्विजस्तस्य सुतोऽभवत् ॥२००॥  
 नाम्ना नन्दीद्यसौ देवशर्मणः सततानुगः । मातुलस्याभिकाषेण तत्सुतासु विपुण्यकः ॥२०१॥  
 पुत्रिकास्तस्य ससासन् सोऽद्वादन्येभ्य एव ताः । तदकामात् स नन्दी च महादुःखवशीकृतः ॥  
 अथान्येद्युर्नष्टप्रक्षां वीक्षितुं कौतुकाद् गतः । बलवद्भटसंबट्टमपतत् सोढुमक्षमः ॥२०३॥  
 समीक्ष्य तं जनोऽन्योन्यकराश्रयाकलान्वितम् । हसत्यापन्नलजः सन् भृगुपाते कृतोद्यमः ॥२००॥  
 अद्रिमस्तकमारुह्य टङ्कच्छिन्ने स तस्थिवान् । पातोन्मुखो मयात् कुर्वन् प्रवर्तननिवर्तने ॥२०१॥  
 बाङ्गुनिर्नामिकाख्याभ्यां संयताभ्यां धरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम् ॥२०२॥  
 सुगुरुमघेनाख्यः सन्निबोधोऽज्रवीदिदम् । मवे मावी तृतीयेऽस्माच्छायेयं युवयोः पिता ॥२०३॥  
 श्रुत्वा तसौ च गत्वेनं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्ते मृतिनिर्वन्धो बन्धा विरम निष्फलाद् ॥२०४॥  
 असुपमान्मरणाद् भाग्यसौभाग्यादि त्वयेपितम् । मविष्यति तपःसिद्धेरित्यग्राहयतां तपः ॥२००॥

संन्यास धारण कर लिया और मरकर उन सबके साथ आनत स्वर्गके शातंकर नामक वि उत्पन्न हो वहाँके भोग भोगने लगी । वहाँ उसकी बीस सागरकी आयु थी । आयु पूर्ण वहाँसे च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध प धारक समुद्रविजय आदि पुत्र हुए हैं तथा प्रियदर्शना और ज्येष्ठा नामक पुत्रियोंके अतिशय प्रसिद्ध कुन्ती माद्री हुए हैं । यह सब सुननेके बाद राजा अन्धकगृष्टिने अब सु जिनेन्द्रसे वसुदेवकी भवावली पूछी ॥१६७-१६८॥ जिनराज भी वसुदेवकी शुभ म अपनी गम्भीर भाषा-द्वारा इस प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही है कि जिससे मन्व्य जीवोंका सदा अनुग्रह होता है ॥१६९॥

वे कहने लगे कि कुरुदेशके पलाशकूट नामक गाँवमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण था । वह जन्मसे ही दरिद्र था । उसके नन्दी नामका एक लड़का था । नन्दीके मामाका देवशर्मा था । उसके सात पुत्रियाँ थीं । नन्दी अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाा इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यहीन होनेके कारण देवशर्मने वे उसके लिए न देकर किसी दूसरेके लिए दे दीं । पुत्रियोंके न मिलनेसे नन्दी बहुत दुःखी ॥२००-२०१॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन वह कौतुकवश नटोंका खेल देखनेके लिए वहाँ बड़े-बड़े बलवान् योद्धाओंकी भीड़ थी जिसे वह सहन नहीं कर सका किन्तु विपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हँसी लगे । इस घटनासे उसे बहुत ही लज्जा हुई और वह किसी पर्वतके शिखरसे नीचे उद्यम करने लगा ॥२०३-२०४॥ पर्वतके शिखरपर चढ़कर वह टॉकीसे कटी हुई एक खड़ा हो गया और गिरनेका विचार करने लगा परन्तु भयके कारण गिर नहीं स बार-बार गिरनेके लिए तैयार होता और बार-बार पीछे हट जाता था ॥२०५॥ उसी पर्व पृथिवी तत्पर द्रुमपेण नामके मुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज सहित थे, शंख और निर्नामिक नामके दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने द्रुमपेण राजसे आदरके साथ पूछा कि यह छाया किसकी है ? उन्होंने उत्तर दिया कि जि छाया है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥२०६-२०७॥ गुरुकी बात उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूछने लगे कि 'हे भाई ! तुझे यह मरणका क्यों हो रहा है ? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुझे सिद्धिसे प्राप्त हो जावेगा' इस प्रकार समझाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया ॥२०८-

चिरं सोऽपि तपः कृत्वा महाशुक्रेऽमरोऽजनि । तत्र षोडशवार्धाधुरनुभयाभिवाञ्छितम् ॥२१०॥  
 प्रादुरासोत्तश्च्युत्वा वसुदेवो वसुंधराम् । वशीकृतुंभयं यस्माद् भाजिनौ बलकेशवौ ॥२११॥  
 इति सर्वमिदं श्रुत्वा सप्तवैगपरायणः । सप्रेक्षोऽन्वकवृष्टयाख्यः स्वीचिकीर्षुः परं पदम् ॥२१२॥  
 समुद्रविजयाख्याय दत्त्वाभिषवपूर्वकम् । राज्यमुञ्जितसङ्गः सन् शमसङ्गस्त्वपोऽग्रहीत् ॥२१३॥  
 सुप्रतिष्ठजिनाभ्यर्णो राजभिर्बहुभिः समम् । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निर्वृतेरगात् ॥२१४॥  
 समुद्रविजये पाति क्षितिं वर्णाश्रमाः सुखम् । सुधर्मकर्मसु स्वैरं प्रावर्तन्व यथोचितम् ॥२१५॥  
 राज्यं विमज्य दिक्पालैरिव भ्रातृमिरष्टभिः । सहान्वयूत् स भूपालः सकलं सर्वसौख्यदम् ॥२१६॥  
 पर्वं सुखेन सर्वेषां काले गच्छत्ययोदयात् । चतुरङ्गबलोपेतो वसुदेवो युवाग्रणीः ॥२१७॥  
 गन्धवारणमारुह्य संवरञ्चामरावलिः । वाद्यमानाखिलागोद्यध्वनिनिर्मिञ्जदिवत् ॥२१८॥  
 बन्दिमगाधस्तादिषुयमानाङ्गमालकः । नानाभरणमाभारमासमानस्त्रविग्रहः ॥२१९॥  
 निगृहीतुमिवोभ्राञ्छमुद्यतो निजतेजसा । अथो विधातुं वाप्येव भूषणाङ्गसुरद्रुमम् ॥२२०॥  
 अमराणां कुमारो वा कुमारः प्रत्यहं वह्निः । निर्गच्छति पुरात् स्वैरं स्वलीलादर्शनोत्सुकः ॥२२१॥  
 विसस्मस्त्रिलोक्यैर्न त्वव्यापारान् पुरस्त्रियः । निरादरा बभूवुञ्च मातुलान्यादिवारणैः ॥२२२॥  
 निर्गमिष्य कुमारस्य विषण्णा नागरास्तदा । गत्वा विज्ञापयामासुस्तद्वृत्तान्तं महीपतेः ॥२२३॥  
 शुष्वावधाय तद्वाजा सहजस्नेहनिर्भरः । प्रकाशप्रतिपेधेन कदाचिद्विमुखो भवेत् ॥२२४॥

वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ सोलह सागरकी आयु प्रमाण मनोवाञ्छित सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पृथिवीको वश करनेके लिए वसुदेव हुआ है । बलभद्र और नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी ॥२१०-२११॥ महाराज अन्धकवृष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे । वे विधाधर तो थे ही, अतः परम पद— मोक्षपद प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया और स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुतन्त्रे राजाओंके साथ तप धारण कर लिया । संयम धारण कर अन्तमें उन्होंने संन्यास धारण किया और कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥२१२-२१४॥ इधर समुद्रविजय पृथिवीका पालन करने लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णों और समस्त आश्रमोंके लोग, उत्तम धर्मके कार्यमें इच्छानुसार सुखपूर्वक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥२१५॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथायोग्य विभाग कर दिक्पालोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सर्व प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते थे ॥२१६॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था । इन सबमें वसुदेव सबसे अधिक युवा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे । उस समय चतुरंग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समूह उनके आस-पास दुराये जाते थे, वज्रते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशाओंके किनारे फटेसे जाते थे, वन्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी विरुदावलीका वर्णन करते जाते थे, अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समूहसे उनका शरीर देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेजसे सूर्यका निग्रह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा भूषणांग जातिके कल्पवृक्षका तिरस्कार करनेके लिए ही तैयारी कर रहे हों । उस समय वे देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी स्त्रियाँ इन्हें देखकर अपना-अपना कार्य भूल जाती थीं और अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं—किसीके निषेध करनेपर भी नहीं मानती थीं ॥२१७-२२२॥ इस तरह कुमार वसुदेवके निकलनेसे नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रविजयके पास जाकर निवेदन किया ॥२२३॥ नगर-निवासियोंकी वात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज

१ पुण्योदयात् । २ वाप्येक-ल० । ३ वारणं ल० ।



कुमार इति संचिन्त्य तमाहूय मिथोऽब्रवीत् । कुमार तव कायस्य छायाद्येयमिवाव्ययथा ॥२  
 वृथाटनं परिव्याज्यं शीतवातादिषु स्वया । विदुषु परिवान्च्छा चेत्यरितो राजमन्दिरम् ॥२२६॥  
 धारागृहे वने रम्ये हर्म्ये विहितपर्वते । मन्त्रिसामन्तयोधाग्रमहामात्रात्मजैः समम् ॥२२७॥  
 यथेष्ट विचरेत्येतद् श्रुत्वा सोऽपि तथाचरत् । आददन्यमृतं वासवचनं शुद्धबुद्धयः ॥२२८॥  
 एवं विहरमाणं तं वाचाटश्रेयकोऽपरम् । नाम्ना निपुणमत्यास्यो यथेष्टाचरणोत्सुकः ॥२२९॥  
 राज्ञा त्वं प्रतिविद्दोऽसि सोपायं निगमं प्रति । इत्यवादीदसौ चाह किमर्थमिति चेत्कम् ॥२३॥  
 सोऽब्रवीत्तव नियोगकाले रूपविकीकनात् । परे शिथिलचारित्रा मम्मथेनाकुलीकृताः ॥२३१॥  
 नीतलज्जा विमर्यादा विपरीतविचेष्टिताः<sup>१</sup> । पीतासवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्च ताः ॥२३॥  
 काश्चित् प्रस्विन्नसर्वाङ्गाः काश्चिदध्यात्तलोचनाः । काश्चित् संत्यक्तसंयाताः काश्चिद्वक्त्रार्थमोजनाः  
 अवमत्यं गुरुन् काश्चित् काश्चिज्जिर्मत्यं रक्षकान् । मतं न विगणय्याम्याः पुत्रांश्चान्याश्च पुत्रक  
 मत्वा मर्कटकान् काश्चित् समुत्क्षिप्य<sup>३</sup> समाकुलाः । कम्बलं परिभाषाम्या चिदिन्त्योत्कृष्टवाससी  
 अङ्गरागं समाकोच्य काश्चिदाक्षिप्य कर्दमम् । लोचने स्वे समालोच्य ललाटेऽमस्तकजलाः ॥२  
 १<sup>१</sup> स्वाः स्वास्तथाविधा. सर्वाः सर्वैरुद्दिग्मानसैः । निरीक्ष्य पौरैर्वाक्येन ज्ञापितोऽयं नरेश्वरः ॥  
 तवेदशीमुपायेन व्यवस्थां पर्यंकल्पयत् । इति संश्रुत्य तेनोक्तं कुमारस्तत्परीक्षितुम् ॥२३८॥  
 राजगेहाद् विनिगन्तुकामो दौवारिकैस्त्वदा<sup>२</sup> । तवाग्रजस्य<sup>३</sup> भो देव निर्देशोऽस्माकमीदृशः ॥२

समुद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो सम् विमुख हो जावेगा । इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'हे तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आ व्यर्थका भ्रमण छोड़ देना चाहिए । यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके धारागृह, मनोहर-वन, राजमन्दिर तथा कृत्रिम पर्वत आदिपर जहाँ इच्छा हो सामन्तों, प्रधान योद्धाओं अथवा महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो ।' वसुदेवकी बात सुनकर कुमार वसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध पुरुष आप्तजनोंके वचनको अमृत-जैसा ग्रहण करते हैं ॥२२४-२२८॥ कुमार इस प्रक मन्दिरके आसपास ही भ्रमण करने लगे । एक दिन जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी स्वेच्छालुसार आचरण करनेमें उत्सुक रहता था ऐसा निपुणमति नामका सेवक कुमार कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है । कुमारने सेवकसे पूछा कि महाराजने ऐसा क्यों किया है ? उत्तरमें वह कहने लगा कि ज वाहर निकलते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनेसे नगरकी स्त्रियोंका चरित्र शिथिल हो जा कामसे आकुल हों जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सध विधवाएँ सभी मदिरा पी हुईके समान हो जाती हैं, कितनी ही स्त्रियोंका सब शरीर पसीना हो जाता है; कितनी ही स्त्रियोंके नेत्र आधे खुले रह जाते हैं, कितनी ही स्त्रियों छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर कितनी ही रक्षकोंको ललकार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर समझकर दूर फेंक देती हैं, ही कम्बलको ही उत्तम वस्त्र समझकर पहिन लेती हैं, कितनी कीचड़को अंगराग शरीरपर लपेट लेती हैं और कितनी ही ललाटको नेत्र समझकर उसीपर कज्जल हैं । अपनी-अपनी समस्त स्त्रियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगरनिवासी हुए और उन्होंने शब्दों-द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया । महार उपायसे आपकी ऐसी व्यवस्था की है । निपुणमति सेवककी बात सुनकर उसक

१ ल०, ग०, घ०, म० सम्मत. पाठ । ल० पुस्तके तु 'कुमार वपुरतेते पश्यामि- कि इति: पाठः । २ विचेष्टितम् ग० । ३ समाकुलान् ल० । ४ स्वास्तास्तथा-ल० । ५ तथा म०, ल० ग०, घ०, म० संमत: पाठ., ल० पुस्तके तु 'तवाग्रजस्य देवस्य नादेशोऽस्माकमीदृशः' इति पाठ. ।

बहिस्त्वया न गन्तव्यमिति रुद्रः स्थितोऽन्यदा । समुद्रविजयादीनामुक्त्वाऽप्यवाप्तो भयात् ॥२४०॥  
 'वसुदेवोऽमुतो गत्वा विद्यासंसाधनच्छळात् । इमं तानभूमावेकाकी महाज्वाले हुताशने ॥२४१॥  
 निपत्याकीर्तिमीमांशुरिति पत्रं<sup>१</sup> बलिख्य तत् । कण्ठे निबध्य वाहस्य मुक्त्वा तत्रैव तं स्वयम् ॥२४२॥  
 बह्विं प्रदक्षिणीकृत्य दह्यमानशवान्वितम् । अगादृक्षमार्गं, स रात्रावेव द्रुतं ततः ॥२४३॥  
<sup>२</sup>ततः सूर्योदये राजगेहे तद्रक्षकाग्रणीः । अनिरीक्षयानुर्जं रात्रौ राजादेशादितस्ततः ॥२४४॥  
 पर्यटन् बहुभि सार्धं तमन्वेष्टुमथैक्षत । मस्मीभूतं शवं तत्र भ्रात्र्यन्तं च तुरंगमम् ॥२४५॥  
<sup>३</sup>तत्कण्ठे पत्रमादाय नीत्वा रात्रौ समर्पयत् । तत्पत्रार्थं समाकर्ण्य समुद्रविजयादयः ॥२४६॥  
 महीशुनः परे चातिशोकसंतप्तचेतसः । नैमित्तिकोक्ततद्योगक्षेमज्ञाः शममागताः ॥२४७॥  
 श्रुत्यान्महीपतिः स्नेहात् स तदैव समन्वतः । तं गवेधयितुं दक्षान् प्राहिणोत् सहितान् बहून् ॥२४८॥  
 विजयाख्यं पुरं गत्वा सोऽप्यशोकमहीरुहः । मूले विश्रान्तये तस्मै तरुच्छायामवस्थिताम् ॥२४९॥  
 समीक्ष्यादैशिकप्रोक्तमभूदतिरथं वचः । इत्युद्यानपतिर्गत्वा मगधेत्तमववृषुधत् ॥२५०॥  
 राजापि श्यामलाख्यां स्वां सुतां तस्मै समर्पयत् । दिनानि कानिचित्तत्र विश्रम्य गतवांस्ततः ॥२५१॥  
 देवदारुत्रने पुष्परम्याख्ये वनजाकरे । अरप्यवारणेनासौ क्रीडित्वारुह्य तं सुदा ॥२५२॥

करनेके लिए कुमार वसुदेव ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने लगे त्यों ही द्वारपालोंने यह कहते हुए मना कर दिया कि 'देव ! हम लोगोंको आपके बड़े भाईकी ऐसी ही आज्ञा है कि कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे ।' द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे बिना ही अपयशके भयसे विद्या सिद्ध करनेके बहाने अकेले ही श्मशानमें गये और वहाँ जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि 'वसुदेव अकीर्तिके भयसे महाज्वालाओंवाली अग्निमें गिरकर मर गया है ।' यह पत्र लिखकर घोड़ेके गलेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुरदा जल रहा था ऐसी अग्निकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें ही बड़ी शीघ्रतासे किसी अलक्षित मार्गसे चले गये ॥२२९-२४३॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान-प्रधान रक्षकोंने राजमन्दिरमें कुमार वसुदेवको नहीं देखा तो उन्होंने राजा समुद्रविजयको खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लोगोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे । कुछ समय बाद उन्होंने श्मशानमें जहा हुआ मुरदा और उसके आस-पास घूमता हुआ कुमार वसुदेवका ढोड़ा देखा ॥२४४-२४५॥ ढोड़ाके गलेमें जो पत्र बाँधा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सौंप दिया । पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय आदि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमित्तज्ञानीने जब कुमार वसुदेवके योग और क्षेमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये ॥२४६-२४७॥ राजा समुद्रविजयने उसी समय स्नेहवशा, बहुत-से हितैषी तथा चतुर सेवकोंको कुमार वसुदेवकी खोज करनेके लिए भेजा ॥२४८॥

इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए अशोक वृक्षके नीचे बैठ गये । कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छाया स्थिर हो गयी थी उसे देखकर वागवान्ने सोचा कि उस निमित्तज्ञानीके वचन सत्य निकले । ऐसा विचार कर उसने मगध-देशके राजाको इसकी खबर दी और राजाने भी अपनी श्यामला नामकी कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित की । कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे चल दिया । अब वे देवदारु वनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे और वहाँ किसी जंगली हाथीके साथ क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये ॥२४९-२५२॥

१ वसुदेवस्ततो ग०, ल० । २ ब्यलिहयत ल० । ३ इ०, ग०, घ०, म० संमतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'तत सूर्योदये गेहे तद्रक्षणकराग्रणीः' इति पाठः । ४-कण्ठत्र-ल० । ५ नैमित्तिकोक्ततद्योगकाञ्छताः म० । कायज्ञा. ल० । ६ तमावेपयितु ल० । ७ ता ग०, ल० ।

श्लाघ्यमानः स्वयं केनचित् खरोन गजाधिपात् । अपास्य सहसानीतः खेचराद्रिं कृती पुरः ॥२  
 पशुः किन्नरगीतस्य द्वितीयां वा रतिं सतीम् । सुतामशनिवेगस्य दत्तां शाल्मलिपूर्विकाम् ॥२५  
 जालां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान् । तथा सह स्मरस्यापि सुखं स्मर्तुमगोचरम् ॥२५५॥  
 अनुभूय दिनान्यत्र विश्रान्तः कानिचित् पुनः । तथोपसर्तुकामं तं समीक्ष्याङ्गारवेगकः ॥२५६॥  
 उदृष्ट्याशनिवेगस्य दायामोऽयं नभस्तले । ज्ञात्वा दत्तान्तशाल्मल्या ससुदुर्गीर्णासिहस्तया ॥  
 सोऽन्रीतस्तज्ञयान्मुक्त्वा तं तस्मात् प्रपलायितः । विद्यया पर्णलक्ष्यासौ प्रियाप्रहितया तथा ।  
 चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये शनैः शनैः । द्वीपे निपातितोऽष्टच्छद्देहिनस्तीरवर्तिनः ॥२५९॥  
 द्वीपादसुस्माश्रिगन्तुं किं तीर्थं वदतेति तान् । अत्रद्वैस्तेऽपि किं मद्र पतितः खापवमित्यमुम् ॥२  
 सम्प्रभवति विश्रावमिति तेन सुमाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जलाश्रिर्गम्यतामिति ॥२६३॥  
 न्यदिशन्नप्रवस्तस्मात् प्रविश्य नगरं गुरुम् । दृष्ट्वा गन्धर्वविद्याया मनोहरसमाह्वयम् ॥२६२॥  
 उपविश्य तदभ्याशे वीणावादनशिक्षकान् । तत्र गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरविधिं प्रति ॥२६३॥  
 दृष्ट्वा निगूढतज्ज्ञानो वसुदेवो विमूढवत् । अहं चैसि सहाभ्यासं करोमीत्यात्तवच्छकिः ॥२६५॥  
 आदावेवाच्छिनत्तन्त्रीं तुम्बीजं वाभिनत् फलम् । वैयात्यं पश्यतास्यालं दृष्ट्वा तं तेषहसत् शृणुम् ॥  
 मर्त्ता गन्धर्वदत्तायास्त्वमेवैव<sup>१</sup> विचक्षणः । गीतवाद्यविशेषेपु सर्वानस्मात् जयेरिति ॥२६६॥

उसी समय किसी विद्याघरने उनकी बड़ी प्रशंसा की और हाथीसे उठाकर उन पुण्या अंकस्मात् ही विजयार्थ पर्वतपर पहुँचा दिया ॥२५३॥ वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिदत्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्त्रीसे हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी । अशनिवेगने वह कन्या कुमार व लिए समर्पित कर दी । कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगोचर सुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया । तदनन्तर जब कुमारने जानेकी इच्छा की तब अशनिवेगका दायद (उत्तराधिकारी) अंगारवेग उन्हें जाने-उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया । इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता चला तो उस तलवार हाथमें लेकर उसका पीछा किया । शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग कुमारको भाग गया । कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके द्वारा भे पर्णलक्ष्मी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीपपर धीरे-धीरे दिया । वहाँ आकर कुमारने किनारेपर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर नि का मार्ग क्या है ? आप लोग मुझे बतलाइए । तब लोगोंने कुमारसे कहा कि क्या आकाशसे पड़े है ? जिससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते । कुमारने उत्तर दिया कि लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही मैं आकाशसे पड़ा हूँ । कुमारका उत्तर सुनकर स हँसने लगे और 'इस मार्गके द्वारा आप जलसे बाहर निकल आइए' ऐसा कहकर मार्ग दिखा दिया । कुमार उसी मार्गसे निकलकर नगरमें प्रवृष्ट हुए और मनोहर गन्धर्वविद्याके गुरुके पास जा बैठे । गन्धर्वदत्ताको स्वयंवरमें जीतनेके लिए उनके पास से शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे । उन्हें देख तथा अपने वीणाविषयक ज्ञानको कि कुमार मूर्खकी तरह बन गये और कहने लगे कि मैं भी इन लोगोंके साथ वीणा व अभ्यास करता हूँ । ऐसा कहकर उन्होंने एक वीणा ले ली । पहले तो उसकी तन्त्री तो, और फिर तूँबा फोड़ दिया । उनकी इस क्रियाको देख लोग अत्यधिक हँसने लगे औ लगे कि इसकी श्रुतताको देखो । कुमार वसुदेवसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो पड़ता है कि गन्धर्वदत्ताके तुम्हीं पति होओगे और हम सबको गाने-बजानेकी कला दोगे ॥२५४-२६६॥

१ प्रियाप्रहितया तथा ग० । प्रियं प्रियतया तथा ल० । २ गन्धर्वकुशलं प्राप ल० । ३ ख व०, म० संमतः पाठः । आदावेवाच्छिनत्तत्री तुंवाजं वाभिनत्फलं ल० । ४ वियात्यं ल० । ५ त्वमेवैव ल

एवं तः स्थिते तस्मिन् धरागगनगोचराः । प्रायुर्गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरसमुत्सुकाः ॥२६७॥  
 तान्स्वयंवरशालाकार्यां बहून् जितवती स्वयम् । तदानीं गीतवादान्भ्रं तत्कलारूपधारिणी ॥२६८॥  
 धादुदत्तादिभिः श्रोतृपदमभ्यासितैः स्तुता । कलाकौशलमेतस्या विलक्षणमिति स्फुटम् ॥२६९॥  
 स्वोपाभ्यायं तदापृच्छथ कन्याभ्रंमुपागतः । वसुदेवोऽमणीद् वीणां विद्वेषामानयन्वित् ॥२७०॥  
 तेषु विद्वेश्वरतत्स्रश्च हस्तैः वीणाः । समर्पयन् । तासां तन्त्रीषु<sup>१</sup> कौर्मासं शक्यं चाढीकथं सस्मितम् ॥२७१॥  
 तुम्बीफलेषु दण्डेषु शक्यपापाणमभ्यसौ । स्फुटीचकार तद्दृष्ट्वा स्वदिष्टा कीदृशी भवेत् ॥२७२॥  
 वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्टयाः समागमाः । ईदृग्विध इति प्राह तत्रार्थीख्यानमीदृशम् ॥२७३॥  
 हास्तिनाख्यपुराधीशो राज्ञो मेघरथश्रुतेः । पद्मावत्याश्च संजातौ विष्णुपद्मरथौ सुतौ ॥२७४॥  
 सह विष्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते । पद्मावत्याश्च राज्यमलंकुर्वत्यथान्यदा ॥२७५॥  
 प्रत्यन्तवासिसंक्षोभे संजाते सचिवाग्रणीः । सामादिभिरुपायैस्तं प्रशान्तिं समजोगमत् ॥२७६॥  
 राज्ञा तुष्टवतावादि त्वेषष्टं वाच्यतामिति । राज्यं सप्तदिनं कर्तुमिच्छामीत्यग्रवीद् बळी ॥२७७॥  
 दत्तं जरत्पुं मत्वा<sup>२</sup> तेन तस्मै तद्व्रजितम् । कृतोपकारिणे देयं किं न तत्कृतवेदिभिः ॥२७८॥  
 तत्राकम्पनगुर्वाधिमगात्थ मुनिमण्डलम् । अग्रहीदात्पते योग<sup>३</sup> सर्वं सौम्यमहोभृति ॥२७९॥  
 निजितां प्राग्विदुष्विष्यामकम्पनसुनीशिना । वादे समायां तत्कोपात् जिघांसुरवात्मकः ॥२८०॥

इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे । तदनन्तर गन्धर्वदत्ताके स्वयंवरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी और विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे ॥२६७॥ गाने बजानेकी कलाका रूप धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ताने स्वयंवरशालामें आये हुए बहुतसे लोगोंको गाने-बजानेके द्वारा तत्काल जीत लिया ॥२६८॥ वहाँ जो चारदत्त आदि मुख्य-मुख्य श्रोता बैठे थे वे सब उस गन्धर्वदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कला-कौशल बड़ा ही विलक्षण है—सबसे अद्भुत है ॥२६९॥ तदनन्तर वसुदेव भी अपने गुरुसे पूछकर कन्याके पास गये और कहने लगे कि ऐसी वीणा लाओ जिसमें एक भी दोप नहीं हो ॥२७०॥ लोगोंने तीन चार वीणाएँ वसुदेवके हाथमें सौंप दीं । वसुदेवने उन्हें देखकर ईसते हुए कहा कि इन वीणाओंकी ताँतमें लोमांस नामका दोष है और तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शक्य एवं पाषाण नामका दोष है । उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया । यह देख कन्याने कहा कि तो फिर आप कैसी वीणा चाहते हैं ? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुझे जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था । ऐसा कह उन्होंने निर्भांकित कथा सुनायी ॥२७१-२७३॥

हस्तिनापुरके राजा मेघरथके पद्मावती रानीसे विष्णु और पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए थे ॥२७४॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो विष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा । किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राज्यमें क्षोभ उत्पन्न किया जिसे प्रधान मन्त्री बल्लिने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने बल्लिके कार्यसे सन्तुष्ट होकर कहा कि 'तुझे क्या इष्ट है ? तू क्या चाहता है ?' सो कह ! उत्तरमें बल्लिने कहा कि मैं सात दिन तक राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी बल्लिकी इस माँगको जीर्णतृणके समान तुच्छ समझ उसे सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो किये हुए उपकारको जानते हैं अर्थात् कृतज्ञ हैं वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नहीं देते हैं ? ॥२७५-२७८॥ उसी समय अकम्पन गुरु आदि मुनियोंके समूहने हस्तिनापुर आकर वहाँके सौम्य पर्वतपर आतापन योग धारण कर लिया । पहले जब बल्लि मन्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे अकम्पन गुरुने शास्त्रार्थके समय विद्वान्की सभामें जीत लिया था इसलिये वह पापी क्रोधसे उनका घात करना

१ पठयन्न स्थिते ल० । २ सा ल० । ३ समापयत् ल० । ४ लोम्य ल० । ५ -भगदस्वैतद्व्रजितम् ल० । ६ सर्वे ल० । ७ प्राग्विदुष्या ल० ।

यागव्याजं समारभ्य स मन्त्री परितो गिरिम् । अर्धिताहारदानार्थं देवसंतर्पणाय च ॥२८३॥  
 पाकं प्रकल्पयामास धूमज्ज्वालाग्निसंततम् । ज्ञात्वा विष्णुकुमारस्तुपसर्गं मुनीश्वरः ॥२८२॥  
 गत्वा पद्मरथाम्भ्यर्णं वीतरागासने स्थितः । राज्ञामिवन्ध्रं संपूज्य किं कृत्यमिति भाषितः ॥२८३॥  
 उपसर्गं व्यधान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम् । निवार्यतामसावाञ्छु त्वयेत्याह महीपतिम् ॥२८४॥  
 प्रतिपन्न मया तस्मै राज्यं सप्तदिनावधि । न निवारयितुं शक्यः सत्यभेदमयादसौ ॥२८५॥  
 ततो भवद्भिरैवार्थं निवार्यो दुर्जनोऽधुना । न विदन्ति खलाः स्वैरा युक्तयुक्तविचेष्टितम् ॥२८६॥  
 इत्यनोचदसौ चैतदवगम्य मुनीश्वरः । प्रतिषिष्यामि पापिष्ठमहमेवाञ्छु नश्वरम् ॥२८७॥  
 इति वामनरूपेण ब्राह्मणाकारमागतः । संप्राप्य बकिनोऽम्भ्यर्णं स्वस्तिवादापुरस्सरम् ॥२८८॥  
 महाभागाहमर्थी त्वां दान्मुख्यमुपागमम् । देयं त्वयेत्यवादीत् सोऽप्यमीष्ट प्रतिपन्नवान् ॥२८९॥  
 अभाषत द्विजो राजन् देयं मे विक्रमैस्त्रिमिः । प्रमितं क्षेत्रमित्यल्पं किमेतदभियाचितम् ॥२९०॥  
 गृह्णाति बली पाणिजलसेकसमन्वितम् । अदितास्मै मुनिश्चाहविक्रियद्विजिजक्रमम् ॥२९१॥  
 न्यधादेकं प्रसार्यैर्चैर्मानुषोत्तरमूर्धनि । द्वितीयमपि देवाद्रिचूडिकायां स्फुरद्द्युतिः ॥२९२॥  
 तदा विद्याधरा भूमिगोचराश्चायं सहर । चरणौ संसृतेर्हेतुं क्रोधं मा स्म कृथा वृथा ॥२९३॥  
 इति संगीतवीणादिमुखरा मुनिसत्तमम् । सद्यः प्रताप्यामासुः सोऽप्यङ्घ्री स्वौ समाहरत् ॥२९४॥  
 श्रुत्वा लक्षणवचेषां तदा गीतं सुधासिनः । तुष्ट्वा वीषसुषोषाख्ये महावोषां च सुस्वराम् ॥२९५॥

चाहता था ॥२७९-२८०॥ पापी वलि मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सौम्य पर्वतके चारों  
 याचकोंको दान देने तथा देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक अर्थात् रसोई बनवाना  
 किया जिससे धुआँ तथा ज्वालाओंका समूह चारों ओर फैलने लगा । जब मुनिराज  
 कुमारको इस उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथके पास गये और वी  
 आसनपर बैठ गये । राजा पद्मरथने उनकी वन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुझसे  
 कार्य है ? ॥२८१-२८३॥ मुनिराज विष्णुकुमारने राजा पद्मरथसे कहा कि तुम्हारे म  
 आतप योग धारण करनेवाले मुनियोंके लिए उपसर्ग कर रखा है उसे तुम शीघ्र ही दूर  
 ॥२८४॥ उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चु  
 अतः सत्यव्रतके खण्डित होनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता । हे पूज्य ! इस दुष्टका  
 समय आप ही निवारण कीजिए । स्वच्छन्द रहनेवाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टा  
 —अच्छे-बुरे कार्योंको नहीं जानते हैं ॥२८५-२८६॥ राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया,  
 सुनकर मुनिराजने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीको मना करता हूँ ॥२  
 इतना कहकर वे महामुनि वामन ( बौने ) ब्राह्मणका रूप रखकर वलिके पास पहुँचे  
 आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाताओंमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे  
 आया हूँ तू मुझे भी कुछ दे । उत्तरमें वलिने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया । तद  
 ब्राह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हे राजन्, मैं अपने पैरसे तीन पैर पृथिवी  
 हूँ यही तू मुझे दे दे । ब्राह्मणकी बात सुनकर वलिने कहा कि यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है  
 ही क्यों माँगो ? ले लो, इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर पृ  
 दे दी । फिर क्या था ? मुनिराजने विक्रियाद्भ्रष्टसे फैलाकर एक पैर तो मानुषोत्तर प  
 ऊँचे शिखरपर रखा और देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वतकी शूल  
 रखा ॥२८८-२८९॥ उस समय विद्याधर और भूमिगोचरी समी स्तुति कर मुनिराजसे  
 लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, वृथा ही संसारका कारणभूत क्रोध  
 कीजिए ॥२९३॥ इस प्रकार संगीत और वीणा आदिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों और विद्या  
 ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच  
 ॥२९४॥ उस समय उनका लक्षणसहित संगीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उ

१ प्राथिता ग० । २ भाषितम् ख० । ३ महीपतिः ग०, ल० । ४ महाभागाहमद्य त्वां  
 ५ आदितास्मै ल० । ६ व्यधादेकं म०, ल० । ७ सुधासिनः ल० ।

वीणां घोषावतीं चासु ददति स्म सुसंगताम् । विद्याधरेभ्यो द्वे द्वे च भूचरेभ्यो यथाक्रमम् ॥२९६॥  
 वृथा त्वं आचितो विप्रवरणेऽपि मयाऽशुना । नावकाशस्तृतीयस्य चरणस्मेति सत्वरम् ॥२९७॥  
 बध्ना वक्रिनमुद्वृत्तं बली विष्णुमुनीश्वरः । नृ सहं तं निराकार्पादुपसर्गं सुनीशिनाम् ॥२९८॥  
 बद्धं बलिनमाह्वन्तु समुचुकं महोपतिम् । प्रतिविष्य प्रसन्नात्मा सद्धमं समजिग्रहत् ॥२९९॥  
 एवं महासुनिस्तत्र कृतधर्मप्रभावतः । पूज्यः पद्मरथेनास्मात् स्वस्थानमगमत् सुधीः ॥३००॥  
 तासु घोषावती नाम वीणा वंशोऽत्र संविधिम् । समागमद् भवन्नित्तत् सा भमानीयतां ह्रुमा ॥३०१॥  
 पृथक्पृथक् तस्मै तामेवानौथ ते द्रुधुः । तथासौ गीतवाद्याभ्यां श्रोतृचेतोऽभिरञ्जनम् ॥३०२॥  
 समापाद्यदाकर्ण्य तद्द्वीणाकौशलं महत् । प्रीता गन्धर्वदत्तापि ररां वा माकां समार्पयत् ॥३०३॥  
 तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य कुण्ठिताखिकभूसुजः । ननु प्राक्कृतपुण्यानां स्वयं सन्ति महर्षयः ॥३०४॥  
 ततः सर्वे प्रहृष्यास्य कल्याणामिषवं व्यधुः । एवं विद्याधरश्रेण्यां कम्पाससशतान्यसौ ॥३०५॥  
 संप्राप्य खेचरेशेभ्यस्तकन्यादानमानितः । ततो निवृत्त्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥३०६॥  
 हिरण्यवर्मणोऽरिष्टपुराक्षीको महोपतेः<sup>३</sup> । पद्मावत्यामभूत् पुत्री रोहिणी रोहिणीव सा ॥३०७॥  
 स्वस्थाः स्वयंवरायैत्य शिक्षकाग्रयान् कलागुणान् । वसुदेवमुपाध्यायतया बोधयितुं स्थितम् ॥३०८॥  
 स्वबाहुल्ययैवैतं रोहिणी रत्नमाकष्या । आश्लिष्यकण्ठमकरोत्कण्ठाकुण्ठितचेतसा ॥३०९॥  
 ततो विभिन्नमर्थादाः समुद्रविजयादयः । समुद्र इव संहारे संक्षेममुपगम्य ताम् ॥३१०॥

अच्छे स्वरवाली घोषा, सुघोषा, महाघोषा और घोषवती नामकी चार वीणाएँ दीं । उन वीणाओं-  
 में-से देवोंने यथाक्रमसे दो वीणाएँ तो विद्याधरोंकी दो थीं और दो वीणाएँ भूमिगोचरियोंको दी  
 थीं ॥२९५-२९६॥ तदनन्तर उन मुनिराजने वल्लिसे कहा कि मुझ ब्राह्मणने तुझसे व्यर्थ ही  
 याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अवकाश ही नहीं है । यह कहकर बलवान्  
 विष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी वल्लिको शीघ्र ही बाँध लिया और अकम्पन आदि  
 मुनियोंके उस दुःसह उपसर्गको दूर कर दिया ॥२९७-२९८॥ वैसे हुए वल्लिको मारनेके लिए  
 राजा पद्मरथ उद्यत हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया और प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने  
 वल्लिको समीचीन धर्म ग्रहण कराया । इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान् महा-  
 मुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की । तदनन्तर वे अपने स्थानपर चले गये ॥२९९-३००॥ यह सब  
 कथा कहनेके बाद कुमार वसुदेवने गन्धर्वदत्तासे कहा कि देवोंके द्वारा दी हुई चार वीणाओंमें-  
 से घोषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हुई थी अतः आप वही शुभ  
 वीणा मेरे लिए मँगाइए ॥३०१॥ इस प्रकार कहनेवाले वसुदेवके लिए उन लोगोंने वही वीणा लाकर  
 दी । वसुदेवने उसी वीणाके द्वारा गा-बजाकर सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्धर्व-  
 दत्ता वसुदेवकी वीणा बजानेमें बहुदूर भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई और उसने अच्छे  
 कण्ठवाले तथा समस्त राजाओंको कुण्ठित करनेवाले कुमार वसुदेवके गलेमें अपने आपकी  
 तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंको बड़ी-  
 बड़ी ऋद्धियें स्वयं आकर मिल जाती हैं ॥३०२-३०४॥ इसके बाद सवने हर्षित होकर वसुदेव-  
 का कल्याणामिषेक किया । इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों अर्थात् विजयार्थ पर्वतपर जाकर  
 विद्याधर राजाओंके द्वारा कन्यादान आदिसे सम्मानित वसुदेवने सात सौ कन्याएँ प्राप्त कीं ।  
 तदनन्तर—परम अभ्युदयको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव विजयार्थ पर्वतसे लौटकर भूमिपर  
 आ गये ॥३०५-३०६॥ वहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा हिरण्यवर्मणके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई  
 रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी—चन्द्रमाकी स्त्रीके समान जान पड़ती थी । उसके  
 स्वयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक  
 राजा लोग आये थे परन्तु वसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं' लोगोंको यह बतलानेके लिए ही  
 मानो सबसे अलग बैठे थे । उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके  
 समान रत्नोंकी मालासे वसुदेवके कण्ठका आलिंगन किया था ॥३०७-३०९॥ यह देख, जिस

। आहर्तुमुद्यतः सर्वे दृष्ट्वा तान् दुष्टचेतसः । शोढुं हिरण्यवर्मापि सस्वबन्धुः समुद्यथो ॥३११॥  
 वसुदेवकुमारोऽपि निजनामाक्षराङ्कितम् । प्रजिघाथ हारं सद्यः समुद्रविजयं प्रति ॥३१२॥  
 नामाक्षराणि तस्यासौ वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोऽत्र पुण्यात् संभावितो मया ॥३१३॥  
 इति तुष्ट्वा निवार्य द्राक्संप्रभ्रामं समुपागमत् । सहाजुगैः कनीयांसमनुजं जितमन्यथम् ॥३१४॥  
 समुद्रविजयाधीशं वसुदेवः कृताञ्जलिः । प्रणम्य प्रीणयामास शेषामपि निजाप्रजान् ॥३१५॥  
 भूखेचराः कुमारैण तदा सर्वे निजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समुद्रः समज्जीगमन् ॥३१६॥  
 कुमारैण लभं गत्वा स्वपुरं विहितोत्सवम् । दशार्हाः स्वेप्सितं सौख्यमन्वभूवन्ननारतम् ॥३१७॥  
 एवं काले प्रयात्येषां श्लाघ्यैर्सौगैरभङ्गुरैः । महाशुक्रात् समुत्तीर्य शङ्काख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥३१८॥  
 रोहिण्याः पुण्यभाक्पद्मनामासौ समजायत । प्रतोषं बन्धुवर्गेषु वर्धयन्नवमो बलः ॥३१९॥  
 सप्रतापा प्रभेवामात् सौरी धीरस्य निर्मला । शरदा प्राप सस्कारं श्रुत्या पद्मोद्भववाहा ॥३२०॥  
 दुर्वारो दुष्टविष्वंसी विशिष्टप्रतिपाककः । तत्प्रतापः कथं सौरमपि सारं न लङ्घते ॥३२१॥  
 हतः प्रकृतमन्यत्तु वृत्तं तन्निगद्यते । गङ्गागन्धावतीनद्यो. संगमे सफलद्रुमे ॥३२२॥  
 तापसानामभूत्पल्ली नाशा जठरकौशिकः । वशिष्ठो नायकस्तत्र पञ्चाग्निव्रतमाचरन् ॥३२३॥

प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर क्षुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्र आदि सभी राजा मर्यादा छोड़कर क्षुभित हो उठे और जबरदस्ती रोहिणीको हरनेका करने लगे। यह देख, हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृदयवाले राजा युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ॥३१०-३११॥ कुमार वसुदेवने भी अपने नामके अचिह्नित एक बाण शीघ्र ही समुद्रविजयकी ओर छोड़ा ॥३१२॥ बाणपर लिखे हुए नामा बाँचकर समुद्रविजय आश्चर्यसे चकित हो गये, वे कहने लगे—अहो पुण्योदयसे मुझे व मिल गया। उन्होंने सन्तुष्ट होकर शीघ्र ही संग्राम बन्द कर दिया और अपने अन्य भाइयोंको साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई वसुदेवसे मिलनेके लिए गये ॥ ३१३॥ हाथ जोड़े हुए कुमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न तदनन्तर अपने अन्य बड़े भाइयोंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥३१५॥ कुमारके पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी और विद्याधर राजा बड़े हर्षसे ले और उन्हें कुमारके साथ मिला दिया। समुद्रविजय आदिने कुमार वसुदेवको साथ उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार भोगते हुए रहने लगे ॥३१६-३१७॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशं भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद जिनका वर्णन पहले आ चु ऐसे शंख नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वर्गसे चयकर वसुदेवकी रोहिणी नामक पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अपने भाइयोंमें आनन्दको बढ़ाता हुआ बलभद्र होगा ॥३१८-३१९॥ उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी। प्रकार शरद् ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात् कमलोंके विकासको बढ़ाने है उसी प्रकार उसकी बुद्धि शाश्वतोंका संस्कार पाकर पद्म अर्थात् लक्ष्मीकी उत्पत्तिको लगी थी ॥३२०॥ उसका प्रताप दुर्वार था, दुष्टोंको नष्ट करनेवाला था और विशिष्ट-पु पालन करनेवाला था फिर भला वह सूर्यके सारभूत तेजका उल्लंघन क्यों नहीं करता ? ॥

अब इसीसे सन्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस प्रकार है। और गन्धावती नदियाँ मिलती है वहाँ बहुत-से फले-फूले वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जठर नामकी तापसोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपस्वी था वह पंचाग्नि त करता था। एक दिन वहाँ गुणभद्र और वीरभद्र नामके दो चारण मुनि आये। उन्होंने उसके

भद्रान्तगुणवीराभ्यां चारणाभ्यामिदं तपः । अज्ञानकृतमित्युक्तमाकर्ण्यापृच्छद्वज्रता ॥३२१॥  
 कृतो भमेति सकोधं क्रुधोः स्थित्वा तयोः पुरः । आद्योऽत्र बन्तुमुद्युक्तः सन्तो हि हितभाषिणः ॥३२५॥  
 जटाकलापसंभृतक्षिपायूकामिवटनम् । संततस्नानसंकमनजटान्तमृतमीनकान् ॥३२६॥  
 दक्षामनेन्धनान्तःस्थस्फुरद्विविधकोटकान् । संदर्भैर्दं तवाज्ञानमिति तं समबोधयत् ॥३२७॥  
 काकलब्धिं समाश्रित्य वशिष्टोऽपि विशिष्टधीः । दीक्षित्वा तपयोगस्थः सोपवासं तपो व्यधात् ॥३२८॥  
 तपोमाहात्म्यतस्तस्य ससंध्यन्तरदेवताः । मुनीश ब्रूहि संदेशमिष्टमित्यग्रतः स्थिताः ॥३२९॥  
 दृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह भवतीभिः प्रयोजनम् । नास्थत्रागच्छताम्यस्मिन् यूर्यं जन्मनि मामिति ॥३३०॥  
 क्रमेणैवं तपः कुर्वन्नागमन्मथुरापुरीम् । तत्र मासोपवासी सन्नातपं योगमाचरन् ॥३३१॥  
 अथान्येषु विकोक्येनमुग्रसेनमहीपतिः । सकत्या मद्गोह एवाय भिक्षां गृह्णातु नान्यतः ॥३३२॥  
 चकार घोषणां पुण्यामिति सर्वानिषेधिनीम् । स्वपारणादिने सोऽपि भिक्षार्थं प्राविशत्पुरीम् ॥३३३॥  
 उदतिष्ठत्तदैवाक्षी राजगोहे निरीक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवर्त्यायाजिराहारस्तपोवनम् ॥३३४॥  
 ततः पुनर्गते मासे बुभुक्षुः क्षीणदेहकः । प्रविश्य नगरी वीक्ष्य क्षीमर्णं यागहस्तितनः ॥३३५॥  
 सद्यो निवर्तते स्मात्समाप्तसमात्राशनव्रतः । मासान्ते पुनरन्येषुः शरीरस्थितये गतः ॥३३६॥  
 राजगोहं जरासन्धमहीटपहितपत्रकम् । समाकर्ण्य महीपाले व्याकुकीकृतचेतसि ॥३३७॥  
 ततो निवर्तमानोऽस्ती क्षीणाङ्गो जनजल्पितम् । न ददाति स्वयं भिक्षां निषिध्यति परानपि ॥३३८॥

अज्ञान तप बताया। यह सुनकर वह दुर्बुद्धि तापस क्रोध करता हुआ उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि मेरा अज्ञान क्या है? उन दोनों मुनियोंमें जो प्रथम थे ऐसे गुणभद्र मुनि कहनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि सत्यरुष हितका ही उपदेश देते हैं ॥३२२-३२५॥ उन्होंने जटाओंके समूहमें उत्पन्न होनेवाली लीखो तथा जुओंके संघटनको, निरन्तर स्नानके समय लगकर जटाओंके भीतर मरी हुई छोटी-छोटी मछलियोंको और जलते हुए ईंधनके भीतर रहकर छटपटानेवाले अनेक कीड़ोंको दिखाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान है ॥३२६-३२७॥ काललब्धिका आश्रय मिलानेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह वशिष्ठ तापस दीक्षा लेकर आतापन योगमें स्थित हो गया और उपवास सहित तप करने लगा ॥३२८॥ उसके तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज! अपना इष्ट संदेश कहिए, हम लोग करनेके लिए तैयार हैं ॥३२९॥ उन्हें देखकर वशिष्ठ मुनिने कहा कि मुझे आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेरे पास आना ॥३३०॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अलुक्रमसे मथुरापुरी आये। वहाँ एक महीनेके उपवासका नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण किया ॥३३१॥ तदनन्तर दूसरे दिन मथुराके राजा उत्प्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये और नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यत्र नहीं। इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंको आहार देनेका निषेध कर दिया। अपनी पारणाके दिन मुनिराजने भिक्षाके लिए नगरीमें प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिरमें आग लग गयी उसे देख मुनिराज निराहार ही लौटकर तपोवनमें चले गये ॥३३२-३३४॥ मुनिराजने एक मासके उपवासका नियम फिरसे ले लिया। तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरीरके धारक मुनिराजने जब आहारकी इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवेश किया तब वहाँपर हाथीका क्षीम हो रहा था उसे देख वे ग्रीध ही नगरीसे वापस लौट गये और एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे। एक माह समाप्त होनेपर जब वे फिर आहारके लिए राजमन्दिरकी ओर गये तब महाराज जरासन्धका भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उत्प्रसेनका चित्त व्याकुल हो रहा था अतः उसने मुनिकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥३३५-३३७॥ क्षीण शरीरके धारी वशिष्ठ मुनि जब वहाँसे लौट रहे थे तब उन्होंने लोगोंको यह कहते हुए सुना कि 'राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरोंको



कोऽसिप्रायो महीशस्य न विशो वयमित्यदः । श्रुत्वा प्रापोद्वात् क्रुध्वा निदानमकरोन्मुनिः ॥३३३॥  
 पुत्रो भूत्वात्य भूपस्य मद्भुवत्पसः फलात् । निगृह्यैवमिदं राज्यं गृह्णासमिति दुर्मतिः ॥३४०॥  
 एवं दुष्परिणामेन मुनिः प्राप्य परासुताम् । जातः पद्मावतीगर्भे भूरिवैराजुवन्धतः ॥३४१॥  
 सापि गर्भार्मकक्रौर्यान्महीभृद्द्वयमिषम् । अभूदभिलषन्त्यातां तद्व्यात्वा मन्त्रिणस्तदा ॥३४२॥  
 प्रयोगविहितं मनुर्हन्मांसमिति दौर्हृदम् । स्वदुद्रथा पूर्यस्तस्याः किं न कुर्वन्ति धीवनाः ॥३४३॥  
 निद्रौहृदा क्रमेणासावञ्च सुतपावकम् । दष्टोष्टं निष्ठुरालोकं कृतभ्रूभङ्गसंगमम् ॥३४४॥  
 दृष्ट्वा तं पितरौ तस्य नात्र चित्तभ्य पोषणे । योग्योऽयमिति संस्मृत्य विधिं तस्य विसर्जने ॥३४५॥  
 मन्जूषायां चिन्तित्स्त्रियं कंसमच्यां सपत्रकम् । तोकं कलिन्दकन्यायाः प्रवाहे सुञ्जतः स्म तौ ॥३४६॥  
 अस्ति मण्डोदरी नाम कौशास्थ्यां शौण्डकारिणी । तथा प्रवाहे मन्जूषामन्वस्थोऽसौ व्यलोक्यथ ॥  
 ध्वनीदुषट् गृहीत्वैतन्मिव सा स्वसुतं हिता । किं न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम् ॥३४७॥  
 भहोमि कैश्चिद्रासाध कम्मनादिसहं वयः । आक्रोढमानास्त्रिहेतुं समं सकलवालकान् ॥३४८॥  
 चपेटमुष्टिदण्डादिप्रहारैर्वाधते सदा । तद्दुराचारनिर्विण्णात्यजन्मण्डोदरो च तम् ॥३५०॥  
 सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवमहीपतेः । प्रतिपद्य पदुत्तित्वं तत्सेवातत्परोऽभवत् ॥३५१॥  
 अतोऽन्यत्रकृतं भ्रूमी जरासन्धमहीपतिः । निजिताशेषभूपाकः कदाचित् कार्यशेषवान् ॥३५२॥  
 सुरम्यविषयान्तरस्थपौदनाख्यपुराधिपम् । रिपुं सिंहार्थं जित्वा वलायुद्धे समान्तिकम् ॥३५३॥

देने देता है । इसका क्या अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता । लोगांका कहना सुनकर कर्मके उदयसे मुनिराजको क्रोध आ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रही । उसी समय उ निदान किया कि 'मैंने जो उग्र तप किया है उसके फलसे मैं पुत्र होकर इस राजाका कर्तृ तथा इसका राज छीन लूँ' ॥३३८-३४०॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोंसे मुनिर मृत्यु हो गयी और वे तीत्र वैरके कारण राजा उग्रसेनकी पद्मावती रानीके गर्भमें जा हुए ॥३४१॥ उस रानी पद्मावतीको भी गर्भके बालककी क्रूरतावश राजाके हृदयका मांस की इच्छा हुई और उससे वह दुःखी होने लगी । यह जानकर मन्त्रियोंने अपनी बुद्धिसे वनावटी चीज देकर कहा कि 'यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस है' इस प्रकार उसका पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य क्या नहीं करते हैं ? ॥३४२-३४३॥ जि दोहला पूरा हो गया है ऐसी रानी पद्मावतीने अनुक्रमसे वह पापी पुत्र प्राप्त किया, समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय अपने ओठ डस रहा था, उसकी दृष्टि क्रूर थ भौह टेढ़ी ॥३४४॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोषण योग्य नहीं है यही समझकर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया और काँसो सन्दूक बनवाकर उसमें उस पुत्रको पत्रसहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाह दिया ॥३४५-३४६॥ कौशास्त्री नामकी नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कलारन रह उसने प्रवाहमें बहती हुई सन्दूकके भीतर स्थित उस बालकको देखा । देखते ही वह उ लायी और हितैषिणी बन अपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी । सो ठीक क्योंकि तपस्वियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ? ॥३४७-३४८॥ कितने ही दिनोंमें वह अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले समस्त बालकोंको चाँटा, मुड्डी तथा डण्डा आदिसे पहुँचाने लगा । उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर मण्डोदरीने उसे छोड़ दिया—घरसे दिया ॥३४९-३५०॥ अब वह शौर्यपुरमें जाकर राजा वसुदेवका सेवक बन गया औ उनकी सेवामें तत्पर रहने लगा ॥३५१॥

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वह इस प्रकार यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंको जीत लिया था तो भी किसी समय उ कार्य बाकी रह गया था । उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस

१ परां मृत्तिम् ७० । २ सुतपावकम् ग०, घ० । ३ यमुनायाः । ४ मन्दोदरी ७० । ५ शीघ्र  
 ६ लम्बनादि सहं ७०, ग०, घ०, म० । लम्बनादिसहं ७० । ७ सुवत् ७० ।

वध्वानोतवते देशस्थाधं मत्पुत्रिकामपि । कल्किन्दसेनासंभूतां सर्वी जीवद्यशोमिधाम् ॥३५४॥  
 दास्यामीत्यभिभूपाकान्प्राहिणोत् पत्रमालिकाः । वसुदेवकुमारस्तत्परिगृह्य प्रतापवान् ॥३५५॥  
 चात्रिनः सिंहमूत्रेण भावयित्वा रथं स तैः । बाह्यमारुह्य संग्रामे जित्वा सिंहरथं पृथुम् ॥३५६॥  
 कंसेन निजमृत्येन वन्धयित्वा महीपतेः । स्वयं समर्पयामास खोऽपि तुष्ट्वा सुतां निजाम् ॥३५७॥  
 देहाधेन समं तस्मै प्रतिपन्नान् प्रदत्तवान् । वसुदेवोऽपि तां द्रुष्टुलक्षणां वीक्ष्य नो मया ॥३५८॥  
 बद्धः सिंहरथः कर्म कंसेनानेन तत्कृतम् । कन्या प्रदीयतामस्मै भवत्प्रपणकारिणे ॥३५९॥  
 इत्याह तद्वच श्रुत्वा जरासन्धनरेश्वरः । कुलं कंसस्य विज्ञातुं दूतं मण्डोदरीं प्रति ॥३६०॥  
 प्रेषयामास तं द्रुपु किं तन्नाप्यपराधवान् । मत्पुत्र इति भीष्माऽस्तौ समञ्जसागमत् स्वयम् ॥३६१॥  
 आगत्य मृपतेरभ्रे मातास्येमिति क्षितौ । निक्षिप्य कंससञ्जूषा प्रणिपत्यैवमब्रवीत् ॥३६२॥  
 आगतः कंसमञ्जूषामधिष्ठायायमर्मकः । जले कल्किन्दुकन्याया मयादायामिवर्धितः ॥३६३॥  
 कंसनाम्ना समाहूतस्तत एव 'पुरोद्भवै । निसर्गशौर्यदंष्ट्रिष्ठः शैशवेऽपि निरर्गलः ॥३६४॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा मञ्जूषागतःस्थपत्रकम् । गृहीत्वा वाचयित्वाञ्चैस्वलेनमहीपतेः ॥३६५॥  
 पद्मान्त्याशु पन्नोऽयमिति ज्ञात्वा महीपतिः । विततार सुतां तस्मै राक्ष्यार्धं च प्रस्तुष्टवान् ॥३६६॥  
 कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण स्वस्य नद्यां विसर्जनात् । प्रवृष्टपद्मवैरैः सन् कुपितो मथुरापुरीम् ॥३६७॥  
 स्वयमादाय वन्धस्थौ गोपुरे पितरौ न्यधात् । विचारविकलाः पापाः कोपिताः किं न कुर्वते ॥३६८॥

पत्र भेजे कि जो राजा सुरम्य देशके मन्थमें स्थित पोदनपुरके स्वामी हमारे शत्रु सिंहरथको युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकर हमारे पास लावेगा उसे मैं आधा देश तथा कल्किन्दसेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवद्यशा नामकी अपनी पतिव्रता पुत्री दूँगा । प्रतापी राजा वसुदेवने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मूत्र मँगाकर घोड़ोंके शरीरपर लगवाया, उन्हें रथमें जोता और तदनन्तर ऐसे रथपर आरूढ होकर चल पड़े । वहाँ जाकर उन्होंने संग्राममें उस भारी राजा सिंहरथको जीत लिया और अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बाँधवाकर स्वयं राजा जरासन्धको सौंप दिया । राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर वसुदेवके लिए आधे देशके साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा । उस समय वसुदेवने देखा कि उस पुत्रीके लक्षण अच्छे नहीं हैं अतः कह दिया कि सिंहरथको मैंने नहीं बाँधा है यह कार्य इस कंसने किया है इसलिए इसी आज्ञाकारिके लिए यह कन्या दी जावे । वसुदेवके वचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसका कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दूत भेजा ॥३५२-३६०॥ दूतको देखकर मण्डोदरी डर गयी और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है ? इसी भयसे वह सन्दूक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गयी । वहाँ जाकर उसने 'यह सन्दूक ही इसकी माता है' यह कहते हुए पहले वह कांसकी सन्दूक राजाके आगे जमीनपर रख दी । तदनन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह बालक कांसकी सन्दूकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है ॥३६१-३६३॥ चूँकि यह कांसकी सन्दूकमें आया था इसलिए गाँवके लोगोंने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया । यह स्वस्वभावसे ही अपनी शूर-वीरताका धमण्ड रखता है और बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका है ॥३६४॥ मण्डोदरीके ऐसे वचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दूकके भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया । उसमें लिखा था कि यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरासन्धने कंसके लिए जीवद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया ॥३६५-३६६॥ जब कंसने यह सुना कि उत्पन्न होते ही मुझे मेरे माता-पिताने नदीमें छोड़ दिया था तब वह बहूच ही कुपित हुआ, उसका पूर्व पर्योयका वैर वृद्धिगत हो गया । उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर माता-पिताको कैद कर लिया और दोनोंको गोपुर—नगरके प्रथम दरवाजेके ऊपर रख दिया सो ठीक ही है क्योंकि विचाररहित पापी मनुष्य कुपित

अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपतिम् । देवसेनसुतामस्मै देवकीमनुजां निजाम् ॥३६९॥  
 विभूतिमद्वितीयैर्षं काले कंसस्य गच्छति । अन्येष्टुरतिमुक्ताख्यमुनिर्भिक्षार्थमागतम् ॥३७०॥  
 राजगेहं समीक्ष्यैर्षं हासाज्जीवद्यशा मुदा । देवकी पुष्पजानन्दवस्त्रमेतत्तत्त्वानुजा ॥३७१॥  
 स्वस्याङ्घ्रिष्ठितमेतेन प्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचत्तदाकर्ण्यं सकोपः सोऽपि मुसिमिन् ॥३७२॥  
 सुतोऽस्यास्तव मर्तारं भाग्यवश्यं हनिष्यति । इत्यवोचत्ततः क्रुध्वा सा तदङ्घ्रिं द्विधा व्यधात्  
 पतिमेव न ते तेन पितरं च हनिष्यति । इत्युक्त्वा सा पुनः क्रुध्वा पादान्भ्यां तदङ्घ्रिमर्दयत् ॥३  
 तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः सागरावधिम् । पाळयिष्यति भूनारीं नारीं वेत्यब्रवीत्स ताम् ॥३७  
 जीवद्यशाश्च तत्सर्वमवधार्य यथाश्रुतम् । गत्वा बुद्धिमती कंसं मिथः समवबोधयत् ॥३७६॥  
 हासेनापि मुनिप्रोक्तमवन्ध्यमिति भीतिमान् । वसुदेवमहीर्षं स स्नेहादिदमयाचत ॥३७७॥  
 प्रसूतिसमयेऽवाप्य देवकी मद्गृहान्तरम् । प्रसूतिविधिपर्याप्तं विदध्यात्स्वन्मतादिति ॥३७८॥  
 सोऽपि तेनोपहृष्टः सस्तथात्वेतदमंस्त<sup>३</sup> तम् । अवश्यंभाविकार्यैषु मुखान्यपि मुनीश्वराः ॥३७  
 भिक्षार्थं देवकीगेहं स पुनश्च प्रविष्टवान् । प्रस्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृह्य तम् ॥३८०  
 देवकी वसुदेवश्च दीक्षात्र स्यान्न बावयोः । किमिति<sup>४</sup> छन्नना भूतां ज्ञात्वा सोऽपि तद्विहितम्  
 सप्तपुत्राः समाप्स्यन्ते मवज्जयां तेषु पद्सुताः । परस्थाने<sup>५</sup> बधित्वा यास्यन्ति परमां गतिम् ।  
 सप्तमः सकलां पृथ्वीं स्वच्छत्रच्छायया चिरम् । पाळयिष्यति निर्वान्प्य चक्रवर्तियमापत ॥३८  
 देवकी च मुदा पश्चात् त्रिंशत्त्वासवती यमान् । त्रसमाङ्गानिमान्<sup>६</sup> ज्ञातवता शक्रेण चोदितः ॥

होकर क्या-क्या नहीं करते है ? ॥३६७-३६८॥ तदनन्तर कंस राजा वसुदेवको अपने ले आया और उन्हें उसने बड़ी विभूतिके साथ राजा देवसेनकी पुत्री तथा अपनी छो देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा । कि दिन अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए राजभवन आये । उन्हें देख हँसीसे जीवद्यशा ब कहने लगी कि 'हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकालका वस्त्र है, यह आपकी छोटी बहन इ के द्वारा अपनी चेष्टा आपके लिए दिखला रही है' । जीवद्यशाके उक्त वचन सुनकर क्रोध भड़क उठा । वे वचनगुप्तिको भंग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा पतिको अवश्य ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध आ गया और उसने उस दो टुकड़े कर दिये । तब मुनिने कहा कि वह न केवल तेरे पतिको मारेगा किन्तु तेरे भी मारेगा । यह सुनकर तो उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा । अबकी बार उसने उस पैरोंसे कुचल दिया । यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र स्त्रीकी तरह समुद्रान्त रूपी स्त्रीका पालन करेगा ॥३६६-३७५॥ जीवद्यशा इन सुनी हुई बातोंका विचार क पास गयी और उसे परस्परमें सब समझा आयी ॥३७६॥ 'मुनि जो बात हँसीमें भी हैं वह सत्य निकलती है' यह विचार कर कंस डर गया और राजा वसुदेवके पा बड़े स्नेहसे याचना करने लगा कि आपकी आज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही व प्रसूतिकी पूरी विधि करे ॥३७७॥ कंसके अनुरोधसे वसुदेवने भी 'पिसा ही होगा' य उसकी बात मान ली सो ठीक ही है क्योंकि अवश्यम्भावी कार्योंमें मुनिराज भी जाते हैं ॥३७८-३७९॥ किसी दिन वही अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए देवकीके घर प्र तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त विधिसे उनका पङ्क्तिगहन किया । आहार देनेके बा और वसुदेवने उनसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों भी दीक्षा ले सकेंगे ? मुनिराज अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह जलसे क्यों पूछते हो ? आप दोनों सात पुत्र प्रा उनमेंसे छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर पिबाण प्राप्त करेंगे और सातवाँ पुत्र होकर अपने छत्रकी छायासे चिरकाल तक समस्त पृथिवीका पालन करेगा ॥३८ यह सुनकर देवकी बहुत हर्षित हुई । तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युग

द्विजो नैगमापार्ष्यो<sup>१</sup> मद्रिकाख्यपुरेऽलका । वणिकमुलाया निक्षिप्य पुरस्तात्तस्युता मृतान् ॥३८५॥  
 तदा तदैव संभूय गृहीत्वा<sup>२</sup> त्रिमितान्पमान् । तान् पुरस्तान्निक्षिपे देवक्या गृहकृत्यवित् ॥३८६॥  
 यमान् सोऽपि गतप्राणान् क्रमात् कंसः समीक्ष्य तान् । किमेभिर्मे गतप्राणैरभूम्युनिरसत्यवाक् ॥३८७॥  
 इति मत्वापि साशङ्के, शिलापट्टे न्यपातयत् । पश्चात्सा सप्तमे मास एव स्वस्य निकेतने ॥३८८॥  
 निवामकमलम्धोक्तं महाशुक्राच्छ्रुत् सुतम् । कंसानवगमेनैव नन्दगोपगृहे सुखम् ॥३८९॥  
 बालक वर्धयिष्याव इति<sup>३</sup> नीतिविशारदौ । पिता आता च तद्देवकीं विज्ञाप्य ततो बळः ॥३९०॥  
 तमुद्भ्रे पिता चास्य दधारातपवारणम् । ज्वलन्निशातशृङ्गाग्रविकसन्मणिदीपका ॥३९१॥  
 निरस्ततिमिरादोपो वृषभोऽभूत्तदाग्रतः । तथा विकृतिमापन्ना तस्युण्यात् पुरदेवता ॥३९२॥  
 सद्यस्तदास्य बालस्य चरणस्पर्शसंगमात् । उद्घाटितकवाटं तद्भवभूव पुरगोपुरम् ॥३९३॥  
 उग्रसेनस्वदालोक्त्य बन्धनस्थः समग्रवीत् । कवादोद्घाटन कोऽत्र करोतीत्यसिंभ्रमात् ॥३९४॥  
 तदाकपयैव बन्धात्त्वाप्रचिरान्मोचयिष्यति । तूष्णीमुपविशेत्युक्तो बलेन मथुराधिपः ॥३९५॥  
 तथास्त्विति तमाशीभिः प्रलोपांद्भ्यनन्दयत् । तौ च तस्माद् विनिर्गत्य यमुनां प्रापत्तुंनिशि ॥३९६॥  
 भाविं चक्रिप्रभावेण दत्तमार्गां द्विधामवत् । सा सवर्णाश्रितः को वा नार्द्रात्सा बन्धुनां ब्रजेत् ॥३९७॥  
<sup>४</sup>सविस्मयौ विलङ्घ्यैनां गच्छन्तौ नन्दगोपतिम् । उद्घृत्य बालिकां यत्नेनागच्छन्तमदर्शताम् ॥३९८॥  
 दृष्ट्वा ताभ्यां कुतो भद्र रात्रावागमनं तव । निःसखस्येति संपृष्टः स प्रणत्याभ्यभाषत ॥३९९॥

प्राप्त किये । इन्द्रको मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकीके गूढ कार्य-  
 को जाननेवाले नैगमर्षे नामके देवको प्रेरणा की । इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नैगमर्षे देव देवकीके  
 इन पुत्रोंको ले जाकर मद्रिकपुर नगरमें अलका नामकी वैश्यपुत्रीके आगे डाल आता था  
 और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोंको देवकीके सामने डाल देता था  
 ॥३८४-३८६॥ कंसने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर विचार किया कि इन निर्जीव पुत्रोंसे मेरी  
 क्या हानि हो सकती है ? मुनि असत्यवादी भी तो हो सकते हैं । उसने ऐसा विचार किया  
 सही परन्तु उसकी शंका नहीं गयी इसलिये वह उन मृत पुत्रोंको शिलाके ऊपर पछाड़ता रहा ।  
 इसके बाद निर्नामक मुनिका जीव महाशुक्र स्वर्गसे च्युत होकर देवकीके गर्भमें आया । अबकी  
 बार उसने अपने ही घर सातवें महीनेमें ही पुत्र उत्पन्न किया । नीतिविद्यामें निपुण वसुदेव  
 और बलभद्र पद्मने विचार किया कि कंसको जिन जताये ही इस पुत्रका नन्दगोपके घर सुखसे  
 पालन-पोषण करावेगे । पिता और भाईने अपने विचार देवकीको भी बतला दिये । बलभद्रने  
 उस बालकको उठा लिया और पिताने उसपर छत्र लगा लिया । उस समय घोर अन्धकार था  
 अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया-वश एक वैलका रूप बनाकर उनके आगे हो गया ।  
 उस वैलके दोनों पैने सींगोंपर देदीप्यमान मणियोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार  
 दूर होता जाता था ॥३८७-३९२॥ गोपुरके किवाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पर्श होते  
 ही खुल गये । यह देख बन्धनमें पड़े हुए उग्रसेनने बड़े क्षोभके साथ कहा कि इस समय किवाड़  
 कौन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्रने कहा कि आप चुप बैठिए यह बालक शीघ्र ही  
 आपको बन्धनसे मुक्त करेगा । मथुराके राजा उग्रसेनने सन्तुष्ट होकर 'ऐसा ही हो' कहकर  
 आशीर्वाद दिया । बलभद्र और वसुदेव वहाँसे निकलकर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे  
 पहुँचे । होलहार चक्रवर्तिके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया  
 सो ठीक ही है क्यों कि ऐसा कौन आर्द्रात्मा ( जल स्वरूप पक्षमें दयालु ) होगा जो अपने  
 समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारेको प्राप्त नहीं हो ॥३९३-३९७॥ इधर बड़े  
 आश्चर्यसे यमुनाको पार कर बलभद्र और वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर वह भी  
 एक बालिकाको लेकर आ रहा था । बलदेव और वसुदेवने उसे देखते ही पूछा कि हे भद्र !

१ मद्रिका ग०; म० । २ श्रौमृतान्पमान् ग० । श्रौमृतानिमान् ख० । ३ नन्दविशारदौ ल० ।  
 ४ चक्र-ख० । ५ सविस्मयो ल० । ६ नागच्छन्तम-ल० ।

मत्प्रिया पुत्रलाभार्थं भवतः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यर्च्यं श्रद्धानाद् भूतदेवताः ॥४०॥  
 आशास्य स्त्रीत्ववद्रात्रावद्यापत्यमवाप्य सा । सशोका दीयतामेतत्ताभ्य एवेति मात्रवीत् ॥४१॥  
 तदपंथितुमायासो ममायं स्वामिनाविति । तद्वचः सम्यगाकर्ण्यं सिद्धमस्मत्प्रयोजनम् ॥४२॥  
 इति संतुष्य तत्सर्वमवबोधय प्रवृत्तकम् । तदपत्यं समादाय दत्त्वा तस्मै स्वमर्षकम् ॥४३॥  
 भाविचक्रधरं विद्धि बालकमित्यभिधाय च । अनन्वविदितौ गूढं तौ तदाविशतां पुरम् ॥४०४॥  
 नन्दगोपोऽपि तं बालमादाय गृहमागतः । सुभ्यं सुतं महापुण्यं प्रसन्ना देवता ददुः ॥४०५॥  
 इत्युदीर्यार्पयामास स्वप्रियायै श्रियः पतिम् । कंसोऽपि देवकी स्त्रीत्ववदपत्यमसूयत ॥४०६॥  
 इति श्रुत्वा समागत्य तां व्यधाद् मुग्धनासिकाम् । भूमिगेहे प्रयत्नेन मात्रा साध्वमिवर्धिता ॥  
 सा सुव्रतार्थिकाभ्यर्णं शोकात् स्वविह्वताकृतैः । गृहीतदीक्षा विन्ध्यद्वौ स्थानयोगमुपाश्रिता ॥  
 देवतेति समभ्यर्च्यं गतेषु<sup>२</sup> वनवासिषु । व्याघ्रण मक्षिता मंक्षु स्वर्गलोकमुपागमत् ॥४०९॥  
 अपरस्मिन्दिने व्याघ्रैर्दृष्ट्वा हस्ताङ्गुलित्रयम् । तस्याः क्षीराङ्गरागादिपूजितं देशवासिनः ॥४१०॥  
 मूढात्मानः स्वयं चैतदार्यासौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यर्च्यं तदारभ्याप्रमाणयन् ॥४१॥  
 अथाकस्मात्पुरे तस्मिन् महोत्पातविजृम्भणे । बह्णार्थं निमित्तिज्ञं द्राक्कंसः परिपृष्टवान् ॥४१॥  
 किमेतेषां फलं ब्रूहि यथार्थमिति सोऽब्रवीत् । तव शत्रुः समुत्पन्नो महानिति निमित्तवित् ॥४१॥  
 तदाकर्ण्यं महानीार्थं चिन्तयन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोचस्ताः किकृतव्यमिति श्रिताः ॥४१॥

रात्रिके समय अकेले ही तुम्हारा आना क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछें जानेपर प्रणाम कर कहा कि 'आपकी सेवा करनेवाली मेरी स्त्रीने पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके सा-भूत देवताओंकी गन्ध आदिसे पूजा कर उनसे आशीर्वाद चाहा था । आज रात्रिको उ-कन्या रूप सन्तान पायी है । कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुझसे कहने लगी कि यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंको दे आओ-मुझे नहीं चाहिए । सो हे नाथ ! मैं यह क-भूत देवताओंको देनेके लिए जा रहा हूँ' उसकी बात सुनकर बलदेव और वसुदेवने 'हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया' ॥३६५-४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंने नन्दगोप सब समाचार सुना दिये, उसकी लड़की ले ली और अपना पुत्र उसे दे दिया । साथ भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ती समझो । यह सब कामकर वे दोनों किसी मालूम हुए बिना ही गुप्त रूपसे नगरमें वापस आ गये ॥४०३-४०६॥

इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर घर आया और 'सौ, प्रसन्न होकर उन दे-तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान् पुत्र दिया है' यह कहकर अपनी प्रियाके लिए उसने वहाँ चक्रवर्ती सौंप दिया । यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पैदा की है तो वह उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी और तदनन्-धायके द्वारा एक तल्लघटमें रखकर बड़े प्रयत्नसे बढाया ॥४०५-४०७॥ बड़ी होनेपर उसने विह्वत आकृतिको देखकर शोकसे सुत्रता आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली और विन्-पर्वतपर रहने लगी ॥४०८॥ एक दिन वनमें रहनेवाले भील लोग उसे देवता समझ उ-करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्याघ्रने उसे शीघ्र ही खा लिया । वह भरकर स्वर्ग चली दूसरे दिन जब भील लोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अंगुलियाँ वहाँके रहनेवाले मूर्ख लोगोंने उन अंगुलियोंकी दूध तथा अंगराम आदिसे पूजा की समयसे 'यह आर्या ही विन्ध्यवासिनी देवी है' ऐसा समझकर लोग उसकी मान-लगे ॥४०९-४११॥

अथानन्तर-अकस्मात् ही मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे । उन्हें देख, शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तज्ञानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन उत्पातोंका फल क्या है ? ज्ञानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है ॥४१२-४१३॥ निमित्त

शत्रुं मम समुत्पन्नमन्विष्याहंत पापिनम् । इत्यसौ प्रेषयामास ताः सप्तपि तथास्त्विति ॥४१२॥

‘अगमन्पूतना वासु वासुदेवं विभङ्गतः । जिज्ञायादाय तन्मातृरूपं हन्तुमुपागता ॥४१६॥

विषस्तनपथापायनोपायेन खलाग्रणीः । तद्बन्धुपालनोद्युक्ता काप्यन्यायाय देवता ॥४१७॥

स्तनयोर्वैलक्षणीषीं तत्पानसमये व्यधात् । प्रपलायत साक्रुदय तत्पीडां सोढुमक्षमा ॥४१८॥

शकटाकारमादाय पुनरन्यापि देवता । बालस्थोपरि धावन्ती पादाभ्यां तेन सा हता ॥४१९॥

अन्येद्युर्नन्दगोपस्य वद्ध्वा कञ्चामुल्लङ्घकम् । अगच्छजलमानेतुमन्वगच्छतथाप्यसौ ॥४२०॥

परिपीडयितुं बालं तदा ककुमपादपी । भूत्वा श्रितौ सुरीभेदौ स मूढाद्बुद्धपादयत् ॥४२१॥

तच्चक्रमणवेकार्यां तालस्याकृतिमास्थिता<sup>२</sup> । एका फकानि तन्मूर्ध्नि प्रपातयितुमुद्यता ॥४२२॥

रासभोरूपमापाद्य तं दृष्टमपरागता । चरणे रासभीं विष्णुर्गृहीत्वाहं स तं हुमम् ॥४२३॥

अन्येद्युर्देवताभ्यापि विहृत्य तुरगाकृतिम् । तं हन्तुं प्रस्थिता तस्य सोऽदृक् दृढं रषा ॥४२४॥

आहन्तुमसमर्थाः स्म इत्युक्त्वा सप्तदेवताः । कंसाभ्याशं समागत्य विळीना इव विद्युतः ॥४२५॥

शक्तयो देवतामां च निस्ताराः पुण्यवज्जने । आयुधानामिवेन्द्राखरे रिस्मिन् दृक्कर्मणाम् ॥४२६॥

अरिटाद्यसुरोऽन्येद्युर्वीक्षितुं तत्पराक्रमम् । आयात् कृष्णं वृषाकारस्तद्वीचामञ्जनोंद्यतम्<sup>३</sup> ॥४२७॥

बात सुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया । उसी समय उसके पूर्व भवमें सिद्ध हुए सात व्यन्तर देवता आकर कहने लगे कि हम लोगोंको क्या कार्य सौंपा जाता है ॥४१४॥ कंसने कहा कि ‘कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है उस पापीको तुम लोग खोजकर मार डालो ।’ ऐसा कहकर उसने उन सातों देवताओंको भेज दिया और वे देवता भी ‘तथास्तु’ कहकर चले पड़े ॥४१५॥ उन देवताओंमेंसे पूतना नामकी देवताने अपने विभंगावधि ज्ञानसे कृष्णको जान लिया और उसकी माताका रूप रखकर मारनेके लिए उसके पास गयी ॥४१६॥ वहाँ पूतना अत्यन्त दुष्ट श्री और विप-भरे स्तनका दूध पिलाकर कृष्णको मारना चाहती थी । इधर पूतना कृष्णके मारनेका विचार कर रही थी उधर कोई दूसरी देवी जो बालक कृष्णकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहती थी पूतनाकी दुष्टताको समझ गयी । पूतना जिस समय कृष्णको दूध पिलानेके लिए तैयार हुई उसी समय उस दूसरी देवीने पूतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी । पूतना उस पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गयी और चिल्लाकर भाग गयी ॥४१७-४१८॥ तदनन्तर किसी दिन कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णके ऊपर दौड़ती हुई आयी, उसे श्रीकृष्णने दोनों पैरोंसे तोड़ डाला ॥४१९॥ किसी एक दिन नन्दगोपकी स्त्री बालक श्रीकृष्णको एक बड़ी उखली-से बाँधकर पानी लेनेके लिए गयी थी परन्तु श्रीकृष्ण उस उखलीको अपनी कमरसे घसीटता हुआ उसके पीछे चला गया ॥४२०॥ उसी समय दो देवियाँ अर्जुन वृक्षका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णको पीड़ा पहुँचानेके लिए उनके पास आयीं परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ डाला ॥४२१॥ किसी दिन कोई एक देवी ताड़का वृक्ष बन गयी । बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते जब उसके नीचे पहुँचा तो दूसरी देवी उसके मस्तकपर फल गिरानेकी तैयारी करने लगी और कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई । श्रीकृष्णने उस गधीके पैर पकड़कर उसे ताड़के वृक्षसे दे मारा जिससे वे तीनों ही देवियाँ नष्ट हो गयीं ॥४२२-४२३॥ किसी दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर कृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने क्रोधवश उसका मुँह ही तोड़ दिया । इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर बोलीं कि ‘हम लोग आपके शत्रुको मारनेमें असमर्थ हैं’ इतना कहकर वे विजलीके समान विलीन हो गयीं ॥४२४-४२५॥ अन्य लोगोंपर अपना कार्य दिखानेवाले शस्त्र जिस प्रकार इन्द्रके वज्रायुधपर निःसार हो जाते हैं उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देवोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके विषयमें निःसार हो जाती हैं ॥४२६॥ किसी एक दिन अरिष्ट नामका असुर श्रीकृष्णका बल देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी गरदन ही तोड़नेके लिए

तस्य मातामितज्यैर्न विरमाफलचेष्टितात् । पुत्रैवमादिनः क्लेशान्तरसंपादकादिति ॥४२८॥  
 भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्गुरः । सोऽन्वतिष्ठन्निवार्यन्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥  
 श्रुत्वा तत्पौरुषं ख्यातं जनजल्पैः समुत्सुकौ । गोमुखीनामधेयोपवासव्याजमुपागतौ ॥४३०॥  
 देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा । ब्रजं गोधावनं यातौ परिवारपरिरुक्तौ ॥४३१॥  
 तत्र कृष्णं समालम्ब्य स्थितवन्तं महाबलम् । दुर्षिणो वृषभेन्द्रस्य त्रीणां मङ्गलत्वात्तदैव तौ ॥  
 विकीर्ण्य गन्धमालयादिमानानानन्तरं पुनः । प्रीत्या भूषयतः स्मातः कुर्वत्या द्राक् प्रदक्षिणम्  
 देवक्याः स्तनयोः शातकुम्भकुम्भामयोः पयः । निर्गलन्त्यपतन्मूर्ध्नि कृष्णस्येवाभिषेचनम् ॥  
 सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य मन्त्रभेदभयाद् द्रुतम् । उपवासपरिश्रान्ता मूर्च्छितेति वदन्सुधीः ॥४३५॥  
 कुम्भपूर्णपयोभिस्तामभ्यधिञ्चत् समन्ततः । ततो ब्रजाधिपादीनामपि तद्योग्यपूजनम् ॥४३६॥  
 कृत्वा कृष्णं च गोपालकुमारैर्जातिसंमदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र भुक्त्वा पुरमविक्षतम् ॥४३७॥  
 स कदाचिन्महावर्षापाते गोवर्धनाह्वयम् । हरिः पर्वतमुद्गृह्य चकारावरणं गवाम् ॥४३८॥  
 तेन ज्योस्त्वेव तस्कीर्तिर्व्याप्नोति स्माखिलं जगत् । अरातिवदनाम्भोजराजिसंकोचकारिणी ॥४३९॥  
 तत्पुरस्थापनाहेतुभूतमैनालयान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥  
 सर्पशय्या धनुः शङ्खो रत्नत्रितयमुद्ययौ । देवतारक्षितं लक्ष्मीं भाविनीमस्य सूचयत् ॥४४१॥  
 समयस्तानि दृष्ट्वाख्यद वरुणं मथुरापतिः । प्राहुर्मवचमेतेषां किं फलं कथयति तम् ॥४४२॥  
 राजन्नेतानि शास्त्रोक्तविधिना साधयेत् स यः । राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसौ ॥४४३॥

तैयार हो गया । अन्तमें माताने उसे ललकारकर और 'हे पुत्र ! दूसरे प्राणियोंको चानेवाली इन व्यर्थकी चेष्टाओंसे दूर रह' इत्यादि कहकर उसे रोका ॥४२७-४२८॥ माता यशोदा उसे इन कार्योंसे बार-बार रोकती थी पर तो भी मदसे उद्धत हुआ ब इन कार्योंको करने लगता था सो ठीक ही है क्योंकि महाप्रतापी पुरुष साहसके का नहीं जा सकते ॥४२९॥ देवकी और वसुदेवने लोगोके कहनेसे श्रीकृष्णके पराक्रमकी व तो वे उसे देखनेके लिए उत्सुक हो उठे । निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवास बलभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए ब्रजके गोधा ॥४३०-४३१॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबलवान् कृष्ण किसी अभिमानी बैलक झुकाकर उससे लटक रहे थे । देवकी तथा बलदेवने उसी समय कृष्णको देखकर आदिसे उसका सन्मान किया और स्नेहसे आभूषण पहनाये । देवकीने उसकी प्रदक्षि प्रदक्षिणाके समय देवकीके सुवर्ण कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध झरकर कृष्णके इस प्रकार पड़ने लगा मानो उसका अभिषेक ही कर रही हो । बुद्धिमान् बलदेवने देखा तब उन्होंने मन्त्रभेदके भयसे शीघ्र ही 'यह उपवाससे थककर मूर्च्छित हो रही कहते हुए दूधसे भरे कलशोसे उसका खूब अभिषेक कर दिया । तदनन्तर देवकी तथा आदिने ब्रजके अन्य-अन्य प्रधान लोगोका भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, हर्षि गोपाल बालकोके साथ श्रीकृष्णको भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया और तदनन्त कर मथुरापुरीमें वापस आ गये ॥४३२-४३७॥ किसी एक दिन ब्रजमें बहुत वर्षा हुई कृष्णने गोवर्धन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायाँकी रक्षा की थी ॥४३८॥ इस चाँदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल गयी और वह शत्रुओंके मुखरूपी समूहको संकुचित करने लगी ॥४३९॥ तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मथुरापुरीकी स्थापनाका भूल था उसके समीप ही पूर्व दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्णके पुण्यकी अधिकता शय्या, धनुष और शंख ये तीन रत्न उत्पन्न हुए । देवता इनकी रक्षा करते थे और श्री होनहार लक्ष्मीको सूचित करते थे ॥४४०-४४१॥ मथुराका राजा कंस उन्हें देख गया और वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पूछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल सो कहो ॥४४२॥ वरुणने कहा कि हे राजन् ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे

कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा संसिंसाधयिषुः स्वयम् । तान्यशक्तोऽमनाकलिशो विरतः साधनोद्यमात् ॥४४३॥  
 अधिरुह्याहिजां शक्यं शङ्कमेककरणेन यः । पूरयत्यपि यश्चापं चारोपयति हेरुया ॥४४५॥  
 परेण तस्मै भूमतां स्वसुतां दास्यतीति तम् । परिशतुं स साशङ्को घोषणां पुण्यकारयत् ॥४४६॥  
 तद्वातांश्रवणाद् विद्ममहीशाः सहसागमन् । तथा राजगृहात् कंसमैथुनो खानुसंनिभः ॥४४७॥  
 सुभानुर्भानुनामानं स्वसुतुं सर्वसंपदा । समादाय समागच्छन्निवेष्टुमभिकाषवात् ॥४४८॥  
 गोधावनमदानागनिवाससरसस्तटे । त्रिना कृष्णेन वार्यस्मदानेतुं सरसः परैः ॥४४९॥  
 अशक्यमिति गोपाककुमारोक्त्या महीपतिः । तमाहूय बळं तत्र यथास्थानं न्यवीक्षित ॥४५०॥  
 क्व गम्यते त्वया राजञ्जिति कृष्णेन भाषितः । स्वर्भानुर्मथुरायानप्रयोजनमवबुधत् ॥४५१॥  
 श्रुत्वैतत्कर्म किं कर्तुं स्यात्तदस्मद्विषयेऽपि । इति कृष्णपरिप्रश्ने वीक्ष्य पुण्याधिकः शिशुः ॥४५२॥  
 न केचकोऽयमित्येहि शक्येतेतस्य कर्मणः । इत्यादाय स्वपुत्रं वा स्वर्भानुस्तं पुरीमगात् ॥४५३॥  
 कंसं यथार्हमाकोक्ष्य तत्कर्मघटकात् बहून् । मृगनमानांश्च संवीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम् ॥४५४॥  
 युगपत्त्रितय कर्म समाप्तिमनयद्दरिः । ततः स्वर्भानुनादिष्टो दिष्ट्या कृष्णोऽगामद् ब्रजम् ॥४५५॥  
 तत्कृतं भानुनैवैति कैश्चिन्नको निबोधितः । कैश्चिन्न भानुनान्येन कुमारणेति रक्षकैः ॥४५६॥  
 तच्छ्रुत्वा निवृत्त्यतां सोऽन्यस्तस्मै कन्या प्रदीयते । स कस्य किं कुर्वं कस्मिन्निति राजाऽप्रवीदिदम् ॥४५७॥  
 अबधार्थं स्वपुत्रेण सत्यकर्मसमर्थितम् । गोमण्डलेन भीष्वामा नन्दगोपः पलायत ॥४५८॥

कर लेगा वह चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ॥४४३॥ कंसने चरणके वचन सुनकर उन तीनों रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया । परन्तु वह असमर्थ रहा और बहुत भारी खिन्न होकर उनके सिद्ध करनेके प्रयत्नसे विरत हो गया—पीछे हट गया ॥४४४॥ ऐसा कौन बलवान् है जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनेके लिए भयभीत कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो भी नागशय्यापर चढ़कर एक हाथसे शंख बजावेगा और दूसरे हाथसे धनुषको अनायास ही चढा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥४४५-४४६॥ यह घोषणा सुनते ही अनेक राजा लोग मथुरापुत्री आने लगे । राजगृहसे कंसका साला स्वर्भानु जो कि सूर्यके समान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ लेकर बड़े वैभवसे आ रहा था । वह मार्गमें गोधावनके उस सरोवरके किनारे जिसमें कि बड़े-बड़े सर्पोंका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जब उसे गोपाल बालकोंके कहनेसे मालूम हुआ कि इस सरोवरसे कृष्णके सिवाय किन्हीं अन्य लोगोंके द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णको बुलाकर अपने पास रख लिया और सेनाको यथास्थान ठहरा दिया ॥४४७-४४८॥ अबसर पाकर कृष्णने राजा स्वर्भानुसे पूछा कि हे राजन् ! आप कहाँ जा रहे है ? तब उसने मथुरा जानेका सब प्रयोजन कृष्णको बतला दिया । यह सुनकर कृष्णने फिर पूछा—क्या यह कार्य हमारे-जैसे लोग भी कर सकते हैं ? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वर्भानुने सोचा कि यह केवल बालक ही नहीं है इसका पुण्य भी अधिक मालूम होता है । ऐसा विचार कर उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह कार्य करनेमें समर्थ है तो हमारे साथ चल । इतना कहकर स्वर्भानुने कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ ले लिया । मथुरा जाकर उन्होंने कंसके यथायोग्य दर्शन किये और तदनन्तर उन समस्त लोगोंको भी देखा कि नागशय्या आदिको बश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं-मितनेसे जिनका मान भंग हो गया था । श्रीकृष्णने भानुको अपने समीप ही खड़ा कर एक तीनों कार्य समाप्त कर दिये और उसके बाद स्वर्भानुका संकेत पाकर शीघ्र ही वह कुशलतापूर्वक ब्रजमें वापस आ गया ॥४४९-४५५॥ 'यह कार्य भानुने ही किया है' ऐसा कुछ पहरेदारोंने कंसको बतलाया और कुञ्जने यह बतलाया कि यह कार्य भानुने नहीं किन्तु किसी दूसरे कुमारने किया है ॥४५६॥ यह सुनकर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस अन्य कुमारकी खोज की जावे, वह किसका लड़का है ? उसका क्या कुल है ? और कहाँ रहता है ? उसके लिए कन्या दी जावेगी ॥४५७॥ इधर नन्दगोपको जब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि

१ सन्निभम् ८० । २ किंकुलः १० ।



शैलस्तम्भं समुद्धर्तुं तत्र सर्वेऽन्यदा गताः । नाशञ्जुवन् समस्यैते कृष्णेनैव समुद्धृतः ॥४५९॥  
 प्रहृष्य साहसात्तस्माद् विस्मिता जनसंहतिः । पराधर्मवत्प्रभूषादिदानेन तमपूजयत् ॥४६०॥  
 पितामुप्य प्रभावेण कुतश्चिदपि मे भयम् । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं व्रजमवापयत् ॥४६१॥  
 नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ यस्त्वित्रितयकर्मकृत् । इत्यन्वेष्टुं गतैः सम्यक् ज्ञापितेनाप्यनिश्चितैः ॥४६२॥  
 सहस्रपत्रमभोजमन्यदाहीन्द्ररक्षितम् । प्रहीयतामिति प्रोक्तो राज्ञा जिज्ञासया रिपुम् ॥४६३॥  
 श्रुत्वा तद्गोपतिः शोकादाकुलः किल भूसुजः । प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारकाः ॥४६४॥  
 इति निर्विद्य याज्ञङ्ग राजादिष्टिर्ममेदशी । त्वयैवाग्नुस्वहाप्युग्रसर्परक्षायिण भूसुजः ॥४६५॥  
 नेयानीत्यग्रवीत् कृष्ण सोऽपि किं वात्र हुष्करम् । नेष्यामीति महानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥  
 अविशचापि निःशङ्कं तद्ज्ञात्वा कोपदीपितः । स्वनिःश्वाससमुद्भूतज्वलज्ज्वालाकणान् किरन्  
 चूडामणिप्रमामासिस्फुटाटोपमर्थकरः । चलजिह्वाहृद्यः स्फूर्जद्दीक्षणात्युग्रवीक्षणः ॥४६६॥  
 प्रयुत्थाय यमाकारो निगंकीर्तुं तमुद्यतः । सोऽपि मद्भसनस्यैषा स्फटा छुद्दशिलास्त्विति ॥४६७॥  
 पीताम्बरं समुद्धृत्य जकाद्रं मधुसूदनः । स्फटामास्फालयामास पक्षकैर्नैव पक्षिराट् ॥४६८॥  
 वज्रगतायितान्तस्माद् वस्त्रापात्वाद् भिभीतवान् । पूर्वपुण्योदयाच्चास्य फणीन्द्रोऽदृश्यतामगात् ॥  
 हरिर्यथैष्टमञ्जानि समादाय निजद्विषः । समीपं प्रापयतानि दृष्टारिं दृष्टवानिव ॥४६९॥

यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डरकर अपनी गायोंके साथ कहीं  
 ॥४५८॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खम्भा उखाड़नेके लिए बहुतसे लोग गये प  
 मिलकर भी उस खम्भाको नहीं उखाड़ सके और श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया ॥४५९॥  
 इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए और श्रीकृष्णके इस साहससे आश्चर्यमें पड़ गये । अन  
 लोगोंने श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की ॥४६०॥ यह देख नन्दगोप  
 किया कि मुझे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं हो सकता । ऐसा विचार कर  
 पहलेके ही स्थानपर व्रजमें वापस आ गया ॥४६१॥ खोज करनेके लिए गये हुए लोगों  
 कंसको यह अच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कार्य किये थे वह न  
 पुत्र है तथापि उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जाँच करनेकी इच्छा  
 दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नागराज जिसकी रक्षा करते हैं वह  
 कमल भेजे । राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा ।  
 लोग प्रजाकी रक्षा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे अब मारनेवाले हो गये ॥४६२॥  
 इस तरह खिन्न होकर उसने कृष्णसे कहा कि हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी ऐसी  
 अतः जा, भयंकर सर्प जिनकी रक्षा करते हैं ऐसे कमल राजाके लिए तू ही ला स  
 पिताकी बात सुनकर कृष्णने कहा कि 'इसमें कठिन क्या है ? मैं ले आऊँगा' ऐसा क  
 शीघ्र ही महासर्पसे युक्त सरोवरकी ओर चल पड़ा ॥४६५-६६॥ और बिना किस  
 उस सरोवरमें घुस गया । यह जानकर यमराजके समान आकारवाला नागराज उ  
 निगलनेके लिए तैयार हो गया । उस समय वह नागराज क्रोधसे दीपित हो रहा था,  
 आसोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण विखेर रहा था, चूड़ासगिक  
 देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयंकर था, उसकी दोनों जिह्वाएँ लप-लप कर रही थीं  
 कीले नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया ।  
 यह फणा हमारा ब्रह्म धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो । ऐसा विचार कर वे जलसे भी  
 अपना पीताम्बर उसकी फणापर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी  
 पंखा पछाड़ता है । वज्रपातके समान भारी दुःख देनेवाली उनके वस्त्रकी पछाड़से वह  
 भयभीत हो गया और उनके पूर्व पुण्यके उदयसे अदृश्य हो गया ॥४६७-४७१॥

१ निर्विद्ये ख० । २ कृष्णः ल० । ३ तं ज्ञात्वा ख०, ग० । ४ स्फटा ख० । ५ द्.

६ दृष्टिवानिव ल० ( ? ) ।

नन्दगोपसमीपेऽस्थानमच्छत्रुरिति निश्चयात् । कदाचिन्नन्दगोपालं मल्लयुद्धं निरीक्षितुम् ॥४७३॥  
 निजमल्लैः सहागच्छेदिति सदिशति स्म सः । सोऽपि कृष्णादिभिर्मल्लैः सह प्राविशदक्षयम् ॥४७४॥  
 किञ्चिन्मत्सराणां वीतयन्वन यमसंनिभम् । मद्गन्धसमाकृष्टद्वन्द्वमरसेवितम् ॥४७५॥  
 विनयच्युतभूपालकुमारं वा निरङ्कुशम् । रदनाघातनिर्मिन्नसुधामवन्मिक्तिकम् ॥४७६॥  
 आघावन्त विलोभयासौ प्रतीत्योपाप्य<sup>२</sup> भीषणम् । रदमेक कुमारस्तं तेनैव समताडयत् ॥४७७॥  
 सोऽपि भीतो गतो दूरं ततस्तुष्टा हरिश्चुंगम् । जयोऽनेन निमित्तेन स्फुटं वः प्रकटीकृतः ॥४७८॥  
 इति गोपालं समुत्साह्य प्राविशत्कंससंसदम् । बसुदेवमहीपोऽपि<sup>३</sup> कंसामिप्रायवित्तदा ॥४७९॥  
 स्वसैन्यं समुपायंन संनाह्यैकत्र तस्थिवान् । सीरपाणिः समुत्थाय कृतदोःस्फालनध्वनिः ॥४८०॥  
 कृष्णेन सह रङ्गं वा समन्तात्स परिभ्रमन् । कंसं नाशयितुं काकस्तवेत्याख्याय निगतः ॥४८१॥  
 तदा कंसाज्या विष्णुविधेया गोपसूनुवः । दर्पिणो भुजमास्फालय घृतमल्लपरिच्छदाः ॥४८२॥  
 श्रवणाह्लाद्रिवादित्रचटुलध्वनिनंगताः । क्रमोक्षेपविक्लेषाः प्रोक्तंतसद्द्वयोद्गराः ॥४८३॥  
 पर्यायनतितम्रेक्ष्यभ्रमद्वा भीषणारवाः । निवतनैः समावतनैः संभ्रमणवर्णनैः ॥४८४॥  
 ध्रुवनैः समवस्थानैरन्यैश्च करणैः स्फुटैः<sup>४</sup> । रङ्गाभ्यर्णमलंकृत्य तस्थुर्नैत्रमनोहराः ॥४८५॥

श्रीकृष्णने इच्छानुसार कमल तोड़कर शत्रुके पास पहुँचा दिये । उन्हें देखकर शत्रुने ऐसा समझा मानो मैने शत्रुको ही देख लिया हो ॥४७९॥ इस घटनासे राजा कंसको निश्चय हो गया कि हमारा शत्रु नन्द गोपके पास ही रहता है । एक दिन उसने नन्द गोपालको सन्देश भेजा कि तुम अपने मल्लोंके साथ मल्लयुद्ध देखनेके लिए आओ । सन्देश सुनकर नन्द गोप भी श्रीकृष्ण आदि मल्लोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए ॥४७९-४७९॥ नगरमें घुसते ही श्रीकृष्णकी ओर एक मत्त हाथी दौड़ा । उस हाथीने अपना बन्धन तोड़ दिया था, वह यमराजके समान जान पड़ता था, मद्की गन्धसे खिंचे हुए अनेक भौरै उसके गण्डस्थलपर लगकर शब्द कर रहे थे, वह चिनथारहित किसी राजकुमारके समान निरंकुश था, और अपने दाँतोंके आघातसे उसने बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी दीवारें गिरा दी थीं । उस भयंकर हाथीको सामने दौड़ा आता देख श्रीकृष्णने निर्भय होकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया और दाँतसे ही उसे खूब पीटा । अन्तमें वह हाथी भयभीत होकर दूर भाग गया । तदनन्तर 'इस निमित्तसे आप लोगोंकी जीत स्पष्ट ही होगी' सन्तुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णने साथके गोपालोंको पहले तो खूब उत्साहित किया और फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया । कंसका अभिप्राय जाननेवाले राजा बसुदेव भी उस समय किसी उपायसे अपनी सेनाको तैयार किये हुए वही एक स्थानपर बैठे थे । बलदेवने उठकर अपनी भुजाओंके आस्फालनसे ताल ठोककर शब्द किया और कृष्णके साथ रंगभूमिके चारों ओर चक्कर लगाया । उसी समय उन्होंने श्रीकृष्णसे कह दिया कि 'यह तुम्हारा कंसको मारनेका समय है' इतना कह वे रंगभूमिसे बाहर निकल गये ॥४७५-४८१॥ इसके बाद कंसकी आज्ञासे कृष्णके सेवक, अहंकारी तथा मल्लोंका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक अपनी भुजाओंको ठोकते हुए रंगभूमिमें उतरे । उस समय कानोंको आनन्दित करनेवाले वाजोंकी चंचल ध्वनि हो रही थी और उसीके अनुसार वे सब अपने पैर रखते उठाते थे, जैसे उठे हुए अपने दोनों कर्णोंसे वे कुछ गविष्ट हो रहे थे, कभी दाहिनी भ्रुकुटि चलाते थे तो कभी बायीं । बीच-बीचमें भयंकर गर्जना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लौट जाते थे, कभी आगे चक्कर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे, कभी उछल पड़ते थे और कभी एक ही स्थानपर निश्चल खड़े रह जाते थे । इस तरह साफ-साफ दिखनेवाले अनेक पैतरोसे नेत्रोंको अच्छे लगानेवाले वे मल्ल रंगभूमिको अलंकृत कर खड़े थे । उनके साथ ही रंगभूमिकी घेरकर चाणूर आदि कंसके प्रमुख मल्ल भी खड़े हुए थे । कंसके वे मल्ल अहंकारसे भरे हुए थे

१ नियम-ल० । २ भीषण. ल० । ३ कुटुम्बप्रकटीकृतः ल० । ४ महीपोऽपि ल० । ५ क्रमक्षेप-ग० ।

६ क्षतावतनै. ल० । ७ स्फुटम् ल० ।

प्रोद्दसाः कंसमल्काश्च चाणूरप्रमुखास्तथा । रङ्गाभ्याशं समाक्रम्य विक्रमैकरसाः स्थिताः ॥४८

शार्दूलचिक्रीडितम्

मध्येरङ्गमुदात्तचित्तविसरो वीरोरुमल्काग्रणीः

प्रागेव प्रतिमल्कयुद्धविजयं प्राप्येव दीप्रद्युतिः ।

मास्वन्तं च दिवोऽवतीर्णमधुना योद्धुं गतं मल्कताम्

जेष्ठ्यामीति विवृद्धविक्रमरसः संभावयन्स स्वयम् ॥४९७॥

मालिनी

घनधृतपरिधानो बद्धकैशो विकर्चः

सहजमसृणगान्त्रश्चित्तवृत्तिप्रवीणः

सततकृतनियोगाद्गोपमल्लैरमल्लै-

रविकलजयकम्भः सर्वसंभावितौजाः ॥४९८॥

स्थिरचरणविवेशो वज्रसारास्थिबन्धो

भुजपरिघविधायी मुष्टिसंमाच्यमध्यः ।

कठिनपृथुलवक्षाः स्थूलनीलाद्रियुक्ता-

खिगणितनिजमूर्तिर्दोषसर्पाद्दुरीक्ष्यः ॥४९९॥

ज्वलितचलितनेत्रो निष्ठुराबद्धमुष्टिः

परिणतकरणौघो मंशु संचारदक्षः ।

भृशमशानिरिवोम्रो नन्दसुजुः स्थितः सन्

भयमवहृदसह्यं प्रेतनाथस्य चोच्चैः ॥४९०॥

वसन्ततिलका

रूपीव शौर्यमखिलं मिहितं बलं वा

रंहः समस्तमपि संहतिमीयिवद्वा ।

और ऐसे जान पड़ते थे मानो वीर रसके अवतार ही हों ॥४८२-४८६॥ उस समय रं खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे ब वीर पहलवानोंमें अग्रेसर थे, उनकी कान्ति ऐसी दमक रही थी मानो उन्होंने पहले ही मल्लके युद्धमें विजय प्राप्त कर ली हो, उनका पराक्रमरूपी रस उत्तरोत्तर बढ़ रहा था उन्हें ऐसा-उत्साह था कि यदि इस समय मल्लका रूप धरकर सूर्य भी आकाशसे नीचे आवें तो उसे भी जीत लेंगा ॥४८७॥ उस समय उनके वक्ष बहुत कड़े बंधे थे, बाल बँ डादी मूँछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गोप मल्लोंके साथ अमल तरह सदा युद्धका अभ्यास करते और पूर्ण विजय प्राप्त करते थे, और उनके पराक्रमकी सराहना करते थे ॥४८८॥ उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हड्डियोंका वज्रके सारके समान सुदृढ़ था, उनकी सुजाएँ अर्गलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, ७ कमर मुड़ीमें समानेके योग्य थी, वक्षःस्थल अत्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़े भारी गिरिके समान थे, उनका शरीर सन्व, रज और तम इन तीन गुणोंकी मानो मूर्ति था गर्वके संचारसे कोई उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥४८९॥ उनके कीले नेत्र चंचल हो रहे थे, वे बड़ी मजबूतमु ढी बाँधे थे, उनकी इन्द्रियोंका समूह पूर्ण परि था, वे शीघ्र गमन करनेमें दक्ष थे, और वज्रके समान अत्यन्त उग्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूा खड़े हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर थे ॥४९०॥ वे श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शूरवीरता ही रूप धरकर आ

सिंहाकृतिः स-सहसा कृतसिंहनादो

रत्नादकङ्कत नमोऽङ्गणमङ्गणं वा ॥४९१॥

आपत्य खादशनिवद्भवमासमपाद-

पातामिघातचकित्ताचलसंधिवन्धः ।

वदगन्सुहुः परिसरप्रविजृम्भमाणः

सिन्दूरजितसुजौ चकयबुदग्रौ ॥४९२॥

कृद्धः कटीद्वितयपार्श्वविलम्बिपीत-

वस्रो नियुद्धकुशलं प्रतिमल्लसुग्रम् ।

चाणूरमद्रिशिखरोन्नतमापतन्त-

मासाद्य सिंहवदिमं सहसा वमासे ॥४९३॥

शादूत्त विक्रीडितम्

द्वैर्न संधिरोद्गमोद्ग्रनयनो थोद्धं स्वयं मल्लतां

संप्राप्यापतदुग्रसेनतनयो जन्मान्तरद्वेषतः ।

तं न्योक्ति भ्रमयन् करेण चरणे संगृह्य वात्स्यापदञ्जं

भूमौ नेतुसुपान्तमन्तकविभोः कृष्णः समास्फालयत् ॥४९४॥

आपेतुर्नमसस्तदा मुमनसो देवानकैर्ध्वने

स्वारावो वसुदेवसैन्यजलधौ प्रक्षोमणादुद्गतः ।

सीरी वीरवरो विरुद्धपुपीताक्रम्य रङ्गे स्थितः

स्वीकृत्याप्रतिमल्लमासविजयं शौर्योर्जितं स्वातुजम् ॥४९५॥

मालिनीच्छन्दः

अतुल्यकमलङ्ग्यारातिमत्तमघातात्-

कुपितहरिसमानं माननीयापदानम् २ ।

सपदि समुपघाता वग्निदभिर्वन्धमानं

जनितसकलरागं तं हरिं वीरकक्ष्मीः ॥४९६॥

थी, अथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित हो गया था, सिंह-जैसी आकृतिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया और रंगभूमिसे उछलकर आकाश-रूपी आँगनको लॉष दिया मानो घरका आँगन ही लॉष दिया हो ॥४९१॥ फिर आकाशसे वज्र-की भक्ति पृथिवीपर आये, उन्होंने अपने पैर पटकनेकी चोटसे पर्वतोंके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, वे बराबर गर्जने लगे, इधर-उधर दौड़ने लगे और सिन्दूरसे रंगी अपनी दोनों मुजाओंको चलाने लगे ॥४९२॥ उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनों ओर पीत वस्त्र बँधा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह हाथीको मारकर सुशोभित होता है उसी प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुशल, अतिशय दुष्ट और पहाड़के शिखरके समान ऊँचे प्रतिद्वन्द्वी चाणूर मल्लको सहसा मारकर सुशोभित हो रहे थे ॥४९३॥ यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नेत्र अत्यन्त भयंकर हो रहे हैं ऐसा कस स्वयं जन्मान्तरके द्वेषके कारण मल्ल बनकर युद्धके लिए रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णने हाथसे उसके पैर पकड़कर छोटे-से पक्षीकी तरह पहले तो उसे आकाशमें धुमाया और फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीनपर पछाड़ दिया ॥४९४॥ उसी समय आकाशसे फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, वसुदेवकी सेनामें क्षोभके कारण बहुत कलकल होने लगा, और वीर शिरोमणि बलदेव, पराक्रमसे सुशो-भित, विजयी तथा शत्रुदहित छोटे भाई कृष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण करते हुए रंगभूमिमें जा डटे ॥४९५॥ जिनका बल अतुल्य है, जो अलंघनीय शत्रुरूपी मत्त हाथियों-

## वसन्ततिलका

दूतीव मे श्रितवती वरवीरलक्ष्मी-

रेतस्य दक्षिणभुजं विजयैकगेहम् ।

प्राप्तं पतिं चिरतरादिति तं कटाक्षै-

रैक्षिष्ट रागतरलैर्भरतावलक्ष्मीः ॥४९७॥

इत्थायं भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिस्वामिचरिते  
कृष्णविजयो नाम सप्ततितमं पर्व ॥७०॥

के घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तुति रहे हैं और जिन्होंने सब लोगोंको हर्ष उत्पन्न किया है ऐसे श्रीकृष्णके समीप वीरलक्ष्मी स ही पहुँच गयी ॥४९६॥ मेरी दूतीके समान श्रेष्ठ वीरलक्ष्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको कर चुकी है, इसलिए आगे भरत क्षेत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्ण पतिको रागके द्वारा चंचल कटाक्षोंसे देख रही थी ॥४९७॥

इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणमद्राचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके अन्तर्गत नेमिना स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णकी विजयका वर्णन करनेवाला सत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥७०॥

## एकसप्ततितमं पर्व

अथ कंसवधुसुक्लोचनामःप्रपायिनः । भूमरुहात् समुत्पन्नाः समन्तादुत्सवाङ्कुराः ॥१॥  
 वसुदेवमहीशस्य किलैष कृतिनः सुतः । ब्रजे कंसमयाद् वृद्धि शूरः प्रच्छन्नमासवान् ॥२॥  
 वृद्धिरस्य स्वपक्षस्य वृद्धये नैव केवलम् । जगतश्च तुषारांशोरिव वृद्धिश्रिता क्रमात् ॥३॥  
 इत्यभिष्टूयमानस्य पौरतद्वेशवासिमिः । विपाशितोऽप्रसेन।ख्यमहीशस्य महात्मनः ॥४॥  
 विसर्जितवतो नन्दगोपांश्चाप्युच्य सद्धनैः । प्रविश्य बन्धुभिः संगतस्य शौर्यपुरं हरेः ॥५॥  
 काले सुखेन यात्येवं देवी जीवद्यशास्ततः । दुःखिता मरणात्पत्युर्जरासंधमुपेत्य सा ॥६॥  
 तत्र प्रवृत्तवृत्तान्तमक्षेपं तमवृद्धुधत् । श्रत्वास्तौ च रूपा पुत्रानादिनाद्यादवान् प्रति ॥७॥  
 तेषां संवाह्य सैन्यं स्वं गत्वा युध्वा रणाङ्गणे । भङ्गमापन्नके वापुर्देवं वैमुख्यभ्युत्थि ॥८॥  
 प्राहिणोत् स पुनः कोपालनृजमपराजितम् । भवैवान्वयर्थनामानं तद्वृद्धिपामन्तकोपसम् ॥९॥  
 शतत्रयं सपट्वत्वारिंशसोऽपि महाबलः । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योऽभूत् पराङ्मुखः ॥१०॥  
 पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमकृतोद्यमी । यादवानुदरामीति तुक्कालयवनमभिध ॥११॥  
 यादवाश्च तदायानमाकण्यागमिवेदिनः । जहुः शौर्यपुरं हारितनाह्वयं मधुरामपि ॥१२॥  
 मार्गं स्थितां सदा यादवेशिनां कुलदेवताम् । विधिधेन्धनसंवृद्धज्वालमुत्थाप्य पाचकम् ॥१३॥  
 धृतवृद्धाकृतिं वीक्ष्य तां कालयवनो युवा । किमेतदिति पप्रच्छ साप्याह शृणु भूपते ॥१४॥

अथानन्तर—कंसकी स्त्रियोंद्वारा छोड़े हुए अशुजलका पान कर पृथ्वीरूपी वृक्षसे त्वारों  
 ओर उत्सवरूपी अंकुर प्रकट होने लगे ॥१॥ 'यह शूरवीर, पुण्यात्मा वसुदेव राजाका पुत्र है,  
 कंसके भयसे छिपकर ब्रजमें वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, अनुक्रमसे होनेवाली वृद्धि, न केवल  
 इनके पक्षकी ही वृद्धिके लिए है अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए है'  
 इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्रसेनको  
 बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालोंकी  
 पूजा कर उन्हें विदा किया था, और जो भाई-बन्धुओंके साथ मिलकर शौर्यपुर नगरमें प्रविष्ट  
 हुए थे ऐसे श्रीकृष्णका समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवद्यशा पतिकी  
 भृत्यसे दुःखी होकर जरासन्धके पास गयी । उसने मथुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था वह सब  
 जरासन्धको बतला दिया ॥१२-१॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासन्धने क्रोधवश पुत्रोंको यादवों-  
 के प्रति चढाई करनेकी आज्ञा दी ॥७॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये और युद्धके आँगनमें  
 पराजित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कौन पराजयको प्राप्त नहीं  
 होते ? ॥८॥ अबकी बार जरासन्धने कुपित होकर अपना अपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि  
 वह उसे सार्थक नामवाला तथा शत्रुओंके लिए यमराजके समान समझता था ॥९॥ बड़ी भारी  
 सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीनसौ द्वियालीस बार युद्ध किया परन्तु  
 पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराङ्मुख होना पड़ा ॥१०॥ तदनन्तर 'मैं पिताकी आज्ञासे  
 यादवोंको अवश्य जीतूँगा' ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवन नामक पुत्रने प्रस्थान किया  
 ॥११॥ कालयवनका आगमन सुनकर अग्रशोची यादवोंने शौर्यपुर, हस्तिनापुर और मथुरा  
 तीनों ही स्थान छोड़ दिये ॥१२॥ कालयवन उनका पीछा कर रहा था, तब यादवोंका कुल-  
 देवता बहुत-सा ईधन इकट्ठा कर तथा ऊँची लौवाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुद्धियाका  
 रूप बनाकर मार्गमें बैठ गयी । उसे देखकर युवा कालयवनने उससे पूछा कि यह क्या है ?

१ भूमरुहः ल० । २ वापुर्देवं ख०, ग० । ३ सपट्वत्वारिंशं ग० । ४ सपट्वत्वारिंशत् ल० ।

अस्मिञ्ज्वालाकराकाशौ सर्वेऽपि मम सुनवः । मयेन भवतोऽभूवन् व्यसवो यादवैः सह ॥१५॥  
 इति तद्वचनत् सोऽपि मज्जयात् किल शत्रवः । प्राविशन्मत्प्रतापाशुशुक्षणि वाशुशुक्षणिम् ॥१६॥  
 इति प्रतिनिवृत्त्याशु मिथ्यागर्वं समुद्बहन् । जगाम पितुरभ्याशं धिगनीक्षितचेष्टितम् ॥१७॥  
 'इतो जहन्निधेस्तीरे बले यादवभूशुजाम् । निविष्टवति निर्मापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥१८॥  
 अष्टोपवासमादाय विधिमन्त्रपुरस्सरम् । कंसारिः शुद्धभावेन दर्शनशयातलं गतः ॥१९॥  
 अथाहुतिधरं देवं मामारह्य पयोनिधेः । गच्छतस्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादशयोजनम् ॥२०॥  
 इत्युक्तो नैगमाख्येन सुरेण मधुसूदनः । चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सखा ॥२१॥  
 प्राप्तवेगोद्धतौ तस्मिन्नारुहे तुरगादिषा । हये धावति निर्द्वन्द्वं निश्चलत्कर्णचामरे ॥२२॥  
 द्वेषाभेदमयाद्वाधिर्मयादिव हरेरयात् । मेघो धीशक्तियुक्तेन सद्भातोऽपि ज्वालामनाम् ॥२३॥  
 शक्राजया तदा तत्र निर्धीशो विधिवशितम् । सहस्रकूटं व्याभासि भास्वद्रत्नमथं महत् ॥२४॥  
 कृत्वा जिनगृहं<sup>१</sup> पूर्वं मङ्गलानां च मङ्गलम् । वप्रप्राकारपरिखागोपुराट्टाककादिभिः ॥२५॥  
 राजमानां हरेः पुण्याचीर्थेशस्य च संभवात् । निर्गमे नगरीं रम्यां सारपुण्यसमन्विताम् ॥२६॥  
 सरित्पतिमहावीचीशुजाकिञ्चित्तमोपुराम् । दीप्या द्वारवतीसंज्ञां हसन्तीं वामरीं पुरीम् ॥२७॥  
 सपिता साग्रजो विष्णुस्तां प्रविश्य यथासुखम् । लक्ष्मीकटाक्षसंवीक्ष्यस्तस्थिवान् वादवैः सह ॥१९॥  
 अथातो भुवनाधीशो जयन्तादागमिष्यति । विमानादहमिन्द्रेऽमूं महीं मासैः बद्धमितिः ॥२८॥

उत्तरमें बुद्धिया कहने लगी कि हे राजन् ! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र यादवोंके साथ-  
 इस ज्वालाओंसे भयंकर अग्निमें गिरकर मर गये हैं ॥१३-१५॥ बुद्धियाके वचन सुनकर  
 यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भयसे समस्त शत्रु मेरी प्रतापान्तिके समान इस अ  
 प्रविष्ट हो गये हैं ॥१६॥ ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लौट पड़ा और भूटा अहंकार  
 करता हुआ पिताके पास पहुँच गया । आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाको  
 है ॥१७॥ इधर चलते-चलते यादवोंकी सेना अपना स्थान बनानेके लिए समुद्रके किनारे  
 गयी ॥१८॥ वहाँ कृष्णने शुद्ध भावोंसे दर्भके आसनपर बैठकर विधिपूर्वक मन्त्रका  
 करते हुए अष्टोपवासका नियम लिया । उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मैं घ  
 रूप रखकर आऊँगा सो मुझपर सचार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले ज  
 वहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जायेगा । नैगम देवकी बात सुनकर श्रीकृष्णने निश्चयानुसार  
 ही किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता ? ॥१६-२१  
 प्राप्त हुए वेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं, और जिसके कानोंके चमर नि  
 ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंको प्राप्त हो  
 सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि और शक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका ( पक्षमें मूर्ख लो  
 समूह भेदको प्राप्त हो ही जाता है ॥२२-२३॥ उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार  
 नाथ तीर्थकरके पुण्यसे इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुवेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की ।  
 सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलोंका मार्गलिक स्थान और एक हजार शिखरोंसे  
 देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर बनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अट्टा  
 आदिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीवोंसे युक्त मनोहर नगरी बनायी । समुद्र अपनी बड़  
 तरंगरूपी भुजाओंसे उस नगरीके गोपुरका आलिंगन करता था, वह नगरी अपनी  
 देवपुरीकी हँसी करती थी और द्वारावती उसका नाम था ॥२४-२७॥ जिन्हें लक्ष्मी  
 उठाकर देख रही है ऐसे श्रीकृष्णने पिता वसुदेव तथा बड़े भाई बलदेवके साथ उस  
 प्रवेश किया और यादवोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥२८॥

अथानन्तर—जो आगे चलकर तीन लोकका स्वामी होनेवाला है ऐसा अहमिन्

राज्ञः काश्यपगोत्रस्य हरिवंशशिखामणेः । समुद्रविजयाख्यस्य शिवदेवीं मनोरमा ॥३०॥  
 देवतोपास्यमानाच्छिर्वसुधाराभिनन्दिता । षण्मासावसितौ मासे कार्तिके शुक्लपक्षने ॥३१॥  
 पञ्चामशोत्तरापादे निशान्ते स्त्र्यमात्मिकाम् । आलोकतानुवक्त्राब्जं प्रविष्टं च गजाधिपम् ॥३२॥  
 ततो ब्रह्मिन्द्वयोयामभेरीध्वनिविबोधिता । कृतमङ्गलसुखाना एतपुण्यप्रसाधना ॥३३॥  
 उपचारद्वन्द्वेत्य नृपमर्धासने स्थिता । स्वदष्टस्वप्नसाफल्य<sup>१</sup>मन्वयुद्धक<sup>२</sup>अतागमम् ॥३४॥  
 संकल्प्य नरेन्द्रोऽपि फलं तेषामभाषत । स्वर्गं विश्वलोकेशोऽवतीर्णं हृत्ति सूक्ष्मधीः ॥३५॥  
 श्रुत्वा तदैव तं<sup>३</sup>कवचवतीवातुपदप्यसौ । ज्ञात्वा स्वचिह्नैर्देवैर्भद्राः संभूयागव्य संमदात् ॥३६॥  
 स्वर्गावतारकल्याणमहोत्सवविधायिनः ।<sup>४</sup>स्वेषां पुण्यं च निर्वर्त्य स्वधाम समुपागमन् ॥३७॥  
 स पुनः श्रावणे शुक्लपक्षे षष्ठीदिने जित । ज्ञानत्रितयमृत्स्वष्टयोगे तुपञ्चामजायत ॥३८॥  
 अथ स्वविष्टाराकमससुखपञ्चावधीक्षणाः । बुद्ध्वा भगवदुत्पत्तिं सौधर्मैन्द्रपुरस्तराः ॥३९॥  
 संजातकर्मदाः प्राप्य परिवेष्ट्य पुरं स्थिताः । ऐरावतगजस्कन्धमारोप्य भुवनप्रभुम् ॥४०॥  
 सौधर्माधिपतिर्मकथा नोकाभोजदकद्युतिम् । ईशमीशानकल्पेऽद्यतातपनिवारणम् ॥४१॥  
 नमस्करवैरोचनोद्गतचमरीरुहम् । धनेजानिर्मितत्रेधामणिसोपागमागम् ॥४२॥  
 नीत्वा पथोदमार्गणे गिरिगोशानदिग्गते<sup>५</sup> । पाण्डुकाख्यशिलाग्रस्थमणिसिंहद्युतासने ॥४३॥  
 अनादिनिधने बाकमारोप्यात्यर्कतेजसम् । क्षीराभ्यधिपयः<sup>६</sup>पूर्णतुवणककशोक्तमैः ॥४४॥

जब छह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस पृथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब काश्यप-  
 गोत्री, हरिवंशके शिखामणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रत्नोंकी धारा आदिसे पूजित  
 हुई और देवियाँ उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं । छह माह समाप्त होनेपर रानीने कार्तिक  
 शुक्ल पक्षीके दिन उत्तरापाद नक्षत्रमें रात्रिके पिछले समय सोलह स्वप्न देखे और उनके बाद  
 ही मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा ॥२९-३२॥

तदनन्तर—वन्दीजनोके शब्द और प्रातःकालके समय बजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि  
 सुनकर जागी हुई रानी शिवदेवीने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्त्राभरण धारण किये  
 और फिर बड़ी नम्रतासे राजाके पास जाकर वह उनके अर्धासनपर बैठ गयी । पश्चात् उसने  
 अपने देखे हुए स्वप्नोंका फल पूछा । सूक्ष्म बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए आगम-  
 का विचार कर उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हारे गर्भमें तीन लोकेके स्वामी तीर्थकर  
 अवतीर्ण हुए हैं ॥३३-३५॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोंका फल सुनकर ऐसी सन्तुष्ट हुई  
 मानो उसने तीर्थकरकी प्राप्त ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने भी अपने-अपने चिह्नोंसे  
 जान लिया । वे सब बड़े हर्षसे मिलकर आये और स्वर्गावतरण कल्याणक (गर्भकल्याणक) का  
 महोत्सव करने लगे । उत्सव-द्वारा पुण्योपासना कर वे अपने-अपने स्थानपर चले गये  
 ॥३६-३७॥ फिर श्रावण शुक्ला षष्ठीके दिन ब्रह्मयोगके समय चित्रा नक्षत्रमें तीन ज्ञानके धारक  
 भगवान्का जन्म हुआ ॥३८॥ तदनन्तर अपने आसन कम्पित होनेसे जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न  
 हुआ है ऐसे सौधर्म आदि इन्द्र हर्षित होकर आये और नगरीको घेरकर खड़े हो गये ।  
 तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं, ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है,  
 तथा नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढोर रहे हैं ऐसे  
 जिनेन्द्र बालकको सौधर्मेन्द्रने बड़ी भक्तिसे उठाया और कुवेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिमय  
 सीढियोंके मार्गसे चलकर उन्हें ऐरावत हाथीके स्कन्धपर विराजमान किया । अब इन्द्र  
 आकाश-मार्गसे चलकर सुमेरुपर पहुँचा वहाँ उसने सुमेरु पर्वतकी ईशान दिशामें पाण्डुक  
 शिलाके अग्रभागपर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रखा है उसपर सूर्यसे भी अधिक  
 तेजस्वी जित-बालकको विराजमान कर दिया । वहीं उसने अनुक्रमसे हाथो-हाथ लाकर इन्द्रोके द्वारा

१ नामाली-ल०, म०, ग०, ष० । २ शुभागमं ल० । ३ संलक्ष्यवती ल० । ४ तेषा ल० ।  
 ५-मार्गतः ल० । ६ दिगन्ते ग०, ष० । दिगन्तं, ल० । दिगन्ते ल० । ७ पद्मगर्भः म० ।



अष्टाधिकसहस्रेण प्रमितैरमितप्रमैः । हस्ताद्दस्तं क्रमेणामराधिनाथसमपितैः ॥४५॥  
 अनिषिच्य यथाकासमलकृत्य यथोचितम् । नेमिं सद्धर्मचक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात् ॥४६॥  
 तस्मादानीय मौलीन्द्रमाननीयमहोदयम् । मातापित्रोः पुनर्दत्त्वा विधायांनन्दनाटकम् ॥४७॥  
 विहृत्य विविधान् बाहून् रसभावनिरन्तरम् । स्वावाससमगमत् सर्वैरादिमेन्द्रः सहामरैः ॥४८॥  
 नमेर्मंगवतस्तीर्थसंतानसमयस्थितेः । पञ्चलक्षसमाप्तान्ते तदन्वगतं जीवितः ॥४९॥  
 जिनो नेमिः समुत्पन्नः सहस्राब्दाधुरन्वितः । दशचापसमुत्सेधः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥५०॥  
 त्रिकोकनायकाभ्यर्च्यः स्वभ्यर्णोऽकृतनिर्घृतिः । तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मिन्नुभवंश्विरम् ॥५१॥  
 गच्छत्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेऽन्यदा । आत्तवारिपथोधोगा नष्टद्विका वणिक्सुताः ॥५२॥  
 प्राप्य द्वारावतीं केचित्पुण्यान्मगधवासिनः । राज्यलीलां विलोक्यात्र विभूर्तिं च सविस्मयाः ॥५३॥  
 बहूनि रत्नान्यादाय सारभूतानि तत्पुरात् । गत्वा राजगृहं प्राप्तचक्ररत्नं महीपतिम् ॥५४॥  
 रत्नान्युपायनीकृत्य पुरस्कृत्य वणिकपतिम् । ददद्भुः कृतसन्मानस्तानपृच्छत् प्रजेश्वरः ॥५५॥  
 नो भवद्भिः कुतो लब्धमिदं रत्नकदम्बकम् । उदंशुभिरिवोन्मीलितेक्षणं कौतुकादिति ॥५६॥  
 शृणु देव महच्चित्रमेतदस्मद्विकोकितम् । पातालादेश्य वादष्टपूर्वसुर्वीमुपस्थितम् ॥५७॥  
 सकुलीकृतसौधोरुमवन्त्वादिवाम्बुधे । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपागतः ॥५८॥  
 अलङ्घ्यत्वात् परैः पुण्यं वापरं मरतेशितुः । नेमिस्वामिसमुत्पत्तिहेतुत्वाच्चगरोत्तमम् ॥५९॥

सौंपे एवं क्षीरसागरके जलसे भरे, सुवर्णमय एक हजार आठ देवीप्यमान कलशांके उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पहिनाये और ये समीचीन रूपी चक्रकी नेमि हैं—चक्रधारा हैं' इसलिए उन्हें नेमि नामसे सम्बोधित किया । फिर सौधर्मे मुकुटबद्ध इन्द्रोंके द्वारा माननीय महाभ्युदयके धारक भगवान्को सुमेरु पर्वतसे लाकर म पिताको सौंपा, विक्रिया-द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस और भावसे भरा हुआ आ नामक नाटक किया और यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने स्थानपर गया ॥३९-४८॥ भगवान् नेमिनाथकी तीर्थपरम्पराके पाँच लाख वर्ष बीत जानेपर जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक ह वर्षकी थी, शरीर दश धनुष ऊँचा था, उनके संस्थान और संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंके उनकी पूजा करते थे, और मोक्ष उनके समीप था । इस प्रकार वे दिव्य सुखोंका अनुभव हुए चिरकाल तक द्वारावतीमें रहे ॥४९-५१॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत समय एक क्षणके समान बीत गया । किसी एक दिन मगध देशके रहनेवाले ऐसे कित वैश्य-पुत्र, जो कि जलमार्गसे व्यापार करते थे, पुण्योदयसे मार्ग भूलकर द्वारावती नगरी पहुँचे । वहाँकी राजलीला और विभूर्ति देखकर आश्चर्यमें पड़ गये । वहाँ जाकर उन्होंने बहु श्रेष्ठ रत्न खरोदे । तदनन्तर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य-पुत्रोंने अपने सेठको आगे और रत्नोंको भेंट देकर चक्ररत्नके धारक राजा जरासन्धके दर्शन किये । राजा जरा उन सबका सन्मान कर उनसे पूछा कि 'अहो वैश्य-पुत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका कहाँसे प्राप्त किया है ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कौतु इसने नेत्र ही खोल रखे हों' ॥५२-५६॥ उत्तरमें वैश्य-पुत्र कहने लगे कि हे राजन् ! सु हम लोगोंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य, जिसे कि पहले कभी नहीं देख समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निक पृथिवीपर आयी हो । वहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े भवन सघनतासे विद्यमान हैं । ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रके फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो गया वह शत्रुओंके द्वारा अलङ्घनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्तीका उ पुण्य ही हो । भगवान् नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोंसे उत्त

असंहतमं नासेव्यमर्थिमिर्वीतगौरवम् । शरद्वदकुलं तिष्ठत्युपयत्नमेति वा ॥६०॥  
 सीधप्रान्दीकितालोकपताकाबहुबाहुभिः । निराचिकीर्णैः सघर्षाद् दूरमन्नपथोच्छ्रितम् ॥६१॥  
 परार्ध्यसुरि रत्नत्वात् कृष्णतेजोविराजनात् । सदा गम्भीरशब्दत्वाद्गम्भीरध्वजसंनिभम् ॥६२॥  
 नवयोजनविस्तारं दैर्घ्यद्वादशयोजनम् । पुरं द्वारावती नाम यादवानां पयोनिधेः ॥६३॥  
 मध्ये प्रवर्तते तस्मादेतद्गङ्गाद्रुद्रकम् । लङ्घमस्मान्मिरियेवमनुवंस्तेऽपि भूपतिः ॥६४॥  
 श्रुत्वा तद्गचनं क्रोधेनान्धीभूतोऽप्रवीक्षणः । जरासन्धो धियाप्यन्धो दुर्पो दैवातिसन्धितः ॥६५॥  
 चचाकालकालान्तचकितत्सामबलाभ्युधिः । कर्तुं यादवकोकस्य विकथं वाविकम्बितम् ॥६६॥  
 नारदस्तत्तदा श्रावा निर्हेतुसमरप्रिय । हरिं सत्वरमभ्येत्य तद्विकारं न्यवेदयत् ॥६७॥  
 श्रुत्वा शार्ङ्गधरः शत्रुसमुत्थानमनाकुक्रुस । कुमारं नेमिमभ्येत्य प्रन्नाधि त्वमिदं पुरः ॥६८॥  
 विजिगीषु किलाद्याभ्युत्थस्मान्मगधाधिप । मनजिम तमहं जीर्णं हुमं वा घुणमक्षितम् ॥६९॥  
 तूर्णं सवध्यमावेण गन्धैवददुर्जितम् । प्रसन्नचेतास्तच्छ्रुत्वा सस्मितो मधुरेक्षणः ॥७०॥  
 सावधिर्त्रिजयं तेन विनिश्चित्य विरोधिनाम् । स्फुरदन्तसचिद्विष्णु नेमिरोमित्यमाषत ॥७१॥  
 स्मिताद्यैः स्व जय सोऽपि निश्चिन्तय जगद्यमोः । जैनो वादीव पक्षाद्यैरेकक्षणभूपणैः ॥७२॥

कोई भी उतका विघात नहीं कर सकता है, वह याचकोंसे रहित है, यह उसके महलोंपर बहुत-सी पताकाएँ फहराती रहती है जिससे ऐसा जान पड़ता है कि 'यह गौरव रहित शरद्व ऋतुके बादलोंका समूह मेरे ऊपर रहता है' इस ईर्ष्याके कारण ही वह मानो महलोंके अग्रभागपर फहराती हुई चंचल पताकाओंरूपी बहुत-सी भुजाओंसे आकाशमें ऊँचाईपर स्थित शरद्व ऋतुके बादलोंको वहाँसे दूर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्रके जलके समान है क्योंकि जिस प्रकार समुद्रके जलमें बहुत-से रत्न रहते हैं उसी प्रकार उस नगरीमें भी बहुत-से रत्न विद्यमान हैं, जिस प्रकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थात् काले वर्णसे सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात् वसुदेवके पुत्र श्री कृष्णके प्रतापसे सुशोभित है, और जिस प्रकार समुद्रके जलमें सदा गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरीमें भी सदा गम्भीर शब्द होता रहता है। वह नौ योजन चौड़ी तथा बारह योजन लम्बी है, समुद्रके बीचमें है तथा यादवोंकी नगरी कहलाती है। हम लोगोंने ये रत्न वहीं प्राप्त किये हैं' ऐसा वैश्य-पुत्रोंने कहा ॥५७-६४॥ जब दैवसे छले गये अहंकारी जरासन्धने वैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने तो वह क्रोधसे अन्धा हो गया, उसकी दृष्टि भयंकर हो गयी, यही नहीं, बुद्धिसे भी अन्धा होगया ॥६५॥ जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए प्रलयकालके लहराते समुद्रके समान चंचल है ऐसा वह जरासन्ध यादव लोगोंका शीघ्र ही नाश करनेके लिए तत्काल चल पड़ा ॥६६॥ विना कारण ही युद्धसे प्रेम रखनेवाले नारदजीको जब इस बातका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्रीकृष्णसे जरासन्धके क्रोपका समाचार कह दिया ॥६७॥ 'शत्रु चढ़कर आ रहा है' यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको डुल भी आकुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमिकुमारके पास जाकर कहा कि आप इस नगरकी रक्षा कीजिए। सुना है कि मगधका राजा जरासन्ध हम लोगोंको जीतना चाहता है सो मैं उसे आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए जीर्ण वृक्षके समान शीघ्र ही नष्ट किये देता हूँ। श्रीकृष्णके धीरतापूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नतासे भर गया है, जो कुछ-कुछ सुसकरा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरतासे ओत-प्रोत हैं ऐसे भगवान् नेमिनाथको अवधिज्ञान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोंके ऊपर हम लोगोंकी विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दौतोंकी देदीप्यमान कान्तिको प्रकट करते हुए 'ओम्' शब्द कह दिया अर्थात् द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथा-नुपपत्ति रूप लक्षणसे सुशोभित पक्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भगवान्की मुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निश्चय कर लिया था ॥६८-७२॥

१ असंहततदना-ल० (?) । २ भूमि-ल० । ३ क्रोधादन्धीभूतो ल० ।

अथ शत्रून् समुज्जेतुं जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदाख्येन दवाह्नेनोद्धवेन च ॥७३॥  
 सुसुखाक्षरपद्मैश्च जराख्येन सुदृष्टिना । पाण्डवैः पद्मभिः सत्यकेनाथ द्रुपदेन च ॥७४॥  
 यादवैः सविराटाख्यैरप्रमेयैर्महाबलैः । धृष्टार्जुनोऽग्रसेनाभ्यां चमरेण रणेऽप्युना ॥७५॥  
 विदुरेण नृपैरन्यैश्चान्वितौ बलकेशवौ । सन्नद्धाबुद्धतौ योद्धुं क्रुक्षेत्रमुपागतौ ॥७६॥  
 जरासन्धोऽपि युद्धेच्छुर्मीप्सेणाविष्कृतोष्मणा । सद्रोणेन सकर्णेन साश्वत्थामेन रुक्मिणा ॥७७॥  
 शल्येन वृषसेनेन कृपेण कृपवर्मणा । रुदिरणेन्द्रसेनेन जयद्रथमहीभृता ॥७८॥  
 हेमप्रभेण भूमत्रां दुर्योधनधरेशिना । दुःशासनेन दुर्मर्षणेन दुर्धर्षणेन च ॥७९॥  
 दुर्जयेन कलिङ्गेशा मगदत्तेन भूभुजा । परैश्च भूरिभूपालैराजगाम स केशवम् ॥८०॥  
 तदा हरिवले युद्धदुन्दुभिध्वनिरुच्चरन् । शूराचेतो रसो वासः कौसुम्भो चान्वरञ्जयत् ॥८१॥  
 तदाकर्ण्य नृपाः केचिरपूजयन्ति स्म देवताः । अहिंसादिव्रतान्यन्ये जगृह्णुगुरुसंनिधौ ॥८२॥  
 परे निस्तारकेष्वर्थाभिन्नतरन्ति स्म सात्त्विकाः । आमुञ्चत तनुत्राणं गृह्णीतासिक्ततां शिवाम् ॥८३॥  
 आरोपयत चापौवान् संनद्धन्तां गजाग्रिमाः । हरयो नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिषु ॥८४॥  
 समर्प्यन्तां कलत्राणि युज्यन्तां वाजिमी रथाः । भोगोपभोगव्रत्सु चि सुज्यन्तामनिवारितम् ॥८५॥  
 वन्दिन्मागववृश्नेन वर्ष्यन्तां मित्रविक्रमाः । हृति केचिज्जगृह्णन्त्यान् नृपा संग्रामसंयुक्ताः ॥८६॥  
 पतिभक्त्या नितर्गात्मपौरुषेण विरोधिनाम् । मात्सर्येण यशोहेतोः शूरकोकसमीपत्या ॥८७॥  
 निजान्वयामिमानेन परैश्च रणकारणैः । समजायन् राजानः प्रोणव्ययविधायिनः ॥८८॥  
 वसुदेवसुतोऽप्यसगर्वः सर्वविभूषणः । कुङ्कुमाङ्कितगान्त्रत्वादि च सिन्दूरितद्विषः ॥८९॥  
 जय जीवेति बन्दास्वप्नेन कृतमङ्गलः । नवो वाम्भोधरश्चाह्वातकध्वनिकक्षितः ॥९०॥

अथानन्तर कृष्ण और बलदेव, शत्रुओंको जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, दब, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पाँचों पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, वि अपरिमित सेनाओंसे युक्त धृष्टार्जुन, अग्रसेन, युद्धका अभिलाषी चमर, विदुर तथा राजाओंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तैयार हुए और वहाँसे चलकर क्रुक्षेत्रमें जा ॥७३-७६॥ उधर युद्धकी इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गरमो (अहंकार) करनेवाले भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, रुक्म, शल्य, वृषसेन, कृप, कृपवर्मण, रुदिर, इन् राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथिवीका नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मर्षण, दुर्धर्षण, दुर्जय, कलिङ्ग, मगदत्त तथा अन्य अनेक राजाओंके साथ कृष्णके सामने आ पहुँचा ॥७७-७९॥ उस समय श्री कृष्णकी सेनामें युद्धकी भेरियाँ बज रही थीं सो जिस प्रकार कुसुम्भ रंग को रंग देता है उसी प्रकार उन भेरियोंके उठते हुए शब्दने भी शूरवीरोंके चित्तको रंग था ॥८०॥ उन भेरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओंकी पूजा करने लगे कितने ही गुरुओंके पास जाकर अहिंसा आदि व्रत ग्रहण करने लगे ॥८१॥ युद्धके हुए कितने ही राजा अपने शत्रुओंसे कह रहे थे कि 'तुम लोग कवच धारण करो, पैनी ल लो, धनुष चढाओ और हाथी तैयार करो । घोड़ोंपर जोन कसकर तैयार करो, स्त्रियाँ कारियोंके लिए सौपो, रथोंमें घोड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभोगकी वस्तुओंका सेवन जाय और बन्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमका वर्णन करे ॥८२-८६॥ उस समय ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक पराक्रमसे, कितने ही शत्रुओंपर हुई ईर्ष्यासे, कितने ही यश पानेकी इच्छासे, कितने ही शूरवीरोंकी गति पानेके कितने ही अपने वंशके अभिमानसे और कितने ही युद्धसम्बन्धी अन्य-अन्य का प्राणोंका नाश करनेके लिए तैयार हो गये थे ॥८७-८८॥ उस समय श्रीकृष्ण भी गर्व कर रहे थे, सब आभूषण पहने थे और शरीरपर केशर लगाये हुए थे जिससे ये पड़ते थे मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हों ॥८९॥ 'आपकी जय हो', 'आप चिरंजी

सज्जनावर्जं निगिक्तसौवर्णोत्सवगन्तिका - जलैराचम्य शुद्धाच्छिक्षिप्रपूर्णजलाञ्जलिः ॥९१॥  
 गन्धपुष्पादिभिर्विज्ञविनायकमनायकम् । भक्त्या जिनैन्द्रमभ्यर्च्य भक्त्यकल्पमहीरुहम् ॥९२॥  
 अमिबन्धात्सामन्वीः समन्तात् परिवारितः । प्रतिपक्षमपक्षेत् न्यक्षेणाभिसुखं ययौ ॥९३॥  
 ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्तुरिचारिणः । सैन्यं यथोक्तविन्यासं रचयन्ति स्म रागिणः ॥९४॥  
 जरासन्धोऽपि सप्रामरुद्धमध्यमधिष्ठितः । स्वसैन्यं निष्दुरारावैरध्यक्षैरन्वयोजयत् ॥९५॥  
 इति विन्यासिते सैन्ये दृष्ट्वाने समरानकैः । शूरधानुष्कनिर्मुक्तसन्नाराचसंकुलम् ॥९६॥  
 नमो न्यरुणदुष्णांशुप्रवरत्करसंततिम् । वियोगमगमनमोहात्तास्तसमयशङ्कया ॥९७॥  
 कोकयुग्म विहङ्गाश्च ह्वन्तो नौडमाश्रयन् । नेक्षन्ते स्म मया योद्धमन्योन्यं समराङ्गणे ॥९८॥  
 संक्रुद्धमत्मातङ्गदन्तसंबट्टजन्मना । सप्ताधिषा विधूतेऽन्धकारे दिगवलोकनात् ॥९९॥  
 पुनः प्रवृत्तसंप्रामाः सर्वशक्तिविक्षणाः । नदीं रक्तमयीं चक्रुर्विक्रमैकरसाः क्षणम् ॥१००॥  
 कराकरवालाप्रं निकृत्तचरणद्वयाः । तुरंगमा गतिं प्रापुर्वाने नष्टतपोधनाः ॥१०१॥  
 विच्छिन्नचरणाः पेतुर्द्विषाः प्रान्तमहामरु—क्षिमूलपातितानोक्तविपुलाचकलीकया ॥१०२॥  
 पातितानां परैः स्तूयमानसाहसकर्मणाम् । प्रसादवन्ति वज्राणि स्थलपथश्रियं द्युः ॥१०३॥  
 भटैः परस्परान्नाणि खण्डितानि स्वकीयकात् । तत्खण्डैस्तत्र पार्श्वस्था बहवो न्यसवोऽमवन् ॥१०४॥

इस प्रकार बन्दीजन उनका मंगलपाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चातकों-  
 की सुन्दर ध्वनिसे युक्त नवीन मेघ ही हो ॥६०॥ उन्होंने सज्जनोंके द्वारा धारण की हुई पवित्र  
 सुवर्णमय शारीके जलसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीघ्र ही पूर्ण जलाञ्जलि दी और फिर  
 गन्ध, पुष्प आदि द्रव्योंके द्वारा विघ्नोका नाश करनेवाले, स्वामीरहित (जिनका कोई स्वामी  
 नहीं) तथा भव्य जीवोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए कल्पवृक्षके समान श्री जिनैन्द्रदेवकी  
 भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों और सामन्तोंको  
 अथवा प्रामाणिक सामन्तोंको रखकर स्वयं ही शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल  
 पड़े ॥६१-६३॥ तदनन्तर कृष्णकी आज्ञासे अनुराग रखनेवाले प्रशंसनीय परिचारकोंने यथा-  
 योग्य रीतिसे सेनाकी रचना की ॥६४॥ जरासन्ध भी संप्रामरूपी युद्धभूमिके बीचमें आ  
 बैठा और कठोर सेनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥६५॥ इस प्रकार जब  
 सेनाओंकी रचना ठीक-ठीक हो चुकी तब युद्धके नगाड़े बजने लगे। शूरवीर धनुषधारियों-  
 के द्वारा छोड़े हुए चाणोंसे आकाश भर गया और उसने सूर्यकी फैलती हुई किरणोंकी सन्तति-  
 को रोक दिया—ढँक दिया। 'सूर्य अस्त हो गया है' इस भयकी आशंकासे मोहवशा चक्रवा-  
 चकवी परस्पर बिछुड़ गये। अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी ओर जाने लगे।  
 उस समय युद्धके मैदानमें इतना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक-दूसरेको देख  
 नहीं सकते थे परन्तु कुछ ही समय बाद क्रुद्ध हुए मदोन्मत्त हाथियोंके दौँतोंकी टक्करसे उत्पन्न  
 हुई अग्निके द्वारा जब वह अन्धकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएँ साफ-साफ दिखने लगतीं  
 तब समस्त शस्त्र चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते थे। विक्रमरससे भरे योद्धाओंने  
 क्षण-भरमें खूनकी नदियाँ बहा दीं ॥६६-१००॥ भयंकर तलवारकी धारसे जिनके आगेके दो  
 पैर कट गये हैं ऐसे घोड़े उन तपस्वियोंकी गतिको प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे  
 छोड़ देते हैं ॥१०१॥ जिनके पैर कट गये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय काल-  
 की महावायुसे जड़से उखड़कर नीले रंगके वड़े-बड़े पहाड़ ही पड़ गये हों ॥१०२॥ शत्रु भी जिनके  
 साहसपूर्ण कार्योकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल कमल  
 (गुलाब) की शोभा धारण कर रहे थे ॥१०३॥ योद्धाओंने अपनी कुशलतासे परस्पर एक-दूसरे-  
 के शस्त्र तोड़ डाले थे परन्तु उनके टुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुत-से लोग मर गये थे

न मत्सरेण न क्रोधात्न ख्यातेर्न फलेच्छया । भटाः केचिदयुध्यन्त न्यायोऽयमिति केवलम् ॥१॥  
 सर्वबाह्वसमुद्भिन्नशरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धाच्चूलिकाङ्गिताद्ग्रयः ॥१०६॥  
 चिरं परिचितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्षमाः । प्रलम्बन्ते स्म कर्णाग्रमवलम्ब्यान्ताननाः ॥१०७॥  
 केचिद्दामकरोपात्तचिन्नदण्डस्वरक्षणाः । दक्षिणाञ्जमुजेनाङ्गन् भटाश्चटुकचारिणः ॥१०८॥  
 तत्र वाच्यो मनुष्याणां मृत्योस्तृकृष्टसंचयः । कदलीघातजातस्येत्युक्तिमत्तद्राजङ्गणम् ॥१०९॥  
 एवं तुमुज्युद्धेन प्रवृत्ते संगरे चिरम् । सेनयोरन्तकस्यापि संतृप्तिः समजायत ॥११०॥  
 विकङ्कितं बलं विष्णोर्बलेन द्विषतां तथा । यथा क्षुद्रसरिद्वारि महासिन्धुसुखान्मुना ॥१११॥  
 तदा लोकाय हरिः क्रुद्धो<sup>२</sup> हरिर्वा करिणां कुलम् । सामन्तवत्सलं दोहसहितो इन्तुमुद्यतः ॥११२॥  
 मास्करस्योदयाहान्धकारं शत्रुबलं तदा । त्रिलीनं तञ्जिरीक्ष्यैव जरासन्धोऽन्वितः क्रुधा ॥११३॥  
 द्योतिताखिलदिक्चक्रं चक्रमादाय विक्रमात् । त्रिविक्रमं समुद्दिश्य न्यक्षिप्रदक्षवीक्षणः ॥११४॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवदक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिर्मगधेशोऽच्छिनच्छिरः ॥११५॥  
 सद्यो जयानकानीकं<sup>३</sup> नदति स्मागलन् दिवः । सुरद्रुमप्रसूनानि सह गन्धाम्बुविन्दुभिः ॥११६॥  
 चक्री चक्रं पुरस्कृत्य त्रिजिगीषुर्दिशो भृशम् । प्रस्थानमकरोत्सार्धं बलेन स्वबलेन च<sup>४</sup> ॥११७॥  
 मागधादीन्सुरान् जिस्वा विषेयीकृत्य विश्रुतान् । गृहीत्वा साररत्नानि तद्दत्तान्यूर्जितोदयः<sup>५</sup> ॥  
 सिन्धुसिन्धुखगाग्रयन्तराकन्याधधराधिपान् । स्वपादनलभामारमानमद्योदवाहयन् ॥११८॥

॥१०४॥ कितने ही योद्धा न ईर्ष्यासे, न क्रोधसे, न यशसे, और न फल पानेकी इच्छा करते थे किन्तु 'यह न्याय है' ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे ॥१०५॥ जिनका शरीर सर्व शस्त्रोंसे द्विन्न-भिन्न हो गया है ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियोंके स्कन्धसे नीचे गिर परन्तु कानोंके आभरणोंमें पैर फँस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानोंके अग्रभागका ले नीचेकी ओर मुख कर लटक गये हों ॥१०६-१०७॥ बड़ी चपलतासे चलनेवाले योद्धा अपनी रक्षाके लिए बायें हाथमें भाला लेकर शस्त्रोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रुओं रहे थे ॥१०८॥ आगममें जो मनुष्योंका कदलीघात नामका अकालमरण बतलाया उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी ऐसा युद्धके विषयमें कहा जाता है ॥१०९॥ इस प्रकार दोनों सेनाओंमें चिरकाल तक तुमुल यु रहा जिससे यमराज भी खूब सन्तुष्ट हो गया था ॥११०॥ तदनन्तर जिस प्रकार कि नदीके जलको महानदीके प्रवाहका जल दबा देता है उसी प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाको सेनाने दबा दिया ॥१११॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समूहपर दूट पड़ता प्रकार श्रीकृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समूह साथ लेकर शत्रुको लिए उद्यत हो गये—शत्रुपर दूट पड़े ॥११२॥ जिस प्रकार सूर्यके उदय होते ही अन्धकार हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको देखते ही शत्रुओंकी सेना त्रिलीन हो गयी—उसमें मच गयी । यह देख, क्रोधसे भरा जरासन्ध आया और उसने रूक्ष दृष्टिसे देखकर, पराक्रमसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न ले श्रीकृष्णकी ओर चलाया ११४॥ परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजापर ठहर गया । त चक्र लेकर श्रीकृष्णने मगधेश्वर—जरासन्धका शिर काट डाला ॥११५॥ उसी समय की सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे सुगन्धित जलकी बूँदोंके सा कल्पवृक्षोंके फूल बरसने लगे ॥११६॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजयकी भारी इच्छासे आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया ॥११७॥ जिन-बलवान् है ऐसे श्रीकृष्णने मागध आदि प्रसिद्ध देवोंको जीतकर अपना सेवक बना उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न ग्रहण किये ॥११८॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी और

खेचराचलवाराक्षिगङ्गामध्यगतान् पुनः । वशीकृत्य वशीं तूर्णं म्लेच्छराजान् सखेचरान् ॥१२०॥  
 भरतार्थमहीनाथो दूरोच्छ्रितपताकिकाम् । उद्धतोरणां द्वारवतीं हृद्यो विवेश सः ॥१२१॥  
 प्रविष्टवन्तं तं देवविद्याधरधराधिपाः । त्रिलण्डाधिपतिश्रक्रीत्यभ्यषिञ्जन्नयाचितम् ॥१२२॥  
 स सहस्रसामयुक्तो दशचापसमुच्छ्रितः<sup>१</sup> । कसन्तीकावजवर्णामो लक्ष्म्यालिङ्गितविग्रहः ॥१२३॥  
 चक्रं शक्तिर्गदा शङ्खो धनुर्दण्डः सनन्दकः । बभूवुः ससरत्नानि रक्षाण्यस्याक्षपालकैः<sup>२</sup> ॥१२४॥  
 रत्नमाला गदा सीरो मुसलं च हलेशिनः । महारत्नानि चत्वारि स्फुरस्विष्यमवन् विभोः<sup>३</sup> ॥१२५॥  
 रुक्मिणी सत्यभामा च सती जाम्बवतीति च । सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥१२६॥  
 पद्मावती च देव्योऽमूरपटौ पट्टप्रसाधना । सर्वा, देव्यः सहस्राणि चाणूरान्तस्य षोडश ॥१२७॥  
 बलस्याष्ट सहस्राणि देव्योऽमोऽसुखप्रदाः । तानिस्तावामरं सौख्यमासौ वा प्रीतिमीयतु ॥१२८॥  
 स्वपूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्कलान् । भोगान् प्राप्तुवतस्तस्य काले गच्छति शार्ङ्गिणः ॥१२९॥  
 अन्वेयुर्वारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । मनोहरामिधान्ऽभुज्जलकेली मनोहर्गा ॥१३०॥  
 तत्र नेमीशितुः सत्यभामायाश्चाश्रुत्सेचनान् । सहापोऽभवदित्युच्चैश्चतुरोक्तया मनोहरः ॥१३१॥  
 ४तप्रियावत्कुतो रन्ता मयि त्वं किं मनाप्रिया । ५प्रियास्मि चेतव आता यातु कां कामदायिनीम् ॥१३२॥  
 कासौ किं तां न वेत्सि त्वं सम्प्रवसा वेदयिष्यति । वदन्ति ध्याम्युज्ज सर्वे कुटिलस्त्वं तथापि च ॥१३३॥

पर्वतके बीचके म्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरोंके नखोंकी कान्तिका भार उठवाया ॥११६॥ तदनन्तर विजयार्थ पर्वत, लवणसमुद्र और गंगानदीके मध्यमें स्थित म्लेच्छ राजाओंको विद्याधरोंके ही साथ जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही बश कर लिया ॥१२०॥ इस प्रकार आये भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ पहरा रही हैं और जगह-जगह तोरण बाँधे गये हैं ऐसी द्वारावती नगरीमें बड़े हर्षसे प्रवेश किया ॥१२१॥ प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका बिना कुछ कहे-सुने ही अपने-आप राज्याभिषेक किया ॥१२२॥

श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी आयु थी, दश धनुषकी ऊँचाई थी, अतिशय सुशोभित नीलकमलके समान उनका वर्ण था, और लक्ष्मीसे आलिंगित उनका शरीर था ॥१२३॥ चक्र, शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दण्ड और नन्दक नामका खड्ग ये उनके सात रत्न थे । इन सभी रत्नोंकी देव लोग रक्षा करते थे ॥१२४॥ रत्नमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार महारत्न बलदेव प्रभुके थे ॥१२५॥ रुक्मिणी, सत्यभामा, सती जाम्बवती, सुसीमा, लक्ष्मणा, गान्धारी, सप्तमी, गौरी और प्रिया पद्मावती ये आठ देवियों श्रीकृष्णकी पट्टरानियँ थीं । इनकी सब मिलाकर सोलह हजार रानियँ थीं तथा बलदेवके सब मिलाकर अभीष्ट सुख देनेवाली आठ हजार रानियँ थीं । ये दोनों भाई इन रानियँके साथ देवोंके समान सुख भोगते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे थे ॥१२६-१२८॥ इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भोगोंको भोगते हुए श्रीकृष्णका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी एक समय शरद् ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे । वहींपर जल उछालते समय भगवान् नेमिनाथ और सत्यभामा-के बीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ ॥१२६-१३०॥ सत्यभामाने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया ( इष्ट ) नहीं हो ? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया ( स्त्री ) हूँ तो फिर आपके भाई ( कृष्ण ) किसके पास जावेंगे ? नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनी-के पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सही वह कामिनी कौन-सी है ? उत्तरमें नेमिनाथने कहा कि क्या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओगी । सत्यभामाने कहा कि

१ सुमुच्छ्रित ल० । २-अपाठकैः ख०, ग० ।-शवाटकैः ल० ( रक्षिताभ्यापालकैः रक्ष्याण्यत्याक्ष-पालकैः इति वा पाठ सुष्ठु भाति ) । ३ प्रभो. म० । ४ स्व प्रियावत् ल० । ५ प्रिया चेतव आता ल० ।

पुनः स्नानविनोदावसाने तामेवमब्रवीत् । स्नानवर्त्तं त्वया ग्राह्यं नीलोत्पलविलोचने ॥१३४॥  
 तस्य मे किं करोम्येतत्प्रक्षालय हरिर्भवान् । यो नागशय्यामास्थाय दिव्यं शार्ङ्गशरासनम् ॥१३५॥  
 हेळ्यारोपयद्यश्च प्रपूरितदिगन्तरम् । शङ्खमापूरयत्किं तत्साहसं नो भवेत्त्वया ॥१३६॥  
 कार्यं साधु करिष्यामीत्युक्त्वा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातुं कर्म सोऽद्भुतम् ॥१३७॥  
 संप्रविश्यायुधागारं नागशय्यामधिष्ठितः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रमहामणिगविमास्वरात् ॥१३८॥  
 भूयो विस्फालनोन्नादज्याकृतं च शरासनम् । शारोपयत् पयोजं च<sup>१</sup> दध्मी रुद्धदिगन्तरम् ॥१३९॥  
 तदा संभावयामास स्वं समाधिष्णुतोन्नतिम् । रागाहंकारयोर्लेशोऽप्यवश्यं विकृतिं नयेत् ॥१४०॥  
 सहसेत्यद्भुतं कर्म श्रुत्वाध्यास्य सभावनिम् । हरिः कुसुमचित्राख्यामाकुलाकुलमानसः ॥१४१॥  
 उच्चूत्विस्मयोऽप्युच्छत्किमेतदिति किंकरान् । ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथं व्यजिज्ञपन् ॥१४२॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं चक्री सावधानं वितर्कयन् । रागि चेतः कुमारस्य चित्राञ्जितजायत ॥१४३॥  
 अभूत्कल्याणयोग्योऽयमारुढनवयौवनः । बाधा खलेन कामेन कस्य न स्यात् सकर्मणः ॥१४४॥  
 इत्युग्रवंशवार्धोऽन्दोऽह्रसेनमहीभुजः । जयावत्याश्च सर्वाङ्गशय्या राजीमतिः सुता ॥१४५॥  
 तद्गृहं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिकोकस्वामिनो नेनेः प्रियास्त्वेषेति सादरम् ॥  
 त्रिखण्डजातरत्नानां त्वं पतिर्नो विशेषतः । देव त्वमेव मायोऽसि प्रस्तुताथैव्य के वयम् ॥१४६॥

सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़े कुटिल हैं । इस प्रकार जब विनोद कर स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे नीलकमलके समान नेत्रोंवा मेरा यह स्नानका वख ले । सत्यभामाने कहा कि मैं इसका क्या करूँ ? नेमिनाथने इसे धो डाल । तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्रीकृष्ण हैं ? वह श्रीकृष्ण, कि नागशय्यापर चढकर शार्ङ्ग नामका दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था औं दिगन्तको पूर्ण करनेवाला शंख पूरा था ? क्या आपमें वह साहस है, यदि नहीं है त मुझसे वख धोनेकी बात क्यों कहते हैं ? ॥१३९-१३६॥ नेमिनाथने कहा कि 'मैं अच्छी तरह कर दूँगा' इतना कहकर वे गर्वसे प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े आश्चर्यपूर्ण कार्य करनेके लिए आयुधशालामें जा घुसे । वहाँ वे नागराजके महाम सुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शय्याके समान चढ़ गये, बार-बार स्फालन करनेसे डोरीरूपी लता बड़ा शब्द कर रही है ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओंके रालको रोकनेवाला शंख फूँक दिया ॥१३७-१३६॥ उस समय उन्होंने अपने-आपको महा समझा सो ठीक ही है क्योंकि राग और अहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको अवश्य ही वि देता है ॥१४०॥ जिस समय आयुधशालामें यह सब हुआ था उस समय श्रीकृष्ण कुसु नामकी सभाभूमिमें विराजमान थे । वे सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुनकर व्यग्र उनका मन अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥१४१॥ बड़े आश्चर्यके साथ उन्होंने किंकरोंसे 'यह क्या है ?' किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगाकर श्रीकृष्णसे सब बात ब्योंकी त दन कर दी । किंकरोंके वचन सुनकर चक्रवर्ती कृष्णने बड़ी सावधानीके साथ विचार कहा कि आश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथका चित्त रागसे युक्त हुआ है । नवयौवनसे सम्पन्न हुए हैं अतः विवाहके योग्य हैं—इनका विवाह करना चाहिए । सो ठी ऐसा कौन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नहीं होती हो ॥१४२-१४४॥ कर उन्होंने विचार किया कि उग्रवंशरूपी समुद्रको बढानेके लिए चन्द्रमाके समान, उग्रसेनकी जयावती रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वांग सुन्दर है विचारके बाद ही उन्होंने राजा उग्रसेनके घर स्वयं जाकर बड़े आदरसे 'आपकी पुत्री तीन नाथ भगवान् नेमिकुमारकी प्रिया हो' इन शब्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की इसके उत्तरमें राजा उग्रसेनने कहा कि 'हे देव ! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ह

इत्युग्रसेनवाचोवाचसंमदो यादवाधिपः । शुभेऽहनि समारभ्य विधातुं स तदुत्सवम् ॥१४८॥  
 पञ्चरत्नमयं रम्यं समानयदनुत्तरम् । विवाहमण्डपं तस्य मध्यस्थे जगतीतले ॥१४९॥  
 नवमुक्ताफलाकोरङ्गवह्नीविराजिनि । मङ्गलामोदि<sup>१</sup>पुण्योपहारासारविकारिणि ॥१५०॥  
 विस्तृतामिनवानर्च्यवस्त्रैः सौवर्णपट्टके । बध्वा सह समापार्द्रतण्डुलारोपणं वरः ॥१५१॥  
 परेषुऽसमये पाणिजलसेकस्य साधव । यिथासुदुर्गति लोभसुतीव्रानुभवोदयात् ॥१५२॥  
 दुराशयः सुराशीघ्रपूज्यस्यापि महात्मनः । स्वराज्यादानमाशङ्क्य नेमैर्मायाविदां वरः ॥१५३॥  
 निर्वेदकारणं किञ्चिन्नरीक्ष्यैव विरंस्यति । भोगेभ्य इति संवित्य तदुपायत्रिधित्तया ॥१५४॥  
 व्याधाधिपैर्युतानीतं नानाशृगकदम्बकम् । विधायैकत्र संकीर्णां वृत्तिं तत्परितो व्यधात् ॥१५५॥  
 अविश्वयञ्च तद्रक्षाध्वक्षान्यदि लमीक्षितुम् । <sup>२</sup>दिशो नेमीश्वरोऽभ्येति भवञ्चि सौऽभिधोयत्वात् ॥१५६॥  
 स्वद्विवाहे व्यथीकर्तुं चक्रिणैष सृगोत्तरः । समानीत इति व्यक्तं महापापोपलेपकः<sup>३</sup> ॥१५७॥  
 अथ नेमिकुमारोऽपि नानामरणमातुरः<sup>४</sup> । सहस्रकुन्तलो रक्तोत्पलमालाधलंकृतः ॥१५८॥  
 तुरंगमद्युतोद्गतधूलोक्तिदिगाननः । स्वधोभिरिति प्रीतैर्माहात्मामन्तसुत्भिः ॥१५९॥  
 परं तः शिविकां चित्रामारोह्य नयनप्रियः । दिशो विलोकितुं गच्छत्तत्रालोक्य सद्यच्छया ॥१६०॥  
 मृगानिस्ततो घोरं रुदित्वा कश्णस्वनम्<sup>५</sup> । भ्रमस्तत्स्थितान वीनदृष्टीनतिभयाङ्कलान् ॥१६१॥  
 किमर्थमिदमेकत्र निरुद्धं लृणभुवङ्गलम् । इत्यन्वयुद्धं तत्रक्षानियुकाननुवन्पया ॥१६२॥

है, और खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह कार्य आपको ही करना है—आप ही इसके नाथ हैं, हम लोग कौन होते हैं ?' इस प्रकार राजा उग्रसेनके वचन सुनकर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही हर्षित हुए । तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वह विवाहका उत्सव करना प्रारम्भ किया और सबसे उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रत्नोंका विवाहमण्डप बनवाया । उसके बीचमें एक वेदिका बनवायी गयी थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर रंगावलीसे सुशोभित थी, मंगलमय सुगन्धित फूलोंके उपहार तथा दृष्टिसे मनोहर थी, उसपर सुन्दर नवीन वस्त्र ताना गया था, और उसके बीचमें सुवर्णकी चौकी रखी हुई थी । उसी चौकीपर नेमिकुमारने वधू राजीमतीके साथ गीले चावलोंपर बैठनेका नेम ( दस्तूर ) किया ॥१४७-१५१॥ दूसरे दिन वरके हाथमें मालधारा देनेका समय था । उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गातिको जानेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्णका अभिप्राय लोभ कपायके तीव्र उद्येसे झुत्सित हो गया । उन्हें इस बातकी आशंका उत्पन्न हुई कि वही इन्द्रोके द्वारा पूजनीय भगवान् नेमिनाथ हमारा राज्य न ले ले । उसी क्षण उन्हें विचार आया कि 'ये नेमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोसे विरक्त हो जावेगे ।' ऐसा विचार कर वे वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करने लगे । उनकी समझमें एक उपाय आया । उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियोंसे पकड़वाकर अनेक मृगोंका समूह जुलाया और उसे एक स्थानपर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा वहाँ जो रक्षक नियुक्त किये थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान् नेमिनाथ दिशाओंका अवलोकन करनेके लिए आवे और इन मृगोंके विषयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ-साफ कह देना कि आपके विवाहमें मारनेके लिए चक्रवर्तिने यह मृगोंका समूह जुलाया है । महापापका बन्ध करनेवाले श्रीकृष्णने ऐसा उन लोगोंको आदेश दिया ॥१५२-१५७॥ तदनन्तर जो नाना प्रकारके आभूषणोंसे वेदीप्यमान हैं, जिनके सिरके बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अलङ्कृत हैं, घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अभ्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और जो समान अवस्थावाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्वर राजाओंके पुत्रोंसे घिरे हुए हैं ऐसे नयनाभिराम भगवान् नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरूढ होकर दिशाओंका अवलोकन करनेके लिए निकले । वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टिसे-युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए मृगोंको देख दयावश वहाँके रक्षकोंसे

१-मोद-ल० । २-सौभर्म-ल० । ३-वीथो ल० । ४-महापापोपलिम्पक ल० । ५-भारमाक ल० ।

६-कश्णस्वरम् ल० ।



देवैतद्वासुदेवेन त्वद्विवाहमहोत्सवे । व्ययीकर्तुमिहानीतमित्यभाषन्त<sup>१</sup> तेषां तम् ॥ १६३ ॥  
 वसन्त्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधका<sup>२</sup> । किलैतांश्च स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीदृशान् ॥ १६४ ॥  
 किं न कुर्वन्त्यमी मूढाः प्रौढमिथ्यात्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितुं प्राणैर्निर्घृणाः स्वैत्रिनद्वरैः ॥ १६५ ॥  
 स्वराज्यग्रहणे शङ्कां विचाय मयि दुर्मतिः । व्यधात् कपटमीदृशं कपटं दुष्टद्विवेचित्तम् ॥ १६६ ॥  
 इति निर्ध्यायि निर्विधिं निर्वृत्य निजमन्दिरम् । प्रविद्याविर्भवद्वं धिस्त्रकालोपनतामरैः ॥ १६७ ॥  
 बोधित समर्गतात्ममवाप्तुस्मृतिवेषितः । तदैवागत्य देवेन्द्रैः<sup>३</sup> कृतनिष्क्रमणोत्सवः ॥ १६८ ॥  
 शिविकां देवकुत्राख्यामारुह्यामरवेष्टितः<sup>४</sup> । सहस्राश्रवणे षष्ठानशनः श्रावणे सिते ॥ १६९ ॥  
 पक्षे चित्राख्यनक्षत्रे षष्ठ्यां सायाह्नमाश्रितः । शतत्रयकुमाराब्दव्यतीती सह भूभुजाम् ॥ १७० ॥  
 सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपद्यत । चतुर्थज्ञानधारी च बभूवासन्नदेवलः<sup>५</sup> ॥ १७१ ॥  
 रंध्येव भासुमस्ताद्वावसु राजीमतिश्च तम् । यथौ वाचापि दत्तानां न्यायोऽयं कुलधोचिताम् ॥ १७२ ॥  
 स्वदुःखेनापि निविण्णः श्रूयते न जनः परः । परदुःखेन सन्तोऽमी त्यजन्त्येव महाश्रियम् ॥ १७३ ॥  
 बलकेशवमुख्यावनीशाः संपूज्य संस्तवैः । सपुरेशास्तमीशानं र्वं धाम समुपाश्रयन् ॥ १७४ ॥  
 पारणादिवसे तस्मै वरदत्तो महीपतिः । कनकामः प्रविष्टाय पुरीं द्वारावतीं सते ॥ १७५ ॥  
 श्रद्धादिगुणसंपन्न प्रतीच्छादिनवक्रिय<sup>६</sup> । अदितान्नं मुनिप्राज्ञं पञ्चाश्रयाणि चाप सः ॥ १७६ ॥  
 कोटिर्द्वादशरत्नानां सार्धाः सुरकरच्युताः । वृष्टिं सौमनसीं वायुं माग्धादिगुणान्वितम् ॥ १७७ ॥

पूछा कि यह पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए रोक़ा गया है ? ॥१५८-१६२॥ उत्तरमें रक्षकोंने कहा कि 'हे देव ! आपके विवाहोत्सवमें व्यय करनेके लिए महाराज श्रीकृष्णने इन्हें बुलाया है' ॥१६३॥ यह सुनते ही भगवान् नेमिनाथ विचार करने लगे 'कि ये पशु जंगलमें रहते हैं, लूण खाते हैं और कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हें अपने भोगके लिए पीड़ा पहुँचाते हैं। ऐसे लोगोंको धिक्कार है। अथवा जिनके चित्तमें गाढ मिथ्यात्व भरा हुआ है ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नरंवर प्राणोंके द्वारा जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते है ? देखो, दुर्बुद्धि कृष्णने मुझपर अपने राज्य-ग्रहणकी आशंका कर ऐसा कपट किया है। यथार्थमें दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेवाली होती है' । ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गये । वैराग्यके प्रकट होनेसे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें समझाया, अपने पूर्व भवोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे । उसी समय इन्द्रोंने आकर दीक्षाकल्याणकका उत्सव किया ॥१६४-१६८॥ तदनन्तर देवकुरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देवोंके साथ चल पड़े । सहस्राश्रवणमें जाकर वेलाका नियम लिया और श्रावण शुक्ला षष्ठीके दिन सायंकालके समय कुमार-कालके तीन सौ वर्ष वीत जानेपर एक हजार राजाओंके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हें चौथा-मनःपर्ययज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा ॥१६९-१७१॥ जिस प्रकार सन्ध्या सूर्यके पीछे-पीछे अस्ताचलपर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे तपश्चरणके लिए चली गयी सो ठीक ही है क्योंकि शरीरकी बात तो दूर रही, वचन मात्रसे भी दी हुई कुलस्त्रियोंका यही न्याय है ॥१७२॥ अन्य मनुष्य तो अपने दुःखसे भी विरक्तहुए नहीं सुने जाते पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर देते है ॥१७३॥ बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इन्द्र आदि देव, सब अनेक स्तवनोंके द्वारा उन भगवान्की रतुति कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१७४॥ पारणाके दिन उन सज्जनोत्तम भगवान्ने द्वारावती नगरीमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले तथा श्रद्धा आदिगुणोंसे सम्पन्न राजा वरदत्तने पडिगाहन आदि नवधा भक्ति कर उन्हें मुनियोंके ग्रहण करने योग्य-शुद्ध प्रासुक आहार दिया तथा पंचाश्रय प्राप्त किये ॥१७५-१७६॥ उसके घर देवोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े

१-मित्यभाषत ल० । २ देवेन्द्राः ल० । ३-मरवेष्टिताम् ल० । ४ केवली ग० । ५ राजिमतिश्च म० ।

राजमतिश्च ल० । राजिमती च ल०, ग० । ६ महोश्रियम् ल० । ७ अदितान्नं ल० । ८ कोटिद्विधा ल० ।

चान्तरितकायामराभिताडितदुन्दुभि—ध्वानं मनोहरं साधुदानधोषणपूर्वकम् ॥१०८॥  
 पूर्वं तपस्यस्तस्य षट्पञ्चाशदिनप्रमे । छत्रास्यसमये याते गिरौ रैवतकाभिधे ॥१७९॥  
 षष्टोपवासशुक्लस्य महावेणोरधः स्थिते । पूर्वेऽह्णश्चयुजे मासि शुक्लपक्षादिमे दिने ॥१८०॥  
 चित्रायां केवलज्ञानमुदपथत सर्वगम् । पूजयन्ति स्म तं देवाः केवलवागगमोस्त्ये ॥१८१॥  
 वरदत्ताद्योऽभ्युपशेकाग्रश गणेशिनः । चतुःशतानि पूर्वशाः श्रुतज्ञानाब्धिपारगाः ॥१८२॥  
 शून्यद्वितीयवसैकैकमितास्तस्य शिक्षकाः । शून्यद्वितीयपञ्चैव मितान्निज्ञानलोचनाः ॥१८३॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञाना विक्रियर्द्धिसमन्विताः । शताधिकसहस्रं तु मनःपर्ययशोचना ॥१८४॥  
 शतानि नव विज्ञेया वादिनोऽष्टशतानि च । अष्टादशसहस्राणि ते सर्वेऽपि समुच्चिताः ॥१८५॥  
 यक्षी राजीमतिः कात्यायन्यन्याश्राविलार्थिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि श्रावका लक्ष्यशिक्षिताः ॥१८६॥  
 शिल्पशा श्राविका देवा देव्यश्चासंख्ययोदिताः । तिर्यञ्चः संख्यया प्रोक्ता गणैरेभिर्द्विषष्टिमतैः ॥१८७॥  
 परीतो भव्यपद्मानां विकासं जनयन्मुहुः । धर्मापदेशनाकांशुप्रसरेणाचनाशिना ॥१८८॥  
 विद्वान् देवान् विद्वत्पान्ते भाष्य द्वारावतीं कृती । स्थितो रैवतकोद्याने तन्निशान्यन्वक्षेधवः ॥१८९॥  
 बलदेवश्च संप्राप्य स्वसर्वद्विसमन्वितौ । वन्दित्वा श्रुतधर्माणौ श्रौतवन्तौ ततो हरिः ॥१९०॥  
 प्राहुर्नास्तीति थं केचिन् केचिन्नित्यं क्षणस्थितम् । केचित्केचिदपुं चाणोः केचिच्छ्यामाकसमितम् ॥१९१॥  
 केचिदुत्सामाऽर्च्यं योजनानां सपुच्छितम् । केचिच्छतानि पञ्चैव केचिद्गगनवदिसुम् ॥१९२॥  
 केचिरेकं परेनाना परेऽश्चमपरेऽन्यथा । त जीवाख्यं प्रतिप्रायः संदेहोऽस्त्वोत्थीत्येव च ॥१९३॥

बारह करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई, फूल बरसे, मन्दता आदि तीन गुणोंसे युक्त वायु चलने लगी, मेघोंके भीतर छिपे देवोंके द्वारा ताडित दुन्दुभियोंका सुन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया यह घोषणा होने लगी ॥१७७-१७८॥ इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्थ अवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन वे रैवतक ( गिरनार ) पर्वतपर बेलाका नियम लेकर किसी बड़े भारी बाँसके वृक्षके नीचे बिराजमान हो गये । निदान, आश्विन शुक्ला प्रतिपदाके दिन चित्रा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थोंको विषय करने-वाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । देवोंने केवलज्ञान कल्याणका उत्सव कर उनकी पूजा की ॥१७९-१८१॥ उनकी सभामें वरदत्त आदि ग्यारह गगधर थे, चौर सौ श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी पूर्वोंके जानकार थे, ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक थे, पन्द्रह सौ तीन ज्ञानके धारक थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, ग्यारह सौ विक्रियाश्रुतिके धारक थे, नौ सौ मनःपर्ययज्ञानी थे और आठ सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे । यक्षी, राजीमती, कात्यायनी आदि सब मिलाकर चालीस हजार आर्थिकार्य थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकार्य थीं, असंख्यात देव-देवियार्य थीं और संख्यात तिर्यच थे । इस तरह बारह सभाओंसे घिरे हुए भगवान् नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेवाले, धर्मापदेशरूपी सूर्यकी किरणोंके प्रसारसे भव्य जीवरूपी कमलोंको बार-बार विकसित करते हुए समस्त देवोंमें घूमे थे । अन्तमें कृतकृत्य भगवान् द्वारावती नगरीमें आकर रैवतक गिरिके उद्यानमें बिराजमान हो गये । अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तब वे अपना समस्त विभूतिके साथ उनके पास गये । वहाँ जाकर उन दोनोंने वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया ॥१८२-१९०॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि हे भगवन् ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुसे भी सूक्ष्म मानते हैं ? कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर मानते हैं, कोई एक अंगुष्ठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसौ योजन मानते हैं, कोई आकाशकी तरह व्यापक मानते हैं ? कोई एक मानते हैं, कोई जाना मानते हैं, कोई अज्ञानी मानते हैं,

१-रव. स्थित ल०, म० । २ पूर्वोऽह्णश्चयुजे ल० । ३ लक्ष्यं पिना ष०, ग० । ४ प्रीति-मन्तो ल० ।

प्रपच्छ सोऽपि नैतेषु कोऽपि विद्वयस्य लक्षणम् । प्रौढ्योत्पादव्ययात्मासौ गुणो सूक्ष्मः स्वकृत्यसुक ॥ १९४ ॥  
 ज्ञातात्तदेहसंभेयः स्वसंवेद्यः सुखादिभिः । अनादिकर्मसंलब्धः सरन् गतिंचित्तुषे ॥ १९५ ॥  
 कालादिकृत्विसासाद्य भव्यो नष्टाष्टकर्मकः । सम्यक्त्वाद्यष्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणत् ॥ १९६ ॥  
 ऊर्ध्वगमनत्त्वात्स्वभावत्वाजगन्मूर्धनि तिष्ठति । इति जीवस्य सद्भावं जगद जगतां गुरुः ॥ १९७ ॥  
 तन्निश्चयास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे । अमव्या दूरभव्याश्च मिथ्यात्वोदयद्विधाः ॥ १९८ ॥  
 नास्तुञ्च क्वेचनानादिवासनां भववर्धनीम् । देवकी च तथापृच्छद् वरदत्तगणेशिनम् ॥ १९९ ॥  
 भगवन्मदगृहं द्वौ द्वौ भूत्वा भिक्षार्थभागताः । बान्धवेष्विव पट्वेषु स्नेहः किमिति जातवान् ॥ २०० ॥  
 इति सोऽपि कथामित्थं वक्तुं प्रारब्धवान्गणैः । जम्बूजम्बिते द्वीपे क्षेत्रेऽस्मिन्मथुरापुरे ॥ २०१ ॥  
 शौर्यदेशाधिपः शूरसेनो नाम महीपतिः । तत्रैव भानुदत्ताख्यश्रेष्ठिनः सप्त सुनवः ॥ २०२ ॥  
 मातृषां यमुनादत्ता सुमानुः सकलाग्रिमः । भानुकीर्तिस्ततो भानुपेणोऽभूद् भानुशूरवाक् ॥ २०३ ॥  
 पञ्चमः शूरदेवाख्यः शूरदत्तस्ततोऽप्यभूत् । सप्तमः शूरसेनाख्यः पुत्रैस्तेस्तावल्कृत्वा ॥ २०४ ॥  
 स्वपुण्यफलसारेण जग्मतुर्गृहमेविताम् । धर्ममन्थेष्टुरभ्यर्णादाचार्याभयनन्दिनः ॥ १०५ ॥  
 श्रुत्वा नृपो वणिह्मुख्योऽप्यग्रदीप्तं सुसंभमम् । जिनदत्तार्थिकाभ्यर्णं श्रेष्ठिमायां च दीक्षिता ॥ २०६ ॥  
 सप्तव्यसनसंपन्ना जाताः सप्तापि तत्सुताः । पागन्मूलहरा भूत्वा राजा निर्वालिताः पुरात् ॥ २०७ ॥

और कोई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं । इसलिए हे भगवान्, मुझे जीव तत्त्वके प्रति सन्देह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवान्से पूछा । भगवान् उत्तर देने लगे कि जीव तत्त्वके विषयमें अबतक आप लोगोंने जो विकल्प उठाये हैं उनमेंसे इस जीवका एक भी लक्षण नहीं है यह आप निश्चित समझिए । यह जीव उत्पाद व्यय तथा प्रौढ्यसे युक्त है, गुणवान् है, सूक्ष्म है, अपने क्रिये हुए कर्मोंका फल भोगता है, ज्ञाता है, ग्रहण क्रिये शरीरके बराबर है, सुख-दुःख आदिसे इसका संवेदन होता है, अनादि कालसे कर्मबद्ध होकर चारों योनियोंमें भ्रमण कर रहा है । यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका क्षय हो जानेसे सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त कर लेता है और मुक्त होकर चरम शरीरके बराबर हो जाता है । चूँकि इस जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमनका है इसलिए वह तीन लोकके ऊपर विद्यमान रहता है । इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् नेमिनाथने जीवके सद्भावका निरूपण किया ॥ १९१-१९७ ॥ उसे सुनकर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा भगवान्ने कहा था वैसा ही मान लिया परन्तु जो अभव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यात्वके उदयसे दूषित होनेके कारण संसारको बढ़ानेवाली अपनी अनादि वासना नहीं छोड़ सके । तदनन्तर देवकीने वरदत्त गणधरसे पूछा कि हे भगवान् ! मेरे घरपर दो-दो करके छह सुनिराज भिक्षाके लिए आये थे उन छहोंमें मुझे कुटुम्बियों-जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था सो उसका कारण क्या है ? ॥ १९८-२०० ॥

इस प्रकार पूछनेपर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र-सम्बन्धी मथुरा नगरमें शौर्य देशका स्वामी शूरसेन नामका राजा रहता था । उसी नगरमें भानुदत्त सेठके सात पुत्र हुए थे । उनकी माताका नाम यमुनादत्ता था । उन सात पुत्रोंमें सुमानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुशूर, पाँचवाँ शूरदेव, उससे छोटा शूरदत्त, सातवाँ शूरसेन था । इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दोनों ही सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्मके फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचार्य अभयनन्दीसे धर्मका स्वरूप सुनकर राजा शूरसेन और सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संभय धारण कर लिया । इसी प्रकार सेठकी स्त्री यमुनादत्ताने भी जिनदत्ता नामकी आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २०१-२०६ ॥ माता-पिताके चले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोमें आसक्त हो गये । उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राजाने भी

अवन्तिविषयं गत्वा विशालायाः श्मशानके । शूरसेनमवस्थाप्य शोपाश्चोरयितुं पुरम् ॥२०८॥  
 प्राविशान्प्रकृत तस्मिन्निदमन्यवृषस्थितम् । तत्पुराधिपतिर्भूषो बभूव वृषमध्वजः ॥२०९॥  
 भृत्यो दृढप्रहार्याढ्यः स सहस्रभटः पटुः । वप्रश्रीरस्य जायाऽऽसीद् वज्रमुष्टिस्तयोः सुतः ॥२१०॥  
 विमलायाः सुता मङ्गी विमलेन्दुविशश्र सा । तस्मिन् प्रभुसुजा सार्धं वसन्ते वनमन्यदा ॥२११॥  
 विहर्तुंमुद्यताः सर्वे तत्कालसुखलिप्सया । वप्रश्रीः सह मालासिः कार्काहिं कलशोऽक्षिपत् ॥२१२॥  
 स्नुषाभ्यसूयथा कार्यं नाम नास्ति हि योषिताम् । मङ्गी चोद्यानयानार्थं मालादानसमुद्यता ॥२१३॥  
 दृष्ट्वा वसन्तकालोप्रविषेण विपसन्तृणा । विषव्यातशरीरत्वाद्स्पन्दामृदसौ तदा ॥२१४॥  
 पलाकवर्त्या सावेष्टय स्नुषां प्रेतवनेऽत्यञ्जत् । वज्रमुष्टिर्वनक्रं हाविरामेऽभ्येत्य पृष्टवान् ॥२१५॥  
 मङ्गी क्वेत्याकुलो माताप्यसद्गतां न्यवेदयत् । सशोकः ससमुत्खातनिशातकरवालधृत् ॥२१६॥  
 तामन्वेष्टुं व्रजज्जाश्री श्मशाने योगमास्थितम् । वरधर्मसुनि दृष्ट्वा नमस्कृत्या कृताञ्जलिः ॥२१७॥  
 यदि पूज्य प्रियां प्रेक्षे सहस्रदलवारिजैः । त्वं समभ्यर्चयिष्यामीत्याशास्य गतवस्तदा ॥२१८॥  
 वीक्षते स्म प्रियाभीपचेतनां विषदूषिताम् । पलाकवर्तिं सुवत्वाद्यु समानीयान्तिकं मुचेः ॥२१९॥  
 तेन तत्पादसंस्पर्शभेषजेनाविपोकृता । सापि सद्यः ससुस्थाय प्रियस्य प्रीतिमावन्त ॥२२०॥  
 गुरुतीतमनस्यस्मिन्नभोजार्थं गते सति । शूरसेनस्तदा सर्वं तत्कमान्तिर्हितो दुर्मैः ॥२२१॥  
 वीक्ष्य मङ्गयाः परीक्षयार्थं तदभ्यर्णमुपागतः । स्वज्जस्रं दर्शनं कृत्वा मञ्जुराकापचेष्टितैः ॥२२२॥

उन्हें अपने देशसे बाहर निकाल दिया ॥२०७॥ अब वे अवन्तिदेशमें पहुँचे और उज्जयिनी नगरीके श्मशानमें छोटे भाई शूरसेनको बैठाकर बाकी छह भाई चोरी करनेके लिए नगरीमें प्रचिष्ट हुए ॥२०८॥ उन छहों भाइयोंके चले जानेपर उस श्मशानमें एक घटना और घटी जो कि इस प्रकार है—उस समय उज्जयिनीका राजा वृषभध्वज था, उसके एक दृढप्रहार नामका चतुर सहस्रभट योद्धा था, उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था और उन दोनोंके वज्रमुष्टि नामका पुत्र था ॥२०९-२१०॥ उसी नगरमें विमलचन्द्र सेठकी विमला स्त्रीसे उत्पन्न हुई मंगी नामकी पुत्री थी, वह वज्रमुष्टिकी प्रिया हुई थी । किसी एक दिन वसन्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ वनमें जानेके लिए तैयार हुए । मंगी भी जानेके लिए तैयार हुई । उसने मालाके लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी सास वप्रश्रीने बहूकी ईर्ष्यासे एक काला साँप मालाके साथ उस कलशमें पहलेसे ही रख छोड़ा था सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे स्त्रियाँ नहीं कर सकें ॥२११-२१२॥ वसन्त ऋतुके तीव्र विषवाले साँपने उस मंगीको हाथ डालते ही काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमें विष फैल गया और वह उसी समय निश्चेष्ट हो गयी ॥२१३॥ वप्रश्री, बहूको पयालसे लपेटकर श्मशानमें छोड़ आयी । जब वज्रमुष्टि वनक्रीड़ा समाप्त होनेपर लौटकर आया तो उसने आकुल होकर अपनी माँसे पूछा कि मंगी कहाँ है ? माताने कूठमूठ कुछ उत्तर दिया परन्तु उससे वह सन्तुष्ट नहीं हुआ । मंगीके नहीं मिलनेसे वह बहुत दुःखी हुआ और नंगी तीक्ष्ण तलवार लेकर ढूँढनेके लिए रात्रिमें ही चल पड़ा ॥२१४-२१६॥ उस समय श्मशानमें वरधर्म नामके मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे । वज्रमुष्टिने भक्तिसे हाथ जोड़कर उनके दर्शन किये और कहा कि हे पूज्य ! यदि मैं अपनी प्रियाको देख सकूंगा तो सहस्रदलवाले कमलोंसे आपकी पूजा करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमुष्टि आगे गया । आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी-सी चेतना बाकी थी, ऐसी विपसे दूषित अपनी प्रिया देखी । वह शीघ्र ही पयाल हटाकर उसे मुनिराजके समीप ले आया ॥२१७-२१८॥ और मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पर्शरूपी ओषधिसे उसने उसे विषरहित कर लिया । मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द बढ़ाया ॥२२०॥ तदनन्तर गुरुदेवके ऊपर जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा वज्रमुष्टि इधर सहस्रदल कमल लानेके लिए चला गया । उधर वृश्रोसे छिपा हुआ शूरसेन यह सब काम देख रहा था ॥२२१॥ वह मंगीकी परीक्षा करनेके लिए उसके

कीलावकोकनैहसिर्वाधाद्विस्मरणं भृशम् । साप्याह सवता साधंभागमिष्यामि मां भवान् ॥२२३॥  
 - गृहीत्वा यात्विति स्वयत्तं शुक्ला तत्रत्पतेरहम् । भ्रिभेमि तत्र वक्तव्यमिति तेनाभिलाषिता ॥२२४॥  
 मा भैषीस्त्वं वराकोऽसौ किं करिष्यति मीलुकः । ततो येन तवापायो न स्यात् तत् क्रियते मया ॥२२५॥  
 इत्यन्योन्यकथाकाके इस्जानीतसरोरुहः । वज्रमुष्टिः समागत्य करवाले प्रियाकरे ॥२२६॥  
 निधाय मुनिपादाब्जद्वयमभ्यर्च्य मक्तित । आनमत् तं प्रिया तस्य प्रहर्तुमसिमुदये ॥२२७॥  
 करेण शूरसेनोऽहंस्तकराणि तदैव सः । आच्छिद्य न्यपतद् भूमौ शूरसेनकराङ्गुलिम् ॥२२८॥  
 वज्रमुष्टिस्तदाभोक्त्वा मा भैषीरिष्यभाषत । मोताहमिति सा शाठ्याददित्वास्मै वृथोत्तरम् ॥२२९॥  
 तदैव शूरसेनोऽपि भ्रातृभिल्लब्धचित्तकैः । चौरेणार्ङ्ग मवज्रांगं गृहाणेऽप्युदितः पृथक् ॥२३०॥  
 स मरुयोऽतिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनम् । संसारादतिमीलोऽहं तद्ग्रहीष्यामि संयमम् ॥२३१॥  
 इत्यब्रवीदर्थं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदेत्युक्तः स तैश्छिन्नं निजहस्ताङ्गुलिमणम् ॥२३२॥  
 दर्शयित्वाऽनन्तं सर्वमाःममङ्गीविचेष्टितम् । तस्युभानुः समाकर्ण्य स्त्रीनिन्दामकरोदिति ॥२३३॥  
 स्थानं ता एव निन्दायाः परत्रासक्तिमागताः । वर्णमात्रेण राजन्त्वो रजयन्त्योऽपरान् भृशम् ॥२३४॥  
 आदाय कृत्रिमं रागं रागिणो नयनप्रियाः । विन्नवीह भृशं माघारम्याश्चिन्नाकृतीः स्त्रियः ॥२३५॥  
 सुखं विषयजं प्राप्तुं प्राप्तमाभ्युयंसाकिकाः । किंपाकफलमाना वा कात्र हन्युर्मनोरमाः ॥२३६॥  
 मातरः केवलं नैताः प्रजानामेव योषितः । दोषाणामपि दुःशिक्षा दुर्विधा इव दुःखदाः ॥२३७॥

पास आया और उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापूर्ण विलोकनों और हँसी-मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने वश कर लिया। वह शूरसेनसे कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगीकी बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे पतिसे डरता हूँ। इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उत्तरमें मंगीने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है? फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किये देती हूँ ॥२२२-२२५॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर बात-चीत हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लिये वज्रमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगीके हाथमें दे दी और स्वयं वह भक्तिसे मुनिराजके दोनों चरण-कमलोंकी पूजा करनेके लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रियाने उसपर प्रहार करनेके लिए तलवार उठायी परन्तु शूरसेनने उसके हाथसे उसी वक्त तलवार छीन ली। इस कर्मसे शूरसेनके हाथकी अंगुलियाँ कट-कटकर जमीनपर गिर गयीं ॥२२६-२२८॥ यह देखकर वज्रमुष्टिने कहा कि हे प्रिये! डरो मत। इसके उत्तरमें मंगीने झूठमूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गयी थी ॥२२६॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेनके छह भाई चोरीका धन लेकर आ गये और उससे कहने लगे कि हे भाई! तू अपना हिस्सा ले ले ॥२३०॥ परन्तु; वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अतः कहने लगा कि मुझे धनसे प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसारसे बहुत ही डर गया हूँ इसलिए संयम धारण करूँगा ॥२३१॥ उसकी बात सुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप ग्रहण करनेका क्या कारण है? सो कह। इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुई अंगुलियोंका घाव दिखाकर मंगी तथा अपने बीचकी सब चेष्टाएँ कह सुनायीं। उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियोंकी निन्दा करने लगा ॥२३२-२३३॥ कि पर-पुरुषमें आसक्ति-को प्राप्त हुई स्त्रियाँ ही निन्दाका स्थान है। ये वर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं और दूसरे पुरुषोंको अत्यन्त रागयुक्त कर लेती हैं। ये बनाबटी प्रेमसे ही रागी मनुष्योंके नेत्रोंको प्रिय दिखती हैं और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र-विचित्र वेप धारण करती हैं ॥२३४-२३५॥ ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मधुर साधुम होती हैं परन्तु अन्तमें किंपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्त्रियाँ किन्हें नहीं नष्ट कर सकती हैं अर्थात् सभीको नष्ट कर सकती हैं ॥२३६॥ ये स्त्रियाँ केवल अपने पुत्रोंकी

सुदृढः शीतलाः इक्षुणाः प्रायः स्पर्शसुखप्रदाः । सुजङ्गयो वाङ्मनाः प्राणहारिण्यः पापरूपिकाः ॥२३८॥  
 हृन्त्यादन्तान्तसंक्रान्तं विषं विषभृत्वं न वा । सर्वाङ्गं सहजाहार्यं कान्तानां हन्ति संततम् ॥२३९॥  
 परेषां प्राणपर्यन्ताः पापिनामप्यपक्रियाः । हिंसानामिष कान्तानामन्तातोता दृष्याद्विषाम् ॥२४०॥  
 जातिमात्रेण सर्वाश्च योषितो विषमूर्तयः । न ज्ञातमेतस्मात्तिस्रैः कुर्वन्निर्विषकन्यकाः ॥२४१॥  
 कौटिल्यकोटयः क्रौर्यपर्यन्ताः पञ्चपातकाः । नार्यांसनार्या<sup>१</sup> कथं न स्युरस्युद्यत्<sup>२</sup> विचेष्टिताः ॥२४२॥  
 तवो निर्विघ्न संसारात् सानुजः स निजाजितम् । धनं दत्त्वा स्वकान्ताभ्यो वरधर्मात्पदोऽगमत् ॥२४३॥  
 जिनद्रार्थिकाभ्याशो तद्गार्याद्विष तपो ययुः । हेतुरासन्नमन्ययानां को वा न स्यात्तपोऽग्रहे ॥२४४॥  
 सप्तपि काननेऽन्येषु रुज्जयिन्त्या<sup>३</sup> प्रविष्टितान् । वज्रमुष्टिः समासाद्य प्रणश्य विधिपूर्वकम् ॥२४५॥  
 हेतुना केन दीक्षेयं नवतामिष्यसौ जगौ । तेऽपि<sup>४</sup> निर्वर्णयामासुर्दोक्षाहेतुं यथागतम् ॥२४६॥  
 आर्थिकाणां च दीक्षायाः पृष्ठा मज्जयति कारणम् । उपाददे तमभ्यर्णं प्रत्रयमासन्नोषिका ॥२४७॥  
 वरधर्मयतेवज्रमुष्टिः शिष्यत्वमेयिवान् । प्रान्ते संन्यस्य सप्तासंज्ञायश्चिशाः स्वरादिमे ॥२४८॥  
 द्विसागरोपमायुष्कास्ततश्च्युत्वा स्वपुण्यतः । भरते धातकीखण्डे प्राच्यवाकङ्क्रेणिविश्रुते ॥२४९॥  
 नित्यालोकपुरे श्रीमच्छन्द्रं चूलमहोपतेः । ज्यायान्द्वेष्यां मनोहार्यां सूनृश्रित्राङ्गोऽगमवत् ॥२५०॥

हो माताएँ नहीं हैं किन्तु दोषोकी भी माताएँ है और जिस प्रकार बुरी शिक्षासे प्राप्त हुई बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ॥२३७॥ ये स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं, चिकनी हैं और प्रायः स्पर्शका सुख देनेवाली हैं तो भी सर्पिणियोंके समान प्राण हरण करनेवाली तथा पाप रूप हैं ॥२३८॥ साँपोंका विष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी वह किसीको मारता है और किसीको नहीं मारता है किन्तु स्त्रीका विष उसके सर्व शरीरमें रहता है वह उनका सहभावी होनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है ॥२३९॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अवश्य है परन्तु उनके प्राण रहते पर्यन्त ही करते है मरनेके बाद नहीं करते पर दयाके साथ द्वेष रखनेवाली स्त्रियाँ हिंसाके समान मरणोत्तर कालमें भी अपकार करती रहती है ॥२४०॥ जिन नीतिकारोंने अलग-से विषकन्याओंकी रचना की है उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी स्त्रियाँ उत्पत्ति मात्रसे अथवा स्त्रीत्व जाति मात्रसे विषकन्याएँ होती हैं ॥२४१॥ ये स्त्रियाँ कुटिलताकी अन्तिम सीमा हैं, इनकी क्रूरताका पार नहीं है, ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाये रखनेवाले पुरुषके समान दुष्टतापूर्ण रहती हैं फिर ये अनार्य अर्थात् म्लेच्छ क्यों न कही जावें ॥२४२॥ इस प्रकार सुभानुने अपने भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियोंके लिए दे दिया और उन्हीं वरधर्म मुनिराजसे दीक्षा धारण कर ली ॥२४३॥ उनकी स्त्रियोंने भी जिनदत्ता नामक आर्थिकाके समीप तप ले लिया सो ठीक ही है क्योंकि निकट मन्थ जीवोंके तप ग्रहण करनेमें कौन-सा हेतु नहीं हो जाता अर्थात् वे अनायास ही तप ग्रहण कर लेते हैं ॥२४४॥ दूसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरीके उपवनमें पधारे तब वज्रमुष्टिने पास जाकर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ? उन्होंने दीक्षा लेनेका जो यथार्थ कारण था वह बतला दिया । इसी प्रकार वज्रमुष्टिकी स्त्री मंगीने भी उन आर्थिकाओसे दीक्षाका कारण पूछा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्हींके समीप दीक्षा धारण कर ली । वज्रमुष्टि वरधर्म मुनिराजका शिष्य बन गया । सुभानु आदि सातों मुनिराज आयुके अन्तमें संन्यासमरण वर प्रथम स्वर्गमें त्रायक्षिश जातिके देव हुए ॥२४५-२४८॥ वहाँ दो सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहाँसे चयकर, अपने पुण्य प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपमें भरतक्षेत्र-सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जो नित्यालोक नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्रांगद नामका पुत्र हुआ

१ सर्वग ख०, घ० । २ न आर्या अनार्या म्लेच्छा इत्यर्थ । ३-रत्यद्भूत-ल० । ४ निवेदयामासु-ल० । ५ भारते ख०, ग०, घ० । ६ चित्रकूट ग०, ख० ।

हृत्तरेऽपि तयोरेव त्रयस्ते जज्ञिरे यमाः । ध्वजवाहनशब्दान्तगृह्यौ मणिचूलकः ॥२५१॥  
 पुष्पचूलाङ्गयो नन्दनचरो गगनादिकौ । तत्रैव दक्षिणश्रेण्यां नृपो मेघपुराधिपः ॥२५२॥  
 धनंजयोऽस्य सर्वश्रीजाया तस्याः सुताऽभवत् । धनश्रीः श्रीरिवान्धैषा तत्रैवान्यो महीपतिः ॥२५३॥  
 खयातो नन्दपुराधीशो हरिषेधो हरिद्विषाम् । श्रीकान्ताऽस्य प्रिया तस्यां सुतोऽभूद्हरिवाहनः ॥२५४॥  
 धनश्रियोऽयं बन्धेन सैशुनः प्रथितो गुणैः । तत्रैव भरतेऽयोध्यायां स्वर्गवरकर्मणि ॥२५५॥  
 मालां संप्रापयत् प्रीत्या धनश्रीर्हरिवाहनम् । चक्रवास्तदयोध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥२५६॥  
 तस्य प्रीतिकरी देवी तत्सुतुः पापपण्डितः । धनश्रियं सुदत्तोऽलाञ्छित्य हरिवाहनम् ॥२५७॥  
 तन्निर्वेगो चित्रांगदाद्याः सप्तपि संथमम् । भूतानन्दाख्यतीर्थशापादमूले समाश्रयन् ॥२५८॥  
 ते कालान्तेऽभवन् कल्पे सुयं सामानिकाः सुराः । सप्तदध्यायुः स्थितिप्राप्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥२५९॥  
 क्रुज्जालदेशेऽस्मिन् हस्तिनाख्यपुरेऽभवत् । बन्धुमर्त्यां सुतः श्वेतवाहनाख्यवणिपतेः ॥२६०॥  
 शङ्खो नाम धनद्वयोर्वी सुभासुर्धनदः स्वयम् । तत्पुराधिपतेर्गङ्गादेवनामधरेशिनः ॥२६१॥  
 तद्देव्या नन्दयशसः शेषास्ते यमलास्त्रय । गङ्गाख्यो गङ्गादेवश्च शङ्खमित्रश्च नन्दवाक ॥२६२॥  
 सुनन्दो नन्दिषेणश्च जाताः स्निग्धाः परस्परम् । गर्भेऽयस्मिन् महीनाथस्तस्यामासीत्शिल्सुकः ॥२६३॥  
 तद्दौदामीन्यसुत्पन्नपुत्रहेतुकमित्यसौ । न्यदिशद् रेवतीं धात्रीं तदपत्यनिराकृतौ ॥२६४॥  
 तं सा नन्दयशोऽयं च नन्धुमस्यै समर्पयत् । निर्नामिकाख्यां तत्राप्य परेद्यन्न्दने वने ॥२६५॥  
 प्रपद्यन् सहभुञ्जानान् षण्महीशसुतान् समम् । त्वमप्यमीभिस्तद्भवेति शङ्खं ससुदाहृतम् ॥२६६॥

॥२४९-२५०॥ बाकी छह भाइयोंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनोहरी रानीके दो-दो करके तीन बारमें छह पुत्र हुए । गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन और गगनचर ये उनके नाम थे । उसी धातकीखण्डद्वीपके पूर्व भरत क्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मेघपुर नामका नगर है । उसमें धनंजय राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम सर्वश्री था, उन दोनोंके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामें मानो दूसरी लक्ष्मी ही थी । उसी विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीमें एक नन्दपुर नामका नगर है उसमें शत्रुओंके लिए सिंहके समान राजा हरिषेण राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था और उन दोनोंके हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिवाहन नातेमें धनश्रीके भाईका साला था । उसी भरतक्षेत्रके अयोध्यानगरमें धनश्रीका स्वर्गवर हुआ उसमें धनश्रीने बड़े प्रेमसे हरिवाहनके गलेमें वरमाला डाल दी । उसी अयोध्यामें पुष्पदन्त नामका चक्रवर्ती राजा था । उसकी प्रीतिकरी स्त्री थी और उन दोनोंके पापकार्यमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था । सुदत्तने हरिवाहनको मारकर धनश्रीको स्वर्ग ग्रहण कर लिया ॥२५१-२५७॥ यह सब देखकर चित्रांगद आदि सातों भाई विरक्त हो गये और उन्होंने श्रीभूतानन्द तीर्थकरके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया । आयुका अन्त होनेपर वे सब चतुर्थ स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए । वहाँ सात सागरकी उनकी आयु थी । उसके बाद वहाँसे च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके क्रुज्जाल देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेतवाहनके उसकी स्त्री बन्धुमतीसे सुभासुका जीव शंख नामका पुत्र हुआ । वह सुभासु धन-सम्पदांमें स्वर्ग कुवेर था । उसी नगरमें राजा गंगदेव रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था, सुभासुके बाकी छह भाइयोंके जीव उन्हीं दोनोंके दो-दो करतीन बारमें छह पुत्र हुए । गंग, गंगदेव, गंगमित्र, नन्द, सुनन्द और नन्दिषेण ये उनके नाम थे । ये छहों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे । नन्दयशाके जब सातवाँ गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गर्भमें आया बालक ही समझा इसलिए उसने रेवती धायको आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्रको अलग कर दे ॥१५८-२६४॥ रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहन बन्धुमतीके लिए सौप आयी । उसका नाम निर्नामक रखा गया । किसी एक दिन ये सब लोग नन्दनवनमें गये, वहाँपर राजाके छहों पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्नामकसे कहा कि तू भी इनके साथ खा ।

स्थितो भोक्तुमसौ नन्द्यशास्त्रं वीक्ष्य कोपितो । कस्यायमिति पदिनाहंस्तावन्वीयतुः शुचम् ॥२६७॥  
 बाह्नुनिर्नामको राजा कदाचिद् सह वन्दिनुम् । हुमसेनसुनिं याताववधिज्ञानकोचनम् ॥२६८॥  
 अभिवन्द्य ततो धर्मश्रवणानन्तरं पुनः । निर्नामकाय किं नन्द्यक्षाः कुप्यत्यकारणम् ॥२६९॥  
 हृति शङ्कने पृष्ठोऽसौ मुनिरिवमभाषत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥२७०॥  
 अमूर्च्छित्रथो नाम तस्यामृतरसायनः । सूपकारः पलं पक्तुं कुशाकोऽस्मै प्रतुष्टवान् ॥२७१॥  
 अदित द्वादशग्रामान् महीशो मांसलोलुपः । स कदाचित् सुधर्माख्यत्वम्भाशो श्रुतागमः ॥२७२॥  
 श्रद्धाय बोधिमासाद्य राज्यं मेघरथे सुते । नियोज्य संयतो जातः सुतोऽपि श्रावकोऽजनि ॥२७३॥  
 ततः सूपग्रामानेकशेषं समाहरत् । सोऽन्येषुबद्धवैरः सन् सर्वसंभारसंस्कृतम् ॥२७४॥  
 'कोशातकीफलं पवर्षं मुनीन्द्रं तमभोजयत् । ऊर्जयन्तगिरौ सोऽपि तस्मिन्निं गतासुकः ॥२७५॥  
 सम्यगाराध्य संभूतः कल्पातीतेऽपराजिते । जघन्यतद्गतायुः सन्नहमिन्द्रो महद्दिकः ॥२७६॥  
 सूपकारोऽपि कालान्ते तृतीयनरकं गतः । ततो निर्गत्य संसारे सुदुःख सुचिरं भ्रमन् ॥२७७॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मङ्गलाङ्गणे । पलाशकूटग्रामस्य यक्षदत्तगृहेशिनः ॥२७८॥  
 सुतो यक्षादिदत्तायां यक्षनामा बभूव स । तयोर्यक्षिणसंज्ञश्च सूनुरन्योऽन्वजायत ॥२-९॥  
 तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो नाम्ना निरनुकम्पनः । सानुकम्पोऽपरोऽज्ञायि जनैर्थाजुस्त्वारिभिः ॥२८०॥  
 कदाचित् सानुकम्पेन वार्यमाणोऽपि सोऽपर । मार्गस्थितामधसर्पस्य दद्यादुरो वृषोपरि ॥२८१॥

शखके कहनेसे निर्नामक उनके साथ खानेके लिए बैठा ही था कि नन्द्यशा उसे देखकर क्रोध करने लगी और 'यह किसका लडका है' यह कहकर उसे एक लात मार दी । इस प्रकरणसे शख और निर्नामक दोनोंको बहुत शोक हुआ । किसी एक दिन शख और निर्नामक दोनों ही राजाके साथ-साथ अवधिज्ञानी हुमसेन नामक मुनिराजकी वन्दनाके लिए गये । दोनोंने मुनिराजकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया और तदनन्तर शखने मुनिराजसे पूछा कि नन्द्यशा निर्नामकसे अकारण ही क्रोध क्यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे कि सुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है । उसके राजाका नाम चित्ररथ था । चित्ररथके एक अमृतरसायन नामका रसोइया था । वह मांस पकानेमें बहुत ही कुशल था इसलिए मांस-लोभी राजाने सन्तुष्ट होकर उसे बारह गाँव दे दिये थे । एक दिन राजा चित्ररथने सुधर्म नामक मुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥२६५-२७२॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको वैराग्यकी प्राप्ति हो गयी । जिसके फलस्वरूप वह मेघरथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया और राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥२७३॥ तदनन्तर राजा मेघरथने रसोइयाके पास एक ही गाँव वचने दिया, बाकी सब छीन लिये । 'इन मुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खाना छोड़ा है और उनके पुत्रने हमारे गाँव छीने हैं' ऐसा विचार कर वह रसोइया उक्त मुनिराजसे द्वेष रखने लगा । एक दिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार की हुई कढ़वी तुमड़ीका आहार उन मुनिराजके लिए करा दिया । जिससे गिरनार पर्वतपर जाकर उनका प्राणान्त हो गया । वे समाधिभरण कर अपराजित नामक कल्पातीत विमानमें वहाँकी जघन्य आयु पाकर बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक अहमिन्द्र हुए । रसोइया आयुके अन्तमें तीसरे नरक गया और वहाँसे निकलकर अनेक दुःख भोगता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥२७४-२७७॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र-सन्वन्धी मंगलदेशमें पलाशकूट नगरके यक्षदत्त गृहस्थके उसकी यक्षदत्ता नामकी स्त्रीसे यक्ष नामका पुत्र हुआ । कुछ समय बाद उन्हीं यक्षदत्त और यक्षदत्ताके एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ । उन दोनों भाइयोंमें बड़ा भाई अपने कर्मोंके अनुसार निरनुकम्प-निर्दय था इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओंके अनुसार निरनुकम्प कहते थे और छोटा भाई सानुकम्प था-दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे ॥२७८-२८०॥ किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ोंमें बैठकर कहीं जा रहे थे । मार्गमें एक अन्धा



शकटं भाण्डसंपूर्णं बलीवदौद्योजयत् । सर्पस्तन्मर्दितीःकामनिर्जरो विगतासुकः ॥२८१॥  
 'पुरे श्वेतविकानाम्नि वासवस्य महीपतेः । वसुंधर्यां सुता नन्दयशाः समुद्रगच्छत् ॥२८३॥  
 पुनर्निरनुकम्पश्च आत्रा दुःखनिमित्तकम् । त्वयेदं न कर्तव्यमित्युक्तः शममागतः ॥२८४॥  
 स्वायुस्ते समुत्पन्नः सोऽयं निर्नामकाख्यया । ततः पूर्वभवोपात्तपापस्य परिपाकतः ॥२८५॥  
 जायते नन्दयशसः कोपो निर्नामकं प्रति । इति तस्य वचः श्रुत्वा ते निर्वेगपरायणाः ॥२८६॥  
 नरेन्द्रवत्सुता दीक्षां ब्रह्मो निर्नामकोऽप्ययुः । तथा नन्दयशा रेवतीनामादित संयमम् ॥२८७॥  
 सुव्रताख्यायिकाभ्याशो पुत्रस्नेहाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चार्म, वामेव लाभे च वर्धने ॥२८८॥  
 ते निदानं विमूढत्वाद्युभे चाकुरुतां समम् । ततः सर्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथोचितम् ॥२८९॥  
 महाशुके समुत्पन्नाः प्रान्ते सामानिकाः सुराः । षोडशाब्ध्युपमायुष्का दिव्यभोगवशीकृताः ॥२९०॥  
 ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभूद् बलवेषो हकायुधः । मृगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपते ॥२९१॥  
 देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेश्याश्च देवकी । त्वं सा नन्दयशाः स्त्रीत्वमुपगम्य निदानतः ॥२९२॥  
 भद्रिकाख्यपुरे देशे मलयेऽजनि रेवती । सुदृष्टे श्रेष्ठिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठिनी साककाख्यया ॥२९३॥  
 प्राक्कनाः षट्कुमाराश्च यमा भूतास्तत्र त्रयः । तदानीमेव शकस्य निदेशात् कंवतो भयात् ॥२९४॥  
 ते नैगमपिंया नीताः श्रेष्ठिन्या न्वलकाख्या । वर्धिता देवदत्तश्च देवपालोऽनुजस्ततः ॥२९५॥  
 अनौकदत्तश्चानीकपालः शत्रुघ्नश्चकः । जितशत्रुश्च जन्मन्येषां मिर्षित्तिगामिनः ॥२९६॥  
 नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागताः । तत्रया दृष्टास्ततस्तेषु स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥२९७॥

साँप बैठा था । सातुकम्पके रोकनेपर भी दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्धे साँपपर बरतनौसे भरी गाड़ी बैलौंके द्वारा चला दी । उस गाड़ीके भारसे साँप कट गया और अकाम-निर्जरा करता हुआ मर गया ॥२८१-२८२॥ मरकर श्वेतविका नामके नगरमें वहाँके राजा वासवके उसकी रानी वसुंधरासे नन्दयशा नामकी पुत्री हुआ ॥२८३॥ छोटे भाई सातुकम्पने निरनुकम्प नामक अपने बड़े भाईको फिर भी समझाया कि आपको इस प्रकार दूसरोंको दुःख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए । इस प्रकार समझाये जानेपर वह शान्तिको प्राप्त हुआ ॥२८४॥ यही निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निर्नामक हुआ है । पूर्वभवमें उपाज्जन किये हुए पापकर्मके उदयसे ही नन्दयशाका निर्नामकके प्रति क्रोध रहता है । राजा दुमसेनके यह वचन सुनकर राजाके छहों पुत्र, शंख तथा निर्नामक सब विरक्त हुए और सभीने दीक्षा धारण कर ली । इसी प्रकार पुत्रोंके स्नेहसे उत्पन्न हुई इच्छासे रानी नन्दयशा तथा रेवती धायने भी सुव्रता नामक आर्थिकाके समीप संयम धारण कर लिया । किसी एक दिन उन दोनों आर्थिकाओंने मूर्खतावश निदान किया । नन्दयशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेरे पुत्र हों' और रेवतीने निदान किया कि 'मैं इनका पालन करूँ' । तदनन्तर तपश्चर्या कर और अपनी योग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधना कर आयुके अन्तमें वे सब महाशुक्र स्वर्गमें सामा-निक जातिके देव हुए । वहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके वशीभूत रहते थे ॥२८५-२९०॥ वहाँसे च्युत होकर शंखका जीव हलको धारण करनेवाला बलदेव हुआ है और नन्दयशाका जीव मृगावती देशके दशार्णपुर नगरके राजा देवसेनकी रानी धनदेवीसे देवकी नामकी पुत्री पैदा हुई है । निदान-बन्धके कारण ही तू स्त्रीपर्यायको प्राप्त हुई है ॥२९१-२९२॥ रेवतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमें सुदृष्टि सेठकी अलका नामकी सेठानी हुई है । पहलेके छहों पुत्र के जीव दो-दो करके तीन बारमें तेरे छह पुत्र हुए । उसी समय इन्द्रकी आज्ञासे कंसके भयके कारण नैगमपिं देवने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही उन पुत्रोंका पालन किया है । देवदत्त, देवपाल, अनौकदत्त, अनौकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु ये उन छहों पुत्रोंके नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥२९३-२९६॥ ये सब नयी अब-स्थामें ही दीक्षा लेकर भिक्षाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्वजन्मसे चला

स्वयंभूकेशवैदव्यं<sup>१</sup> तपःकाले निरीक्ष्य सः । निर्नामकसुतस्तेऽथ कंसशत्रुरजायत ॥२९८॥  
 त्वं कृतस्ते कृतः कोऽयं संवन्नो निर्निबन्धनः । विधेर्विलसितं चित्रमगम्यं योगिनामपि ॥२९९॥  
 इति वैलंगिकाशेषमभ्यानुग्रहभायुकः । न्यगदङ्गगवानेवं भक्त्यावन्दत देवकी ॥३००॥  
 भयानन्तरमेवैनं सत्यमामापि<sup>२</sup> भाक्तिकी । स्वपूर्वमवसंन्धमप्राक्षीदक्षरावधिम् ॥३०१॥  
 सोऽपि व्यापारयाभास तदमीधनिवेदने । न हेतुः कृतकृत्यानामस्यन्योऽनुग्रहा द्विना ॥३०२॥  
 शीतलाख्यजिनाधोशतीर्थं धर्मं विनद्धपति । मद्रिलाख्यपुराधीशो नाम्ना मेघरथो नृपः ॥३०३॥  
 प्रेथसो तस्य नन्दाख्य भूतिशर्मा द्विजाग्रणी । तस्यासीत् कमला परतो मुण्डशालायनस्तयोः ॥३०४॥  
 तदुजो वेदवेदाङ्गपारगो भोगसक्तधीः । वृथा तपःपरिक्लेशो मूर्खैरेव प्रकल्पितः ॥३०५॥  
 निर्धनैः परलोकार्थं स्वयं साहसशालिभिः । भूसुवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाप्नोते ॥३०६॥  
 इतीत्यादिकुट्टघान्तकुहेतुनिपुणैर्नृपम् । कायक्लेशासह वाक्यैरयथाधर्मवद्बुधत् ॥३०७॥  
 तथा परांश्च दुर्बुद्धीन् बोधयन् जीवितानधौ । भूत्वा सप्तस्वधोभूमिष्वतस्तिर्यक्षु च त्रमात् ॥३०८॥  
 गन्धमादनकुधोर्थं महागन्धवतीनदी । समीपगतमंलङ्कोनामपल्लवां स्वपापलः ॥३०९॥  
 जातो वनेचरः कालसंज्ञः स तु कदाचन । वरधर्मयतिं प्राप्य मन्त्रादिभिर्विद्वृत्तितः ॥३१०॥  
 विजयाधेऽलकापुर्याः पत्युः पुरुबलस्य च । ज्योतिर्मलामिधायाश्च सुतो हरिबलोऽमवत् ॥३११॥

आया स्नेह इनमें उत्पन्न हो गया है ॥२६५॥ पूर्व जन्ममें जो तेरा निर्नामक नामका पुत्र था उसने तपश्चरण करते समय स्वयंभू नारायणका ऐश्वर्य देखकर निदान किया था अतः वह कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुआ है ॥२६८॥ गणधर देव देवकीसे कहते हैं कि 'हे देवकी ! तू कहाँसे आयी ? तेरे ये पुत्र कहाँसे आये ? और बिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध कैसे आ मिला ? इसलिए जान पड़ता है कि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है और योगियोंके द्वारा भी अगम्य है' । इस प्रकार स्वभावसे ही समस्त भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणधर भगवान्ने यह सब कथा कही । कथा सुनकर देवकीने उन्हे बड़ी भक्तिसे बन्दना की ॥२६६-३००॥

तदन्तर—भक्तिके भरी सत्यमामाने भी, अक्षरावधिको धारण करनेवाले गणधर भगवान्से अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पूछा ॥३०१॥ तब गणधर भगवान् भी उसका अभीष्ट कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि कृतकृत्य मनुष्योंका अनुग्रहको छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है ॥३०२॥ वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवान्के तीर्थमें जब धर्मका विच्छेद हुआ तब मद्रिलपुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानीका नाम नन्दा था । उसी समय उस नगरमें भूतिशर्मा नामका एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसकी कमला नामकी स्त्री थी और उन दोनोंके मुण्डशालायन नामका पुत्र था । मुण्डशालायन यद्यपि वेदवेदाङ्गका पारगामी था परन्तु साथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगोमें आसक्त रहती थी इसलिए वह कहा करता था कि तपका क्लेश उठाना व्यर्थ है, जिनके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्योंने ही परलोकके लिए इस तपके ह्येसकी कल्पना की है । वास्तवमें पृथ्वीदान, सुवर्णदान आदिसे ही इष्ट सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार उसने अनेक कुट्टघान्त और कुहेतुओंके वतलानेसे निपुण वाक्योंके द्वारा काय-ह्येसके सहनेमें असमर्थ राजाको मूडमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्योंके लिए भी वह अपने जीवन-भर ऐसा ही उपदेश देता रहा । अन्तमें मरकर वह सातवें नरक गया । वहाँसे निकलकर तिर्यंच हुआ । इस तरह नरक और तिर्यंच गतिमें घूमना रहा ॥३०३-३०८॥ अनुक्रमसे वह गन्धमादन पर्वतसे निकली हुई गन्धवती नदीके समीपवर्ती मंलङ्को नामकी पक्षीमें अपने पापकर्मके उदयसे काल नामका भील हुआ । उस भीलने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास जाकर मधु आदि तीन मकारोंका त्याग किया था । उसके फलस्वरूप वह विजयार्थ पर्वतपर अलकानगरीके राजा पुरबल और उनकी रानी ज्योतिर्मालाके हरिवल नामका पुत्र हुआ । उसने अनन्तवीर्य नामके मुनिराजके पास द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके

१ तपकाले ल० । २ भाषितका ल० । ३ कूटोर्य ल० । कुप्र. पर्वत । ४ भल्लुकि ल० ।

अनन्तवीर्ययत्यन्ते गृहीत्वा द्रव्यसंयमम् । सौधमकल्पे संभूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥३१३॥  
 सुकेतोर्विजयाधार्द्रौ रथनूपुरभूततः । सुता स्वयंप्रनायाश्च सत्यभामा त्वमित्यभूः ॥३१३॥  
 पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तोऽनुनिमित्तादिकुशाख्योऽर्धचक्रिणः ॥३१४॥  
 भविष्यति महादेवीत्याख्यनैमित्तिकोत्तमः । इत्युदीरितमाकर्ण्य सत्यभामाऽतुषत्तराम् ॥३१५॥  
 रुक्मिण्याथ महादेव्या प्रणम्य स्वसवान्तरम् । परिपृष्टः परार्थेहो व्याजहारैति तद्वान् ॥३१६॥  
 दीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे मगधान्तरवृत्तिनि । लक्ष्मीग्रामे द्विजः सोमोऽस्याभूल्लक्ष्मीमतिः प्रिया ॥३१७॥  
 प्रसाधिताङ्गी सान्येद्युर्दर्पणालोकनोद्यता । समाधिगुप्तमालोक्य मुनिं निक्षार्थमागतम् ॥३१८॥  
 प्रत्वेदमलदिग्धाङ्गो दुर्गन्धोऽयमिति क्रुधा । विचिकित्सापरा साधिक्षेपात्युद्गारिणी तदा ॥३१९॥  
 सहस्रोदुम्बराख्येन कुष्ठेन व्यासदेहका । शुनीव तर्ज्यमाना सा जनैः पशुभ्यापितैः ॥३२०॥  
 शून्यगोहेऽतिदुःखेन मृत्वा स्नेहाह्निशशया । गोहेऽस्यैव द्विजत्यामूढं दुर्गन्धश्चिक्कराश्रुकुः ॥३२१॥  
 तस्योपरि सुदुर्धर्वांस्तेन कोपवता वहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो मृतान्धाऽहिरजायत ॥३२२॥  
 तत्रैवास्त्री पुनर्मृत्वा गर्दभोऽभूत् स्वपापतः । सुहृसुहृगृहं गच्छंस्तदैव कुपितैर्द्विजैः ॥३२३॥  
 हतो लङ्कटपाषाणैर्मग्नपादः कृमिग्रणैः । आङ्क. पतितः कूपे दुर्गन्धतो मृत्तिमागतः ॥३२४॥  
 ततोऽन्धाऽहिः समुत्पन्नो मृत्वान्धश्चाथ सूकरः । ग्रामे यो भक्षितो मृत्वा सोऽपि श्मिरतोऽमुतः ॥३२५॥  
 मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे नद्युत्तरणकारिणः । मण्डूक्याश्च सुता जाता पृतिका नाम पापिनी ॥३२६॥

प्रभावसे वह मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से च्युत होकर उसी विजयाधर्ष पर्वतपर रथनूपुर नगरके राजा सुकेतुके उनकी स्वयम्प्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई । एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निमित्तज्ञानीसे पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीने कहा था कि यह अर्धवक्रवर्तीकी महादेवी होगी । इस प्रकार गणधरके द्वारा कहे हुए अपने भव सुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट हुई ॥३०६-३१५॥

अथानन्तर—महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूछे और जिनकी समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐसे गणधर भगवान् कहने लगे ॥३१६॥ कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी मगध देशके अन्तर्गत एक लक्ष्मीग्राम नामका ग्राम है । उसमें सोम नामका एक ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्रीका नाम लक्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राह्मणी, आभूषणादि पहनकर दर्पण देखनेके लिए उद्यत हुई थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आ पहुँचे । 'इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्त है और यह दुर्गन्ध दे रहा है' इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्ष्मीमतिये घृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कहे ॥३१७-३१९॥ मुनि-निन्दाके पापसे उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याप्त हो गया इसलिए वह जहाँ जाती थी वहाँपर लोग उसे कठोर शब्द कहकर कुत्तोंके समान दुतकार कर भगा देते थे ॥३२०॥ वह स्नाने मकानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह रख बड़े दुःखसे मरी और उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्ध युक्त छल्लेंदर हुई ॥३२१॥ वह पूर्व पर्यायके स्नेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दौड़ती थी इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा और बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मरकर उसी ब्राह्मणके घर साँप हुई ॥३२२॥ फिर मरकर अपने पापकर्मके उदयसे वहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोंने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदिसे ऐसा मारा कि उसका पैर टूट गया, घावोंमें कीड़े पड़ गये जिनसे व्याकुल होकर वह कुपमें पड़ गया और दुःखी होकर मर गया ॥३२३-३२४॥ फिर अन्धा साँप हुआ, फिर मरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुअरको गाँवके कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदी पार करानेवाले मत्स्य नामक धीवरकी मण्डूकी नामकी स्त्रीसे पृतिका नामकी पापिनी पुत्री हुई । उत्पन्न होते ही

१ इत्युक्तोऽसी ल० । २ परार्थम्. ग०, ख० । परार्था ईहा यस्यच परार्थेहः । ३ ततो वहिः समुत्पन्नो ल० ।

स्त्रोत्पन्नन्तरं लोकान्तरं यातः पिता ततः । माता च पोषिता मातामह्या सर्वाङ्गुमाखिलैः ॥३२७॥  
 विचिकित्स्या नदीतीरवर्तिनी सा कदाचन । समाधिगुप्तमालोच्य नदीतीरे पुरातनम् ॥३२८॥  
 काललब्ध्या समासाद्य प्रतिमायोगधारिणम् । गृहीतोपशमा योगिद्रेहस्थमशकादिकम् ॥३२९॥  
 अपास्यन्ती प्रयत्नेन निशान्ते योगनिष्ठितौ । उपविष्टस्य पादाब्जमुपाश्रित्योदितं मुनेः ॥३३०॥  
 श्रुत्वा धर्मधियाद्दत्त पर्वोपवसतिं सुधीः । परेषुर्जिनपूजार्थं गच्छन्ती वीक्ष्य सार्थिकाम् ॥३३१॥  
 प्रामात्तरं समं गत्वा तदानीतान्धसा सदा । प्राणसंधारणं कृत्वा कस्मिंश्चिद्भुतो बिले ॥३३२॥  
 उपविष्टा निजाचारं पालयन्ती मयादवात् । सभ्यगन्तात्वार्यिकाख्यानात् स्ववृत्तान्तं सकीतुकात् ॥३३३॥  
 चित्रं नीचकुलोपक्ताप्येवंवृत्तेति सादरम् । पूजानिर्वर्तिकां द्रष्टुं स्वां वात्सल्यादुपागताम् ॥३३४॥  
 अभिधाथाम्ब पापिष्ठां मां त्वं पुण्यवती कुतः । पश्यसीति निजातीतमवान् ज्ञातात्पृथवीश्रवात् ॥३३५॥  
 तस्या व्यावर्णयत्सावि वयस्या स्याः पुरातनी । तयैतद्वद्वृद्धयाथान्मार्गं जैनमघक्षयात् ॥३३६॥  
 प्राग्जन्माङ्गितपापस्य परिपाकाद् विरूपिता । रोगदत्त्वं कुगन्धत्वं निर्धनत्वादिकं च कैः ॥३३७॥  
 न प्राप्यतेऽत्र समारे तत्त्वं भूर्माहिता शुचा । स्वयात्तं व्रतशोकोपवासादिपरजन्मने ॥३३८॥  
 पाथेयं दुर्लभं तस्मान्मा भैषीरुवमतः परम् । इति प्रोत्साहिता सख्या स संन्यस्य समाधिना ॥३३९॥  
 च्युतप्राणायत्नेन्द्रस्य चह्वामाभूदतिश्रिया । पल्यानां पञ्चपञ्चाशत्तं तत्राच्छिन्नलौक्यमाक् ॥३४०॥  
 च्युत्वा ततो विदर्भाद्यविषये कुण्डलाह्वये । पुरे वासवभूभर्तुः श्रीमत्याश्च सुताऽमव ॥३४१॥

उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी इसलिए मातामही (नानी) ने उसका पोषण किया । वह सब प्रकारसे अशुभ थी और सब लोग उससे घृणा करते थे । किसी एक दिन वह नदीके किनारे वैठी थी वहीपर उसे उन समाधिगुप्त मुनिराजके दर्शन हुए जिनकी कि उसने लक्ष्मीमतिपर्यायमें निन्दा की थी । वे मुनि प्रतिमायोगसे अवस्थित थे, पूतिकानी काललब्धि अनुकूल थी इसलिए वह शान्तभावको प्राप्त कर रात्रि-भर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर आदिको दूर हटाती रही । जब प्रातःकालके समय प्रतिमायोग समाप्त कर मुनिराज विराजमान हुए तब वह उनके चरणकमलके समीप जा पहुँची और उनका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनने लगी । धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया । दूसरे दिन वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा (दर्शन) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आर्थिकाके दर्शन हो गये । वह उन्हीं आर्थिकाके साथ दूसरे गाँव तक चली गयी । वहीपर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया । इस तरह वह प्रतिदिन प्रामात्तरसे लाये हुए भोजनसे प्राण रक्षा करती और पापके भयसे अपने आचारकी रक्षा करती हुई किसी पर्वतकी गुफामें रहने लगी । एक दिन एक श्राविका आर्थिकाके पास आयी । आर्थिकाने उससे कहा कि पूतिका नीच कुलमें उत्पन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह आश्चर्यकी बात है । आर्थिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाको बड़ा कौतुक हुआ । जब पूतिका पूजा (दर्शन) कर चुकी तब वह स्नेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी । इसके उत्तरमें पूतिकाने कहा कि हे माता ! मैं तो महापापिनी हूँ, सुझे आप पुण्यवती क्यों कहती है ? यह कह, उसने समाधिगुप्त मुनिराजसे जो अपने पूर्वभव सुने थे वे सब कह सुनाये । वह श्राविका पूतिकाकी पूर्वभवकी सखी थी । पूतिकाके मुखसे यह जानकर उसने कहा कि 'यह जीव पापका भय होनेसे ही जैनमार्ग-जैनधर्मको प्राप्त होता है । इस संसारमें पूर्वभवसे अर्जित पापकर्मके उद्यसे विरूपता, रोगोपना, दुर्गन्धता तथा निर्धनता आदि किन्हीं नहीं प्राप्त होती ? अर्थात् समीको प्राप्त होती है इसलिए तू शोक मत कर, तेरे द्वारा ग्रहण किये हुए व्रतशील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए दुर्लभ पाथेय (संबल) के समान हैं, तू अब भय मत कर !' इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूब उरसाह दिया । तदनन्तर-समाधिमरण कर वह अच्युतेन्द्रकी अतिशय प्यारी देवी हुई । पचपन पल्य तक वह अखण्ड सुखका उपभोग करती रही । वहाँसे च्युत होकर विदर्भ देशके कुण्डलपुर नगरमें राजा वासवकी रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई ॥३२५-३४१॥

रुक्मिण्यथ पुरः कौत्सहालयया भूपतेः सुतः । भेषजस्याभवःमद्र्यां शिशुपालस्त्रिलोचनः ॥३४२॥  
 अमृतपूर्वमेतच्च मनुष्येष्वस्य किं फलम् । इति भूपतिना पृष्टः स्पष्टं नैमित्तिकोऽवदत् ॥३४३॥  
 तृतीयं नयनं यस्य दर्शनादस्य नश्यति । अयं हनिष्यते तेन संशयो 'नेत्यदृष्टवित् ॥३४४॥  
 कदाचिद्भेषजो मद्गी शिशुपालः परेऽपि च । गत्वा द्वारावतीं द्रष्टुं वासुदेवं समुत्सुकाः ॥३४५॥  
 अदृश्यतामगान्नेत्रं जरासन्ध्याखिवीक्षणवात् । तृतीयं शिशुपालस्य विचित्रा द्रव्यशक्तयः ॥३४६॥  
 विज्ञातादेशया मद्र्या तद्विलोक्य हरिर्मिया । ददस्व पूज्य मे पुत्रमिक्षामित्यभ्ययाचत् ॥३४७॥  
 शतापराधपर्यन्तमन्तरेणान्त्र मन्त्रयम् । नास्यास्तीति हरेर्लब्धवरासौ स्वां पुरोमगात् ॥३४८॥  
 विशुद्धमण्डलो नित्यमुच्चन् ध्वस्तद्विषत्तमाः । पद्माह्लादकरस्तोक्षणकरः क्रूरः प्रत पवान् ॥३४९॥  
 प्रच्छाद्य परतेजोसि भून्मृत्यूषंस्थपादकः । शैशवे शिशुपालोऽसौ भासते स्मेव भास्करः ॥३५०॥  
 हरि हरिरिवाक्रम्य विक्रमेणाक्रमेषिणा । राजकण्ठीरवत्वेन सोऽव्वाञ्छद् वर्तितुं स्वयम् ॥३५१॥  
 दर्पिणा अक्षसा विश्वसर्पिणा स्वयुरर्पिणा । शतं तेनापराधानां व्यधायि मधुविद्विषः ॥३५२॥  
 स्वमूर्ध्वीक्रुण्य मूर्धन्यः कृत्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षजमघिन्नित्य लक्ष्मीमाक्षेसुमुच्यते ॥३५३॥

तदनन्तर कोशल नामकी नगरीमें राजा भेषज राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम मद्गी था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामक पुत्र हुआ । मनुष्योंमें तीन नेत्रका होना अभूतपूर्व था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्या फल है ? तब परोक्षकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेसे इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जावेगा यह उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है ॥३४२-३४४॥ किसी एक दिन राजा भेषज, रानी मद्गी, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताके साथ श्रीकृष्णके दर्शन करनेके लिए द्वारावती नगरी गये थे । वहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिशुपालका तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करती हैं ॥३४५-३४६॥ यह देख मद्गीको निमित्तज्ञानकी बात याद आ गयी इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णसे याचना की कि 'हे पूज्य ! मेरे लिए पुत्रमिक्षा दीजिए' ॥३४७॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 'हे अम्ब ! सौ अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है अर्थात् जबतक सौ अपराध नहीं हो जावेंगे तबतक मैं इसे नहीं मारूँगा' इस प्रकार श्रीकृष्णसे वरदान पाकर मद्गी अपने नगरको चली गयी ॥३४८॥ इधर वह शिशुपाल बाल-अवस्थामें ही सूर्यके समान देदीप्यमान होने लगा क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका मण्डल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी विशुद्ध था—विद्वेष रहित था, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित होते ही निरन्तर शत्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात् कमलोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी पद्मा अर्थात् लक्ष्मीको आनन्दित करता था, जिस प्रकार सूर्यकी किरण तीक्ष्ण अर्थात् उष्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीक्ष्ण अर्थात् भारी था, जिस प्रकार सूर्य क्रूर अर्थात् उष्ण होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी क्रूर अर्थात् दुष्ट था, जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान् अर्थात् तेजसे सहित होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान् अर्थात् सेना और कोशसे उपपन्न हुए तेजसे युक्त था और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थोंके तेजको छिपाकर भूभृत् अर्थात् पर्वतके मस्तकपर—शिखरपर अपने पाद अर्थात् किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी अन्य लोगोंके तेजको आच्छादित कर राजाओंके मस्तकपर अपने पाद अर्थात् चरण रखता था । वह आक्रमणकी इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे अपने-आपको सब राजाओंमें श्रेष्ठ समझने लगा और सिंहके समान, श्रीकृष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलानेकी इच्छा करने लगा ॥३४६-३४९॥ इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फैलनेवाले यशसे उपलक्षित और अपनी आयुको समर्पण करनेवाले उस शिशुपालने श्रीकृष्णके सौ अपराध कर डाले ॥३५२॥ वह अपने-आपको ऊँचा—श्रेष्ठ बनाकर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्योंकी

संघः शान्तोऽपि शत्रूणां हन्येवेवाधसंघयः । विजिगीपुस्तमुक्षेर्तुं क्षेपकृञ्च सुसुष्ठुवत् ॥३५५॥  
 एवं प्रयाति काले त्वां शिशुपालाय ते पिता । दातुं समुद्यतः प्रीत्या तच्छ्रुत्वा युद्धकाङ्क्षिणा ॥३५५॥  
 नारदेन हरिः सर्वं तत्कार्यंभवबोधितः । षडङ्गयत्संपन्नो गत्वा हत्वा तस्मजितम् ॥३५६॥  
 आश्राय त्वां महादेवीपट्टवन्धे न्ययोजयत् । श्रुत्वा तद्वचनं तस्याः परितोषः परोऽजनि ॥३५७॥  
 इत्थं वृत्तकामाकर्ण्यं कः करोति जुगुप्सतम् । मत्वा मलीमसालो चेद्यदि दुर्बर्तुर्नोत्थरान् ॥३५८॥  
 अथ जाम्बवती नत्वा मुनिं स्वभवसंततिम् । पृच्छति स्मादरादेवमुवाच भगवानपि ॥३५९॥  
 द्रोपेऽस्मिन्प्राग्विदहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती । वीतशोकपुरं तत्र दमको वैश्यवर्षजः ॥३६०॥  
 परन्ती देवमतिस्तस्य सुतासौहेविला तयोः । दत्तासौ वसुमित्राय विषवाभूदनन्तरम् ॥३६१॥  
 विविण्णा जिनदेवाख्ययतिमेत्याहितप्रता । अगाद्वयन्तरदेवीत्वं मन्द्रे नन्दने वने ॥३६२॥  
 ततश्चतुरशीत्युक्तसहस्राब्दाद्युपश्च्युतौ । विषये पुष्कलावत्यां पुरे विजयनामनि ॥३६३॥  
 मधुपेणाख्यवैश्यस्य बन्धुमत्स्याश्च बन्धुरा । सुता बन्धुयशा नाम बन्धुवान्भूदयोन्मुखी ॥३६४॥  
 जिनदेवमुवा सख्या सहासौ जिनदत्तया । समुगोप्यादिमे कल्पे कुबेरस्याभवत् प्रिया ॥३६५॥  
 ततश्च्युत्वाऽभवत्पुण्डरीकिण्यां वज्रनामधृत् । वैश्यस्य सुप्रभायाश्च सुमतिः सुतसत्तमा ॥३६६॥  
 सा तत्र सुव्रताख्यायिकाहारार्पणपूर्वकम् । रत्नावलीमुपोप्याभूद् ब्रह्मलोकैऽप्यसरोवरा ॥३६७॥  
 चिरात्ततो विनिष्क्रम्य हीपेऽस्मिन् खेचराचले । उद्वहङ्गण्यां पुरे जाम्बवत्याये जाम्बवभूपतेः ॥३६८॥  
 अश्वरूढ जन्मुपेणायौ सती जाम्बवती सुता । सूनुः पवनवेगस्य श्यामलायाश्च काशुकः ॥३६९॥

पक्षसे सहित रहता था और श्रीकृष्णको भी ललकारकर उनकी लक्ष्मी छीननेका उद्यम करता था ॥३५३॥ शान्त हुआ भी शत्रुओंका समूह पापोंके समूहके समान नष्ट कर ही देता है इसलिये विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको मुमुक्षुके समान, शत्रुको नष्ट करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिए ॥३५४॥ गणधर भगवान्, महारानी रुक्मिणीसे कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीचमें तेरा पिता तुझे बड़ी प्रसन्नतासे शिशुपालको देनेके लिए उद्यत हो गया । जब युद्धकी चाह रखनेवाले नारदने यह बात सुनी तो वह श्रीकृष्णको सब समाचार बतला आया । श्रीकृष्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलवान् शिशुपालको मारा और तुझे लेकर महादेवीके पट्टपर नियुक्त किया । गणधर भगवान्के यह वचन सुनकर रुक्मिणीको बड़ा हर्ष हुआ । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणीकी कथा सुनकर दुर्बुद्धिके सिवाय ऐसा कौन मनुष्य होगा जो कि महासुनियोंको मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा ॥३५५-३५८॥  
 अथानन्तर रानी जाम्बवतीने भी बड़े आदरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवान्से अपने पूर्वभव पूछे और गणधर भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जन्मूद्गीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसके वीतशोक नगरमें दमक नामका वैश्य रहता था ॥३५९-३६०॥ उसकी स्त्रीका नाम देवमति था, और उन दोनोंके एक देविला नामकी पुत्री थी । वह पुत्री वसुमित्रके लिए दी गयी थी परन्तु कुछ समय बाद विधवा हो गयी जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिये और आयुके अन्तमें वह मरकर मेरु पर्वतके नन्दवचनमें व्यन्तर देवी हुई ॥३६१-३६२॥ तदनन्तर वहाँकी चौरासी हजार वर्षकी आयु समाप्त होनेपर वह वहाँसे चयकर पुष्कलावती देशके विजयपुर नामक नगरमें मधुपेण वैश्यकी बन्धुमती स्त्रीसे अतिशय सुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हुई । उसका अभ्युदय दिनोदिन बढ़ता ही जाता था । वहाँपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी एक सखी थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें कुबेरकी देवांगना हुई ॥३६३-३६५॥ वहाँसे चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें वज्रनामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्रीके सुमति नामकी उत्तम पुत्री हुई । उसने वहाँ सुव्रता नामकी आर्थिकाके लिए आहार दान देकर रत्नावली नामका उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्वर्गमें श्रेष्ठ अप्सरा हुई । बहुत दिन बाद वहाँसे चयकर इसी जन्मूद्गीपके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमें राजा जाम्बव और रानी जन्मुपेणाके तू जाम्बवती

भक्ष्याः स नमिर्नाम्ना मैथुनोऽग्निथिलेच्छया । ज्योतिर्वनेऽन्यदा स्थित्वा देया जाम्बवती न चेत् ॥३०१॥  
 आच्छिद्याहं प्रहीष्यामीत्यबोचजाम्बवः क्रुधा । खादितुं प्रेषयामास विद्यां माक्षिकलक्षिताम् ॥३०१॥  
 तदा नमिर्कुमारस्य किन्नराख्यपुराधिपः । मातुलो यक्षमाली तामच्छैःसीत् खेचरेश्वरः ॥३०२॥  
 सर्वविद्याच्छिदां श्रुत्वा तज्जाम्बवतनुजवे । बलेनाक्रम्य संप्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥३०३॥  
 पलायंत निजस्थानान्निर्मोहत्वा समातुलः । अनाभोचितकार्याणां किं मुक्त्वाऽन्यत् परामवम् ॥३०४॥  
 नारदस्त्रद्विदित्वाशु रंप्राप्य कमलोदरम् । वर्णयामास जाम्बवतीरूपमत्सुन्दरम् ॥३०५॥  
 इठात् कृष्णस्तदाकर्ण्य हरिष्यामीति तां सतीम् । संनद्धबलसंपत्त्या गत्वा खगनगान्तिके ॥३०६॥  
 निंबिधो मनसाकोच्य ज्ञात्वा तन्कर्मदुष्करम् । उपोष्याधिनन्तथद् रात्रौ केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥३०७॥  
 प्रसाधितत्रिभुण्डोऽपि तत्राभूर खण्डितायति । तद्विषयं खगोन्द्रस्य पुण्यं किमपि तादृशम् ॥३०८॥  
 यक्षिकाख्योऽनुजस्तस्य प्राप्तनस्तपसावसन् । महाशुके तदैत्यैते विद्ये द्वे साधयेति ते ॥३०९॥  
 दत्त्वा तत्साधनोपायमभिधाय गतो दिवम् । स क्षीरसागरं कृत्वा तत्राहिंशयने स्थितः ॥३१०॥  
 साधयामास मासांस्ते चतुरो विधिपूर्वकम् । सिंहाहिवैरिवाहिन्यौ विद्ये हलिहरी गतौ ॥३११॥  
 आरुह्य जाम्बवं युद्धे विजित्वादाथ तत्सुताम् । महादेवीपदे प्रीत्या त्वामकार्षीत् क्षितीडिति ॥३१२॥  
 श्रुतं वचनविशेषेण यद्यप्यस्पष्टतर्कणम् । तद्दृष्टमिव चिरपष्टं सर्वं तस्यास्तदाभवत् ॥३१३॥

नामकी पुत्री हुई । उसी विजयार्थ पर्वतपर पवनवेग तथा श्यामलाका पुत्र नमि रहता था वह रिशतेमें भाईका सात्ता था और तुझे चाहता था । एक दिन वह ज्योतिर्वनमें बैठा था । वहाँ तेरे प्रति तीव्र इच्छा होनेके कारण उसने कहा कि यदि जाम्बवती मुझे नहीं दी जावेगी तो मैं उसे छीनकर ले लूँगा । यह सुनकर तेरे पिता जाम्बवको बड़ा क्रोध आ गया । उसने उसे खानेके लिए माक्षिकलक्षिता नामकी विद्या भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिकुमारका मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था उसने वह विद्या छेद डाली ॥३६६-३७२॥ अपनी सब विद्याओंके छेदो जानेकी बात सुनकर राजा जाम्बवने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा । सेनाके साथ आक्रमण करता हुआ जम्बुकुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह नमि डरकर अपने मामाके साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य बिना विचारके किये जाते हैं उनका फल पराभवके सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥३७३-३७४॥ नारद, यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास आ गया और जाम्बवतीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णन करने लगा । यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा कि मैं उस सतीको इठात् (जबरदस्ती) हरण करूँगा । यह कहकर वे अपनी सेनारूपी सम्पत्तिके साथ चल पड़े और विजयार्थ पर्वतके समीप ठहर गये । बलदेव उनके साथ थे ही । यह कार्य अत्यन्त कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपवासका नियम लिया और रात्रिके समय मनमें विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा । देखो, जिसने तीन खण्ड वश कर लिये ऐसे श्रीकृष्णका भी भविष्य वहाँ खण्डित दिखने लगा परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी श्रीकृष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था ॥३७५-३७८॥ कि जिससे पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ था, आया और कहने लगा कि 'मैं ये दो विद्याएँ देता हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो' इस प्रकार कहकर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेकी विधि बतलाकर वह स्वर्ग चला गया । इधर श्रीकृष्ण क्षीरसागर बनाकर उसमें नागशय्यांपर आरूढ़ हुए और विधिपूर्वक चार माह तक विद्याएँ सिद्ध करते रहे । अन्तमें बलदेवको सिंहावाहिनी और श्रीकृष्णको गरुडवाहिनी विद्या सिद्ध हो गयी । तदनन्तर उन विद्याओंपर आरूढ़ होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बवको जीता और उसकी पुत्री तुझे जाम्बवतीको ले आये । घर आकर उन्होंने तुझे बड़ी प्रीतिके साथ महादेवीके पदपर नियुक्त किया ॥३७९-३८२॥ यद्यपि पूर्व जन्मका वृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी बत्ता/विशेषके मुखसे सुननेके कारण वह सबका सब जाम्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया ॥३८३॥

अथानन्तरमेवैतं सुनीन्द्रं गणनायकम् । सुपीमा भवसंबन्धमात्मनः पृच्छति स्म सा ॥३८४॥  
स्ववाहिराणनालेन बोधयंस्तनमनोऽम्बुजम् । इत्युवाच विनेयानां निनिमित्तैकवानध्वः ॥३८५॥  
धातक्रीगण्डपूर्वाध्यागिविदेहेऽतिविश्रुतः । भोगाङ्गमङ्गिनामिको विषयो मङ्गलावती ॥३८६॥  
रत्नसंचयनामात्रं पुरं तपप्रतिपालकः । विश्वदेवः प्रियास्यासीद्देवी श्रीमत्यनुन्दरी ॥३८७॥  
तमयोध्यापतो युद्धे हतवत्यतिशोकरतः । सा मन्त्रिनिनिषिद्धापि प्रविश्य हुतमोजिनम् ॥३८८॥  
विजयार्थं सुरी भूत्वा न्यन्तरं पचयुतायुषा । जीविस्वा तत्र तस्यान्ते भवे भ्रान्त्वा यथोचितम् ॥३८९॥  
ह्रीपेऽस्मिन् भारते शालिग्रामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोयक्षदेवी जाला सुता सुधीः ॥३९०॥  
कदाचिद् मंसेनास्यमुनिं संश्रिय सद्गता । मासोपवासिने तस्मै दत्त्वा कायस्य सुस्थितिम् ॥३९१॥  
सा कदाचिद् वने रन्तुं गत्वा वर्षमयाद् युताम् । प्रविष्टानगरागोर्णा हरिवर्षं तनुं श्रिताः ॥३९२॥  
निर्दिश्य तद्गगान् भोगान् नागी जाता ततश्च्युता । च्युता ततो विदेहेऽस्मिन् पुष्कलावयुद्योरिति ॥३९३॥  
विषये पुण्डरीकिण्वामशोकायमहोपते । सोमप्रियश्च श्रीकान्ता सुता भूत्वा कदाचन ॥३९४॥  
जिनदत्तायिकोपान्ते दीक्षामादाय सुधना । तरस्यन्ती चिरं घोरसुषोप्य कनकावलीम् ॥३९५॥  
साहेन्द्रे दिविर्जोभूय भुङ्क्त्वा भोगान् दिवौकसाम् । आयुन्ते ततश्च्युत्वा सुज्येष्ठायां सुतामवः ॥३९६॥  
सुराष्ट्रवर्धनायस्य नृपस्य त्वं सुलक्षणम् । हरेर्देवो प्रमोदने वर्षसे वल्लभा सती ॥३९७॥  
स्वमवान्तरसंबन्धमाकथ्यैपाप संमदम् । को न गच्छति संतोषमुत्तरोत्तरवृद्धितः ॥३९८॥  
लक्ष्मणापि मुनिं नत्वा सुभ्रूयुः स्वमवानभूत् । अभाषयैवमेतस्याश्रिकीपुः सोऽप्यनुग्रहम् ॥३९९॥

अथानन्तर—इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर सुसीमा नामकी पट्टरानी अपने पूर्वभर्वाका सम्बन्ध पृच्छने लगी ॥३८४॥ तब शिष्यजनोके अकारण बन्धु गणधर भगवान् अपने वचनरूपी किरणोके समूहसे उसके मनरूपी कमलको प्रफुल्लित करते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥३८५॥ धातक्रीगण्ड द्वीपके पूर्वार्ध भागके पूर्व विदेहमे एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलावती नामका देश है जो प्राणियोंके भोगोपभोगका एक ही साधन है । उसमें रत्नसंचय नामका एक नगर है । उसमे राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभासम्पन्न अनुन्दरी नामकी रानी थी ॥३८६-३८७॥ किसी एक दिन अयोध्याके राजाने राजा विश्वदेवको मार डाला इस-लिए अत्यन्त शोकके कारण मन्त्रियोंके निषेध करनेपर भी वह रानी अग्निमें प्रवेश कर जल मरी । मरकर वह विजयार्थ पर्वतपर दश हजार वर्षकी आयुवाली न्यन्तर देवी हुई । वहाँकी आयु पूर्ण होनेपर वह अपने कर्मोके अनुसार संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर किसी समय इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी शालिग्राममें यक्षकी स्त्री देवसेनाके यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई ॥३८८-३८९॥ किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनिके पास जाकर व्रत ग्रहण किये और एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजको उसने आहार दिया ॥३९०॥ यक्षदेवी किसी दिन क्रीड़ा करनेके लिए वनमे गयी थी । वहाँ अचानक बड़ी वर्षा हुई । उसके भयसे वह एक गुफामें चली गयी वहाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिवर्ष नामक भोग-भूमिमे उत्पन्न हुई । वहाँके भोग भोगकर नागकुमारी हुई । फिर वहाँसे चय कर विदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा अशोक और सोमश्री रानीके श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई । किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आर्थिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे व्रतोंका पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नामका घोर उपवास किया ॥३९१-३९२॥ इन सबके प्रभावसे वह साहेन्द्र स्वर्गमें देवी हुई, वहाँ देवोंके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राजाकी रानी सुज्येष्ठाके अच्छे लक्षणवाली तू पुत्री हुई है और श्रीकृष्णकी पट्टरानी होकर आनन्दसे बढ रही है ॥३९३-३९४॥ इस प्रकार अपने भवान्तरोंका सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी हर्षको प्राप्त हुई सो ठीक ही है क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धिको सुनकर कौन सन्तोषको प्राप्त नहीं होता ? ॥३९५॥

अथानन्तर—सहारानी लक्ष्मणा भी मुनिराजको नमस्कार कर अपने भव सुननेकी इच्छा



इह पूर्वविदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती । तत्रारिष्टपुराधीशो वासवस्य महीपतेः ॥४००॥  
 वसुमत्यामभूत् स्रुतः सुषेणारुथो गुणाङ्गः । केनचिज्जातनिर्वेगो चांसवो निकटेऽग्रहीत् ॥४०१॥  
 दीक्षां सागरसेनस्य तत्प्रिया सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेष्टया ॥४०२॥  
 सृत्वा पुलिन्दी संजाता सान्येद्युर्नन्दिवर्धनम् । मुनिं चारणमाश्रित्य गृहीतोपासकव्रता ॥४०३॥  
 सृत्वा जाताष्टमे कल्पे नर्तकीन्द्रस्य हरिप्रिया । अवतीर्थं ततो द्वीपे भरतेऽस्मिन् खगाचले ॥४०४॥  
 खगेशो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिन । महेन्द्रस्य सुतानुन्द्याश्च नेत्रमनोहरा ॥४०५॥  
 मालान्तकनका सिद्धविद्या खयाते स्वयंवरे । मालया स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम् ॥४०६॥  
 अन्धेष्टः सिद्धकूटस्थगुरुं यमधराङ्गयम् । समुपेत्य समाकर्ण्य स्वभवान्तरसंततिम् ॥४०७॥  
 मुक्तावलीसुगोष्णयासीत्तृतीयेन्द्रमनःप्रिया । नवपत्न्योपमायुष्का कालान्धेऽसौ ततश्च्युता ॥४०८॥  
 सुप्रकारपुराधीशः शम्भराख्यमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुतासीस्त्वं श्रीपद्मध्रुवसेनयोः ॥४०९॥  
 कनीयसी गुणैर्ज्येष्ठा लक्ष्मणा सर्वलक्षणा । तां त्वां पवनवेगाख्यखेचरः कमलोदरम् ॥४१०॥  
 समुपेत्य रथाङ्गेश वायुमार्गस्य निर्मला । लसन्ती चन्द्रलेखेन तव योग्या खगेशिनः ॥४११॥  
 तनया लक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद् सः । तद्वचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानवेति तम् ॥४१२॥  
 प्रेषयामास कंसारिः सोऽपि गत्वाविकम्बितम् । स्वल्पिन्नोरनुमित्या स्वामर्षयामास चक्रिणे ॥४१३॥  
 तेनापि पट्टबन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रुत्वात्मजन्मान्तरावलि सागममुदम् ॥४१४॥  
 गान्धारीगौरीपद्मावतीनां जन्मान्तरावलिम् । शणीन्द्रो वासुदेवेन पृष्टोऽसावित्यभाषत ॥४१५॥

करने लगी और इसका अनुग्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे । इसी जन्मद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है । उसके अरिष्टपुर नगरमें राजा वासव राज्य करता था । उसकी वसुमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके समस्त गुणोंकी खानस्वरूप सुषेण नामका पुत्र था । किसी कारणसे राजा वासवने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेमसे मोहित होनेके कारण गृहवास छोड़नेके लिए समर्थ नहीं हो सकी । इसलिए कुचेष्टासे मरकर मीलनी हुई । एक दिन उसने नन्दिवर्धन नामक चारण मुनिके पास जाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥४१६-४०३॥ मरकर वह आठवें स्वर्गमें इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई । वहाँसे चयकर जन्मद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी अनुन्दरीके नेत्रोंको प्रिय लगनेवाली कनकमाला नामकी पुत्री हुई और सिद्धविद्या नामके स्वयंवरमें माला डालकर उसने हरिवाहनको अपना पति बनाया ॥४०४-४०६॥ किसी एक दिन उसने सिद्धकूटपर विराजमान यमर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोंकी परम्परा सुनी । तदनन्तर मुक्तावली नामका उपवास कर तीसरे स्वर्गकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ नौ कल्पकी उसकी आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँसे चयकर सुप्रकाशनगरके स्वामी राजा शम्बरकी श्रीमती रानीसे पुत्री हुई है । तू भी पद्म और ध्रुवसेनकी छोटी बहन है, गुणोंमें ज्येष्ठ है, सर्व लक्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम है । किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर श्रीकृष्णके समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते ! विद्याधरोंके राजा शम्बरके एक लक्ष्मणा नामकी पुत्री है जो आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोभित है, कामको उद्दीपित करनेवाली है और आपके योग्य है । पवनवेगके वचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो तू ही उसे ले आ' यह कहकर उसे ही भेजा और वह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीकृतिसे तुझे ले आया तथा श्रीकृष्णको समर्पित कर दी ॥४०७-४१३॥ कृष्णने भी महादेवीका पट्ट बाँधकर तुझे इस प्रकार सम्मानित किया है । इस तरह अपने भवान्तरं सुन कर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई ॥४१४॥ तदनन्तर—श्रीकृष्णने गान्धारी, गौरी और पद्मावतीके भवन्तर पूछे । तब गणधरदेव इस

इह जम्बूवति द्वीपे विषयोऽस्ति सुकौशकः । तत्रायोऽप्यापुराधीशो रुद्रनाम्नो मनोरमा ॥४१६॥  
 विनयश्रीरिति ख्याता सिद्धार्थाख्यवनेऽन्यदा । बुद्धार्थमुनये दत्तदाना स्वायुःपरिक्षये ॥४१७॥  
 उदककुरुषु निविष्टभोगा तस्मात् परिच्युता । इन्द्रोश्चन्द्रवती देवी भूत्वातोऽप्यायुषोऽवधौ ॥४१८॥  
 द्वीपेऽत्र खगभृमहंरुपाकृष्टेऽप्यौ खगोक्षिनः । विद्युद्देशस्य सद्देशैः पुरे गगनवल्कले ॥४१९॥  
 सुरपाख्यसुता विद्युद्देशाया मजनिष्ट सा । नित्यालोकपुराधीशे विद्याविक्रमशाकिने ॥४२०॥  
 महेन्द्रविक्रमाथैषा दत्तान्येषु मंरुदगिरिम् । तौ गतौ चैत्य रोहेषु जिनपूजार्थं सुसुकौ ॥४२१॥  
 विनीतचारणास्थेन्दुस्ततं धर्ममिचामृतम् । पोत्वा श्रवणयुग्मेन परां तृप्तिमवापतुः ॥४२२॥  
 तयोर्नरपतिर्दीक्षासादात्तचारणान्तिके । सुमद्रापादमासाद्य सापि संयममाददे ॥४२३॥  
 सौधर्मकपदे देवीत्वमुपगम्योपसंचित । स्वायुःपल्लयोपमप्रान्ते क्रमान्निष्क्रम्य तद्गतैः ॥४२४॥  
 गान्धारीविषये पुष्कळावतीनगरं वितु । नृपत्येऽत्र गिरेर्मैरुमत्स्याश्च तनयाभवत् ॥४२५॥  
 गान्धारीत्वाख्यया ख्याता प्रदातुर्मैथुनाय ताम् । पितुः पापमतिः श्रत्वा प्रारम्भं नाददस्तदा ॥४२६॥  
 सद्यस्तामेत्य त-कर्म न्यगदजगदप्रियः । तदुक्तानन्तरं प्रेमवशा- संनद्धसैन्यकः ॥४२७॥  
 युद्धे मङ्गं विधायेन्द्रशिश्रान्यमहीभुजाम् । आदाय तां महादेवीपट्टश्रैवं स्वया कृत ॥४२८॥  
 अथ गौरीमवं चैवं वदामि शृणु माधव । अस्ति द्वीपेऽत्र विख्यातं पुञ्जागाख्यपुरं पुरु ॥४२९॥  
 पाककस्तस्य हेमामो देवी तस्य यशस्वती । सान्येऽसुश्रारणं दृष्ट्वा यकोधरमुनीश्वरम् ॥४३०॥  
 स्मृतपूर्वमवा राज्ञा पृष्टैवं प्रत्यभाषत । स्वयवं दक्षनोदीप्या स्नापयन्ती (स्नयन्ती) मनोरमम् ॥४३१॥

प्रकार कहने लगे ॥४१५॥ इसी जम्बूद्वीपमें एक-सुकौशल नामका देश है । उसकी अयोध्या नगरीमें रुद्र नामका राजा राज्य करता था और उसकी विनयश्री नामकी मनोहर रानी थी । किसी एक दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक वनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे अपनी आयु पूरी होनेपर उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुई । वहाँके भोगकर च्युत हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रवती नामकी देवी हुई । आयु समाप्त होनेपर वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके विजयार्थ पंचतकी दक्षिण श्रेणीपर गगनवल्कल नगरमें विद्याधारोंके कान्तिमान् राजा विद्युद्देशकी रानी विद्युद्देशाके सुरूपा नामकी पुत्री हुई । वह विद्या और पर-क्रमसे सुशो-भित, नित्यालोकपुरके स्वामी राजा महेन्द्रविक्रमके लिए दोगयी । किसी एक दिन वे दोनों दम्पति चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए उत्सुक होकर सुपेरु पर्वतपर गये ॥४१६-४२१॥ वहाँपर विराजमान किन्हीं चारणशुद्धिधारी मुनिके मुखरूपी चन्द्रमासे झरे हुए अमृतके समान धर्मका दोनों कानोंसे पान कर वे दोनों ही परमवृत्तिको प्राप्त हुए ॥४२२॥ उन दोनोंमेंसे राजा महेन्द्रविक्रमने तो उन्हीं चारण मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली और रानी सुरूपाने सुमद्रा नामक आर्थिकाके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया ॥४२३॥ आयु पूरी कर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई, जब वहाँकी एक पत्न्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहाँसे चयकर गान्धार देशकी पुष्कळावती नगरीके राजा इन्द्रगिरिकी मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है । राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी बूआके लड़केको देना चाहता था, जब यह बात जगत्को अप्रिय पापबुद्धि नारदने सुनी तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी । सुनते ही तू भी प्रेमके वश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ा । युद्धमें राजा इन्द्रगिरि और उसके सहा-यक अन्य राजाओंको पराजित कर इस गान्धारोको ले आया और फिर इसे महादेवीका पट्ट-बन्ध प्रदान कर दिया—पट्टरानी बना लिया ॥४२४-४२८॥ ।

अथानन्तर—गगधर भगवान् कहने लगे कि अब मैं गौरीके भव कहता हूँ सो हे कृष्ण, तू सुन । इसी जम्बूद्वीपमें एक पुञ्जागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है । उसकी रक्षा करनेवाला राजा हेमाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी । किसी एक दिन यशोधर नामके चारण शुद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हो आया । राजाके पूछनेपर वह अपने दाँतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्वभव कहने लगी ॥४२९-४३१॥

धातकीखण्डप्राङ्मन्दरापरस्थविदेहगम् । नाम्नाशोकपुरं तत्र वास्तवयो वणिजां वर ॥४३२॥  
 आनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्दयशःश्रुतिः । दत्त्वा जात्वमिताष्टुक्तिसागराय तनुस्थिः ॥४३३॥  
 आश्रयंपन्नकं प्राप्य तत्पुण्याजीवितावधौ । उद्बद्धकुरुषु संयूय सुक्त्वा तत्र सुखं ततः ॥४३४॥  
 भूत्वा भवनवासोऽन्द्रमर्षेहास्मतीति संमदाव । तत्रः कदाचित् सिद्धार्थवने सागरलंङ्कम् । ४३५॥  
 गुरुमाश्रित्य संभावि गोपवासा भवावधौ । देवी जातादिने वक्ष्ये तत्र निर्वर्तितस्थिति ॥४३६॥  
 द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशास्त्रयो सुमतिश्रेष्ठिनोऽभवत् । सुमद्रायां सुता धार्मिकीति संशब्दिता जनैः ॥ ४३७॥  
 पुनर्जिनमतिक्षान्तिदत्तां जिनगुणादिकाम् । सर्पति साधु निर्माप्य महाशुक्लेऽभवत् सुरी ॥४३८॥  
 विराचतो विनिर्गत्य वीरशोकपुरेशिनः । महोशो मेरुचन्द्रस्य चन्द्रवत्यामजायत ॥४३९॥  
 गौरीति रूपलावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः । विजयाख्यपुराधीशो विभुविजयचन्द्रनः ॥४४०॥  
 वत्सलस्तुभ्यमानीय तामदत्त त्वयापि सा । पट्टे नियोजितेत्याख्यत्ततो हरिरगणमुद्रम् ॥४४१॥  
 ततः पद्मावतीजनमसंयन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदित्यं जनमनोहरम् ॥४४२॥  
 अस्मिन्नेवोच्चिन्याख्यनगरोनायको नृपः । विजयस्तस्य चिह्नान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥  
 विनयश्रीः सुता तस्या हस्तशोर्षपुरेशिनः । हरिपेणस्य देव्यासीदत्त्वा दानमसौ मुदा ॥४४४॥  
 समाधिगुप्तयोगीशो भूत्वा हैमवते चिरम् । सुक्त्वा भोगान् भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५॥  
 पल्योपमायुक्कालान्ते विषये भगवाभिधे । वसतः शालमलिप्रामे पद्मादेवी सुताजनि ॥४४६॥  
 सती विजयदेवस्य देविकायां कदाचन । वरधर्मयतेः सनिधाने सा व्रतमत्रहीत् ॥४४७॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिमकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसमें एक अशोकपुर नामका नगर है । उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था, उसकी स्त्रीके एक आनन्दयशा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । किसी समय आनन्दयशाने अमितसागर मुनिराजके लिए आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह आयु पूर्ण होनेपर उत्तरकुट्टमें उत्पन्न हुई, वहाँके सुख भोगनेके बाद भवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई और वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई हैं । इस प्रकार रानी यशस्वतीने अपने पति राजा हेमाभके लिए बड़े हर्षसे अपने पूर्वभव सुनाये । तदनन्तर, रानी यशस्वती किसी समय सिद्धार्थ नामक वनमें गयी, वहाँ सागरसेन नामक मुनिराजके पास उसने उपवास ग्रहण किये । आयुके अन्तमें मरकर प्रथम स्वर्गमें देवी हुई । तदनन्तर वहाँकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूद्वीपकी कौशास्वी नगरीमें सुमति नामक सेठकी सुमद्रा नामकी स्त्रीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई ॥४३२-४३७॥ यहाँपर उसने जिनमति आर्थिकाके दिष्टे हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके व्रतका अच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर महाशुक्र स्वर्गमें देवी हुई । बहुत समय बाद वहाँसे च्युत होकर वीरशोक-नगरके स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य और कान्ति आदिकी खान यह गौरी नामकी पुत्री हुई है । स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयचन्द्रनने यह लांकर लुभे दी है और तूने भी इसे पट्टरानी बनाया है । इस प्रकार गणधर भगवान्ने गौरीके भवान्तर कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हर्षको प्राप्त हुए ॥४३८-४४३॥

तदनन्तर—गुणोंकी ख.न. गणधर देव, लोगोंका मन हरण करनेवाले पद्मावतीके पूर्व भवोका सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥४४२॥ इसी भरतक्षेत्रकी उच्चयिनी नगरीमें राजा विजय राज्य करता था, उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी । उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी । वह हस्तशोर्षपुरके राजा हरिपेणको दी गयी थी । विनयश्रीने एक बार सपाधिगुप्त मुनिराजके लिए बड़े हर्षसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । चिरकाल तक वहाँके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वह चन्द्रमाकी रोहिणी नामकी देवी हुई । जब एक पल्य प्रमाण वहाँकी आयु समाप्त हुई तब भगवद्देशके शालमलि

अविज्ञातफलाभक्षणं कृच्छ्रेऽपि दृढव्रता । वनेचरैः कदाचित् स ग्रामोऽवस्वन्द्वातिभिः ॥४४८॥  
 त्रिज्ञोपितृकादा पद्मदेवीं सिंहरयाद् भयात् । नीत्वा महाटवीं सर्वे जनाः क्षुत्परिपीडिताः ॥४४९॥  
 विषवज्रोफरान्माशु मक्षयित्वा मृत्तिं ययुः । व्रतभङ्गमयात्तानि सा विहायान्वहेत्त्रिणा ॥४५०॥  
 मृदा हैमवते भूत्वा जीवितान्ते ततश्च्युता । द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सद्यः स्वयंप्रभा ॥४५१॥  
 स्वयंप्रभाख्यदेवस्य ततो निर्गत्य सा पुनः । द्वीपेऽस्मिन् मारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपते ॥४५२॥  
 श्रीधरस्य सुतां भूत्वा श्रीमत्यां सुन्दराकृतिः । विमलश्रीरभूत् पत्नी भद्रिकाख्यपुरेशिनः ॥४५३॥  
 नृपस्य मेघनादस्य समीपितसुखप्रदा । राजा धर्ममुनेस्त्यक्त्वा राज्यं प्रव्रज्य शुद्धधीः ॥४५४॥  
 जातो व्रतवरस्तस्मिन् सहस्रारपत्नी सति । अष्टादशसमुद्राद्युर्नालि मासुरदोषिता ॥४५५॥  
 सापि पद्मावतीकान्ति संप्राप्यादाय संयमम् । आचाम्बुवर्धनामानं समुपोप्यायुषावधौ ॥४५६॥  
 तत्रैव कल्पे देवीत्वं प्रतेष्य निजायुषः । प्रान्तेऽरिष्टपुरार्धेशः श्रीमत्यां तनयाजनि ॥४५७॥  
 हिरण्यवर्णनः पद्मावतीस्येषा स्वयंवरैः । सभाष्य संश्रुतस्नेहा भवन्तं रत्नमालया ॥४५८॥  
 शोकावहा महादेवीपदं प्रापदिति स्फुटम् । तास्तिव्योऽपि स्वजन्मानि श्रुत्वा मुदमयुर्हरेः ॥४५९॥

शार्दूलविक्रीडितम्

ह्युद्यैर्नगनायको गुणनिधिः प्रस्पष्टमृष्टाक्षरैः

साक्षात्कृत्य भवावलीविकसितं व्यावर्णयन्नर्णयम् ।

साध्वाकर्ण्य विरं सुखासुखमयोः<sup>३</sup> स्वेष्टाष्टदेवीकथाः<sup>४</sup>

समुत्तिं स सुरारिरारं<sup>१</sup> सुतारं प्रान्ते प्रवृद्धिप्रदाः ॥४६०॥

गाँधमें रहनेवाले विजयदेवकी देविला स्त्रीसे पद्मदेवी नामकी पतिव्रता पुत्री हुई । उसने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास 'मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं खाउँगी' ऐसा दृढ़ व्रत लिया । किसी एक समय आक्रमण कर धात करनेवाले भीलोंने उस गाँवको लूट लिया । उस समय सब लोग, भीलोंके राजा सिंहरथके डरसे पद्मदेवीको महाअटवीमें ले गये । वहाँ भूखसे पीडित होकर सब लोगोंने विषफल खा लिये जिससे वे शीघ्र ही मर गये परन्तु व्रतभंगके डरसे पद्मदेवीने उन फलोंको छुआ भी नहीं इसलिए वह आहारके बिना ही मरकर हैमवत क्षेत्र नामक भोगभूमिमें उत्पन्न हुई । आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे चयकर स्वयंप्रभद्वीपमें स्वयंप्रभ नामक देवकी स्वयंप्रभा नामकी देवी हुई । वहाँसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके भारतक्षेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें वहाँके राजा श्रीधर और रानी श्रीमतीके सुन्दर शरीरवाली विमलश्री नामकी पुत्री हुई । वह भद्रिलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित सुख देनेवाली रानी हुई थी । किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराजके समीप व्रत धारण कर लिया जिससे वह सहस्रार नामक स्वर्गमें अठारह सागरकी आशुवाला देवैष्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया । इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावती नामक आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आचाम्बुवर्ध नामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह आयुके अन्तमें उसी सहस्रार स्वर्गमें देवी हुई और आयुके अन्तमें वहाँसे स्मृत होकर अरिष्टपुर नगरके स्वामी राजा हिरण्यवर्माकी रानी श्रीमतीके यह पद्मावती नामकी पुत्री है । इसने स्नेहसे युक्त हो स्वयंवरमें रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया और तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद प्राप्त किया । इस प्रकार गणधर भगवानके सुखारविन्दसे अपने-अपने भव सुनकर श्रीकृष्णकी गौरी, गान्धारी और पद्मावती नामकी तीनों रानियों हर्षको प्राप्त हुई ॥४४३-४५६॥ इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने स्पष्ट और सिष्ट अक्षरोंके द्वारा पूर्व भवावलीसे सुरोमित निर्णयका साक्षात् वर्णन कर दिखाया और श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुखद-डुख-भरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमें प्रवृत्ति

१ लीलावहा. ख०, ग०, घ० । २ सा स्वाकर्ण्यं ल० । ३ -मयो ल० । ४ कथाम् ल० । ५ आर प्राप ।

वसन्ततिलका

देव्योऽपि दिव्यवचनं मुनिपुङ्गवस्य

मङ्गावहं बहुमवात्तनिर्जाहसां तत् ।

कृत्वा हृदि प्रमुदिताः पृथुधर्मसारे

धर्मैऽर्हन्तो हिततमे स्वमति प्रतेजुः ॥४६१॥

मालिनी

नहि हितमिह किञ्चिद्धर्ममेकं विहाय

व्यवसितमसुमेद्भयो धिक्विमुरधात्मवृत्तम् ।

हृति विहितवितर्काः सर्वसभ्याश्च धर्मं

समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम् ॥४६२॥

इत्याप्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर-

व्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥७१॥

प्रदान करनेवाले सन्त,षको प्राप्त हुए ॥४६०॥ वे देवियाँ भी अनेक जन्ममें कमाये हुए-अपने पापोंका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवान्के दिव्य वचन हृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुई और सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले अर्हन्त भगवान्के धर्ममें अपनी बुद्धि लगायी ॥४६१॥ 'इस संसारमें एक धर्मको छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियोंका कल्याण करने-वाला नहीं है, धर्मरहित मूर्ख जीवोंका जो चरित्र है उसे धिक्कार है' इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदोंने पापरहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवान्का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया ॥४६२॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके नेमिचरित्र प्रकरणमें भवान्तरोंका वर्णन करनेवाला इहहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥७१॥

## द्विसप्ततितमं पर्व

भयं स्वज्ञातपूर्वं च जगत्त्रयसमावनौ । प्रकाशयितुं कामेन वरुदेवेन धीमता ॥१॥  
 प्रद्युम्नशम्भवोऽभित्सिं वन्धः पृच्छथते स्म सः । वरदत्तगणेन्द्रो नु स्मृद्बुद्धयेत्यमश्रवीत् ॥२॥  
 इं पेटस्मिन् मगधे ३ देतो शालिग्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेवस्य भा५।भृद्शिलाख्यथा ॥३॥  
 अग्निभूतिरभूत् सूनुर्वायुभूतिस्तयोःसु । ताचन्यद्युः पुरे इन्द्रिधधंनारुये मनोहरे ॥४॥  
 ५ नन्दने नन्दिषोषाख्ये वने मुनिमपश्यताम् । नन्दिधधंननामानं ६ मुनिसंघविभूषणम् ॥५॥  
 दुष्टाधुपागतौ इष्टा तौ मुनीन्द्रोऽमवीन्मुनीन् । विसंवदितुमायातावेतौ मिथ्यात्वदूषितौ ॥६॥  
 भवद्भिः कैश्चिदप्याभ्यां न कार्या सः संकथा । एतस्त्रिभन्वनी ७ भूयानुपसर्गो भविष्यति ॥७॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा गुरुशासनकारिण । मौनव्रतेन सर्वेऽपि स्थिता संयमिनस्त्वदा ॥८॥  
 इष्टा तावेत्य सर्वेषां मुकीभूय व्यवस्थितिम् । कृतापहासौ स्वं प्राप्तं गच्छन्तावशितुं गतम् ॥९॥  
 ग्रामान्गरात् समायावं मुनिमालोक्य सत्यकम् । तत्समीपमहंकारप्रेरितातुंगमथ तम् ॥१०॥  
 नास्यासौ नागमो नैव पदार्थो नग्न केवलम् । किं छिद्यनासि वृथोन्मार्गं मूढो दृष्ट्विनाशिमि ॥११॥  
 इत्यप्यक्षिपत्वां सोऽपि त्रिनवक्षत्रविनिर्गतम् । विवक्षितेतरानेकस्वरूपाणस्तसमाश्रयम् ॥१२॥  
 द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं कथयन्तं सहेतुकम् । स्याद्वादमवलम्ब्योच्चैस्त्वल्पगेषुप्रमाणताम् ॥१३॥  
 प्राप्याद्याष्टमगोऽपि तद्दृक्कागमं सुस्थितिम् । निरुप्य वादङ्गण्टिमपनीय दुरात्मनोः ॥१४॥

अथानन्तर—तीनों जगत्की सभाभूमि अर्थात् समवसरणमें अपने पूर्वभव जानकर बुद्धि-  
 मान् वलदेवेने सबको प्रकट करनेके लिए प्रद्युम्नकी उत्पत्तिका सन्बन्ध पृच्छा सो वरदत्त गणधर  
 अनुग्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥१-२॥ इसी जन्मवृद्धीपके मगधदेश सन्बन्धी शालि-  
 ग्राममे रहनेवाले सोमदेव ब्राह्मणकी एक अग्निता नामकी स्त्री थी ॥३॥ उन दोनोंके अग्निभूति  
 और वायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नन्दिधधंन नामके दूसरे सुन्दर  
 गाँवमें गये । वहाँ उन्होंने नन्दिषोष नामके वनमें, मुनि संघके आभूषणस्वरूप नन्दिधधंन  
 नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥४-५॥ उन दोनों दुष्टोंको आया हुआ देख, मुनिराजने संघके  
 अन्य मुनियोंसे कहा कि 'वे दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं और विसंवाद करनेके लिए आये हैं  
 अतः आप लोगोंसे-से कोई भी इनके साथ वातचीत न करें । अन्यथा इस निमित्तसे भारी  
 उपसर्ग होगा' ॥६-७॥ शासन करनेवाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय  
 मौन लेकर बैठ गये ॥८॥ वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियोंको मौनी देखकर उनकी हँसी करते हुए  
 अपने गाँवको जा रहे थे कि उन मुनियोंसे एक सत्यक नामके मुनि आहार करनेके लिए  
 दूसरे गाँवमे गये थे और लौटकर उस समय आ रहे थे । अहाँकारसे प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण  
 उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे और कहने लगे कि 'अरे तंगे ! न तो कोई आप  
 है, न आगम है, और न कोई पदार्थ ही है फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले  
 इस उन्मार्गमें व्यर्थ ही क्लेश उठा रहा है' । इस प्रकार उन दोनोंने उक्त मुनिका बहुत ही तिर-  
 स्कार किया । मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवान्के मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविचक्षित  
 रूपसे अनेक धर्मोका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका हेतु सहित कथन करने-  
 वाले अतिशय उच्छ्रुत स्याद्वादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले आपकी प्रामाणिकता  
 सिद्ध कर दिखायी तथा परोक्ष तत्त्वके विषयमें भी उन्हीं आपके द्वारा कथित आगमकी समी-  
 चीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणोंकी वाद करनेकी खुजली दूर की एवं विद्वज्जनोंके

१ तद्ज्ञान-ल० । २ गणोन्द्रो ल० । ३ नागवे ल० । ४ नन्दान ल० । ५ मुनि संघ ल० । ६ निव-  
 न्वतो ल० । ७ नात् ल० । ८ सुहेतुकम् ल० । ९ संस्थितिम् ल० ।

तयोर्जयध्वजं प्रापद् विद्वज्जनसमर्पितम् । तो मानमङ्गलंभूतक्रोधौ निशि शिवायुधौ ॥१५॥  
 परेषुः पापकर्माणौ विजने शुद्धचेतसम् । प्रतिमायोगमारत्रं सत्यकं मुनिपुङ्गवम् ॥१६॥  
 शखेणाहन्तुसुक्तावन्यायोऽथमिति क्रुवा । द्विजौ सुवर्णयक्षेण स्तम्भितौ कीलिताविव ॥१७॥  
 तदा शरणमायःतास्तन्मातृपितृग्रामध्वजा । मुनीनामाकुकीभूय यक्षस्तानवदत् सुधीः ॥१८॥  
 हिंसाधर्मं परित्यज्य यदि जैनैश्चरं मतम् । मन्वतः स्वीकरिष्यन्ति मवेन्मोक्षोऽनयोरिति ॥१९॥  
 तेषुपि मीतास्त्रया वादं करिष्याम इति द्रुतम् । मुनिं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥२०॥  
 मियैः प्रत्यरघन्त धर्मं श्रावकपाकितम् । ततस्तस्तम्भनापाये सति तैस्तामुदीरितौ ॥२१॥  
 विरन्तव्यमितो धर्माद्स्माद्धेतोरुपासितात् । इति नात्मात्तस्मन्मःगाँचेत्तुः कालकन्धित ॥२२॥  
 तेन संक्रुष्य ते ताभ्यां मृत्वा पापविपाकतः । भ्राम्नाभ्यन् कुगतीर्दीर्घं तौ च ब्राह्मणपुत्रकौ ॥२३॥  
 सन्नतौ जीवितस्यान्ते कल्पे सौधर्मनामनि । पञ्चपत्योपमायुष्कौ जातौ पारिषदाग्रिमौ ॥२४॥  
 तत्रातुभूय सन्नो गान् द्वीपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिंजयो राजा सशौर्थाऽभूदरिंजयः ॥२५॥  
 तयाहंदासवाञ्छेष्टी वप्रश्रीस्तन्मनःप्रिया । अग्निभूतिस्तयोः पूर्णमद्रोऽन्यो माणिमद्रकः ॥२६॥  
 सुतौ समुद्रमूर्तां तावन्त्येषुः स महीपतिः । सिद्धार्थवनमध्यस्थमहेन्द्रगुरुदंनिधिम् ॥ ७॥  
 बहुभिः सह संप्राप्य शुद्ध्वा धर्मं विशुद्धधीः । अरिंदमे समारोप्य राज्यभारं स्रक्षमे ॥२८॥  
 अहंदासादिभिः सार्धं संयमं प्रत्यरघत् । तत्रैव पूर्णमद्रेण प्राक्तनं सद्गुरुद्वयम् ॥२९॥

द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय-पताका छीन ली । मान भंग होनेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीक्ष्ण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले । उस समय शुद्ध चित्तके धारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्रसे मारनेके लिए उद्यत हो गये । यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचारकर सुवर्णयक्षने क्रोधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान स्तम्भित कर दिया—ज्योंका त्यों रोक दिया ॥२-१७॥ यह देखकर उनके माता, पिता, भाई आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंकी शरणमें आये । तब बुद्धिमान् यक्षने कहा कि 'यदि तुम लोग हिंसाधर्मको छोड़कर जैनधर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हो सकता है' ॥१८-१९॥ यक्षको बात सुनकर सब डर गये और कहने लगे कि हम लोग शीघ्र ही ऐसा करेंगे अर्थात् जैनधर्म धारण करेंगे । इतना कहकर उन लोगोंने मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और मूठमूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनसे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिए क्योंकि कारणवश ही इसे धारण कर लिया था । उने पुत्रोंकी कालकन्धि अनुकूल थी अतः वे अपने-द्वारा ग्रहण किये हुए सन्मार्गसे विचलित नहीं हुए ॥२०-२२॥ पुत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-पिता आदि उनसे क्रोध करने लगे और भरकर पापके उदयसे दीर्घकाल तक अनेक कुगतियोंमें भ्रमण करते रहे । उधर उन दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने व्रतसहित जीवन पूरा किया इस लिए भरकर सौधर्म स्वर्गमें पाँच पत्यकी आयुवाले पारिवद जातिके श्रेष्ठ देव हुए ॥२३-२४॥ वहाँपर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भोगे । तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके कोशल देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाला अरिंजय नामका पराक्रमी राजा राज्य करता था । उसी नगरीमें एक अहंदास नामका सेठ रहता था उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था । वे अग्निभूति और वायुभूतिके जीव पाँचवे स्वर्गसे चयकर उन्हीं अहंदास और वप्रश्रीके क्रमशः पूर्णमद्र और मणिभद्र नामके पुत्र हुए । किसी एक दिन राजा अरिंजय, सिद्धार्थ नामक वनमें विराजमान महेन्द्र नामक गुरुके समीप गया । वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि अत्यन्त पवित्र हो गयी और उसने भार धारण करनेमें समर्थ अरिंदम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार रखकर अहंदास आदिके साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय पूर्णमद्र नामक श्रेष्ठपुत्रने

क्वथा वनंत इत्येतत्परिपृष्टो मुनिर्जगौ । जिनधर्मविरुद्धत्वात्कृतपापोऽभवन्मृतः ॥ ३० ॥  
 रत्नप्रभाविने सर्पावर्तनाम्नि ततोऽञ्जनि । साठङ्गः काकत्रद्धाख्यः सोमदेवो भवत्पिता ॥ ३१ ॥  
 माताम्लिका च तस्यैव जायते स्म शुनो गृहे । इहेत्याकर्ण्य तत्प्रोक्तं तेन तौ परिकीर्षितौ ॥ ३२ ॥  
 संप्राप्त्योपशमं मावं संन्यस्य विधिना मृतः । काकजङ्घोऽभवन्नन्दीश्वरद्वीपे निधीश्वरः ॥ ३३ ॥  
 तत्पुरार्धाश्वरिन्दमाख्यमभ्युत्पत्तेः सुता । श्रीमत्याश्च शुनौ सुप्रबुद्धाख्याजायत त्रिया ॥ ३४ ॥  
 संपूर्णयौवनं यान्ती सा स्वयंवरमण्डपम् । यक्षेण बोधिता दीक्षामित्वाप्य प्रियदर्शनाम् ॥ ३५ ॥  
 जीवितान्तेऽभवद् देवी मणिचूलेति रूपिणी । सौधर्माधिपतेः पूर्णमद्रस्तदनुजोऽपि च ॥ ३६ ॥  
 सप्तस्थानमतौ रूपातश्रावकौ तौ दृढव्रतौ । प्रान्ते सामानिकौ देवौ जातौ मौर्धमनामनि ॥ ३७ ॥  
 द्विसागरोपमातीतौ द्वीपेऽत्र कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुरावीशस्थाहंदासमहीपते ॥ ३८ ॥  
 काश्यपायाश्च पुत्रौ तौ मधुक्कीडवनामकौ । समभूतां तयो राजा राजस्वयुचराजते ॥ ३९ ॥  
 विधाय विमलां प्रापद्विजलप्रमदिर्यताम् । कण्ठान्तामलकाख्यस्य पुरस्थेराः कदाचन ॥ ४० ॥  
 रथान्तकनकस्य स्वं समायातस्य सेवितम् । कान्तां कनकमालाख्यं समीक्ष्य मदनासुरः ॥ ४१ ॥  
 स्वीचकारमधुः शोकाद्रथान्तकनकाह्वयः । पार्श्वं द्विजटिसंज्ञस्य तापसव्रतमाददे ॥ ४२ ॥  
 मधुक्कीडवयोरेवं काले गच्छत्यथान्यदा । सम्यगाकर्ण्य सदर्भं मधुविमलवाहनात् ॥ ४३ ॥  
 गहर्णं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंयुत । संधमं समवाप्यान्ते संश्रित्याराधनाविधिम् ॥ ४४ ॥

मुनिराजसे पूछा कि हमारे पूर्वभवके माता-पिता इस समय कहाँपर हैं ? उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेवने जिनधर्मसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः वह मरकर रत्नप्रभा पृथिवीके सर्पावर्त नामके बिलमें नारकी हुआ था और वहाँसे निकलकर अब इसी नगरमें काकजंघ नामका चाण्डाल हुआ है । इसी तरह तेरी माता अग्निहोत्राका जीव मरकर उसी चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है । मुनिराजके वचन सुनकर पूर्णभद्रने उन दोनों जीवोंको सम्बोधा जिससे उपशम भावको प्राप्त होकर दोनोंने विधिपूर्वक संन्यास धारण किया और उसके फलस्वरूप काकजंघ तो नन्दीश्वरद्वीपमें कुबेर नामका व्यन्तर देव हुआ । और कुत्ती उसी नगरके स्वामी अरिन्दम नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हुई ॥२५-३४॥ जब वह पूर्ण यौवनवती होकर स्वयंवर-मण्डपकी ओर जा रही थी तब उसके पूर्वजन्मके पति कुबेर नामक यक्षने उसे समझाया जिससे उसने प्रियदर्शना नामकी आर्थिकाके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली और आयुके अन्तमें वह सौधर्म इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपवती देवी हुई । इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी दृढतासे श्रावककी सातवीं प्रतिमामे व्रत पालन किये और आयुके अन्तमें दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए ॥३५-३६॥ वहाँ उनकी दो सागरकी आयु थी, उसके पूर्ण होनेपर वे इसी जम्बूद्वीपके कुरुजांगल देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अर्हदासकी काश्यपा नामकी रानीसे मधु और क्रीडव नामके पुत्र हुए । किसी एक दिन राजा अर्हदासने मधुको राज्य और क्रीडवको युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनिकी निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हैमरथ ) राजा मधुकी सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था, वहाँ उसकी कनकमाला नामकी स्त्रीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो गया । निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया—अपनी स्त्री बना लिया । इस घटनासे राजा कनकरथको बहुत निर्वेद हुआ जिससे उसने द्विजटि नामक तापसके पास व्रत ले लिये । इधर मधु और क्रीडवका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी एक दिन मधुने विमलवाहन नामक मुनिराजसे अच्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निन्दा की और क्रीडवके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । आयुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधना कर मधु और क्रीडव दोनों ही महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर बड़ा भाई मधुका जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयसे शुभ स्वप्न पूर्वक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो ठीक

१ द्विजादि-म० । जटिल इत्यपि क्वचित् ।



अनुभूत्स महाशुकस्याधिपत्यं सहानुजः । स्वायुरन्ते तत्तद्व्युत्वा स्वांवंशेषुशुभोदयात् ॥ ४५ ॥

सुखमपूर्वकं ज्येष्ठो रुक्मिण्यामभवत्सुतः । दुराचारान्तिं पापं सच्चरित्रेण नश्यति ॥ ४६ ॥

द्वितीयेऽहनि तद्बालं चित्तोप्राप्तं निमि । देवो ज्योतिर्गणे जातो धूमकेतुसमाह्वयः ॥ ४७ ॥

गच्छन्त्यदृच्छया ज्योतिर्नि विहर्तुं वातरंहसा । विमाने स्वे धृते बान्धवैः प्रद्युम्नस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥

चरमाङ्गस्य केनेदं कृतमित्युपयुक्तवान् । विमङ्गादात्मनः शत्रुं ज्ञात्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥

रथान्तकनकस्याय दर्पाद्वारान्ममाहरत् । तत्फलं प्रापथास्थेनमिति वैराग्निना उज्ज्वलन् ॥ ५० ॥

विधाय स महानिद्रामन्तःपुरनिवासिनाम् । तमुद्वृथाब्दमार्गेण दूरं नीत्वा यथाचिरम् ॥ ५१ ॥

अनुभूय महादुःखं कुर्यात्प्राणविमोचनम् । करिण्यामि तथेत्यस्य पुण्येनैवं प्रवोदितः ॥ ५२ ॥

अब्रह्म नभोमागाद्देने खदिरनामनि । शिलायास्तक्षकाल्यायाः क्षिप्त्वाघस्तादुसुं गतः ॥ ५३ ॥

तदैव विजयाधां द्विदक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयेऽमृतवत्याख्ये मेघकूटपुराधिपः ॥ ५४ ॥

कालसंवरविद्याधरेशः काञ्चनमालया । सह जैनीश्वरीर्चाः प्रियया प्राचिन्तिं प्रयान् ॥ ५५ ॥

महाशिलाखिलाङ्गातिचलन वीक्ष्य विस्मयात् । समन्ताद्द्वीक्षमर्माणोऽसौ दृष्ट्वा बालं ज्वलत्प्रथमम् ॥ ५६ ॥

प्रकृतोऽयं न केनापि कोपात्प्राग्जन्मवैरिणा । निक्षिप्तः पापिनाऽसुप्तिन् पश्य बालार्कमास्वरः ॥ ५७ ॥

तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं गृह्णाणामुं मनोरमे । इत्याहोवाच साप्यस्मै यौवराज्यं ददासि चेत् ॥ ५८ ॥

प्रदीप्यामीति तेनापि प्रतिपद्य तथास्त्विति । तत्क्षणगतसौवर्णपत्रेणारचि पट्टकः ॥ ५९ ॥

तौ तं बालं समादाय पुरमाविष्कृतोस्तवम् । प्रविश्य देवदत्ताख्यां व्यधाता विधिपूर्वकम् ॥ ६० ॥

ही है क्योंकि कि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक् चारित्रके द्वारा नष्ट हो जाता है ॥ ३५-४६ ॥

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्चरण कर धूमकेतु नामका ज्योतिषी देव हुआ था । वह बालक प्रद्युम्नके पूर्वभवमें संचित किये हुए तीव्र पापके समान जान पड़ता था । किसी दूसरे दिन वह इच्छानुसार विहार करनेके लिए आकाशमें वायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब उसका विमान चरमशरीरी प्रद्युम्नके ऊपर पहुँचा तब वह ऐसा रुक गया मानो किन्हीं दूसरों-ने उसे पकड़कर रोक लिया हो । यह कार्य किसने किया है ? यह जाननेके लिए जब उसने उपयोग लगाया तब विभंगावधि ज्ञानसे उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पूर्वजन्मका शत्रु है । जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी स्त्रीका अपहरण किया था । अब इसे उसका फल अवश्य ही चखाता हूँ । ऐसा विचार कर वह वैररूपी अग्निसे प्रज्वलित हो उठा ॥ ४७-५० ॥ वह अन्तःपुरमें रहनेवाले लोगोंको महानिद्रासे अचेत कर बालक प्रद्युम्नको उठा लाया और आकाशमार्गसे बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा करूँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोड़ दे-मर जावे । ऐसा विचार कर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ आकाशसे नीचे उतरा और खदिर नामकी अटवीमें तक्षक शिलाके नीचे बालकको रखकर चला गया ॥ ५१-५३ ॥

उसी समय विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके आभूषण स्वरूप मृतवती नामक देशके कालकूट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राजा अपनी कांचनमाला नामकी स्त्रीके साथ जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-५५ ॥ वह उस बड़ी भारी शिलाके समस्त अंगोंको जोरसे हिलता देख आश्चर्यमें पड़ गया । सब ओर देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया । देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि 'यह सामान्य बालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका वैरी पापी जीव क्रोधवश इसे यहाँ रख गया है । हे प्रिये ! देख, यह कैसा बालसूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा है । इसलिए हे सुन्दरी ! यह तेरा ही पुत्र हो, तू इसे ले ले' । इस प्रकार बालकको उठाकर विद्याधरने अपनी स्त्रीसे कहा । विद्याधरीने उत्तर दिया कि 'यदि आप इसे युवराजपद देते हैं तो ले लूँगी' । राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली और रानीके कानमें पड़े हुए सुवर्णके पत्रसे ही उसका पट्टबन्ध कर दिया ॥ ५६-५६ ॥ इस प्रकार राजा कालसंवर

तद्वाकलाकनाकीकाविकासैर्हृष्टचेतसोः । तयोर्गच्छति निर्व्यर्जिं क.ले सुसुखभोगिनोः ॥ ६१ ॥  
 इतः सुतचियोगेन रुक्मिणी शोकवह्निना । दह्यमाना स्थकारोभवह्नीव वनवह्निना ॥ ६२ ॥  
 संपत्तिर्वा चरित्रस्य दयामावविचर्जिता । कार्याकार्यविचारेषु मन्दमन्दैव शोमुषी ॥ ६३ ॥  
 मेघमालेव कालेन निर्गलज्जलसंश्रया । नावभासे रगते प्राणै क सवेत्सुप्रमा तनोः ॥ ६४ ॥  
 तथैव वासुदेवोऽपि तद्वियोगाद्गाच्छुच्यम् । पृथक्करकतायोगे न वज्रपरिताडनम् ॥ ६५ ॥  
 जलाशयस्तृषार्तस्य केकिनो जलदागमः । यथा तथास्य संतृप्यै संनिधिं नारदोऽगमत् ॥ ६६ ॥  
 तं वीक्ष्य बालवृत्तान्त हरिरुक्त्वाम्भयधादिदम् । स्वया केनाप्युपायेन कापि सोऽन्विष्यतामिति ॥ ६७ ॥  
 नारदस्तत्समाकर्ण्य शृणु पूर्वधिदेहजे । नगरे पुण्डरीकिण्यां मया तीर्थकृतो गिरा ॥ ६८ ॥  
 स्वयंप्रमस्य ज्ञातानि चार्ता बालस्य प्रच्छता । भवान्तराणि तद्वृद्धिस्थानं कामो महातपि ॥ ६९ ॥  
 सहयोगो युवाभ्यां च तस्य षोडशवत्सरैः । इत्यसौ वासुदेवं च रुक्मिणीं च यथाश्रुतम् ॥ ७० ॥  
 प्राबोधयत्तयोस्तस्मात्सुरसेनामृलोकयोः । प्रादुर्भावजिनस्यैव प्रमोदः परमोऽभवत् ॥ ७१ ॥  
 क्रमेण कृतपुण्योऽसौ तत्र संपूर्णयौवनः । कदाचिदाज्ञया राज्ञः प्रद्युम्नः सबलो बली ॥ ७२ ॥  
 गत्वा द्विषोऽगिनराजस्य विक्रमदुपरि स्वयम् । निष्प्रताप विधायैव युद्धे क्रिवापर्ययत्पुः ॥ ७३ ॥

और रानी कान्चनमालाने उस बालकको लेकर अनेक उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और बालकका चिधिपूर्वक देवदत्त नाम रखा ॥६०॥ उस बालकके लालन-पालन तथा लीलाके विलासोंसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है और जो सदा उत्तमोत्तम सुखोंका अनुभव करते रहे हैं ऐसे राजा-रानीका समय बिना किसी छलसे व्यतीत होने लगा ॥६१॥

इधर जिस प्रकार दायानलसे गुलाबकी बेल जड़ने लगती है उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण रुक्मिणी शोकाग्निसे जलने लगी ॥६२॥ जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी दयामावसे रहित संपत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकार्यके विचारमें शिथिल बुद्धि सुशोभित नहीं होती और जिस प्रकार काल पत्कर जिसका पानी बरस चुका है ऐसी मेघमाला सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार वह रुक्मिणी भी सुशोभित नहीं हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है ? ॥६३-६४॥ रुक्मिणीकी भाँति श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियोगसे शोकको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि जब वृद्ध और लताका संयोग रहता है तब उन्हें नष्ट करनेके लिए अलग-अलग वज्रपातकी आवश्यकता नहीं रहती ॥६५॥ जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए जलाशयकी मिलना सुखदायक होता है और मयूरके लिए मेघका आना सुखदायी होता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको सुख देनेके लिए नारद उनके पास आया ॥६६॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णने बालकका सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपायसे जहाँ कहीं भी सम्भव हो आप उस बालककी खोज कीजिए ॥६७॥ यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनो 'पूर्वविदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वयम्भ्रम तीर्थकरसे मैंने बालककी बात पछी थी । अपने प्रश्नके उत्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकके पूर्व भव जान लिये है, वह वृद्धिका स्थान है अर्थात् सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा और सोलह वर्ष बाद उसका आप दोनोंके साथ समागम हो जावेगा' । इस प्रकार नारदने जैसा सुना था वैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीको समझा दिया ॥६८-७०॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार नारदके वचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हर्ष उत्पन्न हुआ ॥७१॥

उधर पुण्यात्मा देवदत्त ( प्रद्युम्न ) क्रम-क्रमसे नवयौवनको प्राप्त हुआ । किसी एक समय अतिशय बलवान् प्रद्युम्न पिताकी आज्ञासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अग्निराज शत्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिताको सौप

तदा दशावदानस्य प्रद्युम्नस्य खगाधिपः । परार्ध्यवस्तुदानेन महतीं मानानं व्यधात् ॥ ७४ ॥  
 अवतीर्णमिव स्वर्गाद्यौवनैरुविनूषणम् । भुवं कदाचित्तद्रूपमाहायैश्चातिमास्वरम् ॥ ७५ ॥  
 अवलोक्य स्मराक्रान्तबुद्ध्या काञ्चनमालया । जन्मान्तरागतस्नेहकृतानेकविकाराया ॥ ७६ ॥  
 प्रकाशयन्त्या स्वान्तस्थं भावं पापपरीतया । कुमार तुभ्यं महेयां गृहाण विधिपूर्वकम् ॥ ७७ ॥  
 प्रज्ञप्तिविद्यामि-युक्तस्त्वया मायामयेहया । सोऽपि मातस्तथैवाहं करिष्यामीति<sup>१</sup> संमदात् ॥ ७८ ॥  
 आदाय धीमांस्तां विद्यां सिद्धकूटमुगागमत् । कृत्वा तत्र नमस्कारं चारणौ मुनिपुङ्गवौ ॥ ७९ ॥  
 श्रित्वा श्रत्वा ततो धर्मं ज्ञात्वा विद्याप्रसाधने । हेतुं तदुपदेशेन संजयन्तं समाश्रयत् ॥ ८० ॥  
 आकर्ण्य तत्पुराणं च तदर्थापादसंश्रयात् । विद्यां संपाद्य संजातसंमदं पुरमागमत् ॥ ८१ ॥  
 द्यूा द्विगुणितकारशोभं तं कामकातरा । प्रार्थयन्ती बहूपचैरनिच्छन्तं महामतिम् ॥ ८२ ॥  
 पुरुषव्रतसंपन्नमतिद्वेषाद्बुधवत् । कुमारः सहवासस्य योग्यो नायं कुचेष्टित ॥ ८३ ॥  
 जातारम्यनभिजातत्वमस्येति खराधिपम् । विचारविकलः सोऽपि तदुक्तं तरतीतवान् ॥ ८४ ॥  
 विद्यदंष्ट्रादिकान्पञ्चशतानि तनुजान्मिथः । आहूय देवदत्तोऽयं<sup>२</sup> दौष्टयोपान्जुवभोचितः ॥ ८५ ॥  
 ततः केनाप्युपायेन भवेन्नः क्रियतां व्यसुः । इत्याह खचरावीको<sup>३</sup> कठघाज्ञास्तेऽपि कोपिनः ॥ ८६ ॥  
 स्वयं प्रागपि तं हन्तुं कृतमन्त्राः परस्परम् । तथेति प्रतिपद्यातो नियंयुस्तच्चिद्विर्भवः ॥ ८७ ॥

दिया ॥७२-७३॥ उस समय राजा कालसंवरने, जिसका पराक्रम देख लिया है ऐसे प्रद्युम्नका श्रेष्ठ वस्तुएँ देकर बहुत भारी सम्मान किया ॥७४॥ यौवन ही जिसका आभूषण है, जो स्वर्गसे पृथिवीपर अवतीर्ण हुएके समान ज्ञान पड़ता है, और जो आभूषणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान है ऐसे प्रद्युम्नको देखकर किसी समय राजा कालसंवरको रानी कांचनमालाकी बुद्धिकामसे आक्रान्त हो गयी, वह पूर्वजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगीं, तथा पापसे युक्त हो अपने मनका भाव प्रकट करती हुई कुमारसे कहने लगी कि 'हे कुमार, मैं तेरे लिए प्रज्ञप्ति नामकी विद्या देना चाहती हूँ उसे नू विधिपूर्वक ग्रहण कर' । इस प्रकार मायापूर्ण चेष्टासे युक्त रानीने कहा । बुद्धिमान् प्रद्युम्नने भी 'हे माता ! मैं वैसा ही करूँगा' यह कहकर बड़े हर्षसे उससे वह विद्या ले ली और उसे सिद्ध करनेके लिए सिद्धकूट चैत्यालयकी ओर गमन किया । वहाँ जाकर उसने चारणऋद्धिभारी मुनियोंको नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना और तदनन्तर उनके कहे अनुसार विद्या सिद्ध करनेके लिए संजयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥७५-८०॥ उसने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आश्रयसे विद्या सिद्ध की और तदनन्तर हर्षित होता हुआ वह अपने नगरको लौट आया ॥८१॥ विद्या सिद्ध होनेसे उसके शरीरकी शोभा दूनी हो गयी थी अतः उसे देखकर रानी कांचनमाला कामसे ब़ातर हो उठी । उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारसे प्रार्थना की परन्तु महाबुद्धिमान् कुमारने इच्छा नहीं की । जब उसे इस बातका पता चला कि यह कुमार पुरुषव्रत सम्पन्न है और हमारे सहवासके योग्य नहीं है तब उसने अपने पति कालसंवरसे कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त है अतः जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं है—उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है । विचार रहित कालसंवरने स्त्रीकी बातका विश्वास कर लिया । उसने उसी समय त्रिद्युददंष्ट्र आदि अपने पाँच सौ पुत्रोंको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि 'यह देवदत्त अपनी दुष्टताके कारण एकान्तमें बध करनेके योग्य है अतः आप लोग इसे किसी उपायसे प्राणरहित कर डालिए' । इस प्रकार विद्याधारोंके राजा कालसंवरसे आज्ञा पाकर वे पाँच सौ कुमार अत्यन्त कुपित हो उठे । वे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाकी आज्ञा प्राप्त हो गयी । 'ऐसा ही करूँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और सबके

१ देहविकारया ल० । २ प्रज्ञप्त ल० । ३ म० पुस्तके तु एष हलोकः परिभ्रष्टः । ३ समुदा ल०, घ० । ४ द्युमानु ल० । ५ खचरावीशालम्बा ल० । खचरावीशालम्बा ल०, ग०, घ०, म० । ६ ते हन्तु ग० ।

हिंसाप्रधानशाखाद्वा राज्यद्वा नयवर्जितात् । तपसो वापमार्गस्थाद्दृक्कलत्राद् भ्रुवं क्षतिः ॥८८॥  
 चारुवन्ति शिपरासृज्वीं नयन्ति विपरीतताम् । छाद्यन्ति मतिं दीक्षां क्षियो वा दोषत्रिक्रिया ॥८९॥  
 तदैव तोषो रोषश्च पापिनीनां प्रियान्प्रति । न हेतुस्त्वत्र कोऽप्यन्यो लामालाभद्वयाद्दिना ॥९०॥  
 अकार्यमवशिष्टं यत्तन्नास्तीह कुयोषिताम् । सुक्त्वा पुत्राभिलाषित्वमेतदुपेयता कृतम् ॥९१॥  
 योषित्सु व्रतशीलादिसत्क्रियाश्चाप्यनुवन्ति चेत् । न बुद्धिं ताः स्वपर्यन्तं कथं नाथान्वसरिक्रियाः ॥९२॥  
 अन्मो वाम्भोजपत्रेषु चित्त तासां न केषुचित् । स्थास्तु तिष्ठदपि स्पृष्ट्वाप्यस्पृष्टवदत् पृथक् ॥९३॥  
 सर्वदोषमयो भावो दुर्लक्ष्यः सर्वयोषिताम् । दुःसाध्यश्च महामोहावहोऽसौ सनिपातवत् ॥९४॥  
 कः कं किं क्विं क्वेनेति त्रिचार्यं कार्यं क रिणा । ऐहिकामुष्मिकार्येषु ततोऽयं नैति वद्वनाम् ॥९५॥  
 प्रमाणवचनं किं वा नेति वक्ता परीक्ष्यताम् । त्रिवुषा तस्य वृत्तेन परिज्ञानेन च स्फुटम् ॥९६॥  
 एतस्मिन्संभवेदेतन्न वेति नयवेदिना । तदाचार्यं परीक्ष्यः प्राग्यमुद्दिश्य वचस्स च ॥९७॥  
 किं प्रत्येयमिदं नेति शब्देनार्थेन च ध्रुवम् । उक्तं व्यक्तं परीक्ष्यं तन्ममीक्षापूर्वकारिभिः ॥९८॥  
 भिदा स्नेहेन लोभेन मास्सर्थेण<sup>१</sup> क्लृषा हिया । किमबोधेन बोधेन परेषां प्रेरणेन वा<sup>२</sup> ॥९९॥  
 वक्तव्येत्तन्निमित्तानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एवं प्रवर्तमानोऽयं विद्वान्विद्वत्सु चेष्यते ॥१००॥

सब उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े । यही आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसाप्रधान शास्त्रसे, नीति रहित राज्यसे और मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित हानि होती है उसी प्रकार दुष्ट स्त्रीसे निश्चित ही हानि होती है ॥८२-८८॥ दोषोंके विकारोंसे युक्त स्त्रियों मनुष्यको स्थिर बुद्धिको चंचल बना देती हैं, सीधीको कुटिल बना देती हैं और देदीप्यमान बुद्धिको ढक लेती हैं ॥८९॥ ये पापिनी स्त्रियाँ अपने पतियोंके प्रति उसी समय सन्तुष्ट हो जाती हैं और उसी समय क्रोध करने लगती हैं और इनके ऐसा करनेमें लाभ वा हानि इन दोके सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है ॥९०॥ संसारमें ऐसा कोई कार्य बाकी नहीं जिसे खोटी स्त्रियाँ नहीं कर सकती हो । हाँ, पुत्रके साथ व्यवहारकी इच्छा करना यह एक कार्य बाकी था परन्तु कान्चनमालाने वह भी कर लिया ॥९१॥ जिन किन्हीं स्त्रियोंमें व्रत शील आदि सत्क्रियाएँ रहती हैं वे भी शुद्धिको प्राप्त नहीं होतीं फिर जिनमें सत्क्रियाएँ नहीं हैं वे अपनी अशुद्धताके परम प्रकर्षको क्यों न प्राप्त हो ? ॥९२॥ जिस प्रकार कमलके पत्तोंपर पानी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन स्त्रियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता । वह स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करनेवालेके समान उनसे पृथक् रहता है ॥९३॥ सब स्त्रियोंके सब दोषोंसे भरे भाव दुर्लक्ष्य रहते हैं—कष्टसे जाने जा सकते हैं । ये सन्निपातके समान दुःसाध्य तथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥९४॥ 'कौन किसके प्रति किस कारणसे क्या कहता है !' इस बातका विचार कार्य करनेवाले मनुष्यको अवश्य करना चाहिए । क्योंकि जो इस प्रकार विचार करता है वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कर्मोंमें कभी प्रतारणाको प्राप्त नहीं होता—ठगया नहीं जाता ॥९५॥ 'यह वक्ता प्रामाणिक वचन बोलता है या नहीं' इस बातकी परीक्षा विद्वान् पुरुषको उसके आचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए ॥९६॥ नयोके जाननेवाले मनुष्यको पहले यह देखना चाहिए कि इसमें यह बात सम्भव है भी या नहीं ? इसी प्रकार जिसे लक्ष्य कर वचन कहे जावे पहले उसके आचरणसे उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए । विचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यको शब्द अथवा अर्थके द्वारा कहे हुए पदार्थका 'यह विश्वास करनेके योग्य है अथवा नहीं' इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥९७-९८॥ 'यह जो कह रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सर्यसे कह रहा है, या क्रोधसे कह रहा है, या लज्जासे कह रहा है, या अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा है, और या दूसरोंकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा करनी चाहिए । जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति

सा खोत्वान्नात्रबुधेत दृष्टा कष्टमयं च तत् । शिष्टाशिष्टानुसंश्लिष्टौ शिष्टः संमोसुहीति यत् ॥१०१॥  
 तदैव तं समुत्साह्य विहर्तुं ते वनं गताः । अग्निकुण्ड प्रदर्श्यास्य पतन्त्यस्मिन्नमीरवः ॥१०२॥  
 इत्याहुः सोऽपि तच्छ्रुत्वा न्यपतत्तत्र निर्भयः । विचारयति भीमंश्च न कार्यं दैवचोदितः ॥१०३॥  
 देवैर्वोऽत्र निवासिन्या प्रतिगृह्यामिपूजितः । कनकाम्बरभूषादिदानेनास्माद्विनियंथी ॥१०४॥  
 तस्माद्विस्मयमापन्ना गत्वा तेऽन्यत्र तं पुनः । प्रोत्सङ्ग मेषभूभर्त्रांमर्थं प्रावेत्थयन् खलाः ॥१०५॥  
 पर्वतौ मेघरूपेण पतन्तौ मुजसालिनम् । तन्निरुध्य स्थितं दृष्ट्वा तुष्टा तद्गतदेवता ॥१०६॥  
 तस्मै दिव्ये ददौ रत्नकुण्डले मकराङ्किते । ततो निर्गतवान्भूयस्तन्निरुद्धं दृष्ट्वा द्विशन् विक्रम ॥१०७॥  
 बराहान्नैसाजुप्रमापतन्तं बराहकम् । करणेकेन द्रष्टव्यां घृत्वान्येनास्य मस्तकम् ॥१०८॥  
 प्रहृत्य हेळया तस्यौ तस्यालाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवताग्रस्या रुक्मिणीप्रियसूनुवे ॥१०९॥  
 शङ्ख विजयवीषाख्य महाजात्रमपि द्वयम् । ददाति स्म सद्युण्यानां क्व वा लाभो न जायते ॥११०॥  
 तथा कालगुहायां च महाकालाख्यराक्षसात् । वृषभाख्यं रथं रत्नकवचं चाप निर्जितात् ॥१११॥  
 विद्याधरेण केनापि खचरः कौऽपि कीलितः । तरुद्वये स कामस्यं दृष्टिशोचरमापतत् ॥११२॥  
 असह्यवेदनातस्य खेटकस्य च वीक्षणात् । इङ्गितज्ञो हरः पुत्रोऽङ्गुलिकी<sup>१</sup> बन्धमोचनीम् ॥११३॥  
 खेटकस्यां समादाय समभ्यज्य विक्रोचने । कृतोपकारं संप्रापत्तस्माद्विद्याधरं महत् ॥११४॥

करता है वह विद्वानोंमें भी विद्वान् माना जाता है ॥६६-१००॥ 'अच्छी और बुरी आज्ञा देनेमें जो शिष्ट (उत्तम) पुरुष भी भूल कर जाते हैं वह बड़े कष्टकी बात है' यह बात तुष्टा स्त्री अपने खोस्वभावके कारण नहीं समझ पाती है ॥१०१॥

अथानन्तर - विद्युद्दंष्ट्र आदि पाँच सौ राजकुमार प्रद्युम्नको उत्साहित कर उसी समय विहार करनेके लिए वनकी ओर चल दिये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रद्युम्नके लिए अग्निकुण्ड दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भय कहलाते हैं । उनकी बात सुनकर प्रद्युम्न निर्भय हो उस अग्निकुण्डमें कूद पड़ा । सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यसे प्रेरित हुआ बुद्धिमान् मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ॥१०२-१०३॥ उस कुण्डमें कूदते ही वहाँकी रहनेवाली देवीने उसकी अगवान्नी की तथा सुवर्णमय वस्त्र और आभूषणादि देकर उसकी पूजा की । इस तरह देवोके द्वारा पूजित होकर प्रद्युम्न उस कुण्डसे बाहर निकल आया ॥१०४॥ इस घटनासे उन सबको आश्चर्य हुआ । तदनन्तर वे दुष्ट उसे उत्साहित कर फिर ले चले और मेषके आकारके दो पर्वतोंके बीचमें उसे घुसा दिया ॥१०५॥ वहाँ दो पर्वत मेषका आकार रख दोनों ओरसे उसपर गिरने लगे तब भुजाओंसे सुशोभित प्रद्युम्न उन दोनों पर्वतोंको रोककर खड़ा हो गया । यह देख वहाँ रहनेवाली देवीने सन्तुष्ट होकर उसे मकरके चिह्नसे चिह्नित रत्नमयी दो दिव्य कुण्डल दिये । वहाँसे निकलकर प्रद्युम्न, भाइयोंके आदेशानुसार बराह पर्वतकी गुफामें घुसा । वहाँ एक बराह नामका भयंकर देव आया तो प्रद्युम्नने एक हाथसे उसकी दाढ़ पकड़ ली और दूसरे हाथसे उसका मस्तक ठोकना शुरू किया इस तरह वह दोनों जवड़ोंके बीचमें लीलापूर्वक खड़ा हो गया । रुक्मिणीके पुत्र प्रद्युम्नकी चेष्टा देखकर वहाँ रहनेवाली देवीने उसे विजयधोप नामका शंख और महाजाल वे दो वस्तुएँ दीं । सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंको कहीं लाभ नहीं होता है ? ॥१०६-११०॥

इसी तरह उसने काल नामक गुफामें जाकर महाकाल नामक राक्षसको जीता और उससे वृषभ नामकारथ तथा रत्नमय कवच प्राप्त किया ॥१११॥ आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी विद्याधरको दो वृक्षोंके बीचमें कीलित कर दिया था वह प्रद्युम्नको दिखाई दिया, वह कीलित हुआ विद्याधर असह्य वेदनासे दुःखी हो रहा था । यद्यपि उसके पास बन्धनसे ढुङ्गानेवाली गुटिका थी परन्तु कीलित होनेके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था । उसे देखते ही प्रद्युम्न उसके

१ 'इष्टशिष्टानुसंश्लिष्टाशिष्ट' ल० । इष्टं शिष्टानुसंश्लिष्टौ शिष्टं म० । इष्टशिष्टानुसंश्लिष्टाशिष्टिः ल० । ग० पुस्तके ऋटितोऽय दलोकं । २ प्रद्युम्नस्य । ३ गुटिका म०, ख० । गुलिका ग०, घ० । ४ कृतोपकारसंप्रापत्-ल० ।

सुरेन्द्रजालं जालान्तनरैर्नमं प्रस्तरं च सः । पुनः सहस्रवक्त्राहिभवनं शङ्खधरणात् ॥ ११५ ॥  
 विद्यानिर्गत्य नागश्च नागी च मकरध्वजम् । चित्रवर्णं धनुर्नन्दकाख्यासिं कामरूपिणीम् ॥ ११६ ॥  
 मुद्रिकां च प्रसन्नौ तौ समं तस्मै वितेरतुः । कल्पनेन कपिरथाङ्घ्रिस्त्रयासं पादुकद्वयम् ॥ ११७ ॥  
 तेनानर्थं नमोयाधि<sup>३</sup> देवतायास्तदाश्रिते<sup>३</sup> । सुवर्णकङ्कभे पञ्चफणाहिपतिनार्पिताम् ॥ ११८ ॥  
 तर्पणस्तापनो मोहनामिधानो<sup>३</sup> विलापन । मारणश्चेति पञ्चैतान् शरान् संप्राप्य पुण्यभाक् ॥ ११९ ॥  
 मौक्तिकौषधिमालां च छत्रं चामरयुग्मकम् । दत्तं क्षीरवने मर्कटैनास्मै परितोषिणा ॥ १२० ॥  
 स<sup>४</sup> कदम्बमुखीवाण्यां नागराशमवाप्तवान् । अस्थं वृद्धैरसोढारः सर्वै तं खगसुनवः ॥ १२१ ॥  
 यः पातालमुखीवाण्यां पतेत्स सकलेश्वरः । भवेदित्यवदन्कामोऽप्यवगम्य तदिद्वितम् ॥ १२२ ॥  
 प्रज्ञप्तिं निजरूपेण तस्यां वाण्यामपीपतत् । स्वयं पार्श्वे तिरोधाय स्वरूपं नयविरस्थिनः ॥ १२३ ॥  
 महाशिलाभिरैतैः सर्वैर्दिव्यै<sup>३</sup> वधमारमनः । विदित्वा कोपसंतप्तो विद्युद्बद्धादिविद्विष ॥ १२४ ॥  
 गार्हं पाशेन बध्नाचो मुक्तान् प्रक्षिप्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानं च प्रहित्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥  
 ज्योतिष्प्रभं कनौषासं तेषाम्ब्रह्म शिलां स्थितः । पापिनो हि स्वपापेन प्रामुञ्चित परामवम् ॥ १२६ ॥  
 क्षयात्र नारदं कामचारिणं<sup>३</sup> नभसस्तलात् । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिसूनुरकोकत ॥ १२७ ॥  
 यथाविधि प्रतीक्ष्यैनमभ्युत्थानपुरस्सरम् । कृतसंभाषणरतेन प्रणौतात्मप्रदञ्चक ॥ १२८ ॥

पास गया और उसके संकेतको समझ गया । उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी आँखोंपर फेरा और उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया । इस तरह उपकार करनेवाले प्रद्युम्नने उस विद्याधरसे सुरेन्द्र जाल, नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्त कीं । तदनन्तर— वह प्रद्युम्न, सहस्रवक्त्र नामक नागकुमारके भवनमें गया । वहाँ उसने शंख बजाया जिससे नाग और नागी दोनों ही बिलसे बाहर आये और प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह्नसे चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, नन्दक नामका खड्ग और कामरूपिणी नामकी अँगूठी दी । वहाँसे चलकर उसने एक कैथका वृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे आकाशमें चलनेवाली दो अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त कीं ॥१२-१३॥ वहाँसे चलकर सुवर्णाञ्जन नामक वृक्षके नीचे पहुँचा और वहाँ पाँच फणवाले नागराजके द्वारा दिये हुए तपन तापन, मोदन, विलापन और मारण नामके पाँच बाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए ॥१४-१६॥ तदनन्तर वह क्षीरवनमें गया । वहाँ सन्तुष्ट हुए मर्कट देवने उसे मुकुट, औषधिमाला, छत्र और दो चमर प्रदान किये ॥१२०॥ इसके बाद वह कदम्बमुखी नामकी, वावड़ीमें गया और वहाँके देवसे एक नागपाश प्राप्त किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिको नहीं सहनेवाले सब विद्याधरपुत्र इसे पातालमुखी बाधड़ीमें ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कूदता है वह सबका राजा होता है । नीतिका जाननेवाला प्रद्युम्न उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसने प्रज्ञप्ति विद्याको अपना रूप बनाकर बावड़ीमें डुबा दिया और स्वयं अपने-आपको छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ॥१२-१२३॥ जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी-बड़ी शिलाओंके द्वारा मुझे मारना चाहते थे तब वह क्रोधसे सन्तप्त हो उठा, उसने उसी समय विद्युद्दंष्ट्रा आदि शत्रुओंको नागपाशसे मजबूतीके साथ बाँधकर तथा नीचेकी ओर मुख कर उसी वावड़ीमें लटक दिया और ऊपरसे एक शिला ढक दी । उन सब भाइयोंमें ज्योतिप्रभ सबसे छोटा था प्रद्युम्नने उसे समाचार देनेके लिए नगरकी ओर भेज दिया और स्वयं वह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे परामर्षको प्राप्त करते ही है ॥१२४- २६॥

अथानन्तर—प्रद्युम्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाले नारदजी आकाश-स्थलसे अपनी ओर आ रहे हैं ॥१२७॥ वह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया । उसने विधिपूर्वक उनकी पूजा की, उनके साथ बातचीत की तथा नारदने उसका सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर प्रद्युम्न बहुत

१-गामि ल० । २ तदाश्रित. ल० । तप.धिय इत्यपि क्वचित् । ३ विलोपन ल०, ग०, घ० । ४ कदम्बकमुखी ल० । ५ वववात्मन ल० । ६ नभसः स्थलात् इत्यपि क्वचित् ।

सम्यक्श्रद्धाय तत्सर्वं प्रहृष्टोऽरिवलागमम् । दृष्ट्वाऽऽस्त-विस्मितस्तावद्वलं तं खेचरोशितुः ॥ १२९ ॥  
 - सहसावेष्टतेवार्कं प्राबृद्धमोदजालकम् । कालशम्बरमुख्यं तत्स बुद्ध्वा मङ्गमापयत् ॥ १३० ॥  
 तं सुनुकृतवृत्तान्तं बोधयित्वा खगाधिपम् । अपनीय शिलां नागपाशं चैनाम् व्यपाशयत् ॥ १३१ ॥  
 नारदागमहेतुं च ज्ञापयित्वा सविस्तरम् । आपृच्छयानुनतस्तेन रथं वृषमनामकम् ॥ १३२ ॥  
 नारदेन समाकृष्टा प्रायात् द्वारावतीं प्रति । स्वपूर्वभवसंबन्धं शृण्वंस्तेन निरूपितम् ॥ १३३ ॥  
 हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य दुर्योधनमहीभृतः । जलधेश्च सुतां कन्यां माग्यामुदधिषंजया ॥ १३४ ॥  
 दातुं भानुकुमाराय महामिषवणोत्सवम् । विधीयमानं वीक्ष्यासौ रथे प्रस्तरविद्याया ॥ १३५ ॥  
 नारदं शिलयाच्छाद्य तस्माद्दुत्तीर्य भूतलम् । बहुगकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १३६ ॥  
 मथुराया बहिर्भागे पाण्डवान् स्वप्रियां सुताम् । प्रदिग्मून् गच्छतो भानुकुमाराय निवीक्ष्य सः ॥ १३७ ॥  
 समासोपितक्षोदण्डहस्तो व्याधाकृतिं दधत् । तेषां कदर्थनं कृत्वा नाना द्वारवतीमितः ॥ १३८ ॥  
 विधाय विद्यायां प्राग्बन्धारदं स्यन्दनस्थितम् । एकाकी स्वयमागत्य विद्याशास्त्रामुगाकृतिः ॥ १३९ ॥  
 बभञ्ज सत्यभामाया नन्दनं वा वनं वनम् । तत्पानवापीनिःशेषजलपूर्णकमण्डलुः ॥ १४० ॥  
 ततो गत्वान्तरं किञ्चित्स्यन्दनोत्तराश्रमात् । विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४१ ॥  
 पुरगोपुरनिर्यागप्रवेशनगनान् जनान् । सप्रहासान् समापाद्य प्रविश्य नगरं पुनः ॥ १४२ ॥  
 शाकाल्यवैद्यवेषेण स्वं प्रताप्य स्वविद्याया । विच्छिन्नकर्णसंधानवेदित्वादि प्रबोधयन् ॥ १४३ ॥

सन्तुष्ट हुआ और उसपर विश्वास कर वहीं बैठ गया । शत्रुकी सेनाका आगमन देखकर वह आश्चर्यमें पड़ गया । थोड़ी ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें बादलोंका समूह सूर्यको घेर लेता है उसी प्रकार अकस्मात् विद्याधर राजाकी सेनाने प्रद्युम्नको घेर लिया परन्तु प्रद्युम्नने युद्ध कर उन कालसर्वर आदि समस्त त्रिद्याधरोंको पराजित कर दिया । तदनन्तर—उसने राजा कालसर्वरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया और सबको बन्धन रहित किया, इसी तरह नारदके आनेका कारण भी विस्तारके साथ कहा । तत्पश्चात् वह राजा कालसर्वरकी अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना हुआ । बीचमें नारदजीके द्वारा कहे हुए अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध सुनता हुआ वह हस्तिनापुर जा पहुँचा । वहाँके राला दुर्योधनकी जलधि नामकी रानीसे उत्पन्न हुई एक उदधिकुमारी नामकी उत्तम कन्या थी । भानुकुमारको देनेके लिए उसका महामिषेक रूप उत्सव हो रहा था । उसे देख प्रद्युम्नने प्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एक शिलाके द्वारा नारदजीको तो रथपर ही ढक दिया और आप स्वयं रथसे उतरकर पृथिवी तलपर आ गया और उन लोगोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर वहाँसे आगे बढ़ा ॥१२८-१३६॥ चलते-चलते वह मथुरा नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डव लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारको देनेके लिए जा रहे थे । उन्हें देख, उसने धनुष हाथमें लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया । तदनन्तर वहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा ॥१३७-१३८॥ वहाँ उसने नारदजीको तो पहलेके ही समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रखा और स्वयं अकेला ही नीचे आया । वहाँ आकर उसने विद्याके द्वारा एक वानरका रूप बनाया और नन्दन वनके समान सत्यभामाका जो वन था उसे तोड़ डाला, वहाँको वावड़ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर लिया । फिर कुछ दूर आकर उसने अपने रथमें जलटे मेढे तथा गधे जोते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया ॥१३९-१४१॥ इस क्रियासे उसने नगरके गोपुरमें आने-जानेवाले लोगोंको खूब हँसाया । तदनन्तर नगरके भीतर प्रवेश किया ॥१४२॥ और अपनी विद्याके बलसे शाल नामक वैद्यका रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कर्णोंका जोड़ना आदि कर्म जानता

१ 'आमु उपवेशने' इत्यस्य लङ्लुपम् । २ प्रयान् इत्यपि क्वचित् । ३ कुमारायाभिवीक्ष्य स. ल०, कुमारायातिवीक्ष्य ग० । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम् इत्यपि क्वचित् । ५ स्यन्दनोऽरिव रासभान् ल० । ६ आलोक्य वैद्यवेषेण संप्रत्ययं ल० ।

प्राप्य भानुकुमाराय दातुमानोत्तकन्ययाः । तत्राविर्भावितानेकधाहास्योऽनु द्विजाकृतिः ॥ १४४ ॥  
 सत्यमामागृहं गत्वा भोजनावसरे द्विजान् । विप्रहृत्य स्वधापठ्येन मुच्यता ३ च कृतदक्षिणः ॥ १४५ ॥  
 ततः क्षुल्लकवेषेण समुपेत्य स्वमातरम् । सुसुक्षितोऽहं सद्गृष्टे १ सभ्यगमोजय मामिति ॥ १४६ ॥  
 संप्रार्थ्यं विविधाहारान् भुक्त्वा वृश्मिनास्रवान् । कुरु मे देवि संतुष्टिमिति व्याकुलतां नयन् ॥ १४७ ॥  
 तद्वितीर्णमहामोदकोपयोगास्त्वं तुषवान् । ईषच्छान्तमनास्तत्र सुखं समुपविष्टवान् ॥ १४८ ॥  
 अकाले चम्पकाशोकपुष्पाण्यमिसमीक्ष्य सा । कलाकिकोकिकाकापवाचालितवनान्तरे ॥ १४९ ॥  
 तदा त्रिस्मयमापन्ना मुदा पप्रच्छ किं भवान् । मद्रासौ मत्सुतो नारदोक्तकाले समागतः ॥ १५० ॥  
 इति तस्याः परिप्रश्ने स्वं रूपं संप्रकाशयन् । वृश्मा शिरसि तत्पादनस्वदीधितिमञ्जरीः ॥ १५१ ॥  
 अनिघाय स्ववृत्तान्तमग्रेपरिबोधयन् । जननीं सह ३ संसुज्य तथा तदभिवाञ्छितैः ॥ १५२ ॥  
 बाळक्रीडाविशेषस्तां परां प्रीतिमवापयन् । प्राग्जन्मोपाजितापूर्वपुण्योदय इव स्थितः ॥ १५३ ॥  
 तदा नापितकः कोऽपि रुक्मिणीं समुपागतः । हरिप्रश्नात्सुतोत्पत्तिं विज्ञाय विनयंघरात् ॥ १५४ ॥  
 सुनीन्द्रादावयोयस्याः प्राग्जः स्वोपयमेऽलकान् । स्नात्वन्यस्याः सहस्वेति युवाभ्यां विहिता स्थितिः ॥ १५५ ॥  
 तस्माद्देव्यलकाली ते दीयतां तन्नियन्वन्म् । स्मृत्वा भानुकुमारस्य स्नानार्थं सत्यमामया ॥ १५६ ॥  
 प्रहितोऽहं विवाहेऽद्य ३ द्यूतमित्यब्रवीदिदम् । किमेतदिति संपुष्टा ४ कामेन तव जन्मना ॥ १५७ ॥  
 समं भानुश्च संजातस्तदावाभ्यां युवां हरे । नीतौ दर्शयितुं सुप्ते तस्मिन्स्व पादसंनिधौ ॥ १५८ ॥

हूँ ॥ १४२-१४३ ॥ इसके बाद भानुकुमारको देनेके लिए कुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे- उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारसे हँसी की । पश्चात् एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यभामाके महलमें पहुँचा वहाँ भोजनके समय जो ब्राह्मण आये थे उन सबको उसने अपनी धृष्टतासे बाहर कर दिया और स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली ॥ १४४-१४५ ॥ तदनन्तर क्षुल्लकका वेष रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यहाँ पहुँचा और कहने लगा कि हे सभ्यदर्शनको धारण करनेवाली ! मैं भूखा हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा । इस तरह प्रार्थना कर अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु वृष्टिको प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुलताको प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुझे सन्तुष्ट कर, पेट-भर भोजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर सन्तुष्ट हो गया । भोजनके पश्चात् वह कुछ शान्तचित्त होकर वहीं-पर सुखसे बैठ गया ॥ १४६-१४८ ॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें ही चम्पक तथा अशोकके फूल फूल गये हैं और साराका सारा वन भ्रमरो तथा कोकिलाओंके मनोहर शूनसे शब्दायमान हो रहा है । यह देख वह आश्चर्यसे चकित बड़े हर्षसे पूछने लगी कि हे भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र हैं और नारदके द्वारा कहे हुए समयपर आये हैं । माताका ऐसा प्रश्न सुनते ही प्रद्युम्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उसके चरण-नखोंकी किरण रूप मंजरीको सिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । माताके साथ भोजन किया, उसकी इच्छानुसार बाळ-कालकी क्रीडाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त करायी और पूर्व-जन्ममें उपार्जित अपूर्व पुण्य कर्मके उदयके समान वहीं ठहर गया ॥ १४९-१५३ ॥

उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया और कहने लगा कि 'श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर श्रीविनयन्धर नामके मुनिराजसे सत्यभामा और तुम दोनोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्त की थी कि हम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके सिरके बाल हरण कर स्नान करेगा । इसलिए हे देवी ! आप उस शर्तका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके लिए अपने केश मुझे दीजिये । आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुझे शीघ्र ही भेजा है' । नाईकी बात सुनकर प्रद्युम्नने मातासे पूछा कि 'यह क्या बात है ?' वह कहने लगी कि 'तुम्हारा और भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था । हम दोनोंने श्रीकृष्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था और वह

१ सुतुप्तवान् ल० । २ सन्तुष्टया ल० । ३ व्रत ल० (?) । ४ प्रद्युम्नने ।



स्थापितः स शिरोमानो प्रबुध्य त्वां पुरा हरिः । बिलोक्य व्येष्टतां तेऽदादिति माताऽभ्यधात्ततः ॥१५९॥  
 स नापितं विकाराणामकरोदाकरं पुनः । आगतांश्च व्यधाद् भृत्यान् गोपुरेऽथःस्थितानानान् ॥१६०॥  
 वासुदेवस्य रूपेणातर्जयञ्च विदूषकम् । दीर्घाकृतस्वपादेन जराख्यं च महत्तरम् ॥१६१॥  
 मेषरूपेण संपातात्पातयन् स्वपितामहम् । हकिन् च हरिर्भूत्वा निर्गीर्य स्वमदृश्यताम् ॥१६२॥  
 गत्वात्र सुलभास्त्राभ्येत्यभिधाय स्वविद्यया । रुक्मिणीरूपमापन्न निर्विशेषं मनोहरम् ॥१६३॥  
 विमाने स्थापयित्वाञ्च गच्छन्स सबलं हरिम् । प्राप्तवन्तं समाहर्तुमाकाङ्क्षिकयमोपमम् ॥१६४॥  
 जित्वा नरेन्द्रजाताख्यविद्याविहितमायया । तस्थौ निःप्रतिपक्षः सन्वीक्षणामीळविग्रहः ॥१६५॥  
 नारदः स तदागाय्य तनूजस्याद्य वीक्षणम् । युवयोरीदृशं लब्धविद्यस्येत्यभ्यधाद्दसन् ॥१६६॥  
 सोऽपि प्रकटितामीयरूपः पञ्चशरो बलम् । हरिं च रश्मिरोन्यस्ततत्कमाञ्जोऽस्मयमानयत् ॥१६७॥  
 ततश्चक्रधरोऽनङ्गं प्रेमाङ्कितविग्रहः । आरोप्य स्वगजस्कन्ध प्रहृष्टः प्राविशत् पुरम् ॥१६८॥  
 सत्यभामासुतोद्दिष्टकन्यकाभिः सह स्मरः । कल्याणामिषवं दिष्ट्या संप्रापत् सर्वसंमतः ॥१६९॥  
 एवं प्रयाति कालेऽस्य स्वर्गादागाय्य कश्चन । तनूजः कामसोदर्यो हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥१७०॥  
 इत्यादेशं समाकर्ण्य सत्यभामात्मनः पतिम् । यथा स्यात्समुत्पत्तिः स्वस्थास्तादृगयाचत् ॥१७१॥  
 तच्छ्रुत्वा रुक्मिणी चाह कामं जाम्बवती यथा । लप्स्यते तेऽनुजं प्राच्यं तथा कुर्वति सादरम् ॥१७२॥  
 सोऽप्यदान्मुद्रिकां कामरूपिणीं तामवाप्य सा । सत्यभामाकृति गत्वा पतिसंयोगतः सुखम् ॥१७३॥

उनके सिरके समीप रखा गया था । जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुल्यपर पड़ी इसलिए उन्होंने तुल्य ही जेठापन प्रदान किया था—‘तू ही बड़ा है यह कहा था’ । माताके वचन सुनकर प्रद्युम्नने उस नाईकी विकृतिकी खान बना दी—उसकी बुरी चेष्टा कर दी और उसके साथ जो सेवक आये थे उन सबको नीचे सिरकर गोपुरमें उलटा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदूषकको खूब डाँटा । तदनन्तर मार्गमें सो रहा और जगानेपर अपने पैर लम्बे कर जर नामक प्रतीहारीको खूब ही घोंस दी ॥१५४-१६१॥ फिर मेषका रूप बनाकर बाबा वासुदेवको टक्कर-द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्रको-निगलकर अदृश्य कर दिया । तदनन्तर-माताके पास आकर बोला कि ‘हे माता ! तू यहींपर सुखसे रह’ यह कहकर उसने अपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणीके ही समान मनोहर रूप बनाया और उसे विमानमें बैठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूँ, यदि सामर्थ्य हो तो छुड़ा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजकी उपमा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उसे छुड़ानेके लिए सामने जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप धारण करनेवाले प्रद्युम्नने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥१६२-१६५॥ उसी समय नारदने आकर हँसते हुए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त है ऐसे पुत्रका आज आप दोनोंको दर्शन हो रहा है ॥१६६॥ उसी समय प्रद्युम्नने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंमें अपना सिर झुकाकर नमस्कार किया ॥१६७॥ तदनन्तर चक्रवर्ती श्रीकृष्ण महाराजने बड़े प्रेमसे प्रद्युम्नका आलिंगन किया, उसे अपने हाथीके स्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े प्रेमसे नगरमें प्रवेश किया ॥१६८॥ वहाँ जाकर प्रद्युम्नने अपने पुण्योद्देशसे, सत्यभामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्याएँ आयी थीं उनके साथ सबकी सम्मतिसे विवाह किया ॥१६९॥ इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन सबने सुना कि प्रद्युम्नका पूर्वजन्मका भाई स्वर्गसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र होगा । यह सुनकर सत्यभामाने अपने पतिसे याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न कीजिए ॥१७०-१७१॥ जब रुक्मिणीने यह सुना तो उसने बड़े आदरके साथ प्रद्युम्नसे कहा कि तुम्हारे पूर्वजन्मके छोटे भाईको जाम्बवती प्राप्त कर सके ऐसा प्रयत्न करो ॥१७२॥ प्रद्युम्नने भी जाम्बवतीके लिए इच्छानुसार

क्रीडवं जाग्बवत्याप शम्भवाख्यं दिग्दृश्युत् । सुभानुं सत्यमामा च जातमास्त्रयोस्तयोः ॥१०४॥  
 गान्धर्वादिविवादेषु सुभानुं शम्भवोऽजयत् । सर्वत्र पूर्वपुण्यानां विजयो नैव दुर्लभः ॥१०५॥  
 रुक्मिणी सत्यमामा च गनमास्त्रयवन्धने । परस्परगतां प्रीतिमन्वभूतामतः परम् ॥१०६॥  
 इत्यशेष गणेशोक्तमाकर्ष्य सकलं सद् । ननाम मुकुकीभूतकराब्जं तत्क्रमादजयोः ॥१०७॥  
 अधान्यदा जिनं नेमिं सीरपाणिः कृताञ्जलिः । अवनम्यान्वयुद्धकैव हरिस्नेहाचमानसः ॥१०८॥  
 भगवन् वासुदेवस्य राज्यं प्राप्यमहोदयम् । प्रवर्ततेऽप्रतीपं मे ब्रूहीदं च कियच्चिरम् ॥१०९॥  
 मद्र द्वादशवर्षान्ते नश्येन्मद्यनिमित्तकम् । द्वीपायनेन निर्मूलमिय द्वारावती पुरी ॥११०॥  
 विष्णोर्जरकुमारो गत्यन्तरगतिसंवेत् । स एष प्रथमां पृथ्वीं प्रविश्याब्ज्युपमायुषः ॥१११॥  
 प्रन्ते तस्माद्विनिर्गत्य तीर्थेशोऽत्र भविष्यति । स्वमप्येतद्विद्योगेन षण्मासकृतशोचनः ॥११२॥  
 सिद्धार्थसुरसंबोधनापास्ताखिलदुःखकः । दीक्षामादाय माहेन्द्रकल्पे देवो जनिष्यसे ॥११३॥  
 उत्कृष्टाय स्थितिस्तत्र भुक्तभोगोऽत्र तीर्थकृत् । भूत्वा निर्दग्धकर्मारिर्देहमुक्तो सविष्यसि ॥११४॥  
 इति तीर्थेशिना प्रोक्तं श्रुत्वा द्वीपायनाह्वयः । सद्यः संयममादाय प्रायाज्जनपदान्तरम् ॥११५॥  
 तथा जरत्कुमारश्च कौशाभ्यापण्यमाश्रयत् । प्राग्बद्धनरकायुष्यो हरिरन्वाप्तदर्शनः ॥११६॥  
 भाग्यमानान्स्वनामासौ नाहं शक्नोमि दीक्षितुम् । शक्तताञ्च प्रतिबध्नामीत्यास्त्रीवालमघोषयत् ॥११७॥  
 प्रशुभ्रादिसुता देव्यो रुक्मिण्याद्याश्च चक्रिणम् । बन्धुंश्चापृच्छय तैमुक्त्वा प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥११८॥

रूप बनानेवाली श्रृंगरी दे दी उसे पाकर जाग्बवतीने सत्यभामाका रूप बनाया और पतिके साथ संयोग करे स्वर्गसे च्युत हुए क्रीडवके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न होनेपर उसका शम्भव नाम रखा गया। उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया। इधर शम्भव और सुभानुमें जब परस्पर ईर्ष्या बढी तो गान्धर्व आदि विवादांसे शम्भवने सुभानुको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य उपाजन किया है उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है ॥१०३-१०५॥ इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईर्ष्या छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करने लगीं ॥१०६॥ इस प्रकार गगधर भगवान्के द्वारा कहा हुआ सब चरित सुनकर समस्त सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार किया ॥१०७॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके स्नेहने जिनका चित्त बश कर लिया है ऐसे बलदेवने हाथ जोड़कर भगवान् नेमिनाथको नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन् ! श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कृपाकर आप यह बात मेरे लिए कहिए ॥१०८-१०९॥ उत्तरमें भगवान् नेमिनाथने कहा कि भद्र ! बारह वर्षके बाद मदिराका निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जायेगी। जर-कुमारके द्वारा श्रीकृष्णका सरण होगा। यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथम-भूमिमें उत्पन्न होगा और अन्तमें वहाँसे निकलकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थकर होगा। तू भी इसके वियोगसे छह माह तक शोक करता रहेगा और अन्तमें सिद्धार्थदेवके सम्बोधनसे समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा माहेन्द्र स्वर्गमें देव होगा ॥११०-११३॥ वहाँपर सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका उपभोग कर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थकर होगा तथा कर्मरूपी शत्रुओंको जलाकर शरीरसे मुक्त होगा ॥११४॥ श्री तीर्थकर भगवान्का यह उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारण कर दूसरे देशको चला गया तथा जरत्कुमार कौशाभ्रीके वनमें जा पहुँचा। जिसने पहले ही नरकायुका वन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर तीर्थकर प्रकृतिके वन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन किया तथा स्त्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेनेमें समर्थ नहीं हूँ परन्तु जो समर्थ हों उन्हें मैं रोकना नहीं हूँ ॥११५-११८॥ यह सुनकर प्रशुभ्र आदि

१ लान्तावाख्यदिव्यवृत्तम् ल० । २ पुण्यपण्याना इत्यपि वचिन्त् । ३ भाग्यमानान्स्वनामासौ ग० ।

द्वीपायननिदानावसाने जाम्बवतीसुतः । अनिरुद्धश्च कामस्य सुतः संप्राप्य संयमम् ॥१९८॥  
 प्रद्युम्नमुनिना सार्धमूर्जयन्ताचलाग्रतः । कूटत्रयं समासृष्ट्य प्रतिमाथोगधारिणः ॥१९९॥  
 शुक्लध्यानं समाप्य त्रयस्ते घातिघातिनः । कैवल्यवनकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥१९९॥  
 पुण्यघोषणकृद्यक्षतचक्रपुरस्सरः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजैः सप्तभिः पृथक् ॥१९९॥  
 कृतशोभो जगन्नाथदंष्ट्रादिप्रातिहार्यकः । मासुन्मागंगताशेषसुरलेचरसेवितः ॥१९३॥  
 पृथ्वीपथप्रवृत्तान्यविनेयजनतासुगः । पवनामरनिधूतधूलीकण्टकभूतकः ॥१९४॥  
 मेवामरकुमारोपसिक्तगन्धाम्बुसंस्त्रितः । इत्याद्याश्चर्यसपन्नः सर्वप्राणिमनोहरः ॥१९५॥  
 धर्माभूतमीर्षी वृष्टिमभिषिञ्जन् जिनेश्वरः । विश्वान्देशान्विहङ्गन्याथास देशं पल्लवाह्वयम् ॥१९६॥  
 भन्न पाण्डुतनूजानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रमाप्यते । ग्रन्थविस्तरभीरुणामायुर्मेथानुरोधतः ॥१९७॥  
 काम्पिहत्यायां धराधीशो नगरे द्रुपदाह्वयः । देवी हृदरथा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥१९८॥  
 स्त्रीगुणैः सकलैः शस्यता बभूव भुवनप्रिया । तां पूर्णयौवनां वीक्ष्य पित्रा कस्मै समर्प्यताम् ॥१९९॥  
 इयं कन्येति संपृष्टा मन्त्रिणो मन्त्रचर्चया । प्राभापन्नं प्रचण्डेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम् ॥२००॥  
 पृतान् सहजशत्रुत्वाद् दुर्योधनमहोपतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन लाक्षालयमवीविशत् ॥२०१॥  
 हन्तुं तत्रेऽपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिताः । प्रद्वृताः पयसि क्षमाजस्याधस्तात्किल्बिषं स्वयम् ॥२०२॥  
 अपहृत्य सुरङ्गापातेन देशान्तरं गताः । स्वसंबन्धादिदुःखरयं वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥२०३॥

आज्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥१९८॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान अर्थात् कारण था जब वहाँसे अन्यत्र चला गया तब जाम्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्धने भी संयम धारण कर लिया और प्रद्युम्नमुनिके साथ गिरनार पर्वतके ऊँचे तीन शिखरोंपर आरूढ होकर सब प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥१९९-१९८॥ उन तीनोंने शुक्लध्यानको पूरा कर घातिया कर्मका नाश किया और नव केवललब्धियाँ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥१९९॥ अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान् नेमिनाथने वहाँसे विहार किया । उस समय पुण्यकी घोषणा करनेवाले यक्षके द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक्र उनके आगे चल रहा था, पैर रखनेकी जगह तथा आगे और पीछे अलग-अलग सात-सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहार्य अलग सुशोभित हो रहे थे, आकाशमार्गमें चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे, देव और विद्याधरोंके सिवाय अन्य शिष्य-जन पृथिवीपर ही उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पवनकुमार देवोंने पृथ्वीकी सब धूलि तथा कण्टक दूर कर दिये थे और मेघकुमार देवोंने सुगन्धित जल बरसाकर भूमिको उत्तम बना दिया था, इत्यादि अनेक आश्चर्योंसे सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनेवाले भगवान् नेमिनाथ धर्माभूतकी वर्षा करते हुए समस्त देशोंमें विहार करनेके-बाद पल्लव देशमें पहुँचे ॥१९९-१९६॥

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँपर ग्रन्थके विस्तारसे डरनेवाले शिष्योंकी आयु और बुद्धिके अनुरोधसे पाण्डवोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है-॥१९७॥ कम्पिला नामकी नगरीमें राजा द्रुपद राज्य करता था । उसकी देवीका नाम हृदरथा और उन दोनोंके द्रौपदी नामकी पुत्री थी । वह द्रौपदी स्त्रियोंमें होनेवाले समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी तथा सबको प्यारी थी । उसे पूर्णयौवनवती देखकर पिताने मन्त्रचर्चाके द्वारा मन्त्रियोंसे पूछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए । मन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान् पाण्डवोंके लिए देनी चाहिए ॥१९८-२००॥ पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है । उसने इन लोगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लाक्षाभवन (लाखके बने घर) में प्रविष्ट कराया था ॥२०१॥ परन्तु अपने पुण्यके उदयसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाकी जान गये इसलिए जलमें खड़े हुए किसी वृक्षके नीचे रहनेवाले पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये और अपने कुटुम्बी जनोंसे-

पोद्नाख्यपुरे चन्द्रदत्तनाममहीपतेः । देविकायाश्च पुत्रं ते कलागुणविशारदम् ॥२०४॥  
 विधाय निहत्स्वधूणगन्धा राज्यं व्यतारिषु । अथेन्द्रवर्मणे प्रीत्येत्थेवा वार्ता श्रुता चरात् ॥ २०५ ॥  
 ब्रह्माप्यवश्यमेप्यन्ति विधेयस्तस्वर्थंवर । न केनचिद्विरोधोऽयमिति तद्ब्रह्मचरते ॥२०६॥  
 वसन्तेऽचीकरद् राजा स स्वयवरमण्डपम् । तत्र सर्वमहीपाला, संप्रापन् पाण्डवेपु च ॥२०७॥  
 भीमस्थ भोजनाद् गन्धर्वाजस्य करतर्जनात् । पार्थस्य मत्स्यनिर्मैदाञ्चापरोहणसाहसात् ॥२०८॥  
 नारदागमनाच्चापि लक्ष्मणमाणेपु निश्चितम् । समागतेषु सत्स्वहैन्महापूजापुरस्सरम् ॥२०९॥  
 प्रविश्य भूषिता रत्नै सा स्वयवरमण्डपम् । भूमिपान् कुलरूपादिगुणैः सिद्धार्थनामनि ॥२१०॥  
 पुरोधसि क्रमात् सर्वान् कथयत्यतिशङ्क्य तान् । कन्या संभावयामास मालयोऽज्वलयाऽर्जुनम् ॥२११॥  
 द्रुपदाशुप्रवंशोत्थमहीशा, कुरुवंशजा । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिति तुष्टिं समागमन् ॥२१२॥  
 एव संप्राप्तकथाणाः प्रविश्य पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौख्येन कालं दीर्घमिव क्षणम् ॥२१३॥  
 ततः पार्थात् सुनद्रायामभिमन्युरभूत् सुत । द्रौपद्यां पञ्च पाञ्चालनामानोऽन्वसवन्क्रमात् ॥२१४॥  
 शूतं युधिष्ठिरस्यात्र दुर्योधनमहीशुजा । सुजङ्गशैलपुर्यां यत् कीचकानां विनाशनम् ॥२१५॥  
 विराटभूपतेर्भूरिगोमण्डलनिवर्तनम् । अनुयानेन भूपस्य विराटरथ सुशर्मणः ॥२१६॥  
 अल्पगोमण्डलस्यार्जुनोचरारभ्यां निवर्तनम् । पुराणवेदिमिवाच्यं विरतरेण यथाश्रुतम् ॥२१७॥  
 अथ युद्धे कुरुक्षेत्रे प्रवृत्ते कौरवैः समम् । पाण्डवानां विनिर्जित्य दुर्योधनवराधिपम् ॥२१८॥

प्राप्त दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरको चले गये है । इधर गुप्तचरके मुखसे इनके विषयकी यह बात सुनी गयी है कि पोद्नपुरके राजा चन्द्रदत्त और उनकी रानी देविकाके इन्द्रवर्मा नामक पुत्रको पाण्डवोंने समस्त कलाओं और गुणोंमें निपुण बनाया है तथा उसके प्रतिद्वन्द्वी शूणगन्धको नष्ट कर उसके लिए राज्य प्रदान किया है । सो वे पाण्डव यहाँ भी अवश्य ही आवेंगे । अतः अपने लिए द्रौपदीका स्वयंवर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे किसीके साथ विरोध नहीं होगा । मन्त्रियोंके उक्त वचन सुनकर राजाने वसन्त ऋतुमें स्वयंवर-मण्डप बनवाया जिसमें सब राजा लोग आये । पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदनोन्मत्त हाथीको हाथसे ताड़ित करनेसे प्रकट हुआ, अर्जुन मत्स्यभेद तथा धनुष चढानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारदके आगमनसे प्रकट हुए । जब सब लोग निश्चित रूपसे स्वयंवर-मण्डपमें आकर विराजमान हो गये तब अर्हन्त भगवान्की महा पूजा कर रत्नोंसे सजी हुई द्रौपदी स्वयंवर-मण्डपमें प्रविष्ट हुई । सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल-रूप आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समस्त राजाओंका अनुक्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-क्रमसे द्रौपदी समस्त राजाओंको उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गयी । अन्तमें उसने अपनी निर्मल मालाके द्वारा अर्जुनको सम्मानित किया ॥२०२-२११॥ यह देखकर द्रुपद आदि उग्र-वंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा अनेक राजा यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध है यह कहते हुए सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२१२॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको प्राप्त कर वे पाण्डव अपने नगरमें गये और सुखपूर्वक बड़े लम्बे समयको क्षण-भरके समान व्यतीत करने लगे ॥२१३॥

तदनन्तर अर्जुनके सुमद्रासे अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ और द्रौपदीके अनुक्रमसे पांचाल नामके पाँच पुत्र हुए ॥२१४॥ यहाँ युधिष्ठिरका राजा दुर्योधनके साथ जुआ खेला जाना, सुजंगशैल नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका सेवक बनकर रहना, अर्जुनके द्वारा राजा विराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका लौटाया जाना, तथा अर्जुनके अनुज सहदेव और नकुलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा विराटकी कुछ गायोंका वापस लौटाना, आदि जो घटनाएँ हैं उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेवाले लोगोंको विस्तारसे कथन करना चाहिए ॥२१५-२१७॥ अथानन्तर-कुरुक्षेत्रमें पाण्डवोंका

युधिष्ठिरः समस्तस्य विषयस्याभवद् विभुः । विभज्य स्वानुजैर्लक्ष्मीं भुञ्जानोऽरज्येज्जनम् ॥२१५॥  
 एवं स्वकृतपुण्यस्य ते सर्वे परिपाकजम् । सुखं निखिलमन्यग्रभवभुवन्नारतम् ॥२२०॥  
 तदा द्वारावतीदाहः कौशाश्वीगहनान्दरे । ऋतिर्जर्त्कुमारैण विष्णोर्ज्यैष्टस्य संयमः ॥२२१॥  
 मविष्यतीति यत्प्रोक्तं द्वारावत्यां जिनेक्षिना । निर्दूतं तत्र तत्सर्वं न मिथ्यावादिनो विनाः । २२२॥  
 तादृशं तादृशमासीद्विद्विग्नुक्कर्मणां गतिम् । निर्मूलयन्ति इमाणि तत्र एव हि धीवनाः ॥२२३॥  
 यत्सर्वं पाण्डवो श्रुत्वा तदायन्मथुराधिपाः । स्वामिन्धुविद्योगेन निर्विधं त्यक्त्वाऽयकाः ॥२२४॥  
 महाप्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम् । तत्कालोचितसत्कर्म सर्वं निर्माप्य भाक्तिकाः ॥२२५॥  
 स्वपूर्वभवसंबन्धमप्युच्छन्संस्तुतेर्मयात् । अबोद्धगवानित्यमप्रतक्यंमहोदयः ॥२२६॥  
 जम्बूसंभाविते द्वीपे मरतेऽङ्गे पुरी परा । चम्पाकथा कौरवस्तत्र महोशो मेघवाहन ॥२२७॥  
 सोमदेवो द्विलोऽत्रैव ब्राह्मणी तस्य सोमिला । तयोः सुताःस्त्रयः सोमदत्तसोमिलनामकः ॥२२८॥  
 सोमभूतिश्च वेदाङ्गपारगाः परमद्विजाः । अमीषां मातुलस्याग्निभूतस्त्रिलोऽभवन् सुताः ॥२२९॥  
 अग्निगायां धनश्रीमित्रश्रीनागश्रियः प्रियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दत्तास्ताः पितृभ्यां सुलक्षणाः ॥२३०॥  
 सोमदेव सुनिर्दिष्ट सुधीः केनापि हेतुना । प्राग्वाजीदन्यदा धर्मरुचिनामतपोधनम् ॥२३१॥  
 प्रविशन्तं गृहं भिक्षाकाले वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदत्तः प्रतीक्ष्यैतमाह पत्नीं कनीयसः ॥२३२॥  
 नागश्रीर्दितरास्मै स्व भिक्षामिति कृपादरम् । मामेव सर्वदा सर्वमेव प्रेषयतीति सा ॥ २३३॥  
 कृपिता विपसंमिश्रं ददावचनं तपोभृते । स संन्यस्य समाराध्य प्रापदन्त्यमसुचरम् ॥२३४॥

कौरवोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्ठिर दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशका स्वामी हो गया और छोटे भाइयोंके साथ विभाग कर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न करने लगा ॥२१५-२१९॥ इस प्रकार वे सब पाण्डव अपने द्वारा किये हुए पुण्य कर्मके उद्वयसे उत्पन्न सम्पूर्ण सुखका विना किसी आकुलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥२२०॥

तदनन्तर—द्वारावती जलेगी, कौशाश्वी-वनसे जर्त्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यु होगी और उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे' इस प्रकार द्वारावतीमें नेमिनाथ भगवान्ने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् अन्यथावादी नहीं होते हैं ॥२२१-२२२॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि जैसे लोकोत्तर पुरुषोंकी वैसे दशा हुई इसलिए अशुभ कर्मोंकी गतिको बार-बार धिक्कार हो और निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष इन कर्मोंको निर्मूल करते हैं—उखाड़कर नष्ट कर देते हैं ॥२२३॥ मथुराके स्वामी पाण्डव, यह समाचार सुनकर वहाँ आये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा अन्य बन्धुजनोके वियोगसे बहुत विरक्त हुए और राज्य छोड़कर मोक्षके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोगोंने नेमिनाथ भगवान्के पास जाकर उस समयके योग्य नमस्कार आदि सत्कर्म किये तथा संसारसे भयभीत होकर अपने पूर्वभव पूछे । उत्तरमें अचिन्त्य वैभवके धारक भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे ॥२२४-२२६॥ उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीपके भर तक्षेत्र सम्बन्धी अंगदेशमें एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कृतवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था । उसी नगरीमें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था । उन दोनोंके सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति ये वेदांगोंके पारगामी परम ब्राह्मण तीन पुत्र हुए थे । इन तीनों भाइयोंके मामा अग्निभूति थे उसकी अग्निना नामकी स्त्रीसे धनश्री, मित्रश्री और नागश्री नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं । अग्निभूति और अग्निनाने शुभ लक्षणवाली ये तीनों कन्याएँ अपने तीनों भानेजोंके लिए यथा क्रमसे दे दीं ॥२२७-२३०॥ तदनन्तर-बुद्धिमान् सोमदेवने किसी कारणसे विरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली । किसी एक दिन भिक्षाके समय धर्मरुचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमे प्रवेश करते देखकर दयालुता वश सोमदत्तने उनका पडिगाहन किया और छोटे भाईकी पत्नीसे कहा कि हे नागश्री ! तू इनके लिए बड़े आदरके साथ भिक्षा दे दे । नागश्रीने मनमें सोचा कि 'यह सदा सभी कार्यके लिए मुझे ही भेजा करता है' यह सोचकर वह बहुत ही क्रुद्ध हुई और उसी क्रुद्धावस्थामें उसने उन तपस्वी

नागश्रीविहिताकृत्यं ज्ञात्वा ते भ्रातरश्च यः । समीपे वरुणार्थस्य दीक्षां मौक्षीं समाययुः ॥२३५॥  
 गुणवत्यार्थिकाभ्यासो ब्राह्मण्यवितने तदा । ईयुवः संयम वृत्तमीदृक्सदसलतामिदम् ॥२३६॥  
 पञ्चाप्याराधय तैःसभूवज्ञाणायुक्तकल्पयो । सामानिकामरा द्वाविंशतिसाराजीविनः ॥२३७॥  
 अन्वभ्रुवंश्रिरं भोगांस्तत्र सप्रविवाकाद् । नागश्रीरपि पापेन पञ्चमीं पृथिवीमगात् ॥२३८॥  
 दुःखं तत्रानुभूयान्ते स्वायुषोऽमी ततश्च्युता । अभूत् स्वयंप्रभद्रौपे सर्पो हृष्टिविषो मृतः ॥२३९॥  
 द्वितीयनरक गत्वा त्रिसमुद्रोपमायुषा । भुक्त्वा दुःखं विनिर्गत्य त्रतस्थावरयोनिषु ॥२४०॥  
 द्विसागरोपमं कालं परिभ्रम्य स राण्डे । चम्पापुरे समुत्पन्ना मातङ्गी मन्दपाततः ॥२४१॥  
 समाधिगुप्तनामानं मुनिमासाद्य सान्यदा । वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्य मधुमांसनिवृत्तिनः ॥२४२॥  
 तस्मिन्नेव पुरे मृत्वा सुतेभ्यस्याभवत् सती । सुवन्वोधेनदेव्याश्च समुर्गन्वन्नारीरिका ॥२४३॥  
 सुकुमारीति संज्ञास्या विहितार्थानुयायिनी । पुरेऽस्मिन्नेव वैश्यस्य धनदेवस्य पुत्रताम् ॥२४४॥  
 प्राप्तवंशोकञ्जायां देवदत्तौ जिनादिकौ । संग्रहायै स्वबन्धूनामादानं स्वस्य वेदिता ॥२४५॥  
 सुकुमायाः सुदीर्गन्व्याजिनदेवो ज्युष्मसयन् । सुवताख्यमुनेरन्तेवात्सिर्वं समवाप सः ॥२४६॥  
 कनीयान् जिनदत्तोऽथ प्रेरितो बन्धुभिर्मुहुः । आसन्नश्च्युता नावमानयोमेति तत्रयात् ॥२४७॥  
 गृहोत्वा तामसौ क्रुद्धफणिनोमिव नागमत् । स्वमेऽप्यस्य विरक्तत्वाल्लिन्दन्ती स्वर्ं विपुण्यताम् ॥२४८॥  
 गृहीतानश्रनान्येयुरार्थिकाभिः सहगताम् । स्वगेहं सुवतां क्षान्तिमभिवन्ध तदार्यिके ॥२४९॥

मुनिराजके लिए विष मिला हुआ आहार दे दिया जिससे संन्यास धारण कर तथा चारों आराधनाओंकी आराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थसिद्धि नामक अनुत्तर विमानमे जा पहुँचे ॥२३१-२३१॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अकृत्यका पता चला तो उन्होंने वरुणार्थके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥२३५॥ यह देख, नागश्रीको छोड़कर शेष दो ब्राह्मणियोंने भी गुणवती आर्थिकाके समीप संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन और दुर्जनोका चरित्र ऐसा ही होता है ॥२३६॥ इस प्रकार ये पाँचों ही जीव, आयुके अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण और अच्युत स्वर्गमें वाईस सागरकी आयुवाले सामानिक देव हुए ॥२३७॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवी-चार सहित भोगोका उपभोग किया । इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, वहाँके दुःख भोगकर आयुके अन्तमें निकली और वहाँसे च्युत होकर स्वयंप्रभ द्वीपमें हृष्टिविष नामका सर्प हुई । फिर मरकर दूसरे नरक गयी वहाँ तीन सागरकी आयु पर्यन्त दुःख भोगकर वहाँसे निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियोंमे भ्रमण करती रही । इस प्रकार संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तब चम्पापुर नगरमें चाण्डाली हुई ॥२३८-२४१॥ किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धर्म-श्रवण किया, और मधु-मांसका त्याग किया । इनके प्रभावसे वह मरकर उसी नगरमें सुवन्धु सेठकी धनदेवी स्त्रीसे अत्यन्त दुर्गन्धित गरीरवाली पुत्री हुई । माता-पिताने उसका 'सुकुमारी' यह सार्थक नाम रखा । इसी नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता स्त्रीसे जिनदेव और जिनदत्त नामके दो पुत्र हुए थे । जिनदेवके कुटुम्बी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुव्रत नामक मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात् उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥२४२-२४६॥ तदनन्तर छोट्टे भाई जिनदत्तको उसके बन्धुजनोने बार-बार प्रेरणा की कि वड़े लोगोंकी कन्याका अपमान करना ठीक नहीं है । इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु क्रुद्ध सपिणीके समान वह कभी स्वप्नमें भी उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा निन्दा करती रहती थी ॥२४७-२४८॥ किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया, उसी दिन उसके

१ सुता, इत्यस्य, अवयव, इति पदच्छेदः । २ समागताम् म० ।

हमे द्वे दीक्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुक्तं ताम् । अय साप्यत्रवीदेवं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥२५०॥  
 शृण्वेते जन्ममि प्राचि सौधर्माधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देव्यौ सौधर्मसंयुते ॥२५१॥  
 गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे जिनगेहार्चनाविधेः । तत्र सविप्रचित्तत्वात् संप्राप्यास्मान्मनुष्यताम् ॥२५२॥  
 आवां तपः करिष्याव ह्यत्यन्धोर्नव व्यवस्थितम् । अकुर्वतां ततश्च्युत्वा साकेतनगरेशिनः ॥२५३॥  
 श्रीषेणाख्यमहोदयस्य श्रीकान्तायाश्च ते सुते । हरिश्रीपूर्वसेनाख्ये संभूय प्राप्तयौवने ॥२५४॥  
 स्वथं वरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । त्रिजपूर्वभवं स्मृत्वा संघां च प्राक्तनीं कृताम् ॥२५५॥  
 विसर्ज्य बन्धुवर्गेण समं नृपकुमारकान् । इते दीक्षामिति क्षान्तिवचनार्कणनेन सा ॥२५६॥  
 सुकुमारी च निर्विण्णा सम्प्रता निजवान्धवैः । तत्सर्मापेऽगमदीक्षामन्धेर्द्युर्वनमागताम् ॥२५७॥  
 वेश्यां वसन्तसेनाख्यामावृत्य बहुभिविंदेः । संप्राथ्यमानामालोक्य ममाप्येवं मवेदिति ॥२५८॥  
 निदानमकरोज्जीवितान्ते प्राक्तनजन्मनः । सोमभूतेरभूदेवी प्रान्तकल्पनिवासिनः ॥२५९॥  
 उत्कृष्टजीवितं तत्र गमयित्वा त्रयोऽपि ते । सोदर्याः प्रच्युता यूयं जाता रत्नत्रयोपमाः ॥२६०॥  
 धर्मजो भीमसेनश्च पार्थश्चाख्यातपौरुषः । धनमित्रश्रियो चास्मिन्नभूतां स्तुतविक्रमौ । २६१॥  
 नकुलः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमप्रभौ । सुकुमारी च काम्पिल्यपुरे द्रुपदभूपतेः ॥२६२॥  
 सुता दृढरथायाश्च द्रौपद्याख्याजनिष्ठ सा । इति नेमीश्वरप्रोक्तमाकर्ण्य बहुभिः समम् ॥२६३॥  
 पाण्डवा संयमं प्रापन् सतामेषा हि बन्धुता । कुन्ती सुभद्रा द्रौपद्यश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥२६४॥  
 निकटे राजिमत्याख्यगणिन्या गुणभूषणाः । तास्तिस्रः षोडशे कल्पे भूत्वा तस्मात् परिच्युताः ॥२६५॥

घर अन्य अनेक आर्थिकाओंके साथ सुत्रता और क्षान्ति नामकी आर्थिकाएँ आयीं उसने उन्हें चन्दना कर प्रधान आर्थिकासे पूछा कि इन दोनों आर्थिकाओंने किस कारण दीक्षा ली है ? यह बात आप मुझसे कहिए । सुकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्थिका कहने लगी कि हे शुभ नामवाली ! सुन, ये दोनों ही पूर्वजन्ममें सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोंकी विमला और सुप्रभा नामकी प्रिय देवियाँ थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए नन्दीश्वर द्वीपमें गयी थीं । वहाँ इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए इन दोनोंने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्यायके बाद मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा और श्रीषेणा नामकी पुत्रियाँ हुई हैं । यौवन अवस्था प्राप्त कर ये दोनों विवाहके लिए स्वर्गवर-मण्डपके भीतर खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हें अपने पूर्वभवमें की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया । उसी समय इन्होंने समस्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका त्याग कर दीक्षा धारण कर ली । इस प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके वचन सुनकर सुकुमारी बहुत विरक्त हुई और अपने कुटुम्बीजनोकी सम्मति लेकर उसने उन्हीं आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी दूसरे दिन वनमें वसन्तसेना नामकी वेश्या आयी थी, उसे बहुतसे व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे । यह देखकर सुकुमारीने निदान किया कि मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो । आयुके अन्तमें मरकर वह, पूर्वजन्ममें जो सोमभूति नामका ब्राह्मण था और तपश्चरणके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमें देव हुआ था उसकी देवी हुई ॥२४६-२५६॥ वहाँकी उत्कृष्ट आयु बिताकर उन तीनों भाइयोंके जीव वहाँसे च्युत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुषार्थके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन हुए हो । तथा धनश्री और मित्रश्रीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं । इनकी कान्ति चन्द्रमा और सूर्यके समान है । सुकुमारीका जीव काम्पिल्य नगरमें वहाँके राजा द्रुपद और रानी दृढरथाके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है । इस प्रकार नेमिनाथ भगवान्के द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर पाण्डवोंने अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सबजनोंका बन्धुपना यही है । गुणरूपी आभूषणको धारण करनेवाली कुन्ती, सुभद्रा तथा द्रौपदीने भी राजिमति गणिनीके पास उत्कृष्ट दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें तीनोंके जीव सोलहवें स्वर्गमें उत्पन्न हुए और वहाँसे च्युत होकर निःसन्देह समस्त कर्ममलसे रहित हो मोक्ष

विश्वकर्ममलैर्मुक्ता मुक्तिमेव्यन्यसंशयम् । पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितर्द्धयः ॥२६६॥  
 विद्वस्य भाक्तिकाः काश्चिस्समाः संप्राप्य भूधरम् । शत्रुजयं समादाय योगमातपमस्थिताः ॥२६७॥  
 तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तान् । क्रूः कुर्यंवरः स्मृत्वा स्वमातुलवधं क्रुधा ॥२६८॥  
 आयसान्यग्निस्तप्तानि मुकुटादीनि पापमाक् । तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥२६९॥  
 उपसर्गं व्यधात्तेषु कौन्तेयाः श्रेणिमाश्रिताः । शुक्लध्यानानिनिर्देशकमैधाः सिद्धिमाप्नुवन् ॥२७०॥  
 नकुलः सहदेवश्च पञ्चमानुत्तर ययौ । महारकोऽपि सप्रापदूर्जयन्तं धराधरम् ॥२७१॥  
 नवरत्नचतुर्वेषु चतुर्दिवससंयुतै । युतेषु नवभिर्मासैर्विहारविधिविच्युतौ ॥२७२॥  
 पश्चात्पञ्चशतै साधं संयतैस्त्रिंशता त्रिभि । मासं योगं निरुध्यासी हताघातचित्तुकृ ॥२७३॥  
 आषाढमासि ज्यो स्नायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतंशोः सप्तमीपूर्वरात्रौ निर्वाणमाप्तवान् ॥२७४॥  
 वदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याण पञ्चमं परम् । विधाय विधिवद्भक्त्या स्व स्वमोकः पुनर्ययुः ॥२७५॥

स्वधरा

शक्राद्या व्योम्नि दूरादमररिवृद्धा चाहनेभ्योऽवतीर्णा-

स्तूर्णं मूर्धावनन्ना' स्तुतिमुखरमुखाः कुहमकीभूतहस्ताः ।

ध्वस्तान्तर्ध्वान्तधाम्नः प्रणिहितमनसो यरय पादौ प्रणमुः

क्षेमं श्रीमान् स नेमिर्ज्ञटिति घटयतु प्रान्तबोधप्रसिद्धयै ॥२७६॥

शादूलविक्रीडितम्

प्राक्चिन्तागतिरावभावनु ततः कल्पे चतुर्थेऽमरो

अज्ञेऽस्मादपराजितः क्षितिपतिर्जातोऽच्युतेन्द्रन्तः ।

तस्मात्सोऽजनि सुप्रतिष्ठनृपतिर्देवो जयन्तेऽन्वभू-

दासीदन्न महोदयो हरिकुलव्योमामलेन्दुर्जिनः ॥२७७॥

प्राप्त करेगे । जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय भक्तियुक्त हैं ऐसे पाँचों पाण्डव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवान्के साथ विहार करते रहे और अन्तमें शत्रुंजय पर्वतपर जाकर आवापन योग लेकर विराजमान हो गये । वैद्ययोगसे वहाँ दुर्घोषनका मानजा 'कुर्यंवर' आ निकला वह अतिशय दुष्ट था, पाण्डवोंको देखते ही उसे अपने मामाके वधका स्मरण हो आया जिससे क्रुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर अग्निसे तपाये हुए लोहेके मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसर्ग किया । उन पाँचों भाइयोंमें कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो क्षपकश्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी इन्धनको जलाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए । इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्वतपर जा विराजमान हुए ॥२६०-२७१॥  
 उन्होंने छह सौ निन्यानवे वर्ष नौ महाना और चार दिन विहार किया । फिर विहार छोड़कर पाँच सौ तैत्तिस मुनियोंके साथ एक महाने तक योग निरोधकर आषाढ शुक्ल सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रमें-रात्रिके प्रारम्भमें ही चार अघातिया कर्मोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया ॥२६२-२७४॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर बड़ी भक्तियुक्त विधिपूर्वक उनके पंचम कल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानको चले गये ॥२७५॥

जो दूसरे ही आकाशमें अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ्र ही अपने मस्तक झुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़े लिये हैं और जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेव जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे हृदयका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्रीमान् नेमिनाथ भगवान् केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें ॥२७६॥ श्रीनेमि-



सा लक्ष्मीः सकलामराचितपदाभोजो ययायं विभु-

स्तत्कौमारममेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः ।

धीमान् सर्वमिदं जरत्तणसमं मत्वाग्रहीत्संयमं

धत्तां केन न धर्मचक्रमभितो नेमीश्वरो नेमिताम् ॥२७८॥

पृथ्वी

सुमानुरभवत्ततः प्रथमकल्पजोऽस्माच्छ्रुतः

खगाधिपतिरन्वतोऽग्नि चतुर्थकल्पेऽमर ।

वणीडजनि शङ्खवागनु सुरो महाशुक्रज-

स्ततोऽपि नवमो बलोऽनु दिविजस्ततस्तीर्थकृत ॥२७९॥

प्रहर्षिणी

प्रागासीदमृतरसायनस्तृतीये

श्रमेऽभूदनु भववारिधौ श्रमिन्त्वा ।

भूयोऽभूद्गृहपतिरत्र यक्षनामा

निर्नामा नृपतिसुतस्ततोऽमृताशी ॥२८०॥

वसन्ततिलका

तस्मादभून्सुररिपुः कृत्तुनिदाना-

चक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिसन्धः ।

धर्मोद्भवादनुभवन् बहुदुःखमस्मा-

न्निरात्य तीर्थकृदन्वयविघातकृत्सः ॥२८१॥

द्रोहान्मुनेः पलपचः स कृषीरधोऽगा-

त्तद्बीज एव तपसाप्य च चक्रिलक्ष्मीम् ।

नाथ भगवान्का जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमे देव हुआ, वहाँसे आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, वहाँसे आकर सुप्रतिष्ठ राजा हुआ, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुआ और उसके बाद इसी जन्मद्वीपमें महान् वैभवसे धारण करनेवाला, हरिवंशरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीर्थकर हुआ ॥२७७॥ यद्यपि भगवान् नेमिनाथकी वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी वह कुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दर्यरूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, और वह कन्या राजीमति थी कि जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धिमान् भगवान्ने इन सबको जीर्ण वृणके समान छोड़कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान् नेमिनाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाको-चक्रधारपनाको धारण न करें ? ॥२७८॥ बलदेवका जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विद्याधरका राजा हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमे देव हुआ, इसके बाद शंख नामका सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमे देव हुआ, फिर नीवाँवलभद्र हुआ, उसके बाद देव हुआ, और फिर तीर्थकर होगा ॥२७९॥ कृष्णका जीव पहले अमृतरसायन हुआ, फिर तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ हुआ फिर निर्नामा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ और उसके पश्चात् सुरा निदानं करनेके कारण अपने शत्रु जरासन्धको मारनेवाला, चक्ररत्नका स्वामी कृष्ण नामका नारायण हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुःखोंका अनुभव कर रहा है और अन्तमें वहाँसे निकलकर समस्त अनर्थोंका विघात करनेवाला तीर्थकर होगा ॥२८०-२८१॥

ध्वंसं समाप तदपास्तपरिग्रहाणां

माकृध्वमल्पमपि पापधियानकारम् ॥२८२॥

चाणूरमेणमिव यो हतवान् हरिर्वा

कंसंच कंसमिव चाशनिरन्वमैस्तीत् ।

मृत्युर्यथाहृत शिशुं शिशुपालमाज्ञौ

तेजस्विनां कथमिहास्तु न सोऽप्रगण्य ॥ २८३ ॥

शिखरिणी

जरासन्ध हस्त्रोर्जितमिव गर्जं शौर्यं जलधि-

गंजारिर्वा गर्जन् प्रतिरेपुजयाद्विश्वविजयी ।

त्रिखण्डां निष्लषडां करविधुत्तदृण्डोऽप्रतिहतां

यथापाद् बाहये गाः किञ्च खलु स गोपोऽन्वपि ततः ॥२८४॥

मालिनी

क सकलपृथुशत्रुध्वंसनात्साहृतश्रं :

क च स भुवनबाह्यो ह्यो हरेर्मूलनाशः ।

स्वकृतविधिविधानात्कस्य किं चात्र न स्याद्

अमति हि भवचक्रं चक्रनेमिक्रमेण ॥२८५॥

वसन्ततिलका

वध्वान्युराप इवामग्र्यमथान्यनाम

चास्माद्भो. गमदसौ धृतराज्यमार. ।

तदीधनाः कुरत यत्नमखण्डमाधु-

बन्धं प्रति प्रतिपदं सुखलिप्सवश्रेत् ॥२८६॥

कृष्णके जीवने चाण्डाल अवस्थामें मुनिके साथ ग्रीह किया था इसलिये वह दुर्बुद्धि नरक गया और उसी कारणसे तपश्चरणके द्वारा राज्यलक्ष्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुआ इसलिये आचार्य कहते हैं कि परिग्रहका त्याग करनेवाले मुनियोका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी अपकार मत करो ॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणको मार डालता है उसी प्रकार जिसने चाणूरमल्लको मार डाला था, जिस प्रकार वज्र कंस (काँसे) के टुकड़े-टुकड़े कर डालता है उसी प्रकार जिसने कंसके (मथुराके राजाके) टुकड़े-टुकड़े कर डाले थे और जिस प्रकार मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार युद्धमें शिशुपालका हरण किया था—उसे पराजित किया था । ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्योंमें सबसे मुख्य क्यों न हो ? ॥ २८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान् हाथीको जीतकर गरजता है उसी प्रकार शूरवीरताके सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलवान् जरासन्धको जीतकर गर्जना की थी, इन्होंने अपने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था इसलिये ये विश्वविजयी कहलाये थे तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिये गोप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण अवस्थामें भी हाथमें केवल एक दण्ड धारण कर किसीके द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी खण्ड भूमिकी रक्षा की थी इसलिये बादमें भी वे गोप (पृथिवीके रक्षक) कहलाते थे ॥२८४॥ देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णको बड़े-बड़े समस्त शत्रुओंका नाश करनेसे उस आश्चर्यकारी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी और कहाँ समस्त जगत्से जुदा रहकर निर्जन वनमें उनका समूल नाश हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मके अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? यथार्थमें संसाररूपी चक्र पहियेकी हालकी तरह घूमा ही करता है ॥२८५॥ देखो, श्रीकृष्णने

## अनुष्टुप्

अस्यैव तीर्थसंताने ब्रह्मगो धरणीशित्तु । चूडादेव्याश्च संजज्ञ ब्रह्मदत्तो निधीशिनाम् ॥ २८७ ॥  
द्वादशो नामतः सप्त चापः सप्तशताब्दकैः । परिच्छिन्नप्रमाणायुस्त्वदन्ताश्चक्रवर्तिनः ॥ २८८ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितीर्थकर-पद्मनाभ-  
बलदेव-कृष्णनामार्धचक्रि-जरासन्धप्रतिवायुदेव-ब्रह्मदत्तसकलचक्रवर्तिपुराणं  
नाम द्विसप्ततितमं पर्व ॥ ७२ ॥

पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यग्दर्शन तथा तीर्थकर नाम-कर्म प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नरक जाना पड़ा । आचार्य कहते हैं कि हे बुद्धिमान् जन ! यदि आप लोग सुखके अभिलाषी हैं तो पद-पदपर आयु बन्धके लिए अखण्ड प्रयत्न करो अर्थात् प्रत्येक समय इस बातका विचार रखो कि अशुभ आयुका बन्ध तो नहीं हो रहा है ॥ २८६ ॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवान्के तीर्थमें ब्रह्मदत्त नामका बारहवाँ चक्रवर्ती हुआ था वह ब्रह्मा नामक राजा और चूडादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात धनुष ऊँचा था और सात सौ वर्षकी उसकी आयु थी । वह सब चक्रवर्तियोंमें अन्तिम चक्रवर्ती था—उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ ॥ २८७-२८८ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणमद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें नेमिनाथ तीर्थकर, पद्म नामक बलभद्र, कृष्ण नामक अर्धचक्रवर्ती, जरासन्ध प्रतिनारायण और ब्रह्मदत्त नामक सकल चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला बहचरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### त्रिसप्ततितमं पर्व

स पातु पार्श्वनाथोऽस्मान् यन्महिम्नैव भूधरः । न्यपेधि केवल मक्तिभोगिनीछत्रधारणम् ॥१॥  
 धर्मश्वेताऽपजं ते सुते विश्वत्रिसर्पिणीम् । छायां पापातपच्छुष्टास्तथापि किञ्च केचन ॥२॥  
 सर्वसायां मवद्भावां सत्यां सर्वोपकारिणीम् । सन्तः शृण्वन्ति सन्तुष्टाः खळास्तां च न जातुचित् ॥३॥  
 अममिष्यक्तमाहात्म्या देव<sup>३</sup> तीर्थंकराः परे । त्वमेव व्यक्तमाहात्म्यो वैाच्या ते साधु तत्कथा ॥४॥  
 कुमार्गं शरिणी यस्माद्यस्मत्सन्मार्गाधारिणी । तत्ते धर्म्यां कथां वक्ष्ये मन्व्यानां मोक्षगामिनाम् ॥५॥  
 जम्बूविशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महात् । सुरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्णं पोद्दं पुरम् ॥६॥  
 रक्षिताश्चारविन्द्याह्यो विख्यातो विक्रमादिभिः । पिप्रियुस्तं समाश्रित्य प्रजापतिमिव प्रजाः ॥७॥  
 तत्रैव विश्वमृत्याहयो<sup>३</sup> ब्राह्मणः श्रुतिशास्त्रवित् । ब्राह्मण्यनुन्धरी तस्य प्रीत्यै श्रुतिरिवारा ॥८॥  
 अभूतामेतयोः पुत्रौ विपाशृतकृतोपमौ । कमठो मरुभूतिश्च पापधर्माविधारौ ॥९॥  
 वरुणा ज्यायसो भार्या द्वितीयस्य वसुंधरी । मन्त्रिणौ तौ महीपस्य कनीयास्त्रीतित्विचयोः ॥१०॥

अथानन्तर-धरणेन्द्र और भक्तिवश पद्मावतीके द्वारा किया हुआ छत्रधारण-इन दोनों का निपेध जिनकी केवल महिमासे ही हुआ था वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करे । भावार्थ—तपश्चरणके समय भगवान् पार्श्वनाथके ऊपर कमठके जीवने जो उपसर्ग किया था उसका निवारण धरणेन्द्र और पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके बीच उन्हें केवलज्ञान हो गया उसके प्रभावसे उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा बढ़ गयी । केवलज्ञानके समय होनेवाले माहात्म्यसे धरणेन्द्र और पद्मावतीका कार्य अपने आप समाप्त हो गया था ॥१॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका धर्मरूपी श्वेत छत्र समस्त संसारमें फैलनेवाली छायाको उत्पन्न करता है तो भी आश्चर्य है कि कितने ही लोग पाप रूपी घामसे सन्तप्त रहते हैं ॥२॥ सर्व भाषा रूप परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सबका उपकार करनेवाली आपकी दिव्यध्वनिको सन्तुष्ट हुए सज्जन लोग ही सुनते हैं—दुर्जन लोग उसे कभी नहीं सुनते ॥३॥ हे देव ! अन्य तीर्थंकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ॥४॥ आचार्य कहते हैं कि हे प्रभो ! चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्गका निवारण और सन्मार्गका प्रसारण करनेवाली है अतः मोक्षगामी श्रव्य जीवोंके लिए उसे अवश्य कहूँगा ॥५॥

इसी जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रमे एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है और उसमें बड़ा विशुद्ध पोद्दनपुर नगर है ॥६॥ उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरविन्द नामका राजा राज्य करता था उसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापति भगवान् आदिनाथको पाकर सन्तुष्ट थी । उसी नगरमें वेद-शास्त्रको जाननेवाला एक विश्वभूति नामक ब्राह्मण रहता था उसे प्रसन्न करनेवाली दूसरी श्रुतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी ब्राह्मणी थी ॥ ७-८ ॥ उन दोनोंके कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विप और अमृतसे बनाये हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप और धर्मके समान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम वसुन्धरी था । ये दोनों राजाके मन्त्री थे और

१ ख० पुस्तके निम्नांकितो श्लोकावधिको—'एकपट्टपुत्रमनरा सर्वस्या भरतावनी । अपरा गुणगम्भीरा वन्तु मन्व्यनुगा मिथ ॥ १ ॥ आदीश्वराद्या अर्हन्तो भरताद्याश्च चक्रिण । विष्णुप्रतिविष्णुवला पान्तु मन्वान् मवाण्वात् ॥ २ ॥ पाशर्वकेऽन्योऽन्यं श्लोकां निबद्धः 'एकपट्टिमहानुषा पुराण पूर्णतामगात् । द्वापट्टेः पार्श्वनाथस्य ददाम्यस्मिन् पुराणकम्' ॥ २ देवास्तीर्थकराः ख० । ३ —भूताख्यो ल०, ग० ।

वसुंधरीनिमित्तेन सदाचारं सतां मतम् । मरुभूतिं दुराचारी जघान कमठोऽधमः ॥११॥  
 मकये कुब्जकाख्याने विपुले सल्लकीवने । मरुभूतिरभून्मृत्वा वज्रघोषो द्विपाधिपः ॥१२॥  
 वरुणा च मृता तस्य करेणुरभवत्प्रिया । तयोस्तस्मिन्वने प्रीत्या काले गच्छत्युत्तुक्ते ॥१३॥  
 अग्विन्दमहाराजस्यैवत्वा राज्यं विरज्य सः । सप्राप्य संयमं सार्धेनामा सम्मदमीवितुम् ॥१४॥  
 ब्रजन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगभागमत् । नोल्लङ्घन्ते नियोगं स्वं मनागपि मनस्विनः ॥१५॥  
 विकोक्य तं महानागश्चिं प्रसूतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥१६॥  
 वीक्ष्य वक्षःस्थले साक्षान्मंक्षु श्रीवत्सलाञ्छनम् । स्वपूर्वं मवसंबन्धं प्रत्यक्षीकृत्य चेतसा ॥१७॥  
 तस्मिन्प्राक्तनसौहादरि तोषी जोषमास्त सः । तिर्यञ्चोऽपि सुहृद्भावं पाकयन्त्येव बन्धुषु ॥१८॥  
 धर्मतर्कं मुनेः सम्यग्ज्ञात्वा तस्मात्सहेतुकम् । स प्रोषधोपवासादि श्रावकव्रतमग्रहीत् ॥१९॥  
 तदा प्रभृति नागेन्द्रो मग्नशाखाः परैर्द्विपैः । खादंस्तृणानि शुष्काणि पत्राणि च मयादवात् ॥२०॥  
 उपकाशकाक्षेपद्विपसंघातघटितम् । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महाबलः ॥२१॥  
 चिरमेवं तपः कुर्वन् क्षीणदेहपराक्रमः । कञ्चित्प्राप्तुमायातो वेगवत्या हृद्रेऽपतत् ॥२२॥  
 पङ्के पुनः समुत्थातु विहितेहोऽप्यशकनुचन् । कमठेन कुवृत्तेन कुक्कुटाहित्वमोयुषां ॥२३॥  
 पूर्ववैरानुबन्धेन दूधो निर्मष्टर्जावितः । अभूत्कल्पे सहस्रारं षोडशाब्धुपमायुषां ॥२४॥  
 तत्र भोगान्यथायोग्यं मुक्त्वा प्रान्ते ततश्च्युतः । द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विद्रेऽस्ति त्रिषयः पुष्कळावतो ॥२५॥

इनमें छोटा मरुभूति नीतिक आच्छा जानकार था ॥१०॥ नीच तथा दुराचारी कमठने वसुंधरीके निमित्तसे सदाचारी एवं सज्जनोंके प्रिय मरुभूतिको मार डाला ॥११॥ मरुभूति मरकर मलय देशके कुब्जक नामक सल्लकीके बड़े भारी वनमें वज्रघोष नामका हाथी हुआ । वरुणा मरकर उसी वनमें हथिनी हुई और वज्रघोषके साथ क्रीड़ा करने लगी । इस प्रकार दोनोंका बहुत भारी समय प्रीतिपूर्वक व्यतीत हो गया ॥१२-१३॥ किसी एक समय राजा अरविन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और सयम धारण कर सब संघके साथ वन्दना करनेके लिए सम्मद शिखरकी ओर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी वनमें पहुँचे और सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गये सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते हैं ॥१४-१५॥ उन्हें देखकर, जिसके दोनों कपोल तथ ललाटेसे मद् झर रहा है ऐसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमा-योगके धारक अरविन्द मुनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥१६॥ परन्तु उनके वक्षःस्थल-पर जो वत्सका चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पूर्वभवका सम्बन्ध साक्षात् दिखाई देने लगा ॥१७॥ मुनिराजमें पूर्वजन्मका स्नेह होनेके कारण वह महाहाथी नुमचाप खड़ा हो गया सो ठीक ही है क्योंकि तिर्यच भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीभावके पालन करते हैं ॥१८॥ उस हाथीने उन मुनिराजसे हेतुपूर्वक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपवास आदि श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥१९॥ उस समयसे वह हाथी पापसे डरकर दूसरे हाथियोंके द्वारा तेड़ी हुई वृक्षकी शाखाओं और सूखे पत्तोंको खाने लगा ॥२०॥ पत्थरोपर गिरनेसे अथवा हाथियोंके समूहके संघटनसे जो पानी प्राप्त हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोषधोपवासके बाद पारणा करता था । इस प्रकार चिरकाल तक तपश्चरण करता हुआ वह महाबलवान् हाथी अत्यन्त दुर्बल हो गया । किसी एक दिन वह पानी पीनेके लिए वेगवती नदीके दूधमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया । यद्यपि कीचड़से निकलनेके लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थ नहीं हो सका । वहींपर दुराचारी कमठका जीव मरकर कुक्कुट साँप हुआ था उसने पूर्व पर्यायके वैरके कारण उस हाथीको काट खायी जिससे वह मरकर सहस्रार स्वर्गमें सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥ २१-२४ ॥ यथायोग्य रीतिसे वहाँके भोग भोगकर वह आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हुआ

तत्क्षेचराचके राजा त्रिलोकोत्तमनामनि । पुरे विद्युद्गतिर्विद्याधरेभस्त्वस्य बल्लभा ॥२६॥  
 विद्यन्माला तयोः सूनू रश्मिवेगाख्ययो<sup>१</sup> जनि । सपूर्णयौवनो धीमान्प्रत्यासन्नजनवावधिः ॥२७॥  
 समौधिगुह्यमासाध मुनिं संप्राप्य संयमम् । गृहीतसर्वतोमद्रप्रभृत्युश्रोपवासकः ॥२८॥  
 परेषुहिमगिर्यद्रिगुहायां योगमादधत् । प्राप्तभूमप्रभाटु<sup>२</sup>खकुडुडोरगपापिना ॥२९॥  
 ततश्च्युतेन भूत्माजगरेणालोक्य कोपिना । निगोणोऽच्युतकल्पस्ये विमाने पुष्करेऽभवत् ॥३०॥  
 द्वाविंशत्यधिमानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपेऽपरे विदेहेऽस्मिन् विषये पचासंशुके ॥३१॥  
 महौशोऽश्वपुराधीशो वज्रवीर्यस्य भूपतेः । विजयायाश्च तद्देव्या वज्रनाभिः सुतोऽभवत् ॥३२॥  
 स चक्रलक्षितां लक्ष्मीं मक्षुण्णां पुण्यरक्षितः । भुक्त्वाप्यनृपनुवन्भोवन्तु मोक्षलक्ष्मीं समुद्यतः ॥३३॥  
 क्षेमंकराख्यमट्टारकस्य वज्रत्र, वज्रनिर्मातम् । धर्मासृतरसं धीत्वा त्यक्ताशेषरससृष्ट ॥३४॥  
 सुतं स्वराज्ये सुस्थाप्य राजनिर्बहुभिः समम् । संयमं समगाधस्यवसर्वसत्त्वानुकम्पनम् ॥३५॥  
 प्राक्तनोऽजगरः षष्ठनरके तनुमाश्रितः । द्वाविंशत्यधिगसंख्यानजीवितेनाविदुःखितः ॥३६॥  
 चिरात्समाद्विनिर्गत्य कुरङ्गाख्यो वनेचर । कम्पयन्वनसंभूतान् संभूतः सर्वदेहिनः ॥३७॥  
 विवर्जितातध्यानस्य विधृतातपनस्थितेः । तस्य त्यक्तशरीरस्य शरीरबलशक्तिनः ॥३८॥  
 तपोधनस्य चक्रेशो<sup>४</sup> वोर कातरदुस्सहम् । उपसर्गं स्फुरद्द्वैरः स पापी बहुधा व्यधात् ॥३९॥  
 धर्मध्यानं प्रविश्यासौ समाराध्य सुरोत्तमः । समुत्पन्नः सुमद्राख्ये सहदमध्यममध्यमे ॥४०॥

और इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे जो पुष्कलावती देश है उसके विजयार्ध पर्वतपर विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगरमे वहाँके राजा विद्युद्गति और रानी विद्यन्मालाके रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ । जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गयी है ऐसे उस बुद्धिमान् रश्मिवेगने सम्पूर्ण यौवन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर ली तथा सर्वतोभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किये ॥२५-२८॥ किसी एक दिन वह हिमगिरि पर्वतकी गुहामें योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सर्पने वज्रघोष हाथीको काटा था वही पापी भूमप्रभा नरकके दुःख भोगकर निकला और वहीपर अजगर हुआ था । उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे उनका जीव अच्युत स्वर्गके पुष्कर विमानमें बाईस सागरकी आयुवाला देव हुआ । वहाँकी आयु समाप्त होनेपर वह पुण्यात्मा, जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पद्मनामक देश सम्बन्धी अश्वपुर नगरमें वहाँके राजा वज्रवीर्य और रानी विजयाके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ ॥२९-३१॥ पुण्यके द्वारा रक्षित हुआ वज्रनाभि, चक्रवर्तीकी अखण्ड लक्ष्मीका उपभोग कर भी सन्तुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्षलक्ष्मीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ ॥३३॥ उसने क्षेमंकर मट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए धर्मरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्यपर पुत्रको स्थापित कर अनेक राजाओंके साथ समस्त जीवोंपर अनुकम्पा करनेवाला संयम अच्छी तरह धारण कर लिया ॥३४-३५॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था मरकर छूटे नरकमें उत्पन्न हुआ और वहाँ बाईस सागर तक अत्यन्त दुःख भोगता रहा ॥३६॥ चिरकाल बाद वहाँसे निकलकर कुरंग नामका भील हुआ । यह भील उस वनमें उत्पन्न हुए समस्त जीवोंको कम्पित करता रहता था ॥३७॥ किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरसे स्नेह छोड़नेवाले तस्वी चक्रवर्ती वज्रनाभि आर्तध्यान छोड़कर उस वनमें आतापन योगसे विराजमान थे । उन्हें देखते ही जिसका वैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराजपर कायर जनकों द्वारा असहनीय अनेक प्रकारका भयंकर उपसर्ग किया ॥३८-३९॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें प्रवेश कर तथा अच्छी तरह आराधनाओंकी आराधना कर सुभद्र नामक मध्यमश्रेयैयके मध्यम

१ - रश्मिवेगाख्योऽजनि ल०, ( छन्दोभङ्गः ) । - रश्मिवेगाख्ययाजनि म०, ल० । २ - हृदिगिर्यद्रि ल० । ३ - कम्पकम् ल० । ४ - चक्रेशी ल० ।

सप्तविंशतिवारशिमेयायुर्दिव्यभोगमाक । ततश्च्युतोऽस्मिन् द्वीपेऽसौ जम्बूभूम्हभूषिते ॥४१॥

कौशले विषयेऽयोध्यानगरे काश्यपान्वये । इक्ष्वाकुवंशजातस्य वज्रबाहुमहीभृतः ॥४२॥

सुतो देव्यां प्रमंकर्यामानन्दारुख्योऽजनि प्रियः । स प्रसाप्तमहाप्राण्डलिकस्थानो महोदयः ॥४३॥

स्वस्य स्वामिहितारुख्यस्य महतो मन्त्रिणोऽन्यदा । वाचा<sup>१</sup> वसन्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाष्टके ॥४४॥

पूजां निर्वर्त्तयन्पुत्रुकामं तत्र समागतम् । विपुलादिमति दृष्ट्वा गणेशं प्रश्रयाश्रयः ॥४५॥

अभिवन्ध समाकर्ण्य सद्धर्मं सर्वशर्मदम् । मगवन् किंचिदिच्छामि श्रोतुं मे संवासास्पदम् ॥४६॥

अचेतने कथं पूजा निग्रहानुग्रहच्युते । जिनशिवे कृता भक्तिमतां पुण्यं फलस्यसौ ॥४७॥

इत्यष्टच्छदसौ चाह सहेत्विति वचस्तदा । शृणु राजन् जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादि<sup>२</sup> च ॥४८॥

भवत्यचेतनं किन्तु मन्थानां पुण्यबन्धने । परिणामसमुत्पत्तिहेतुस्वाकारणं भवेत् ॥४९॥

रागादिदोषहान्त्वदादायुधामरणादिकात् । विमुखस्य प्रसन्ननेन्दुकान्निहासिमुखश्रियः ॥५०॥

अवर्तिताक्षसूत्रस्य लोकालोकावलोकितः । कृतार्थत्वात्परित्यक्तजटादे<sup>३</sup> परमात्मनः ॥५१॥

जिनेन्द्रस्यालयास्तस्य प्रतिमाश्च प्रपश्यताम् । भवेच्छ्रुभामिसंधानप्रकर्षां नान्यतस्तथा ॥५२॥

कारणद्वयसानिध्यासर्वकार्यसमुद्भवः । तन्मात्तसाधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम् ॥५३॥

तत्कथावसरं लोकत्रयचैत्यालयाकृतीः । सम्यग्वर्णयितुं वाञ्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥५४॥

जिनेन्द्रभवने पूर्वां विभूतिं सोऽन्ववर्णयन् । तामसाधारणीं श्रुत्वानन्दः श्रद्धां परां वहन् ॥५५॥

दिनादौ च दिनान्ते च कराम्भ्यां कृतकुन्दमलः । स्तुवन्नानश्रमुकुटो जिनेशान् मण्डले रवेः ॥५६॥

विमानमें सम्यग्दर्शनका धारक श्रेष्ठ अहमिन्द्र हुआ ॥४०॥ वहाँ वह सत्ताईस सागरकी आयु तक दिव्य भोग भोगता रहा । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके कौशल देश सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काश्यप गोत्री इक्ष्वाकुवंशी राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकरिके आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ । बड़ा होनेपर वह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ ॥४१-१३॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे बसन्तऋतुकी अष्टाह्निकाओंमें पूजा करायी । उसे देखनेके लिए वहाँपर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे । आनन्दने उनकी बड़ी विनयसे वन्दना की तथा उनसे सब जीवोंको सुख देनेवाला समीचीन धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर कहा कि हे भगवान् ! मुझे कुछ संशय हो रहा है उसे आपसे सुनना चाहता हूँ ॥४४-४६॥ उसने पूछा कि जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा तो अचेतन है उसमें भला-बुरा करनेकी शक्ति नहीं है फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनोंको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है ॥४७॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार बचन कहे कि हे राजन् ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा और जिनेन्द्र मन्दिर अचेतन हैं तथापि अन्य जीवोंके पुण्य-बन्धके ही कारण हैं । यथार्थमें पुण्यबन्ध परिणामोंसे होता है और उन परिणामोंको उत्पत्तिमें जिनेन्द्रकी प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पड़ते हैं । जिनेन्द्र भगवान् रागादि दोषोंसे रहित हैं, शस्त्र तथा आभूषण आदिसे विमुख हैं, उनके मुखकी शोभा प्रसन्न चन्द्रमाके समान निर्मल है, लोक अलोकके जाननेवाले हैं, दृढदृढस्य हैं, जटा आदिसे रहित हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका दर्शन करनेवाले लोगोंके शुभ परिणामोंमें जैसी प्रकर्षता होती है वैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि समस्त कार्यको उत्पत्ति अन्तरंग और बहिरंग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमा पुण्यबन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है ॥४८-५३॥ इसी उपदेशके समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके आकार आदिका वर्णन करना चाहा और सबसे पहले उन्होंने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी विभूतिका अच्छी तरह वर्णन किया भी । उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको बहुत ही श्रद्धा हुई । वह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर तथा

१ वचसा, इत्यपि वचवित् । २ राजा, इत्यपि वचवित् । ३ फाल्गुन इत्यपि वचवित् । ४ वा ल० ।

५ विमुखस्य ल० । ५ जपादे. ल० ।

शिशिपुभिः कारयित्वाकविमानं मणिकाञ्चनैः । क्रोडीकृतजिनाधीशनवनं विततद्युति ॥५७॥  
 शाश्वोक्तत्रिधिना भक्त्या पूजामाष्टाह्निकीं व्यधात् । चतुर्मुखं रथावर्तं सर्वतोमद्रसूचितम् ॥५८॥  
 कल्पवृक्षं च दोनेभ्यो दददानमवारितम् । तद्विक्रोक्य जनां सर्वे तदपामाण्यात्स्वयं च तत् ॥५९॥  
 स्तोत्रुमारोमिरे भक्त्या मण्डलं चण्डरोचिषः । तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन् वभुवार्कपसेवनम् ॥६०॥  
 अथान्यदा-किञ्चानन्दो महीदं शिरसि बुद्धवान् । पङ्क्तिं दलयद्यौवनाथिनां हृदय द्विधा ॥६१॥  
 तन्निमित्तसमुद्रभूतनिर्वाणो व्येष्टसुनवे । सामिपेक निजं राज्यं दत्त्वाद्दत्ताष्टहं तपः ॥६२॥  
 यतः समुद्रगुप्तस्य समीपे बहुभिः समम् । राज्ञी राजसं भावं परित्यज्य सुलेडयथा ॥६३॥  
 साराधनाचतुष्कः सन्विशुद्धयैकादशाङ्गुलः । प्रत्यथास्तीर्थकृष्णान्नो भावयामास षोडश ॥६४॥  
 यथोक्तं भावयित्वाज्ञानम वद्व्यान्तिमं शुभम् । चिरं वीरं तप कृत्वा प्रान्ते शान्तान्तरात्मकः ॥६५॥  
 प्राथोपगमनं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने धर्मध्यानाधीनो निराकुलः ॥६६॥  
 कमठः प्राक्तनः पापी प्रच्युतो नरकक्षितेः । कण्ठीरवखवासाम्ना तन्मुनेः कण्ठमग्रहीत् ॥६७॥  
 सोढसिंहोपसर्गोऽसौ चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशो विमाने प्राणतेऽभवत् ॥६८॥  
 तत्र विश्रितिवाराश्रिविहितोपमजोवितः । साधारतिनत्रयोन्मेषशरीरं शुक्लेड्यया ॥६९॥  
 दशमासांगन्निधासौ मनसाऽमृतमाहरन् । खचतुष्कद्विवर्धन्ते मनसा स्त्रीप्रचारवान् ॥७०॥  
 आपञ्चमक्षितिन्यासतृतीयावगमेक्षण । स्वावधिक्षेत्रमानामाविक्रियावकसंगतः ॥७१॥  
 सामानिकादिसर्वद्विसुधाशनसमचित्तः । कान्तकामप्रदानेकदेवीकृतसुधाकरः ॥७२॥

सुकुट झुकाकर सूर्यके विमानमें स्थित जिन-प्रतिमाओंकी स्तुति करने लगा । यही नहीं, उसने कारीगरोंके द्वारा मणि और सुवर्णका एक सूर्य-विमान भी बनवाया और उसके भीतर फैलती हुई कान्तिका धारक जिन-मन्दिर बनवाया । तदनन्तर उसने शाश्वोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक आष्टाह्निक पूजा की । चतुर्मुख, रथावर्त, सबसे बड़ी सर्वतोमद्र और दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली कल्पवृक्ष-पूजा की । इस प्रकार उस राजाको सूर्यकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी स्वयं भक्तिपूर्वक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे । आचार्य कहते हैं कि इस लोकमें उसी समयसे सूर्यकी उपासना चल पड़ी है ॥५४-६०॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा आनन्दने यौषन चाहनेवाले लोगोंके हृदयको दो टुक करनेवाला सफेद बाल अपने शिरपर देखा । इस निमित्तसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया । विरक्त होते ही उसने बड़े पुत्रके लिए अभिषेकपूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराजके समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओंके साथ निःस्पृह ( निःस्वार्थ ) तप धारण कर लिया । शुभ लेश्याके द्वारा उसने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीर्थंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तन किया, शास्त्रानुसार सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और त्रिकाल तक घोर तपश्चरण किया । आयुके अन्तमें, जिसकी अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हो गयी है, जो धीर वीर है, धर्मध्यानके अधीन है और आकुलवारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि प्राथोपगमन संन्यास लेकर क्षीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हुआ ॥६१-६६॥ पूर्व जन्मके पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी वनमें सिंह हुआ था सो उसने आकर उन मुनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥६७॥ इस प्रकार सिंहका उप-सर्ग सहकर चार आराधनारूपी धनको धारण करनेवाला वह मुनि प्राणरहित हो अच्युत स्वर्गके प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ ॥६८॥ वहाँपर उसकी बीस सागरकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वह दश माह बाद इवास लेता था, और बीस हजार वर्ष बाद मानसिक अमृतहार ग्रहण करता था । उसके मानसिक खीप्रवीचर था, पँचवीं पृथिवी तक अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दूरी तक ही उसकी कान्ति, विक्रिया और बल था, सब ऋद्धियोंके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान करनेवाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुख खान था । इस प्रकार समस्त विषय-भोग



विश्वान्वैषयिकान्भोगान् शश्वत्संप्राप्य निर्विशन् । तल्लोकी लीलयाम् कालमलां वीरकलयन्कलाम् ॥७३॥  
 षण्मासैरन्निमैस्तस्मिन्नागमिष्यत्यम् महौम् । द्वीपेऽस्मिन् भरते काशीविषये नगरेऽधिपः ॥७४॥  
 कारणस्यासम्बुद्धिश्चखेनः काश्यपगोत्रजः । ब्राह्मणस्य देवी संप्राप्तवसुधारादिपूजना ॥७५॥  
 वैशाखकृष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशात्यये । विशाखर्क्षे शुभस्त्राक्षिरीक्ष्य तदनन्तरम् ॥७६॥  
 स्ववन्त्राजत्रप्रविष्टोऽहं गजपतिरुज्ज्वली १ । प्रभातपटहध्वानसमुन्मीलितकोचना ॥७७॥  
 मङ्गलाभिषवाविष्टुष्टिः २ पुण्यप्रसाधना । विभावरीव सज्ज्योत्स्ना राजानं सद्गुरेय सा ॥७८॥  
 वृत्तोपचारा संविद्य विष्टराधे ३ महौपतेः । स्वदृष्टसकलस्वप्नान्यथाक्रममभाषत ॥७९॥  
 श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्वेवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रवीक्षणायुत्रो वृषभालोकनात्यतिः ॥८०॥  
 त्रिविष्टपस्य सिंहेन दृष्टेनानन्तवीर्यकः । मन्दराभिषवप्राप्तिः पद्माभिषवदर्शनात् ॥८१॥  
 दामद्वयाचलोत्तरेन धर्मद्वितयतीर्थकृत् । शशाङ्कमण्डलालोकात् त्रैलोक्यकुसुदप्रियः ॥८२॥  
 तेजस्वी भास्वतो मत्स्ययुगलेन सुखाविलः । निधीनामधिपः कुम्भवीक्षणायस्वर्वलक्षणः ॥८३॥  
 सरसः सागरास्त्वन्जाता सिंहासनैक्षणत् । सर्वलोकैकसंमान्यः स्वर्गाद्यावतीर्णवान् ॥८४॥  
 अवताराद्दिमानस्य भवनात्पवनाशिनः । त्रिषोषदीधिती रत्नराशिनालङ्कितो १ गुणैः ॥८५॥  
 विधूमधूमकेतूपलक्षणाहाहकोऽहं साम् । वक्त्राम्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेशात्ते कुशोदरि ॥८६॥  
 अवस्थितिं स संप्रापहुदरेऽमरपूजितः । इति श्रुत्वाऽस्तुषद्वाणीं पत्युरेणीविकोचना ॥८७॥

प्राप्त कर वह निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था और उन्हींमें सत्पुण्य रहकर लीलापूर्वक बहुत लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥६-७३॥ जिस समय उसकी आयुके अन्तिम छह माह रह गये और वह इस पृथिवीपर आनेके लिए सम्मुख हुआ उस समय इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र-सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था । उसमें काश्यपगोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था । देवोंने रत्नोंकी धारा बरसाकर उसकी पूजा की थी । रानी ब्राह्मीने वैशाखकृष्ण द्वितीयाके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःकालके समय बजनेवाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख खुल गयी और मंगलाभिषेकसे सन्तुष्ट होकर तथा वक्त्राभरण पहनकर वह राजाके समीप इस प्रकार पहुँची मानो चाँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ॥७४-७८॥ आदरपूर्वक वह महाराजके आगे सिंहासनपर बैठी और अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रमसे कहने लगी ॥७९॥ महाराज विश्वसेन अधिष्ठानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे । वे बोले कि हाथीके स्वप्नसे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे वह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, सिंहके देखनेसे अनन्त वीर्यका धारक होगा, लक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्वतपर अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो माताओंको देखनेसे वह गृहस्थ धर्म और सुनि धर्मरूप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके देखनेसे तेजस्वी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा, सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंसे युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वज्ञ होगा, सिंहासनके देखनेसे समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतार लेनेवाला होगा, नागेन्द्रका भजन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंसे आलिंगित होगा, विधूम अग्निके देखनेसे पापोंको जलानेवाला होगा और हे कुशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश देखनेसे सूचित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित होने वाला वह पुत्र आज तेरे उदरमें आकर विराजमान हुआ है । इस प्रकार वह मृगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई ॥८०-८७॥

१ अत्रैतसीत् म०, टि० । कालेमालामैकलयत् ल० ( ? ) । २ ब्रह्मास्य ल० । ३ विलोकनी ल० ।  
 ४ पुष्टिं ध०, ग० । ५ 'सजानं नृपं चन्द्रं वा ।' 'राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यथे क्षत्रियसक्रयोः' इति कौषिः ।  
 ६ विष्टरार्ध ल० । ७ स्वर्गं ख० । ८ लिङ्गतो ल० ।

तदाखिलाभराधीशाः समागत्य वयधुमुदा । स्वर्गावतरणे पित्रोः कल्याणाभिषेकोत्सवम् ॥८८॥  
 स्वर्गलोकं च तद्गोहमविशेते स्म संपदा । किं करोति न कल्याणं कृतपुण्यसमागमम् ॥८९॥  
 नबन्म मासि संपूर्णं पीपे मास्यसिते सुतः । पक्षे योगेऽनिके प्रादुरासीद्देवादृशोतिथौ ॥९०॥  
 तदा निजासनाकम्पाद् ज्ञात्वा तीर्थकरोदयम् । सौधर्मप्रमुखाः सर्वे भन्दराचकमस्तके ॥९१॥  
 जन्माभिषेककल्हप्राणपूजानिर्वृत्यनन्तरम् । पार्श्वान्निधानं कृत्वास्थ पितृभ्यां तं समर्पयन् ॥९२॥  
 नेत्र्यन्तरे खपञ्चरगम्यष्टमितवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ॥९३॥  
 पादर्वनाथः समुत्पन्नः शतसंनसरायुषा । बालशाकितितुच्छायः सर्वलक्षणकक्षितः ॥९४॥  
 नवारहितनूत्सेधो लक्ष्मीवानुप्रवशजः । षोडशाब्दावसानेऽयं कदाचिन्नवयौवनः ॥९५॥  
 ऋीडार्थं स्वबलेनामा निर्यायायाद् बहिः पुरम् । आश्रमादिवने मातुर्महीपालपुराधिपम् ॥९६॥  
 पितरं तं महीपालनामानममराजिता । महादेवीवियोगेन दुःखात्तपसदीक्षितम् ॥९७॥  
 तपः कुर्वन्तमालोक्य पञ्चपावकमभ्यगम् । तत्समीपे कुमारोऽस्थादन्तत्वेनमनादरः ॥९८॥  
 अविचार्यं तदाविष्टः कोपेन कुमुनिर्गुरुः । कुलीनोऽहं तपोवृद्धः पिता मातुर्ममस्क्रियाम् ॥९९॥  
 अकृत्वा मे कुमारोऽज्ञः स्थितवान्मद्विह्वलः । हृति प्रक्षोभमागत्य प्रक्षान्ते पावके पुनः ॥१००॥  
 निक्षेप्तुं स्वयमेवोच्चैर्हक्षिष्य परशुं घनम् । भिन्दन्निधनमज्ञोऽसौ मा भैत्सीरत्र विद्यते ॥१०१॥  
 प्राणीति वार्यमाणोऽपि कुमारोणावधित्विषा । भन्दतिष्ठदयं कर्म तस्य भ्यन्तरवर्तिनौ ॥१०२॥

उसी समय समस्त इन्द्रोने आकर बड़े हर्षसे स्वर्गावतरणकी वेलासे भगवान्के माता-पिताका कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ॥८८॥ उस समय महाराज विद्वसेनका राजमन्दिर अपनी संपदाके द्वारा स्वर्गलोकका भी उल्लंघन कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंका समागम कौन-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थात् सभी कल्याण करता है ॥८९॥ नौ माह पूर्ण होनेपर पौषकृष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उत्पन्न हुआ ॥९०॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे सौधर्म आदि सभी इन्द्रोने तीर्थकर भगवान्के जन्मका समाचार जान लिया तथा सभीने आकर सुमेरु पर्वतके मस्तकपर उनके जन्मकल्याणककी पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रखा और फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥९१-९२॥ श्री नेमिनाथ भगवान्के बाद तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत जानेपर मृत्युको जीतनेवाले भगवान् पादर्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु सौ वर्षकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त अन्तरालमें शामिल थी । उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे पौधेके समान हरे रंगकी थी, वे समस्त लक्षणासे सुशोभित थे, नौ हाथ ऊंचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीवान् थे और उग्र वंशसे उत्पन्न हुए थे, सोलह वर्ष बाद जब भगवान् नव यौवनसे युक्त हुए तब वे किसी समय क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके साथ नगरसे बाहर गये । वहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका पिता, महीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपसी होकर तप कर रहा था, वह पंचाग्नियोंके बीचमें बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था । देवोंके द्वारा पूजित भगवान् पादर्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये बिना ही अनादरके साथ खड़े हो गये । यह देख, वह खोटी साधु, बिना कुछ विचार किये ही क्रोधसे युक्त हो गया । वह मनमें सोचने लगा कि 'मैं इतना हूँ—उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूँ—तपके द्वारा बड़ा हूँ, और इसकी माताका पिता हूँ फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विह्वल हुआ मुझे नमस्कार किये बिना ही खड़ा है' ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ और वृद्धती हुई अनिममें डालनेके लिए चढ़ाए पर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान् पादर्वनाथ 'इसे मत काटो, इसमें जीव है' यह कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट ही डाली । इस कर्मसे उस लकड़ीके भीतर रहनेवाले सर्प और सर्पिणीके दो-दो टुकड़े हो

नागी नागश्च तच्छेदाद् द्विधा खण्डमुपागतौ । तन्निरक्ष्य सुमौमाख्यकुमारः सममाषत् ॥१०३॥  
 अहं गुरुस्तपस्वीति गर्वं दुर्वहसुद्रहन् । पापास्त्रवो भवत्यस्मान्न वेत्येतच्च वेस्ति न ॥१०४॥  
 अज्ञानतपसानेन दुःखं तेऽत्र परत्र च । इति तद्वचनात्कोपी मुनिरित्यं तमब्रवीत् ॥१०५॥  
 अहं प्रभुर्ममायं किं वा करोतीत्यवज्ञया । तपसो मम माहात्म्यमनुदुःखैव ब्रवीषि किम् ॥१०६॥  
 पञ्चाग्निमध्यवर्तित्वं पवनाहारजीवनम् । ऊर्ध्वबाहुतया पादेनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥१०७॥  
 स्वयंपतितपर्णाद्वैरुपवासेन पारणम् । इत्यादिकायसनापि तापसानां सुदुर्धरम् ॥१०८॥  
 तपो नाधिकमस्त्यस्मादिति तद्वचनश्रुतेः । सुमौमः सस्मितोऽवादीक्ष भवन्तमहं गुरुम् ॥१०९॥  
 अवमन्ये पुनः किं तु संत्यज्याप्तागमादिकम् । मिथ्यास्वादिवचतुष्केण पृथिव्यादिषु षट्स्वपि ॥११०॥  
 वाचा कायेन मनसा कृतकादित्रिकेण च । वधे प्रवर्तमानानामनासमतसंश्रयात् ॥१११॥  
 निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्डुळावासिवाञ्छया । तुषखण्डनखेदो वा घृतेच्छा वाग्मुमन्थनात् ॥११२॥  
 हेमोपलब्धिषुद्विर्वा दाहादम्बाइमसंहतेः । अन्धस्येवाग्निंसंपातो दावमीत्या प्रधावतः ॥११३॥  
 ज्ञानहीनपरिक्लेशो भावितुःस्वस्य कारणम् । इति प्ररूप्यते धुम्पत्सनेहेन महता मया ॥११४॥  
 द्रव्येतदुक्तं ज्ञात्वापि पूर्ववैराजुवन्धनात् । निजपक्षानुरागित्वाद् दु संसारदिहागते ॥११५॥  
 प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वादानादाय विरुद्धधीः । सुमौमको भवानत्र सत्सम्योऽयं कुमारकः ॥११६॥  
 परामवति मामेवमिति तस्मिन् प्रकोपवान् । सशल्यो मृत्तिमासाद्य शम्भरो ज्योतिषामरः ॥११७॥  
 नाम्नाभवत् सकोपानां तपसाऽपीदृशो गतः । नागी नागश्च सप्राहशमभावां कुमारेत् ॥११८॥

गये । यह देखकर सुभौम कुमार कहने लगा कि तू 'मैं गुरु हूँ, तपस्वी हूँ' यह समझकर यद्यपि भारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुतपसे पापास्त्रव होता है या नहीं । इस अज्ञान तपसे तुझे इस लोकमें दुःख हो रहा है और परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा । सुभौमकुमारके यह वचन सुनकर वह तपस्वी और भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा ॥१२-१०५॥ कि 'मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है' इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे तपका माहात्म्य बिना जाने ही तू ऐसा क्यों बक रहा है ? पंचाग्निके मध्यमें बैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैरसे खड़े रहना, और उपवास कर अपने-आप गिरे हुए पत्ते आदिसे पारण करना इस प्रकार शरीरको सन्तान्पित करनेवाला तपस्वियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण ही नहीं सकता । उस तपस्वीके ऐसे वचन सुन सुभौमकुमार हँसकर कहने लगा कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूँ और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप तथा आगम आदिको छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोधादि चार कपायोंके वशीभूत हो पृथिवीकायिक आदि छह कायके जीवोंकी हिंसामें मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करते हैं और इस तरह अनासके कहे हुए मतका आश्रय लेकर निर्वाणकी प्रार्थना करते हैं—मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं सो उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिलके कूटनेके प्रयासके समान है, अथवा जल मथकर घी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपाषाणके समूहको जलाकर सुवर्ण करनेकी इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य दावानलके डरसे भागकर अग्निमें जा पड़े उसके समान है । ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्लेश भावी दुःखका कारण है । यह बात मैं, आपपर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हूँ ॥१०६-११४॥ इस प्रकार सुभौमकुमारके कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तापसने समझ तो लिये परन्तु पूर्व वैरका संस्कार होनेसे, अथवा अपने पक्षका अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभौमकुमार अहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान् पार्श्वनाथपर अधिक क्रोध करने लगा । इसी शल्यसे वह मरकर शम्भर नामका ज्योतिषी देव हुआ सो ठीक ही है ।

वभूवतुरहीन्द्रश्च तत्पत्नी च पृथुविधौ । तत्सशस्त्रसमाभानकुमारसम्यै गते ॥११९॥  
 साकेतनगराधीशो जयसेनो महीपतिः । भगवतीदेशसंजातहृद्यादिप्राभृताम्बितम् ॥१२०॥  
 अन्यदासो निष्पृष्टार्थं प्राहिणोत्पाद्वर्षनिधिम् । गृहीत्वोपायनं पूजयित्वा दूतोत्तमं मुदा ॥१२१॥  
 साकेतस्य विभूर्नि तं कुमारः परिपृष्टवान् । सोऽपि भट्टारकं पूर्वं वर्णयित्वा ॥ पुरं पुरम् ॥१२२॥  
 पश्चाद्वावर्णयामास ॥ प्राज्ञा हि क्रमवेदिनः । श्रुत्वा तत्तत्र किंजातस्तीर्थं कृत्वा मन्वन्धनात् ॥१२३॥  
 एष एव ॥ पुरुमुक्तिमापदिष्ट्युपयोगवान् । साक्षात्कृतनिजातीतसर्वप्रमवलं ततिः ॥१२४॥  
 विजग्मितमतिज्ञानक्षयोपशमवैसवात् । ऊच्यतेऽपिः पुनर्लौकान्तिकदेवप्रबोधितः ॥१२५॥  
 तत्क्षणागतदेवेन्द्र प्रमुखा मरनिमित्त- । प्रसिद्धमध्यकल्याणरूपनादिमहोत्सवः ॥१२६॥  
 प्रत्येययुक्तिमद्धारिणः कृतबन्धुविसर्जनः । आरुह्य विविक्तं रुदा विमलामिधया विभुः ॥१२७॥  
 विधायाष्टममाहारत्यागमश्चने महि- । शिलातले महासत्त्वः पृथङ्ज्ञानमास्थितः ॥१२८॥  
 उत्तरामिमुखं ॥ पाँचे मासे पक्षे सितेत्तरे । एकादश्यां सुपूर्वाह्णे समं त्रिशावभुसुत्रैः (?) ॥१२९॥  
 कृतसिद्धनमस्कारो दीक्षाकर्म समाददे । दूतिका मुक्तिकन्याया मान्यां कृत्यप्रसाधिकाम् ॥१३०॥  
 केशान्निभोचितोत्तरस्य मुष्टिभिः पद्मभि सुरेत् । समभ्यर्चयद्दराक्रीत्वा न्यक्षिपस्कीरवारिधौ ॥१३१॥  
 आचसामायिकः शुद्धया चतुर्थज्ञानमास्वरः । गुल्मखेटपुरं कायस्थित्यर्थं समुपेयिवान् ॥१३२॥  
 तत्र धन्याख्यभूपाङ्कः श्यामवर्णोऽष्टमङ्गलेः । प्रतिगुह्याशनं शुद्धं देवपापत्तिक्रियोचितम् ॥१३३॥

क्योंकि क्रोधो मनुष्योंकी तपसे ऐसी ही गति होती है । इधर सर्प और सर्पिणी कुमारके उपदेशसे ज्ञानित भावको प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले धरणेन्द्र और पद्मावती हुए । तदनन्तर भगवान् पार्श्वनाथका जब तीस वर्ष प्रमाण कुमारकाल बीत गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगवती देशमें उत्पन्न हुए घोड़े आदिकी भेंटके साथ अपना दूत भगवान् पार्श्वनाथके समीप भेजा । भगवान् पार्श्वनाथने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दूतका हर्षपूर्वक बड़ा सम्मान किया और उससे अयोध्याकी विभूति पूछी । इसके उत्तरमें दूतने सबसे पहले भगवान् वृषभदेवका वर्णन किया और उसके पश्चात् अयोध्या नगरका हाल कहा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् लोग अनुक्रमको जानते ही हैं । दूतके वचन सुनकर भगवान् विचारने लगे कि मुझे तोर्थकर नामकर्मका बन्ध हुआ है इससे क्या लाभ हुआ ? भगवान् वृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया । ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भवोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया—पिछले सब देख लिये ॥११५-१२४॥ मतिज्ञानावरण कर्मके बढते हुए क्षयोपशमके वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधित किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अभिप्रेक आदि महोत्सव मनाया ॥१२५-१२६॥ तदनन्तर भगवान्, विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त वचनोंके द्वारा माई-बन्धुओंको विदा कर विमला नामकी पालकीपर सवार हो अश्ववनमें पहुँचे । वहाँ अतिशय धीर वीर भगवान् तैलाका नियम लेकर एक बड़ी शिलातलपर उत्तरामिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए । इस प्रकार पौषकृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय उन्होंने सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर तीन सौ राजाओंके साथ दीक्षारूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली । वह दीक्षा-लक्ष्मी क्या थी ? मानो कार्य सिद्ध करनेवाली मुक्तिरूपी कन्याकी माननीय दूती थी ॥१२७-१३०॥ भगवान्ने पंच मुष्टियोंके द्वारा उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पूजा की तथा बड़े आदरसे ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥१३१॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है और विशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थ—मनःपर्यय ज्ञानसे वेदोप्यमान है ऐसे भगवान् पारणाके दिन आहार लेनेके लिए गुल्मखेट नामके नगरमें गये ॥१३२॥ वहाँ श्यामवर्णवाले धन्य नामक राजाने अष्ट मंगल द्रव्योंके द्वारा पहगाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रियाके

१ कुमारं ल० । २ जयसेनमही-ल० । ३ वृषभदेवम् । ४ प्रजा क०, ल०, ग० । ५ पुनर्मुक्ति ल० । ६ साक्षात्कृतविजानीत ल० (?) । ७ वैभव. क०, ल०, घ० । ८ उत्तरामिमुखे ल० । ९ मास्कर. ल० ।

नयन्स चतुरो मासान् छात्रस्थेन विशुद्धिमाक् । दीक्षाग्रहघने देवदारुभूरिमहीरुहः ॥१३४॥  
 अथस्तादृष्टमाहारस्यागादात्तविशुद्धिकः । प्रत्यासन्नमवप्रान्तो योगं सप्तदिनावधिम् ॥१३५॥  
 गृहीत्वा सत्त्वसारोऽस्थाद् धर्मध्यानं प्रवर्तयन् । शम्बरोऽन्नाम्बरे गच्छन्नगच्छःस्वन् विमानकम् ॥१३६॥  
 कोकमानो विभङ्गेन स्पष्टप्राग्वैरवन्धनः । रोषात्कृतमहाघोषो महावृष्टिमपातयत् ॥१३७॥  
 न्यधासदैव सप्ताहान्यन्यांश्च विविधान्विधीः । महोपसर्गान् शैलोपनिपातान्तानिवान्तकः ॥१३८॥  
 तं ज्ञात्वाऽन्धबोधेन धरणीशो विनिर्गतः । धरण्याः प्रस्फुरद्बलफणामण्डपमण्डितः ॥१३९॥  
 मद्रं तमस्थादावृत्य तत्पत्नी च फणाततेः । उपर्युच्चैः समुदृत्य स्थिता वज्रातपच्छिदम् ॥१४०॥  
 अमू क्रूरौ प्रकृत्यैव नागौ सस्मरतु कृतम् । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्त्याद्रैचेतसः ॥१४१॥  
 ततो भगवतो ध्यानमाहात्म्यान्मोहमक्षये । विनाशमगमद्विज्ञो विकारः कमठद्विषः ॥१४२॥  
 द्वितीयशुक्लध्यानेन मुनिनिर्जित्य कर्मणाम् । त्रितयं चैत्रमासस्य काले १ पक्षे दिनादिमे ॥१४३॥  
 मागे विशाखनक्षत्रे चतुर्दश्यां महोदयः । सप्रापत्केवलज्ञानं लोकोलोकौघमासनम् ॥१४४॥  
 तदा केवलपूजां च सुरेन्द्रा निरवर्तयन् । शम्बरोऽपपात्तकालादिलब्धिविः शममुपागमत् ॥१४५॥  
 प्रापत्सम्यक्त्वशुद्धिं च दृष्ट्वा तद्भनवासिनः । तापसास्यकमिध्यात्वा शतानां सप्त संयमम् ॥१४६॥  
 गृहीत्वा शुद्धसम्यक्त्वा. पार्श्वनाथं कृतादः । सर्वं प्रदक्षिणोक्त्यै प्राणेषुः पादयोर्द्वयोः ॥१४७॥

योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥१३३॥ इस प्रकार अत्यन्त विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्ने छद्मस्थ अवस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस वनमें दीक्षा ली थी उसी वनमें जाकर वे देवदारु नामक एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहाँ तैलाका नियम लेनेसे उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धर्मध्यानको बढ़ाते हुए विराजमान थे । इसी समय कमठका जीव शम्बर नामका असुर आकाशमार्गसे जा रहा था कि अकस्मात् उसका विमान रुक गया । जब उसने विभंगावधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्वभवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा । फिर क्या था, क्रोधवश उसने महा गर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया । इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट उस दुर्बुद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकारके महा उपसर्ग किये । यहाँतक कि छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ॥१३४-१३८॥ अवधिज्ञानसे यह उपसर्ग जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ पृथिवीतलसे बाहर निकला, उस समय वह, धरणेन्द्र जिसपर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था । धरणेन्द्रने भगवान्को सब ओरसे घेरकर अपने फणाओंके ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तानकर खड़ी हो गयी ॥१३९-१४०॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, स्वभावसे ही क्रूर रहनेवाले सर्प-सर्पिणीने अपने ऊपर किया उपकार याद रखा सो ठीक ही है क्योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किये उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥१४१॥

तदनन्तर भगवान्के ध्यानके प्रभावसे उनका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया इसलिए वैरी कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥१४२॥ मुनिराज पार्श्वनाथने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा अवशिष्ट तीन वातिया कर्मोंको और भी जीत लिया जिससे उन्हें चैत्रद्वय चतुर्दशीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें लोक-अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया और इस कारण उनका अभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥१४३-१४४॥ उसी समय इन्द्रोंने केवल-ज्ञानकी पूजा की । शम्बर नामका ज्योतिषीदेव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी विशुद्धता प्राप्त कर ली । यह देख, उस वनमें रहनेवाले सात सौ तपस्वियोंने मिथ्यादर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यग्दृष्ट हो गये और बड़े आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान् पार्श्वनाथके चरणोंमें नमस्कार करने लगे । आचार्य

१ तद् ज्ञात्वा ल० । २ भदन्तभस्थादावृत्य ल० । भट्टारमस्था—इति क्वचित् । भट्टारमस्थादावृत्य ल० । ३ कालपक्षे ल० ।

क तद्द्वैरं दृष्या शान्तिरोदशी क्वास्य पापिनः । सख्यसास्त्रां विरोधश्च बुद्धये हि महात्मभि ॥१४८॥  
 गणेशा दश तस्यासन् विधायादिं स्वयं सुवम् । सार्धानि त्रिशतान्युक्ता मुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥१४९॥  
 यतयोऽयुतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः । चतुःशतोत्तरं प्रोक्ताः सहस्रमवधिरिवष ॥१५०॥  
 सहस्रमन्तिमज्ञानास्तादन्तो विक्रियद्विकाः । शतानि सप्तपञ्चाशच्चतुर्यावगमाश्रिताः ॥१५१॥  
 वादिनः षट्शतान्नेव ते सर्वेऽपि समुच्चिताः । अभ्यर्णोक्तननिर्वाणाः स्युः सहस्राणि षोडश ॥१५२॥  
 सुलोचनाद्याः षट्त्रिंशत्सहस्राण्यार्थिका विमोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणा श्राविकास्ततः ॥१५३॥  
 देवा देव्याऽप्यसख्याताः संख्यातास्त्रियं गङ्गिनः । एवं द्वादशभिर्युक्तो गणैर्धर्मोपदेशनम् ॥१५४॥  
 कुर्वाणः पञ्चमिसौत्विर्हीकृतसप्ततिः । सवत्सराणां मासं स संहृत्य विहृति क्रियाम् ॥१५५॥  
 षट्त्रिंशन्मुनिभिः सार्धं प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥१५६॥  
 भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयात् । गुणस्थानद्वये स्थित्वा संसेदाचलमस्वके ॥१५७॥  
 तत्कालोचितकार्याणि वतंश्चित्वा यथाक्रमम् । निःशेषकर्मनिर्णशाश्रित्वाणि<sup>१</sup> निश्चलं स्थितः ॥१५८॥  
 कृतनिर्वाणकल्याणाः सुरेन्द्रास्तं वदन्दिरे । वन्दामहे वयं चैनं नन्दितुं सुन्दरैरुणैः ॥१५९॥  
 आदिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽम्भोनिषिद्धनिमाः । उदाहरणमेतेषां पार्श्वो गण्यः क्षमावताम् ॥१६०॥

शार्दूलविक्रीडितम्

स्वजन्मामिषवोस्त्ववे सुरगिरौ रवोच्छ्वासनिःश्वासजैः

स्वर्गोन्मत्तश्रमानयस्वमनिलैरान्द्रोल्कालां सुहुः ।

किं कुर्यात्तव तादृशोऽयममरस्त्वक्षान्तिलक्षधोदयः

पाठीनो जलधेरिवेत्यभिनुत, पार्श्वो जिनः पातु नः ॥१६१॥

कहते हैं किं पापी कमठके जीवका कहाँ तो निष्कारण बैर और कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा है कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही शत्रुता भी वृद्धिको कारण होती है ॥१४५-१४८॥  
 भगवान् पार्वनाथके समवसरणमें स्वयम्भूको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सौ पचास मुनिराज पूर्वके ज्ञाता थे, दश हजार नौ सौ शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधि-ज्ञानी थे, एक हजार केवलज्ञानी थे, इतने ही विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, सात सौ पचास मनःपर्यय ज्ञानी थे, और छह सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेवाले सोलह हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ॥१४६-१४९॥ सुलोचनाको आदि लेकर छत्तीस हजार आर्थिकार्थी, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकार्थी, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यंच थे । इस प्रकार बारह समाओंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवान्ने पाँच माह कम सत्तर वर्ष तक विहार किया । अन्तमें जब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्सेदाचलके शिखरपर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये । श्रावणशुक्ला सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें शुक्ल-ध्यानके तीसरे और चौथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य कार्य कर समस्त कर्मोंका क्षय हो जानेसे मोक्षमें अविचल विराजमान हो गये । उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निर्वाण कल्याणकका उत्सव कर उनकी वन्दना की । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे समृद्ध होनेके कारण हम भी इन भगवान् पार्वनाथको नमस्कार करते हैं ॥१५३-१५६॥ जो समुद्रके समान आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सज्जनोका यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो क्षमादानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान् पार्वनाथ ही हो सकते हैं ॥१६०॥ 'भगवन् ! जन्माभिपेक्षके समय मुमेरुपर्वतपर अपने उच्छ्वास और निःश्वाससे उत्पन्न वायुके द्वारा आपने इन्द्रोंको भी अच्छी तरह बार-बार मूलांशुला दिया था फिर भला यह शम्बर-जैसा

१ गणेश ल० । २ देवदेव्यो ल०, क० । ३ निर्वाण ल० ।

निष्कम्पं तव शुक्लतामुपगतं बोधं पयोधिर्महा-

घातोद्भूतनुविनीकसलिलः भ्रान्तिरिति दूरान्न तम् ।

ध्यानं ते व्रत वाचकस्य मरुतां श्वासानिलाद्वाभरात्

क्षीमः कः कथमित्यमीदृतिपतिः पाद्वर्षप्रभुः पातु नः ॥ १६२ ॥

तीर्थेशाः सदृशो गुणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः

सन्त्यप्येवसधीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणनाः ।

तत्सर्वं कमठात्तथाहि महतां शत्रोः कृता रक्रियात्

ख्यातिर्या महतां न जानुचिदसौ मित्रात्कृतोपक्रियात् ॥ १६३ ॥

दूरस्थामरविक्रियस्य भवतो वाधा न शान्तात्मनो

न क्रोधो न मर्यं च तेन न बुधैः सोहेति संस्तूयसे ।

माहात्म्यऽशमौ तु विस्मयकरौ तौ तेन तीर्थेशिनः

स्तोतव्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पार्थो भवोच्छ्रित्ये ॥ १६४ ॥

पश्यैतौ कृतवेदिनौ हि धरणौ भर्त्यावितीद्वाङ्गतौ

तावेवोपकृतिर्न ते त्रिभुवनक्षेमैकभूमेस्ततः ।

भृशुत्पातनिषेधनं ननु कृतं चेत्प्राक्नोपद्रवाः

कैर्नासन्निति सारसंस्तुतिकृतः पाद्वर्षो जिनः पातु नः ॥ १६५ ॥

क्षुद्रदेव आपका क्या कर सकता है ? जिस प्रकार मच्छ समुद्रमें ब्रह्मल-कूदकर उसे पीड़ित करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता है—उससे अलग होते ही छूटपटाने लगता है उसी प्रकार इस क्षुद्रदेवने आपको पीड़ा पहुँचायी है तो भी यह अन्तमें आपकी ही शान्तिसे अभ्युदयको प्राप्त हुआ है' इस प्रकार जिनकी स्तुति की गयी वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥१६१॥ 'हे प्रभो ! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त है उसे समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्योंकि समुद्र तो महावायुके चलनेपर चंचल हो जाता है और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार समुद्र दूरसे ही आपके ज्ञानको नहीं पा सकता है ! इसी तरह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुक्लताको प्राप्त है उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है । हे नाथ ! आप सुमेरु पर्वतके समान अचल हैं फिर भला श्वासोच्छ्वासकी वायुके समान इस क्षुद्रदेवसे आपको क्या क्षोभ हो सकता है ?' इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके स्वामी पार्श्वनाथ भगवान् हमारी रक्षा करें ॥१६२॥ हे स्वामिन् ! धैर्य आदि बड़े-बड़े गुणोंसे यद्यपि सभी तीर्थंकर समान है तथापि सबको सन्तुष्ट करनेवाले आपके जो गुण संसारमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण हो प्रसिद्ध हुए हैं । सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है वह उपकार करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती ? ॥ १६३ ॥ हे देव ! आपने शान्तचित्त रहकर शम्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई वाधा हुई, न क्रोध आया और न भय ही उत्पन्न हुआ इस कारण 'आप सहनशील हैं' इस प्रकार विद्वज्जन आपको स्तुति नहीं करते किन्तु आपका माहात्म्य और शान्ति आश्चर्यजनक है इसलिए आपकी स्तुति की जानी चाहिए । इस प्रकार जिनकी स्तुति की गयी थी वे पार्श्वनाथ भगवान् हम सबके संसारका उच्छेद करनेवाले हों ॥ १६४ ॥ देखो, ये धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों ही बड़े कृतब हैं, और बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संसारमें स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके कल्याणकी एकमात्र भूमिस्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा समझना चाहिए । यदि ऐसा न माना जाये और दोनोंने ही पर्वतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाये तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है वे पार्श्वनाथ भगवान् हम सबकी रक्षा करें ॥१६५॥ हे विभो ! पर्वतका

१ भेदोऽङ्गेः फणिमण्डपः फणिवधुच्छत्रं क्षत्रिर्घातिनां

केवलस्यासि रघातुदेहमहिमा हाविर्भवस्यामरी ।

भीतिस्तीर्थं कृदुद्रामोऽपगमनं विघ्नस्य चासन्समं

भर्तुर्यस्य स सततान्वकमयं हन्तृप्रवशाप्रणीः ॥ १९६ ॥

किं ध्यानात्फणिनः फणीन्द्रयुवतेः क्षान्तेर्महेन्द्रात्स्वत-

स्तन्त्रान्मन्त्रविजृम्भणाद् वत रिपोर्भितेरवस्थोदयात् ।

कालाद्घातिहतेरिवं शममभूदित्यर्थहरतैः सुरै-

राशङ्क्यामरविघ्नविच्युतिरघं हन्यात्स धीराप्रणीः ॥ १९७ ॥

श्रुत्वा यस्य वचोऽमृतं श्रुतिसुखं हृषं हितं हेतुम-

न्मिध्यात्स्व दिविजोऽवमीद् विषमिव व्याविद्धवैरोद्धुरम् ।

यं स्तौति स्म च तादृशोऽप्युपनतश्रेयः स पाशो विभु-

विधनौघं हरिसंघृतासनशिलाभ्यास्य सिद्धो हतात् ॥ १९८ ॥

जात प्राङ्मरुभृतिरन्विभपतिर्देवः सहस्रारजो

विघ्नोऽप्युतकल्पजः क्षितिभृतां श्रीवज्रनाभिः पतिः ।

देवो मध्यममध्यमे नृपगुणैरानन्दनामाऽऽनते

देवेन्द्रो हतवातिसंहतिरवस्वस्मान्स पाशेश्वरः ॥ १९९ ॥

फटना, धरणेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्मावतीके द्वारा छत्र लगाया जाना, घातिया कर्मका क्षय होना, केवलज्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरहित परमौदारिक शरीरकी प्राप्ति होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, आपके तीर्थकर नामकर्मका उदय होना और समस्त विघ्नोका नष्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे ऐसे उग्र वंशके शिरोमणि भगवान् पार्श्वनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें—जन्ममरणसे हमारी रक्षा करें ॥१९६॥ 'यह शान्ति, क्या भगवान्के ध्यानसे हुई है? वा धरणेन्द्रसे हुई है? अथवा पद्मावतीसे हुई है? अथवा भगवान्की क्षमासे हुई है? अथवा इन्द्रसे हुई है? अथवा स्वयं अपने-आप हुई है? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई है? अथवा शत्रुके भयभीत हो जानेसे हुई है? अथवा भगवान्के पुण्योदयसे हुई है? अथवा समय पाकर शान्त हुई है? अथवा घातिया कर्मका क्षय होनेसे हुई है' इस प्रकार अर्घ हाथमें लिये हुए देव लोग, शंकरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विघ्नोकी शान्तिकी आशांका कर रहे हैं ऐसे धीर वीरोमें अग्रगण्य भगवान् पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें ॥१९७॥ कानोंको सुख देनेवाले, हृदयको प्रिय लगनेवाले, हित करनेवाले और हेतुसे युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट मिथ्यात्वको बिपके समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और उस प्रकारका क्रूर होनेपर भी वह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो सिंहों-द्वारा धारण किये हुए अर्थात् सिंहासनके अग्रभागपर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे भगवान् पार्श्वनाथ हमारे विघ्नोके समूहको नष्ट करें ॥१९८॥ पार्श्वनाथका जीव पहले मरुभृति मन्त्री हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर विद्याधर हुआ, फिर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम ग्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ, वहाँसे आकर राजाओंके गुणोंसे सुशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत स्वर्गमें इन्द्र हुआ और तदनन्तर घातिया

१ भेदोहे. ल० । २ -रघातु ल० । ३ -रावड्वयोऽपर ल० । ४ नीति स्म ल० । ५ नतो घ०, म०, क०, । ततो ख० ।



आर्या

कमठः कुक्कुटसर्पः पञ्चमभूजोऽहिरभवदथ नरके ।

व्याधोऽधोगः सिंहो नरकी नरपोऽनु शम्बरो दिविजः ॥१२०॥

इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पार्श्वतीर्थकरपुराणं नाम  
त्रिसप्ततितमं पर्व ॥७३॥

कर्मोंके समूहको नष्ट करनेवाला भगवान् पार्श्वनाथ हुआ ॥१६६॥ कमठका जीव पहले कमठ था, फिर कुक्कुट सर्प हुआ, फिर पाँचवें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुआ ॥१७०॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें पार्श्वनाथ तीर्थकरके पुराणका वर्णन करनेवाला तिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥७३॥

## चतु सप्ततितमं पर्व

वर्धमानो जिनः श्रीमाश्रामान्वर्यं समुद्रहन् । देयान्मे वृद्धिमुद्धातवातिकर्मविनिर्मिताम् ॥१॥  
 तत्त्वार्थनिर्णयात्प्राप्य सम्मतिस्त्वं सुबोधवाक् । पूज्यो देवागमः द्भूत्वात्राकलङ्को बभूविथ ॥२॥  
 वीरसेनो महावीरो वीरसेनेन्द्रतां गतः । वीरसेनेन्द्रवन्द्याङ्घ्रिरीरसेनेन भावितः ॥३॥  
 देवालोकस्तवैवैको कोकालोकावकोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवलोकितम् ॥४॥  
 रूपमेव तव ब्रूते नाथ कोपाद्य रोहनम् । मणेर्मलस्य वैकल्य महतः केन कथ्यते ॥५॥  
 अतिक्रम्य क्रुतीर्थानि तव तीर्थं प्रवर्तते । सम्प्रत्यपीति नुत्वास्तु पुराणं तत्प्रवक्ष्यते ॥६॥  
 महापुराणवाराशिपारावारप्रतिष्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिर्मिर्विबभूभिः ॥७॥  
 अगाधोऽथं पुराणाब्धिघरपारश्च मतिर्मम । पश्योत्ताना सपारा च तं तिठीर्षुः किलैतया ॥८॥  
 मतिरस्तु ममैषात्पा पुराणं महदस्त्विदम् । नावेवाग्भोनिघेरस्य प्राप्सोऽहं पारमेतया ॥९॥  
 कथाकथकयोस्त्वावद्दर्शनं प्राप्तिवधीयते । दोष ताभ्यामदोषाभ्यां पुराणं नोपदौकते ॥१०॥  
 सा कथा यां समाकर्ण्य हेथोपादेयनिर्णयः । कर्णकट्वीमिरन्याभिः किं कथाभिर्हिंताधिनाम् ॥११॥  
 रागादिदोषनिर्मुक्तो निरपेक्षोपकारकृत् । भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥१२॥

अथानन्तर—सार्थक नामको धारण करनेवाले श्रीमात्र वर्धमान जिनोन्द्र, घातिया कर्मके नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दें ॥१॥ जिनके वचनोंसे सम्पन्नज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे आप तत्त्वार्थका निर्णय करनेसे सम्मति नामको प्राप्त हुए और देवोंके आगमनसे पूज्य होकर आप अकलंक हुए हैं ॥२॥ आपका नाम वीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप महावीर कहलाये हैं, ऋद्धिघारी मुनियोंकी सेनाके नायक हैं। गणधरदेव आपके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं ॥३॥ हे देव ! लोक और अलोकके देखनेमें आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ॥४॥ हे नाथ ! आपका रूप ही आपके क्रोधादिके अभावको सूचित करता है सो ठीक ही है क्योंकि बहुमूल्य मणियोंकी कालिमाके अभावको कौन कहता है ? भावार्थ—जिस प्रकार मणियोंकी निर्मलता स्वयं प्रकट हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है ॥५॥ हे प्रभो ! अन्य अनेक क्रुतीर्थोका उल्लंघन कर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर आपका पुराण कहा जाता है ॥६॥ यह महापुराण एक महासागरके समान है । इसके पार जानेके लिए कुछ कहनेकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंको श्री जिनसेन स्वामीको अनुगामी होना चाहिए ॥७॥ यह पुराणरूपी महासागर अगाध और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी और पारसहित है फिर भी मैं इस बुद्धिके द्वारा इस पुराणरूपी महासागरको पार करना चाहता हूँ ॥८॥ यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है और यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस प्रकार छोटी-सी नावसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हो जाऊँगा ॥९॥ सबसे पहले कथा और कथाके कहनेवाले वक्ताका वर्णन किया जाता है क्योंकि यदि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ॥१०॥ कथा वही कहलाती है कि जिसके सुननेसे हेय और उपादेयका निर्णय हो जाता है । हित चाहनेवाले पुरुषोंके कानोंको कड़वी लगनेवाली अन्य कथाओंसे क्या प्रयोजन है ? ॥११॥ कथक—कथा कहनेवाला वह कहलाता है जो कि रागादि दोषोंसे रहित हो और अपने दिव्य वचनोंके द्वारा

१ छ० पुस्तकेऽय वलोकोऽधिकः । 'वन्दारुन् वर्धमानोऽस्तु वर्धमानशिवप्रदः । वितकमनिकविर्धे, प्ररीपह-  
 गणैयंकः' ॥ २, २. प्रासाह ल० । ३ वर्णनं ल० ।

एतद्विदितयमत्रैव पुराणे जिनभाषिते । नान्येषु दुष्पुराणेषु तस्माद् आह्वयमिदं श्रुतेः ॥१३॥  
 अथ जम्बूद्वीपाकक्षेत्रे द्वीपानां मध्यवर्तिनि । द्वीपे विदेहे पूर्वस्मिन् सीतासरिदुदकत्ते ॥१४॥  
 विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाख्ये<sup>१</sup> वने तस्या नाम्ना व्याधाधिपोऽभवत् ॥१५॥  
 पुरूरवाः प्रियास्यासीत् कालिकास्थानुरागिणी । अनुत्पन्नं विधत्ते हि वेधाः संगममङ्गिनाम् ॥१६॥  
 कदाचित् कानने तस्मिन् दिविवागविमोहनात् । मुनिं सागरसेनाख्यं पर्यटन्तमितस्वतः ॥१७॥  
 विलोक्य तं मृगं मत्वा हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्चरन्तीमे माविधीरिति वारितः ॥ १८॥  
 तदैव स प्रसन्नात्मा समुपेत्य पुरूरवाः । प्रणम्य तद्वचः श्रुत्वां मुशान्तः श्रद्धयाहितः ॥ १९॥  
 शीतकाममस्तटाकं वा निदाधे तृषितो जनः । संसारदुःखहेतोर्वा मी<sup>२</sup>रुचैनेश्वरं मतम् ॥२०॥  
 शास्त्राभ्यासनशीलो वा ख्यातं गुरुकुलं महत् । मध्वादिन्नितयत्यागलक्षणं ब्रह्मवासवत् ॥२१॥  
 जोषितावसितौ सम्बन्धपाकवित्वादराद् व्रतम् । सागरोपमदिव्यायुः सौधर्मैऽनिमिषोऽभवत् ॥२२॥  
 द्वीपेऽस्मिन्मरारेते देशः कोसलाख्योऽस्ति<sup>३</sup> विश्रुतः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सौस्थित्यं सर्वदा मजन् ॥२३॥  
 बाधाभावादर्शनात् रक्षकेभ्यो विना न सा । अदातारो न<sup>३</sup> कैनाइप्राचे तृप्त्या प्राहकैर्विना ॥२४॥  
 काङ्क्षिन्<sup>३</sup> कुचयोरेव नैव चेत्सि कस्यचित् । देहि पाहालि संग्रैषो नार्थित्वेन मयेन वा ॥२५॥  
 कलङ्कशीणते रांशि चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपोवनेष्वेव विनाहारात्परेषु न ॥२६॥

निरपेक्ष होकर भव्य जीवोंका उपकार करता हो ॥१९॥ ये, दोनों ही अर्थात् कथा और कथक, जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए विद्वानोंके द्वारा यही पुराण ग्रहण करनेके योग्य है ॥१३॥

अथानन्तर—सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेवाले इस जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें एक मधु नामका वन है । उसमें पुरूरवा नामका एक भौलौका राजा रहता था । उसकी कालिका नामकी अनुराग करनेवाली स्त्री थी सो ठीक ही है क्योंकि विधाता प्राणियोंके अनुकूल ही समागम करता है ॥१४-१६॥ किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे । उन्हें देख, पुरूरवा भील मृग समझकर उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुआ परन्तु उसकी स्त्रीने यह कहकर मना कर दिया कि 'ये वनके देवता घूम रहे हैं इन्हें मत मारो' ॥१७-१८॥ वह पुरूरवा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके पास गया और श्रद्धाके साथ नमस्कार कर तथा उनके वचन सुनकर शान्त हो गया ॥१९॥ जिस प्रकार श्रीमन्मनुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे भरे हुए तालाबको पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोंसे डरनेवाला जीव, जिनेन्द्र भगवाण्‌का मत पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शास्त्राभ्यास करनेवाला विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध गुरुकुलको पाकर शान्त होता है उसी प्रकार वह भील भी सागरसेन मुनिराजको पाकर शान्त हुआ था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यन्त उसका बड़े आदरसे अच्छी तरह पालन किया । आयु समाप्त होनेपर वह सौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी उत्तम आयुको धारण करनेवाला देव हुआ ॥२०-२२॥

इसी जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी आर्यक्षेत्रके मध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी स्थितिको धारण करनेवाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥२३॥ उस देशमें कभी किसीको बाधा नहीं होती थी इसलिए अरक्षा थी परन्तु वह अरक्षा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी । इसी तरह वहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव कृपणतासे नहीं था परन्तु सन्तुष्ट रहनेके कारण कोई लेनेवाले नहीं थे इसलिए था ॥२४॥ वहाँ कठोरता स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी, वहाँ रहनेवाले किसी मनुष्यके चित्तमें कठोरता-क्रूरता नहीं थी । इसी तरह मुझे कुछ देओ, यह शब्द माँगनेके लिए नहीं निकलता था और न हमारी रक्षा करो यह शब्द भयसे निकलता था ॥२५॥ इसी प्रकार कलंक

पीडा तिलावतीक्षुण्णं न न्यप्राणिषु केषुचित् । नान्यत्र शिरसश्चेद् प्रवृद्धेष्वेव शास्त्रिषु ॥२७॥  
 बन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते श्रूयते नापरधिषु । विना विद्युकरागोभ्यो नाप्यत्रेन्द्रियनिग्रहः ॥२८॥  
 जाड्यं जलेषु नान्येषु सूच्यादिष्वेव तीक्ष्णता । नान्यत्र कुञ्जिकास्वेव कृप्ये नान्यत्र वक्रता ॥२९॥  
 नाविदग्धाश्च गोपाका न खीवालाश्च मीलुकाः । शडा न वामनाश्रोकाश्चण्डाकाश्च न दुश्चराः ॥३०॥  
 नानिष्ठुशाकिका भूमिर्न क्षमाभृद्वन्दनः । नानभ्मोजं जलस्थानं नैवास्वाद्गुफल वनम् ॥३१॥  
 मध्ये तस्य विनीताख्या हृदयग्राहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सत्सुखप्रदा ॥३२॥  
 प्रकाशयितुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशलम् । मक्ति च तीर्थकुलस्वादी सा शक्रणैव निमिता ॥३३॥  
 सुनेर्धीर्विनयेनेव स्वामिनेव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्यं सा सालेन व्यभासत ॥३४॥  
 भूषणार्थं च साकोऽस्याः खात्तिकापरिवेष्टिनः । शक्रः कर्ता पतिश्चक्रो यदि कौतस्कुत भयम् ॥३५॥  
 वर्तते जिनपूजास्या दिनं प्रति गृहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वस्वाद् गृहेशिनाम् ॥३६॥  
 विद्याभ्यासाद्विद्या वाक्य विना भोगेन यौवनम् । वाधैर्कथं न विना धर्माद्विनाज्ञोऽपि समाधिना ॥३७॥  
 नावबोधः क्रियाशून्यो न क्रिया फलवञ्जिता । असुखं न फलं भोगो नार्थवर्षमद्वयच्युतः ॥३८॥  
 प्रधानप्रकृतिः प्रायः स्वाभिस्वेनैव साधिका । जनेभ्यस्तन्निवालिभ्यो न भूषादिपरिच्छेदः ॥३९॥

और क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके वाचक राजा में ही पाये जाते थे अन्य किसी राजा में नहीं पाये जाते थे । निराहार रहना तपस्त्रियों में ही था अन्य में नहीं ॥२६॥ पीडा अर्थात् पेला जाना तिल, अलसी तथा ईख में ही था अन्य किसी प्राणी में पीडा अर्थात् कष्ट नहीं था । शिरका काटना बड़े हुए धानके पौधों में ही था किसी दूसरे में नहीं । बन्ध और मोक्षकी चर्चा आगम-में ही सुनाई देती थी किसी अपराधी में नहीं । इन्द्रियोंका निग्रह विरागी लोगों में ही था किन्हीं दूसरे लोगों में नहीं । जड़ता-जल में ही थी किन्हीं अन्य मनुष्यों में जड़ता—मूर्खता नहीं थी, तीक्ष्णता सुई आदिमें ही थी वहाँके मनुष्यों में उग्रता नहीं थी, वक्रता तालियों में ही थी किसी अन्य कार्यमें कुटिलता-मायाचारिता नहीं थी । वहाँके गोपाल भी अचतुर नहीं थे, स्त्रियाँ तथा बालक भी डरपोक नहीं थे, बौने भी धूर्त नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं थे । वहाँ ऐसी कोई भूमि नहीं थी जो कि ईखोंसे सुशोभित नहीं हो, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिसपर चन्दन न हो, ऐसा कोई सरोवर नहीं था जिसमें कमल न हो और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मोठे फल न हों ॥२७-३१॥

उस देशके मध्यभागमें हृदयको ग्रहण करनेवाली विनीता ( अयोध्या ) नामकी नगरी थी जो कि विनीत स्त्रीके समान मनुष्योंको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥३२॥ वह नगरी अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीर्थकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करनेके लिए इन्द्रने ही सबसे पहले बनायी थी ॥३३॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि सुशोभित होती है, स्वामीसे सेना शोभायमान होती है और मणिसे मेखला सुशोभित होती है, उसी प्रकार मध्यभागमें बने हुए परकोटेसे वह नगरी सुशोभित थी ॥३४॥ खाईसे घिरा हुआ इस नगरीका कोट, केवल इसकी शोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेवाला इन्द्र था और स्वामी चक्रवर्ती था फिर भला इसे भय किससे हो सकता था ? ॥३५॥ वहाँपर प्रतिदिन घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि गृहस्थोंके सब मांगलिक कार्य जिन-पूजापूर्वक ही होते थे ॥३६॥ वहाँपर त्रिना विद्याभ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, विना भोगोंके यौवन व्यतीत नहीं होता था, विना धर्मके बुढापा व्यतीत नहीं होता था और विना समाधिके मरण नहीं होता था ॥३७॥ वहाँपर किसीका भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, क्रिया फलरहित नहीं थी, फल विना उपभोगके नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनोंसे रहित नहीं था ॥३८॥ यदि वहाँके रहनेवाले लोगोंसे मन्त्री आदि प्रधान प्रकृतिका प्रथक्करण होता था तो केवल स्वाभिस्वसे ही होता था आभूषणादि उपकरणोंसे नहीं

१. विग्रहः ल० । २ गुण्टादिष्वेव इति क्वचित् । गुण्टादिष्वेव ल० । ३ भोक्काः ल० । ४ तृतीय-चतुर्थपादौ ल० पुस्तके द्रुतिः । ५ ह्यभासत ल० । -

सुरास्तत्र समागत्य स्वर्गयातैर्नरोत्तमैः । स्वर्गसंभूतसौहार्दाद् रमन्ते संततं मुदा ॥४०॥  
 सुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे रूपादिभिः समाः । इत्यागताः खगाधीशाः मोमुद्यन्ते विवेचने ॥४१॥  
 तत्र पण्यस्त्रियो वीक्ष्य बाहं सुरकुमारकाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते तामिर्जातिविशेषतः ॥४२॥  
 केरणानाममीष्टां ये विषयास्तत्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तत्र नाकिपूज्यसमुद्भवः ॥४३॥  
 अकृत्रिमाणि निर्जेतुं विमानानि स्वकौशलत् । सुरैः कृतगृहाण्यत्र चैकान्या तेषु वर्णना ॥४४॥  
 बभूवास्याः पतिः पङ्केः स्वर्गस्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोऽसूनु रिक्षाकुकुलवर्धनः ॥४५॥  
 अकम्पनाद्या भूपाळा नमिमुख्याश्च खेचराः । सागधाद्याश्च देवेशास्त्यक्तमानाः समुत्सुकाः ॥४६॥  
 यस्याज्ञं मालतीमालामिव स्वानन्नमीलयः । भूषाधिक्येयमस्माकमिति संधारयन्ति ते ॥४७॥  
 सत्कर्मभावितैर्मात्रैः क्षायोपशमिकैश्च साः । भव्यमावविशेषाच्च श्रेष्ठकाष्ठामधिष्ठितः ॥४८॥  
 आदितीयं कृतो ज्येष्ठपुत्रो राजसु घोडशः । ज्यायांश्रुकी मुहूर्तेन मुक्तोऽयं कैस्तुल्यं ब्रजेत् ॥४९॥  
 तस्यानन्तमतिर्देवी प्रख्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कमलावासं रेजे श्रीरिव चागता ॥५०॥  
 प्रज्ञाधिक्रमयोर्लक्ष्मीविशेषो वा पुरुरवाः । मरुद्भूतस्तयोरासीन्मरीचिः सुनुरप्रणीः ॥५१॥  
 स्वपितामहसंत्यागे स्वयं च गुरुभक्तिः । राजभिः सह कच्छायैः परित्यक्तपरिग्रहः ॥५२॥  
 चिरं सोढ्वा तत्र क्लेशं क्षुच्छं तादृिपरीषहान् । दीर्घसंसारवासित्वात्पश्चात्सोढुमशोकवृत्तम् ॥५३॥

होता था ॥३६॥ वहाँके उत्तम मनुष्य स्वर्गसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वर्गमें हुई-भिन्नताके कारण बहुतसे देव स्वर्गसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे ॥४०॥ इनमें देव कौन हैं ? और मनुष्य कौन है ? क्योंकि रूप आदिसे सभी समान हैं । इस प्रकार आये हुए विद्याधरोंके राजा उनको अलग-अलग पहचाननेमें मोहित हो जाते थे ॥४१॥ वहाँकी वेश्याओंको देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे परन्तु जाति भिन्न होनेके कारण उनके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे ॥४२॥ इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले जो विषय वहाँ थे वे विषय चूँकि स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओंके द्वारा पूज्य तीर्थंकर भगवान्का जन्म वहाँ होता था ॥४३॥ देवोंने अपने कौशलसे जो घर वहाँ बनाये थे वे अकृत्रिम विमानोंको जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका और क्या वर्णन हो सकता है ? ॥४४॥ जिस प्रकार स्वर्गकी पत्तिका स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि इंद्रकादुर्घंशको बढ़ानेवाला था और भगवान् वृषभदेवका पुत्र था ॥४५॥ अकम्पन आदि राजा, नमि आदि विद्याधर और सागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उत्कण्ठित होकर अपना मस्तक झुकाते हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी आज्ञाको 'यह हमारा सबसे अधिक आभूषण है' यह विचार कर धारण करते थे ॥४६-४७॥ अपने सत्कर्मकी भावनासे तथा कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले भावोंसे और भव्यत्व भावकी विशेषतासे वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी अन्तिम सीमाको प्राप्त था अर्थात् सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥४८॥ वह भरत भगवान् आदिनाथका ज्येष्ठ पुत्र था, सोलहवाँ मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्तमें ही मुक्त हो गया था (केवलज्ञानी हो गया था) इसलिए वह किनके साथ सादर्यको प्राप्त हो सकता था ? अर्थात् किसीके साथ नहीं, वह सर्वथा अतुल्य था ॥४९॥ उसकी अनन्तमति नामकी वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी मानो शरीरधारिणी कीर्ति हो अथवा कमलरूपी निवासस्थानको छोड़कर आयी हुई मानो लक्ष्मी ही हो ॥५०॥ जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन दोनोंके पुरुरवा भीलका जीव देव, मरीचि नामका ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५१॥ अपने बाबा भगवान् वृषभदेवकी दीक्षाके समय स्वयं ही गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाओंके साथ सब परिग्रहका त्याग कर दीक्षा धारण कर ली थी । उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणाका क्लेश सहा और क्षुधा, शीत आदि परीषह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीर्घताके कारण पीछे

स्वयं गृहीतुमारब्धः फलं प्रावरणादिकम् । दृष्ट्वा तं देवता नायं क्रमो नैर्ग्रन्थधारिणाम् ॥५४॥  
 गृह्णाण वेपसन् न्वं यथेष्टमिति चानुवन् । श्रुत्वा तद्वचनं सोऽपि गाढमिथ्यात्वचोदितः ॥५५॥  
 परिव्राजकदीक्षायाः प्राथम्यं प्रत्यपद्यत । दीर्घजिह्वज्जवानां तत्कर्म दुर्भारगदेशनम् ॥५६॥  
 तच्छास्त्रानुसृत्याप्यस्य स्वयमेव किकाञ्जनि । सतामिवासतां च स्याद्दोषः स्वविषये स्वयम् ॥५७॥  
 श्रुत्वापि तीर्थकुट्टाचं सदमं नाग्रहीदसौ । पुरुषंथात्मनैवान्न सर्वसङ्गविमोचनत् ॥५८॥  
 सुवनत्रयसंशोभं कारिसामर्थ्यमाप्तवान् । सद्रुपर्णं तथा कोके व्यवस्थाप्य सतान्तरम् ॥५९॥  
 अहं च तस्मिन्निचोरुप्रभावास्त्रिदिवप्रभोः । प्रतीक्षां प्राप्नुमिच्छामि तन्मेऽवश्यं भविष्यति ॥६०॥  
 इति मानोदयात्पापी न चर्यंसीच्च दुर्मतात् । तमेव वेपमादाय तस्थिचान् दोषदूषितः ॥६१॥  
 त्रिदण्डधारकोऽप्येव सद्दण्डरिनजितः । प्राप्ता कुराजवदण्डान् बहून् रत्नप्रमादिषु ॥६२॥  
 सम्पन्नज्ञानविहीनत्वात्सकमण्डलुरपरसौ । अशौचवृत्तिरेवासीज्जलैः किं शुद्धिरात्मनः ॥६३॥  
 प्राग् शीतजलस्नानात्कन्दमूलफलाशनात् । परिग्रहपरित्यागात्कुर्वन्प्रख्यातिमात्मनः ॥६४॥  
 महेश्चन्द्रजालकानोत्तचन्द्राकर्मोधिमन्त्रिमम् । तत्त्वामासामिदं तत्त्वमिति संदष्टमात्मना ॥६५॥  
 कपिलादिस्वशिष्याणां यथार्थं प्रतिपादयन् । सुतुर्भरतराजस्य धरिष्यां चिरमप्रमत्त ॥६६॥  
 स जीवितान्ते संश्रयं ब्रह्मरूपेऽभ्युताशनः । दयाव्युपमदेवापुरनुभूय सुखं ततः ॥६७॥

चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा बन्नादि ग्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख बन-देवताओंने कहा कि निर्ग्रन्थ वेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है । यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा वेप ग्रहण कर लो । बन-देवताओंके उक्त वचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए, मरीचिने भी सबसे पहले परिव्राजककी दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है उनके लिए वह मिथ्यात्व कर्म मिथ्यामार्ग ही दिखलाता है ॥५२-५६॥ उस समय उसे परिव्राजकोंके शास्त्रका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके समान दुर्जनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ॥५७॥ उसने तीर्थकर भगवान्की दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था । वह सोचता रहता था कि जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवने अपने-आप समस्त परिग्रहोंका त्याग कर तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाली सामर्थ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमे अपने द्वारा चलाये हुए दूसरे मतकी व्यवस्था करूँगा और उसके निमित्तसे होनेवाले बड़े भारी प्रभावके कारण इन्द्रकी प्रतीक्षा प्राप्त करूँगा—इन्द्र-द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे यह सब अवश्य होगा ॥५८-६०॥ इस प्रकार मानकर्मके उद्यमे वह पापी खोटे मतसे बिरत नहीं हुआ और अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी वही वेप धारण कर रहने लगा ॥६१॥ यद्यपि वह तीन दण्ड रखता था परन्तु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थात् इन्द्रिय दमनरूपी समीचीन दण्ड उसके पास नहीं था । जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंको, सजाओंको पाता है उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेवाला था ॥६२॥ वह सम्पन्न ज्ञानसे रहित था अतः कमण्डलु-सहित होनेपर भी शौच जानेके बाद शुद्धि नहीं करता था और कहता था कि क्या जलसे आत्माकी शुद्धि होती है ॥६३॥ वह यद्यपि प्रातःकाल शीतल जलसे स्नान करता था और कन्द-मूल तथा फलोंका भोजन करता था फिर भी परिग्रहका त्याग बतलाकर अपनी प्रसिद्धि करता था, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता था कि मैं परिग्रहका त्यागो हूँ ॥६४॥ जिस प्रकार इन्द्रजातिथ्याके द्वारा लाये हुए सूर्य, चन्द्रमा तथा समुद्र अवास्तविक होते हैं—आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्त्व अवास्तविक थे—तत्त्वाभास थे ॥६५॥ इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अपने कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ सम्राट् भरतका पुत्र मरीचि चिरकाल तक इस पृथिवीपर भ्रमण करता रहा ॥६६॥ आयुके अन्तमें मरकर वह ब्रह्म स्वर्गमें दश सागरकी आयुवाला

प्रच्युत्यागाव्य स्याकेते कपिलब्राह्मणप्रभोः । काल्याश्च तनयो जज्ञे जटिलो नाम वेदवित् ॥६८॥  
 परिव्राजकमार्गस्थस्तन्मार्गं संप्रकाशयन् । पूर्ववत्सुचिरं मृत्वा सौधर्मसभूसुरः पुनः ॥६९॥  
 द्विसमुद्रोपमं कालं तत्र सुखवीचितं सुखम् । प्रान्ते ततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरीत्तमे ॥७०॥  
 स्थूणागारासिधानेऽभूद्भारद्वाजद्विजस्य सः । तनूजः पुण्ड्रदायां पुष्यमित्राह्वयः पुनः ॥७१॥  
 स्वीकृत्य प्राप्तं चेषं प्रकृत्यादिप्रकृतितम् । पञ्चविंशतिदुस्तत्वं मृदानां मत्तिमानयत् ॥७२॥  
 निष्कषायतया बद्ध्वा देवायुरमवत्सुरः । सौधर्मकल्पे तत्सौख्यमेकत्रायुपमायुषा ॥७३॥  
 भुक्त्वा ततः समागत्य भरते सूतिकाह्वये । पुरेऽग्निभूतेगौतम्यामभूदग्निः सुतः ॥७४॥  
 परिव्राजकदीक्षायां नीत्वा कालं सपूर्ववत् । सनत्कुमारकल्पेऽल्प देवमूर्धं प्रपञ्चवान् ॥७५॥  
 सप्ताब्द्युपमितायुष्को भुक्त्वा तत्रामरं सुखम् । भायुषोऽन्ते ततश्च्युत्वा विषयेऽस्मिन् पुरेऽभवत् ॥७६॥  
 मन्दिराख्येऽग्निमित्राख्यो गौतमस्य तनूजः । कौशिक्यां दुःश्रुतेः पारं गत्वागत्य पुरातनीम् ॥७७॥  
 दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य ततश्च्युत्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शालङ्कयनस्य सुतोऽभवत् ॥७८॥  
 मन्दिरायां जगत्स्थायतो भारद्वाजसमाह्वयः । त्रिदण्डमण्डितां दीक्षामक्षणां च समाचरन् ॥७९॥  
 सप्तान्द्युपमितायुः सन् कल्पे माहेन्द्रनामनि । मृत्वा ततोऽवतीर्यात्र दुर्भागं प्रकटीकृतः ॥८०॥  
 फलेनाधोगतीं सर्वाः प्रविश्य गुरुदुःखमाक । त्रसंस्थावरवर्गेषु संख्यातीतसमाश्रितम् ॥८१॥  
 परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तदन्ते भगधाह्वये । देवो राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥८२॥  
 शाण्डिकाख्यस्य सुख्यस्य पारशर्यां स्वसंज्ञया । श्यावरो वेदवेदाङ्गपारगः पापभाजनम् ॥८३॥  
 मतिः श्रुतं तपः शान्तिं समाविस्तपवीक्षणम् । सर्वं सम्यक्त्वज्ञानस्य मरीचेरित्त्रि निष्कलम् ॥८४॥

देव हुआ । वहाँ से च्युत हुआ और अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली नामकी स्त्रीसे वेदोंको जाननेवाला जटिल नामका पुत्र हुआ ॥६७-६८॥ परिव्राजकके मतमें स्थित होकर उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । दो सागर तक वहाँके सुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरत क्षेत्रके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भारद्वाज नामक ब्राह्मणकी पुष्पदत्ता स्त्रीसे पुष्यमित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६९-७१॥ उसने वही पहला परिव्राजकका वेध धारण कर प्रकृति आदिके द्वारा निरूपित पचीस मिथ्यातत्त्व मूर्ख मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात् मनुष्योंको पचीस तत्त्वोंका उपदेश दिया । यह सब होनेपर भी उसकी कषाय मन्द थी अतः देवायुका बन्ध कर सौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥७२-७३॥ वहाँके सुख भोगकर वहाँसे आया और इसी भरत क्षेत्रके सूतिका नामक गाँवमें अग्निभूत नामक ब्राह्मणक गौतमी नामकी स्त्रीसे अग्निःसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७४॥ वहाँ भी उसने परिव्राजकके दीक्षा लेकर पहलेके समान ही अपनी आयु चितायी और आयुके अन्तमें मरकर देवपदको प्राप्ति हुआ । वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी । देवोंके सुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँ च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके मन्दिर नामक गाँवमें गौतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामक ब्राह्मणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ । वहाँपर भी उसने वही पुरानी परिव्राजककी दीक्षा धार कर मिथ्याशास्त्रोंका पूर्णज्ञान प्राप्त किया । अबकी बार वह माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँ च्युत होकर उसी मन्दिर नामक नगरमें शालङ्कयन ब्राह्मणकी मन्दिरा नामकी स्त्रीसे भरद्वाज नामका जगत्-प्रसिद्ध पुत्र हुआ और वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित अखण्ड दीक्षाका किया । तदनन्तर वह माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ । फिर वहाँसे च्युत हो कुमार्गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे । प्रकार त्रस, श्यावर योनियोंमें असंख्यात वर्ष तक परिभ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रान्त हो गया । खेद खिन्न हो गया । तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर भगधदेशके इसी राजगृह नगरमें वेदों जाननेवाले शाण्डिल्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी स्त्रीसे श्यावर नामका पुत्र हुआ । वह वेद वेदाङ्गका पारगाभी था, साथ ही अनेक पापोंका पात्र भी था ॥७५-८३॥ वह सम्यग्दर्शनसे श्रु

१ द्वेतिकाह्वये इत्यपि वचिच् । २ कौशिक्या ल० । ३ विप्रस्य ष० । मुखे भवो मुखो विप्रस्तस्य

परित्राजकदीक्षायासासक्तिं पुनरादधत् । सप्ताब्ध्युपमितालुष्को माहेन्द्रे समरुन्मरुत् ॥८५॥  
 ततोऽन्तर्यं देवोऽस्मिन् मगधाख्ये पुरोचमे । जातो राजगृहे विश्वभूतिनाममहीपते ॥८६॥  
 जैन्त्याश्र तनयो विश्वनन्दी विख्यातपौरुषः । विश्वभूतिमहीमर्तुरनुजातो सहोदयः ॥८७॥  
 विशाखभूतिरेतस्य लक्ष्मणायामभूद् विधीः । पुत्रो विशाखनन्दाख्यस्तै सर्वं सुखमास्थिताः ॥८८॥  
 अन्धेद्युः शरदन्नस्य विभ्रंश वीक्ष्य श्लुभ्रधीः । निर्विण्णो विश्वभूत्याख्यः स्वराज्यमनुजन्मनि ॥८९॥  
 विधाय शौवराज्यं च स्वसुनौ महद्व्रणीः । सार्विकैस्त्रिशतैः सार्द्धं राजमिर्जातरूपताम् ॥९०॥  
 श्रीधराख्यगुरोः पार्श्वे समादाय समत्वमाक् । बाह्यमाभ्यन्तरं चोन्नमकरोत् स तपश्चिरम् ॥९१॥  
 अधान्यदा कुमारोऽसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोद्याने समं स्वाभिर्द्वीभिः क्रीडया स्थितः ॥९२॥  
 विशाखनन्दस्तं दृष्ट्वा तदुद्यानं मनोहरम् । स्वीकर्तुं मत्सिमादाय गत्वा स्वपितृसन्निधिम् ॥९३॥  
 मह्य मनोहरोद्यानं दीयतां भवतान्यथा । कुर्यां देशपरित्यागमहमित्यभ्यधादसौ ॥९४॥  
 सस्यु सस्त्वपि भोगेषु विरुद्धविषयप्रियः । भवेद्भाविभवे भूयो भविष्यद्दुःखमारण्यत् ॥९५॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं चित्ते निधाय खेहनिर्भरः । कियत्तत्ते ददामीति संतोष्य तनुजं निजम् ॥९६॥  
 विश्वनन्दिनाहूय राज्यमारस्त्वयायुना । गृह्यतामहमाक्रम्य प्रस्थन्तप्रतिभूभृतः ॥९७॥  
 कृत्वा तज्जनिस्तक्षोभप्रधानंति गणितैर्दिनैः । प्रत्येप्यामीति सोऽवोचच्छ्रुत्वा तत्प्रत्युवाच तम् ॥९८॥  
 पूज्यपाद् स्वयात्रैव निश्चिन्तसुपविश्यताम् । गत्वाहमेव तं प्रेषं करोमीति सुतोत्तमः ॥९९॥

था अतः उसका मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि और तत्त्वावलोकन—सभी कुछ मरीचिके समान निष्फल था ॥८४॥ उसने फिर भी परित्राजक मतकी दीक्षामें आसक्ति धारण की और मरकर माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥८५॥ वहाँसे च्युत होकर वह इसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जैनी नामक स्त्रीसे प्रसिद्ध पराक्रमका धारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ । इसी राजा विश्वभूतिका विशाखभूति नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था । उसकी लक्ष्मणा नामकी स्त्रीसे विशाखनन्द नामका मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ था । ये सब लोग सुखसे निवास करते थे ॥८६-८८॥

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विश्वभूति, शरद्वृत्तके मेघका नाश देखकर विरक्त हो गया । महापुरुषोंमें आगे रहनेवाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया । तदनन्तर उसने सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले तीन सौ राजाओंके साथ श्रीधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली और समता भावसे युक्त हो चिरकाल तक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप किये ॥९६-९९॥

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा कर रहा था । उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने अधीन करनेकी इच्छासे पितार्के पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाये अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूँगा—आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊँगा । आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए भी विरुद्ध विषयोंमें प्रेम करता है वह आगामी भवमें होनेवाले दुःखोंका भार ही धारण करता है ॥९२-९५॥ पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयमें धारण कर स्नेहसे भरे हुए पिताने कहा कि 'बह वन कितनी-सी वस्तु है, मैं तुझे अभी देता हूँ' इस प्रकार अपने पुत्रको सन्तुष्ट कर उसने विश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि 'इस समय यह राज्यका भार तुम ग्रहण करो, मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण कर उनके द्वारा किये हुए क्षोभको शान्त कर कुछ ही दिनोंमें वापस आ जाऊँगा' । राजाके वचन सुनकर श्रेष्ठपुत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि 'हे पूज्यपाद ! आप यही निश्चिन्त होकर रहिये, मैं ही जाकर उन राजाओंको दास बनाये लाता हूँ' ॥९६-९९॥ आचार्य कहते हैं कि देखो

१ विगता धीर्गत्य सः । २ कियत् ते प्रवदामीति ल० ।



राज्यमस्यैव मे खेदाद् भ्रात्राऽदायोत्यतर्कयन् । वनार्थमतिसंघिस्सुरभूतं विगदुराशयम् ॥१००॥  
 ततः स्वानुमते तस्मिन् स्वबलेन समं रिपून् । निर्जेतुं विहितोद्योगं गते विक्रमशालिनि ॥१०१॥  
 वनं विशाखनन्द्याद् खेदादन्त्यायकाकुक्षिणे । विशाखभूतिरुल्लुब्धः क्रमं गतमतिर्ददौ ॥१०२॥  
 विश्वनन्दी तदाकर्ण्य सद्यः क्रोधान्निदीपितः । पश्य मामतिसंधाय प्रत्यन्तनुपतीन् प्रति ॥१०३॥  
 प्रहित्य मद्रनं दत्तं पितृव्येनात्मसूनुवे । देहीति वचनाद्वाह किं द्वादभिः कियद्द्वनम् ॥१०४॥  
 विद्धात्यस्य दुश्चेष्टा मम सौजन्यमज्ञनम् । इति मत्वा निवृत्त्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम् ॥१०५॥  
 प्रारब्धवान् मयाद् गत्वा स कपिस्थमहीरुहम् । कृत्वावृत्तिं स्थितः स्फीतं कुमारोऽपि महोरहम् ॥१०६॥  
 'समुन्मूल्य निहन्तु तं तेनाधावत्तोऽप्यसौ । अपसृथ्य शिलास्तम्भस्थान्तर्धानं ययौ पुनः ॥१०७॥  
 बला तलप्रहारेण स्तम्भं चाहस्य स द्रुतम् । पलायमानमालोक्य तस्मादप्यपकारिणम् ॥१०८॥  
 मा भैषीरिति सौहार्दकारुण्यार्थां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दत्त्वा संसारदुःस्थितिम् ॥१०९॥  
 भावयित्वा ययौ दीक्षां संभूतपुरसंनिधौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥११०॥  
 तदा विशाखभूतिश्च सजातानुसयो मया । कृतं पापमिति प्रायश्चित्तं वा प्राप संयमम् ॥१११॥  
 कुर्वन् घोरं तपो विश्वनन्दी देशान् परिभ्रमन् । कृशोभूतः क्रमात् प्राप्य मथुरां स्वतनुं स्थितः ॥११२॥  
 प्रविष्टवान् विनष्टात्मबलश्च पदस्थितिः । तदा व्यसनसंसर्गाद् अष्टराज्यो र्हीपतेः ॥११३॥  
 कस्यचिद्दत्तभावेन मथुरां पुरमागतः । विशाखनन्दो वेद्यायाः प्रासादतलमाश्रितः ॥११४॥

राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, माईने स्नेहवश मुझे दिया है। केवल वनके लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्रको ठगनेके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायको धिक्कार है ॥१००॥

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुओको जीतनेके लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुआ चला गया तत्र बुद्धिहीन विशाखभूतिने क्रमका उल्लंघन कर वह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया ॥१०१-१०२॥ विश्वनन्दीको इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया। वह क्रोधाग्निसे प्रवृत्त हो कहने लगा कि देखो काकाने मुझे तो धोखा देकर शत्रु राजाओंके प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देओ' इतना कहनेसे ही मैं नहीं दे देता ? वन है कितनी-सी चीज ? इसकी दुश्चेष्टा मेरी सज्जनताका भंग कर रही है। ऐसा विचारकर वह लौट पड़ा और अपना वन हरण करनेवालेको मारनेके लिए उद्यत हो गया। इसके भयसे विशाखनन्द बाड़ी लगाकर किसी ऊँचे कैथके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने वह कैथाका वृक्ष जड़से उखाड़ डाला और उसीसे मारनेके लिए वह उद्यत हुआ। यह देख विशाखनन्द वहाँसे भागा और एक पत्थरके खम्भाके पीछे छिप गया परन्तु बलवान् विश्वनन्दीने अपनी हथेलियोंके प्रहारसे उस पत्थरके खम्भाको शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखनन्द वहाँसे भी भागा। यद्यपि वह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमार को सौहार्द और करुणा दोनोंने प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो मत। यही नहीं, उसे बुलाकर वह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसारको दुःखमय स्थिति विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि नीचजनों के द्वारा किया हुआ अपकार भी सज्जनोंका उपकार करनेवाला ही होता है ॥१०३-११०॥ उ समय विशाखभूतिको भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 'यह मैंने बड़ा पाप किया है' ऐसा विचार कर उसने प्रायश्चित्तस्वरूप सयम धारण कर लिया ॥१११॥

इधर विश्वनन्दी सब देशोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसक शरीर अत्यन्त कृश हो गया। अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुँचा और आहार लेनेके लिए भीत प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर ढगमग पड़ रहे थे।

नवप्रसूतसंक्रुद्धगोधेनुप्रतिपातनात् । प्रस्खलन्तं समीक्ष्यैर्न मुनि कोपपरायणः ॥११५॥  
 तवाद्य तच्छिलास्त्रममङ्गदण्डः पराक्रमः । क यात इति दुश्चित परिहासं व्यधादसौ ॥११६॥  
 मुनिश्च तद्गच्छेत्तस्यवधार्थं प्रकोपवान् । परिहासफलं प्राप्स्यसीति स्वान्तर्गतं वदन् ॥११७॥  
 सनिदानोऽभवत् प्राप्ते कृतसंन्यासनक्रिये । स्वयं विशाखभूतिश्च महाशुक्रमुपाश्रितौ ॥११८॥  
 तव धोदशवाराशिमाममेवायुधौ चिरम् । मोगान्भुक्त्वा ततश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन्नेव भारते ॥११९॥  
 सुरम्यविषये रम्ये पोदनाख्यपुरे नृप । प्रजापतिमहाराजोऽजनि देवौ जयावली ॥१२०॥  
 तस्यामीदनयोः सुनु पित्र्भ्यो विश्वनन्दिनः । विजयाख्यस्तनोऽस्यैव विश्वनन्द्यानन्तरम् ॥१२१॥  
 मृगावस्थामभूत् पुत्रस्त्रिपुष्टो भाविचक्रभृत् । त्रिखण्डाधिपतितस्य सपूर्वगणनां गत ॥१२२॥  
 उद्गमेनैव निर्धूरिषुचक्रोऽयमक्रमात् । अरुंस्थेव प्रतापोऽस्य व्याप्य विश्वमनुस्थितः ॥१२३॥  
 अनन्यगोचरा लक्ष्मीसंख्येयसमाः स्वयम् । इममेव प्रतीक्ष्यास्त गाढोऽस्तुस्याधचक्रिणम् ॥१२४॥  
 लक्ष्मीलान्छनमेवास्व चक्रं विक्रमसाधितम् । मागधाद्यामरारदर्थं ससमुद्रं महोत्तलम् ॥१२५॥  
 सिंहशीर्षोऽयमिष्येधोऽज्ञोसुषुंकेसिष्ठुतः । किं सिंह इव निर्भोको नमितामरमस्तकः ॥१२६॥  
 जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्रं बुद्धिहानिमतीं चिरम् । कीर्तिरस्याखिल व्याप्य ज्ञातिर्वा वैश्व स्थिता ॥१२७॥  
 उदक्त्रेणार्थं खनाधीशो मयूत्रं वनाममाक् । नीलाजना प्रिया तस्यासूच्योरलकापुरे ॥१२८॥  
 विशाखनन्दः संसारे चिरं भ्रान्त्वातिदुःखित । अश्वघोषाभिधः सूरुरजनिष्ठापचारगन् ॥१२९॥

व्यसनोके संसर्गसे जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशाखनन्द भी उस समय किसी राजाका दूत बनकर उसी मथुरा नगरीमें आया हुआ था । वहाँ एक वैश्याके मकानकी छतपर बैठा था । दैव योगसे वहीं हालकी प्रसूता एक गायने क्रुद्ध होकर विद्वनन्दी मुनिको धक्का देकर गिरा दिया । उन्हें गिरता देख, क्रोध करता हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि 'तुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था वह आज कहाँ गया?' इस प्रकार उसने खोटे परिणामोंसे उन मुनिकी हँसी की ॥११०-११६॥ मुनि भी उसके वचन चित्तमें धारण कर कुछ कुपित हुए और मन-ही-मन कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अवश्य ही पावेगा ॥११७॥ अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए और विशाखभूतिका जीव भी वहीं देव हुआ ॥११८॥ वहाँ उन दोनोंकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी । चिर काल तक वहाँके सुख भोग कर दोनों ही वहाँसे उच्युत हुए । उनमेंसे विद्वनन्दीके काका विशाखभूतिका जीव सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयावली रानीसे विजय नामका पुत्र हुआ और उसके बाद ही विद्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी मृगावतीके त्रिपुष्ट नामका पुत्र हुआ । यह होनहार अर्ध चक्रवर्ती था ॥११९-१२०॥ उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था ॥१२१॥ अर्ध चक्रवर्तियोंमें गाढ उत्सुकता रखनेवाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके ऐसी लक्ष्मी असंख्यात वर्षसे रवयं इस त्रिपुष्टकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥१२४॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न क्या था मानो लक्ष्मीका चिह्न ही था और मगवादि जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त महीतल उसके अधीन था ॥१२५॥ यह त्रिपुष्ट 'सिंहके समान शूर वीर है' इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समझसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोंके भी मस्तकको नम्रीभूत करनेवाला वह त्रिपुष्ट क्या सिंहके समान निर्बुद्धि भी था ? ॥१२६॥ उसकी कान्तिने परिमित क्षेत्रमें रहनेवाली और हानि-वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चोंदनी भी जीत ली थी तथा वह ब्रह्माकी जालिके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गयी थी ॥१२७॥

इधर विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीके अलकापुर नगरमें मयूरश्रीव नामका विद्याधरोका राजा रहता था । उसकी रानीका नाम नीलाजना था । विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक

ते सर्वेऽपि पुरोपाचपुण्यपाकविशेषतः । अमीष्टकामभोगोपभोगैस्तृप्ताः स्थिताः सुखम् ॥ १३० ॥  
 इतः खेचरभूभर्तुर्दक्षिणश्रेण्यलंकृतिः । रथनूपुरशब्दादिचक्रवालापुरीपरा ॥ १३१ ॥  
 ज्वलनादिजटी पति तां स वा पाकशासनम् । कुलसाधितसंप्राप्तविद्यात्रयविभूषितः ॥ १३२ ॥  
 प्रतापोपनवाशेषावाकङ्केणीलखरेशिनाम् । विनमन्मौलिमाकाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १३३ ॥  
 वायुवेगा प्रिया तस्य चन्द्रामखचरेशिनः । सुभद्रायाश्च तनया पुरे द्युतिलकाह्वये ॥ १३४ ॥  
 अर्ककीर्तिरतयोः सूनुः प्रतापेनार्कजित्पुषी । सुता स्वयंप्रमाख्याभूत् प्रमयेव महामणिः ॥ १३५ ॥  
 स्त्रीलक्षणानि सर्वाणि शस्यान्यापाद्मस्तकम् । उदाहरणतामापन्व्याप्य व्यक्तानि तत्सनुम् ॥ १३६ ॥  
 संप्राप्य यौवनं तन्वी भूषणानां च भूषणम् । योषित्सर्गं कृताथैव स्वयासावनयद्विधिम् १३७ ॥  
 तां वीक्ष्यापूर्णसौन्दर्यां समीपीकृतचित्तजाम् । पिता वितरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन् ॥ १३८ ॥  
 तदैवाहूय संभिन्नश्रोतारं तदप्रयोजनम् । अपृच्छत्स निमित्तेषु कुशलः सप्रभाषत् ॥ १३९ ॥  
 केशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । स्वमप्याप्यसि तद्वत्तां खगानां चक्रवर्तिताम् ॥ १४० ॥  
 इति तद्वचनं चित्ते प्रत्येयमवधार्य सः । अमात्यमिन्द्रनामानं<sup>३</sup> भाक्तिकं<sup>४</sup> सुश्रुतं श्रुचिम् ॥ १४१ ॥  
 सलेखं प्राभ्रुतं दत्त्वा प्राहिणोत्पोदं प्रति । गत्वाविकल्पितं सोऽपि वने पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥  
 पोदनाधिपतिं सप्रणाममाकोत्थ पत्रकम् । सप्राभ्रुतं प्रदायास्मै यथास्थानमुपाविवात् ॥ १४३ ॥  
 विलोक्य मुद्रामुद्दिद्य तदन्तःस्थितपत्रकम् । प्रसार्य वाचयामास नियुक्तः सन्निधिप्रदे ॥ १४४ ॥

संसारमें भ्रमण कर तथा अत्यन्त दुःखी होकर अनेक दुराचार करनेवाला उन दोनोंके अश्वघ्रीव नामका पुत्र हुआ ॥१२६-१२६॥ वे सब, पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए इच्छित काम भोग तथा उपभोगसे सन्तुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥१३०॥ इधर विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीको अलंकृत करनेवाला 'रथनूपुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था ॥१३१॥ इन्द्रके समान ज्वलनजटी नामका विद्याधर उसका पालन करता था । वह ज्वलनजटी, कुल परम्परासे आयी हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्याओंसे विभूषित था ॥१३२॥ उसने अपने प्रतापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको वश कर लिया था इसलिए उनके नश्रीभूत मुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा सुशोभित रहते थे ॥१३३॥ उसकी रानीका नाम वायुवेगा था जो कि द्युतिलक नगरके राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥१३४॥ उन दोनोंके अपने प्रतापसे सूर्यको जीतनेवाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ था और स्वयम्प्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे महामणिके समान सुशोभित थी ॥१३५॥ उस स्वयम्प्रभाके शरीरमें सिरसे लेकर पैर तक स्त्रियोंके समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके शरीरमें व्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहे थे ॥१३६॥ आभूषणोंको भी सुशोभित करनेवाले यौवनको पाकर उस स्वयम्प्रभाने अपने आपके द्वारा, विधाताको स्त्रियोंकी रचना करनेके कार्यमें कृतकृत्य बना दिया था ॥१३७॥ उसे पूर्ण सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेवाली देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिए ? किसके देवेके योग्य है ? ॥१३८॥ उसी समय उसने सम्भिन्नश्रोता नामक पुरोहितको बुलाकर उससे वह प्रयोजन पूछा । वह पुरोहित निमित्तशास्त्रमें बहुत ही कुशल था इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायणकी महादेवी होगी और आप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे ॥१३९-१४०॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य वचन चित्तमें धारण कर उसने पवित्र हृदयवाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त इन्द्र नामक मन्त्रीको लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरकी ओर भेजा । वह शीघ्रतासे जाकर पोदनपुर जा पहुँचा । उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक वनमें विराजमान थे । मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की और वह यथास्थान बैठ गया ॥१४१-१४३॥ राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर रखा हुआ पत्र निकालकर

१ पुण्यपाकविशेषितम् क० । २ विनम्र-म०, ल० । ३ -मिन्दुनामानं इत्यपि क्वचित् । ४ भक्तिकं ल० । ५ पुष्पकरण्डके ल० ।

श्रीमानित. खगार्थीशो जिनलोकशिक्षामणिः । स्वानुरक्तप्रजो राजा नगराद् रथनपुरात् ॥१४५॥  
 ज्वलनादिजटी रथ्यातो नमिर्वशाभ्यंशुमान् । पोदनाख्यपुराधीना प्रजापतिमहानृपम् ॥१४६॥  
 आदिमहाराकोत्पन्नबाहुवलयन्वयोद्भवम् । प्रणम्य शिरसा सोहाकुशलप्रदानपूर्वकम् ॥१४७॥  
 सप्रश्रयं प्रजानाथमित्थं विज्ञापयस्थसौ । वैवाहिक. स सर्वभूषो विधेयो नाशुना मया ॥१४८॥  
 स्वया वास्त्यावयोरत्र पारम्पर्यसमागतः । न कार्यं वंशयोरध गुणदोषपरीक्षणम् ॥१४९॥  
 विशुद्धयोः प्रसिद्धत्वात् प्राक्चन्द्रादित्ययोरिव । पूज्य मन्त्रानिनियस्य त्रिप्रुष्टस्य स्वयंप्रभा ॥१५०॥  
 मत्सुता मामिनोवास्य कक्षमीः खण्डत्रयोद्भवा । आतनोतु रति स्वस्थां स्वमताद्भूषसीमिति ॥१५१॥  
 प्रजापतिमहाराज. श्रुत्वा तद्वन्धुभाषितम् । मया तेनेष्टमेवैष्टमित्यमास्थमतोषयत् ॥१५२॥  
 सोऽपि सप्राप्तसंमानदानस्तेन विसर्जितः । सद्यः संप्राप्य तत्सर्वं स्वमहीशं न्यवेदयत् ॥१५३॥  
 ज्वलनादिजटी चाशु सार्ककीर्ति. स्वयप्रभाम् । आनीय सर्वसंपत्त्या त्रिप्रुष्टाय समर्पयत् ॥१५४॥  
 यथोक्तविधिना सिंहवाहिनीं गरुडादिकाम् । वाहिनी च ददौ सिद्धविधे विदितशक्तिके ॥१५५॥  
 चरोपनीतवहातां ज्वलनज्वलितवाधथ. । विद्याजितयसंपन्नैर्विद्याधरधराधिपे. ॥१५६॥  
 अध्वर्यैरभ्यमित्रीगैरायुर्धायैर्मटेवृत्तः । रथावर्तचलं प्रापदशमीवो युयुत्सया ॥१५७॥  
 तदागमनमाकर्ण्य चतुरङ्गवकान्वितः । प्रागेवागत्य तत्रास्थास्त्रिप्रुष्टो रिरिनुष्टुरः ॥१५८॥  
 ब्रुध्वा तौ युद्धसंनद्धसुदृढौ रुद्रभास्करौ । स्वयं स्वधन्वनि सार्धं शरसंवातवर्षणैः ॥१५९॥  
 अश्वे रथैर्गजेन्द्रश्च पदातिपरिवारितैः । यथोक्तविहितन्यूहैरयुधैर्वा महाबलौ ॥१६०॥

बाँचा । उसमें लिखा था कि सन्धि विग्रहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी, अपने लोकका शिक्षामणि, अपनी प्रजाको प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका सूर्य, श्रीमान्, प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान् ऋषभ-देवके पुत्र बाहुवलीके वंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापतिको सिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे कुशल प्रश्न पूछता हुआ बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा और आपका वैवाहिक सम्बन्ध आजका नहीं है क्योंकि हम दोनोंकी वंश-परम्परासे वह चला आ रहा है । हम दोनोंके विशुद्धवंग सूर्य और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध है अतः इस कार्यमें आज दोनों वंशोंके गुण-दोषकी परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है । हे पूज्य ! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मीके समान है वह मेरे भानेज त्रिप्रुष्ट-की-स्त्री हो और अपने गुणोंके द्वारा अपने-आपमें इसकी बड़ी प्रीतिको बढ़ानेवाली हो ॥१४४-१५१॥ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीको यह कहकर सन्तुष्ट किया, कि जो बात ज्वलनजटीको इष्ट है वह सुझे भी इष्ट है ॥१५२॥ प्रजापति महाराजने बड़े आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीको विदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन कर दिये ॥१५३॥ ज्वलनजटी अर्ककीर्तिके साथ शीघ्र ही आया और स्वयं-प्रभाको लाकर उसने बड़े वैभवके साथ उसे त्रिप्रुष्टके लिए सौंप दी—विवाह हो ॥१५४॥ इसके साथ-साथ ज्वलनजटीने त्रिप्रुष्टके लिए यथोक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध हैं ऐसी सिंहवाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ भी दीं ॥१५५॥

इधर अध्वरीवने अपने गुप्तचरोंके द्वारा जब यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाग्निसे जलने लगा । वह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्याओंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, शत्रुके सम्मुख चढ़ाई करनेवाले मार्ग कुशल एवं अनेक अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित योद्धाओंसे आवृत्त होकर रथावर्त नामक पर्वतपर आ पहुँचा ॥१५६-१५७॥ अध्वरीवकी चढ़ाई सुनकर शत्रुओंके लिए अत्यन्त कठोर त्रिप्रुष्टकुमार भी अपनी चतुरंग सेनाके साथ पहलेसे ही आकर वहाँ आ डटा ॥१५८॥ जो युद्धके लिए तैयार है, अतिशय उद्भूत है, स्वयं तथा अपने साथी अन्य धनुषधारियोंके साथ बाण-वर्षाकर जिन्होंने सूर्यको ढक लिया है और जो यथोक्त न्यूहकी रचना करनेवाले, पैदल सिपाहियोंसे घिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियोंसे महाबलवान् हैं

१ व्यातनमिबंधा इति क्वचित् । २ चारोप-ल० । ३ आश्वै-ल० । ४ महाबलै. ल०, ष०, ग० ।

गजः कण्ठीरवेणेन वज्रेणेव महाचलः । आस्करेणान्धकारो वा त्रिष्टुप्तेन पराजित ॥१६१॥  
 स विलसो हयग्रं, बो मायायुद्धेऽपि निजितः । चक्रं संशेषयामास त्रिष्टुप्मभिनिष्टुम् ॥१६२॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य मद्धु तदक्षिणे भुजे । तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपुं प्रत्यक्षिपत् क्रुधा ॥ ६३॥  
 खण्डद्वयं हयग्रीवग्रीवां सद्यो व्यधादद् । त्रिखण्डाद्भिपतित्वेन त्रिष्टुप् चाश्वक्रिण्णम् ॥१६४॥  
 विजयेनात्र लक्ष्मणेन विजयेनेव चक्रभृत् । विजयार्थं सभं गत्वा रथन्पुरभूपतिम् ॥१६५॥  
 श्रेणिद्वयाधिपत्येन प्रापयश्चक्रदत्तिताम् । प्रभोरभृत् फलस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसादयोः ॥१६६॥  
 राज्यलक्ष्मीं चिरं भुक्त्वाप्यनुत्पत्या भोगकाढक्षया । स्ववागात्ससर्मां पृथ्वा बह्वाग्मपरिग्रहः ॥१६७॥  
 परस्परकृतं दुःखमनुभूय चिरायुषा । स्वधात्रीकृतदुःखं च तस्मान्निर्गत्य दुस्तरात् ॥१६८॥  
 ह्रीपेऽस्मिन् भारते गङ्गानदीतटसमीपे । वने सिंहगिरौ सिंहे भूत्वाऽसौ वृद्धिवाहसा ॥१६९॥  
 रत्नप्रभां प्रविश्यैव प्रज्वलद्वाहमासवान् । दुःखमेकादिधमेयायुस्ततश्च्युत्वा पुनश्च सः ॥१७०॥  
 ह्रीपेऽस्मिन् सिन्धुकूटस्य प्रारभागे हिमवद्गिरिः । सानावभून्मृगाधीशो ज्वलत्केसरभासुरः ॥ ७१॥  
 तीक्ष्णद्रष्टाकरालाननः कदाचिद्विभीषणः । कंचिन्मृगमवगम्यैः मक्षयन् स समीक्षितः ॥१७२॥  
 अत्रेऽमितगुणेनामा गच्छतातिवृपालुना । अजितजयनामाग्रचाणेन मुनीशाना ॥१७३॥  
 स मुनिस्तर्थाथोक्तमनुस्मृत्यानुकम्पया । अवतीर्थं नमोमार्गात् समासाद्य मृगाधिपम् ॥१७४॥  
 शिलातले निविद्योच्चैर्धर्म्यां वाचमुवाहरत् । भो भो भव्यमृगार्थं वा त्वं त्रिष्टुप्तेन पुरा ॥१७५॥  
 परार्थं पद्मधा प्रोक्तं मृदुशब्दातले चिरम् । स्वैरं शान्ताभिरिष्टाभिरमीष्टं सुखमन्वभू ॥१७६॥

ऐसे वे दोनों योद्धा क्रुद्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥१५९-१६०॥ जिस प्रकार सिंह हाथ  
 को भगा देता है, वज्र महापर्वतको गिरा देता है और सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उ  
 प्रकार त्रिष्टुप्तेन अश्वग्रीवको पराजित कर दिया ॥१६१॥ जब अश्वग्रीव मायायुद्धमें भी पराजि  
 हो गया तब उसने लजित होकर त्रिष्टुप्तेके ऊपर कठोर चक्र चला दिया परन्तु वह चक्र प्रद  
 देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजापर आकर स्थिर हो गया । त्रिष्टुप्ते भी उसे लेकर क्रो  
 शत्रुपर चला दिया ॥१६२-१६३॥ उसने जाते ही अश्वग्रीवकी ग्रीवाके दो टुकड़े कर  
 त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिष्टुप्तेको अर्धचक्रवर्तीका पद मिला ॥१६४॥ युद्धमें प्राप्त  
 विजयके समान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिष्टुप्ते, विजयार्थं पर्वतपर गया औ  
 वहाँ उसने रथन्पुर नगरके राजा ज्वलनजटीको दोनों श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया  
 ठीक ही है क्योंकि म्नामीके क्रोध और प्रसन्न होनेका फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥१६५  
 १६६॥ उस त्रिष्टुप्तेने चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपयोग किया परन्तु रृत न होनेके कार  
 उसे भोगोंकी आकांक्षा बनी रही । फलस्वरूप बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहका धारक हो  
 से वह मरकर सातवें नरक गया ॥१६७॥ वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखको तथा प्रथिव  
 सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक भोगता रहा । अन्तमें उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह ती  
 पापके कारण इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें गंगानदीके तटके समीपवर्ती वनसे सिंहगिरि पर्वत  
 पर सिंह हुआ । वहाँ भी उसने तीव्र पाप किया अतः जिसमें अग्नि जल रही है ऐसी रत्नप्रभ  
 नामकी पृथिवीमें गया । वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्यु  
 होकर इसी जम्बूद्वीपमें सिन्धुकूटकी पूर्व दिशामें हिमवन् पर्वतके शिखरपर देदीप्यमान बालों  
 सुशोभित सिंह हुआ ॥१६८-१७१॥ जिसका मुख पैनी दाढ़ीसे भयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करने  
 वाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खा रहा था । उसी समय अतिशय  
 दयालु अजितजयनामक चारण मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे ।  
 उन्होंने उस सिंहको देखा, देखते ही वे तीर्थकरके वचनोंका स्मरण कर-दयावश आक शमागंसे  
 उतरकर उस सिंहके पास पहुँचे और शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय वचन कहने लगे ।  
 उन्होंने कहा कि हे भव्य मृगराज ! तूने पहले त्रिष्टुप्तेके भवमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयोंका

दिव्यं सर्वरसं भोज्यं रसनेन्द्रियतर्पणम् । स्वर्धमानममुद्ध्याः प्राक्सुधाभृतरसायनैः ॥१७७॥  
 धूपानुलेपनैर्माल्यैश्चूर्णैर्वीक्षैः सुगन्धिभिः । तोषितं सुचिरं तत्र स्वया घ्राणपुटद्वयम् ॥१७८॥  
 रसमात्रपमात्रिष्ट विचित्रकरणोच्यते । नृत्तं निरीक्षितं चित्रमङ्गनाभिः प्रयोजितम् ॥१७९॥  
 शुद्धं देशभेदे तन् पङ्कत्वादिहारसत्कम् । चेतनेतरमिश्रोत्थं पुरितं कर्णयोर्द्वयो ॥१८०॥  
 त्रिलङ्घमण्डितं क्षेत्रे जातं सर्वं ममैव तत् । इत्यामिमानिकं सौख्यं मनसा विरमन्वभूम् ॥१८१॥  
 एव वैषयेकं सौख्यमन्वभूयाप्यनुसवान् । श्रद्धापञ्चमतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥१८२॥  
 भीमां चैतरणीं तत्र प्रञ्चलद्धारिपुरिताम् । प्रवेशिनोऽसि पापिष्ठैः प्राक्शक्त्या कृतसज्जनः ॥१८३॥  
 वल्लङ्घनाकारालोऽथ्याखण्डगण्डोपलाचले । प्रधावितोऽसि तद्दृक्छिन्नच्छिन्नाखिलाङ्गकः ॥१८४॥  
 कदम्बवालुकालावप्लुष्टाष्टायवोऽप्यभूम् । प्रञ्चलच्चित्तिकाक्षितो मत्ससाङ्गानामागतः ॥१८५॥  
 तस्यारिपण्डनिर्घातैश्चण्डैः संचूर्णितोऽप्यभूम् । निश्चिन्तच्छिन्नवनेषु आन्तवान्मुहुः ॥१८६॥  
 नानापक्षिमूर्धैः कालकौलेयकङ्कुलैरलम् । परस्वराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥१८७॥  
 बद्धा बहुविधैर्बन्धैर्निष्ठुरं निष्ठुराशयैः । कर्णोष्ठनासिकादीनां छेदवैधाधितो भूयम् ॥१८८॥  
 पापैः समानशून्यानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःखमवशोऽनुभवश्चिरम् ॥१८९॥  
 प्रक्रामाक्रन्दरोदादिवालुः किरूढहरिद्वृथा । शरणं प्रार्थयन्वैत्यादप्राप्यासीव दुःखित् ॥१९०॥

अनुभव किया है । तूने कोमल शय्यातलपर मनोभिलषित स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक मन-  
 चाहा सुख स्वच्छन्दता पूर्वक भोगा है ॥१७२-१७६॥ रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसों-  
 से परिपूर्ण तथा अमृतरसायनके साथ स्पर्शा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है  
 ॥१७७॥ उसी त्रिष्टुप्के भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाओंसे, चूर्णोंसे तथा अन्य  
 सुवासोंसे चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट सन्तुष्ट किये हैं ॥१७८॥ रस और भावसे  
 युक्त, विविध करणोंसे संगत, स्त्रियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा है  
 ॥१७९॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, और जो चेतन-अचेतन एवं दोनोंसे उत्पन्न  
 होते हैं ऐसे पङ्क आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं ॥१८०॥ तीन-खण्डसे  
 सुशोभित क्षेत्रमें जो कुल उत्पन्न हुआ है वह सब मेरा ही है इस अभिमानसे उत्पन्न हुए मान-  
 सिक सुखका भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है ॥१८१॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख  
 भोगकर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका और सम्यग्दर्शन तथा पाँच ब्रतोंसे रहित होनेके कारण सप्रभ  
 नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८२॥ वहाँ खौलते हुए जलसे भरी चैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुझे  
 पापी नारकियोंने घुसाया और तुझे जवर्दस्ती स्नान करना पड़ा ॥१८३॥ कभी उन नारकियोंने  
 तुझे जिसपर जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर उल्लङ्घन-उल्लङ्घन बड़ी-बड़ी गोल चट्टानों पड़ रही  
 थीं ऐसे पर्वतपर दौड़ाया और तेरा समस्त शरीर टांकीसे छिन्न-भिन्न हो गया ॥१८४॥ कभी  
 भाड़की बालूकी गरमोसे तेरे आठों अंग जल जाते थे और कभी जलती हुई चितामें गिरा  
 देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था ॥१८५॥ अत्यन्त प्रचण्ड और तपाये हुए  
 लोहेके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोंसे आच्छा-  
 दित वनमें बार-बार घुसाया जाता था ॥१८६॥ अनेक प्रकारके पक्षी वनपशु और कालके  
 समान कुर्चोंके द्वारा तू दुःखी किया जाता था तथा परस्परकी मारकाट एवं ताड़नाके द्वारा  
 तुझे पीड़ित किया जाता था ॥१८७॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुझे बड़ी निर्दयताके साथ अनेक  
 प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते थे और कान ओट तथा नाक आदि काटकर तुझे बहुत दुःखी करते  
 थे ॥१८८॥ पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकारके तीक्ष्ण शूलोंपर चढ़ा देते थे । इस तरह तूने  
 परवश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे ॥१८९॥ वहाँ तूने प्रताप आक्रन्द  
 तथा रोना आदिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाओंकी व्याप्त कर बड़ी दोनतासे शरणकी प्रार्थना की

१ वामा ल० । २ मण्डितक्षेत्रे ल० । ३ करालोया-म० । करालोच्चा-इति वचिच् । ४ प्रबोधितो-  
 ऽसि इत्यपि वचिच् ।

स्वायुरन्ते विनिर्याय ततो भूत्वा मृगाधिपः । क्षुत्पिपासादिभिर्वातातपवर्षादिभिश्च शिक् ॥१९१॥  
 बाध्यमानः पुनः प्राणिर्हिसया मांसमाहंरन् । क्रूरः पापं समुच्चित्वा पृथिवीं प्रथमामगाः ॥१९२॥  
 ततोऽपीह समुद्भूय क्रौर्यमेव समुद्रहन् । महदहः समावर्ष्य दुःखायोऽसहसे पुनः ॥१९३॥  
 अहो प्रवृद्धमज्ञानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पापिस्तत्त्वे न जानासीत्पाकण्यं तदुदीरितम् ॥१९४॥  
 सद्यो जातिस्मृतिं गत्वा घोरसंसारदुःखजात् । मयाञ्छकितसर्वाङ्गो गच्छात्पञ्चकोऽभवत् ॥१९५॥  
 लोचनाभ्यां हरेर्वापरसकिलं न्यगलच्चिरम् । सम्प्रकृत्वाय हृदि स्थानं मिथ्यात्वमिव दिक्षु तत् ॥१९६॥  
 प्रत्यासन्नविनेयानां स्मृतप्रारजन्मजन्मिनाम् । पश्चात्तापेन यः शोकः संसृतौ स न कस्यचित् ॥१९७॥  
 हरिं शान्तान्तरङ्गत्वात्स्वस्मिन्बद्धनिरिक्षणम् । विलोक्यैष हितग्राहीत्याहैवं स मुनिः पुनः ॥१९८॥  
 पुरा प्ररूरावा भूत्वा धर्मात् सौधमकल्पजः । जातस्ततोऽवतीर्यत्र मरीचिरतिदुर्मतिः ॥१९९॥  
 सन्मार्गदूषणं कृत्वा कुमार्गमतिवर्धयन् । वृषमस्वामिनो वाक्यमनाहत्याजवञ्चये ॥२००॥  
 भ्रान्तो जातिजरासृष्ट्युसंततेः पापसंचयात् । विप्रयोगं प्रियैर्योगमप्रियैरानुवंशिरम् ॥२०१॥  
 अपरं च महादुःखं वृष्ट्वापोदथोदितम् । त्रसस्थावरसंभूतावसंच्यातसमा भ्रमन् ॥२०२॥  
 केनापि हेतुनावप्य विश्वनन्दित्वमाप्तवान् । संयमं त्वं निदानेन त्रिपृष्टवमुपेयिवात् ॥२०३॥  
 इतोऽस्मिन्देशे मावी मवेऽन्यस्तीर्थकृद्भवान् । सर्वमश्नावि तीर्थशान्मयेदं श्रीधराह्वयात् ॥२०४॥  
 अद्यप्रसृति संसारघोरारण्यप्रपातनात् । भीमन्धिरम दुर्भागार्दारमात्महिते मते ॥२०५॥  
 क्षेमं चेदाप्तुमिच्छास्ति कामं लोकप्रधामनि । आसागमपदार्थेषु भ्रदां धस्वेति तद्वचः ॥२०६॥

परन्तु तुझे कहीं भी शरण नहीं मिली जिससे अत्यन्त दुःखी हुआ ॥१९०॥ अपनी आयु समाप्त होनेपर तू वहाँसे निकलकर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख-प्यास, वायु, गरमी, वर्षा आदिकी बाधासे अत्यन्त दुःखी हुआ । वहाँ तू प्राणिर्हिसा कर मांसका आहार करता था इसलिये क्रूरताके कारण पापका संचय कर पहले नरक गया ॥१९१-१९२॥ वहाँसे निकलकर तू फिर सिंह हुआ है और इस तरह क्रूरता कर महान् पापका अर्जन करता हुआ दुःखके लिए फिर उत्साह कर रहा है ॥१९३॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीके प्रभावसे तू तत्त्वको नहीं जानता है । इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जाति स्मरण हो गया । संसारके भयंकर दुःखांसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा आँखोंसे आँसू गिरने लगे ॥१९४-१९५॥ सिंहकी आँखोंसे बहुत देर तक अश्रुरूपी जल गिरता रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदयमें सम्यक्त्वके लिए स्थान देनेकी इच्छासे मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥१९६॥ जिन्हें पूर्वं जन्मका स्मरण हो गया है ऐसे निकट-भव्य जीवोंको पश्चात्तापसे जो शोक होता है वह शोक संसारमें किसीको नहीं होता ॥१९७॥ मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है और यह मेरी ही ओर देख रहा है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित ग्रहण करेगा, ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरुरवा भील था फिर धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्गमें वेव हुआ । वहाँसे च्यकर इसी भरतक्षेत्रमें अत्यन्त दुर्मति मरीचि हुआ ॥१९८-१९९॥ उस पर्यायमें तूने सन्मार्गको दूषित कर कुमार्गकी वृद्धि की । श्री ऋषभदेव तीर्थकरके वचनोंका अनादर कर तू संसारमें भ्रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणके दुःख भोगता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट संयोगका तीव्र दु ख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनियोंमें असंच्यात वर्ष तक भ्रमण किया ॥२००-२०१॥ किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर त्रिपृष्ट नारायणका पद प्राप्त किया ॥२०३॥ अब इस भवसे तू दसवे भवमें अन्तिम तीर्थकर होगा । यह सब मैंने श्रीधर तीर्थकरसे सुना है ॥२०४॥ हे बुद्धिमान् ! अब तू आजसे लेकर संसार-रूपी अटवीमें गिरानेवाले मिथ्यामार्गसे विरत हो और आत्माका हित करनेवाले मार्गमें रमण कर—उसीमें लीन रह ॥२०५॥ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा है और लोकके अद्यभागपर तू

विधाय हृदि योगीन्द्रयुग्मं भक्तिमराहितः । सुदुः प्रवक्षिणीकृत्य प्रप्रणय्य मृगाधिपः ॥२०७॥  
 तत्त्वश्रद्धानामसाद्य सद्यः कालादिकलिधतः । प्रणिधाय मनःश्रावकव्रतानि समाददे ॥२०८॥  
 दया मुनिगिरास्यन्मी क्रूरतां तन्मनोऽविशत् । कालस्य बलमप्राप्य को विषुष्य निरस्यति ॥२०९॥  
 स्थिररौद्ररसः सद्यः स शर्म समधारयत् । यच्छैलुपसमो मोहक्षयोपशमभावंतः ॥२१०॥  
 व्रतं नैतस्य सामान्य निराहारं यतो विना । क्रव्यादन्यस्य नाहारः साहसं किमवः परम् ॥२११॥  
 व्रतं प्राणव्ययात्तेन यत्किञ्चिद्दमखण्डितम् । ततोऽभूत् फलितं शौर्यं प्राच्यं तस्यैव घातकम् ॥२१२॥  
 तमस्वमःप्रभायां च खलु संरथक्त्वमादिमम् । निसर्गादेव गृह्णन्ति तस्मादस्मिन्न विस्मयः ॥२१३॥  
 निरहसर्वदुर्वृत्तः सर्वसह चसंमुखः । प्रावर्तत चिरं धीरः समीपुः परमं पदम् ॥२१४॥  
 संयम सयमादूर्ध्वं तिरश्चां नेति सूनुते । रुद्धस्तेनान्प्रथा मोक्षतेत्युक्तेरासीत् स गोचरः ॥२१५॥  
 तच्छौर्यं क्रौर्यसंदीप्यं किल संप्रति संक्षयम् । कलघौतमिवातपत्वं निक्षिप्तं शीतलेऽम्मसि ॥२१६॥  
 स्वार्थं मृगारिशाब्दोऽस्ती जहौ तस्मिन् दयावति । प्रायेण स्वामिशीलत्वं संश्रितानां प्रवर्तते ॥२१७॥  
 १ लिखितो वा सजीवानां वपुषैव न चेतसा । अमयाय तथा शान्तो द्यामाहात्म्यमीदृशम् ॥२१८॥  
 एवं व्रतेन संन्यस्य समाहितमतिर्ष्यसुः । सद्यः सौधर्मकल्पेऽसौ सिहकेतुः सुरोऽजनि ॥२१९॥  
 ततो द्विसागरायुषो ३ निर्विष्टामरसौख्यकः । निष्कस्य घातकीखण्डपूर्वमन्दरपूर्वगे ॥२२०॥

स्थिर रहना चाहता है तो आप्त आगम और पदार्थोक्ती श्रद्धा धारण कर ॥२०६॥

इस प्रकार उस सिंहने मुनिराजके वचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजोंकी भक्तिके भावसे नष्ट होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दी, बार-बार प्रणाम किया, काल आदिलिधियोंके मिल जानेसे शीघ्र ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥२०७-२०८॥ मुनिराजके वचनोंसे क्रूरता दूर कर दयाने सिंहके मनमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि कालका वल प्राप्त किये बिना ऐसा कौन है जो शत्रुको दूर हटा सकता है ? ॥२०६॥ मोहनीय कर्मका क्षयोपशम होनेसे उस सिंहका रौद्र रस स्थिर हो गया और उसने नटकी भाँति शीघ्र ही शान्तरस धारण कर लिया ॥२१०॥ निराहार रहनेके सिवाय उस सिंहने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया क्योंकि मांसके सिवाय उसका और आहार नहीं था। आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है ? ॥२११॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चूँकि उसने अपने व्रतका अखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरता सफल हुई थी और उसकी वह पुरानी शूरता उसीका घात करनेवाली हुई थी ॥२१२॥ तमस्तमःप्रभा नामक सातवे नरकके नारकी उपशम सम्यग्दर्शनको स्वभावसे ही ग्रहण कर लेते हैं इसलिये सिंहके सम्यग्दर्शन ग्रहण करनेमें आश्चर्य नहीं है ॥२१३॥ परमपदकी इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छोड़कर सब सदाचारोंके सम्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥२१४॥ 'तिर्यचोंके संयमासंयमके आगेके व्रत नहीं होते ऐसा आगममें कहा गया है इसीलिये वह रुक गया था अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता' वह इस कदावतका विषय हो रहा था ॥२१५॥ जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुवर्ण शीतल जलमें डालनेसे ठण्डा हो जाता है उसी प्रकार क्रूरतासे बढी हुई उसकी शूरवीरता उस समय बिलकुल नष्ट हो गयी थी ॥२१६॥ दयाको धारण करनेवाले उस सिंहमें मृगारि शब्दने अपनी सार्थकता छोड़ दी थी अर्थात् अब वह मृगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठीक ही है क्योंकि आश्रित रहनेवाले मनुष्योंका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान ही हो जाता है ॥२१७॥ वह सिंह सब जीवोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे भी वह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक ही है क्योंकि दयाका माहात्म्य ही ऐसा है ॥२१८॥ इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकत्र चित्तसे मरा और शीघ्र ही सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका देव हुआ ॥२१९॥ वहाँ उसने दो सागरकी आयु तक देवोंके सुख भोगे । तदनन्तर वहाँसे चयकर वह, घातकीखण्ड-

१ प्रवर्तितम् घ० । २ लिखित सोऽन्यजीवाना क०, म० । ३ द्विसागरायुष्य. ल० ।



विदेहे मङ्गलावत्यां विषये खेचराचले । परार्ध्यमुत्तरश्रेण्यां नगरं कनकप्रमम् ॥२२१॥  
 पतिः कनकपुङ्गाख्यस्तस्य विद्याधराधिप । प्रिया कनकमालाभूत्तयोस्तुकनकोऽज्वलः ॥२२२॥  
 सार्धं कनकवत्यासौ मन्दरं क्रीडितुं गतः । समीक्ष्य प्रियमित्राख्यमवधिज्ञानवीक्षणम् ॥२२३॥  
 मफथा प्रदक्षिणीकृत्य कृती कृतनमस्कृतिः । ब्रूहि धर्मस्य सद्गामं पूज्येति पतिपृष्टवान् ॥२२४॥  
 धर्मो द्यामथो धर्मं श्रय धर्मण नीयसे । मुक्तिं धर्मण कर्माणि छिन्धि धर्माय सन्मतिम् ॥२२५॥  
 देहि नापेहि धर्मात्वं याहि धर्मस्य भृत्यताम् । धर्मे तिष्ठ चिरं धर्मं पाहि मामिति चिन्तय ॥२२६॥  
 इति धर्मं विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम् । स्ततं चिन्तयानन्यं गन्तासि गणितैः क्षणैः ॥२२७॥  
 इत्यब्रवीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तद्वचः । तृषितो वा जलं तस्मात् पीतधर्मरसायनः ॥२२८॥  
 भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रहः । चिरं संयम्य संन्यस्य कल्पेऽभूत् सप्तमेऽमरः ॥२२९॥  
 त्रयोदशाब्धिमानायुरास्मात्कृततत्सुखः । सुखेनास्मात् समागत्य सुसमाहितचेतसा ॥२३०॥  
 द्वीपेऽस्मिन् क्रोसले देशे साकेतनगरेऽशिनः । वज्रसेनमहीपस्य शीलवत्यामजायत ॥२३१॥  
 हरिषेणः कृताशेषहर्षो नैसर्गिकैर्गुणैः । वक्षीकृत्य श्रियं स्वस्य चिरं कुलवधूमिव ॥२३२॥  
 मालां वा कुतसारां तां परित्यज्य यथै शमम् । सुव्रतं सुश्रुतं श्रित्वा सद्गुरुं श्रुतसागरम् ॥२३३॥  
 वर्धमानव्रतः प्रान्ते महाशुक्रैः जनिष्ट सः । षोडशाम्बोधिमैथायुराविभूतसुखोदयः ॥२३४॥  
 अस्तमभ्युद्यताकौ वा प्रान्तकालं समाप्तवान् । धातकीखण्डपूर्वांशा विदेहे पूर्वभागरे ॥२३५॥

द्वीपके पूर्व मेरुसे पूर्वकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसके मंगलावती देशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनकप्रभ नगरके राजा कनकपुंख विद्याधर और कनकमाला रानीके कनकोज्वल नामका पुत्र हुआ ॥२२०-२२२॥ किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्दरगिरिपर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिके दर्शन किये ॥२२३॥ उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको नमस्कार किया और 'हे पूज्य ! धर्मका स्वरूप कदिए' इस प्रकार उनसे पूछा ॥२२४॥ उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि धर्म द्यामय है, तू धर्मका आश्रय कर, धर्मके द्वारा तू मोक्षके निकट पहुँच रहा है, धर्मके द्वारा कर्मका बन्धन छेद, धर्मके लिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, धर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह और 'हे धर्म मेरी रक्षा कर' सदा इस प्रकारकी चिन्ता कर ॥२२५-२२६॥ इस प्रकार धर्मका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका निरन्तर चिन्तन किया कर। ऐसा करनेसे तू कुछ ही समयमें मोक्षको प्राप्त हो जावेगी ॥२२७॥ इस तरह मुनिराजने कहा। मुनिराजके वचन हृदयमें धारण कर और उनसे धर्मरूपी रसायनका पानकर वह ऐसा सन्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर सन्तुष्ट होता है ॥२२८॥ उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया और चिर काल तक संयम धारण कर अन्तमें संन्यास भरण किया जिसके प्रभावसे वह सातवें स्वर्गमें देव हुआ ॥२२९॥ वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने वहाँके सुख भोगे और सुखसे काल व्यतीत कर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े। वहाँसे च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेतनगरके स्वामी राजा वज्रसेनकी शीलवती रानीसे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सबको हर्षित करनेवाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ। उसने कुलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने वश कर ली ॥२३०-२३२॥ अन्तमें उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी और उत्तम व्रत तथा उत्तम शास्त्र-ज्ञानसे सुगोभित श्रीश्रुतसागर नामके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥२३३॥ जिसके व्रत निरन्तर बढ रहे हैं ऐसा हरिषेण आयुका अन्त होनेपर महाशुक्र स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ। वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा ॥२३४॥ जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको

१ खचराचले ल० । २ ममेति ल० । ३ हन्ता ल० । ४ मावेहि ल० । ५ चार्थय इति क्वचित् ।  
 ६ सव्रतं । ७ सश्रुतं इति क्वचित् । ८ पूर्वसागरे ल० ।

विषये पुष्कलावल्यां भरेसाः पुण्डरीकिणी । पति सुमित्रविख्यातिः सुव्रतार्थ्य मनोरमा ॥२३६॥  
 प्रियमित्रस्तयोरासीत्तनयो नयभूषणः । नाश्रैव नमित्ताक्षेपविद्विषक्षकवर्तिताम् ॥२३७॥  
 संप्राप्य शुक्रभोगाङ्गो मङ्गुरान्तर्वसंगमान् । क्षेमंकरजिवाधी शवक्रभ्रामोजविनिर्गतात् ॥२३८॥  
 तत्त्वगमगीभरीरार्थवाण्यान्मत्वा विरक्तवान् । सर्वमित्राख्यसूवी र्वं राव्यभारं निधाय सः ॥२३९॥  
<sup>३</sup> भव्यभूपसहस्रेण सह संथममाददे । प्रतिष्ठानं यमास्तस्मिन्नवा<sup>४</sup>पंस्तेऽष्टमात्सिः ॥२४०॥  
 भ्रान्ते प्राप्य सहस्रारमभूत् सूर्यप्रभोऽमर<sup>५</sup> । सुखाष्टादशवाध्यायुर्वृद्धिर्मुंक्तभोगकः ॥२४१॥  
 मेघाद्विद्युद्विशेषो वा ततः स्वर्गाद्विनिर्गतः । छत्राकारपुरेऽत्रैव नन्दिवर्धनभूषुजः ॥२४२॥  
 वीरवत्याश्च नन्दाख्यस्तनुजः सुजनोऽजनि । निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स श्रेष्ठं प्रोष्ठिं गुरुम् ॥२४३॥  
 संप्राप्य धर्ममाकर्ण्य<sup>६</sup> निर्णीतासागमार्थकः । संथम संप्रपद्यात् स्वीकृतैकादशाङ्गकः ॥२४४॥  
 भावविस्वा मन्धर्वसि तीर्थकृत्नामकारणम् । वद्ध्वा तीर्थंकर नाम सहोच्चैर्गोत्रकर्मणा ॥२४५॥  
 जीवितान्ते समासाद्य सर्वमाराधनाविधिम् । पुष्पोत्तरविमानेऽमूद्दच्युतेन्द्र सुरीत्तमः ॥२४६॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमेयायुररत्नत्रयदेहकः । शुक्लेऽथाद्रयोपेतो द्वाविंशत्या स नि.श्वसन् ॥२४७॥  
 पक्षैस्तावत्सहस्राब्दैराहरन् मनसाश्रुतम् । सदा मनःप्रवीचरो भोगसारेण वृत्तवान् ॥२४८॥  
<sup>७</sup> भाषष्टपृथिवीमागाहायासावधिविलोचनः । स्वावधिक्षेत्रसंभेयवल्गमाविक्रियात्रधिः ॥२४९॥

प्राप्त हुआ और वहाँ से चयकर घातकीखण्डद्वीपकी पूर्व दिशा-सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके पूर्वभागमें स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नामकी रानीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ । वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूषित था, उसने अपने नामसे ही समस्त शत्रुओंको नष्टीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्त कर समस्त प्रकारके भोगोंका उपभोग किया था । अन्तमें वह क्षेमंकर नामक जिनेन्द्र भगवान्के मुखारविन्दसे प्रकट हुए, तत्त्वोंसे भरे हुए और गम्भीर अर्थको सूचित करनेवाले वाक्योंसे सब पदार्थोंके समागमको भंगुर मानकर विरक्त हो गया तथा सर्वमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार देकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गया । पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप आठ प्रवचन-मातृकाओंके साथ-साथ अहिंसा महाव्रत आवि पाँच महाव्रत उन मुनिराजमें पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए थे ॥२३५-२४०॥ आयुका अन्त होनेपर वे सहस्रार स्वर्गमें जाकर सूर्यप्रभ नामके देव हुए । वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियों बढ़ रही थीं और वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे ॥२४१॥ जिस प्रकार मेघसे एक प्रकारकी बिजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वर्गसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके छत्रपुर नगरके राजा नन्दिवर्धन तथा उनकी वीरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र हुआ । इष्ट अनुष्ठानको पूरा कर अर्थात् अभिलषित राज्यका उपभोग कर वह प्रोष्ठिठ नामके श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा । वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थका निर्णय किया; संथम धारण कर लिया और शीघ्र ही ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥२४२-२४४॥ उसने तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कारणभूत और संसारको नष्ट करनेवाली दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन कर उच्चगोत्रके साथ-साथ तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया ॥२४५॥ आयुके अन्त समय सब प्रकारकी आराधनाओंको प्राप्त कर वह अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ॥२४६॥ वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्ल लेश्याएँ थीं, बाईस पक्षमें एक वार खास लेता था, बाईस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतका आहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचर करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा वृत्त रहता था ॥२४७-२४८॥ उसका अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छठी पृथिवी तककी बात जानता था और उसके बल, कान्ति तथा विक्रिया-

१ मुन्नताख्या ल० । विनिर्गतात् ल० । २ राजकेन सहस्रेण इत्यपि वचिन्त् । ४ नवापुस्ते ल० । नवापु नष्ट ल० । ५ सूर्यप्रभामर ल० । ६ निर्णीताथगामार्थक ल० । ७ समायाव्य क०, ख०, म० । ८ आपण्डपृथिवीप्राप्तविधावधि ल० ।

सामानिकादिभिर्देवैर्वीभिश्च परिष्कृतः । पुण्योदयविशेषेण मज्जति स्म सुखाशुभौ ॥२५०॥  
 तस्मिन्षण्मासशेषायुष्यानाकादागमिष्यति । भरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये भवनाहणे ॥२५१॥  
 राक्षः कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्पृथुः । सप्तकोटिर्मणिः सार्धा सिद्धार्थस्य दिनं प्रति ॥२५२॥  
 आषाढस्य सिते पक्षे षष्ठ्यां शशिनि चोत्तरा षाढे सप्ततलप्रासादास्याभ्यन्तरवर्तिनि ॥२५३॥  
 नन्द्यावर्तगृहे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते । रत्नपर्यङ्कके हंसतूलिकादिविभूषिते ॥२५४॥  
 रौद्रराक्षसगन्धर्वयामत्रितयनिर्गमे । मनोहराख्यतुर्यस्य चामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥२५५॥  
 'दरनिद्रावक्रोकिण्ट विशिष्टफलदायिनः । स्वप्नान् षोडशविच्छिन्नान् प्रियास्य प्रियकारिणी ॥२५६॥  
 तदन्तेऽपश्यदन्धं च गजं वक्त्रप्रवेकिनम् । प्रमातपदहृद्भवैः पठितैर्वन्दिमागधैः ॥२५७॥  
 मज्जलैश्च प्रबुद्धचक्षुः श्लात्वा पुण्यप्रसाधना । सा सिद्धार्थमहाराजमुपगम्य कृतानतिः ॥२५८॥  
 संप्राप्तार्थासना स्वप्नान्यथाक्रममुदाहरत् । सोऽपि तेषां फलं भावि यथाक्रममब्रुवधत् ॥२५९॥  
 श्रुतस्वप्नफला देवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फलम् । अयामराधिपाः सर्वे तयोरभ्येत्य सपदा ॥२६०॥  
 कल्याणाभिषर्बं कृत्वा नियोगेषु यथोचितम् । देवान् देवींश्च संयोज्य स्वं स्वं धामयथुः पृथक् ॥२६१॥  
 नवमे मासि संपूर्णे चैत्रे मासि त्रयोदशी । दिने शुक्ले शुभे योगे सत्वर्थमणि नामनि ॥२६२॥  
 ३ अलंकारः कुलस्याभूच्छ्रीक्रीनानामालयो महान् । आकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्रुतश्रियः ॥२६३॥

की अवधि भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर ही थी ॥२४९॥ सामानिक देव और देवियोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे सुखरूपी सागरमें सदा निमग्न रहता था ॥२५०॥ जब उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गयी और वह स्वर्गसे आनेको उद्यत हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थके भवनके आँगनमें प्रतिदिन साढ़े सात करोड़ रत्नोंकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी ॥२५१-२५२॥ आषाढ शुक्ल षष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तराषाढा नक्षत्रमें था तब राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि-वाली रानी प्रियकारिणी, सात खण्डवाले राजमहलके भीतर रत्नमय दीपकोसे प्रकाशित नन्द्यावर्त नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुशोभित रत्नोंके पलंगपर सो रही थी। जब उस रात्रिके रौद्र, राक्षस और गन्धर्व, नामके तीन पहर निकल चुके और मनोहर नामक चौथे पहरका अन्त होनेको आया तब उसने उड़ख खुली-सी नौदमें सोलह स्वप्न देखे। सोलह स्वप्नोंके बाद ही उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा। तदनन्तर सवेरेके समय वजने-वाले नगाड़ोंकी आवाजसे तथा चारण और मागधजनोंके द्वारा पढ़े हुए मंगलपाठोंसे वह जाग उठी और शीघ्र ही स्नान कर पवित्र वस्त्राभूषण पहन महाराज सिद्धार्थके समीप गयी। वहाँ नमस्कार कर वह महाराजके द्वारा दिये हुए अर्धासनपर विराजमान हुई और यथाक्रमसे स्वप्न सुनाने लगी। महाराजने भी उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥२५३-॥२५६॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी सन्तुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया हो। तदनन्तर सब देवोंने आकर बड़े वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, देव और देवियोंको यथायोग्य कार्योंमें नियुक्त किया और यह सब करनेके बाद वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥२६०-२६१॥ तदनन्तर नौवाँ माह पूर्ण होनेपर चैत्रशुक्ल त्रयोदशीके दिन अर्थमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूर्व दिशामें बाल सूर्य उत्पन्न होता है, रात्रिमें चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक हृदमें गंगाका प्रवाह उत्पन्न होता है, पृथिवीमें धनका समूह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दोंका समूह उत्पन्न होता है और लक्ष्मीमें सुखका उदय उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें वह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर-था, गुणरूपी रत्नोंकी खान था, प्रसिद्ध

१ दरसुता ल०, ग०, घ० । २ यथाचिन्त्य-घ० । यथावक्ता-इति क्वचित् । ३ अलङ्कार-कुलस्यैर्-संप्रदायालयो महान् ल० । ४ विश्रुतश्रियाम ल० ।

भानुमान् बन्धुपद्मानां भुवनत्रयनायकः । दायको मुक्तिलोक्यस्य त्रायकः सर्वदेहिनाम् ॥२६४॥  
 मर्मस्थितिसर्वध्वंसो मर्मभित्कर्मविद्विषाम् । धर्मतीथस्य धीरयो निर्मलः शर्मवाशिधिः ॥२६५॥  
 प्राच्यां दिशीव बालार्को यामिन्ध्यामिव चन्द्रमाः । पथायामिव गङ्गावो धाम्यामिव धनोत्करः ॥२६६॥  
 वाग्बध्वामिव वाप्राशिलक्ष्णमामिव सुखोद्ययः । तस्यां सुतोऽच्युतापीशो लोकाकोकैकमास्करः ॥२६७॥  
 भानुपाणां सुराणां च तिरश्चां च चकार सा । तद्यप्रसूत्या पृथुं प्रीतिं तत्स्वयं प्रियकारिणी ॥२६८॥  
 सुखान्भोजानि सर्वेषां तदाकस्माद्दुः श्रियम् । प्रमुक्तानि प्रसूनानि प्रमोदास्त्राणि वा दिवा ॥२६९॥  
 ननादानकसंघातो ननाट प्रमदागणः । जगाद् गायकानीकः पपाठीवोऽपि वन्दिनाम् ॥२७०॥  
 भवातरन्सुराः सर्वेऽप्युद्वास्यावासमाःमनः । मायाशिशुं पुरोधाय मातुः सौधर्मनायकः ॥२७१॥  
 नागेन्द्रस्कन्धमारोप्य बालं मास्करमास्वरम् । उत्तेजसा दिशो विश्वाः काशयन्नमरावृतः ॥२७२॥  
 संप्राप्य मेरुमारोप्य शिलायां सिंहविष्टरम् । अभिषिच्य उज्ज्वलकुम्भैः क्षीरसागरवारिमिः ॥२७३॥  
 विशुद्धपुद्गलकारन्धदेहस्य विमलात्मनः । शुद्धिरेतस्य काम्भोमिद्वैरशुचिभिः स्वयम् ॥२७४॥  
 चोदितास्वीर्यकृद्भ्राम्ना स्वाननायोऽर्थ समागसः । इति कैङ्कर्यमस्यैत्य कृतामिषवणा तथम् ॥२७५॥  
 अलं तदिति तं मत्तथा विभूयोद्वविभूपणैः । वीरः श्रीवर्धमान इवेत्यस्याख्यादितयं व्यधात् ॥२७६॥  
 ततस्तं स समानीय सर्वभिरसमन्वितः । मातुरङ्गे निवेश्योच्चैर्विहितानन्दनाटकः ॥२७७॥  
 विभूय पितरौ चास्य तयोर्विहितसंमदः । श्रीवर्धमानमानम्य ईवं धाम समगात् सुरैः ॥२७८॥

लक्ष्मीका आधार था, बन्धुरुपी कमलौको विकसित करनेके लिए सूर्य था, तीन लोकोंका नायक था, मोक्षका सुख देनेवाला था, समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला था, सूर्यके समान कान्ति-वाला था, संसारको नष्ट करनेवाला था, कर्मरूपी शत्रुके मर्मको भेदन करनेवाला था, धर्मरूपी तीर्थका भार धारण करनेवाला था, निर्मल था, सुखका सागर था, और लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेके लिए एक सूर्यके समान था ॥२६२-२६७॥ रानी प्रियकारिणीने उस बालकको जन्म देकर मनुष्यो, देवों और तिर्यचोंको बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम सार्थक हुआ था ॥२६८॥ उस समय सबके मुख-कमलोंने अकस्मात् ही शोभा धारण की थी और आकाशसे आनन्दके आँसुओंके समान फूलोंकी वर्षा हुई थी ॥२६९॥ उस समय नगाड़ोंका समूह शब्द कर रहा था, स्त्रियोंका समूह नृत्य कर रहा था, गानेवालोंका समूह गा रहा था और बन्दीजनोंका समूह मंगल पाठ पढ़ रहा था ॥२७०॥ सब देव लोग अपने-अपने निवासस्थानको ऊजड़ बनाकर नीचे उतर आये थे। तदनन्तर, सौधर्मन्द्रेने माया-मय बालकको माताके सामने रखकर सूर्यके समान देदीप्यमान उस बालको ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया। बालकके तेजसे दशो दिशाओंको प्रकाशित करता और देवोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र सुमेरु पर्वतपर पहुँचा। वहाँ उसने जिनबालकको पाण्डुकशिलापर विद्य-मान सिंहासनपर विराजमान किया और क्षीरसागरके जलसे भरे हुए देदीप्यमान कलशोंसे उनका अभिषेक कर निम्न प्रकार स्तुति की। वह कहने लगा कि हे भगवन् ! आपकी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, तथा आपका यह शरीर विशुद्ध पुद्गल परमाणुओंसे बना हुआ है इसलिए स्वयं अपवित्र निन्दनीय जलके द्वारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती है ? हम लोगोंने जो अभि-षेक किया है वह आपके तीर्थकर नामकर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही किया है अथवा यह एक आम्नाय है—तीर्थकरके जन्मके समय होनेवाली एक विशिष्ट क्रिया ही है, इसीलिए हम लोग आकर आपकी किंकरताको प्राप्त हुए हैं ॥२७१-२७५॥ अधिक कहनेसे क्या ? इन्द्रने उन्हें भक्तिपूर्वक उच्चोत्तम आभूषणोंसे विभूषित कर उनके वीर और श्रीवर्धमान इस प्रकार दो नाम रखे ॥२७६॥ तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको बापस लाकर माता-की गोदमें विराजमान किया, बड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता-पिताको आभूषण पहनाये, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकनेके बाद श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कार कर देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२७७-२७८॥

पाश्वेऽतीर्थसंताने पञ्चाशद्द्विशताब्दके । तद्भ्यन्तरवर्षायुर्महावीरोऽत्र जातवान् ॥२७९॥  
 द्वासप्ततिसमाः किञ्चिदनास्तस्यायुषः स्थितिः । सप्ताहमिदोऽस्तेषुः सर्वकृष्णभूषितः ॥२८०॥  
 निःस्वेदत्वादिनिर्दिष्टदशात्मजगुणोदयः । मयसप्तकनिर्मुक्तः सर्वचेष्टाविराजितः ॥२८१॥  
 संजयरथाथसंवेहे संजाते विजयस्य च । जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्यालोकमात्रतः ॥२८२॥  
 तत्संदेहे गते ताम्भ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तिः । अस्त्वेष सन्मतिर्देवो मावीति समुदाहृतः ॥२८३॥  
 अर्थिनः किं पुनर्वाच्याः शब्दाश्च गुणगोचराः । अप्राप्तार्थाः परेऽस्मिन्नर्थवन्तोऽमवन् यद्दि ॥२८४॥  
 त्यागोऽयमेव दोषोऽस्य शब्दाः । दोषाभिधायिनः । पुष्कलाः पत्रास्माद्गता दूरमवर्थाः ॥२८५॥  
 न गोभिन्त्यां न कीर्त्यां वा प्रीतिरस्यामवद्विभोः । गुणेष्विव सुखेऽयानां प्रायेण हि गुणाः प्रियाः ॥२८६॥  
 तस्य कालवयोवाञ्छावशेनैलबिलः स्वयम् । भोगोपभोगवस्तूनि स्वर्गसाराण्यहर्दिवम् ॥२८७॥  
 शक्राज्ञया समानीय स्वयं प्रावर्तयत् सदा । अन्येषुः स्वर्गनाथस्य समायामभवत्कथा ॥२८८॥  
 देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तच्छ्रुतेः । देवः संगमको नाम संप्राप्तस्तं परीक्षितुम् ॥२८९॥  
 दृष्टोद्यानवने राजकुमारैर्बहुभिः सह । काकपक्षधरैरेकवयोभिर्वालयचोदितम् ॥२९०॥  
 कुमारं मास्वराकारं द्रुमक्रीडापरायणम् । स विभीषणितुं वाञ्छन् महानागाङ्गतिं दधत् ॥२९१॥  
 मूलात् प्रभृति भूजस्य यावत्कन्धमवेष्टत् । विटपेभ्यो निपत्याद्यु धरित्रीं मयविह्वलाः ॥२९२॥  
 प्रयत्नात्त तं दृष्ट्वा बालाः सर्वे यथायथम् । महाभये समुत्पन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति ॥२९३॥

श्री पाश्वेनाथ तीर्थकरके बाद दो सौ पचास वर्ष बीत जानेपर एक महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसीमें शामिल है । कुछ कम बहुतर वर्षकी उनकी आयु थी, वे सात हाथ ऊँचे थे, सब लक्ष्णोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आता आदि दशगुण उनके जन्मसे ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशोभित थे ॥२७९-२८१॥ एक बार संजय और विजय नामके दो चारणमुनियोंको किसी पदार्थमें सन्देह उत्पन्न हुआ था परन्तु भगवान्के जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये और उनके दर्शन मात्रसे ही उनका सन्देह दूर हो गया इसलिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थकर होनेवाला है, अर्थात् उन्होंने उनका सन्मति नाम रखा था ॥२८२-२८३॥ गुणोंको कहनेवाले सार्थक शब्दोंकी तो बात ही क्या थी । श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथमें प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे ॥२८४॥ उन भगवान्के त्यागमें यही दोष था कि दोषोंको कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खूब सार्थक हो जाते थे वहाँ वे ही शब्द उन भगवान्के पास आकर दूरसे ही अनर्थक हो जाते थे ॥२८५॥ उन भगवान्की जैसी प्रीति गुणोंमें थी वैसी न लक्ष्मीमें थी और न कीर्तिमें ही थी । सो ठीक ही है क्योंकि शुभलेख्याके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं ॥२८६॥ इन्द्रकी आज्ञासे कुवेर प्रतिदिन उन भगवान्के समय आयु और इच्छाके अनुसार स्वर्गकी सारभूत भोगोपभोगकी सब वस्तुएँ स्वयं लाया करता था और सदा खर्च करवाया करता था । किसी एक दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर शीवर्धमान स्वामी ही है । यह सुनकर एक संगम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ॥२८७-२८९॥ आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके धारक बालक वर्द्धमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेवाले तथा समान अवस्थाके धारक अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें तत्पर है । यह देख संगम नामका देव उन्हें डरवानेकी इच्छासे किसी बड़े साँपका रूप धारण कर उस वृक्षकी जड़से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया । सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे और शीघ्र ही डालियोपर-से नीचे जमीनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही है क्योंकि महाभय उपस्थित होनेपर महापुरुषके सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥२९०-२९३॥

१ मदसप्तक-ल० । २ तत्सन्देहगत ल० । ३ त्यागोऽयमेव ल० । ४ दोषोऽभिधायिनः क०, म० । ५-प्यहर्दिवम् ल०, ल० । ६-मविष्टित ल० ।

कलजिह्वाशतायुप्रमारुह तमहि विभीः । कुमारः क्रीडयामास<sup>१</sup> मातृपथङ्कवत्तदा ॥२६४॥  
 विजृम्भमाणहर्षान्मोनिधिः संगमकोऽमरः । स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥२९५॥  
 त्रिंशच्छस्त्रिंशत्सर्वैर्भू कौमारमगमद् वधः । ततोऽन्येषुर्मातिज्ञानक्षयोपकामभेदतः ॥२९६॥  
 ससुत्पन्नमहावीरिः स्मृतपूर्वभवान्तरः । कौकान्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः ॥२९७॥  
 सकलामरसद्रोहकृतनिष्क्रमणक्रियः । स्ववाक्प्रीणितसद्गन्धुसंभावितविसर्जनः ॥२९८॥  
 चन्द्रप्रमारुपशिविकामधिरुदो दृढव्रतः । ऊर्ध्वं परिशुद्धैर्नृणां ततो विद्याधराधिपैः ॥२९९॥  
 ततश्चानिमिषाधीशैश्चक्रञ्चामरसंहतिः । प्रभ्रमद्भ्रमरारावैः कोकिलाटापनैरपि ॥३००॥  
 आह्वयद्वा प्रसूनौघैः प्रहसद्वा प्रमोदतः । पल्लवैरनुरागं वा स्वकीयं संप्रकाशयत् ॥३०१॥  
 नाथः षण्डवनं प्राप्य स्वयानाद्वरुह सः । श्रेष्ठः षष्ठीपवालेन स्वप्रभापटकाचूते ॥३०२॥  
 निविद्योद्वन्द्वुलो वीरो रुन्द्ररत्नशिकावले । दशम्यां मार्गशीर्षस्य कृष्णायां शशिनि श्रिते ॥३०३॥  
 हस्तोत्तरार्धयोर्मध्यं भागं चापास्तलक्ष्मणि । दिवसावसितौ धीरः संयमामिसुखोऽभवत् ॥३०४॥  
 वखामरणमात्स्यानि स्वयं शक्रः समाददे । मुक्तान्प्येतेन पूतानि मत्वा माहात्म्यमीदृशम् ॥३०५॥  
 अद्वारायोऽङ्कलनोऽस्य सगन्धोऽहं कथं मया । मोच्योऽयमिति मत्वेव स्थितः शोभां समुद्रहृत् ॥३०६॥  
 मलिनाः कुटिला सुगधैः पूज्यास्त्याज्या सुसुश्रुभिः । केशाः क्लेशसमास्तेन यूना मूलास्तमुद्भृताः ॥३०७॥

जो लहलहाती हुई सौ जिह्वाओंसे अत्यन्त भयंकर दिख रहा था ऐसे उस सर्पपर चढकर कुमार महावीरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया करते थे ॥२६४॥ कुमारकी इस क्रीड़ासे जिसका हर्षरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम देवने भगवान्की स्तुति की और 'महावीर' यह नाम रखा ॥२६५॥ इस प्रकार तीस वर्षोंमें भगवान्का कुमार काल व्यतीत हुआ । तदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानाचरण क्रमके क्षयोपशमविशेषसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूर्वभवका स्मरण हो उठा । उसी समय स्तुति पढते हुए लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥२९६-२९७॥ समस्त देवोंके समूहने आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर वचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्न कर उनसे विदा ली । तदनन्तर व्रतोंको दृढतासे पालन करनेवाले वे भगवान् चन्द्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार हुए । उस पालकीको सबसे पहले भूमिगोचरी राजाओंने, फिर विद्याधर राजाओंने और फिर इन्द्रोंने उठाया था । उनके दोनों ओर चामरोंके समूह हुल रहे थे । इस प्रकार वे षण्ड नामके उस वनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरोंके शब्दों और कोकिलाओंकी कमनीय कूकसे ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, फूलोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हर्षसे हँस ही रहा हो, और लाल-लाल पल्लवोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥२६५-३०१॥ अतिशय श्रेष्ठ भगवान् महावीर, षण्डवनमें पहुँचकर अपनी पालकीसे उतर गये और अपनी ही कान्तिके समूहसे घिरी हुई रत्नमयी बड़ी शिलापर उत्तरकी ओर मुँहकर बेलाका नियम ले विराजमान हो गये । इस तरह मगसिर बंदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हस्त और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब सन्ध्याके समय अतिशय धीर-वीर भगवान् महावीरने संयम धारण किया ॥३०२-३०४॥ भगवान्ने जो वस्त्र, आभरण तथा माला, आदि उतारकर फेंक दिये थे इन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्का माहात्म्य ही ऐसा था ॥३०५॥ उस समय भगवान्के शरीरमें जो सुगन्धित अंगराग लगा हुआ था वह सोच रहा था कि मैं इन उत्तम भगवान्को कैसे छोड़ दूँ ? ऐसा विचारकर ही वह मानो उनके शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥३०६॥ मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा पूज्य होते हैं परन्तु सुसुक्ष्म लोग उन्हें त्याज्य समझते हैं ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण भगवान्ने मलिन और कुटिल ( काले और घुँघुराले ) केश जड़से उखाड़कर दूर फेंक दिये-

१ पितृ इति नववित् । २ तत्प्रभापटलान्विते क०, ग०, घ० । ३ वापास्त ल० । ४ मात्यादि-म० ।

सुराधीशः स्वहस्तेन तान्प्रतीक्ष्य महामणि-ज्वलत्पटलिकामध्ये विन्यस्याभ्यर्च्य मानितान् ॥३०८॥  
 विचित्रकरवखेण पिषाय विष्टतान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं क्षीरचरिताराशौ न्यवेशयत् ॥३०९॥  
 तपोलक्ष्म्या मिगुहोऽभूद् बाढं बाढमसूढधीः । भ्रंभ्येत्य मोक्षलक्ष्मीप्राशम्यत्सर्वं विदग्धया ॥३१०॥  
 अन्तर्ग्रन्थपरित्यागात्तस्य नैर्ग्रन्थगावभौ । भोगिनोऽभ्यस्य निर्माकत्यागवत्त्वावमासते ॥३११॥  
 चतुर्थोऽप्यवबोधोऽस्य संयमेन समर्पितः । तद्वैवान्त्यावबोधस्य सत्यंकार इवेशितुः ॥३१२॥  
 अप्रमत्तगुणस्थाने सुक्तिसाम्राज्यकण्डिका । तपस्तेन तदाकम्बि तत्कथं स्यात् प्रमादिनः ॥३१३॥  
 चतुर्थज्ञाननेत्रस्य निसर्गबलशालिनः । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रमादिनाम् ॥३१४॥  
 सिंहेनैव मया प्राप्तं वने सुनिमताद् व्रतम् । मत्वेवेत्येकतां तत्र सैर्ही वृत्ति समाप सः ॥३१५॥  
 शतीक्षणखट्वेष्टोऽयमक्रूरोऽरक्तकेसरः । शौर्यैकत्ववनस्थानैरन्वयान्मृगविद्विषम् ॥३१६॥  
 सुराः सर्वेऽपि नत्वनमेतत्साहस्रंस्तवे । सक्ताः समगमन् स्वं स्वमोकः संतुष्टचेतसः ॥३१७॥  
 अथ भट्टारकोऽप्यस्मादागत्य कायस्थितिं प्रति । कूलग्रामपुरीं श्रीमान् व्योभगामिपुरोपमम् ॥३१८॥  
 कूळनाम महीपालो दृष्ट्वा तं भक्तिमावितः । प्रियङ्गुकुसुमाङ्गमस्त्रिःपरीत्य प्रदक्षिणम् ॥३१९॥  
 प्रणम्य पादयोर्मूर्ध्ना विधि वा गुह्यमागतम् । प्रतीक्ष्यार्घ्यादिभिः पूज्यस्थाने सुत्याप्य सुव्रतम् ॥३२०॥  
 गन्धादिभिर्विभूज्यैतत्पादोपात्तमहीतलम् । परमाज्ञं त्रिशुद्धयार्त्सै सोऽदितेष्टार्थसाधनम् ॥३२१॥

थे ॥३२०॥ इन्द्रने वे सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंके देदीप्यमान पिटारेमें रखकर उनकी पूजा की, आदर-सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वस्त्रसे उन्हें लपेटकर रखा और फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरमें पधरा दिया ॥३२०-३२६॥ मोक्षलक्ष्मीकी इष्ट और चतुर दूतीके संमान तपोलक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आर्तिगन किया था ॥३२०॥ अन्तरंग परिग्रहोंका त्याग कर देनेसे उनका निर्ग्रन्थपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार साँपका केवल काँचली छोड़ना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्य परिग्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता ॥३२१॥ उसी समय संयमने उन भगवान्को केवलज्ञानके बयानेके समान चौथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥३२२॥ अप्रमत्त-गुणस्थानमें जाकर उन भगवान्ने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था वह प्रमादी जीवको कहाँ सुलभ है ? ॥३२३॥ मनःपर्ययज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले और स्वाभाविक बलसे सुशोभित उन भगवान्के पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापनाचरित्र प्रमादी जीवोंके ही होता है ॥३२४॥ मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही वनमें मुनिराजके उपदेशसे व्रत धारण किये थे यही समझकर मानो उन्होंने सिंहके साथ एकताका ध्यान रखते हुए सिंहवृत्ति धारण की थी ॥३२५॥ यद्यपि उनके सिंहके समान तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दाढ़े नहीं थीं, वे सिंहके समान क्रूर नहीं थे और न सिंहके समान उनकी गरदनपर लाल बाल ही थे फिर भी शूरवीरता, अकेला रहना तथा वनमें ही निवास करना इन तीन विशेषताओंसे वे सिंहका अनुकरण करते थे ॥३२६॥ सब देव, उन भगवान्को नमस्कार कर तथा उनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन हो सन्तुष्टचित्त होकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥३२७॥ अथानन्तर पारणाके दिन वे भट्टारक महावीर स्वामी आहारके लिए वनसे निकले और विद्याधरोंके नगरके समान सुशोभित कूलग्राम नामकी नगरीमें पहुँचे। वहाँ प्रियंगुके फूलके समान कान्तिवाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, चरणोंमें सिर झुकाकर नमस्कार किया और घरपर आयी हुई निधिके समान माना। उत्तम व्रतोंको धारण करनेवाले उन भगवान्को उस राजाने श्रेष्ठ स्थानपर बैठाया, अर्घ आदिके द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समीपवर्ती भूतलकी गन्ध आदिकसे विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाला परमाज्ञ ( खीरका आहार )

१ तपस्विना ल० । तपःस्येन इत्यपि ऋचि । २ सतालम्बि ल० । समालम्बि ल० । ३ पुरम् इति ऋचि । ४ श्रोमद् ल० । ५ विविना इति ऋचि । ६ पूज्यं ष०, क० । ७ विद्युदद्या ल० ।

आनुषङ्गिकमेतत्ते फलं भावि महत्तरम् । इति वक्तुमिवाश्रयंपञ्चकं तद्गृहेऽभवत् ॥३२२॥  
 पुण्यहेतुर्विनेयानां वीरो निर्गम्य तद्गृहात् । त्रिहितेच्छो विविक्तेषु विधातुं विधिवत्तपः ॥३२३॥  
 विषयद्रुमसंकीर्णं कण्ठाटविकोक्तम्<sup>१</sup> । परीषद्महाघोरविश्वश्रवापदसंकुलम् ॥३२४॥  
 कषायमत्तमातङ्गसंघातशतसंततम् । विवृतास्थान्तकानन्तकुम्भीनसविमीपणम् ॥३२५॥  
 चतुर्विधोऽसौ प्रकण्ठीरवकठोरितम् । विघ्नोघतस्करारुद्ध स्वकृत्वा मवदनं शनै ॥३२६॥  
 तपोवनं सनां सेष्यसंघ्याद्वितसुखावहम् । महाजनसमाकीर्णं त्रिस्तीर्णमनुपप्लुतम् ॥३२७॥  
 महाव्रतमहासामन्ताम्बितः सुनयातुगः । दर्शनज्ञानचारित्रव्यं कृत्वा त्रयोऽर्जितः ॥३२८॥  
 शीलानुधो गुणव्रातकवचः शुद्धमार्गगः । सद्भावनासहायः सन् प्रविश्य परमः पुमान् ॥३२९॥  
<sup>२</sup> भावसंस्तत्र निश्शङ्कं तानायोगान्प्रवर्तयन् । धर्म्यध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन् दशविधं सुहृः ॥३३०॥  
 उज्जिन्यामथान्येषुत्तं इमंशानेऽस्तिमुक्तके । वर्धमानं महासत्त्वं प्रतिमायोगधारिणम् ॥३३१॥  
 निरीक्ष्य स्थाप्युरेतस्य दौःख्याद्द्वैर्यं परीक्षितुम् । उक्तस्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविष्टजठराण्यकम् ॥३३२॥  
<sup>३</sup> व्यात्ताननासिमीप्याणि नृस्यन्ति विविधैर्लभ्यै । तर्जयन्ति स्फुरदध्वाभैः साट्टहासैर्दुरीक्षणैः ॥३३३॥  
 स्थूकवेताकरूपाणि निशि कृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीन्द्रमक्षिहवह्व्यानिहैः समसु ॥३३४॥  
 किरातसैन्यरूपाणि पापैकार्जनपण्डितः । विद्याप्रभावसंभावितोपसर्गभयावहैः ॥३३५॥  
 स्वयं हलकथितुं चेतः समाधेरसमर्थकः । स महत्तिमहावीराकथं कृत्वा विविधाः स्तुतौः ॥३३६॥

समर्पण किया। यह तो तुम्हारे दानका आनुपंगिक फल है परन्तु इसका होनहार फल बहुत बड़ा है यही कहनेके लिए मानो उसके घर पंचाश्रयोकी वर्षा हुई ॥३१८-३२२॥ तदनन्तर शिष्योंका पुण्य बढ़ानेवाले वे भगवान् एकान्त स्थानोंमें विधिपूर्वक तप करनेको इच्छासे उसके घरसे निकले ॥३२३॥ जो विषयरूपी वृक्षोंसे संकीर्ण है, इन्द्रियरूपी व्याधियोंसे भरा हुआ है, परीषद् रूपी महाभयंकर सब प्रकारके दुष्ट जीवोंसे सहित है, कषायरूपी मदोन्मत्त हाथियोंके सैकड़ों समूहसे व्याप्त है, सुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहोंसे कठोर है, और विघ्नोंके समूह रूपी चोरोंसे घिरा हुआ है ऐसे संसार रूपी वनको धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगवान्ने, जो सज्जनोंके द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमें अठ्याबाध—बाधा रहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्योंसे व्याप्त है, विस्तीर्ण है और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित है ऐसे तपोवनमें, महाव्रत रूपी महासामन्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलता धारण कर, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलवान्, शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समूहका कवच पहनकर, शुद्धता रूपी मार्गसे चलकर और उत्तम भावनाओंकी सहायता लेकर प्रवेश किया ॥३२४-३२६॥ वहाँपर निःशंकर रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की और एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दश प्रकारके धर्म्यध्यानका चिन्तन किया ॥३३०॥

अथानन्तर—किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान् उज्जिनीके अतिमुक्त नामक इमशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्रने अपनी दुष्टतासे उनके धैर्यकी परीक्षा करने की चाही। उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े वेतालोंका रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो लोक्ष्य चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उदरमें प्रवेश करना चाहते थे, खोले हुए सुँहोंसे अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, अट्टहास और विकराल दृष्टिसे डरा रहे थे। इनके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, अग्नि और वायुके साथ भीलोक्यी सेना बनाकर उपसर्ग किया। इस प्रकार एक पापका ही अर्जन करनेमें निपुण उस रुद्रने, अपनी विद्याके प्रभावसे किये हुए अनेक भयंकर उपसर्गोंसे उन्हें समाधिसे विचलित करनेका प्रयत्न किया परन्तु वह उसमें समर्थ नहीं हो

१ विभक्तषु वचिन्त् । २ विविध तप वचिन्त् । ३ कण्ठाटविधोक्तम् ल० । ४ व्यक्तिल ल० । ५ भावयस्त्वत्र क०, ल०, ग०, घ०, म० । ६ व्यात्ताननासिमीप्याणि वचिन्त् । ७ पापोपार्जनपण्डितः वचिन्त् ।



उभया सममाख्याय नर्तित्वागादंमत्सरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दृष्टसाहसः ॥३३०॥  
 कदाचिच्छेदकाख्यस्य नृपतेश्चन्दनामिधाम् । सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासक्तां कामशारातुरः ॥३३१॥  
 कृतोपायो गृहीत्वैनां कश्चिद्गच्छन्नमश्रुः । पश्चाद्गीत्वा स्वमार्गार्था महादृष्यां व्यसर्जयत् ॥३३२॥  
 वनेचरपतिः कश्चित्तत्राकोवय धनेच्छया । एनां वृषभदत्तस्य वाणिजस्य समर्पयत् ॥३३३॥  
 तस्य मार्गा सुभद्राख्या तथा संपर्कमात्मनः । वणिजः शङ्कमानासी पुराणं कोद्रवोदनम् ॥३३४॥  
 भारनालेन संमिश्रं गरावे निहितं सदा । दिशती शृङ्खलाबन्धभागिनीं तां व्यधादुषा ॥३३५॥  
 परेयवत्सदेशस्य कौशाम्बीनगरान्तरम् । कायस्थित्यै विश्रान्तं तं महावीरं विलोक्य सा ॥३३६॥  
 प्रत्युद्वजन्ती विच्छिन्नशृङ्खलाकृतबन्धना । लोलाकिकुलकीलोरुदेशभाराक्षलाचकात् ॥३३७॥  
 विगडन्मालतीमालादिव्याम्रविभूषणा । नवप्रकारपुण्येसा भक्तिभावभरानता ॥३३८॥  
 शीलमाहात्म्यसंभूतपृथुहेमशाराविका । क्षाल्यन्नभाववत्कोद्रवोदनं विष्विचसुधीः ॥३३९॥  
 अन्नमाश्राणयत्तमै तेनाप्याश्रयंपञ्चकम् । बन्धुमिश्र समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥३४०॥  
 भगवान्बर्धमानोऽपि नीत्वा द्वादशवत्सरान् । छाद्यस्थेन जगद्बन्धुजृम्भिकग्रामसंनिधौ ॥३४१॥  
 ऋजुकूला नदीतीरे मनोहरवनान्तरे । महारत्नशिलापट्टे प्रतिमायोगमावसन् ॥३४२॥  
 स्थित्वा षडोपवासेन सोऽश्वस्तात्सालभूरुहः । वैशाखे मासि सज्योत्सदशम्यामपराह्णे ॥३४३॥  
 हस्तोचरान्तरं याते शशिन्याखदशुद्धिकः । क्षपकश्रेणिमाक्षय्य शुक्लध्यानेन सुस्थितः ॥३४४॥

सका । अन्तमें उसने भगवान्के महति और महावीर ऐसे दो नाम रखकर अनेक प्रकारकी स्तुति की, पार्वतीके साथ वृत्य किया और सब मात्सर्यभाव छोड़कर वह वहाँसे चला गया । सो ठीक ही है क्योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखनेवाले पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥३३१-३३७॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वयक्रीडामें आस थी, उसे देख कोई विद्याधर कामवाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायसे लेकर चल बना । पीछे अपनी स्त्रीसे डरकर उसने उस कन्याको महादृषीमें छोड़ दिया ॥३३५-३३६॥ वहा किसी भीलने देखकर उसको धनकी इच्छासे वृषभदत्त सेठको दी ॥३३७॥ उस सेठकी स्त्रीक नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गयी कि कहीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाये । इस शंकासे वह चन्दनाको खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कांजीसे मिला हुआ कोदौका भात दिया करती थी और क्रोधवशा उसे सदा साँकलसे बाँधे रहती थी ॥३४१-३४२॥ किसी दूस दिन वत्स देशकी उसी कौशाम्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान् महावीर स्वामी गये । उन नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगी । उसी समय उसके साँकल सब बन्धन टूट गये, चंचल भ्रमर-समूहके समान काले उसके बड़े-बड़े केश चंचल हो और उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे गिरने लगी, उसके वस्त्र आभूषण सुन्दर हो गये वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गयी, भक्तिभावके भारसे झुक गयी, शीलके माहात्म्य उसका मिट्टीका शकोरा सुवर्णपात्र बन गया और कोदौका भात शाली चावलका भात गया । उस बुद्धिमतीने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगवान्को आहार दिया इसलिए उसके य पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई और भाई-बन्धुओंके साथ उसका समागम हो गया ॥३४३-३४४॥

इधर जगद्बन्धु भगवान् बर्धमानने भी छद्मस्थ अवस्थाके बारह वर्ष व्यतीत किये किसी एक दिन वे जृम्भिक ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक वनके मं-रत्नमयी एक बड़ी शिडपर सालवृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विर-हूप । वैशाख शुक्ल दशमीके दिन अपराह्ण कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीच चन्द्रमाके आ-जानेपर परिणामोंकी विशुद्धताको बढ़ाते हुए वे क्षपकश्रेणीपर आरूढ हुए

१ वणिजोऽप्ययं पुमान् वाणिजः तस्य । २ शङ्कमानोऽसी ल० । ३ कोद्रवोदनम् ल० । ४ कोद्रवी क०, ल०, ग०, घ०, म० । ५ सोऽव स्यात् ल० ।

धातिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम् । चतुस्त्रिंशदतीक्ष्णव्याभासिमहिमालयः ॥३५२॥  
 सयोगभावपर्यन्ते स्वपरायंप्रसाधक । परमौदारिकं देहं विभ्रदभ्राङ्गणे वमौ ॥३५३॥  
 चतुर्विधामरैः साधं सौधमैन्द्रस्तदागतः । तुर्यकल्याणसत्पूजाविधिं सर्वं समानयत् ॥३५४॥  
 अपापप्राप्तितन्निवृत्त्यास्थायिकातिशयोक्तिः । परमात्मपदं प्रापत्परमेष्ठी स सम्मतिः ॥३५५॥  
 अथ दिव्यध्वजैर्हेतुः को भावीत्युपयोगवान् । तृतीयज्ञाननेत्रेण ज्ञात्वा मां परितुष्टवान् ॥३५६॥  
 तदेवागत्य मद्राशं गौतमाख्यं ज्ञाचीपतिः । तत्र गौतममोत्रोत्थमिन्द्रभूतिं द्विजोत्तमम् ॥३५७॥  
 महाभिमानमादिस्थविमानादेव्यं भास्वरम् । शोषैः पुण्यैः समुत्पन्नं वेदवेदाङ्गवेदिनम् ॥३५८॥  
 द्यूा केनाप्युपायेन समानीयाग्निकं विमोः । स्वपिपृच्छिषित जीवसावं पृच्छेत्प्रचोदयत् ॥३५९॥  
 अस्ति किं नास्ति वा जीवस्तस्वरूपं निरूप्यताम् । इत्यप्राक्षमतो मह्यं भगवान्मन्यवत्सलः ॥३६०॥  
 अस्ति जीवः स चोपात्तदेहमात्रः सदादिभिः । किमादिभिश्च निर्देश्यो नोत्पन्नो न विनष्टक्षयति ॥३६१॥  
 द्रव्यरूपेण पर्यायैः परिणामी प्रतिक्षणम् । चैतन्यलक्षणः कर्ता भोक्ता सर्वैकदेशवित् ॥३६२॥  
 संसारी निवृत्तश्चेति द्वैविध्येन निरूपितः । अनादिस्थस्य संसारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥३६३॥  
 न निवृत्तस्य संसारो नित्या कस्यापि मंसृतिः । अनन्ताः संसृजौ मुक्तास्वदनन्ताः सुलक्षिताः ॥३६४॥  
 सति व्ययैऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यमेव तद्धेतुः शक्तीनामिव वस्तुनः ॥३६५॥

उसी समय उन्होंने शुक्रऽध्यायके द्वारा चारों धातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये और चौतीस अतिशयोसे सुशोभित होकर वे महिमाके घर हो गये ॥३४८-३५२॥ अब वे सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गये, निज और परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिक शरीरको धारण करते हुए आकाशरूपी आँगनमें सुशोभित होने लगे ॥३५३॥ उसी समय सौधर्म स्वर्गका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पूर्ण की ॥३५४॥ पुण्यरूप परमौदारिक शरीरकी पूजा तथा समवसरणकी रचना होना आदि अतिशयोसे सम्पन्न श्रीवर्धमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे और परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥३५५॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवान्की दिव्यबनिका कारण क्या होना चाहिए इस बातका विचार किया और अवधिज्ञानसे मुझे उसका कारण जानकर वह बहुत ही सन्तुष्ट हुआ ॥३५६॥ वह उसी समय मेरे गाँवमें आया । मैं वहाँपर गौतमगोत्रीय इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष बचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था, मेरा शरीर अतिशय वेदीप्यमान था, और मैं वेद-वेदाङ्गका ज्ञाननेवाला था ॥३५७-३५८॥ मुझे देखकर वह इन्द्र किसी उपायसे भगवान्के समीप ले आया और प्रेरणा करने लगा कि तुम जीवतत्त्वके विषयमें जो कुछ पूछना चाहते थे पूछ लो ॥३५९॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैंने भगवान्से पूछा कि हे भगवन् ! जीव नामक कोई पदार्थ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिए । इसके उत्तरमें भव्यवत्सल भगवान् कहने लगे कि जीव नामक पदार्थ है और वह प्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदि सदादिक और निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप कहा जाता है । वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिक्षण परिणमन करता है । चेतना उसका लक्षण है, वह कर्ता है, भोक्ता है और पदार्थोंके एकदेश तथा सर्वदेशका जानकार है ॥३६०-३६२॥ संसारी और मुक्तके भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका संसार अनादिकालसे चला आ रहा है और मोक्ष सादि माना जाता है ॥३६३॥ जो जीव मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अर्थात् वह लौटकर संसारमें नहीं आता । किसी-किसी जीवका संसार नित्य होता है अर्थात् वह अभव्य या दूराद्दूर भव्य होनेके कारण सदा संसारमें रहता है । इस संसारमें अनन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त जीव ही अभी बाकी हैं । कर्मबन्धनमें बँधे हुए जीवोंमेंसे मुक्त हो जानेपर हानि अवश्य होती

१ परमात्-इति ववचित् । २ प्राप म०, ल० । ३ कोऽसावीत्युप-ल० । ४-दित्यभासुरं ल० । ५ सुलक्षिता क०, ख०, ग०, घ०, म० ।

इति जीवस्य याथात्म्यं युक्त्या व्यक्तं न्यरेदयत् । द्रव्यहेतुं विधायाम्य वचः कालादिसाधनः ॥३६६॥  
 विनेयोऽहं कृतश्राद्धो जीवतत्त्वविनिश्चये । सौधर्मपूजितः पञ्चशतब्राह्मणसूनुभिः ॥३६७॥  
 श्रीवर्धमानमानस्य संयमं प्रतिपन्नवान् । तदैव मे ससुत्पन्नाः परिणामविशेषतः ॥३६८॥  
 ऋद्धयः सप्तसर्वाङ्गानामप्यर्थपदान्यतः । मट्टारकोपदेशेन श्रावणे बहुले तियो ॥३६९॥  
 पक्षादावर्थरूपेण सद्यः पर्यागमन् स्फुटम् । पूर्वाह्णे पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्यनुक्रमात् ॥३७०॥  
 इत्यनुज्ञातमर्वाङ्गपूर्वार्थो धीचतुष्कवान् । अङ्गानां ग्रन्थसंदर्भं पूर्वात्रो व्यधामहम् ॥३७१॥  
 पूर्वाणां पश्चिमे भागे ग्रन्थकर्ता ततोऽभवम् । इति श्रुतद्विभिः पूर्णोऽभूवं गणभृदादिभिः ॥३७२॥  
 ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूयग्निभूतिकौ । सुधर्ममौर्धौ मौन्द्राख्यः पुत्रसैत्रेयसंज्ञकौ ॥३७३॥  
 अकम्पनोऽन्धवेलाख्यः प्रभासश्च मया सह । एकादशेन्द्रसंपूज्याः सन्मतेर्गणनायकाः ॥३७४॥  
 शतानि त्रीणि पूर्वाणां धारिणः शिक्षकाः परे । शून्यद्वितयर्भ्रादिरन्प्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥३७५॥  
 सहस्रमेकं त्रिज्ञानकोचनास्त्रिशताधिकम् । पञ्चभावगमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः ॥३७६॥  
 शतानि नवविज्ञेया विक्रियद्विविद्धिताः । शतानि पञ्च संपूज्याश्रुतुर्थज्ञानकोचनाः ॥३७७॥  
 चतुःशतानि संप्रोक्तास्तत्रानुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिताः स्युर्मुनीश्वराः ॥३७८॥  
 चन्दनाधारिकाः शून्यत्रयपदवह्निसंमिताः । श्रावका रक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥३७९॥  
 देवा देव्योऽप्यसंख्यातास्तिर्यञ्चः कृतसंख्यकाः । गणैर्द्वादशभिः प्रोक्तैः परीतेन जिनेक्षिना ॥३८०॥  
 सिंहाविष्टरमध्यस्थेनाथंमागधभाषया । षड्द्रव्याणि पदार्थाश्च सप्तसंस्तुतिमोक्षयोः ॥३८१॥

है परन्तु उनका क्षय नहीं होता और उसका कारण जीवोंका अनन्तपना ही है । जिस प्रकार पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें अनन्त जीव रहते हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता ॥३६४-३६५॥ इस प्रकार भगवान्ने युक्तिपूर्वक जीव तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप कहा । भगवान्के वचनको द्रव्यहेतु मानकर तथा काललक्षित्र आदिकी कारण सामग्री मिलनेपर मुझे जीवतत्त्वका निश्चय हो गया और मैं उसकी श्रद्धा कर भगवान्का शिष्य बन गया । तदनन्तर सौधर्मेन्द्रने मेरी पूजा की और मैंने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कार कर संयम धारण कर लिया । परिणामोंकी विशेष शुद्धि होनेसे मुझे उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयीं । तदनन्तर मट्टारक वर्धमान स्वामीके उपदेशसे मुझे श्रावण वदो प्रतिपदाके दिन पूर्वाह्न कालमें समस्त अंगोंके अर्थ और पद स्पष्ट जान पड़े । इसी तरह उसी दिन अपराह्न कालमें अनुक्रमसे पूर्वोक्ते अर्थ तथा पदोंका भी स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-३७०॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वोक्ता ज्ञान हुआ है और जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है ऐसे मैंने रात्रिके पूर्व भागमें अंगोंकी और पिछले भागमें पूर्वोक्ती ग्रन्थ-रचना की । उसी समयसे मैं ग्रन्थकर्ता हुआ । इस तरह श्रुतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ मैं भगवान् महावीर स्वामीका प्रथम गगधर हो गया ॥३७१-३७३॥ इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, सौर्य, मौन्द्रय, पुत्र, सैत्रेय, अकम्पन, अन्ध-वेला तथा प्रभास ये गणधर और हुए । इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीवर्धमान स्वामीके इन्द्रों-द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥३७३-३७४॥ इनके सिवाय तीन सौ ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोक्ते धारक थे, नौ हजार नौ सौ यथार्थ संयमको धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार तीन सौ अवधिज्ञानी थे, सात सौ केवलज्ञानी परमेष्ठी थे, नौ सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, पाँच सौ पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तरवादी थे इस प्रकार सब मुनीश्वरोंकी संख्या चौदह हजार थी ॥ ३७५-३७८ ॥ चन्दनाको आदि लेकर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं, और संख्यात तिर्यच थे । इस प्रकार ऊपर कहे हुए बारह गणोंसे परिश्रुत भगवान्ने सिंहासनके मध्यमें स्थित हो अर्धभागधी भापाके द्वारा छह द्रव्य, सात तत्त्व, संसार और मोक्षके

प्रत्ययस्तत्कलं चैतस्त्वमेव प्रपञ्चतः । प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपायै सुनिरूपितम् ॥३८२॥  
 'औपचित्त्यादिधीयुक्ताः श्रुतवन्तः समासदा' । केचित्संयमापन्ना संयमार्थं परे ॥३८३॥  
 सम्यक्त्वमपरे सद्यः स्वमग्न्यत्वविशेषतः । एव श्रीवर्धमानेशो वित्पद्धर्मदेशनाम् ॥३८४॥  
 क्रमाद्वाजगृहं प्राप्य तस्थिवान् विपुलाचले । श्रुत्वैतदागमं सद्यो मगधेत्स्वमागतः ॥३८५॥  
 इति सर्वं समाकर्ण्य प्रनुष्टः प्रणतो मुहुः । जातसंवेगनिर्वेदः स्वपूर्वभवंस्ततिसिम् ॥३८६॥  
 अन्वयुद्धक गणाधीर्षं सोऽपीति प्रत्यवबुधत् । त्रिपष्टिकक्षणं पूर्वं पुराणं पृष्टमादितः ॥३८७॥  
 निर्दिष्टं च मया स्पष्टं श्रुतं च भवता स्फुटम् । शृणु चित्तं समाधाय श्रेणिकं श्रावकोत्तमं ॥३८८॥  
 वृत्तकं तव वक्ष्यामी मयत्रयनिबन्धनम् । इह जन्ममति द्वीपे विन्ध्याद्रौ <sup>१</sup>कुटजाह्वये ॥३८९॥  
 वने खदिरसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा मुनिम् । समाधिगुप्तनामान समीक्ष्य व्यनमन्मुदा ॥३९०॥  
 धर्मलामोऽस्तु तेष्वेति चाकृताग्रासनं मुनिः । 'स धर्मो नाम किरूपस्तेन किं कृत्यमञ्जिनाम् ॥३९१॥  
 'किरातेनेति संश्रुतं सोऽपीति प्रत्यभाषत । निवृत्तिर्मधुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ॥३९२॥  
 स धर्मस्तस्य लामो यो धर्मलामः स उच्यते । तेन कृत्यं परं पुण्यं पुण्यात्स्वर्गं सुखं परम् ॥३९३॥  
 श्रुत्वा तन्नाहमस्य स्यामि-युवाच वनेचरः । 'तदाकृतं वितवयाह मुनिः किं कावर्माणकम् ॥३९४॥  
 भव्यं भक्षितपूर्वं ते न वैति सुधियां वरः । तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याख्यत्सकदापि न भक्षितम् ॥३९५॥  
 मयेत्येवं यदि त्वाग्रे तत्रयेत्यन्नवीन्मुनिः । सोऽपि तद्वाक्यमाकर्ण्य प्रनुष्टो दीयतां व्रतम् ॥३९६॥  
 तदित्यादाय वन्दित्वा गानस्तस्य कदाचन । व्याधावसाध्ये संभूते काकमांसस्य भक्षणात् ॥३९७॥

कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय और निक्षेप आदि उपार्थोंके द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण किया । भगवानका उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ समासर्दाने संयम धारण किया, कितनों हीने संयमार्थंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी विशेषतासे शीघ्र ही सन्यग्दर्शन धारण किया । इस प्रकार श्रीवर्धमान स्वामी धर्मदेशना करते हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आये और वहाँ विपुलाचल नामक पर्वतपर स्थित हो गये । हे मगधेश ! जब तुमने भगवानके आगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये ॥३७९-३८५॥ यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ, उसने बार-बार उन्हें प्रणाम किया, तथा संवेग और निर्वेदसे युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे । उसके उत्तरमें गणधर स्वामी भी समझाने लगे कि तूने पहले तिरसठशलाका पुरुषोक्ता पुराण पूछा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे तुझे कहा है और तूने उसे रपष्टरूपसे सुना भी है । हे श्रावकोत्तम श्रेणिक ! अब मैं तेरे तीन भवका चरित कहता हूँ सो तू चित्तको स्थिर कर सुन । इसी जन्मपूर्वकी विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज नामक वन है उसमें किसी समय खदिरसार नामका भील रहता था । एक दिन उसने समाधि-गुप्त नामके मुनिराजके दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥३८६-३९०॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने 'आज तुझे धर्म लाभ हो' ऐसा आशीर्वाद दिया । तब उस भीलने पूछा कि हे प्रभो ! धर्म क्या है ? और उससे लाभ क्या है ? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे विरक्त होना धर्म लाभ कहलाता है । उस धमकी प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता है । उस धर्मसे पुण्य होता है और पुण्यसे स्वर्गमें परम सुखकी प्राप्ति होती है ॥३९१-३९३॥ यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता । मुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने लगे कि, हे भव्य ! क्या तूने कभी पहले कौआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भील, मुनिराजके वचन सुनकर और विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है । इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिए । मुनिराजके वचन सुनकर उसने बहुत ही सन्तुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह व्रत मुझे दिया जाय ॥३९४-३९६॥ तदनन्तर

१ प्रत्यय ल० । २ उपपत्तिकादि ल० । ३ श्रावकोत्तमं ल० । ४ कुटजाह्वये ल० । ५-किरातः कौदुशो धर्मस् ल० । ६ तदा कुल-ल० ।

शान्तिरस्येति निर्दिष्टं मिषमिन् स वनेचरः । प्रयान्त्वमी मम प्राणाः किं कृत्यमिव वैश्रलैः ॥३९॥

व्रतं तपोधनाभ्याशे गृहीतं धर्ममिच्छता । कृतसंकल्पमद्गृह्य कृतस्तत्पुरुषव्रतम् ॥३९॥

पापेनानेन मांसेन नाथ प्राणिणिषाम्यहम् । इति नैच्छत्तद्वक्तं तच्छ्रुत्वा तमैशुनः पुरात् ॥४०॥

सारसौख्यात्समागच्छन् शूरवीरामिधानकः । महागहनमध्यस्थान्यग्रोधपृथिवीरुहः ॥४०॥

अधस्ताद्योषितं कांचिद्गृहीतमनिवीक्ष्य सः । रोदिषीत्य कुतो ब्रह्मीत्यत्र वीतं साप्युवाच तम् ॥४०॥

शृणु चित्तं समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम् । वने खदिरसारस्ते मैथुनो न्याधिपीडितः ॥४०॥

काकमांसनिवृत्त्यासौ पतिर्मम भविष्यति । गच्छंस्त्वं तं परिस्थकमांसं मोजयितुं पुनः ॥४०॥

नरके घोरदुःखानां माजनं कर्तुमिच्छसि । ततो मे रोदनं तस्मात्पुत्र मद्र तवाग्रहम् ॥४०॥

इति तद्देवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः । संप्राप्यातुरमाकोक्य मिषकक्रियतमौषधम् ॥४०॥

त्वया मयोपनोदार्थमुपयोक्तव्यमित्यसौ । जगाद् सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छश्रेवमन्नवीत् ॥४०॥

त्वं मे प्राणसमो बन्धुर्मां जिजीवयिषुः दिनहा । नवीपदेवं हितं नैवं जीवितं व्रतमन्नजात् ॥४०॥

दुर्गतिप्राप्तिहेतुत्वादिति तद्व्रतनिश्चितम् । ज्ञात्वा यक्षीप्रपञ्चं तं शूरवीरोऽप्यबोधयत् ॥४०॥

तद्वृत्तान्तं विचार्यायौ श्रावकव्रतपञ्चकम् । समादायाखिलं जीवितान्ते सौधर्मकल्पजः ॥४१॥

देवोऽभवदनिर्देश्यः शूरवीरोऽपि दुःखितः । परलोकक्रियां कृत्वा श्वावांसं समुपब्रजन् ॥४१॥

वटद्रुमसमीपस्थो यक्षि किं मे स मैथुनः । पतिस्त्ववामवशेति यक्षीमाहावदुक् सा ॥४१॥

समस्तव्रतसंपन्नो न्यन्तरत्त्वपराद्गुणः । अश्रूसौधर्मकल्पेऽसौ पतिर्मम कथं भवेत् ॥४१॥

वह भील व्रत लेकर चला गया । किसी एक समय उस भीलको असाध्य बीमारी हुई तब वैद्योंने बतलाया कि कौआका मांस खानेसे यह बीमारी शान्त हो सकती है । इसके उत्तरमें भीलने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जावें ? मुझे इन चंचल प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, मैंने धर्मकी इच्छासे तपस्वी-गुनिराजके समीप व्रत ग्रहण किया है । जो गृहीत व्रतका भंग कर देता है उससे पुरुष व्रत कैसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज जीवित नहीं रहना चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कौआका मांस खाना स्वीकृत नहीं किया । यह सुनकर उसका साला शूरवीर जो कि सारसौख्य नामक नगरसे आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने सघन वनके मध्यमें स्थित वट वृक्षके नीचे किसी स्त्रीको रोती हुई देखा । उसे रोती देख, मैंने पूछा कि तू क्यों रो रही है ? इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन । मैं वनकी यक्षी हूँ और इसी वनमें रहती हूँ । तेरा बहनोई खदिरसार रोगसे पीडित है और कौआका मांस त्याग करनेसे वह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे त्याग किया हुआ मांस खिलानेके लिए जा रहा है और उसे नरक गतिके भयंकर दुःखोंका पात्र बनाना चाहता है । मैं इसीलिए रो रही हूँ । हे भद्र ! अब तू अपना आग्रह छोड़ दे ॥३९७-४०॥ इस प्रकार देवीके वचन सुनकर शूरवीर, बीमार-खदिरसारके पास पहुँचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैद्यने जो औषधि बतलायी है वह और नहीं तो मेरी प्रसन्नताके लिए ही तुझे खाना चाहिए । खदिरसार उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू व्रत भंगकर जीवित रहना हितकारी नहीं है क्योंकि व्रत भंग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका कारण है । जब शूरवीरको निश्चय हो गया कि वह अपने व्रतमें दृढ़ है तब उसने उसे कारणात् । जब शूरवीर भी बहुत दुःखी हुआ और पारलौकिक क्रिया करके अपने घरकी ओर चला । मार्गमें वह उसी वटवृक्षके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने लगा कि हे यक्षि ! क्या-हमारा वह बहनोई तेरा पति हुआ है ? इसके उत्तरमें यक्षीने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतोंसे

प्रकृष्टादिव्यभोगानां भोक्तेति वननायकः । तत्स्वार्थं तद्बुधो ध्यायन्नहो माहात्म्यमीदृशम् ॥४१४॥  
 व्रतस्यामीप्सितं सौख्यं प्रापयेदिति भावयन् । समाधिगुप्तमभ्येत्य श्रावकव्रतमग्रहीत् ॥४१५॥  
 भव्योऽयमिति तं मत्वा यक्षी तल्पक्षपाततः । उपायेनानयज्जैनं धर्मं सा हि हितैषिता ॥४१६॥  
 स्वर्गात्खदिरसारोऽपि द्विसागरमितायुषा । दिव्यं भोगोपभोगान्ते निदानात्प्रच्युतस्ततः ॥४१७॥  
 सूनुः कुणिकभृपस्य श्रीमत्त्वां त्वमभूरसौ । अथान्दया पिना तेऽसौ<sup>१</sup> मंतुञ्जेषु मवैत्पतिः ॥४१८॥  
 राज्यस्य कतमोऽत्रेति निमित्तैः सकलैरपि । सम्यक्परीक्ष्य संतुष्टो निसर्गात्स्नेहितस्त्वयि ॥४१९॥  
 राज्यस्याहोऽयमेवेति निश्चित्यापायशङ्कया । दायार्थेभ्यः परित्रातुं त्वां सुधीः कृत्रिमक्रुधा ॥४२०॥  
 निराकरोत्पुरात्तस्माद्देशान्तरमभीयुषः । <sup>२</sup>अप्रकाशानुपादेशमयात्ताः सकलाः प्रजाः ॥४२१॥  
 नन्दिग्रामनिवासिन्य<sup>३</sup> प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । स्नानभोजनशय्यादिक्रियावैमुख्यमागमन् ॥४२२॥  
 ततस्त्वमपि केरापि ब्राह्मणेन समं व्रजन् । देवताजातिपापं<sup>४</sup> गिन्दमोहप्रतिविधाधिनीः ॥४२३॥  
 कथाः प्रपयन्प्रीत्या तदीयस्थानमापिवान् । त्वद्वाग्मिस्त्वयुवत्वादिगुणरक्तमतिर्द्विजः ॥४२४॥  
 वित्तीर्णवान् सुवां तुभं निजामापूर्णयौवनाम् । तदराणिग्रहणं कृत्वा चिरं<sup>५</sup> तत्रावसः सुखम् ॥४२५॥  
 कदाचिक्केनचिद्धेतुनाथं राज्यं परित्यजन् । भवन्तं ब्राह्मणग्रामादानीय कुणिकक्षीतौ ॥४२६॥  
 त्वं राज्यं दत्तवान्स्त्वयं त्वं च तत्प्रतिपाठयन् । अनमिव्यक्तकोपः सन् पूर्वावज्ञानसंस्मृते ॥४२७॥  
 विधित्सुनिर्ग्रहं सूत्रं नन्दिग्रामनिवासिनाम् । आदिष्टवान् क्वं तेषां निर्बोद्धमितदुत्करम् ॥४२८॥

सम्पन्न हो गया था अतः व्यन्तर योनिसे पराङ्मुख होकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ है वह मेरा पति कैसे हो सकता था ॥४१०-४१३॥ वह तो स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है । इस प्रकार वनका स्वामी झूरवीर, यक्षीके यथार्थ वचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि अहो ! व्रतका ऐसा माहात्म्य है ? अवश्य ही वह इच्छित सुखको प्राप्त कराता है । ऐसा विचारकर उसने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप जाकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये ॥४१४-४१५॥ इस प्रकार उस यक्षीने उसे भव्य समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म धारण कराया सो ठीक ही है क्योंकि हितैषिता—पर हितकी चाह रखना, यही है ॥४१६॥ उधर खदिरसारका जीव भी दो सागर तक दिव्य भोगोंका उपभोग कर स्वर्गसे च्युत हुआ और यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है । अथानन्तर किसी दिन तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें राज्यका स्वामी कौन होगा ? उसने निमित्त-ज्ञानियोंके द्वारा बताया हुए समस्त निमित्तोंसे तेरी अच्छी तरह परीक्षा की और वह इस बातका निश्चय कर बहुत ही सन्तुष्ट हुआ कि राज्यका स्वामी तू ही है । तुझपर वह स्वभावसे ही स्नेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुझपर कोई संकट न आ पड़े इस भयसे दायार्थसे तेरी रक्षा करनेके लिए उस बुद्धिमानने तुझे बनावटी क्रोधसे उस नगरसे निकाल दिया । तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दिग्राममें पहुँचा । राजाकी प्रकट आज्ञाके भयसे नन्दिग्राममें रहनेवाली समस्त प्रजा तुझे देखकर न उठी और न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे विमुख रही ॥४१७-४२२॥

तदनन्तर तू भी किसी ब्राह्मणके साथ आगे चला और देवमूढता, जातिमूढता तथा पाषण्डिमूढताका खण्डन करनेवाली कथाओंको कहता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा । तेरे वचनकौशल और यौवन आदि गुणोंसे अनुरजित होकर उस ब्राह्मणने तेरे लिए यौवनवती पुत्री दे दी और तू उसके साथ विवाह कर वहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा ॥४२३-४२५॥ किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने उस ब्राह्मणके गाँवसे तुझे बुलाकर अपना सब राज्य तुझे दे दिया और तू भी राज्यका पालन करने लगा । यद्यपि तूने अपना क्रोध बाह्यमें प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर

<sup>१</sup> ते स ल० । <sup>२</sup> सुप्रकाशानुपादेशमयात्र सकला ल० । <sup>३</sup> पाखण्ड-ल० । <sup>४</sup> तत्रावसत्सुखी ल० । <sup>५</sup> सुधी म०, ल० ।

भवतो विप्रकम्पायां सुतोऽभूदभयाह्वयः । स कदाचिन्निरुपस्थानादागच्छत्स्वां समीक्षितुम् ॥४२९॥  
 समं जन्नन्या सन्नन्दिग्रामे स्वत्तःसमाकुलाः । प्रजाः समीक्ष्य ते कोपमुपायैः समशीशमत् ॥४३०॥  
 नानोपायप्रवीणोऽयममयाख्योऽस्तु पण्डितः । नाम्नेति विद्विराहूतः स तदा तेन धीमता ॥४३१॥  
 पुत्रेणानेन सार्धं स्वमिहाद्यैर्नमुपस्थितः । शृण्वन्पुराणसद्भावमित्याहाकर्ण्य तद्वचः ॥४३२॥  
 सर्वं निधाय तच्चित्ते श्रद्धामूमहती मते । जैने कुतस्त्वधापि स्थान्न मे व्रतपरिग्रहः ॥४३३॥  
 इत्यनुश्रेणिकप्रश्नाद्वादीद् गणनायकः । भोगसंजननाद्गाढमिथ्यात्वानुभवोदयात् ॥४३४॥  
 दुश्चरित्रान्महारम्भात्संचित्यैवो निकाचितम् । नारकं बद्धवानायुस्त्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥४३५॥  
 बद्धदेवायुषोन्धायुर्नाङ्गी स्वीकुरुते व्रतम् । श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्त्वं नाग्रहीर्नमम् ॥४३६॥  
 पुराणश्रुतसंभूतविशुद्धया करणत्रयात् । सम्यक्त्वमादिमं प्राप्य शान्तसप्तमहारजाः ॥४३७॥  
 अन्तमुहूर्तकालेन सम्यक्त्वोदयमाविते । क्षायोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने संचकारामकं ॥४३८॥  
 सप्तप्रकृतिनिर्मूलक्षयात्क्षायिकमागतः । आज्ञामार्गोपदेशोत्थं सूत्रबीजसमुद्भवम् ॥४३९॥  
 संक्षेपाद्विस्तृतैरर्थान्चावाप्तंभवगाढकम् । परमाद्यवगाढं च सम्यक्त्वं दशधोदितम् ॥४४०॥  
 सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन पद्धद्वय्यादिषु या रुचिः । साज्ञा निस्संगनिश्चैलपाणिपात्रत्वलक्षणम् ॥४४१॥  
 मोक्षमार्गं इति श्रुत्वा या रुचिर्मार्गज्ञा त्वसौ । त्रिषष्टिपुरुषादीनां या पुराणप्ररूपणात् ॥४४२॥

की याद्वानेसे तू नन्दिग्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निग्रह करना चाहता था इसी इच्छासे तूने वहाँ रहनेवाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे ॥४१६-४२८॥ तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अभयकुमार नामका पुत्र हुआ था । ग्रह किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके लिए माताके साथ आ रहा था । जब वह नन्दिग्राममें आया तब उसने वहाँकी प्रजाको तुझसे अत्यन्त व्यग्र देखा, इसलिए उसने वहाँ ठहरकर योग्य उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥४२९-४३०॥ तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा था ॥४३१॥ हे राजन् ! आज तू यहाँ रसी बुद्धिमान् पुत्रके साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण कर रहा है । इस प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें धारण किये और कहा कि हे भगवन् ! यद्यपि मेरी जैनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं व्रत ग्रहण क्यों नहीं कर पाता ? ॥४३२-४३३॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगोंकी आसक्ति, तीव्र मिथ्यात्वका उदय, दुश्चरित्र और महान् आरम्भके कारण, जो बिना फल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया है । ऐसा नियम है कि जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर लिया है वह उस पर्यायमें व्रत धारण नहीं कर सकता । हाँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है । यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है ॥४३४-४३६॥ इस प्रकार पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपशम कर प्रथम अर्थात् उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ॥४३७॥ अन्तमुहूर्तके बाद उसके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमें आ गया और उसके कुछ ही बाद सातों प्रकृतियोंका निर्मूल नाश कर वह क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो गया । सम्यग्दर्शन उत्पत्तिकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है—आज्ञा, मार्ग, उपदेशोत्थ, सूत्रसमुद्भव, बीजसमुद्भव, संक्षेपज, विस्तारज, अर्थज, अवगाढ और परमाद्यवगाढ ॥४३८-४४०॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं । मोक्षमार्ग परिग्रह रहित है, बन्ध रहित है और पाणिपात्रत्वरूप है इस प्रकार मोक्षमार्ग का स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज सम्यक्त्व है । तिरसेठ शलाकापुरुषोंका

श्रद्धा सद्यः समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्गता<sup>१</sup> । आचाराख्यादिमाङ्गीकृतपोभेदश्रुतेषु<sup>२</sup> तम् ॥४४३॥  
 प्रादुर्भूता रुचिस्तज्ज्ञैः सूत्रज्ञेति निरूप्यते । या तु बीजपदादानं पूर्वसूक्ष्मार्थज्ञा रुचिः ॥४४४॥  
 बीजज्ञासौ पदार्थानां संक्षेपीकथा समुद्गता । या सा संक्षेपज्ञा यान्त्रा तस्या विस्तारज्ञा तु सा ॥४४५॥  
 प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपैरतिविसृते । अवगाह्य परिव्रानात्तत्त्वस्याज्ञादिमाषितम् ॥४४६॥  
 वाग्विस्तरपरिचयमादुपदेष्टुमर्हामते । अर्थमात्रं समादानसमुत्था रुचिर्यज्ञा ॥४४७॥  
 अत्र ज्ञाहासत्त्वावभावनातः समुद्गता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढेति कथ्यते ॥४४८॥  
 केवलावगमाळोकिताखिलाथंगता रुचिः । परमाद्यत्रगाढाऽसौ श्रद्धेति परमर्षिभिः ॥४४९॥  
 एतास्वपि महाभाग तव सन्त्यथ काश्चन । दर्शनाद्यागमप्रोक्तशुद्धषोडशकारणैः ॥४५०॥  
 मव्यो व्यस्तैः समस्तैश्च नामात्मोक्तैस्तन्मम् । तेषु श्रद्धादिभिः कैश्चिद् बद्ध्वा तन्नामकारणैः ॥४५१॥  
 रत्नप्रभां प्रविष्टं सन् तत्फलं मध्यमायुषा । भुक्त्वा निर्गत्य मव्यास्मिन् महापद्माक्यतीर्थकृत ॥४५२॥  
 आगाम्युत्सर्पिणीकाळस्यादिभः क्षेमकृत्सताम् । तस्मादासन्नमव्योऽस्मि मा मैषी. संस्तुरेति ॥४५३॥  
 स्वस्य रत्नप्रभांवासेर्विषण्णः श्रेणिकः पुनः । अप्राक्षीद्वीधनान्योऽपि पुरेऽरिमन् पुण्यधामनि ॥४५४॥  
 किमस्यधोगतिं यास्यन्नित्यतो मुनिरादिशत् । काळसौकरिकस्यात्र शुभायाश्च प्रवेशनम् ॥४५५॥  
 अस्ति द्विजतन्जायास्तत्कुलश्रेणिशम्यताम् । काळसौकरिकोऽत्रैव पुरे नीचकुले भृशम् ॥४५६॥  
 भवस्थितिवशाद् बद्धनरायु पापकर्मणा । सप्तकृत्वोऽधुना जातिस्मरो भूत्वैवमस्मरत् ॥४५७॥

पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्थ सम्यग्दर्शन है । आचारांग-  
 आदि शास्त्रोंमें कहे हुए तपके भेद सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज्ञ सम्य-  
 गदर्शन कहलाता है । बीजपदादि प्रहण पूर्वक सूक्ष्म पदार्थोंसे जो श्रद्धा होती है उसे बीजज्ञ  
 सम्यग्दर्शन कहते हैं । पदार्थोंके संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज्ञ सम्यग्दर्शन है,  
 जो विस्तारसे कहे हुए प्रमाण नय निक्षेप आदि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर अंग पूर्व आदिमें  
 कहे हुए तत्त्वोंकी श्रद्धा होती है वह विस्तारज्ञ सम्यग्दर्शन कहलाता है । वचनोंका विस्तार  
 छोड़कर महाबुद्धिमान् उपदेशकसे जो केवल अर्थमात्रका ग्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह  
 अर्थज्ञ सम्यग्दर्शन है । जिसका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया है, ऐसे मनुष्यको अंग तथा अंग-  
 बाह्य अर्थोंकी भावनासे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाढ सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥४४१-  
 ४४८॥ केवल-ज्ञानके द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थोंकी जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ  
 सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा परमर्षियोंने कहा है ॥४४९॥ हे महाभाग ! इन श्रद्धाओंमेंसे आज  
 कितनी ही श्रद्धाएँ—सम्यग्दर्शन विद्यमान हैं । इनके सिवाय आगममें जिन दर्शन-विशुद्धि  
 आदि शुद्ध सोलह कारण भावनाओंका वर्णन किया गया है उन सभीसे अथवा यथासम्भव  
 प्राप्त हुई पृथक्-पृथक् कुछ भावनाओंसे भव्य जीव तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करता है ।  
 उनमेंसे दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू तीर्थकर नामकर्मका बन्ध कर रत्नप्रभा  
 नामक पहली पृथिवीमें प्रवेश करेगा, मध्यम आयुसे वहाँका फल भोगकर निकलेगा और  
 तदनन्तर हे भव्य ! तू इसी भरतक्षेत्रमें आगामी उत्सर्पिणी कालमें सज्जनोंका कल्याण करने-  
 वाला महापद्म नामका पहला तीर्थकर होगा । तू निकट भव्य है अतः संसारसे भय मत्त  
 कर ॥ ४५०-४५३ ॥ तदनन्तर अपने-आपको रत्नप्रभा पृथिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद  
 हो रहा है ऐसे राजा श्रेणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले गुरुदेव !  
 मुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक जानेवाला है ? उत्तरमें  
 गणधर भगवान् कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसौकरिक और ब्राह्मणकी पुत्री शुभाका  
 भी नरकमें प्रवेश होगा । उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा ? यदि यह जानना चाहता है  
 तो सुन मैं कहता हूँ । कालसौकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था । वह वद्यपि  
 पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके वशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया  
 था । अबकी बार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है

१ समुद्भवा ल० । २ पूर्वा ल०, घ०; ३ अर्थमात्र समादाय म०, ल० । अर्थमात्रतमायान इति वचित् ।  
 ६०



पुण्यपापफलेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम् । मया कथमिवाकस्मि मनुष्यभवंसंभवः ॥४५८॥  
 ततः पुण्यं न पापं वा यथेष्टं वर्तनं सुखम् । इति कृतवानु निश्चक्रे पापी हिंसादिपञ्चकम् ॥४५९॥  
 मांसाद्याहारसंस्पर्शो बह्वारम्भपरिग्रहैः । अनुबद्धोऽपि<sup>१</sup> बद्ध्वायुर्नरकं परमावधि ॥४६०॥  
 तेन यास्यत्यसौ पृथ्वीं सप्तमीं घोरदुःखदाम् । शुभा चोप्राणुभागोत्थस्त्रीवेदोदयभाविता ॥४६१॥  
 प्रवृद्धारगद्ग्रेषुपैशुन्यादिप्रदूषिता । गुणशीलसदाचारात् श्रुत्वाकोक्य च कोपिनी ॥४६२॥  
 संक्षेपेन सदाबद्धनरकास्तनुच्युतौ । तमःप्रभामहादुःखभागिर्नर्यं न विप्यति ॥४६३॥  
 इति तद्वचनप्रान्ते प्रणिपत्य सुमंश्वरम् । कुमारोऽप्यभयोऽपृच्छ स्वमवान्तरसंततिम् ॥४६४॥  
 तदनुग्रहदुद्भवमाहासौ भव्यवत्सलः । इतोऽभवत्तृतीयेऽत्र भवे मयोऽपि सन्मुधीः<sup>२</sup> ॥४६५॥  
 कश्चिद्विप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभ्रमन् । देशान्तराणि पाषण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥४६६॥  
 लोकेन च विमुह्याकृलौ भूतस्तत्प्रशंसनम् । तदाचरितमप्युच्चैरनुसिद्धन्नयेच्छया ॥४६७॥  
 केनचित्पथिकेनामा ईनेन पथि स व्रजन् । पाषाणराशिसंलक्ष्य भूताधिष्ठितभूरहः ॥४६८॥  
 समीपं प्राप्य सक्तयातो दैवमेतदिति<sup>३</sup> हुमम् । परीत्य प्राग्मद्दृष्ट्वा तच्चेहं श्रावकः स्मिती ॥४६९॥  
 तस्यावसतिविध्यर्थं तद्दूमादात्तपत्स वै । परिश्रुज्य स्वपादकधूलिं ते पश्य देवता ॥४७०॥  
 माहंतानां विघाताय समर्थंत्ववदद्भिजम् । विप्रेणानु तथैवास्तु को दोषस्तव देवताम् ॥४७१॥  
 परिभूतिपदं नेष्याम्युपाध्यायस्त्वमत्र मे । इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमासवान् ॥४७२॥

॥४५४-४५७॥ कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीवोंका सम्बन्ध रहता है तो फिर मुझ-जैसे पापीको मनुष्य-भव कैसे मिल गया ? इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है और न पाप है— इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ही सुख है । ऐसा विचार कर वह पापी निःशंक हो हिंसादि पाँचों पाप करने लगा है, मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है और बहुत आरम्भ तथा परिग्रहों-के कारण नरककी उत्कृष्ट आयुका बन्ध भी कर चुका है । अब वह मरकर भयंकर दुःख देने-वाली सातवीं पृथिवीमें जावेगा । इसी प्रकार शुभा भी तीव्र अनुभागजन्य स्त्रीवेदके उदयसे युक्त है, अतिशय बढ़े हुए रागद्वेष पैशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दूषित है, गुण शील तथा सदाचारकी बात सुनकर और देखकर बहुत क्रोध करती है। निरन्तर संकलेश परिणाम रखनेसे वह नरकायुका बन्ध कर चुकी है और शरीर छूटनेपर तमःप्रभा पृथिवी सम्बन्धी घोर दुःख भोगेगी ॥४५८-४६३॥ इस प्रकार गणधरके वचन समाप्त होनेपर अभयकुमारने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवान्तरोंका समूह पूछा ॥४६४॥

भव्य जीवोंपर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवान्, अभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भवमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था और भव्य होनेपर भी दुर्बुद्धि था । वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घूमता-फिरता था, पाषण्डि-मूढता, देवमूढता, तीर्थमूढता, जातिमूढता और लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल रहता था, उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंकी बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी इच्छासे उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंका स्वयं आचरण करता था ॥४६५-४६७॥ एक बार वह किसी जैनी पथिकके साथ मार्गमें कहीं जा रहा था । मार्गमें पत्थरोंके ढेरके समीप दिखाई देनेवाला भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष था । उसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझ-कर ब्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया । उसकी इस चेष्टाको देखकर श्रावक हँसने लगा तथा उसका अनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षके कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पैरोंकी धूलि झाड़ ली और ब्राह्मणसे कहा कि देख तेरा देवता जैनियोंका कुछ भी विघात करनेमें समर्थ नहीं है । इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोष है ? मैं भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर लूँगा, इस विषयमें तुम मेरे गुरु ही सही । इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक

श्रावकः कपिरोमाख्यवल्मीकाजालं समीक्ष्य मे । दैवमेतदिति व्यक्तमुक्त्वा भक्त्या परीत्य तत् ॥४७३॥  
 प्रणम्य स्थितवान् विप्रोऽप्याविष्कृतस्वाज्ञकः । कराभ्यां तत्समुच्छिन्दन् विशुद्धं त्रय समन्ततः ॥४७४॥  
 तस्मिन्सहस्रकण्ठ्याविशोपेणातिवाधित । एतस्सन्नहितं दैवं त्वदीयमिति भीतवान् ॥४७५॥  
 सहासो विद्यते नान्यद्विधा तु सुखदुःखयोः । प्राणिनां प्राक्तनं कर्म मुक्त्वास्मिन्मूलं कारणम् ॥४७६॥  
 श्रेयोऽवाप्तु ततो यानं तपोदानादिकर्मभिः । क्रुद्धं मतिमन्मौख्य हित्वा दैवनिबन्धनम् ॥४७७॥  
 देवाः खलु सहायत्वं यान्ति पुण्यवतां तुणाम् । न ते किञ्चिच्छराः पुण्यविलये श्रुत्यसनिभाः ॥४७८॥  
 ह्युक्त्वास्तद्विजोद्भूतदैवमूल्यस्ततः क्रमात् । श्रावकस्तेन विप्रेण गङ्गातीरं समागमत् ॥४७९॥  
 बुभुक्षुस्त्वन्न विप्रोऽसौ मणिगङ्गाख्यमुत्तमम् । तीर्थमेतदिति ज्ञात्वा तीर्थमूलं समागमत् ॥४८०॥  
 अथास्मै भोक्तुकामाय मुक्त्वा स श्रावकः स्वयम् । स्वीच्छिष्टं सुरसिन्ध्वन्मुमिश्रितं पावनं त्वया ॥४८१॥  
 भोक्तव्यमिति विप्राय ददौ ज्ञापयितुं हितम् । तद्द्रष्टुं कथं सुभे तवोच्छिष्टं विशिष्टताम् ॥४८२॥  
 किं न वेत्सि ममैवं त्वं वक्तविति स तमब्रवीत् । कथं तीर्थजलं पापमलापनयने क्षमम् ॥४८३॥  
 यद्यद्योच्छिष्टदीपं चेन्नापनेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां प्रत्येयां सुपथचेतसाम् ॥४८४॥  
 त्यज दुर्वासनां पापं प्रक्षाल्यमिति चारिणा । तथैव चेतपोदानाद्यनुष्ठानेन किं वृथा ॥४८५॥  
 तेनैव पापं प्रक्षाल्य सर्वत्र सुलस जलस्य । मिथ्यात्वादिचतुष्केण बध्यते पापमूर्जितम् ॥४८६॥  
 सम्यक्त्वादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निर्हृति । एतज्जैनेश्वरं तत्त्वं गृहाणेत्यवदत् पुन ॥४८७॥

स्थानमें जा पहुँचे । वहाँ करेचकी लताओका समूह देखकर श्रावकने कहा कि 'यह हमारा देवता है' यह कहकर श्रावकने उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और यह सब कर वह वहीं खड़ा हो गया । अज्ञानी ब्राह्मणने कुपित होकर दोनों हाथोंसे उस लता-समूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रंग सब शरीरमें लगा लिया । लगाते देर नहीं हुई कि वह, उस करेचके द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने लगा तथा डरकर श्रावकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है ॥४८६-४८५॥ ब्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, श्रावक हँसता हुआ कहने लगा कि जीवोंको जो सुख-दुःख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्मको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है ॥४८६॥ इसलिए तू तप दान आदि सत्यकार्योंके द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर और हे बुद्धिमन् ! इस देवविषयक मूढताको छोड़ दे । निश्चयसे देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं वे श्रुत्यके समान हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ॥४८७-४८८॥ इस प्रकार कहकर श्रावकने उस ब्राह्मणकी देवमूढता दूर कर दी । तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्मणके साथ चलता हुआ श्रावक गंगा नदीके किनारे पहुँचा ॥४८९॥ मूल लगनेपर उस ब्राह्मणने 'यह मणिगंगा नामका उत्तम तीर्थ है' यह समझकर वहाँ स्नान किया और इस तरह वह तीर्थमूढताको प्राप्त हुआ ॥४९०॥ तदनन्तर जब वह ब्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने लगा तब उस श्रावकने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जूँठनेमें गंगाका जल मिला दिया और हितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि 'यह पवित्र है तुम खाओ' । यह देख ब्राह्मणने कहा कि 'मैं तुम्हारी जूँठन कैसे खाऊँ ? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते ?' ब्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थजल यदि आज जूँठनका दोष दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलको दूर हटानेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनोके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या वासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है । यदि जलके द्वारा पाप धोये जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदिके करनेसे क्या लाभ है ? ॥४८९-४९०॥ जल सब जगह सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिए । यथार्थमें बात यह है कि मिथ्यात्व, अविरोध, प्रसाद तथा कषाय इन चारके द्वारा तीव्र पापका बन्ध होता है और सम्यक्त्व,

१ स्वोत्पुत्रक. ल० । २ मूढ इत्यपि क्वचित् । ३ तके किञ्चित्करा. पुण्यवलये क० । ४ प्रथेया ल० ।

श्रुत्वा तद्वचनं त्रिप्रस्त्रीर्थमौढ्यं निराकरोत् । अथ तत्रैव पञ्चाग्निमध्येऽन्यैर्दुःसहं तपः ॥४८८॥  
 कुर्वन्तस्तापसस्थोच्चैः प्रज्वलद्ब्रह्मिंसंहृतौ । स्वअयन्प्राणिनां वार्तां षट्भेदानामभारतम् ॥४८९॥  
 तस्य पाषण्डमौढ्यं च युक्तिभिः स निराकृतः । गोर्मांसमक्षणगम्यागमायैः पतिवैक्षणत् ॥४९०॥  
 वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्नप्यदर्शनात् । ब्राह्मण्यदिषु शूद्राद्यैर्गर्भधानप्रदर्शनात् ॥४९१॥  
 नास्ति जातिक्रोरो भेदो मनुष्याणां बवाश्ववत् । आकृतिग्रहणात्समादन्यथा पश्चिक्त्यते ॥४९२॥  
 जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लव्यानस्य हेतवः । येषु ते स्फुल्लयो वर्णाः शेषाः शूद्राः प्रकीर्तिताः ॥४९३॥  
 अच्छेदो मुक्तियोग्याया विदेहे जातिसंततेः । तद्वेतुनामगोत्राख्यजीवाविच्छिन्नसंभवात् ॥४९४॥  
 शेषयोस्तु चतुर्थे स्यात्काले तज्जातिसंततिः । एवं वर्णविभाग स्यान्मनुष्येषु जिनागमे ॥४९५॥  
 इत्यादिहेतुमिर्जातिमौढ्यमस्य निराकरोत् । वटेऽस्मिन् खलु वित्तेशो वसतीत्येवमादिकम् ॥४९६॥  
 वाच्यं श्रद्धाय तद्योग्यमाचरन्तो मह्यीशुभः । किं न जानन्ति लोकस्य मार्गोऽयं प्रथितो महान् ॥४९७॥  
 न त्यक्तुं शक्य इत्यादि न प्राह्यं लौकिकं वचः । आसोक्तागमब्राह्मणान्मत्तोन्मत्तकवाच्यवत् ॥४९८॥  
 इति तल्लोकमौढ्यं च निरास्यदथ सोऽब्रवीत् । आसोक्तागमवैमुख्यादिति हेतुर्न मां प्रति ॥४९९॥  
 सांख्याद्यासप्रवादानां पौरुषेयत्वदोषत । दूषिता, पुरुषा, सर्वे वादं रागाद्यविद्यया ॥५००॥

ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है । और अन्तमें इन्हींसे मोक्ष प्राप्त होता है । यह जिनेन्द्र देवका तत्त्व है—मूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर । ऐसा उस श्रावकने ब्राह्मणसे कहा ॥५०६-४०७॥ श्रावकके उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणने तीर्थमूढता छोड़ दी । तदनन्तर वहीं एक तापस, पंचाग्नियोंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह—कठिन तप कर रहा था । वहाँ जलती हुई अग्निके बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पाषण्डिमूढता भी दूर कर दी । तदनन्तर जाति मूढता दूर करनेके लिए वह श्रावक कहने लगा कि गोर्मांस मक्षण और अगम्य-स्त्रीसेवन आदिसे लोग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें वर्ण तथा आकृतिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं आता और ब्राह्मणी आदिमें शूद्र आदिके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्योंमें गाय और घोड़ेके समान जाति कृत कुछ भी भेद नहीं है यदि आकृतिमें कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शूद्रमें आकृति भेद नहीं है अतः उनमें जातिकी कल्पना करना अन्यथा है । जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण है वे त्रिवर्ण कहलाते हैं और बाकी शूद्र कहे गये हैं । विदेह क्षेत्रमें मोक्षमें जानेके योग्य जातिका कर्मा विच्छेद नहीं होता क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रसे सहित जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्थकालमें ही जातिकी परम्परा चलती है अन्य कालोंमें नहीं । जिनागममें मनुष्योंका वर्णविभाग इस प्रकार बतलाया गया है ॥४८८-४९५॥ इत्यादि हेतुओंके द्वारा श्रावकने ब्राह्मणकी जातिमूढता दूर कर दी । 'इस षट्शूद्रपर कुचेर रहता है' इत्यादि वाक्योंका विश्वास कर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो क्या कुछ जानते नहीं हैं । कुछ सचाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं । यह लोकका मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता—लोकमें जो रुढ़िथो चली आ रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि लौकिक जनोंके वचन, आप्त भगवाचके द्वारा कहे इस आगमसे बाह्य होनेके कारण नशेसे भरत अथवा पागल मनुष्यके वचनोंके समान प्राह्य नहीं हैं ॥४९६-४९८॥ इस प्रकार श्रावकने उस ब्राह्मणकी लोकमूढता भी दूर कर दी । तदनन्तर ब्राह्मणने श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्त भगवाचके द्वारा कहे हुए आगमसे बाह्य होनेके कारण लौकिक वचन प्राह्य नहीं हैं सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योंकि सांख्य आदि आप्तजनोंके जो भी आगम विद्यमान है वे पौरुषेयत्व दोषसे प्रमाणभूत नहीं

इत्यनाक चितार्थस्य वचस्तेनैति सारताम् । यतो रागाद्यविद्यानां कचिभिर्मूलसंक्षयः ॥५०१॥  
 सर्वज्ञस्य विरागस्य प्रयोगः साधनं प्रति । क्रियते युक्तिवादानुसारिणो विदुषस्तव । ५०२॥  
 कचिदात्यन्तिकीं पुंसि यान्ति सार्धमविद्यया । रागाद्यस्तिरोभूतिं तारतम्यावकोकनात् ॥५०३॥  
 सामग्रीसंनिधानेन कनकायमकमङ्कवत् । तत्तथावन्न जायते तारतम्यं च नो भवेत् ॥५०४॥  
 दृष्टेस्तदस्तु चेन्मूलहानिः केन निवार्यते । सर्वशास्त्रकलामिज्ञे सर्वज्ञोक्तिर्जिनोदित्वा ॥५०५॥  
 मुख्यसर्वज्ञसंसिद्धिं गौणत्वात्साधयेद्विद्यम् । चैत्रे सिंहाभिधानेन मुख्यसिंहस्य सिद्धिवत् ॥५०६॥  
 न मां प्रति प्रयोगोऽयं युक्तिहेतोर्निराकृतेः । अवस्थादेशकाकादिभेदाद्भिन्नासु शक्तिषु ॥५०७॥  
 भावानामनुमानेन प्रतीतिरविदुर्लभा । यत्नेन साधितोऽप्ययं कुशलैरनुमात्सिः ॥५०८॥  
 अभियुक्तैरन्यैरन्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पर्शादिवान्धस्य विषमे पथि धावतः ॥५०९॥  
 अनुमानप्रधानस्य विनिपातो न दुर्लभः । इति चेद्विप्र नैतेन गृह्यते महतां मनः ॥५१०॥  
 हेतुवादोऽप्रमाणं चेद्यथाश्रुतिरकृत्रिमा । इतीदं सत्यमेवं किं कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥५११॥  
 वाक्प्रयोगो न तथ्यः स्याद्धेत्वमावाविशेषतः । भूत्वा श्रीर्त्वापि तद्धेतुरेषितव्यस्त्वय्यपि सः ॥५१२॥  
 इदं तस्मिन्मयामीष्यो विश्ववित्किं न सिध्यति । तत्तस्मिन्प्रोक्तसूत्रेण विरुद्धं नेष्यते बुधैः ॥५१३॥

है। पुरुषकृत रचना होनेसे ग्राह्य नहीं हैं। यथार्थमे संसारमें जितने पुरुष है वे सभी रागादि अविद्यासे दूषित हैं अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं? ॥४६६-५००॥ इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूँकि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है इसलिए तुम्हारे ध्वचन सारताको प्राप्त नहीं है—ठीक नहीं है। तुमने जो कहा है कि संसारके सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दूषित हैं यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी पुरुषमें राग आदि अविद्याओंका निर्मूल क्षय हो जाना सम्भव है। तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्वान् हो अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञबीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है ॥५०१-५०२॥ रागादिक भावों और अविद्यामें तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुषमें अविद्याके साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा अभावको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलनेसे सुवर्ण पाषाणकी किट्ट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री मिलनेपर पुरुषके रागादिक दोष भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य—हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोषोंकी निर्मूल हानिको कौन रोक सकता है? समस्त शास्त्रों और कलाओंके जाननेवाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सो उनकी यह सर्वज्ञकी गौण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञकी सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषको सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है ॥५०३-५०६॥ 'कदाचित् यह कहा जाय कि सर्वज्ञ सिद्ध करनेका यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका निराकरण किया जा चुका है ॥ अवस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी है इसलिए रागादि दोषोंकी हीनाधिकता तो सम्भव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है। अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता यत्नपूर्वक जिस पदार्थको सिद्ध करते हैं अन्य प्रवादियोंकी ओरसे वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे विषय-मार्गमें दौड़नेवाले अन्धे मनुष्यका मार्गमें पड़ जाना दुर्लभ नहीं है उसी प्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलनेवाले पुरुषका भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। हे विप्र! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन आकर्षित नहीं हो सकता' ॥५०७-५१०॥ इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवादको अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार 'वेद अकृत्रिम हैं—पौरुषेय है' आपका यह कहना सत्य है तो उसी प्रकार 'वेद कृत्रिम हैं—पौरुषेय है' हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिए? हेतुके अभावकी बात कहो तो वह दोनों ओर समान है। इस प्रकार भर-सड़कर भी आपको हेतुवाद स्वीकृत करना ही पड़ेगा और जब आप इस तरह हेतुवाद स्वीकृत कर लेते हैं

विप्रस्त्वं षट्प्रमावादी न चार्वाको न मां प्रति । प्रयोगोऽनभ्युपेतत्वादिद्युक्तिर्घटते न ते ॥५१४॥  
 साध्यसाधनसंबन्धो हेतुश्राध्यक्षगोचरः । ऊहाद्वयांसिः कथं न स्यात्प्रयोगस्त्वं प्रति प्रमा ॥५१५॥  
 काचित्कव्यभिचाराच्चेत्प्रत्यक्षेऽपि न सोऽस्ति किम् । नानुमानं प्रमेत्यार्थं सुच्यतामयमाग्रहः ॥५१६॥  
 प्रत्यक्षमविसंवादि प्रमाणमिति चेत्कृतः । अनुमानेऽपि तन्नेष्टमनिष्टं किं क्षितीक्षितिः ॥५१७॥  
 अस्तु सांख्यादिवादानामप्रामाण्यं विरोधतः । इष्टेन तेन संवादसिद्धेर्वदस्य नाहंतः ॥५१८॥  
 इत्याहंतोक्तं तत्तत्त्वं श्रुत्वा सर्वं द्विजात्मजः । स्वहृतीतो ममाभ्यस्तु धर्मोऽद्य प्रभृतीति सः ॥५१९॥  
 तदाज्ञयाऽग्रहीद्धर्मं निर्मलं जिनभाषितम् । सद्ब्रह्मो हितमन्ते स्यादातुराधेव भेषजम् ॥५२०॥  
 अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परिभ्रष्टमागौ दिद्सूदतां गतौ ॥५२१॥  
 देशकोऽस्ति न मार्गस्थ वनमेतदमानुषम् । नास्ति कश्चिदुपायोऽन्न विहाय जिनभाषितम् ॥५२२॥  
 परिच्छेदो हि पाण्डित्यं शूरस्याहारदेहयोः । इति संन्यस्य सद्द्यानेनासीनं श्रावकं द्विजः ॥५२३॥  
 विळोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन शुद्धधीः । स्थित्वा तथैव संप्राप्तसमाधिर्जीवितावधौ ॥५२४॥  
 सौधर्मकल्पे देवोऽभूदमुक्त्वा तत्रामरं सुखम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपते ॥५२५॥

तब मेरे द्वारा अभीष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है । इस विद्वान् लोग सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहे हुए वचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते ॥५११-५१३॥ इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंको माननेवाले सीमांसक हो, के प्रत्यक्षको माननेवाले चार्वाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानक प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है । संगत नहीं बैठता ॥५१४॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कह हैं वह प्रत्यक्षका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है कि आप अनुमानको प्रमाण क्यों नहीं मानते ? ॥५१५॥ यदि यह कहा जाय कि अनुमान कदाचित् व्यभिचार ( दोष ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं होता । अवश्य होता है । इसलिये हे आर्थ ! 'अनुमान प्रमाण नहीं है' यह आग्रह छोड़िए ॥५१६॥ यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष विसंवादरहित है इसलिये प्रमाणभूत है तो अनुमानमें भी त विसंवादका अभाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो । युक्तिकी समानता रहते एकको प्रमाण माना जाय और दूसरेको अप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पक्ष है त फिर राजाओंकी क्या आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दर्शनोमें अप्रामाणिकता भले ही र क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है परन्तु अरहन्त भगवान्के दर्शनमें अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है । इस प्रकार साथके जैनी-श्रावक के द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्त्वको सुनकर ब्राह्मणने कहा कि जिस धर्मको आपने ग्रह किया है वही धर्म आजसे मेरा भी हो ॥५१७-५१९॥ श्रावककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिने-भगवान्के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रका औषधि, बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषके वचन भी अन्तमें ही ही करते है ॥५२०॥

अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सधन अटवीके बीचमें पापके उ मार्ग भूलकर दिशाभ्रान्त हो गये ॥५२१॥ उस समय श्रावकने विचार किया कि 'चूँकि यह मनुष्य रहित है अतः वहाँ कोई मार्गका बतलानेवाला नहीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवा द्वारा कहे हुए उपायको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है । ऐसी दशामे आहार तथा शरीरक त्याग कर देना ही शूरवीरकी पण्डिताई है' ऐसा विचारकर वह संन्यासकी प्रतिज्ञा लेक उत्तमध्यानके लिए बैठ गया । श्रावकको बैठ देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गय है ऐसा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया । आयु पूर्ण होनेपर वह ब्राह्म

अभयाख्यः सुलो धीमानजनिष्ठास्त्वमीदृशः । अतः परं तपः कृत्वा जिनैर्द्वादश धोदितम् ॥५२६॥  
 अवापस्यसि पदं मुक्तेरित्यसौ चावबुध्य तत् । अभिवन्द्य जिनं राजा सह तृष्टोऽविशतपुरम् ॥५२७॥  
 अधान्येयुर्महाराजः श्रेणिकः सदसि स्थितः । अमयं सर्वबाह्यं कुमारे वरवाग्मिनम् ॥ -२८॥  
 तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं तत्त्वं पप्रच्छ वस्तुनः । सोऽप्यासन्नविनेयत्वाद्द्वस्तुथात्मात्म्यदर्शिधीः ॥५२९॥  
 स्वद्विजोःसर्गिभामारविभासितसमान्तरः । एवं निरूपयामास स्पष्टशृष्टेःपीगुणः ॥५३०॥  
 यस्य जंवादिभावानां याथात्म्येन प्रकाशनम् । तं पण्डितं ब्रुवाः प्राहुः परे नाम्नैव पण्डिताः ॥५३१॥  
 जीवाद्याः काळपर्यन्तः पदार्था जिनभाविताः । द्रव्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावकाः ॥५३२॥  
 सर्वथात्मादितत्त्वानां मोहान्नित्यस्वकल्पने । सर्वद्रव्येषु संभूतिः परिणामस्य नो भवेत् ॥५३३॥  
 क्षणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकं च न । न फलं च तथाऽलोकव्यवहारविशेषनम् ॥५३४॥  
 नित्यत्वस्योपचारेण सत्त्वात्तस्य विज्ञोपनम् । नो चेन्मिथ्योपचारेण कथं तत्सस्य साधनम् ॥५३५॥  
 धर्मद्वयोपलम्भाभ्यां दृष्ट्वाऽप्यर्थक्रियां ब्रुवन् । भ्रान्तमन्यतरं ब्रूयादन्यस्याभ्रान्ततरं कुतः ॥५३६॥  
 पुरुषमार्त्मकं सर्वं वाञ्छतोऽज्ञितवादिनः । सामान्येतरसंभूतौ कुत संशयनिर्णयो ॥५३७॥  
 प्रतीयमानज्ञानाभिधानासत्याभिधायिन । तथोरसत्यज्ञानाभिधानयोः केन सत्यता ॥५३८॥

सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहाँ देवोंके सुख भोगकर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके बदयसे यहाँ राजा श्रेणिकके तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ है । आगे तू श्री जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ बारह प्रकारका तपश्चरण कर मुञ्चितका पद प्राप्त करेगा । यह सब जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रीजिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ नगरमें चला गया ॥५२२-५२७॥

अथानन्तर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले श्रेष्ठ वक्ता अभयकुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छासे तत्त्वका यथार्थ स्वरूप पूछा । अभयकुमार भी निकटभव्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थ स्वरूपको देखनेवाला था तथा स्पष्ट मिष्ट और इष्टरूप वाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए अपने दाँतोकी पैलनेवाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यभागको सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा ॥५२८-५३०॥ आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थोंका ठीक-ठीक बोध होता है विद्वान् लोग उसे ही पण्डित कहते हैं वाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते हैं ॥५३१॥ अभयकुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवान्ने जीवसे लेकर काल पर्यन्त अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं । ये सभी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभाववाले हैं ॥५३२॥ यदि जीवादि पदार्थोंको अज्ञान वश सर्वथा नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रव्योंमें जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा ॥५३३॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको सर्वथा क्षणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रियाका फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहारका सर्वथा नाश हो जावेगा ॥५३४॥ कदाचित् यह कहा जायकि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकव्यवहारका सर्वथा नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? आखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदार्थका निर्णय होना सम्भव नहीं है ॥५३५॥ जबकि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे ही पदार्थकी अर्थ क्रिया होती देखी जाती है तब दो धर्मोंमें-से एकको भ्रान्त कहनेवाला पुरुष दूसरे धर्मको अभ्रान्त किस प्रकार कह सकता है ? भावार्थ—जब अर्थ क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनों ही अभ्रान्त हैं यह मानना चाहिए ॥५३६॥ जो वादी समस्त पदार्थोंको एक धर्मात्मक ही मानते हैं उनके मतमें सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होनेवाले संशय और निर्णय, सामान और विशेष धर्मके आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थको सामान्य विशेष—दोनों रूप मानकर एक रूप ही माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ॥५३७॥ पदार्थ उभय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान

गुणगुण्यमित्येवन्धे संवन्धान्तरवादिनः । निसंवनवानवस्थाभ्युपेतहान्यनिवारणम् ॥५३९॥  
 तथैवैकान्तदुर्वाद्गर्भं सर्वज्ञभाषितम् । नित्यानित्यात्मकं तत्त्वं प्रत्येतत्त्वं मनीषिणा ॥५४०॥  
 सर्ववित्तन्मतश्रद्धा सम्यग्दर्शनमिष्यते । ज्ञातिस्तत्प्रोक्तवस्तुनां सम्यग्ज्ञानमुदाहृतम् ॥५४१॥  
 तदागमोपदेशेन योगत्रयनिषेधनम् । चारित्रं तत्त्वज्ञं युक्तं सुक्तेर्मन्वस्य साधनम् ॥५४२॥  
 समेतमेव सम्यक्त्वज्ञानाभ्यां चरितं मत्तम् । न्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥५४३॥  
 कात्स्न्येन कर्मणां कृत्वा संवरं निर्जरां पराम् । प्राप्नोत परमस्थानं विनेयो विश्वदृक् ततः ॥५४४॥  
 इति सर्वं मनोहारि श्रुत्वा तस्य निरूपणम् ३ । वस्तुतत्त्वोपदेशोऽयं कुशलोऽभयपण्डितः ॥५४५॥  
 इति सर्वं समासीनास्त्वमाहात्म्यं समस्तुवन् । समात्सर्षानं चेतके वा नस्तुवन्ति गुणान्सत्ताम् ॥५४६॥

होता है और ऐसा ही कहनेमें आता है फिर भी जो उसे असत्य कहता है उसके उस असत्य ज्ञान और असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ? भावार्थ—जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोकव्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होता है ? प्रतीयमान पदार्थको असत्य और अप्रतीयमान पदार्थको सत्य मानना युक्तिसंगत नह है ॥५३९॥ पदार्थोंमें गुण-गुणी सम्बन्ध विद्यमान है । उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतमें सम्बन्धका अभाव होनेसे अभ्युपेत—स्वीकृत मतकी हानि होती है और अनवस्था दोषकी अनिवार्यता आती है । भावार्थ—गुण गुणी सम्बन्धके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ स है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव कहलाया और ऐसा माननेसे तुम्हारा ज्ञ स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं है उस पक्षमें बाधा आती है । इससे ब लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न होता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे त उस दूसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दो अनिवार्य हो जावेगा ॥५३९॥ इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिथ्यावादका गर्भ छोड़कर सर्व भगवान्के द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥५४०॥ सर्व सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए पदार्थ जानना सो सम्यग्ज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोंका रोक सम्यक्चारित्र कहलाता है । ये तीनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥५४१५४२॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्यग्दर्शन औ सम्यग्ज्ञान चतुर्थगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके बिना भी होते हैं । भावार्थ—सम्यक्चारित्र एकदेश और सर्वदेशकी अपेक्षा दो भेद हैं । उनमें एक देशचारित्र पञ्चम गुणस्थानमें होता और सर्वदेशचारित्र षष्ठ आदि गुणस्थानमें होता है । जिस जीवको सम्यक्चारित्र हो जात है उसके सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान अनिवार्य रूपसे होते हैं परन्तु जिसमें सम्यग्दर्शन औ सम्यग्ज्ञान है उसे सम्यक्चारित्र अनिवार्य नहीं है । होता भी है और नहीं भी होता । नह होनेकी अवस्था सिर्फ चतुर्थ गुणस्थानमें ही संभव है, क्योंकि वहाँ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो है पर सम्यक्चारित्र नहीं है ॥५४३॥ इसलिए सम्यग्दर्शिन भव्य जीवको समस्त कर्मों का उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिए ॥५४४॥ इ प्रकार मनको हरण करनेवाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हु सब लोग कहने लगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें बहुत ही कुशल पण्डि

१ सर्ववित्तं तन्मते श्रद्धा-क०, ख०, ग०, घ० । २ प्राप्नोति-इत्यपि भववित् । ३ प्ररूपणम् इत्य क्वचित् । ४ गुणात्मताम् ल० ।

पृथिवीच्छन्दः

धियोऽस्य सहजन्मना कुशाकिनः कुशाप्रयता

श्रुतेन कृतसंस्कृतेर्निशितता नु चान्यैव सा ।

ततः स निखिलां सभामभयपण्डितो वायुगुणै-

रुपायनिपुणेषु लब्धविजयध्वजोऽरज्यत् ॥५४७॥

मालिनीच्छन्दः

क्व स सुविदिततत्त्वः श्रावकः क्वायमज्जः

स्फुरितदुरितदूराह्वमौञ्चैर्द्रुडीयान् ।

अमरपरिवृद्धत्वं प्राप्य तस्योपदेशा-

दमयविमुरभूत्सत्संगमः किं न कुर्यात् ॥५४८॥

शार्दूलविक्रीडितम्

स्याद्दीप्तत्वविमशिनी कृतधियः श्रद्धानुविद्धा तथा

हित्वा हेयमुपेयमाप्य विचरन् विच्छिद्य बन्धास्ततः ।

सत्कर्माणि च संततं बहुगुणं संज्ञावयन् संततेः

प्रान्त प्राप्य भवेदिवाभयविमुनिर्वाणसौख्यालयः ॥५४९॥

इत्याष भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे अन्तिमतीर्थंकर-श्रेणिकामरक-  
कुमारचरितव्यावर्णनं नाम चतु सप्ततितमं पर्वं ॥७३॥

है । इस तरह सभी लोगोंने उसके माहात्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईर्ष्या रहित ऐसे कौन मनुष्य हैं जो सज्जनोंके गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४५-५४६ ॥ इस बुद्धिमान्की बुद्धि जन्मसे ही कुशाग्र थी फिर शास्त्रके संस्कारसे और भी तेज होकर अनोखी हो गयी थी इसीलिए अनेक उपायोंमें निपुण मनुष्योंमें विजयपताका प्राप्त करनेवाले उस अभयकुमार पण्डितने अपने वचनके गुणोंसे समस्त सभाको प्रसन्न कर दिया था ॥५४७॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्त्वोंको जाननेवाला वह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके कारण बहुत दूर तक बढी हुई मूढताओंसे अत्यन्त दृढ यह अज्ञानी ब्राह्मण ? फिर भी उसके उपदेशसे देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका समागम क्या नहीं करता है ? अर्थात् सब कुछ करता है ॥५४८॥ जिस कुशल पुरुषकी बुद्धि तत्त्वोंका विचार करनेवाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है वह उस बुद्धिके द्वारा छोड़ने योग्य तत्त्वको छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तत्त्वको ग्रहण कर विचरता है । मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति करता है, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर असंख्यातगुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान मोक्षमुखका स्थान बन जाता है ॥५४९॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिकक्षण महापुराणके संग्रहमें अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, राजा श्रेणिक और अभयकुमारके चरितका वर्णन करनेवाला चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥७३॥



## पञ्चसप्ततितमं पर्वं

अथान्येषुः समासीनं गणेशं विपुलाचले । श्रेणिकः प्रीणिताशेषमर्षं सुव्यक्ततेजसम् ॥१॥  
 गणिन्याश्चन्दनार्थायाः संबन्धमिह जन्मनः । अन्वयुक्तं गणी चैत्रमाहाहितमहद्विकः ॥२॥  
 सिन्ध्वाख्यविषये भूम्भृद्देशाली नगरेऽभवत् । चेटकाख्योऽतिविख्यातो विनीतः परमाहृतः ॥३॥  
 तस्य देवी सुमद्राख्या तयोः पुत्रा दशामवन् । धनाख्यौ दत्तमद्रान्तात्रुपेन्द्रोऽन्यः सुदत्तवाक् ॥४॥  
 सिंहमद्रः सुकुम्भोजोऽकम्पनः सपतङ्गकः । प्रमञ्जनः प्रभासश्च धर्मा इव सुनिर्मलाः ॥५॥  
 सप्तर्धयो वा पुण्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी । ततो मृगावती पश्चात्सुप्रभा च प्रभावती ॥६॥  
 चेकिनी पन्चमी ज्येष्ठा षष्ठी चान्त्या च चन्दना । विदेहविषये कुण्डसंज्ञायाम् पुरि भूपतिः ॥७॥  
 नाथो नाथकुलस्यैकः सिद्धार्थख्यस्त्रिसिद्धिभाक् । तस्य पुण्यानुभावेन प्रियासीप्रियकारिणी ॥८॥  
 विषये वत्सवासाख्ये कौशाम्बीनगराधिपः । सोमवंशे शतानीको देव्यस्यासीन्मृगावती ॥९॥  
 दशार्णविषये राजा हेमकच्छपुराधिपः । सूर्यवंशस्यरे राजसमो दशरथोऽभवत् ॥१०॥  
 तस्याभूत्सुप्रभा देवी मास्वतो वा प्रभामला । कच्छाख्यविषये रोरुकाख्यायां पुरि भूपतिः ॥११॥  
 महानुदयनस्तस्य प्रेमदासभूत्प्रभावती । प्राप शीलवतीख्यातिं सा सम्यक्शूलधारणात् ॥१२॥  
 गान्धारविषये ख्यातो महीपाको महीपुरे । याचित्वा सत्यको ज्येष्ठामलम्ब्या क्रुद्धवान् विधिः ॥१३॥  
 युद्ध्वा रणाङ्गणे प्राप्तमानमङ्गः स सत्रपः । सद्यो दमवरं प्राप्य ततः संयममग्रहीत् ॥१४॥

अथानन्तर—किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके धारक गौतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे । उनके समीप जाकर राजा श्रेणिकने समस्त आर्यिकाओंकी स्वामिनी चन्दना नामकी आर्यिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी सो अनेक बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले-गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥१-२॥ सिन्धु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र देवका अतिशय भक्त राजा था । उसकी रानीका नाम सुमद्रा था । उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुम्भोज, अकम्पन, पतंगक, प्रमञ्जन और प्रभास नामसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंके समान जान पड़ते थे ॥३-५॥ इन पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्धियोंके समान सात पुत्रियाँ भी थीं । जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेकिनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्दना थी । विदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ वंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे । पुण्यके प्रभावसे प्रियकारिणी उन्हींकी स्त्री हुई थी ॥६-८॥ वत्सदेशकी कौशाम्बीनगरीमें चन्द्रवंशी राजा शतानीक रहते थे । मृगावती नामकी दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी ॥ ९ ॥ दशार्ण देशके हेमकच्छ नामक नगरके स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यवंश रूपी आकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे । सूर्यकी निर्मलप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छ-देशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक बड़ा राजा था । प्रभावती नामकी चौथी पुत्री उसीकी हृदयवज्रभा हुई थी । अच्छी तरह शीलव्रत धारण करनेसे इसका दूसरा नाम शीलवती भी प्रसिद्ध हो गया था ॥१०-१२॥ गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक रहता था । उसने राजा चेटकसे उसकी ज्येष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं दी इससे उस दुर्बुद्धि मूर्खने क्रुपित होकर रणांगणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें वह हार गया जिससे मानभंग होनेसे लजित होनेके कारण उसने शीघ्र ही दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर

स चेतकमहाराजः स्नेहाद् रूपमलीक्षित् । पटके सप्तपुत्रीणां विशुद्धं शश्वदीक्षितम् ॥१५॥  
 निरीक्ष्य तत्र चेलिन्या रूपस्य पतिर्न मनाक् । बिन्दुमूरौ बिधात्रेऽस्य नृपे कुवितवत्स्यसौ ॥१६॥  
 पूज्यद्विस्त्रिभया बिन्दुः प्रभृष्टः संस्तथापि सः । तथैव पतितस्त्वस्मिन्माभ्यमङ्गेन ताडशा ॥१७॥  
 इति मत्थानुमानेन पुनर्न तममाजिषम् । इत्यन्नवीचदुक्तेन भूपतिः प्रीतिमीधिवान् ॥१८॥  
 स देवार्चनवेलायां जिनविम्बोपकण्ठके । तत्पटकं प्रसार्येज्यां निर्वर्तयति सर्वदा ॥१९॥  
 कदाचिच्चेतको गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम् । राजा राजगृहं बाह्योद्याने स्नानपुरस्सरम् ॥२०॥  
 जिनप्रतिनिधोन्पूर्वमभ्यर्चयिभ्यर्णपट्टकम् । आनर्चं तद्विकीर्णय स्वमप्राक्षीः पाद्वर्चवर्तिनः ॥२१॥  
 किमेतदिति तेऽबोचन् राज्ञः सतापि पुत्रिकाः । लिखितास्तासु कस्याणां चतस्रः समवापिताः ॥२२॥  
 तिस्रो नाथापि दीयन्ते तत्र द्वे प्रासयौवने । कनिष्ठा बालिका राजजित्ति तद्वचनश्रुतेः ॥२३॥  
 भवान् रक्तं तयोश्चित्तं मन्त्रिणः समजिज्ञपत् । तेऽपि तत्कार्यमभ्येत्य कुमारभवद्वजित्ति ॥२४॥  
 चेतकाख्यमहोशस्य सुतयोरनुरक्तवान् । पिता ते थाच्यमानोऽसौ न दत्ते वयसश्च्युतेः ॥२५॥  
 इदञ्चावश्यकर्तव्यं कोऽप्युपायोऽन्न कथ्यताम् । सोऽपि मन्त्रिवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ॥२६॥  
 जोषमाध्वमहं कुर्वे तत्समर्थनमित्यमून् । संतोष्य मन्त्रिणः सोऽपि तत्स्वरूपं विकासवत् ॥२७॥  
 पटके सम्भगालिख्य वख्णेगच्छाय यत्नतः । तत्पाद्वर्चवर्तिन सर्वाच्च स्वोक्तयोक्तोक्तदानतः ॥२८॥

दीक्षा धारण कर ली ॥१३-१४॥ तदनन्तर महाराज चेतकने स्नेहके कारण सदा देखनेके लिए पट्टकपर अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये । चेलिनीके चित्रमें जाँघपर एक छोटा-सा बिन्दु पड़ा हुआ था उसे देखकर राजा चेतक बनानेवालेपर बहुत कुपित हुए । चित्रकारने नम्रतासे उत्तर दिया कि हे पूज्य ! चित्र बनाते समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो-तीन बार साफ किया परन्तु वह फिर-फिरकर पड़ता जाता था इसलिए मैंने अनुमानसे विचार किया कि यहाँ ऐसा चिह्न होगा ही । यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है । चित्रकारकी बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए ॥१५-१८॥ राजा चेतक देव-पूजाके समय जिनप्रतिमाके समीप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फैलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥१९॥ किसी एक समय राजा चेतक अपनी सेनाके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमे गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य उपवनमें डेरा दिया । स्नान करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमाओंकी पूजा की और उसके बाद समीपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की । यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह क्या है ? तब उन लोगोंने कहा कि हे राजन् ! ये राजाकी सातों पुत्रियोंके चित्रपट हैं इनमे-से चार पुत्रियाँ तो विवाहित हो चुकी हैं परन्तु तीन अविवाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है । इन तीनमें दो तो यौवनवती हैं और छोटी अभी बालिका है ! लोगोंके उक्त वचन सुनकर तूने अपने मन्त्रियोंको बतलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंमें अनुरक्त हो रहा है । मन्त्री लोग भी इस कार्यको लेकर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेतक राजाकी दो पुत्रियोंमें अनुरक्त हैं उन्होंने वे पुत्रियाँ माँगो भी हैं परन्तु अवस्था ठल जानेके कारण वह देता नहीं है ॥२०-२५॥ यह कार्य अवश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइए । मन्त्रियोंके वचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमें चतुर अभयकुमारने कहा कि आप लोग चुप बैठिए, मैं इस कार्यको सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार सन्तुष्ट कर अभयकुमारने मन्त्रियोंको बिदा किया और स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका चित्तासपूर्ण चित्र बनाया । उसे बखसे ढककर बड़े यत्नसे ले गया । राजाके समीपवर्ती लोगोंको घूस देकर उसने अपने वश कर लिया और स्वयं बौद्धक नामका व्यापारी बनकर राजा चेतकके घरमें प्रवेश

१ ग्यलीलिखत् ख० । रूपमलीलिखत् ग०, क०, घ० । २ सप्त चापि सः ल० । ३ तादृशम् क०, ग०, घ० । ४-मातवान् ल० । ५ राजद्वारागृहं ल० । ६ भवद् ल० । ७ योष-ल० । ८ स्वोक्तयोक्तोक्तदानत ल०, ग०, स्वीकृतयोक्तदानत ग०, घ०, क० । ९ उक्तोक्तो दीकन तथा । उपप्रदानमुपदीपहारोपायने समे इति नामकोशे यतीन्द्राः ( ख०, टि० ) ।

स्वयं च वोद्रको नाम वणिगभूत्वा तृशालयम् । प्राविश्रत्पट्टके रूपं कन्ये ते तत्करस्थिते ॥२१॥  
 बिलोक्य भवति प्रीत्या सौरङ्गादतिसाहसात् । कुमारविहितात्मनाग्दा गत्वा किञ्चित्ततोऽन्तरे ॥३०॥  
 चेलिनी कुटिला ज्येष्ठा सुक्त्वा त्वं गच्छ विस्मृता । आनयामरणानीति स्वयं तेन सहागमत् ॥३१॥  
 साग्यात्तमरणोऽस्त्ये तामदृष्टातिसंथिता । तथाहमिति श्लोकार्ता निजमामो यशस्वतीम् ॥३२॥  
 दृष्ट्वा क्षान्तिं समीपेऽस्त्याः श्रुत्वा धर्मं जिनोदितम् । निर्विद्यं संसृतेर्दोक्षां प्रोप पापविनाशिनीम् ॥३३॥  
 भवतापि महाप्रीत्या चेलिनीयं यथाविधि । गृहीतानुमहादेवी पट्टबन्धात्ततोष सा ॥३४॥  
 चन्दना च यशस्वत्या गणिन्याः संनिधौ स्वयम् । सम्यक्त्वं श्रावकाणां च व्रतान्यादत्त सुव्रता ॥३५॥  
 ततः खगाद्रयपात्रश्रणीसुवर्णाभपुरेश्वरः । मनोवेगः खगाधीशः स मनोवेगया समम् ॥३६॥  
 स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य प्रत्यायाँश्चन्दनां वने । अश्लोकारुये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥३७॥  
 बिलोक्यानङ्गनिर्मुक्तशरजर्जरिताङ्गकः । प्रापय्य स्वप्रियां गेहं रूपिणीविद्यया स्वयम् ॥३८॥  
 विकृत्य रूपं स्वं तत्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनमध्येत्य गृहीत्वा चन्दनां द्रतम् ॥३९॥  
 प्रत्यागतो मनोवेगाप्येतं विहितवञ्चनम् । ज्ञात्वा कोपारुणीभूतविभीषणविकोचना ॥४०॥  
 तां विद्यादेवतां वामपादेनाक्रम्य सावधीत् । कृतादृहासा सा विद्याप्यगार्त्सिहासनात्ता ॥४१॥  
 ज्येष्ठामालोकिनीविद्यातो ज्ञात्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यर्धपथे दृष्ट्वा विस्त्रेमां स्वजीवितम् ॥४२॥  
 यदि चान्छेरिति क्रोधात्तं निर्भर्त्सयति स्म सा । स भूतरमणेऽप्ये तां स्वदारारिमीलुक्कः ॥४३॥

किया । वहाँ वे दोनों कन्याएँ वोद्रकके हाथमें स्थित पट्टियेपर लिखा हुआ आपका रूप देखकर आपमें प्रेम करने लगीं । कुमारने एक सुरंगका मार्ग पहलेसे ही तैयार करवा लिया था अतः वे कन्याएँ बड़े साहसके साथ उस मार्गसे चल पड़ीं । चेलिनी कुटिल थी इसलिए कुछ दूर जानेके बाद ज्येष्ठसे बोली कि मैं आभूषण भूल आयी हूँ तू जाकर उन्हें ले आ । यह कहकर उसने ज्येष्ठाको तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ आ गयी ॥२६-३१॥ जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर लौटी तो वहाँ चेलिनी तथा अभयकुमारको न पाकर बहुत दुःखी हुई और कहने लगी कि चेलिनीने मुझे इस तरह ठगा है । अन्तमें उसने अपनी मामी यशस्वती नामकी आर्थिकाके पास जाकर जैनधर्मका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त होकर पापोंका नाश करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥३२-३३॥ आपने भी बड़ी प्रीतिसे विधिपूर्वक चेलिनीके साथ विवाह कर उसे महादेवीका पट्ट बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥३४॥

उधर उत्तम व्रत धारण करनेवाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आर्थिकाके समीप जाकर सम्यग्दर्शन और श्रावकोंके व्रत ग्रहण कर लिये ॥३५॥ किसी एक समय वह चन्दना अपने परिवारके लोगोंके साथ अशोक नामक वनमें क्रीड़ा कर रही थी । उसी समय देवयोगसे विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानीके साथ स्वच्छन्द क्रीड़ा करता हुआ वहाँसे निकला और क्रीड़ा करती हुई चन्दनाको देखकर कामके द्वारा छोड़े हुए बाणोंसे जर्जरशरीर हो गया । वह शीघ्र ही अपनी स्त्रीको घर भेजकर रूपिणी विद्यासे अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बैठा आया और अशोक वनमें आकर तथा चन्दनाको लेकर शीघ्र ही वापस चला गया । उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान गयी जिससे क्रोधके कारण उसके नेत्र लाल होकर भयंकर दिखने लगे । उसने उस विद्या देवताको बाँये पैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे वह अट्ट-हास करती हुई सिंहासनसे उसी समय चली गयी ॥३६-४१॥ तदनन्तर वह मनोवेगा रानी आलोकिनी नामकी विद्यासे अपने पतिकी सब वेषा जानकर उसके पीछे दौड़ी और आधे मार्गमें चन्दना सहित लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो । इस प्रकार क्रोधसे उसने उसे बहुत ही डौटा । मनोवेग अपनी स्त्रीसे बहुत

१ करस्थितम् ल० । २ सोभाग्या-घ०, ग०, क० । ३-प्येतन्नहितवञ्चनानाम् म०, ल० ।

४-माभोगिनी ल० ।

ऐरावतीसिद्धिक्षिणान्ते साधितविद्यया । पर्णलक्ष्म्या तदैवान्त कृतशोको विस्पृष्टवान् ॥४४॥  
 सापि पञ्चनमस्कारपरिवर्तनतत्परा । निनाय शर्वरौ कृच्छ्राङ्गाजुमत्युदिते स्वयम् ॥ ३५॥  
 तत्र संनिहितो देवास्काककास्थो वनेचरः । तस्मै निजपराध्वोस्फुरिताधरणान्यदात् ॥ ४६॥  
 धर्मं च कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः । भीमकूटाचकोपान्तनिवासो सिंहसंज्ञकः ॥ ४७॥  
 भयंकराख्यपल्लीशस्तस्य तां स समर्पयत् । सोऽपि पापों<sup>१</sup> विकोक्यैनां कामव्यामोहिताशयः ॥ ४८॥  
 निग्रहेण ग्रहः क्रूरो वात्मसात्कर्तुमुद्यतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं कृथाः प्रत्यक्षदेवता ॥ ४९॥  
 यदि कुप्येदियं तापशापदु खप्रदायिनी । इति मात्रुकामिथ्या तां दुर्जनोऽपि व्यसर्जयत् ॥ ५०॥  
 तत्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्प्रतिवधानतः । पोष्यमाणा विनिश्चिन्ना कृत्स्िकाकमजोगमत् ॥ ५१॥  
 अथ वत्साह्वये देशे कौशाम्ब्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी वृषभसेनाख्यस्तस्य कर्मकरोऽभवत् ॥ ५२॥  
 मित्रवीरो वनेशस्य मित्रं तस्य वनाधिप । चन्दनामर्पयामास सोऽपि भक्त्या वणिक्रपतेः ॥ ५३॥  
 धनेन महत्ता सार्धं वीत्वा कन्यां न्यवेदयत् । कदाचिच्छ्रेष्ठिनः पातुं जलमुद्वृत्य यत्नतः ॥ ५४॥  
 आवर्जयन्त्याः केशानां कलापं मुक्तवन्धनम् । कन्दमानं करेणादात्सजलाद्गं धरातले ॥ ५५॥  
 चन्दनायास्तदाकोषय तद्रूपदातिशङ्किनी<sup>२</sup> । श्रेष्ठिनी तस्य भद्राख्या स्वमहुरनया समम् ॥ ५६॥  
 संपर्कं मनसा मरवा कोपात्प्रफुरिताधरा । निश्चिन्तश्चङ्कटां कन्यां दुराहारेण दुर्जना ॥ ५७॥  
 प्रतर्जनादिभिश्चैनां निरन्तरमयाधत । सापि मत्कृतपापस्य विपाकोऽर्थं घराकिका ॥ ५८॥

ही डर गया । इसलिए उसने हृदयमें बहुत ही शोक कर सिद्ध की हुई पर्णलक्ष्मी नामकी विद्यासे उस चन्दनाको भूतरमण नामक वनमें ऐरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ॥४२-४४॥ पंचनमस्कार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहनेवाली चन्दनाने वह रात्रि बड़े कष्टसे बितायी । प्रातःकाल जब सूर्यका उदय हुआ तब भाग्यवश एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ पहुँचा । चन्दनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये और धर्मका उपदेश भी दिया जिससे वह भील बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्वतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका भीलोंका राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्लीका स्वामी था । उस कालक नामक भीलने वह चन्दना उसी सिंह राजाको सौंप दी । सिंह पापी था अतः चन्दनाको देखकर उसका हृदय कामसे मोहित हो गया ॥४५-४८॥ वह क्रूर ग्रहके समान निग्रह कर उसे अपने अधीन करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख उसकी माताने उसे समझाया कि हे पुत्र ! तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है, यदि कुपित हो गयी तो कितने ही सन्ताप, शाप और दुःख देनेवाली होगी । इस प्रकार माताके कहनेसे डरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह चन्दना छोड़ दी ॥४९-५०॥ तदनन्तर चन्दनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ काल वहींपर व्यतीत किया । वहाँ भीलकी माता उसका अच्छी तरह भरण-पोषण करती थी ॥५१॥

अथानन्तर—वत्स देशके कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृषभसेन नामका सेठ रहता था । उसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराजका मित्र था । भीलोंके राजाने वह चन्दना उस मित्रवीरके लिए दे दी और मित्रवीरने भी बहुत भारी धनके साथ भक्तिपूर्वक वह चन्दना अपने सेठके लिए सौंप दी । किसी एक दिन वह चन्दना उस सेठके लिए जल पिला रही थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था और जलसे भीगा हुआ प्रथिवीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यत्नसे एक हाथसे संभाल रही थी ॥५२-५५॥ सेठकी स्त्री भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाका वह रूप देखा तो वह शंकासे भर गयी । उसने मनमें समझा कि हमारे पतिका इसके साथ सम्पर्क है । ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई । क्रोधके कारण उसके ओठ काँपने लगे । उस दुष्टाने चन्दनाको साँकलसे बाँध दिया तथा खराब भोजन और ताड़न-मारण आदिके द्वारा वह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने लगी । परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे-द्वारा किये हुए पाप-कर्मका फल है । यह वैचारी सेठानी क्या कर सकती है ? ऐसा विचारकर वह निरन्तर आत्मनिन्दा करती

श्रेष्ठिनी किं करोतीति कुर्वन्त्यात्मविगर्हणम् । स्वाग्रजाया मृगावत्या अण्येतन्न न्यवेदयत् ॥५९॥  
 अन्यदा नगरे तरिमश्वेव वीरस्तनुस्थितेः । प्रविष्टवाञ्छिरीक्षयासौ तं मक्त्या मुक्तशृङ्खला ॥६०॥  
 सर्वाभरणदृश्याङ्गा तद्गारणेव भूतकम् । शिरसास्पृश्य नखोच्चैः प्रतिगृह्य यथाविधि ॥६१॥  
 भोमथित्वाप तदानान्मानिनी मानितामरैः । वसुधारां मरुपुष्पद्वष्टिं सुरमिमास्तम् ॥६२॥  
 सुरदुन्दुभिनिर्घोषं दानस्त्वन्नघोषणम् । तद्बोक्कृष्टपुण्यानि फल्गुति विपुलं फलम् ॥६३॥  
 अग्रजास्यास्त्रदागया पुत्रेणामा मृगावती । तद्दशात्वोदयनाख्येन स्नेहादालिङ्गय चन्दनाम् ॥६४॥  
 पृष्ठा तां प्राकर्नं वृत्तं श्रुत्वा शोकाकुला शृशम् । निजगोहं समानीय सुस्थिता मथविह्वलौ ॥६५॥  
 स्वपादशरणौ भद्रा श्रेष्ठिनं च दयावती<sup>१</sup> । चन्दनापादपङ्केजयुगलं तावनीनमत् ॥६६॥  
 क्षमा मूर्तिमतीवेर्यं कृत्वाह्लादं तयोस्ततः । तद्द्वार्ताकर्णनोदीर्णारागादागतवन्दुभिः ॥६७॥  
 प्राणितैतत्पुरं वीरं वन्दितुं निजध्वान्धवान् । विषुज्य जातनिर्वेगा गृहीत्वाश्रैव सयमम् ॥६८॥  
 तपोवगममाहात्म्यादधस्थाद्गणिनीपदम् । इतीहजन्मसंबन्धं श्रुत्वा तत्रानुचेदकः ॥६९॥  
 प्राक्कि कृत्वागता चन्द्रगात्रैतस च पृष्टवान् । सोऽप्यवादीदिहैवास्ति भगधे नगरी पृष्टुः ॥७०॥  
 वस्तेति पाक्यत्येनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तत्राग्निमित्राख्यस्त्वस्यैका ब्राह्मणी प्रिया ॥७१॥  
 परा वैश्यसुता<sup>२</sup> सन्ब्राह्मण्यां शिवभूतिवाक् । दुहिता चित्रसेनाख्या<sup>३</sup> विटसुतायामजायत ॥७२॥

रहती थी । उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहन मृगावतीके लिए भी कहलाकर नह भेजे थे ॥५६-५८॥

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान् महावीर स्वामीने आहारके लिए उसी नगरी<sup>१</sup> प्रवेश किया । उन्हें देख चन्दना बड़ी भक्तिसे आगे बढ़ी । आगे बढ़ते ही उसकी साँकल गयी और आभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा । उन्हींके भारसे मानो उ झुककर शिरसे पृथिवी तलका स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया और विधिपूर्वक पढगाह उन्हें भोजन कराया । इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, देव उसका सम्मान किया, रत्नधाराकी वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुभिओंका श-हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो ठीक ही है क्योंकि उरकृष्ट पुण्य अपने भारी फल तत्काल ही फलते हैं ॥६०-६३॥ तदनन्तर चन्दनाकी बड़ी बहन मृगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उदयनके साथ उसके समीप आयी और स्नेहसे उसक आलिंगन कर पिछला समाचार पूछने लगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही न्या हुई । तदनन्तर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई । यह देख भद्रा सेठानी और वृषभसेन सेठ दोनों ही भयसे घबड़ाये और मृगावतीके चरणोंकी शरणमें आये । दयालु रानी ने उन दोनोंसे चन्दनाके चरण-कमलोंमें प्रणाम कराया ॥६४-६६॥ चन्दनाके क्षमा कर देनेप वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही है । इस समाचारके सुननेसे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण चन्दनाके भाई-बन्धु भी उसके पास आ गये । उसी नगरमें सब लोग महावीर स्वामीकी चन्दनाके लिए गये थे, चन्दना भी गयी थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न होनेसे उसने अपने सब भाई-बन्धुओंको छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपस्वरण तथा सम्यग्ज्ञानके माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार चन्दनाके वर्तमान भवकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्दना पूर्व जन्ममें ऐसा कौन-सा कार्य करके यहाँ आयी है । इसके उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे—इसी भगव देशमें एक चत्सा नामकी विशाल नगरी है । राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था । उसी नगरीमें एक अग्निमित्र नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी दो स्त्रियाँ थीं एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्यकी पुत्री । ब्राह्मणीके शिवभूतिनामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की

१ सर्वाभरणह्याङ्गा ल० । २ निजगृहं घ० । ३ मृगावती ल० । ४ सन्ब्राह्मण्यां ल० । ५ वैश्य-पुण्या इति ऋषित् ।

शिवभूतेरभूजायां सोमिका सोमशर्मणः । सुता इन्द्रदेवशर्माक्यश्चित्रसेनास्य च प्रिया ॥७३॥  
 अग्निभूती गतप्राणे तनुजस्तत्पदेऽभवत् । विधवा चित्रसेनापि पोष्यत्वं सह स्रजुनि ॥७४॥  
 शिवभूते समापन्ना दैवस्य कुटिला गतिः । सोमिका चित्रसेनायास्तत्सुतानां च पोषणम् ॥७५॥  
 पापिष्ठाऽसहमानाऽसौ तज्जिता शिवभूतिना । क्रुद्धा जीवत्येवमा चित्रसेनयायां स चेत्यसत् ॥७६॥  
 अकरोद्दुर्घणं चित्रिषड्नाकार्यं नाम धोपिताम् । चित्रसेनापि मामेवा हवैवादूषयन्मृषा ॥७७॥  
 'निग्रहीष्यामि सृष्टवैनां निदानमकरोदिति । अन्यदामन्त्रणे पूर्वं शिवगुप्तमुनीश्वरम् ॥७८॥  
 सोमिलामोजयत्तस्यै शिवभूतिः स्म कृप्यति । तत्तपोधनमाहात्म्यकथनेन तथा पतिः ॥७९॥  
 प्रसादितस्ततः साधु तदानं सोऽन्वसन्पत १ स काकान्तरमाश्रित्य कोकान्तरगतः सुतः ॥८०॥  
 जातोऽत्र विषये 'वङ्गे कान्ते कान्तपुरेशिवः । सुवर्णवर्मणो विद्युच्छेखायाश्च महाबलः ॥८१॥  
 देशेऽङ्गैश्चैव चम्पायां श्रीपेणस्यमहीपतेः । सुवर्णवर्मसोदर्या धनश्रीः प्रेसदायिनी ॥८२॥  
 सोमिकाभूत्ययोः पुत्री कनकादिकतामित्रा । महाबलकुमाराय दातव्येयमिति स्वयम् ॥८३॥  
 जन्मन्येवाभ्युपेतैवा मात्रा पित्रा च संमदात् । वर्धमानः पुरे तस्मिन्नेव बालिकया समम् ॥८४॥  
 अभ्यर्षे यौवने यावद्विवाहसमयो भवेत् । तावत्पृथग्भवसेदस्मादिति मातृकवाक्यतः ॥८५॥  
 बहिः स्थितः कुमारोऽसौ कन्यायामतिसक्तवान् । तयोर्योगोऽभवत्कामावस्थामलहमानयोः ॥८६॥  
 ततः कान्तपुरं लज्जाप्रेरितौ तौ गतौ तदा । ३ इष्टा तत्र कुमारस्य ४ मात्रा पित्रा च शोक्तः ॥८७॥

उत्पन्न हुई ॥६७-७२॥ शिवभूतिकी स्त्रीका नाम सोमिला था जो कि सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री थी और उसी नगरमें एक देवशर्मा नामक ब्राह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना व्याही गयी थी ॥७३॥ कितने ही दिन बाद जय अग्निभूति ब्राह्मण मर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिकृत हुआ । इधर चित्रसेना विधवा हो गयी इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूतिके घर आकर रहने लगी सो ठीक ही है क्योंकि कर्मकी गति बड़ी टेढ़ी है । शिवभूति, अपनी वहन चित्रसेना और उसके पुत्रोंका जो भरण-पोषण करता था वह पापिनी सोमिलाको सख नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिने उसे ताड़ना दी तब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भती चित्रसेनाके साथ जीवित रहता है अर्थात् इसका उसके साथ अनुराग है । यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्त्रियोंको कोई भी कार्य अकार्य नहीं है अर्थात् वे बुरासे बुरा कार्य कर सकती हैं इसलिए इन स्त्रियोंको बार-बार धिक्कार हो । चित्रसेनाने भी क्रोधमें आकर निदान किया कि इनसे मुझे मिथ्या दोष लगाया है । इसलिए मैं मरनेके बाद इसका निग्रह करूँगी— बदला लूँगी । तदनन्तर किसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक मुनिराजको पदगाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया परन्तु उन मुनिराजका माहात्म्य कहकर सोमिलाने शिवभूतिको प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यन्त रमणीय बंग देशके कान्तपुर नगरमें वहाँ के राजा सुवर्णवर्मा तथा रानी विद्युच्छेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ ॥७४-८१॥ इसी भरतक्षेत्रके अंग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीपेण राज्य करते थे । इनकी रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर नगरके राजा सुवर्णवर्माकी वहन थी । सोमिला उन दोनोंके कनकलता नामकी पुत्री हुई । जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पिताने वड़े हर्षसे अपने-आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमारके लिए देनी चाहिए और उसके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था । महाबलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाके घर बालिका कनकलताके साथ होता था । जब वह क्रमसे वृद्धिको प्राप्त हुआ और यौवनका समय निकट आ गया तब मामाने कहा कि जबतक तुम्हारे विवाहका समय आता है तबतक तुम यहाँसे पृथक् रहो । मामाके यह कहनेसे महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा तो भी वह कन्यामें सदा आसक्त रहता था । वे दोनों ही कामकी अवस्थाको सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया ॥८२-८६॥ इस कार्यसे वे दोनों स्वयं

तयोर्विरुद्धचारिवादिप्रियावाचयोरपि । यातं देशान्तरं नात्र स्थैरव्यसिति जल्पितौ ॥८८॥  
 तदैवाकुरुतां तौ च प्रत्यन्तनगरे स्थितिम् । विहरन्तावधान्येषु ६थाने मुनिगुह्यम् ॥७९॥  
 मुनिगुहाभिर्धं वीक्ष्य भक्तया भिक्षागवेषिणम् । प्रत्युत्थाय परीत्याभिवन्द्याभ्यर्च्यं यथाविधिं  
 स्वोपयोगनिमित्तानि तानि खाद्यानि मोदतः । स्वाहूनि लढडुकादीनि दत्त्वा तस्मै तपोमृते ।  
 नवमेर्दं जिनोद्दिष्टमहर्दं स्वेष्टमापतुः । वनेऽन्यदा कुमारोऽसौ मधुमासे विषादिना ॥९२॥  
 दृष्टो नष्टासुको जातो दृष्ट्वा तं देहमात्रकम् । तस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम् ॥  
 अगात्तदनुमार्गेण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्ठामवासस्य भवेद्धि गतिरीदृशी ॥९४॥  
 अस्मिन्नेवोजयिन्याख्यमवन्तिविषये पुरम् । प्रजापतिमंहाराजः पाककस्तस्य हेळया ॥९५॥  
 तत्रैव धनदेवाख्यश्रेष्ठी तद्गोहिनी सर्ती । धनमित्रा तयोःसुजुर्नागदत्तो महाबलः ॥९६॥  
 तनूजा चाजुजास्यासीदर्थस्वामिन्मिख्यया । पलाशाद्वीपमध्यस्थपलाशनगरेऽशिनः ॥९७॥  
 महाबलकमहोशस्य कनकादिलताऽभवत् । काञ्चनादिलतायाश्च ख्याता पद्मकला सुता ॥९८॥  
 उपयन्वापरां श्रेष्ठी श्रेष्ठिनीं विससज्ज ताम् । सापि देशान्तरं गत्वा समुत्ता जातसंविदा ॥९९॥  
 श्रीरुदत्तपुरोः पात्रं गृहीतआवकव्रता । सुजुमप्यपयाभास श्चास्त्राभ्यासनिमित्ततः ॥१००॥  
 सोऽपि काकान्तरं बुद्धिनौनिस्तीर्णश्रुताग्निः । सत्कविश्च स्वर्थं भूत्वा शास्त्रव्याख्याससद्यथाः ॥  
 नानालंकारम्योक्तिसुप्रसन्नसुभाषितैः । विशिष्टजनचेतस्सुं प्रह्लादसुदपादयत् ॥१०२॥

ही लज्जित हुए और कान्तपुर नगरको चले गये । उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बड़े से कहा कि चूँकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करनेवाले हो अतः हम लोगोंको अच्छे लगते । अब तुम किसी दूसरे देशमें चले जाओ यहाँ मत रहो । माता-पिताके ऐसा कह वे उसी समय वहाँसे चले गये और प्रत्यन्तनगरमें जाकर रहने लगे । किसी एक दिन वे उद्यानमें विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी । वे मुनि भिक्षाकी तलाशमें थे । महाबल और कनकलताने भक्तिपूर्वक उनके दर्शन किये, उठ प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और विधिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर उन दोनोंने अपने उपयो के लिए तैयार किये हुए लड्डू आदि मिष्ट खाद्य पदार्थ; हर्षपूर्वक उन मुनिराजके लिए जिंससे उन्होंने जिनन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चैत्रमासमें वनमें घूम रहा था वहाँ एक विषैले साँप उसे काट खाया जिससे वह शीघ्र ही मर गया । पतिको शरीर मात्र (मृत) देखकर उसक स्त्री कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मघात कर लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसी पीछे ही चल पड़ी हो । आचार्य कहते हैं कि जो स्नेह अन्तिम सीमाको प्राप्त हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है ॥८७-९४॥

इसी भरत क्षेत्रके अवन्ति देशमें एक उज्जयिनीनामकानगर है । प्रजापति महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे ॥९५॥ उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था । उसकी धनमित्रा नामकी पतिव्रता सेठानी थी । महाबलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र हुआ ॥६६॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी छोटी बहन थी । पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । कनकलता, इसी महाबल राजाकी कांचनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई ॥६७-६८॥ किसी एक समय उज्जयिनीनगरीके सेठ धनदेवने दूसरी स्त्रीके साथ विवाह कर पहली स्त्री धनमित्राको छोड़ दिया इसलिये वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चली गयी । एक समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शीलदत्त गुरुके पास श्रावकके व्रत ग्रहण किये और शास्त्रोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं मुनिराजको सौंप दिया ॥६९-१००॥ समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरूपी नौकाके द्वारा शास्त्ररूपी समुद्रको पार कर गया । वह उत्तम कवि हुआ और शास्त्रोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने लगा ॥१०१॥ वह नाना अलंकारोंसे मनोहर बचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे विशिष्ट

तत्रवारक्षिपुत्रेण दृढरक्षेण संगतिम् । कृत्वा तत्पुरशिष्टानां शास्त्रव्याख्यानकर्मणा ॥१०३॥  
 उपाध्यायस्वभ्यास्य तत्रासवसुना निजाम् । जननीं स्वस्वसारं च स्वयं च<sup>१</sup> परितोषयन् ॥१०४॥  
 स्वमातुकानीपुत्राय नन्दिप्रामनिवासिने । कुलवाणिजनाम्ने स्वामनुजामदितादरात् ॥१०५॥  
 स कदाचिद्रुपश्लोकपूर्वकं क्षितिनायकम् । विभोक्त्य तत्प्रसादात्ससमानधनसंसदः ॥१०६॥  
 कृममातुपरिभ्रमः पितुरागत्य सनिधिम् । प्रणमत्तत्पद्मभोजं धनदेवः समीक्ष्य तम् ॥१०७॥  
 जीव पुत्रात् त्रिष्टेति प्रियै प्रीणयति स्म सः । सोऽपि रत्नादिवद्भ्रस्तुभाग देहीव्यथाचत ॥१०८॥  
 पिता तु पुत्र मद्भ्रस्तु पलाशद्वीपमध्यगे । स्थितं पुरे पलाशाख्ये तत्स्वयानीथ गृह्यताम् ॥१०९॥  
 ह्य्याख्यन्नकुलेगामा भ्रात्रा दायादकैः सः । सहदेवेन चाप्तेष्टसिद्धिर्थाः मवेदहम् ॥११०॥  
 प्रत्यागत्य करिण्यामि पूजां जैनेश्वरीमिति । आशास्थानु जिनाऽनुत्वा<sup>३</sup> कृतात्मगुरुवन्दनं<sup>४</sup> ॥१११॥  
 आरूढ नावमभोधिभवगाह्यं ब्रजन् द्रुतम् । पलाशपुरमासाद्य तत्र स्थापितपोतकः ॥११२॥  
 पुरं विनरसंचारं किमेतत्रिति विस्मयात् । ततः प्रसारितायामिस्त्रुभिस्तद्वासावन् ॥११३॥  
 प्रविश्य तत्पुरं तत्र कन्यामेकाकिनीं स्थिताम् । एकत्राकोक्त्य तामाह वदैतन्नगरं कुतः ॥११४॥  
 जातमीदृक्स्थय का वेत्यादरात्सास्त्रशीदकम् । प्रागेतन्नगरेस्थय दायादः कोऽपि कोपत्<sup>५</sup> ॥११५॥  
 सिद्धराज्ञतवियत्वासंभ्राशो राक्षसामिधाम् । पुरं पुराधिनाथ च स निर्मूलं<sup>६</sup> व्यनीनगतम् ॥११६॥  
 वृद्धश्रेण केनापि समन्त्रं साधितासिना । कृत्तरक्षं तदैवैतत्स्थापितं नगरं पुनः ॥११७॥

मनुष्योंके हृदयोंमें आह्लाद उत्पन्न कर देता था ॥१०२॥ वहाँके कोटपालके पुत्र दृढरक्षके साथ मित्रता कर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनायी जिससे उपाध्याय पद प्राप्त कर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहन और अपने-आपका पोषण किया ॥१०३-१०४॥ नन्दी नामक गाँवमें रहनेवाले कुलवाणिज नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़े आदरसे अपनी छोटी बहनका विवाह कर दिया ॥१०५॥ किसी एक दिन उसने बहुत-से श्लोक सुनाकर राजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, धन तथा हर्ष प्राप्त किया ॥१०६॥ किसी एक दिन मातासे पूछकर वह अपने पिताके पास आया और उनके चरण-कमलोंको प्रणाम कर खड़ा हो गया । सेठ धनदेवने उसे देखकर 'हे पुत्र चिरंजीव रहो, यहाँ बैठो' इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर नागदत्तने अपने भागकी रत्नादि वस्तुएँ माँगी ॥१०७-१०८॥ इसके उत्तरमें पिताने कहा कि 'हे पुत्र मेरी सब वस्तुएँ पलाशद्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक नगरमें रखी हैं सो तू लाकर ले ले' । पिताके ऐसा कहनेपर वह अपने हिस्सेदार नकुल और सहदेव नामक भाइयोंके साथ नावपर बैठकर समुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टसिद्धि हो गयी तो मैं लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा करूँगा । ऐसी इच्छा कर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की और पिताको नमस्कार कर चला । वह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने अपना जहाज खड़ा कर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारसे रहित है । यह देख वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी रस्सी फेंककर उनके आशयसे वह उस नगरके भीतर पहुँचा ॥१०९-११३॥ नगरके भीतर प्रवेश कर उसने एक जगह अकेली बैठी हुई एक कन्याको देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? तथा तू स्वयं कौन है ? सो कह । इसके उत्तरमें वह कन्या आदरके साथ कहने लगी कि 'पहले इस नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके कारण 'राक्षस' इस नामको ही प्राप्त हो गया था । उसीने क्रोधवश नगरको और नगरके राजाको समूल नष्ट कर दिया था । तदनन्तर उसके वंशमें होनेवाले किसी पुरुषने मन्त्रपूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरको सुरक्षित कर फिरसे

<sup>१</sup> परितोषयन् ल०, म० । <sup>२</sup> स्थिते ल० । <sup>३</sup> नत्वा ल०, म० । <sup>४</sup> वन्दनम् म० । <sup>५</sup> विगतस-  
 च्चारं ल० । <sup>६</sup> कोपन. ल० ।



पतिर्महाबलोऽद्यास्य<sup>१</sup> काञ्चनादिलता प्रिया । तस्मै<sup>२</sup> तयोरहं पद्मलताऽभूत् सुताख्यया ॥११८॥  
 कदाचिन्मत्पिता मन्त्रसाधितं खड्गमात्मनः । प्रमादाज करोति स्म करे तद्ब्रध्नवीक्षणत् ॥११९॥  
 राक्षसेन हतस्तस्मात्पुरं शून्यमभूदिदम् । मत्सुता विविक्षेपेति मां मत्वामारयन् गतः ॥१२०॥  
 आगन्तासौ पुनर्नंतुमिति तद्ब्रचनश्रुतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तर्हितः खगम् ॥१२१॥  
 आद्यान्तमवधीत्सोऽपि पठन् पञ्चनमस्कृतिम् । न्यपतन्पेदिनीमारो समाहितमतिस्तदा ॥१२२॥  
 श्रुत्वा श्रीनागदत्तोऽपि नमस्कारपदावलीम् । मिथ्या मे दुष्कृतं सर्वमित्यपास्यायुध निजम् ॥१२३॥  
 कुतो धर्मस्तवेत्यंतमब्रवीत्सप्रणं खगम् । सोऽपि श्रावकपुत्रोऽहं क्रोधादेतत्कृतं मया ॥१२४॥  
 क्रोधान्मित्रं मवेच्छन्नः क्रोधाद्धर्मो विनश्यति । क्रोधाद्वाङ्मयपरिग्रहः क्रोधान्मोमुच्यतेऽसुमिः ॥१२५॥  
 क्रोधान्मातापि सकोधा भवेत्क्रोधाद्भोगतिः । ततः श्रयोर्थिनां त्याज्यः स सदेति जिनोदितम् ॥१२६॥  
 तज्जानन्नपि पापेन कोपेनाहं वशीकृतः । प्राप्तं तत्फलमद्यैव परकोके किमुच्यते ॥१२७॥  
 इत्यात्मानं विनिन्दन् कुतस्तत्त्वं ब्रजे. क्व वा । इत्यवोचन्नभोगस्तं वैश्योऽप्येवमुदाहरत् ॥१२८॥  
 प्राधूर्णिकोऽहं हृष्टो मां कन्यकां शोकविह्वलाम् । त्वद्भयाद्भव्यं पास्यामीत्याविष्कृतपराक्रमः ॥१२९॥  
 अबुध्वा धर्मभक्तं तत् कृतवान्कार्यमीदृशम् । त्यक्तं सद्धर्मवात्सल्यं सारं जैनेन्द्रशासने ॥१३०॥  
 जैनशासनमर्यादामतिलङ्घयतो मम । अपराधं क्षमस्वैति तदुक्तमवगम्य सः ॥१३१॥  
 किं कृतं भवता पूर्वं मनुष्याजित्कर्मणः । परिपाकविशेषोऽयमिति पञ्चनमस्कृत्याम् ॥१३२॥

बसाया है ॥११४-११७॥ इस समय इस नगरका राजा महाबल है और उसकी रानीका नाम कांचनलता है । मैं इन्हीं दोनोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी ॥११८॥ मेरा पिता उस मन्त्र-साधित तलवारको कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षसने उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसे सूना हो गया है । उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया । अब वह मुझे लेनेके लिए फिर आवेगा । कन्याकी बात सुनकर वह वैश्य उस तलवारको लेकर नगरके गोपुर (मुख्य द्वार) में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया । वह विद्याधर भी उसी समय पंचनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित स्थिर कर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥११९-१२२॥ पंचनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यर्थ ही किया है । उसने झट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधरसे पूछा कि तेरा धर्म क्या है ? इसके उत्तरमें विद्याधरने कहा कि, मैं भी श्रावकका पुत्र हूँ, मैंने यह कार्य क्रोधसे ही किया है ॥१२३-१२४॥ देखो क्रोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, क्रोधसे धर्म नष्ट हो जाता है, क्रोधसे राज्य भ्रष्ट हो जाता है और क्रोधसे प्राण तक छूट जाते हैं । क्रोधसे माता भी क्रोध करने लगती है और क्रोधसे अयोगति होती है, इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिए ऐसा जिनैन्द्र भगवान्ने कहा है । मैं जानता हुआ भी क्रोधके वशीभूत हो गया था सो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया, अब परलोककी बात क्या कहना है ? इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्याधर नागदत्तसे बोला कि आप यहाँ कहाँसे आये हैं ? इसके उत्तरमें वैश्यने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ और इस कन्याको शोकसे विह्वल देखकर तेरे भयसे इसकी रक्षा करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ॥१२५-१२६॥ तू 'धर्म भक्त है' यह जाने बिना ही मैं यह ऐसा कार्य कर बैठा हूँ और मैंने जिनैन्द्रदेवके शासनमें कहे हुए सारभूत धर्म-वात्सल्यको छोड़ दिया है ॥१३०॥ हे भव्य ! जैन शासनकी मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले मेरे इस अपराधको तू क्षमा कर । नागदत्तकी कही हुई यह सब बात समझकर वह विद्याधर कहने लगा

१ महाबलोप्यस्य इति क्वचित् । २ तस्मै तयोरहं इति क्वचित् । ३ पृष्ट्वेना ल० । ४ दास्यामी-ल० । ५ धर्मभाक्त्व तै ।

श्रीनागदत्तप्रपौक्तं भावयन्नाकमापिवान् । ततः पद्मलतां कन्यां धनं च पितृसंचितम् ॥ १३३ ॥  
समाकर्षणरज्ज्वावतार्य आनुनिजस्य तौ । नकुलः सहदेवश्च रज्जुमाकर्षणोचिताम् ॥ १३४ ॥  
अदृत्वा पापबुद्ध्यात्साम्बद्धु स्वपुरमीयतुः । छिद्रमासाद्य तन्नास्ति दायादा यत्र कुर्वते ॥ १३५ ॥  
तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि युवाभ्यां सह यातवान् । किन्नायादिति श्रुपेन साशक्नेन जनेन च ॥ १३६ ॥  
पृष्टौ सहैव गत्वामी पृथक्कनापि गतस्ततः । नाविद्वेति व्यधत्तौ तावजुजावप्यपह्नवम् ॥ १३७ ॥  
श्रीनागदत्तमातापि व्याकुलीकृतचेतसा । शीलदत्तं गुरुं प्राप्य समपृच्छतुजः कथाम् ॥ १३८ ॥  
सोऽपि तत्संभ्रमं दृष्ट्वा कारुण्यद्वितमानसः । निर्विघ्नं ते तनूजो द्राह्म मा भैषीरागमिष्यति ॥ १३९ ॥  
इत्याश्वासं मुनिस्तस्या व्यधत्संज्ञानकोचनः । इत् श्रीनागदत्तोऽपि विकोक्य जिनमन्दिरम् ॥ १४० ॥  
किञ्चित्प्रदक्षिणीकृत्य निषीदान्यहमित्यदः । प्रविश्य विद्वितस्तोत्रः सचिन्तस्तत्र संस्थितः ॥ १४१ ॥  
तदा विद्याधरः कश्चिद् दृष्ट्वा ज्ञातवृत्तकः । जैनः सचित्त नीत्वास्माद् द्वीपमध्यान्मनोहर ॥ १४२ ॥  
वनेऽवतार्य सुस्थाप्य समापृच्छयादरान्वितः । यथेष्टमगमत्सा हि धर्मवत्सलता सताम् ॥ १४३ ॥  
तत्समीपेऽनुजा ग्रामे वसन्त्यस्यैव सादरम् । प्रत्यग्रहीद्वर्नं तत्र सोऽपि निश्चिप्य सुस्थितः ॥ १४४ ॥  
अथोपगम्य त स्नेहात् स्वानुजाविस्रनामयः । कुमाराजिनवां कन्यां नकुलस्याजिघृक्षुणा ॥ १४५ ॥  
श्रेष्ठिना वयमाहूता निस्तपवाद्रिक्तपाणयः । कथं तत्र ब्रजिष्याम इत्यस्याकुलचेतसः ॥ १४६ ॥  
अथ सर्वेऽपि ज्ञाताः स्म इति ते न्यगदन्नसौ । तच्छ्रुत्वा साररत्नानि निजरत्नकदम्बकात् ॥ १४७ ॥

कि इसमें आपने क्या किया है यह मेरे ही पूर्वोपार्जित कर्मका विशिष्ट उदय है । इस प्रकार नागदत्तके द्वारा कहे हुए पंचनमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्गको प्राप्त हुआ । तदनन्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए धनकी खींचनेकी रस्सीसे उतारकर जहाजपर पहुँचाया तथा सहदेव और नकुल भाईको भी जहाजपर पहुँचाया । नकुल और सहदेवने जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तको नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे दायाद-भागीदार न कर सके ॥ १३१-१३५ ॥ उन दोनों भाइयोंको देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंको कुछ शंका हुई और इसीलिए उन सबने पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हम लोगोंके साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं अन्यत्र चला गया इसलिये हम उसका हाल नहीं जानते हैं । इस प्रकार उन दोनोंने भाई होकर भी नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा ली ॥ १३६-१३७ ॥ पुत्रके न आनेकी बात सुनकर नागदत्तकी माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरुके पास जाकर अपने पुत्रकी कथा पूछी ॥ १३८ ॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर आया अतः उन्होंने सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्रसे देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विघ्नके बिना शीघ्र ही आवेगा । इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा दी और मैं यहाँ वैदूंगा इस विचारसे उसके भीतर प्रवेश किया । भीतर जाकर उसने भगवान्की स्तुति पढ़ी और फिर चिन्तातुर होकर वह वहाँ बैठ गया ॥ १३९-१४१ ॥ दैवयोगसे वहाँपर एक जैनी विद्याधर आ निकला । नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये और फिर उसे धन सहित इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा । तदनन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह ठहराकर और बड़े आदरसे पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थानपर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी धर्म-वत्सलता यही कहलाती है ॥ १४२-१४३ ॥

उस मनोहर वनके समीप ही नन्दीग्राममें नागदत्तकी छोटी बहन रहती थी इसलिये वह वहाँ पहुँचा और अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा ॥ १४४ ॥ कुछ समय बाद उसकी बहनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि हे कुमार ! नयी आयी हुई कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए ग्रहण करना चाहता है इसलिये उसने हम सबको बुलाया है परन्तु निर्धन होनेसे हम सब खाली हाथ वहाँ कैसे जावेंगे ? यह

तेभ्यो नाना मुदा दत्त्वा यूयमागमनं मम । ददध्वं संनिवेद्यैतां कन्यायै श्वसुत्रिकाम् ॥१४८॥  
 इत्युक्त्वा स्वयमित्वास्तु शीघ्रदक्षगुरु मिथः । वन्दित्वा रक्षिसूनुं च दृष्ट्वा सन्मित्रमात्मनः ॥१४९॥  
 आमुक्त्वात्कार्यमाख्याय सह तेन ततो गतः । सारस्वतैर्महीपालं सासुरागं व्यकीकृत ॥१५०॥  
 दृष्ट्वा भवानहो नागदत्त कस्मात्स्वमागतः । क्व वा गतं त्वयेल्येष तुष्टः पृष्टो महीभुजा ॥१५१॥  
 भागयाचनयात्रादि सर्वमामूलतोऽन्नवीत् । तदाकर्ण्य नृपः क्रुद्ध्वा प्रवृत्तः श्रेष्ठिनिग्रहे ॥१५२॥  
 न युक्तमिति निर्बन्धान्नागदत्तेन वारितः । दत्त्वा श्रेष्ठिपदं तस्मै सारवित्तसमन्वितम् ॥१५३॥  
 विवाहविधिना पन्नकृतामपि समर्पयत् । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥१५४॥  
 पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं राक्षसाध्नन्तरायतः । व्यपेत्यायं महारत्नान्यात्मीकृत्यागतः सुखम् ॥१५५॥  
 पुण्याज्जलायते वह्निर्विषमप्यमृतायते । मित्रायन्ते द्विषः पुण्यात्पुण्याच्छाम्यन्ति मीतयः ॥१५६॥  
 हविंशाः सधनाः पुण्यात् पुण्यास्त्रगंशं लभ्यते । तस्मात्पुण्यं विचिन्वन्तु हतापस्त्वप्यदेविणः ॥१५७॥  
 जिनेक्तधर्मशास्त्रानुयानेन विहितक्रियाः । इति सम्प्राश्च तद्वाक्यं बहवश्चेतसि व्यधुः ॥१५८॥  
 अथ श्रीनागदत्तोऽपि संजातानुशयं तदा । क्षमस्व मे कुमारैति प्रणमन्तं<sup>३</sup> सपुत्रकम् ॥१५९॥  
 समार्यं श्रेष्ठिनं मैवमित्युत्थाप्य प्रियोक्तिभिः । संतोष्य निजपूजां च प्राक्प्रोक्तामकरोत्कृती ॥१६०॥  
 एवं श्रावकसद्गममधिगम्य परस्परम् । जातसौहार्दचित्तानां दानपूजादिकर्मभिः ॥१६१॥

विचारकर हम सभी लोग आज अत्यन्त व्याकुलचित्त हो रहे हैं । उनकी बात सुनकर नागदत्तने अपने रत्नोंके समूहमेंसे निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नतासे उन्हें दिये और साथ ही यह कहकर एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खबर देकर उस कन्याके लिए यह अंगूठी दे देना ! यही नहीं, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया । वहाँ जाकर उसने पहले शील-दत्त मुनिराजकी वन्दना की । तदनन्तर अपनेमित्र कोतवालके पुत्र दृढरक्षके पास पहुँचा । वहाँ उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा दृढरक्षको कह सुनायी । फिर उसीके साथ जाकर अच्छे-अच्छे रत्नोंकी भेंट देकर बड़ीप्रसन्नतासे राजाके दर्शन किये ॥१४९-१५०॥ उसे देखकर महाराजने पूछा कि अहो नागदत्त ! तुम कहाँसे आ रहे हो और कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त बड़ा सन्तुष्ट हुआ । उसने अपना हिस्सा मँगाने और उसके लिए यात्रा करने आदिके सब समाचार आदिसे लेकर अन्त तक कह सुनाये । उन्हें सुनकर राजा बहुत ही ऊपित हुआ और सेठका निग्रह करनेके लिए तैयार होगया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कहकर आग्रहपूर्वक नागदत्तने राजाको मना कर दिया । राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया और विधिपूर्वक विवाह कर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दी । तदनन्तर राजाने अपनी सभामें स्पष्ट रूपसे कहा कि देखो, पुण्यका कैसा माहात्म्य है ? यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विघनोंसे बचकर और श्रेष्ठ रत्नोंको अपने अधीनकर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है ॥१५१-१५५॥ इसलिये कहना पड़ता है कि पुण्यसे अग्नि जल हो जाती है, पुण्यसे विष भी अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते हैं, पुण्यसे निर्धन मनुष्य भी धनवान् हो जाते हैं और पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है । इसलिए आपत्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए धर्मशास्त्रके अनुसार सब क्रियाएँ कर पुण्यका बन्ध करना चाहिए । राजाका यह उपदेश सभाके सब लोगोंने अपने हृदयमें धारण किया ॥१५६-१५८॥ तदनन्तर सेठको भी बहुत पश्चात्ताप हुआ वह उसी समय 'हे कुमार ! क्षमा करो' यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा स्त्री सहित प्रणाम करने लगा परन्तु नागदत्तने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे सन्तुष्ट कर दिया । तदनन्तर उस बुद्धिमान्ने यात्राके पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की ॥१५९-१६०॥ इसप्रकार सत्रने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृदयमें परस्पर मित्रता

काले गच्छति जीवान्ते संन्यासविधिमाश्रितः । श्रीनागदत्तः सौधर्मकल्पेऽनल्पामरोऽभवत् ॥१६२॥  
 तत्र निर्विघ्नदिव्योक्तभोगद्वयत्वा ततोऽजनि । द्विपेऽस्मिन् भारते खेचराच्छले नगरे वरे ॥१६३॥  
 शिवकरे तदीशस्य विद्याधरधरेशिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥१६४॥  
 मनोवेगोऽन्यजन्मोद्यत्स्नेहेन विवक्षीकृत । अनैषीच्छन्दनामेनामतिस्नेहोऽपथं नयेत् ॥१६५॥  
 स पृषोऽथर्णमन्यत्वादुसुमिश्रेव जन्मनि । जिनाकृतिं समादाय संप्राप्यत्यग्रिमं पदम् ॥१६६॥  
 ततः श्रीनागदत्तस्य नाकलोकात्कनीयसी । इहागत्याभवन्नाम्ना मनोवेगा महाद्युतिः ॥१६७॥  
 पलाशनगरे नागदत्तहस्तमृतः स्वगः । सुरलोकाद्भूः सोमवंशे त्वं चेटको नृपः ॥१६८॥  
 माता श्रीनागदत्तस्य धनमित्रा दिवंगता । ततश्च्युत्वा तवैवासीःसुभद्रेयं मन प्रिया ॥१६९॥  
 यासौ पञ्चकता सापि कृतोपवसना दिवम् । गत्वागत्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तव ॥१७०॥  
 नकुलः संसृतौ भ्रान्त्वा सिंहाख्योऽभूद्भनेचरः । प्राग्जन्मस्नेहवैराभ्यामबाधिष्ठ स चन्दनाम् ॥१७१॥  
 सहदेवोऽपि संश्रम्य ससारे सुचिरं पुनः । कौशाभ्यां वैश्यतुग्भूत्वा मित्रवीराह्वय सुधीः ॥१७२॥  
 भूत्यो वृषभसेनस्य चन्दनां स समर्पयत् । पिता श्रीनागदत्तस्य धनदेवो वणिक्वरः ॥१७३॥  
 स्वलोकं शान्तचित्तेन गत्वैत्य श्रेष्ठितां गतः । श्रीमान्वृषभसेनाख्यः कौशाभ्यां कलितो गुणैः ॥१७४॥  
 सोमिकार्यां कृतद्वेषा चित्रसेना चतुर्गतिम् । परिश्रम्य चिरं शान्त्वा मनाक तन्नैव विट्सुता ॥१७५॥  
 भूत्वा वृषभसेनस्य पत्नी भद्रामिधाऽभवत् । निदानकृतवैरेण न्यगृह्णाच्छन्दनामसौ ॥१७६॥  
 चन्दनैषाच्युतात्कल्पात्प्रत्यागत्य शुभोदयात् । द्वितीयवेद संप्राप्य पारमात्यमवाप्स्यति ॥१७७॥

हो गयी और दान पूजा आदि उत्तम कार्योसे सबका समय व्यतीत होने लगा । आयुके अन्तमें नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़े जिससे वह सौधर्म स्वर्गमें बड़ा देव हुआ ॥१६१-१६२॥ स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोका उपभोग कर वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतपर शिवंकर नगरमें विद्याधरोके रवामी राजा पवनवेगकी रानी सुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है । दूसरे जन्मके बढते हुए स्नेहसे विवश होकर ही इसने चन्दनाका हरण किया था सो ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमार्गमें ले ही जाता है ॥१६३-१६५॥ यह निकटमन्य है और इसी जन्ममें दिग्म्बर मुद्रा धारण कर मोक्ष पद प्राप्त करेगा ॥१६६॥ नागदत्तकी छोटी बहन अर्थस्वामिनी स्वर्गलोकसे आकर यहाँ महाकान्तिको धारण करनेवाली मनोवेगा हुई है ॥१६७॥ जो विद्याधर पलाशनगरमें नागदत्तके हाथसे मारा गया था वह स्वर्गसे आकर तू सोमवंशमें राजा चेटक हुआ है ॥१६८॥ धनमित्रा नामकी जो नागदत्तकी माता थी वह स्वर्ग गयी थी और वहाँसे च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई है ॥१६९॥ जो नागदत्तकी स्त्री पद्मलता थी वह अनेक उपवास कर स्वर्ग गयी थी और वहाँसे आकर वह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है ॥१७०॥ नकुल संसारमें भ्रमण कर सिंह नामका भील हुआ है उसने पूर्व जन्मके स्नेह और वैरके कारण ही चन्दनाको तंग किया था ॥१७१॥ सहदेव भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमण कर कौशाभ्यो नगरीमें मित्रवीर नामका बुद्धिमान् वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभसेनका सेवक है और उसीने यह चन्दना वृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थी । नागदत्तका पिता सेठ धनदेव शान्तचित्तसे मरकर स्वर्ग गया था और वहाँसे आकर कौशाभ्यो नगरीमें अनेक गुणोसे युक्त श्रीमान् वृषभसेन नामका सेठ हुआ है ॥१७२-१७४॥ चित्रसेनाने सोमिलासे द्वेष किया था इसलिए वह चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कौशाभ्यो नगरीमें वैश्यपुत्री हुई और भद्रा नामसे प्रसिद्ध होकर वृषभसेनकी पत्नी हुई है । निदानके समय जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निग्रह किया था-उसे कष्ट दिया था ॥१७५-१७६॥ यह चन्दना अच्युत स्वर्ग जायेगी और वहाँसे वापिस आकर शुभ कर्मके उदयसे पुंवेदको पाकर

एवं बन्धविधानोक्तिमध्याभावादिपञ्चकात् । संचितैः कर्मभिः प्राप्य द्रव्यादिपरिवर्तनम् ॥१७८॥  
 संसारे पञ्चधा प्रोक्तं दुःखान्युप्राण्यनारतम् । प्राप्नुवन्तः कृतान्तास्थे हन्त सीदन्ति जन्तवः ॥१७९॥  
 त एव कब्धकालादिसाधना मुक्तिसाधनम् । सम्यक्स्वज्ञानचारित्रतपोरूपमसुतरम् ॥१८०॥  
 अश्वेत्य पुण्यकर्मणः परमस्थानसप्तके । संप्राप्तपरमैश्वर्या भवन्ति सुखमानिनः ॥१८१॥  
 इति तद्गौतमाधीशश्रीमद्वन्धनिरसायनात् । सभा सर्वा बभूवासौ तदैवेवाजराभरा ॥१८२॥  
 अन्यदाऽसौ महाराजः श्रेणिकाख्यः परिभ्रमन् । प्रीत्या गन्धकुटीबाह्यमास्वद्वनचतुष्टये ॥१८३॥  
 स्थितं पिण्डीद्रुमस्याधो जीवधरमुनीश्वरम् । ध्यानारूढं विलोभयैतद् पाद्विषु विषक्तधीः ॥१८४॥  
 सकौतुकः समभ्येत्य सुधर्मगणनायकम् । भाक्तिकोऽभ्यर्च्य वन्दित्वा यथास्थानं निविश्य तम् ॥१८५॥  
 प्राञ्जलिभंगदशेष यतीन्द्रः सर्वकर्मणा । मुक्तो वाचैव को वेति पप्रच्छ प्रश्रवाश्रयः ॥१८६॥  
 अवबोधचतुष्टयाऽसौ सोऽप्येवं समभाषत । खेदो न हि सतां वृत्तेर्वक्तुः ओतुश्च चेतसः ॥१८७॥  
 शृणु श्रेणिक जम्बूभूजविभूवि रभूतले । अत्र हेमाङ्गदे देशे राजन् राजपुराधिपः ॥१८८॥  
 राजेव रज्जिताशेषः सत्यधरमहीपतिः । विजयास्थ महादेवी विजयश्रीरिवापरा ॥१८९॥  
 सर्वकर्मचणोऽमात्यः काष्ठाङ्गारिकनामभृत् । हन्ता दैवोपघातानां रुद्रदत्तः पुरोहितः ॥१९०॥  
 कदाचिद्विजया देवी सुता गर्भगृहे सुखम् । सुकुटं भूसुजा हेमचण्डाष्टकविराजितम् ॥१९१॥  
 दत्तं स्वस्थै श्रिताशोक्तरोमूलं च केनचित् । डिङ्गं परशुना जातं पुनर्वाकमहीरुहम् ॥१९२॥

अवश्य ही परमात्मपद—मोक्षपद प्राप्त करेगी ॥१७७॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिथ्या-  
 दर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निमित्तसे संचित हुए कर्मके द्वारा ये जीव  
 द्रव्य क्षेत्र आदि परिवर्तनोंको प्राप्त होते रहते हैं । ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे  
 भयंकर दुःख हैं । खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पंच प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यम-  
 राजके मुँहमें जा पड़ते हैं ॥१७८-१७९॥ फिर ये ही जीव काललब्धि आदिका निमित्त पाकर  
 सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और सम्यक्तूप रूप मोक्षके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य  
 कर्म करते हुए सात परमस्थानोंमें परम ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं और यथा क्रमसे अनन्त सुखके  
 भाजन होते हैं ॥१८०-१८१॥ इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्ष्मीसे  
 युक्त ध्वनिरूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गयी ॥१८२॥

अथानन्तर—किसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों  
 वनोंमें बड़े प्रेमसे घूम रहे थे । वहीपर एक अशोक वृक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानारूढ  
 होकर विराजमान थे । महाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो  
 गये और कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधर्म गणधरदेवकी बड़ी भक्तियसे पूजा-वन्दना  
 की तथा यथायोग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन् ! जो  
 मानो आज ही समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जावेगा ऐसे ये मुनिराज कौन हैं ? ॥१८३-१८६॥  
 इसके उत्तरमें चार ज्ञानके धारक सुधर्माचार्य निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि  
 सज्जनोंके चरित्रको कहनेवाले और सुननेवाले-दोनोंके ही चित्तमें खेद नहीं होता है ॥१८७॥  
 वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, इसी जम्बू वृक्षसे सुशोभित होनेवाली पृथिवीपर-ए  
 हेमांगद नामका देश है और उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है । उस  
 चन्द्रमाके समान सबको आनन्दित करनेवाला सत्यधर नामका राजा था और दूसर  
 विजयलक्ष्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥१८८-१८९॥ उसी राजाके स  
 कामोंमें निपुण काष्ठांगारिक नामका मन्त्री था और दैवजन्य उपद्रवोंको नष्ट करनेवा  
 रुद्रदत्त नामका पुरोहित था ॥१९०॥ किसी एक दिन विजया रानीके घरके भीतर सुखसे स  
 रही थी वहाँ उसने बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न देखा ।

१ एवं ल० । २ सर्वकर्मभिः ल० । ३ चन्द्र इव । 'राजा प्रभो नृपे चन्द्रे यसे सविद्यगक्रयो-  
 इति कोशः । ४ भङ्गा ल० ।

निशायाः पश्चिमे यामे स्वप्नावेतौ प्रदक्षधोः । विलोक्य सा तयोर्जातुं कलमभ्येक्ष्य भूपतिम् ॥१९६॥  
सप्रभ्रयं समीक्ष्यैनमन्वयुद्धं मदत्यये । अष्टौ क्षामाक्षवाप्यान्ते क्षितेर्भोकारमात्मजम् ॥१९७॥  
आप्स्यस्याञ्जु त्वमित्याह महीपालः प्रियाप्रियम् । श्रुत्वा शोकप्रमोदाभ्यां तामाविर्भूतचेतसम् ॥१९५॥  
राज्ञीं राजा समाकोच्य सदुक्तया समतपयत् । सुखेनैवं तयो काले याति कश्चित्समागतः ॥१९६॥  
देवलोकास्थितिं लेभे देवीगर्भगृहे सुखम् । स पुण्यो राजहंसो वा शारदाब्जसरोवरं ॥१९७॥  
अथान्यद्युर्वाणिरवर्षां वास्तव्यस्तत्पुरान्तरे । धनी गन्धोत्कटो नाम शीलपुप्तमहासुनिम् ॥१९८॥  
मनोहरवन्दोद्याने ज्ञानत्रयविलोचनम् । विलोक्य विनयाक्षत्वा प्राप्राक्षीद्गवन्मम ॥१९९॥  
वह्नोऽह्वायुषोऽभूर्वस्तनयाः पापपाकतः । दीर्घायुषो भविष्यन्ति सुखा मे किमत् परम् ॥२००॥  
इति सोऽपि दयालुत्वान्मुनीशः प्रथमावृत । वाढं समुपलप्स्यन्ते त्वया सुचिरजीविनः ॥२०१॥  
धमिज्ञानमिदं तस्य सम्यक्च्छृणु वणिग्वर । कल्प्यमानं सुतं सद्यो मृतं त्यक्तुं वनं गतः ॥२०२॥  
तत्र कंचित्तनूजं त्वं कल्पस्यसे पुण्यभाजनम् । स समस्तां महतीं भुक्त्वा तुत्तो वैपयिकैः सुखैः ॥२०३॥  
प्रान्ते विधत्स्य कर्माणि मोक्षलक्ष्मीमवाप्स्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा काचित्संसिन्धो स्थिता ॥२०४॥  
यक्षी भविष्यतो राजसूनोः पुण्यप्रचोदिता । तस्योत्पत्तौ स्वयं मातुरूपकारविधित्तया ॥२०५॥  
गत्वा राजकुलं दैनयेचयन्त्रगतामवत् । प्रायः प्राक्कृतपुण्येन संनिधित्सन्ति देवताः ॥२०६॥  
अथागते मधौ मासे सर्वसत्त्वसुखावहे । पुरोहितोऽहितोऽन्येषु प्रातरैव समागतः ॥२०७॥

राजाने सुवर्णके आठ घण्टोसे सुशोभित अपना मुकुट मेरे लिए दे दिया है और दूसरा स्वप्न देखा कि मैं अशोक वृक्षके नीचे बैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसीने कुल्हाड़ीसे काट डाली है और उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उत्पन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उनका फल जाननेके लिए वह राजाके पास गयी ॥१९९-१९३॥ और बड़ी विनयके साथ राजाके दर्शन कर स्वप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मननेके बाद शीघ्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ लामोंको पाकर अन्तमें पृथिवीका भोक्ता होगा। स्वप्नोंका प्रिय और अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्त शोक तथा दुःखसे भर गया। उसकी व्यग्रता देख रागाने उसे अच्छे शब्दोंसे सन्तुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लगा। इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके गर्भरूपी गृहमें आया और इस प्रकार सुखसे रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके सरोवरमें राजहंस रहता है ॥१९४-१९७॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसीनगरमें रहनेवाले गन्धोत्कट नामके धनीसेठने मनोहर नामक उद्यानमें तीन ज्ञानके धारी शीलपुप्त नामक मुनिराजके दर्शन कर विनयसे उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन् ! पाप कर्मके उदयसे मेरे द्रुतसे अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होंगे ? ॥१९६-२००॥ इस प्रकार पूछनेपर दयालुतावश मुनिराजने कहा कि हाँ, तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करोगे ॥२०१॥ हे वैश्यवर ! चिरजीवी पुत्रप्राप्त होनेका चिह्न यह है, इसे तू अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह भो सुन । तेरे एक मृत पुत्र होगा उसे छोड़नेके लिए तू वनमें जायेगा। वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा। वह पुत्र समस्त पृथिवीका उपभोग कर विषय सम्पन्धी सुखोंसे सन्तुष्ट होगा और अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करेगा। जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्कट सेठसे ऊपर लिखे वचन कह रहे थे उस समय वहाँ एक यक्षी भी वैदी थी। मुनिराजके वचन सुनकर यक्षीके मनमें होनहार राजपुत्रकी माताका उपकार करनेकी इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह यक्षी उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजकुलमें गयी और एक गरुड यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची। सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं ॥२०२-२०६॥ तदनन्तर

महीपतिगृहं देवीं वीक्ष्य वीतविभूषणाम् । उपविष्टां क राजेति समपृच्छस सादरम् ॥२०८॥  
 साप्याह सुप्तवान् राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम् । इति तद्वचनं सोऽपि दुर्निमित्तं विमाचयन् ॥२०९॥  
 ततो निवृत्तः संप्राप्य काष्ठाङ्गारिकमन्त्रिणः । भास्करोदयवेलायां गेहं तत्रापकोच्य तम् ॥२१०॥  
 पापबुद्धिर्मियोऽवादीद्वाप्यं तव भविष्यति । महीपतिर्निहन्तव्यस्त्वयेति तदुदीरितम् ॥२११॥  
 श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रिपदे मां विन्मयोऽजयत् । राजायमकृतज्ञो वा कथं चापकरोम्यहम् ॥२१२॥  
 रुद्रदत्त स्वया प्रजावताप्येतस्मुदुर्नेयम् । निरूपितमिति श्रोत्रपिधानं समथो व्यधात् ॥२१३॥  
 पुरोहितस्तदाकर्ण्य भविष्यत्सुरस्य ते । प्राणहारी भवेत्तत्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥२१४॥  
 इत्येतदभिधायांशु गत्वा तत्पापपाकनः । नृनीयदिवसे व्याधिपीडितो विगतायुक्तः ॥२१५॥  
 रुद्रदत्तोऽगमत्स्वार्थी गतिं सुचिरदुःखदाम् । काष्ठाङ्गारिकमन्त्री च रुद्रदत्तनिरूपितात् ॥२१६॥  
 वृषं स्वसृष्ट्युमाहाङ्गय प्रजिघांसुर्दुराशयः । द्विसहस्रमहं पालैर्दानभिक्षैर्मतोत्कृष्टैः ॥२१७॥  
 राजगेहं समुद्दिश्य संनद्धगजवाजिभिः । समं समानियाति स्म तद्विदिवा महीपतिः ॥२१८॥  
 देवीं गृहडयन्त्रस्थापसार्थं प्रयत्नतः । प्राङ्मन्त्रिस्वीकृतास्मीयमहीपालैः स्वदर्शनात् ॥२१९॥  
 विमुक्तमन्त्रिभिः सार्धं क्लृप्त्वा संप्राप्य मन्त्रिणम् । युद्धे सद्यः स निर्जित्य भयोन्मार्गमनीयवत् ॥२२०॥  
 तुक्कालाङ्गारिकस्तस्य सङ्गरे भङ्गवार्तया । सक्नोषो बहुर्मनद्बलेन सहसागतः ॥२२१॥  
 काष्ठाङ्गारिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सगतः । हत्वा युद्धे महीपालं तस्मिन् राज्येऽप्यवस्थितः ॥२२२॥

सब जीवोंको सुख देनेवाला वसन्तका महीना आ गया। किसी एक दिन अहित करनेवाले रुद्रदत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया। वहाँ रानीको आभूषणरहि बैठी देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ? ॥२०८-२०९॥ रानीने भी उत्तर दिया कि राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते। रानीके इन वचनोंको ह अपशकुन समझता हुआ वह वहाँसे लौट आया और सूर्योदयके समय काष्ठांगारिक मन्त्री घर जाकर उससे मिला। उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काष्ठांगारिकसे कहा कि यह रात्रि तेरा हो जावेगा तू राजाको मार डाल। पुरोहितकी बात सुनकर काष्ठांगारिकने कहा कि तो राजाका नौकर हूँ, राजाने ही मुझे मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राज अकृतज्ञ है—मेरा किया हुआ उपकार नहीं मानता है तो भी मैं यह उपकार कैसे कर सक हूँ ? ॥२०६-२१०॥ हे रुद्रदत्त ! तूने बुद्धिमान् होकर भी यह अन्यायकी बात क्यों कही। यह कहकर उसने भयभीत हो अपने कान ढक लिये ॥२१३॥ काष्ठांगारिकके ऐसे वचन सुन पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र होनेवाला है वह तेरा प्राणवातक होगा इसलि इसका प्रतिकार कर ॥२१४॥ इतना कहकर रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इ पापके उदयसे रोगपीडित हो तीसरे दिन मर गया तथा चिरकाल तक दुःख देनेवाली नरक गतिमें जा पहुँचा। इधर दुष्ट आशयवाले काष्ठांगारिक मन्त्रीने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी सृष्ट्यु की आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की। उसने धन देकर दो हजार शूरवीर राजाओं अपने अधीन कर लिया था। वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार किये हुए हाथियों अ घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी ओर चला। जब राजाको इस बातका पता चला तो उसने श ही रानीको गृहडयन्त्रर वैठाकर प्रयत्नपूर्वक वहाँसे दूर कर दिया। काष्ठांगारिक मन्त्रीने प जिन राजाओंको अपने वश कर लिया था उन राजाओंने जब राजा सत्यन्धरको देखा तब मन्त्रीको छोड़कर राजाके अधीन हो गये। राजाने उन सब राजाओंके साथ कुपित होकर मन्त्र पर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही युद्धमें जीतकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया—भयभी बना दिया ॥२१५-२२०॥ इधर काष्ठांगारिकके पुत्र कालांगारिकने जब युद्धमें अपने पिता हारका समाचार सुना तब वह बहुत ही कुपित हुआ और युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत सेना लेकर अकस्मात् आ पहुँचा। पापी काष्ठांगारिक भी उसीके साथ जा मिला। अन्तमें

सविषं चाधानं मित्रं कृतग्रं वा सहिसकम् । धर्मं वाधर्मदं राज्यं तदैयः सचिवाभ्रमः ॥२२३॥  
 अतो विजयदेवी च यन्त्रसारुहा गारुडम् । शोकाग्निदह्यमानाङ्गी रुदन्ती यस्त्रिभ्रिता ॥२२४॥  
 प्रणवकन्नगच्छदाराहोहिताक्रान्तशुकैः । शूकनिर्मदसंभृतवेदनालुकितासुकैः ॥२२५॥  
 कम्पमानैरबोवकत्रैः स्तेनैर्नानाविधै रवैः । सामिदग्ध शवं बह्वैराकृष्याच्छिष्ट खण्डशः ॥२२६॥  
 कृचिकाभिर्निशाताभिर्दोकीभिः समन्ततः । खादन्तीभिश्च संकीर्णं पितृणामगसदं वनम् ॥२२७॥  
 तत्र रात्रौ कृतारक्षा यक्ष्या विगतबाधिका । अरुण च तनय कान्तं धौरिवास्तुतदीधितम् ॥२२८॥  
 नामृदस्थास्ततोऽल्पोऽपि पुत्रोऽपत्तिसमुत्सवः । शोकः प्रत्युत संभृतो विक्रोमविधिवधितः ॥२२९॥  
 सद्यो यक्षी च सुस्थाप्य समन्तान्मणिदीपिकाः । शोकाकुलां विळोक्यैनां दावाकीडकृतोपमाम् ॥२३०॥  
 सर्वस्थानानि दुःस्थानि गत्वर्षो यौवनश्रियः । विष्वंसी बन्धुत्वबन्धो जीवितं दापसंचकम् ॥२३१॥  
 कायः सर्वाङ्गुचिप्रायो हेयोऽयमिह धीमताम् । राज्यं सर्वत्रगत्वर्ष्यं विद्युद्दधोतसंसिमम् ॥२३२॥  
 परयिष्वेव सर्वेषां प्रीतिः सर्वेषु वस्तुषु । वेऽवश्यं नश्वरास्तस्माद्प्रीतिः पर्यन्ततापिनी ॥२३३॥  
 सत्यप्यर्थं रतिर्नं स्यात् स्वर्थं वासति चेपि सते । सति स्वस्मिन्नश्वौ चासी त्रयाणां वा स्थिते क्षतिभा ॥२३४॥  
 यस्य निष्कममाक्रम्यं विश्वं विज्रसिरीक्षते । नेक्षितं स्थास्तु तेनापि कापि किञ्चिद्वदाचन ॥२३५॥  
 सत्सु भाविषु च प्रीतिरस्ति वेदस्तु वस्तुषु । वृथा प्रथयति प्रीतिं विनष्टेषु सुधीः स कः ॥२३६॥  
 इति संसारसद्भावं विचिन्त्य विजये प्रिये । श्रुचं सा गा व्यतीतेषु कृथाः प्रीतिं च ना वृथा ॥२३७॥

युद्धमें राजाको मारकर उसके राज्यपर आरूढ हो गया ॥२२१-२२२॥ उस नीच मन्त्रीने विष मिले हुए भोजनके समान, कृतघ्न मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देनेवाला वह राज्य प्राप्त किया था ॥२२३॥ इधर विजया महादेवी गरुड यन्त्रपर बैठकर चली । शोक-रूपी अग्निसे उसका सारा शरीर जल रहा था और वह रो रही थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी ॥ २२४॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस श्मशानभूमिमें जा पहुँची जहाँ धावोंके अग्रभागसे निकलती हुई खूनकी धाराओंसे शूल भीग रहे थे, शूल छिद्र जानेसे उत्पन्न हुई वेदनासे जिनके प्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नीचेकी ओर लटक गये हैं, ऐसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे । कहींपर डाकिनियाँ अधजले सुरदेको अग्निमें-से खींचकर और तीक्ष्ण छुरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं । ऐसी डाकिनियोंसे वह श्मशान सब ओरसे व्याप्त था ॥२२५-२२७॥ उस श्मशानमें यक्षी रात-भर उसकी रक्षा करती रही जिससे उसे रंचमात्र भी कोई बाधा नहीं हुई । जिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी रात्रिमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥२२८॥ उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ था किन्तु भाग्यकी प्रति-कूलतासे बड़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था । यक्षीने सब ओर शीघ्र ही मगिसय दीपक रख दिये और दावानलसे झूलसी हुई लताके समान महारानीको शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया । वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःखसे भरे हैं, यौवनकी लक्ष्मी नश्वर है, भाई-बन्धुओंका समागम नष्ट हो जानेवाला है, जीवन दीपकके समान चञ्चल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है, अतः बुद्धिमान् पुरुषोंके द्वारा हेय है—छोड़ने योग्य है । जिसकी समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यह राज्य विजलीकी चमकके समान है । सब जीवोंकी समस्त वस्तुओंकी पर्यायोंमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्ताप करनेवाली होती है । अनिष्ट पदार्थके रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती और नष्ट पदार्थके रहते हुए उसपर अपना अधिकार नहीं होता तथा अपने-आपमें प्रीति होनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थितिका श्रेय हो जाता है । जिनका ज्ञान विना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थोंको देखता है उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है । यदि विद्यमान और होनहार वस्तुओंमें प्रेम होता है तो भले ही हो परन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओंमें भी प्रेम करता है उसे बुद्धिमान् कैसे कहा जा सकता है ? इसलिए हे विजये ! संसारके स्वरूपका विचारकर शोक



श्रीमानामुक्तिपर्यन्तं सुतोऽयमुदितोदितः । निहत्यारातिदुर्वृत्तं मोदं ते जनयिष्यति ॥२३८॥  
 स्नाहि चित्तं समाधेदि योग्यभ्राह्मणमाहार । किं वृथानेन शोकेन धिग्देहक्षयकारिणा ॥२३९॥  
 गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता न हि शोकेन लभ्यते । गतयो भिन्नवर्तमानः कर्मभेदेन देहिनाम् ॥२४०॥  
 इत्यादियुक्तिमद्भागिः संविधाय विशोकिकाम् । पाद्वं तस्याः स्वयं सास्थास्ततां सौहार्दमीदृशम् ॥२४१॥  
 तत्र गन्धोत्कटः स्वस्य स्वयं शिशुशवं तदा । गच्छन्निक्षिप्य गम्भीरमाकर्ण्यैर्मकुसुस्वरम् ॥२४२॥  
 जीव जीवेति जीवंधराख्यां वा भाविनीं वदन् । सत्यं मुनिसमादिष्टमिति तुष्टोऽवगम्य तम् ॥२४३॥  
 करो प्रसार्यं सस्नेहं बालं समुदतिष्ठिपत् । देवी तस्वरमाकर्ण्य बुद्ध्या गन्धोत्कटाद्वयम् ॥२४४॥  
 भवबोध्य तमान्मानं भद्र त्वं तनयं मम । वधयान्द्वैरविज्ञातमिति तस्मै समर्पयत् ॥२४५॥  
 सोऽपि तं प्रतिगृह्यं करोमीति कृतस्वरः । गत्वा गृहं स्वकान्तायै नन्दायै तत्प्रवृत्तकम् ॥२४६॥  
 किमप्यप्रतिपाद्यास्यै क्रुध्यन्निव गतस्मृते । सप्राणमपरीक्ष्यैव भवत्या तदपत्यकम् ॥२४७॥  
 विसर्जनाय मद्भस्ते निर्विचारं समर्पितम् । आयुष्मानुपुण्यवानेव गृहाणेति वितीर्णान् ॥२४८॥  
 प्रत्येच्छत्साऽपि संतुष्टा कराभ्यां बालमास्करम् । विराजितं पराजित्य बालं लोळविलोचना ॥२४९॥  
 तस्यान्वयादा वणिग्वयं कृतमङ्गलसङ्क्रियः । अन्नप्राशनपर्यन्ते व्यधाऽजीवंधराभिधाम् ॥२५०॥  
 अथेत्वा तेन यन्त्रेण तस्मात्सा विजयाह्वया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम् ॥२५१॥  
 तत्राप्राशमवैषा वसति स्म समाकुक्काम् । तां यक्षीं समुपागत्य तच्छोकापनुदेच्छया ॥२५२॥

मत कर, और अतीत प्रदार्थोंमें व्यर्थ ही प्रीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान् है मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त इसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता ही रहेगा । यह दुराचारी शत्रुको नष्ट अवश्य ही तुझे आनन्द उत्पन्न करेगा । तू स्नान कर, चित्तको स्थिर कर और योग्य अग्रहण कर । शरीरका क्षय करनेवाला यह शोक करना वृथा है, इस शोकको धिक्कार है, करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्यों अपने-अपने कर्मोंमें भेद होनेसे जीवोंकी गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं । इत्यादि युक्ति-वचनोंसे यक्षीने विजया रानीको शोकरहित कर दिया । इतना ही नहीं वह स्वयं रात्रि-उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी मित्रता ऐसी ही होती है ॥२२९-२४३॥ इतनेमें ही गन्धोत्कट सेठ, अपने मृत पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयं पहुँचा । वह शव रखकर जब जाने लगा तब उसने, किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द सुनते ही उस 'जीव जीव' ऐसे आशीर्वादात्मक शब्द कहे माने उसने आगे प्रचलित होनेवाले उस पुत्र 'जीवंधर' इस नामका ही उच्चारण किया हो । मुनिराजने जो कहा था वह सच निकला जानकर गन्धोत्कट बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने दोनों हाथ फैलाकर बड़े स्नेहसे उस बाल उठा लिया । विजया देवीने गन्धोत्कटकी आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया था । इस उसने अपने-आपका परिचय देकर उससे कहा कि हे भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पकता जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके । यह कहकर उसने वह पुत्र गन्धके लिए सौंप दिया ॥२४२-२४५॥ सेठ गन्धोत्कटने भी 'मैं ऐसा ही करूँगा' यह कहकर वह ले लिया और शीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्दा नामकी स्त्रीके लिए दे दिया । देते उसने स्त्रीके लिए इत्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ छिपित-सा होकर कि हे मूल ! वह बालक जीवित था, तूने बिना परीक्षा किये ही इमशानमें छोड़ आनेके मेरे हाथमें विचार किये बिना ही रख दिया था । ले, यह बालक चिरजीवी है और पुण्य है, यह कहकर उसने वह पुत्र अपनी स्त्रीको दिया था ॥२४६-२४८॥ सुनन्दा सेठानीने स होकर वह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया । वह बालक प्रातःकालके सूर्यको पराजित कर भित हो रहा था और सेठानीकी आँखें उसे देख-देखकर सतृण हो रही थीं ॥२४९॥ किसी दिन उस सेठने अनेक मार्गलिक क्रियाएँ कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका 'जीव नाम रखा ॥२५०॥

अथानन्तर—विजया रानी उसी गरुड़मन्त्रपर बैठकर दण्डकके मध्यमें स्थित व

तदवस्थोचितश्रवणकथाभिः संसृतेः स्थितिम् । प्ररूप्य धर्ममार्गं च प्रत्यहं समरीरमत् ॥२५३॥  
 इतः सत्यंधराख्यस्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । भामारतिः परानङ्गपताका च मनोरमे ॥२५४॥  
 मधुरं वक्रकुलं चान्यमलमेतीं सुताद्युमी । ज्ञात्वा तद्धर्मसंज्ञानं गृहीतश्रावकमते ॥२५५॥  
 तौ च गन्धोक्तद्वैतैव पोषितौ वृद्धिमापतुः । तत्रैव श्रावको जातो मत्यन्तविजयाह्वयः ॥२५६॥  
 सागरो धनपाकाख्यश्चतुर्थोऽमृतिसागरः । सेनापतिः पुरोधाश्च श्रेष्ठी मन्त्री च मधुसुजः ॥२५७॥  
 भार्या जयावती श्रीमती श्रोतृता तथाक्रमम् । चतुर्थ्यनुपमा तेषां देवसेनः सुतोऽपरः ॥२५८॥  
 बुद्धिपेणो वरादिश्च दत्तो मधुसुखः क्रमात् । षट् ते जीवंधराख्येन महुराधाः सुताः समम् ॥२५९॥  
 अवर्धन्त कुमारेण बालकेलीपरायणा । जीवादयः पदार्थां वा लोकात्समान्महाशयात् ॥२६०॥  
 नक्तं दिवं निजप्राणसमाः क्षाप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाख्यां क्रमेणासवती सुतम् ॥२६१॥  
 अन्येद्युर्नगरोद्याने कोऽपि तापसरूपधृत् । कुमारं गोलकाद्युक्तबालक्रीडानुषङ्गिणम् ॥२६२॥  
 विलोक्यास्मात्स्त्रियद्वारं पुरं द्रुहीति वृष्टवान् । वृद्धस्यापि तवाज्ञत्वं बालोऽप्यत्र न सुञ्जति ॥२६३॥  
 बाह्यं पुरवरोद्याने बालक्रीडावलोकनात् । पुरस्थासन्नवर्तित्वं केन वा नासुमीयते ॥२६४॥  
 धूमोपलम्भनाद्भिन्नद्रव्यं वेति कृतस्मितः । जीवंधरोऽवदत्तस्य चेष्टाछायास्वरादिकम् ॥२६५॥  
 दग्धु श्रुत्वा विविच्यैव सामान्यो नैत्रं बालकः । राजवंशसमुद्भूतिः चिह्नैस्स्यानुमीयते ॥२६६॥  
 इति केनाप्युपायेन तद्वर्षं स परीक्षितुम् । वाम्छजयाचतैर्न मे भोजनं दीयतामिति ॥२६७॥

किसी बड़े आश्रममें पहुँची और वहाँ गुप्त रूपसे—अपना परिचय दिये बिना ही रहने लगी । जब वह विजया रानी शोकसे व्याकुल होती थी तब वह यक्षी आकर उसका शोक दूर करनेकी इच्छासे उसकी अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे सम्भारकी स्थिति बतलाती थी, धर्मका मार्ग बतलाती थी और इस तरह प्रति दिन उसका चित्त वहलाती रहती थी ॥२५१-२५३॥ इधर महाराज सत्यन्धरकी भामारति और अनंगपताका नामकी दो छोटी बिर्याँ और थीं । उन दोनोंमें मधुर और वक्रुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये । इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप जानकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये थे । इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोक्तके यहाँ ही पालन-पोषण प्राप्त कर बड़े हुए थे । उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल और मृतिसागर नामके चार श्रावक और थे जो कि अनुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मन्त्री थे ॥२५४-२५७॥ इन चारोंकी बिर्याँके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रोतृता और अनुपमा थे । इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिपेण, वरदत्त और मधुसुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे । मधुरको आदि लेकर वे दहो पुत्र, जीवन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिको प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके साथ ही बालक्रीडा करनेमें तत्पर रहते थे और जिस प्रकार जीवाजीवादि उह पदार्थ कभी भी लोकाकाशको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छहों पुत्र उत्कृष्ट अभिप्रायके धारक जीवन्धर कुमारको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ ही रहते थे और उनके प्राणोंके समान थे । तदनन्तर गन्धोक्तकी स्त्री सुनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्दाख्या नामका पुत्र प्राप्त किया-॥२५८-२६१॥

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोलीडण्डा आदि बालकोंके खेल खेलनेमें व्यस्त थे कि इतनेमें एक तपस्वी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे नगर कितनी दूर है ? तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि 'आप वृद्ध तो हो गये परन्तु इतना भी नहीं जानते ! अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते । नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंको खेलता देख भला कौन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार कि धूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी क्रीडा देख नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है' इस प्रकार सुसकराते हुए जीवन्धर कुमारने कहा । कुमारकी चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिको देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्नोंसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजव्यसे हुई है । ऐसा विचारकर उस तपस्वीने किसी उपायसे उसके बंशकी परीक्षा करनी चाहो । अपता मनोरथ

कुमारोऽपि प्रविशाय नीत्वा सार्धं तमात्मना । पितुः सन्निधिमाहारो मयास्मै रम प्रदीयते  
 भवान्प्रमाणमिथाख्यच्छ्रुत्वा तत्तत्पिता मुदा । विनीतोऽयं सुतः श्लाघ्यो ममेत्याश्लिष्य तं  
 पुत्र स्नानावसानेऽयं मयामा साधु भोक्ष्यते । त्वया व्यपगताशङ्कं भोक्तव्यमिति सोऽभ्यधा  
 सदायैः सह संविश्य भोक्तुं प्रादुर्भवानसौ । अथार्भकस्वभावेन सर्वमुष्णमिदं कथम् ॥२७  
 शुभ्रेऽहमिति रोदित्वा जननीमकदर्थयत् । रुद्रत्वं तं समाकोष्य भद्रं तत्ते न द्युष्यते ॥२७२  
 अपि त्व वयसास्त्रीयान् धीस्थो वीर्यादेभिर्गुणैः । अधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिति ।  
 इति तापसवेपेण मापितः स कुमारकः । शृणु पूज्य न वेरिष त्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥  
 निर्याति संहृत्क्षेपमा वैमल्यमपि नेत्रयोः । शीतीभवति चाहारः कथमेतन्निवार्यते ॥२७५॥  
 इत्याख्यत्तत्समाकर्ण्य मातास्य मुदिता सती । यथाविधि सदायैस्तं सह सम्यगभोजयत् ॥  
 ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा सखिविष्टो यथासुखम् । तेन तापसवेपोऽपि सुक्त्वामैवमभाषत् ॥२  
 कुमारेऽस्मिन्मम स्नेहोऽभूद्वेदेष्यास्य योग्यताम् । मया शान्ता वेषसंधौतमतिरेष करिष्यते ॥  
 इति तन्नाशितं श्रुत्वा चरिष्ठः श्रावकेष्वहम् । नान्यलिङ्गिनमस्कारं कुर्वं केनापि हेतुना ॥२७९  
 स्याद्भैरवस्यं तेऽवश्यं तद्भावेऽतिमानिनः । इति श्रेष्ठथाह तच्छ्रुत्वा स्वसन्नावमथाश्रवत् ॥२  
 राजा सिंहपुरस्याहमार्यवर्माभिधानकः । वीरनन्दिमुनेः श्रुत्वा भ्रमं संशुब्ददर्शनः ॥२८१॥  
 धृतिपेणाय मन्त्राज्यं प्रदायादाय संयमम् । तीव्रोदराश्लिषंभूतमहादाहामहिष्णुकः ॥२८२॥


सिद्ध करनेके लिए उसने जीवन्धर कुमारसे याचना की कि तुम भोजन दो ॥२६२-२६७॥  
 कुमार उसे भोजन देना स्वीकृत कर अपने साथ ले पिताके पास पहुँचे और कहने लगे कि  
 भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी आप आज्ञा दें । कुमारकी बात सुनकर पिता  
 प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही बिनम्र और प्रशंसनीय है । यह  
 उन्हींने उसका बार-बार आलिंगन किया और कहा कि हे पुत्र ! यह तपस्वी स्नान करने  
 मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर लेगा । तू निःशंक होकर भोजन कर ॥२६८-२७०॥ त  
 जीवन्धरकुमार अपने मित्रोंके साथ बैठकर भोजन करनेके लिए तैयार हुए । भोजन ग  
 इसलिए जीवन्धर कुमार रोकर कहने लगे कि यह सब भोजन गरम रखा है मैं कैसे  
 इस प्रकार रोकर उन्हींने माताको तंग किया । उन्हीं रोता देख तपस्वी कहने लगा कि भद्र  
 रोना अच्छा नहीं लगता । यद्यपि तू अवस्थासे छोटा है तो भी बड़ा बुद्धिमान है, तूने  
 वीर्य आदि गुणोंसे सबको नीचा कर दिया है फिर तू क्यों रोता है ? ॥२७१-२७३॥ त  
 ऐसा कह चुकनेपर जीवन्धरकुमारने कहा कि हे पूज्य ! आप जानते नहीं हैं । सुनिए, रो  
 गुण हैं—पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुआ कफ निकल जाता है,  
 गुण यह है कि नेत्रोंमें निर्मलता आ जाती है और तीसरा गुण यह है कि भोजन ठण्ड  
 जाता है । इतने गुण होनेपर भी आप मुझे रोनेसे क्यों रोकते हैं ? ॥२७४-२७५॥ पुत्रकी  
 सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने मित्रोंके साथ उसे विधिपूर्वक अच्छी तरह भो  
 कराया ॥२७६॥ तदनन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर सुखसे बैठा और तपस्वी भी उसीके  
 भोजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोत्कटसे कहा कि इस बालककी योग्यता देखकर इसपर  
 स्नेह हो गया है अतः मैं इसकी बुद्धिको शास्त्ररूपी समुद्रमें अवगाहन कर निर्मल बना  
 ॥२७७-२८०॥ तपस्वीकी बात सुनकर गन्धोत्कटने कहा कि मैं श्रावकोंमें श्रेष्ठ हूँ—श्राव  
 श्रेष्ठ व्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिंगियोंको किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं क  
 हूँ और नमस्कारके अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगे  
 सेठकी बात सुनकर वह तापस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥२७९-२८०॥

मैं सिंहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीरनन्दी मुनिसे धर्मका स्वरूप सुन  
 मैंने निर्मल सम्यग्दर्शन धारण किया था । तदनन्तर धृतिपेण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर  
 संयम धारण कर लिया था—मुनिव्रत अंगीकृत कर लिया था परन्तु जठराग्निकी तीव्र बाधासे उत्त

सम्यग्दृष्टिगृहीतेदृष्टवेषस्ते धर्मवान्भवन् । इति तद्बचनं सम्यक्परीक्ष्य वणिजां वरः ॥२८३॥  
 सुप्तं समर्पयामास तस्मै तं सखिभिः समम् । क्षेत्रे बीजमिव स्थाने योग्ये किं नार्पयेत्सुधीः ॥२८४॥  
 स सदृष्टिस्तमादाय निसर्गमतिविस्तृतिम् । अबिरेणैव कालेन विश्वविद्यान्तमानयत् ॥२८५॥  
 कुमारोऽपि रविर्वाग्मोदान्ते विद्याभिरद्युतत् । प्राप्तैश्वर्यो द्विपो वातु संप्राप्तमनवधौवनः ॥२८६॥  
 उपाध्यायोऽपि कालान्तरेणापसंयतः शिवम् । तत्काले काककूटाख्यो मुख्यो वननिवासिनाम् ॥२८७॥  
 मर्त्याकारं प्रपन्नो वा सूर्यरक्षिमयात्स्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डशरद्वस्तं दुरीक्षकम् ॥२८८॥  
 केनाप्यसह्यमायाते कटुकं वा महौषधम् । निर्घृणं बहमादाय विषाणोर्दावभीषणम् ॥२८९॥  
 तस्मात्कारामनिर्मासिभूगोचरमुपागतः । गोप्तो विघ्नं स साधूनां गोमण्डकविद्युक्षया ॥२९०॥  
 ता किंवदन्तीमाकर्ण्य कन्यां गोदावरीं सतीम् । पुत्रीं गोपेन्द्रगोपश्रीं सभूतां गोविमोक्षणम् ॥२९१॥  
 विधास्यते ददामीति काष्ठाङ्गारिकभूभुजा । धाषणां कारितां श्रुत्वा काष्ठाङ्गारिकसंगतः ॥२९२॥  
 जीवन्मरः सहार्थैः स्वैः परीतो व्यावर्त्सनिभिम् । संगान्पाकृष्टशेदण्डनिशातशरसन्ततिम् ॥२९३॥  
 संदवासन्ततिं सुखंलघु शिक्षाविक्षेपतः । धनुर्वेदसमादिष्टं स्थानक सर्वमाव्रजन् ॥२९४॥  
 बाणपातामुरैर्वा च बन्धनमन्धु संचरन् । विक्रन्तप्र शत्रुबाणैर्ब रङ्गब्रह्माणि भीरुः ॥२९५॥  
 इति युष्ठा चिर व्याधात् शिवा वा दुर्भयात्प्रयः । जयप्रिया समालीढः सर्वाशा यथासा शृशम् ॥२९६॥  
 पर्यन्तशिक्षां सत्कृन्द्प्रसवदासिना । समागमस्तुरं चञ्चद्वैजयन्ती विराजितम् ॥२९७॥

हुई महादाहको सहन नहीं कर सका इसलिए मैंने यह ऐसा वेष धारण कर लिया है, मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, तुम्हारा धर्मबन्धु हूँ । इस प्रकार तपस्वीके वचन सुनकर और अच्छी तरह परीक्षा कर सेटने उसके लिए मित्रों-सहित जीवन्धरकुमारको सौंप दिया सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम खेतमें बीजकी तरह योग्य स्थानमें बुद्धिमान् मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात् सभी इच्छा अर्पित कर देता है ॥२८१-२८३॥ उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत बड़ा विस्तार था ऐसे जीवन्धर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी बना दिया ॥२८५॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुमें सूर्य देवीप्यमान होता है और ऐश्वर्य पाकर हाथी सुरोभित होता है उसी प्रकार नव यौवनको पाकर जीवन्धरकुमारभी विद्याओंसे देवीप्यमान होने लगे ॥२८६॥ वह उपाध्याय भो समयानुसार संयम धारण कर मोक्षको प्राप्त हुआ । अथानन्तर— उस समय कालकूट नामका एक भौल्लोंका राजा था जो ऐसा काला था मानो सूर्यकी किरणोंसे ढरकर स्वर्ण अन्धकारने ही मनुष्यका आकार धारण कर लिया था, वह पशुहिंसक था और साधुओंके विघ्नके समान जान पड़ता था । जो धनुष-बाण हाथमें लिया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, युद्धमें जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, जो महौषधिके समान कटुक है, दया-रहित है और सींगोंके शब्दोंसे अर्थकर है ऐसी सेना लेकर वह कालकूट गोमण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमाखुओंके वनसे सुरोभित नगरके बाह्य मैदानमें आ डटा ॥२८५-२९०॥ इस समाचारको सुनकर काष्ठांगारिक राजाने घोषणा करायी कि मैं गायाँको छुड़ानेवालेके लिए गोपेन्द्रकी क्वी गोपश्रीसे उत्पन्न गोदावरी नामकी उत्तम कन्या दूँगा । इस घोषणाको सुनकर जीवन्धर कुमार काष्ठांगारिकके पुत्र काष्ठांगारिक तथा अपने अन्य मित्रोंसे युक्त होकर उस कालकूट भौलके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने अपना धनुष चढाया, उसपर तीक्ष्ण बाण रखे, वे अपनी विशिष्ट शिक्षाके कारण जल्दी-जल्दी बाण रखते और छोड़ते थे, धनुर्वेदमें बताये हुए सभी पैतरा बदलते थे, दूसरोंकी बाण-बर्षाको वचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शत्रुओंके बाणोंके समूहको काटते थे और कायर लोगोपर अख छोड़नेसे रोकते थे, अर्थात् कायर लोगोपर अखोंका प्रहार नहीं करते थे । इस तरह जिस प्रकार नय मिथ्या नयोंको जीत लेता है उसी प्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भौल्लोंको जीत लिया । जयलक्ष्मीने उनका आतिथन किया और वे चन्द्रमा, हंस, तूळ तथा कुन्दके फूलके समान सुरोभित यशके द्वारा समस्त दिशाओंको व्याप्त करते हुए फहराती हुई पतङ्गाओंसे सुरोभित नगरमें प्रविष्ट हुए ॥२९१-२९७॥

१ तै. ख० । २ सम्यग्दृष्टिस्तमा-न० ।



देहचूते कुमारस्य शौच्यदिग्बसवाचिते । जननेत्रालयः पेतुः कीर्तिगन्धावकषिताः ॥२९८॥  
 तदा कुमारसन्देशादेकवाक्येन विटसुतोः । गोविमीक्षणमेतेन कृतं युष्वेति भूपतिम् ॥२९९॥  
 विज्ञाप्यादापयन् कन्यां नन्दाद्व्याये पुरोदिताम् । गोदावरीं विवाहेन विचित्राः कार्यवृत्तयः ॥३००॥  
 अथात्र भारते खेचरद्वीः दक्षिणभागम् । गगनाच्छ्रीरिवामाति-पुरं गगनवल्लभम् ॥३०१॥  
 तस्युराधिपतिः खेचरेन्द्रो गुरुद्वेगकः । दायादास्तामिमानः सत्रनद्वीपे परं पुरम् ॥३०२॥  
 रमणीयामिध कृत्वा नान्नाद्री मनुजोदये । निविष्टवानपुरेऽस्यासीद्धारिणी प्राणवल्लभा ॥३०३॥  
 तस्तुतामुपवासेन परिम्ळानशरीरिकां । गन्धर्वदत्तामन्येद्यः पूजयित्वा जिनेश्वरान् ॥३०४॥  
 शेषमालां समादाय दातुं स्वस्ते समागताम् । आपुण्यीवनां वीक्ष्य कस्मै देयेयमित्यसौ ॥३०५॥  
 अंपृच्छत्खेचराधौशो मन्त्रिणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राबुद्ध तमिथाह सिद्धादेशमपारंभीः ॥३०६॥  
 जिनेन्द्रानहमन्येषुवन्दिदुं मन्दरं गतः । नन्दने पूर्वदिग्भागे वने जिननिकेतनम् ॥३०७॥  
 मन्थया प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वां विधिपुरस्सरम् । तत्रस्थचारणं नत्वा मत्यन्तविपुलादिकम् ॥३०८॥  
 ध्रुत्वा धर्मं जगत्पुत्र्य सतो मरुद्वाग्निनः सुता । कस्य गन्धर्वदत्ताख्या भोगमोग्यां भवित्यति ॥३०९॥  
 इत्यप्राक्षं तदावोचस्वोऽप्येवमवधीक्षणः । द्वीपेऽस्मिन्भारते हेमाङ्गददेशं मनीहरं ॥३१०॥  
 राजा राजपुरं सत्यधरं सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवीं तयोः श्रीमान्मुधीः सुतः ॥३११॥  
 वीणास्वयंवरं तस्य दत्ता मायी भवित्यति । इति मन्त्रिवधः श्रुत्वा स्वगोर्षः किचिदाकुलः ॥३१२॥

उक्तं संमये शरधारिता आदि गुणरूपी फूलोसे सुशोभितं कुमारके शरीररूपी आमिके वृक्षपरं  
 कीर्तिरूपी गन्धर्से खिचे हुए मनुष्यीके नेत्ररूपी भौरे पंढ्रे रहे थे ॥२९८॥ तदनन्तर जीवन्धर  
 कुमारने सब वैश्यपुत्रोंसे कहा कि तुम लोग एक स्वरसे अर्थात् किसी मत्तभेदके बिना ही  
 राजासे कहो कि इस नन्दाद्व्येने ही युद्ध कर गीयोंकी छुड़ाया है । इस प्रकार राजाके पास  
 संदेश भेजकर पहले कही हुई गोदावरी नामकी कन्या विवाहपूर्वक नन्दाद्व्यके लिए दिला  
 चायी । सो ठीक ही है क्योंकि कार्योंकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है । अर्थात् कोई कार्यके  
 बिना किये ही यंश लेना चाहते हैं और कोई कार्य करके भी यंश नहीं लेना चाहते ॥२९९-३००॥  
 अर्थानन्तर—इसी भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें एक गगनवल्ल  
 नामकी नगर है जो आकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान जान पड़ती है । उसमें विवाधारीके  
 स्वामी गुरुद्वेग राज्य करता था । दैवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका अभिमान नष्ट क  
 दिया । इसलिये वह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया और वहाँ मनुजोदय नामक पर्वतपर रमणी  
 नामका सुन्दर नगर बसाकर रहने लगा । उसकी रानीका नाम धारिणी था ॥३०१-३०२॥  
 किसी दिन उसकी गन्धर्वदत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर सुरक्षा गया  
 वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर शेष वचो हुई माता लेकर पिताको देनेके लिए गयी । गन्धर्व  
 दत्ता पूर्ण धीवचवती हा गयी थी । उसे देख पिताने अपने मतिसागर नामक मन्त्र  
 पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिए । इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्त्री  
 भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी थी वह कह सुनायी ॥३०४-३०६॥ उस  
 कही कि हे राजन् ! किसी एक दिन मैं जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वत  
 गया था । वहाँ नन्दन वनकी पूर्वे दिशाके वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी सत्किपूर्वक प्रद  
 वहाँपर चिरोजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजपर पड़ी । मैंने उ  
 नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश सुना । तदनन्तर मैंने पूछा कि हे जगत्पुत्र ! हमारे स्वामी  
 एक गन्धर्वदत्ता नामकी मुत्री हैं वह किसके भोगने योग्य होगी ? मुनिराज अवधिज्ञानी  
 अतः कहने लगे कि इसी भरतक्षेत्रके हेमाङ्गद देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका न  
 है । उसमें सत्यरूपी आभूषणसे सुशोभित सत्यधर नामका राजा राज्य करता है । उस  
 महारानीका नाम विजया है उन दोनोंके एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है । वीणाके स्वयंवरमें व

भविता कथमस्माकं संवन्धो भूमिगोचरैः । इत्यप्राक्षीत्युनश्चैनं मन्त्रिणं मलिसागरम् ॥३१३॥  
 सोऽप्यन्वयश्च सुनेर्ज्ञातं स्पष्टमेवमभाषत । श्रेष्ठी वृषभदत्ताख्यस्तद्विभून् राजपुरे प्रिया ॥३१४॥  
 तस्य पद्मावतीसूनुमिन्दत्तस्त्वधोरभूत् । स कदाचिदपुरे तस्मिन्नुद्याने प्रीतिवर्धने ॥३१५॥  
 जिनं सागरसेनापथं केवलज्ञानपूजने । मक्तया वन्दितुमायातस्तत् च तद्गुरुणा समम् ॥३१६॥  
 दृष्ट्वा तं तत्र तेनासा प्रीतिस्ते समभाषत । देहभेद्राद्विनान्येन भेदो न युवयोरभूत् ॥३१७॥  
 एवं दिनेषु गच्छत्सु केषुचिद्विनिर्जं वरः । जिनदत्तमवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे सुनेः ॥३१८॥  
 गुणपाळाभिधानस्य लब्धयोरधिरदीक्षत । सुव्रताक्षान्तिसान्निध्यं संप्राप्त्यादाय संयमम् ॥३१९॥  
 पद्मावती च कौलीन्यं सुव्रता सान्त्वपालयत् । जिनदत्तोऽपि विचेष्टाः पितुः पटमधिष्ठितः ॥३२०॥  
 मनोहरादिरामाग्निः कामं कामान्समन्वभूत् । स रत्नह्रीपमर्थार्थं स्वयमेवागमिष्यति ॥३२१॥  
 तेनैवास्मदभिप्रेतकार्यमिद्विभविष्यति । इत्यसौ चागमत्केषुचिदिनेषु तदन्तिकम् ॥३२२॥  
 ततस्तुष्टः खगाधोशः कृतप्रावृणिकक्रियः । मित्र गन्धर्वदत्तायाः मत्सुतायाः स्वयंवरम् ॥३२३॥  
 त्वत्पुरे कारयेत्वेनमभ्यधादधिकारः । जिनदत्तोऽपि तं नीत्वा सह राजपुरं ह्यगैः ॥३२४॥  
 स्वयंवरं समुद्देश्य मनोहरवनान्तरे । मनोहरं समुत्पाद्य स्वयंवरमहागृहम् ॥३२५॥  
 कलाविदग्धविद्येशभृगोचरमहोशिषुः । कुमारेषु प्रयातेषु जिनपुत्रं न्यवर्तयत् ॥३२६॥

गन्धर्वदत्ताको जीतेगा और इस तरह गन्धर्वदत्ता उसीकी माया होगी । मन्त्रीके इस प्रकारके वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ और उसी मलिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम लोधाका भूमिगोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? ॥३०७-३१३॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीने मुनिराजसे जो कुछ अन्य बातें मालूम की थीं वे सब स्पष्ट कह सुनायीं । उसने कहा कि उसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम पद्मावती था । उन दोनोंके एक जिनदत्त नामका पुत्र हुआ था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिवर्धन नामक उद्यानमें सागरसेन नामक जिनराज पधार थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिसे पूजा-वन्दना करनेके लिए वह अपने पिताके साथ आया था । आप भी वहाँपर गये थे इसलिए उसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था । इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीर-भेदको छोड़कर और किसी बातको अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था ॥३१४-३१७॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन वृषभदत्त सेठ अपने स्थानपर जिनदत्तको बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेसे गुणपाल नामके मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया और उसको भी पद्मावतीने भी सुव्रता नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर वह अपनी कुलीनताकी रक्षा करने लगी । इधर जिनदत्त भी धनका मालिक होकर अपने पिताके पदपर आरूढ़ हुआ और मनोहरा आदि स्त्रियोंके साथ इच्छीनुसार भोग भोगने लगा । वह जिनदत्त धन कमानेके लिए स्वयं ही इस रत्नह्रीपमें आवेगा ॥३१८-३२१॥ उससे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । इस तरह कितने ही दिन बीते जानेपर वह जिनदत्त गरुडवेगके पास आया । इससे गरुडवेग बहुत ही संतुष्ट हुआ । उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया । तदनन्तर विद्याधरके राजा गरुडवेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तसे कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरमें मेरी पुत्री गन्धर्वदत्तकी स्वयंवर करा दो । उसको आज्ञानुसार जिनदत्त भी उनके विद्याधरके साथ गन्धर्वदत्तकी राजपुर नगरमें ले गया ॥३२२-३२४॥ वहाँ जाकर उसने मनोहर नामके वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा करायी और एक बहुत सुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-गृह बनवाया ॥३२५॥ जब अनेक कलाओंमें चतुर विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने जिनदत्त भगवानकी पूजा करायी ॥३२६॥

१ मनोरमादिल- ० । २ समुद्भूष्य- ल० । ३ कलाविद्याविदग्धेषु- ल० । ४ सुकुमारेषु मातेषु ल०, ग०, म० ।

तदा गन्धर्वदत्तापि स्वर्धरसमागृहम् । प्रविश्य 'वीणां चादाय सुघोषाख्यां सुलक्षणाम् ॥३२७॥  
 स्वरग्रामादिसद्वाहं शुद्धदेशजलक्षणम् । गीतमिश्रं विधायैतानधरीकृत्य भृशुजः ॥३२८॥  
 स्थिता जीवन्धरस्तस्या वीणाविद्याकृतं मदम् । निराचिकीर्तुरागत्य स्वर्धरसमागृहम् ॥३२९॥  
 अपक्षपतितान् प्राज्ञान् वीणाविद्याविशारदान् । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसंभवात् ॥३३०॥  
 निर्दोषा दीयतां वीणेत्यभ्यधात्स्त्रियोगिनः । वीणास्त्रिचतुरास्तस्मै तदानीय समर्पयन् ॥३३१॥  
 केशरोमलवादीनां दोषाणां तासु दर्शनात् । स ताः सर्वा निराकृत्य कन्यकां प्रत्यपादयत् ॥३३२॥  
 यदि निर्मत्सरसि त्वं त्वद्गीणा दीयतामिति । अदितासौ च तां वीणां स्वकरस्थां कृतादरम् ॥३३३॥  
 तामादाय कुमारेण शास्त्रमार्गानुसारिणा । गीतमिश्रितवाद्येन मन्द्रतारेण हारिणा ॥३३४॥  
 मधुरेण मृगाणां च मनोविभ्रमकारिणा । गीतं च साधुवादोद्धप्रसूताचर्चनमासिना ॥३३५॥  
 हृदि गन्धर्वदत्तैर्न पञ्चबाणप्रचोदिता । मलयार्कचकाराये संमुखे किं न जायते ॥३३६॥  
 हीनमासोऽभवन्केचिद्विद्विद्दीपोपमा परे । निद्याप्रदीपसङ्काशा मासमानाननात्तदा ॥३३७॥  
 सुघोषाहेतुना प्राप्तकुमारा परितोषिणी । गन्धर्वदत्ता तां वीणामात्मन्येवमनाषत् ॥३३८॥  
 कुलोचिता सुघोषा त्वं मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसंगमे हेतुर्दूतीव कुशला मम ॥३३९॥  
 काष्ठाङ्गारिकपुत्रेण चोदितेन सुदुर्जनैः । गन्धर्वदत्तामाहर्तुमुद्यमो विहितस्तदा ॥३४०॥  
 कुमाराऽपि विदित्वैतद्वकाधिकपुरस्करैः । विद्याभरैः समं गन्धर्वजं जयनिर्भ्रुत्वित् ॥३४१॥

उसी समय गन्धर्वदत्ताने भी सुघोषा नामकी उत्तम लक्षणवाली वीणा लेकर स्वर्धरके सभा गृहमें प्रवेश किया ॥३२७॥ वहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोंके स से वीणा बजायी और सब राजाओंको नीचा दिखा दिया । तदनन्तर उसका वीणासम्बन्ध मद् दूर करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वर्धर-सभाभवनमें आये । आते ही उन्होंने उ लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसीके पक्षपाती नहीं बुद्धिमान् थे, वीणाकी विद्यामें निपुण थे और दोनों पक्षके लोगोंको इष्ट थे ॥३२८-३२९॥ इस बाद उन्होंने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषोंसे 'निर्दोष वीणा दी जाय' यह कहा । नियोज्य पुरुषोंने तोन-चार वीणाएँ लाकर उन्हें सौंय दीं परन्तु जीवन्धरकुमारने उन सबमें केश, रो लव आदि दोष दिखाकर उन्हें वापस कर दिया और कन्या गन्धर्वदत्तासे कहा कि 'य तू ईर्ष्यारहित है तो अपनी वीणा दे' । गन्धर्वदत्ताने अपने हाथकी वीणा बड़े आदरसे दे दी । कुमारने उसकी वीणा लेकर गाया, उनका वह गाना शास्त्रके मार्गका अनुसरण क वाला था, गीत और वाजेकी आवाजसे मिला हुआ था, गम्भीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर मधुर था, हरिणोंके मनमें विभ्रम उत्पन्न करनेवाला था और उस विद्याके जानकार लोगों धन्यवाद रूपी श्रेष्ठफूलोंकी पूजासे सुशोभित था ॥३३१-३३५॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धर्वद हृदयमें कामदेवके बाणोंसे प्रेरित हो उठी । इसलिए इसने उन्हें मालासे अर्ककृत कर दिया सो ठ ही है क्योंकि पुण्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है ॥३३६ उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दीपकके समान कान्तिहीन हो गये और कि ही लोग रात्रिमें जलाये हुए दीपकोंके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये । भावार्थ— ईर्ष्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देखकर मलिनमुख हो गये और जो गुणग्राही उनके मुख सुशोभित होने लगे ॥३३७॥ गन्धर्वदत्ता सुघोषा नामक वीणाके द्वारा ही जी कुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए वह सन्तुष्ट होकर अपने मनमें इस प्रकार कह रही कि हे सुघोषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर है, और मनको हरण करनेवाली कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू ही चतुर दूतीके समान कारण हुई है ॥३३८-३३९॥ समय दुर्जनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने गन्धर्वदत्ताको करनेका उद्यम किया । जब जीवन्धर कुमारकी इस बातका पता चला तब वे अि

भारुह शत्रुसैन्यस्य प्रतीपमगमत्कुभा । तदा गरुडवेगाख्यविद्याधरधराधिपः ॥३४२॥  
 पिता गन्धर्वदत्ताया गत्वा मध्यस्थतां तयोः । उपायकुशकः शत्रुबलं प्रशममानयत् ॥३४३॥  
 ततस्तयोर्विवाहेन विद्यायां लौ समागमम् । कृतार्थोऽभूत्पितुर्नामप्रकार्यं कन्यासमर्पणतः ॥३४४॥  
 तयोः परस्परप्रेमशुद्धसुखधरोगात् । निवृत्तिः परमां काष्ठां समसंयोगसमवा ॥३४५॥  
 अथान्वया मथौ मासे मदनोदयसाधने । सुरादिमलयोद्याने वनक्रीडानिमित्तकम् ॥३४६॥  
 नृपेण सह सर्वेषु पौरैषु सुखकिंप्लया । आविष्कृतस्वसन्गस्तु यातेषु परमोत्सवात् ॥३४७॥  
 पुरे तस्मिन्वणिग्दुःखयोऽभूद्द्वैश्रवणदत्तवाक् । तनूना चूतमक्षर्यां तस्यासौसुरमक्षरी ॥३४८॥  
 तस्या श्यामलता चेतक्यलौ चन्द्रोदशाह्वयः । चूर्णवासोऽयमस्त्यन्धो नास्मादगन्धेन बन्धुर ॥३४९॥  
 इतरास्त्वामिनीदाक्ष्यप्रकाशनपरायणा । हतस्ततः समुद्भूय विचचार जनान्तरे ॥३५०॥  
 कुमारदत्तचैहयस्य विमलायां सुतामवत् । गुणमालामलां तस्याश्चेत्की पटुभाषिणी ॥३५१॥  
 विद्युलतामिवा चूर्णवासोऽयं षट्पदावृत । वर्णः सूर्योदयो नाम नेदस्वर्गोऽपि विद्यते ॥३५२॥  
 इति विद्वत्सामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम् । विद्योतयन्ती वज्राम सुभ्रूर्गर्वग्रहाहिता ॥३५३॥  
 एवं तयोः समुद्भूतमास्वयार्हितचेतसोः । विवादे सति तद्विद्यावेदिनस्तत्परीक्षितम् ॥३५४॥  
 अभुवन्नक्षमास्तत्र जीवधरयुवैश्वरः । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यक्प्रेष्टश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥३५५॥  
 प्रस्थय कौऽस्य चेद्वयकं दर्शयामीति तद्भयम् । अवष्टभ्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षेप ततो द्रुतम् ॥३५६॥  
 चन्द्रोदयमकिन्नातो गन्धोत्कर्षांपरीतवान् । दृष्ट्वा सर्वेऽपि तत्रस्यास्तनमेवास्तुवन्निन्दः ॥३५७॥

बलवान् विद्याधरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगजपर सवार होकर बड़े क्रोधसे शत्रु-सेनाके सम्मुख गये । उसी समय उपाय करनेमें निपुण गन्धर्वदत्ताके पिता गरुडवेग नामक विद्याधरोंके राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर शत्रुकी सेनाको शान्त कर दिया ॥३४८-३४९॥ तदनन्तर विवाहके द्वारा जीवन्धर कुमार और गन्धर्वदत्ताका समागम कराकर गरुडवेग कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताको कन्या समर्पण करनेके सिवाय और कुछ काम नहीं है ॥३४९॥ परस्परके प्रेमसे जिनका सुख बढ़ रहा है ऐसे उन दोनोंकी सम संयोगसे उत्पन्न होनेवाली वृत्ति परम सीमाको प्राप्त हो रही थी ॥३४५॥

अथानन्तर—कामदेवको उत्तेजित करनेवाला वसन्त ऋतु आया । उसमें सब नगर-निवासी लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवसे राजाके साथ सुरमलय उद्यानमें वन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥३४६-३४७॥ उसी नगरमें वैश्रवणदत्त नामक एक सेठ रहता था । उसकी आन्नर्मजरी नामकी खीसे सुरमंजरी नामकी कन्या हुई थी । उस सुर-मंजरीकी एक श्यामलता नामकी दासी थी । वह भी सुरमंजरीके साथ उसी उद्यानमें आयी थी । उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूर्ण था उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस चूर्णसे बढ़कर दूसरा चूर्ण है ही नहीं । इस प्रकार वह अपनी स्वामिनीकी चतुर्दाईको प्रकट करती हुई लोगोंके बीच घूम रही थी ॥३४८-३५०॥ उसी नगरमें एक कुमारदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी विमला खीसे अत्यन्त निर्मल गुणमाला नामकी पुत्री हुई थी । गुणमालाकी विद्युलता नामकी दासी थी जो बात-चीत करनेमें बहुत ही चतुर थी । अच्छी मौहोंको धारण करनेवाली तथा अभिमान रूपो पिशाचसे ग्रसी वह विद्युलता विद्वानोंकी सभामें बार-बार अग्नी स्वामिनीके गुणोंको प्रकाशित करती और यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नामका श्रेष्ठ चूर्ण है और इतना सुगन्धित है कि इसपर औरे आकर पड़ रहे हैं ऐसा चूर्ण स्वर्गमें भी नहीं मिल सकता है ॥३५१-३५३॥ इन दोनों दासियोंमें जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्याके जानकार लोग जब इसकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सके तब वहीपर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परीक्षा कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णोंमें चन्द्रोदय नामका चूर्ण श्रेष्ठ है । इसका क्या कारण है ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ ऐसा कहकर जीवन्धर कुमारने उन दोनों चूर्णोंको दोनों हाथोंसे लेकर ऊपरको फेंक दिया । फेंकते दैर नहीं लगी कि सुगन्धिकी



तदा प्रभृति ते कन्ये परस्परनिबन्धनम् । विद्याविहितसङ्घर्षं त्यजतः स्मास्तमसरे ॥३५८॥  
 अथात्र नागरेण्वात्मवाञ्छया क्रीडनं वने । कुर्वत्स्वेकं समालोक्य कुनकुरं खलवाकलः ॥३५९॥  
 मत्संयन्ति स्म वापहयास्तोऽपि धावन् भयाकुलः । इदं निपत्य तत्रैव प्राणभोक्षोन्मुखोऽभवत् ॥३६०॥  
 मृत्यैस्ततस्तमानाथ्य जीवंधरकुमारकः । कणौ तस्य नमस्कारपदैः संपथेपूरयत् ॥३६१॥  
 प्रतिगृह्य नमस्कारं चन्द्रोदयगिरावभूत् । यक्षः सुदर्शनी नाम स्मृतपूर्वभवस्तदां ॥३६२॥  
 प्रत्यागत्य कुमारं तं स्वप्रसादान्मयेदशी । लब्धा विभूतिरिद्युच्चैः स्तुत्या संपाद्य विस्मयम् ॥३६३॥  
 सर्वेषां दिव्यभूषामिः कृतचित्तमपूजयत् । इतः प्रभृत्यहं स्मर्यो व्यसनोत्सवयोस्वया ॥३६४॥  
 कुमारेति तमन्यर्थ्यं स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवश्यंभावि तत्फलम् ॥३६५॥  
 चिरं वने विहृत्यैवं निवृत्तौ गन्ववारणः । तन्महीशस्य नाम्नाशनिघोषो जनघोषतः ॥३६६॥  
 समुदभ्रान्तो निवार्योऽन्यैरधावत् स्थन्दनं प्रति । सुदृप्तः सुरमङ्गर्याः स कुमारो विलोक्य तम् ॥३६७॥  
 विनयोन्नयनिर्णीतक्रियः संप्राप्य हेलया । कृत्वा परिश्रमं तस्यं द्वात्रिंशत्कैलिभिः स्वयम् ॥३६८॥  
 वीतश्रमस्तमस्पन्दं हेलयालानमापयत् । दृष्ट्वास्य गजविज्ञानं पुरं शंसन् जनोऽविशत् ॥३६९॥  
 तदा प्रभृत्यगात् कामन्यामोहे सुरमङ्गरी । जीवंधरकुमारांवलोकनाकुलिताशया ॥३७०॥  
 इति तद्वेष्टितैस्तस्याः संकथामिश्र युक्तिः । माता पिता च जीवंधरानिलावपरायणाम् ॥३७१॥

कारण भौरीके समूहने चन्द्रोदय चूर्णको घेर लिया। यह देख, वहाँ जो भी विद्वान् उपरि थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करने लगे ॥३५४-३५७॥ उस समयसे उन दोनों कन्याओं विद्यासे उत्पन्न होनेवाली परस्परकी ईर्ष्या छोड़ दी और दोनों ही मात्सर्यरहित हो गयीं ॥३५८-३६०॥ तदनन्तर—धर नगरवासी लोग वनमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। धर कुछ बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलतावश मारना शुरू किया। भयसे व्याकुल होकर कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्मुख हो गया। जब जीवन्धर कुमारने यह देखा तो उन्होंने अपने नौकरोसे उस कुत्ताको वहाँसे निकलवाया और उसके दोनों पंचनमस्कार मन्त्रसे भर दिये। नमस्कार मन्त्रको ग्रहण कर वह कुत्ता चन्द्रोदय पर्वतपर नामका यक्ष हुआ। पूर्व भवका स्मरण होते ही वह जीवन्धर कुमारके पास वापस आया अ कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पायी है। इस प्रकार दिव्य आर्षणोंके द्वारा उस कुतत्र यक्षने सबको आश्चर्यमें डालकर जीवन्धर कुमारकी पूजा की और कि हे कुमार! आजसे लेकर दुःख और सुखके समय आप मेरा स्मरण करना। इस प्र कुमारसे प्रार्थना कर वह अपने स्थानपर चला गया। आचार्य कहते हैं कि बिना कारण ही उपकार किये जाते हैं उनका फल अवश्य होता है ॥३५९-३६५॥

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राज अशनिघोष नामका मदोन्मत्त हाथी लोगोंका हल्ला सुनकर बिगड़ उठा। वह अहंकारसे भ हुआ था और साधारण मनुष्य उसे वशमें नहीं कर सकते थे। वह हाथी सुरमंजरीके रथ ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसे देखकर जीवन्धर कुमारने हाथीकी विनय और उ क्रियाका शीघ्र ही निर्णय कर लिया, वे लीलापूर्वक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी क्रीड़ा के द्वारा उसे खेद-खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खेद नहीं होने दिया। अन्तमें हाथी निश्चेष्ट खड़ा हो गया और उन्होंने उसे आलानसे बाँध दिया। यह सब देख नगरवा लोग जीवन्धर कुमारके हस्ति-विज्ञानकी प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥३६६-३६९॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्याकुलित हो रहा है ऐसी सुरमंजरी उ समयसे कामसे मोहित हो गयी ॥३७०॥ सुरमंजरीके माता-पिताने, उसके इगितों चेष्टाओंसे तथा बात-चीतसे युक्तिपूर्वक यह जान लिया कि इसकी जीवन्धर कुमा

विज्ञाय तां निवेद्यैतत्त्रिषु तदनुज्ञया । विभूतिमत्कुमाराय शुभयोगे वितेरतः ॥३७२॥  
 ततः समुचितप्रेम्णा स कामं सुखमन्वभूत् । तत्र तच्छीयं सोभाग्यसंकथां संततं जनैः ॥३७३॥  
 क्रियमाणां दुरात्माऽसौ काष्ठाङ्गारिकभूपतिः । कीपादक्षक्नुवन्सौ मद्गन्धवारजवाधनम् ॥३७४॥  
 कृत्वा जीवंधरस्तस्य परिभूतिं व्यधादधीः । पथ्यामलकशुण्ड्यादिदानग्रहणकर्मणः ॥३७५॥  
 निजजात्यनुकृपाधो विमुखः सुष्ठु गर्वितः । राजपुत्रोऽन्विते वृत्ते विषक्तोऽयं वराटनः ॥३७६॥  
 कृतान्तवदनं सद्यः प्रापयमं कुरुष्वितम् । इत्याख्यध्वण्डदण्डाख्य सुख्य तत्पुररक्षणम् ॥३७७॥  
 स संनद्धबलोऽधवाद्भि जीवंधरं क्रुधा । स कुमारोऽपि तज्ज्ञात्वा ससहायो युयुत्सया ॥३७८॥  
 तमभ्येत्य तदेवास्मै ददौ भङ्गमभङ्गुः । पुनः कुपितवान्काष्ठाङ्गारिकः स्वबलं बहु ॥३७९॥  
 प्राहिणोत्त्रिरीदथाद्गंधिको जीवंधरो वृथा । क्षुद्रप्राणिविधातेन किमनेन दुरात्मकम् ॥३८०॥  
 काष्ठाङ्गारिकमेवैनमुपायैः प्रशमं नये । इति यथं निजं मित्रमस्मरत् सोऽप्युपागतः ॥३८१॥  
 ज्ञातजीवंधराकृतस्तत्सर्वं शान्तिमानयत् । ततो विलयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम् ॥३८२॥  
 कुमारं तदनुज्ञानात् स्वावासमनयत् सुहृत् । स्वगेहदक्षानं नाम सद्भावः सुहृदां स हि ॥३८३॥  
 सहाया चान्ववाश्रास्य प्रवृत्तेरनिश्चकाः । पवनाद्गोक्षितालोकबाळपल्लवलीकया ॥३८४॥  
 अकम्पित सर्वेऽपि स्वान्सधर्तुमशक्तकाः । गन्धर्वदत्ता तथानिमित्तज्ञा निराकुला ॥३८५॥  
 कुमारस्य न भीरुश्चित्तवृत्तिमोत्तममात्रमोः । स महद्द्वेषीति ताम् सर्वान् प्रशान्तिं प्रापयत्सुधीः ॥३८६॥  
 जीवंधरोऽपि यक्षस्य वसतौ सुविरं सुखम् । स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याज्ञापयच्छमिद्धितैः ॥३८७॥

लग रही है । तदनन्तर उन्होंने जीवन्धर कुमारके माता-पितासे निवेदन किया और उनकी आज्ञानुसार शुभ योगमें ऐश्वर्यको धारण करनेवाले जीवन्धर कुमारके लिए वह कन्या समर्पण कर दी ॥३७९-३७२॥ इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमंजरीके साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे । तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर कुमारकी शूर-वीरता और सौभाग्य-शीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्ठांगारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रोधमें आकर लोगोंसे कहा कि इस मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथीको बाधा पहुँचाकर उसका तिरस्कार किया है । यह वैश्यका पुत्र है इसलिए हारड, आँवला, सोंठ आदि चीजोंका क्रय-विक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जातिके कार्योंसे तो विमुख रहता है और अहंकारसे चूर होकर राजपुत्रोंके करने योग्य कार्योंमें आसक्त होता है । इसलिए खोटी चेष्टा करनेवाले इस दुष्टको शीघ्र ही थमराजके मुखमें भेज दो । इस प्रकार उसने चण्डदण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्षकको आज्ञा दी ॥३७३-३७७॥ चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रोधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दौड़ा । डंघर जीवन्धर कुमारको भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मित्रोंको साथ ले युद्ध करनेकी इच्छासे उसके सम्मुख गये और स्वयं सुरक्षित रहकर उसे उसी समय पराजित कर दिया ॥ इससे काष्ठांगारिक और भी कुपित हुआ और उसने बहुत-सी सेना भेजी । उस सेनाको देखकर जीवन्धर कुमार दयार्द्रचित्त होकर विचार करने लगे कि इन क्षुद्र प्राणियोंको ज्यर्थ मारनेसे क्या लाभ है ? मैं किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्ठांगारिकको ही शान्त करता हूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका स्मरण किया और उसने भी आकर तथा जीवन्धर कुमारका अभिप्राय जानकर सब उपद्रव शान्त कर दिया ॥ तदनन्तर वह यक्ष, जीवन्धर कुमारकी सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथीपर बैठकर अपने घर ले गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सद्भाव रहना ही है ॥३७८-३८३॥ जीवन्धर कुमारकी प्रवृत्तिको नहीं जाननेवाले उनके साथी और भाई-बन्धु लोग हवासे हिलते हुए चंचल छोटे पत्तोंके समान काँपने लगे और वे सब अपने-आपको संभालनेमें समर्थ नहीं हो सके । परन्तु गन्धर्वदत्ता जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए वह निराकुल रही । कुमारको कुछ भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग डरिए नहीं, वे शीघ्र ही आ जावेंगे, ऐसा कहकर उस बुद्धिमत्ताने सबको शान्त कर दिया ॥३८४-३८६॥ डंघर जीवन्धर कुमार भी यक्षके घरमें बहुत दिन

तदभिप्रायमाक्षय यक्षो दत्त्वा स्फुरत्प्रभाम् । साधनोमीषितार्थानां मुद्रिकां कामरूपिणीम् ॥३८८॥  
 तद्द्वेषवतार्येन न भीरस्य कुतश्चन । इति किंचिदनुव्रज्य तममुञ्जत् कृताञ्जनः ॥३८९॥  
 कुमारोऽपि ततः किंचिदपत्वात्तरसुपेयिवान् । पुरं चन्द्राभनामानं सज्योत्सं वा सुधागुहैः ॥३९०॥  
 नृपो धनपतिस्तस्य पालको लोकपालवत् । देवी तिलोत्तमा तस्य तयोः पद्मोत्तमा सुता ॥३९१॥  
 सा विहर्तुं वनं याता दृष्टा द्रुष्टाहिना तदा । य इहां निर्विषीकृत्यान्मणिमन्त्रौषधादिभिः ॥३९२॥  
 मयेयं कन्यका तस्मै सार्धाराज्या प्रदास्यते । घोषणामिति भूपालः पुरे तस्मिन्नधीकरत् ॥३९३॥  
 फणिवैद्यास्तदाकृत्यं प्रागप्यादिष्टमीदृशम् । मुनिनादित्यनाम्नति कन्यालोभाच्चिकित्सितुम् ॥३९४॥  
 संप्राप्य बहवो नोपसंहर्तुं तदशक्नुवन् । राजाज्ञया पुनर्वैद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥३९५॥  
 धावन्तो दैवसंयोगात् कुमारमवलोक्य ते । किमस्ति त्रिष्विज्ञानमित्यपृच्छस्तमाकुलाः ॥३९६॥  
 सोऽपि तज्ज्ञायते किंचिन्मयेति प्रथभाषत । तद्वचःश्रुतिस्त्तुष्टास्ते नयन्ति स्म तं मुदा ॥३९७॥  
 सोऽपि यक्षमनुस्यूय फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्त्र्याकरोद्दीतविषवेगां नृपात्मजाम् ॥३९८॥  
 जातलोपो नृपस्तस्य सप्तच्छायादिकक्षणैः । अवश्यं राजवंशोऽयमिति निश्चित्य पुत्रिकाम् ॥३९९॥  
 अर्धराज्यं च पूर्वोक्तं तस्मै विवरति स्म सः । ततः सलोकपालादिकन्यकाभ्रातृभिः समम् ॥४००॥  
 द्वात्रिंशत्वा चिरं रेमे तद्गुणैरनुरञ्जितः । दिनानि कानिचित्तत्र स्थित्वा दैवप्रचोदितः ॥४०१॥  
 कदाचिन्निशि केनापि जनैरनुपलक्षितः । गत्वा गन्धूतिकाः काश्चिक्षेमाख्यविषये पुरम् ॥४०२॥

तक सुखसे रहे । तदनन्तर चेष्टाओंसे उन्होंने यक्षसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ॥३९८॥ उन अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध कर वाली है, और इच्छानुसार रूप बना देनेवाली है ऐसी एक अँगूठी देकर उस पर्वतसे नी उतार दिया और उन्हें किसीसे भी भयकी आशांका नहीं है यह विचारकर वह यक्ष कुछ तो उनके पीछे आया और बादमें पूजा कर चला गया ॥३९९-४००॥ कुमार भी वहाँसे कुछ चलकर चन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे । वह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ था मानो चाँदनीसे सहित ही हो ॥४०१॥ वहाँके राजाका नाम धनपति था जो कि लोकपाल समान नगरकी रक्षा करता था । उसकी रानीका नाम तिलोत्तमा था और उन दोनोंके त्तमा नामकी पुत्री थी ॥४०२॥ वह कन्या विहार करनेके लिए वनमें गयी थी, वहाँ दुष्ट साँसे उसे काट खाया, यह देख राजाने अपने नगरमें घोषणा करायी कि जो कोई मणि मन्त्र औष आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या और आधा राज्य दूँगा ॥४०३-४०४॥ आदित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ही कह रखी थी इसलिए राजाकी य घोषणा सुनकर साँपके काटनेकी दवा करनेवाले बहुतसे वैद्य, कन्याके लोभसे चिकित् करनेके लिए आये परन्तु उस विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सके । तदनन्तर राजा आज्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी वैद्यको ढूँढ़नेके लिए निकले और इधर-उधर दौड़-करनेवाले उन सेवकोंने भाग्यवश जीवन्धर कुमारको देखा । देखते ही उन्होंने बड़ी व्यग्रता पूछा कि क्या आप विष उत्तरना जानते हैं ? ॥४०५-४०६॥ जीवन्धर कुमारने भी उत्तर कि हाँ, कुछ जानता हूँ । उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन बड़े हर्षसे साथ ले गये ॥४०७॥ साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उ यक्षका स्मरण किया और मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-वेगसे रहित कर दि ॥४०८॥ इससे राजाको बहुत सन्तोष हुआ । उसने तेज तथा कान्ति आदि लक्षणोंसे निश्चय लिया कि यह अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले हुआ आधा राज्य उन्हें समर्पण कर दिया । उस कन्याके लोकपाल आदि बत्तीस भाई थे उ गुणोंसे अनुरञ्जित होकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे । तद वहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे वे किसीसे कुछ कहे बिना ही रात्रिके समय चुपचाप वहाँ

क्षेमाह्वयमवाप्यास्य वने बाह्ये मनोरमे । सहस्रकूटै राजन्तं जिनालयमलोकत ॥४०३॥  
 कोकनानन्तरं नत्वा कृताञ्जलिपुटः पुनः । त्रिःपरीरय स्तुतिं कर्तुं विधिनाग्धवांस्तदा ॥४०४॥  
 सहसैवात्मनो रागं व्यक्तं बहिरिवाप्यनम् । चम्पकानोकहः प्रादुरासीदेको निजोद्गमैः ॥४०५॥  
 कोकिलाश्च पुरा मूकीभूतास्तद्यानमेपतैः । चिकित्सिता इव आस्थमकृजन्मधुरस्वरम् ॥४०६॥  
 तज्जैनमवनाभ्याणं वर्तिन्यच्छाम्भुसंभृते । स्फटिकद्रवपूर्णं वा व्यक्तसन् सरसि स्फुटम् ॥४०७॥  
 सर्वाणि जलपुष्पाणि संभ्रमद्भ्रमरारवम् । तद्गोपुरकवाटानामुद्घाटनमभूत् स्वयम् ॥४०८॥  
 तद्विक्रीड्य समुत्पन्नमक्ति स्नानविद्युद्धिमाक् । तत्सरोवरसभूतप्रसवैर्बहुभिर्जिनाम् ॥४०९॥  
 अभ्यर्चार्थ्यैर्मुद्गान्यग्रमस्तोष्टैरभिटवैः । सुता तत्र सुमद्गात्र्यश्रेष्ठिनो निर्वृतेश्च सा ॥४१०॥  
 साक्षाद्दमीरिवाक्षणाभूक्षान्ना क्षेमसुन्दरी । उज्जावि मर्तुसांनिध्ये चम्पकप्रवादिक्म् ॥४११॥  
 समादिशत् पुरा गवं सुनीन्द्रो विनयधर । तत्रस्यास्तत्परीक्षार्थं नियुक्तपुरुषास्तदा ॥४१२॥  
 जीवधरकुमारारवलोकेनान्नातसंमदाः । सफलोऽस्मन्नियोगोऽभूदिति तत्क्षणमेव ते ॥४१३॥  
 न्ययोधयन् समस्तं तत्संप्राप्य स्वामिनं निजम् । सोऽपि सत्पत्य नास्तस्यं सुनीनां जातुचिह्नचः ॥४१४॥  
 इति तस्मै सुता योग्यां विधिना श्रीमतेऽदित । तथा प्राह मे मुदा राजपुरे निवसते नृपः ॥४१५॥  
 सत्यधरोऽददादेतद्भुङ्क्तान् शारांश्च ते । योग्यांस्तत्त्वं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभाषित ॥४१६॥  
 गृहीत्वा सुष्टु संतुष्टस्त्वरं सुखमावसत् । एवं गच्छति कालेऽस्य कदाचिन्निर्वाचयता ॥४१७॥

चल पड़े और कितने ही कोश चलकर क्षेम देशके क्षेम नामक नगरमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ॥३६६-४०३॥ जिन-मन्दिरको देखतेही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसीसमय विधिपूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया ॥४०४॥ उसी समय अकस्मात् एक चम्पाका वृक्ष मानो अपना अनुराग वाहर प्रकट करता हुआ अपने फूलोंसे युक्त हो गया ॥४०५॥ जो कोकिलाएँ पहले गैंगीके समान हो रही थीं वे उन कुमारके शुभागमन रूप औषधिसे चिकित्सा की हुईके समान ठीक होकर सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ॥४०६॥ उस जैन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो स्वच्छ जलसे भरा हुआ था और ऐसा जान पड़ता था मानो स्फटिक मणिके द्रवसे ही भरा हो । उस सरोवरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये और उनपर क्रमर मेंडराते हुए गुंजार करने लगे । इसके सिवाय उस मन्दिरके द्वारके किवाड़ भी अपने आप खुल गये ॥४०७-४०८॥ यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति और भी बढ़ गयी । उन्होंने उसी सरोवरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की और फिर उसी सरोवरमें उत्पन्न हुए बहुवसे फूल लेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की तथा अर्थोंसे भरे हुए अनेक इष्ट स्तोत्रोंसे निराकुल होकर उनकी स्तुति की । उस नगरमें सुभद्र सेठकी निर्वृति नामकी स्त्रीसे उत्पन्न हुई एक क्षेमसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात् लक्ष्मीके समान सुशोभित थी । पहले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजने कहा था कि क्षेमसुन्दरीके पतिके समीप आनेपर चम्पाका वृक्ष फूल जायगा, आदि चिह्न बतलाये थे । उसी समय सेठने उसकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये थे ॥४०९-४१२॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे वे पुरुष बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ । उन लोगोंने उसीसमय जाकर यह सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन किया । उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका वचन कभी असत्य नहीं होता ॥४१३-४१४॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान् जीवन्धर कुमारके लिए विधि-पूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्पित कर दी । तदनन्तर वही सेठ जीवन्धर कुमारसे कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरने मुझे यह धनुष और ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं । इसलिये इन्हें आप ही ग्रहण करे—इस प्रकार कहकर वह धनुष और बाण भी दे दिये ॥४१५-४१६॥ जीवन्धर कुमार धनुष और बाण लेकर बहुत ही

गन्धर्वदत्ता संप्राप्य जीवन्धरकुमारकम् । तं सुखासीनमाकोक्य केनाप्यविदितं पुनः ॥४१८॥  
 आयाद् राजपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोत्सवः । ततः कतिपर्यैरेव दिवैः प्रागिव तत्पुरात् ॥४१९॥  
 चापबाणधरो गत्वा विषये सुजनाह्वये । हेमामनगरं प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥४२०॥  
 तत्पतिर्दृढमित्राख्यो नलिना तस्य बल्लभा । हेमाभाक्या तयोः पुत्री तज्जन्मन्येव केनचित् ॥४२१॥  
 कृतः किलैवमादेशो मनोहरैवनान्तरे । खलुरिकायां धातुष्कन्यायामे येन चोदितः ॥४२२॥  
 लक्ष्याभ्यर्णाश्रितुक्तः सन् शरः पद्मास्तमेव्यति । बल्लभा तस्य बालेभ्यं भवितेति सुलक्षणा ॥४२३॥  
 धनुर्विद्याविदः सर्वे तदादेशश्रुतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूवन्स्तदाद्या ॥४२४॥  
 जीवन्धरकुमारोऽपि तत्प्रदेशमुपागमत् । धातुष्कास्तं विलोक्याहुरादेशोक्तधनुःश्रमः ॥४२५॥  
 किमङ्गास्तीति सोऽप्याह किंचिदस्तीति तैरिदम् । विध्यतां लक्ष्यमित्युक्तः सज्जीकृतधनुः शरम् ॥४२६॥  
 आदाय बिन्दवान् लक्ष्यमप्राप्यैव न्यवर्तत । तं तदाकोक्य तत्रस्था महापतिमकोक्यन् ॥४२७॥  
 मृत्युमाणो हि मे बल्लीविशेषश्चरणेऽसजज् । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम् ॥४२८॥  
 अत्राणयद्विभूत्यास्मै तदिदं पुण्यमुच्यते । आदिभ्यो गुणमित्रोऽन्वो बहुमित्रस्ततः परः ॥४२९॥  
 सुमित्रो धनमित्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । तान् सर्वान् सर्वविज्ञानकुशलान् विदधन्निम् ॥४३०॥  
 तत्र पूर्वकृतं पुण्यं कुमारोऽनुभवन् स्थितः । इतो जीवन्धराभ्यर्णमप्रकारं सुहृद्युहुः ॥४३१॥  
 गत्वा गमनमाकोक्य नन्दाख्ये न कदाचन् । अज्ञाता केनचिद्वासि क्व थियासुरहं स तत् ॥४३२॥  
 वदेति पृष्ट्वा गन्धर्वदत्ता स्मित्वात्रयीदिदम् । मया प्राप्यं प्रदेशं चेष्वं गन्तुं वदीच्छसि ॥४३३॥

सन्तुष्ट हुए और उसी नगरमें सुखसे रहने लगे । इस तरह कुछ समय व्यतीत होनेपर किस समय गन्धर्वदत्ता अपनी विद्याके द्वारा जीवन्धर कुमारके पास गयी और उन्हें सुखसे बैठ देख, किसीके जाने बिना ही फिरसे राजपुर वापस आ गयी सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंके उत्सव ही प्रेमी जनकोंके प्रेम कहलाता है । तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उ नगरसे भी वे पुण्यवान् जीवन्धर कुमार धनुष-बाण लेकर चल पड़े और सुजन देशके हेमा नगरमें जा पहुँचे ॥४१७-४२०॥ वहाँके राजाका नाम दृढमित्र और रानीका नाम नलिना था उन दोनोंके एक हेमाभा नामकी पुत्री थी । हेमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-ज्ञानीने कह था कि मनोहर नामके बन्में जो आयुधशाला है वहाँ धनुषधारियोंके व्यायामके समय जिस द्वारा चलाया हुआ बाण लक्ष्य स्थानसे लौटकर पीछे वापस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणवाले कन्या उसीकी बल्लभा होगी ॥४२१-४२३॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्या जाननेवाले थे वे सभी उक्त कन्याकी आशासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमें लग रहे थे ॥४२४ भाग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थानपर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहे लगे कि हे भाई ! राजाके आदेशानुसार क्या आपने भी धनुष चलानेमें कुछ परिश्रम किया ॥४२५॥ इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने कहा कि हाँ, कुछ है तो । तब उन धनुषधारियोंने कहे कि अच्छा तो यह लक्ष्य वेधो—यहाँ निशाना मारो । इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैया किया हुआ धनुष-बाण लेकर उस लक्ष्यको वेध दिया और उनका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करने पहले ही लौट आया । यह सब देख, वहाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने राजाको खबर दी ॥४२६-४२७ राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको ढूँढ़ रहा वह स्वयं आकर पैरोंमें लग गयी । तदनन्तर उसने विवाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभव वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी । आचार्य कहते हैं कि देखो, पुण्य यह कहलाता है गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा और भी कितने ही जीवन्धर कुमारके सारे उन सबको वे समस्त विद्याओंमें निपुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्यका उपभोग करते हुए व चिरकाल तक रह आये । इधर गन्धर्वदत्ता बार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आत जाती थी उसे देख एक समय नन्दाख्यने पूछा कि वता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी व जाना चाहता हूँ । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने हँसकर कहा कि जहाँ मैं जाया करती हूँ उ

देवताधिष्ठिता नाम्ना शय्या स्मरतरङ्गिणी । पुत्राग्रजं तव स्मृत्वा स्वप्यास्त्वं विधिपूर्वकम् ॥४३४॥  
 तथा प्राणोपि संतोषात् तस्मिमीपमिति स्फुटम् । तदुक्तमवधार्यासौ रात्रौ तच्छयनेऽस्त्वपत् ॥४३५॥  
 त तदा भोगिनीविद्या शय्यायानयदग्रजम् । तदा कुमास्तन्दाब्धौ सुदा वीक्ष्य परस्परम् ॥४३६॥  
 समाश्लिष्य सुखप्रश्नपूर्वकं तत्र तस्थुतः । नाधिक प्रीतयेऽत्रान्यस्मीतसोदर्यसंगमात् ॥४३७॥  
 राष्ट्रेऽस्मिन्नव विद्यगते सुजनैऽस्ति परं पुरम् । नाम्ना नगरशोभास्त्वं दृढमित्रस्य भूपतेः ॥४३८॥  
 भ्राता तस्य सुमित्राख्यो राज्ञी तस्य वसुंधरा । रूपविज्ञानसंपन्ना श्रीचन्द्रा तनया तयो ॥४३९॥  
 आपूर्णयौवनारम्भा सा कदाचिद्गृहाङ्गणे । वीक्ष्य पारावतद्वन्द्वं स्वैरं क्रीदयच्छया ॥४४०॥  
 जातवातिस्मृतिर्मूर्च्छा सहसा ससुपागमत् । तद्दृशालोकनव्याकुलीकृतास्तत्समीपगाः ॥४४१॥  
 कुशलाश्रन्दनोशीरशीतकाम्बोनिषेचिताम् । व्यजगापादिताह्लादिपवनाश्वासिताश्रयाम् ॥४४२॥  
 तां संबोध्य सुखाकापैर्धिभावितविबोधनाम् । विदधुः किं न कुर्वन्ति कृच्छ्रेषु सुहृदो हिताः ॥४४३॥  
 श्रवैतत्स्वितरो कन्याम्रियामलकसुन्दरीम् । पुत्रीं तिलकशब्दादिचन्द्रिकाया विमूर्च्छिताम् ॥४४४॥  
 कन्यां गदेष्येत्वेति तदा जगदतुः श्रुत्वा । सापि संप्राप्य सङ्घापनिपुणा कन्यकां मियः ॥४४५॥  
 भट्टारिके वदैनचे किं मूर्च्छाकरण मम । इति पृष्टवती मूर्च्छाहेतुं चेच्छ्रोतुमिच्छसि ॥४४६॥  
 न ह्यस्वकथनीयं मे तव प्राणाधिकप्रिये । शृणु चेतः समाधायेत्यसौ सम्यगनुस्मृतिः ॥४४७॥  
 स्वपूर्वसर्वसंवन्धमदोष प्रत्यपीवदत् । तत्सर्वमवधार्याशु सुधीरलकसुन्दरी ॥४४८॥  
 तदैवागत्य तन्मूर्च्छाकारणं प्राण्यथाश्रुतम् । प्रस्पष्टमबुराकापैस्तयोरेवमभाषत् ॥४४९॥

स्थानपर यदि तू जाना चाहता है- तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरङ्गिणी नामक शय्यापर अपने बड़े भाईका स्मरण कर विधि-पूर्वक सो जाना। इस प्रकार सन्तोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच जायगा। गन्धर्वदत्ताकी बातका निश्चय कर नन्दाहृद्य रात्रिके समय स्मरतरङ्गिणी शय्यापर सो गया और भोगिनी नामकी विद्याने उसे शय्या सहित बड़े भाईके पास भेज दिया। तदनन्तर जीवन्धर कुमार और नन्दाहृद्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख-समाचार पूछकर बर्दी रहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो भाइयोंके समागमसे बढकर और कोई दूसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नहीं है ॥४२८-४३७॥

अथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें दृढमित्र राजा राज्य करता था। उसके भाईका नाम सुमित्र था। सुमित्रकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा था और उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥४३८-४३९॥ जिसके यौवनका आरम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने भवनके आँगनमें इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए कबूतर और कबूतरीका जोड़ा देखा ॥४४०॥ देखते ही उसे जातिस्मरण हुआ और वह अकस्मात् ही मूर्च्छित हो गयी। उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ घबड़ा गयीं, उनमें जो कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पंखासे उत्पन्न हुई आनन्ददायी हवासे उसके हृदयको सन्तोष पहुँचाया और मीठे वचनोंसे सम्बोध कर उसे सचेत किया सो ठीक ही है क्योंकि हितकारी मित्रगण कष्टके समय क्या नहीं करते हैं? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥४४१-४४३॥ यह समाचार सुनकर उसके माता-पिताने तिलकचन्द्राकी पुत्री और श्रीचन्द्राकी सखी अलकसुन्दरीसे शोकवश कहा कि तू जाकर मूर्च्छाका कारण तलाश कर। माता-पिताकी बात सुनकर बातचीत करनेमें निपुण अलकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राके पास गयी और एकान्तमें पूछने लगी कि हे भट्टारिके! मुझे बतला कि तेरी मूर्च्छाका कारण क्या है? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सखि! यदि तू मेरी मूर्च्छाका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमसे कहने योग्य न हो। इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभवका समस्त सम्बन्ध अलकसुन्दरीको कह सुनाया। अलकसुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी वह शीघ्र ही सब बातको अच्छी तरह समझकर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गयी और स्पष्ट तथा मधुर शब्दोंमें उसकी मूर्च्छाका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी ॥४४४-४४९॥

इतस्तृतीये कन्यैषा बभूव किल जन्मनि । देशे हेमाङ्गदे राजपुरे वैश्यकुलाग्रयोः ॥४५०॥  
 रत्नतेजाः प्रिया तस्य रत्नमाला तयोः सुता । सुरूपानुपमा नाम्ना नाम्नैव न गुणैरपि ॥४५१॥  
 तस्मिन्नेव पुरे वंशे विशां कनकतेजसः । तनूजश्चन्द्रमालायामभवदुद्विषो विधीः ॥४५२॥  
 सुवर्णतेजा नाम्नाभूत्ससै प्राक्परिमाषिताम् । पुनस्तद्वचमानेन तन्मातापितरौ किल ॥४५३॥  
 समश्राणयतां वैश्यपुत्राय मणिकारिणे । गुणमित्राय तत्रैयं स्तोत्रं कालमगात् सुखम् ॥४५४॥  
 कदाचिज्जलात्रायामरमोनिधिनद्गीमुखात् । निर्गमं विषमावर्ते गुणमित्रे मृत्तिते ॥४५५॥  
 स्वयं चेत्वा प्रदेशं तं मृत्युमेषा समाश्रयत् । ततो राजपुरे गन्धोत्कटवैश्यसुधालये ॥४५६॥  
 पतिः पवनवेगाख्यो रतिवेगोयमप्यभूत् । पारावतकुले इन्हं तद्वाकाक्षरशिक्षणे ॥४५७॥  
 स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं गृह्णीषीः श्रावकत्रयम् । तयोर्दृष्ट्वा प्रशान्तोपयोगं जन्मान्तरागतम् ॥४५८॥  
 स्नेहादन्योन्यसंस्तवत सुखं तत्रावसच्चिन्तम् । सुवर्णतेजास्तद्वद्वद्वैरेण पुरुदंशताम् ॥४५९॥  
 मृत्वा सप्राप्य तद्दृष्ट्वा दृष्ट्वा कापि यदृच्छया । अप्रहीद्व्रतिवेगाख्यां राहुर्मूर्तिमिवैन्दवीम् ॥४६०॥  
 जातकोपः कपोतोऽमुं नखपक्षप्रताडनैः । तुण्डघातैश्च हत्वाशु निजभामाममूमुचत् ॥४६१॥  
 कदाचित्तत्पुरं<sup>१</sup> प्रत्यासन्नमूध्रविकान्तरे । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतिते सति ॥४६२॥  
 स्वयं गृहं समागत्य रतिवेगात्मनो मृत्तिसु । पत्युस्तुण्डेन संलिक्य तन्सर्वानवबोधयत् ॥४६३॥  
 तद्वियोगमहादुःखपीडिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयममोष्टा भवतोः सुता ॥४६४॥

इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हेमांगद देशके राजपुर नगरमें कुल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम रत्नमाला था यह कन्या उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी। अनुपमा केवल ना से ही अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अनुपमा (उपमा रहित) थी। उसी नगरमें वै वंशमें कनकतेजको स्त्री चन्द्रमालासे उत्पन्न हुआ सुवर्णतेज नामका एक पुत्र था जो बहुत ही बुद्धिहीन और भाग्यहीन था। अनुपमाके माता-पिताने पहले इसी सुवर्णतेज देनी कही थी परन्तु पीछे उसे दरिद्र और मूर्खताके कारण अपमानित कर जवाहरातका का जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास समय तक सुखसे रही ॥४५०-४५४॥ किसी एक समय गुणमित्र जलायात्राके लिए गया अर्थात् जहाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नदीके मुँहानेसे जब निकल रहा था किसी बड़ी भँवरमें पड़कर मर गया। उसकी स्त्री अनुपमाने जब यह खबर सुनी तब यह स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरी। तदनन्तर उसी राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर मित्रका जीव पवनवेग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा रतिवेगा नामकी कबूतरी हुई। गन्धोत्कटके घर उसके बालक अक्षराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अलिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट और उसकी स्त्री, दोनों ही श्रावकके व्रत पालन करते इसलिए उन्हें देखकर कबूतर-कबूतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त हो गया था। इस जन्मान्तरसे आये हुए स्नेहसे वे दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसे रहे आ सुवर्णतेजको अनुपमा नहीं मिली थी इसलिए वह गुणमित्र और अनुपमासे बैर बाँधकर तथा मरकर विलाव हुआ। एकदिन वह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा उसे देखकर उस विलावने रतिवेगा नामकी कबूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार राहु चन्द्रमाके चिन्मको ग्रस लेता है ॥ ४५५-४६०॥ यह देख कबूतरको बड़ा क्रोध आया, उ नख और पंखोंको ताड़नासे तथा चोंचके आघातसे विलावको मारकर अपनी स्त्री छुड़ा ॥४६१॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपवर्ती पहाड़की गुफाके समीप पापी लोगोंने जाल बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरीने स्वयं घर आ और चोंचसे लिखकर सब लोगोंको अपने पतिके मरनेकी खबर समझा दी ॥४६२-४६३॥ तदनन्तर उसके बियोगरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरी भी मर गयी और यह आपदोनों

अथ पारावतद्वन्द्वं वीक्ष्य लज्जमानतरस्मृते । षडसुखान् नियमेनैतद्व्यक्तं सर्वं ममाववीत् ॥४६५॥  
 इत्यतोऽकुरुमुन्दर्या वचः श्रुत्वाकुलाकुलौ । सुता पतिसमन्वेषणेच्छया पितरौ तदा ॥४६६॥  
 तद्भवान्तरवृत्तान्तं पट्टके लिखितं स्फुटम् । रङ्गितेजोभिधानस्य नटवर्गो पटीयसः ॥४६७॥  
 मद्मादिकलायाश्च दानसंमानपूर्वकम् । तत्कर्तव्यं समाश्वाय यत्नेनाकुलार्थं करे ॥४६८॥  
 पुष्पकाक्ष्ये वने तौ च कृतपट्टप्रसारणौ । स्वर्धं नटितुमारब्धौ नानाजनसमाकुलम् ॥४६९॥  
 पितास्यास्तद्वन्द्वे रन्तु गतस्वत्र मुनीश्वरम् । समाधिगुप्तमालोक्य परीय कृतवन्दनः ॥४७०॥  
 धर्मसन्भावमाकर्ण्य पप्रच्छ तद्वन्द्वतरम् । पूष्य मत्पुत्रिकापूर्वभवमर्तां क्व वर्तते ॥४७१॥  
 कथ्यतामिति दिव्यावधीक्षणः सोऽप्यथावदत् । स हेमामपुरे वैश्यतनयोऽद्यास्यौवनः ॥४७२॥  
 इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं तदैव स महोपतिः । सनटः समुहस्सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥४७३॥  
 गत्वा तत्र मनोहारि वृत्तं चित्रमयोजयत् । नागैरः सह नन्दाढ्यो नृत्तमालोकितुं गतः ॥४७४॥  
 जन्मान्तरस्मृतेर्मूर्च्छां सहसा स्नावपद्यत । शीतक्रियाविशेषापनीतमूर्च्छं तदुद्रजः ॥४७५॥  
 जीवन्धरोऽवदन्मूर्च्छाकारणं कथयेति तम् । पट्टकालिखितं सर्वमभिधायाभ्यधादिदम् ॥४७६॥  
 सोऽप्यथ तव सोऽर्थोऽजनिषीत्यग्रजं प्रति । तुष्णसौ च विवाहाय प्रागारब्ध महामहम् ॥४७७॥  
 इदं प्रकृतमन्नाम्बच्छ यतां समुपस्थितम् । किराताथीश्वरो नाम्ना विश्रुतो हरिविक्रमः ॥४७८॥  
 सदायादमयाप्त्या कपिस्थायक्यवनेऽकरोत् । दिशागिरौ पुर तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥४७९॥  
 प्रिया तुम्बवराजोऽस्याप्यजायत वनेगिन । वटवृक्षाङ्गयो मृत्युचित्रसेनः ससैम्भवः ॥४८०॥

प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥४६६॥ आज कबूतरोंका युगल देखकर पूर्वभवका स्मरण हो आनेसे ही यह मूर्च्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुझे साफ-साफ बतलायी है ॥४६५॥ इस प्रकार अलकसुन्दरीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे बहुत ही व्याकुल हुए ॥४६६॥ उन्होंने अपनी पुत्रीके पूर्वभवका वृत्तान्त एक पट्टियेपर साफ-साफ लिखवाया और नटोंमें अत्यन्त चतुर रंगतेज नामका नट तथा उसको स्त्री मदनलताको बुलाया, दान देकर उनका योग्य सम्मान किया, करने योग्य कार्य समझाया और 'यत्नसे यह कार्य करना' ऐसा कहकर वह चित्रपट उनके हाथमें दे दिया ॥४६७-४६८॥ वे नट और नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक वनमें गये और उसे वहीं फैलाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने लगे ॥४६९॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी वनमें क्रीड़ा करनेके लिए गया था, वहाँ उसने समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया. धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर पूछा कि हे पूष्य ! मेरी पुत्रीका पूर्वभवका पति कहाँ है ? सो कहिए। मुनिराज अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहने लगे कि वह आज हेमामनगरमें है तथा पूर्ण यौवनको प्राप्त है ॥४७०-४७१॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर वह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमामनगर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आश्चर्यकारी नृत्यका आयोजन किया। उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके अन्य लोगोंके साथ नन्दाढ्य भी गया था ॥४७३-४७४॥ परन्तु वह जन्मान्तरका स्मरण हो आनेसे सहसा मूर्च्छित हो गया। तदनन्तर विशेष-विशेष शीतलोपचार करनेसे जब उसकी मूर्च्छा दूर हुई तब वड़े भाई जीवन्धर कुमारने उससे कहा कि मूर्च्छा आनेका कारण बतला। इसके उत्तरमें नन्दाढ्यने चित्रका सब हाल कहकर जीवन्धरसे कहा कि वही गुणमित्रका जीव आज मैं तेरा छोटा भाई हुआ हूँ। यह सुनकर जीवन्धर कुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुए और विवाहके लिए पहलेसे ही महामह पूजा प्रारम्भ करने लगे ॥४७५-४७७॥ इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुनो। हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भोलांकारा राजा था। उसने भाई, वन्द्युओ-से डरकर कपिस्थ नामक वनमें दिशागिरि नामक पर्वतपर वनगिरि नामक नगर बसाया था। उस वनके स्वामी भोलके सुन्दरी नामकी स्त्री थी और वनराज नामका पुत्र था। वटवृक्ष, मृत्यु, चित्रसेन

१ विमुहायेयमेवैतत् क० । २ इत्ययालक-इति क्वचित् ।



अरिंजयाह्वयः शत्रुमर्दनोऽतिबलकोऽप्यमी । भृत्यास्तस्यात्मजस्यापि लोहजङ्घः सखापरः ॥४८१॥  
 श्रीषेणश्चान्यदा गत्वा पुरं तौ तद्वनान्तरे । रममाणं समालोक्य श्रीचन्द्रां चन्द्रिकोपमाम् ॥४८२॥  
 प्रशस्य यान्तौ वीक्षयाम्बु पातुं यातं तुरंगमम् । रक्षकामिमवाक्रीत्वा दत्त्वास्मै तोषमापतुः ॥४८३॥  
 हरिविक्रमतः पद्मचात्तावभ्येत्य हितैषिणौ । मिथो<sup>१</sup> वनेचरेशात्मजस्यान्याभ्यानुसारिणः ॥४८४॥  
 वनराजस्य तत्कान्तारूपकान्त्वादिसंपदम् । सम्यग्वर्णयतः स्मैतच्छुक्त्वा तदमिहाधिष्णं ॥४८५॥  
 सुवर्णतेजसा प्रीतिमतास्यां पूर्वजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥४८६॥  
 प्रेषितावचु तेनेत्वा महामदपरिष्कृतौ । तत्कन्याशयनागारं ज्ञात्वा कृतसुरङ्गको ॥४८७॥  
 लिष्कृष्य कन्यां श्रीषेणलोहजंघौ सपौरुषौ । गतौ कन्यां गृहीत्वेति तस्मिन्लिखितपत्रकम् ॥४८८॥  
 सुरङ्गे समवस्थाप्य वनराजस्य संनिधिम् । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥४८९॥  
 आदित्योद्गमवेलायां विदित्वा लेखवाचनात् । कन्यापहरणं तस्या भ्रातरो नृपचोदितौ ॥४९०॥  
 अनुसृत्य हुतं ताम्भ्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मित्रान्तकिन्नरं यक्षमित्रं चाकुलिताशया ॥४९१॥  
 श्रीचन्द्राहं न मोक्षेऽस्मन्नगरात्मजिज्जनालयम् । अदृष्ट्वा किंचिदप्यस्मिन्निति मौनं समादधे ॥४९२॥  
 सखायौ वनराजस्य विनिश्चित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददतुः प्राप्तसंमदौ ॥४९३॥  
 सुविरक्तं वनेशोऽसौ प्रत्यात्मानं विबुध्य ताम् । प्रौढास्तद्योजनोपायं स्वाः समाह्वय दूतिकाः ॥४९४॥  
<sup>२</sup>कुरुते मां मयि प्रीतामुपायैरित्यभाषत । ताश्च तत्प्रेषणं कञ्चवा श्रीचन्द्राभ्याशमागताः ॥४९५॥

सैन्यध्व, अरिंजय, शत्रुमर्दन और अतिबल ये उस भीलके सेवक थे । लोहजंघ और श्रीषेण दोनों उसके पुत्र वनराजके मित्र थे । किसी एक दिन लोहजंघ और श्रीषेण दोनों ही हेमाम में गये । वहाँके वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी । उसे देखकर उन दोनोंने उस प्रशंसा की । वहींपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घो रक्षकका तिरस्कार कर वह घोड़ा छीन लिया और ले जाकर हरिविक्रम भीलको देकर सन्तुष्ट किया । तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चल अन्याय मार्गीका अनुसरण करनेवाले उसके पुत्र वनराजके समीप गये और श्रीचन्द्राके कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह वर्णन करने लगे । यह सुनकर वनराजकी उसमें आ जागृत हो गयी । वनराज पूर्वभवमें सुवर्णतेज था और श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या उस समय सुवर्णतेज अनुपमाको चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी । उसी अनुर उसने अपने दोनों मित्रोंसे कहा कि किसी भी उपायसे उसे मेरे पास लाओ ॥४७८-४८६॥ ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया । दोनों मि हेमामनगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोनेके घरका पता लगाया और फिर सुरंग लगा कन्याके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन दोनोंने इस आशयका एक पत्र लिखकर सुरंगमें दिया कि पुरुषार्थी श्रीषेण तथा लोहजंघ कन्याको लेकर गये हैं और जिस प्रकार रात्रिके स चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और मंगल जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याको लेकर वनर के समीप जाते हैं । यह पत्र तो उन्होंने सुरंगमें रखा और श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये । दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने क के दोनों भाइयोंको उसे वापस लानेके लिए प्रेरित किया । दोनों भाई शीघ्र ही गये और उ साथ युद्ध करने लगे । अपने भाई किन्नरमित्र और यक्षमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्राको दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जबतक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिना दर्शन नहीं कर लूँगी तबतक कुछ भी नहीं खाऊँगी । ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन धारण कर ॥४८७-४९२॥ इधर वनराजके मित्र श्रीषेण और लोहजंघने युद्धमें राजाके पुत्रोंको हरा और बहुत ही प्रसन्न होकर वह कन्या वनराजके लिए सौंप दी ॥४९३॥ जब वनराजने देख श्रीचन्द्रा मुझसे विरक्त है तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें चतुर अ

सामभेदविधानज्ञा. प्रवेष्टुं हृदयं शनैः । किमेवं तिष्ठसि स्नाहि परिधत्स्व विभूषणैः ॥४९६॥  
 बलकुरु त्वन्नं धेहि शुद्धंवाहारं मनोहरम् । ब्रूहि विस्रब्धमस्माभिः श्रीचन्द्रे सुखसंकयाम् ॥४९७॥  
 मनुष्यजन्म संप्राप्त दुःखेनानेकयोनिषु । दुर्लभं भोगवैशुख्यादेतन्मानीनयो वृथा ॥४९८॥  
 वनराजापरो नास्ति वरो रूपादिभिर्गुणैः । लोकेऽस्मिन्लोकने सन्त्यक्तवोर्नमोऽथ न पश्यसि ॥४९९॥  
 लक्ष्मीरीवादिचक्रेष्वा भूषेवाभरणद्रुमम् । संपूर्णेन्दुमिष उयोस्त्वा वनराजसुपाश्रय ॥५००॥  
 प्राप्य चूडामणिं मूढः को नामात्रावमन्यते । इत्यन्यैश्च भयप्रायैर्वचनैरकदर्थयन् ॥५०१॥  
 तदुपद्रवमाकर्ण्य प्रच्छन्नैर्दिविक्रमः । विपत्तिनिग्रहेणासां कन्यायाः प्रतिपत्स्यते ॥५०२॥  
 कदाचिदिति संविन्य निभैस्स्य वनराजकम् । तस्या निजतनूनाभिः सहवासं चकार सः ॥५०३॥  
 दृढमिश्रतय सर्वं तदा संप्राप्य बान्धवाः । सन्नद्धकसपन्नास्तत्सुरावेपथ्य तत्पुरम् ॥५०४॥  
 युयुत्सवो विपक्षाश्च जीवधंरकुमारकः । तद्दृष्ट्वा स्वकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत् ॥५०५॥  
 किमनेनेति यक्षेश स्वं सुदर्शनमस्मरत् । असुस्मरणमात्रेण यक्षोऽप्यानीय कन्यकाम् ॥५०६॥  
 कुमारायाप्यामास कथाभ्यङ्कतपीठनम् । संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभोरवः ॥५०७॥  
 ते सर्वे सिद्धसाधनवायुद्धं सहायं संयुजम् । नगरस्यागमजेठाचन्यसौ वनराजकः ॥५०८॥  
 युयुत्सया यथौ वीक्ष्य तं यक्षो दृष्टचेतसम् । परिगृह्य दृढास्त्वधः कुमाराय समर्पयत् ॥५०९॥  
 वन्दोकृत्य कुमारोऽपि वनराज निविष्टवान् । ससेनः सरसि श्रीमान्सेनारम्याभिधानके ॥५१०॥

दूतियाँ सुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो । वनराज-  
 की प्रेरणा पाकर वे दूतियाँ श्रीचन्द्राके पास गयीं और साम-भेद आदि अनेक विधानोंको  
 जाननेवाली वे दूतियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगी कि 'हे श्रीचन्द्र !  
 तू इस तरह क्यों वैठी है ? स्नान कर, कपड़े पहन, आभूषणोंसे अलंकार कर, माला धारण  
 कर, मनोहर भोजन कर और हम लोगोंके साथ विश्वासपूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥४९५-  
 ४९७॥ अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करते-करते यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे  
 भोगोपभोगकी विमुखतासे व्यर्थ ही नष्ट मत कर ॥४९८॥ इस संसारमे रूप आदि गुणोंकी  
 अपेक्षा वनराजसे बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं  
 देखती है ? ॥४९६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तिके साथ लक्ष्मी रहती थी, आभूषण जातिके  
 वृक्षाके समीप शोभा रहती है और पूर्ण चन्द्रमाके साथ चाँदनी रहती है उसी प्रकार  
 तू वनराजके समीप रह । चूडामणि रत्नको पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसका  
 तिरस्कार करता हो', इस प्रकारके तथा भय देनेवाले और भी वचनोंसे उन दूतियोंने  
 श्रीचन्द्राको बहुत तंग किया ॥५००-५०१॥ वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका  
 यह उपद्रव सुनकर विचार किया कि ये दूतियाँ इसे तंग करती हैं इसलिए सम्भव है कि  
 कदाचित् यह कन्या आत्मघात कर ले इसलिए उसने वनराजको डाँटकर वह कन्या  
 अपनी पुत्रियोंके साथ रख ली ॥५०२-५०३॥ इधर दृढमित्र आदि सब भाई-बन्धुओंने  
 मिलकर सेना तैयार कर ली और उस सेनाके द्वारा वनराजका नगर घेरकर सब आ डटे  
 ॥५०४॥ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले । यह देख दयालु  
 जीवधर कुमारने विचार किया कि युद्ध अनेक जीवोंका विधात करनेवाला है इसलिए इससे  
 क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने उसी समय अपने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया ।  
 स्मरण करते ही यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही वह कन्या जीवधर कुमारके  
 लिए सौंप दी सो ठीक ही है क्योंकि पापसे डरनेवाले पुरुष योग्य उपायसे ही कार्य सिद्ध करते  
 हैं ॥५०५-५०६॥ दृढमित्र आदि सभी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे युद्ध बन्द कर नगरकी ओर  
 चले गये परन्तु वनराज युद्धकी इच्छासे वापस नहीं गया । यह देख, यक्षने उसे दृष्ट अभि-  
 प्रायवाला समझकर जयदंती पकड़ लिया और जीवधर कुमारको सौंप दिया । श्रीमान्  
 जीवधर कुमार भी वनराजको कैद कर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरोवरके किनारे ठहर

तत्रैकं चारणं वीक्ष्य सहसा महतां निधिम् । भिक्षाहेतोर्यतिं प्राप्तमभ्युत्थाय यथाचित्तम् ॥५११॥  
 कृताभिवन्दनो योग्यं भक्तिकोऽदासुभोजनम् । तद्दानावर्जिताद्योग्यमयादाश्रयैपञ्चकम् ॥५१२॥  
 तद्दानफलमालोक्य वनराजः स्वजन्मनः । संबन्ध यद्यथावृत्तं स तत्सर्वमवागमत् ॥५१३॥  
 बलेन महता योद्धुं हरिविक्रममागतम् । यक्षस्तं च समादाय कुमारस्य करेऽकरोत् ॥५१४॥  
 वनराजस्त्वदाशेषं सर्वेषामित्यथाब्रवीत् । जन्मवीतस्तृतीयेहं बभूव वणिजां सुतः ॥५१५॥  
 सुवर्णतैजास्त्वस्माच्च मृत्वा माजर्जतां गत । कपोतीं प्रागभवे कन्यामिमामं हन्तुं समुद्यतः ॥५१६॥  
 केनचिन्मुनिनाधीतवतुर्गतिगतश्च्युते । मुक्तवैरोऽत्र भूत्वैतत्स्नेहादेनामनीनयम् ॥५१७॥  
 तद्मुक्तं ते समाकर्ण्य नायं कन्यामर्ननयत् । दुर्पेण किंतु संग्रीवैत्यवधायं समंगता ॥५१८॥  
 पितरं वनराजस्य तं च निर्हुक्तवन्धनम् । कृत्वा विसर्जयाञ्चक्रुर्वामिंश्रुत्वं हि तत्सत्ताम् ॥५१९॥  
 ततो राज्ञः पुरं गत्वा स्थित्वा द्वित्रिदिनानि ते । गत्वा नगरशोभाख्ये श्र.चन्द्रां बन्धमागिनीम् ॥५२०॥  
 नन्दाब्जाय ददुर्भृंगमृत्वा यूने धनेशिने । एवं विवाहनिर्घृत्तौ हेमामं बन्धुभिः समम् ॥५२१॥  
 पुरं प्रत्यागमे सत्यंधरसुनुं निवेदय तम् । कस्यचित्सरसस्तीरे तत्रानेतुं जल गताः ॥५२२॥  
 परिवारवना दद्याद्दुष्टैर्गन्धिलमाक्षिकैः । तद्गथाद्बोधयन्ति स्म जीवंधरकुमारकम् ॥५२३॥  
 तदाकर्ण्यं विचिन्त्यैतत्कुमारोऽपि सविस्मयः । हेतुरस्त्वत्र कोऽपीति तन्नातुं यक्षमस्मरत् ॥५२४॥  
 सोऽपि संनिहितस्तत्र विधां विधेय्य खेचगीम् । तं खेचं कुमारस्य पुरस्तादकरोद्द्रुतम् ॥५२५॥

गये ॥५०८-५१०॥ वहाँ उन्होंने तेजके निधिस्वरूप एक चारण मुनिराजके अकस्मात् किये १-वे मुनिराज भिक्षाके लिए आ रहे थे इसलिये जीवन्धर कुमारने उठकर उन्हे योरीतसे नमस्कार किया और बड़ो भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया । इस दानके उन्हे भारी पुण्यबन्ध हुआ और उसीसे उन्होने पंचाश्रयं प्राप्त किये ॥५११-५१२॥ उस दा फल देखकर वनराजको अपने पूर्व जन्मका सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥५१३॥ उधर हरिविक्रम अपने पुत्र वनराजको कैद हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध कर लिए आ रहा था सो यक्षने उसे भी पकड़कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया ॥५१४॥ तदनन्तर वनराजने सबके सामने अपना समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया कि मैं जन्मसे तीसरे जन्ममें सुवर्णतैज नामका वैश्यपुत्र था । वहाँसे मरकर बिलाव हुआ । समय इस श्रीचन्द्राका जोव कबूतरों था इसलिये इसे मारनेका मैंने उद्यम किया था । कि समय एक मुनिराज चारों गतियोंके भ्रमणका पाठ कर रहे थे उसे सुनकर मैंने सब वैर छु दिया और मरकर यह वनराज हुआ हूँ । पूर्व भवके स्नेहसे ही मैंने इस श्रीचन्द्राका हरण किया ॥५१५-५१७॥ वनराजका कहा सुनकर सब लोगोंने निश्चय किया कि इसने अहंकारके कृत्वा अपहरण नहीं किया है किन्तु पूर्वभवके स्नेहसे किया है ऐसा सोचकर सब शान्त रह ॥५१८॥ और वनराज तथा उसके पिताको बन्धनरहित कर छोड़ दिया सो ठीक ही है क्यों सज्जनोंका धार्मिकपना यही है ॥५१९॥ इसके बाद वे सब लोग राजाके नगर ( हेमाम में गये वहाँ दो-तीन दिन ठहरकर फिर नगरशोभा नामक नगरमें गये । वहाँ कल्याण भाग्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी विभूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाब्जाको की । इस प्रकार विवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्धुओंके साथ फिर सब लोग हेमामनगर लौटे । मार्गमें किसी सरोवरके किनारे ठहरे । वहाँपर परिवारके लोग जीवन्धर कुमारको बैठो उस सरोवरमें जल लेनेके लिए गये । वहाँ जाते ही मधु-मन्थियोंने उन लोगोंको काट खाया उन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसकी खबर जीवन्धर कुमारको दी । यह सुनकर तथा विचार उन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसकी खबर जीवन्धर कुमारको दी । यह सुनकर तथा विचार जीवन्धर कुमार आश्रयमें पड़ गये और कहने लगे कि इसमें कुछ कारण अवश्य है ? कारणका चत्तानेके लिए उन्होंने उसी समय यक्षका स्मरण किया ॥५२०-५२४॥ यक्ष शीघ्र ही आ ग और उसने उसकी सब खेचरी विधा नष्ट कर शीघ्र ही उस विद्याधरको जीवन्धर कुमारके अ

हृदं सरस्वत्या केन रक्षयंत हेतुनेति सः । परिपृष्टः कुमारेण खेचरः सम्यगब्रवीत् ॥५२६॥  
 शृणु भद्र प्रवक्ष्यामि मत्कथां कृतचेतनः । अभवत्पुष्पदन्ताख्यमालाकारवनेशिनः ॥५२७॥  
 सुतो राजपुरे जातिभटाङ्कः कुसुमश्रियः । तत्रैव धनदत्तस्य नन्दिन्यां तनयोऽभवत् ॥५२८॥  
 चन्द्राभो मे सखा तस्य कदाचिद्धर्ममन्यथात् । भवानहं च धर्मेण तेन रक्षाशयस्तदा ॥५२९॥  
 विधाय मद्यमांसादिभिरुचितं तत्फकान्मृतः । इह विद्याधरो भूत्वा सिद्धकूटजिनालये ॥५३०॥  
 विकोक्य चारणद्वन्द्वं विनयेनोपसृत्य तत् । आवयोर्भवसंबन्धमाकर्ण्य त्वां निरीक्षितुम् ॥५३१॥  
 रक्षित्वैतस्सरोऽन्येषां प्रवेशाद्विधया स्थितः । वक्ष्ये त्वद्भवसंबन्धं दिव्यावधिनिर्हपितम् ॥५३२॥  
 धातकीखण्डमारगमेरुपूर्वविदेहयोः । विषये पुष्कलावत्या नगरो पुण्डरीकिणी ॥५३३॥  
 पतिर्जय वरस्तस्य तन्नृजोऽभूज्यद्रथः । जयवत्यास्त्वमन्येषुर्वर्नं नाम्ना मनोहरम् ॥५३४॥  
 विहर्तुं प्रस्थितस्तस्य सरस्यां हंसशावकम् । विकोक्य चेदकैर्दक्षैस्तमानाय सकौतुकः ॥५३५॥  
 स्थितस्तत्प्रेषणोद्योगे तन्मातापितरौ तदा । सशोकौ करुणारुन्दं नमस्यकुरुतां मुहुः ॥५३६॥  
 चेदकस्ते तदाकर्ण्य कर्णान्ताकूटचापकः । शरेणापायत्तातं तस्याकार्यं न पापिनाम् ॥५३७॥  
 तन्निरिदयं सवन्माता कारुण्याद्गोहृताशया । किमेतदिति सपृच्छथ प्रभुद्वा परिचारकात् ॥५३८॥  
 कुपित्वा चैदकार्यैर्न वृथा विद्वद्वत् सती । निर्मल्यं त्वां च ते पुत्रं न युक्तमिदमाश्रियम् ॥५३९॥  
 मात्रा संयोजयेत्याह त्वंचाज्ञानादिद मया । कृतं कर्मेति निन्दित्वा गह्विस्त्वमानमाद्भीषोः ॥५४०॥

लाकर खड़ा कर दिया ॥५२५॥ तब जीवन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरोवरकी रक्षा किसलिए करता है ? इस प्रकार कुमारके पूछनेपर वह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र ! मेरी कथाका चित्त लगाकर सुनिए, मैं कहता हूँ । पहले जन्ममे मैं राजपुर नगरमें अत्यन्त धनी पुष्पदन्त मालाकारकी स्त्री कुसुमश्रीका जातिभट नामका पुत्र था । उसी नगरमें धनदत्तकी स्त्री नन्दिनीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था । वह मेरा मित्र था, किसी एक समय आपने उस चन्द्राभके लिए धर्मका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमे भी धर्मप्रेम उत्पन्न हो गया ॥५२६-५२९॥ और मैंने उसी समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे भरकर मैं यह विद्याधर हुआ । किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनालयमें दो चारण मुनियोंके दर्शन किये । मैं बड़ी विनयसे उनके पास पहुँचा और उनके समीप अपने तथा आपके पूर्वभवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन करनेके लिए ही अन्य लोगोंके प्रवेशसे इस सरोवरकी रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ । उन मुनिराजने अपने दिव्य अवधिज्ञानसे देखकर जो आपके पूर्वभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब मैं कहता हूँ ॥५३०-५३२॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरु सम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा जयन्धर राज्य करता था । उसकी जयवती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र हुआ था । किसी एक समय वह जयद्रथ क्रोड़ा करनेके लिए मनोहर नामके वनमें गया था वहाँ उसने सरोवरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कौतुक वश चतुर सेवकोंके द्वारा उसे बुला लिया और उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा । यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोकसहित होकर आकाशमे बार-बार करुण क्रन्दन करने लगे । उसका शब्द सुनकर तेरे एक सेवकने कान तक धनुष खींचा और एक धाणसे उस बच्चेके पिताको नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्योंको नहीं करने योग्य कार्य क्या है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥५३३-५३५॥ यह देख जयद्रथकी माताका हृदय दुःखासे आर्द्र हो गया और उसने पूछा कि यह क्या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती व्यर्थ ही पक्षीके पिताको मारनेवाले सेवकपर बहुत कुपित हुई तथा तुझे भी डाँटकर कहने लगी कि हे पुत्र ! तेरे लिए यह कार्य उचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे इसकी मातासे मिला दे । इसके उत्तरमे तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञानवश किया है । इस प्रकार आर्द्र परिणाम होकर अपने आपकी बहुत

तदादानदिनादसशावकं षोडशे दिने । चातकं घनकाण्डो वा सज्जाम्बोदमाळया ॥५४३॥  
 प्रसवं मधुमासो वा कृतया चूतसंज्ञया । पश्चिन्ध्यार्कोदयो वाकिं तं मात्रा समजीगम ॥५४३॥  
 एव चिनोदैरन्ध्रैश्च काण्डे याते निरन्तरम् । सुखेन केनचिद् भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥५४३॥  
 राज्यभारं परित्यज्य तपोभारं समुद्रहन् । जाचितान्ते तनुं त्यक्त्वा सहस्रारं सुरोऽभवः ॥५४४॥  
 तत्राष्टादशार्ध्यायुर्दिव्यभोगामितर्पितः । ततश्च्युत्वेद् संभूतः क्षुमाशुभविपाकतः ॥५४५॥  
 चेटकेन हृतो हंसः स काण्डाङ्गारिकोऽभवत् । तेनैव त्वरिपता युद्धे हतः प्राक्तव जन्मनः ॥५४६॥  
 मन्दसानशिशोः पित्रोर्विप्रयोगकृतैरनसः । फलात्षोडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्धुभिः ॥५४७॥  
 सह संजात इत्येतद्विद्याधरनिरूपितम् । श्रुत्वा कल्याणबन्धुस्त्वं ममेत्येनमपूजयत् ॥५४८॥  
 तस्मादागत्य हेमामनगरं प्राप्य संमदात् । कामभोगसुखं स्वैरभिष्टैरनुभवन् स्थितः ॥५४९॥  
 इदं प्रकृतमत्रान्यत्संविधानमुदीर्यते । नन्दाख्यस्य पुरात्स्वस्माश्रियाणानन्तरे दिने ॥५५०॥  
 गन्धर्वदत्ता संपृष्टा स्नेहितैर्मथुरादिभिः । वदास्माकं विवेत्सि त्वं कुमारौ क्व गताविति ॥५५१॥  
 साप्याह सुजने देशे हेमामनगरे सुखम् । वसतस्तत्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरम् ॥५५२॥  
 ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितस्थानंते सर्वं तद्दिदृक्षया । आपृच्छथ स्वजनान् सर्वान् संतोषात्तैर्विवेचिताः ॥५५३॥  
 गच्छन्तो दण्डकारण्ये व्यश्रायंस्तापसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान् पश्यन्तोषु कौतुकात् ॥५५४॥  
 महादेवी च तान् दृष्ट्वा यूयं कस्मात्समागताः । गमिष्यथ क्व वेत्येतदपृच्छस्नेहनिर्भरा ॥५५५॥  
 यथावृत्तान्तमेवैषु कथयत्सु प्रवोषिणां । मत्पुत्रपरिवारोऽयं सङ्घो यूनामिति स्फुटम् ॥५५६॥

ही निन्दा की और जिस दिन उस बालकको पकड़वाया था उसके सोलहवें दिन, जिस वर्षाकाल चातकको सजल मेघमालासे मिला देता है, वसन्त ऋतु फूलको आमकी लत साथ मिला देता है और सूर्योदय भ्रमरको कमलिनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उ माताके साथ मिला दिया ॥५३६-५४२॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही विनोदोसे जयद्रथका निरन्तर सुखसे बीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश भोगोंसे वैराग्य हो गया स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया और जीवनके शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गमें देव पर्याय प्राप्त कर ली ॥५४३-५४४॥ वहाँ वह अठारह सा की आयु तक दिव्य भोगोंसे सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पुण्य पापके उ यहाँ उत्पन्न हुआ है ॥५४५॥ जिस सेवकने हंसको मारा था वह काण्डांगारिक हुआ है उसीने तुम्हारा जन्म होनेके पहले ही युद्धमें तुम्हारे पिताको मारा है । तुमने हंसके बच्चे सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रखा था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ है । इस प्रकार विद्याधरकी कही कथा सुनकर जीवन कुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है ऐसा कहकर उन्होंने उसका खूब सत्क किया ॥५४६-५४८॥ तदनन्तर वे वड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमामनगर आये और इ जनोके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥५४९॥

सुधर्मचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! यह तुझे प्रकृत बात बतलायी । इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही जाती है । जिस दिन नन्दाख्य राजपुर नगरसे नि गया उसके दूसरे ही दिन मथुर आदि मित्रोंने गन्धर्वदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कहाँ है ? तू सब जानती है, बतला । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने बड़े आदरसे कहा कि आप उनकी चिन्ता क्यों करते हैं, वे दोनों भाई सुजन देशके हेमामन नगरमें सुखसे रहते हैं ॥५४२॥ इस प्रकार गन्धर्वदत्तासे उनके रहनेका स्थान जानकर मथुर आदि सब मित्रोंको उ देखनेकी इच्छा हुई और वे सब अपने आरम्भीय जनोसे पूछकर तथा उनसे विदा लेकर सन्तो साथ चला पड़े ॥५५२॥ चलते-चलते उन्होंने दण्डक वनमें पहुँचकर तपस्वियोंके आश्रममें विप्र किया । कौतुकवश वहाँकी तापसी स्त्रियाँ आकर उन्हें देखने लगी । उन स्त्रियोंमें महादेवी विज मो थी, वह उन सबको देखकर कहने लगी कि आप लोग कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? और कहाँ जा विजयाने यह सब बड़े स्नेहके साथ पूछा ॥५५४-५५५॥ जब मथुर आदिने अपना सब

विज्ञायाद्यात्र विश्रम्य भवद्भिर्गम्यतां पुनः । समागमनकालेऽसाविहैवाानीयतामिति ॥५५७॥  
 सभ्यकर्मार्थयतैवास्तेऽप्येषा जीवंधरश्रुतेः । रूपेण निर्विदोषा किं तन्मातेत्याचससथाः ॥५५८॥  
 कुर्मस्तथैति संतोष्य तां प्रियानुगतोक्तिभिः । गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित्त्र व्याधैः कथयितः ॥५५९॥  
 युद्धे पुरुषकारेण क्रम्यादानभिभूय ताम् । यास्तो यदृच्छया व्याधैर्मार्गोऽन्यैर्वागमागमन् ॥५६०॥  
 हेमामपुरसार्थपहरणारम्भसम्भ्रमे । तत्कर्म नागैरुर्ध्वन्यस्तहस्तैर्निवेदितः ॥५६१॥  
 आक्रोशद्भिः सकाशयो जीवंधरसमाह्वयः । गत्वा व्याधबलं युद्धे निदृष्यातकर्मविक्रमः ॥५६२॥  
 तद्गृहीतं धनं सर्वं वणिग्भ्यो ह्यार्पयत्युनः । युद्ध्वा चिरं विमुक्तात्मनामाङ्गदरशनात् ॥५६३॥  
 जीवंधरकुमारोण विदित्वा मधुरादयः । संगवास्ते कुमारस्य वार्तां राजपुरोद्भवाम् ॥५६४॥  
 सर्वान् निर्वर्ण्य विश्रम्य कचिरकालं स्थिताः सुखम् । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥५६५॥  
 अरण्यमप्रयाणार्थं दण्डकाख्यमुपागमन् । तत्र खेदान्महादेवो क्षीरापूर्णांशतस्तनी ॥५६६॥  
 बाष्पाविलिखिलाकाक्षी क्षामक्षामाङ्गप्रष्टिका । चिन्तासहस्रंमंसजटीभूतशिरोरुहा ॥५६७॥  
 चिरन्तरौष्णनिःश्वासवैवर्ण्यगमिताधरा । ताम्बुलादिष्यपायोहमलद्विग्धह्रिजावली ॥५६८॥  
 अशोचस्पुत्रमालोक्य रुक्मिणीव मनोभवम् । इष्टकालान्तराकोकस्तत्क्षणे दुःखकारणम् ॥५६९॥  
 तनूनस्पृशंभूतमस्त्वृष्टान्तीं सुखामृन्मम् । ज्ञापयित्वा पतत्पादपद्मयोः सकृत्तान्जलिः ॥५७०॥  
 कुमारोचिष्ट कल्याणशतमागी भवेत्यसौ । तमाशिषां शतैः स्नेहादभिनन्दान्नवीदिति ॥५७१॥

कहा तब वह, यह स्पष्ट जानकर बहुत ही सन्तुष्ट हुई कि यह युवाओंका संघ मेरे ही पुत्रका परिवार है । उसने फिर कहा कि आज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइए और आते समय उसे यहाँ ही लाइए ॥५६५-५६७॥ इस प्रकार उसने उन लोगोंसे अच्छी तरह प्रार्थना की । वह देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह जीवन्धरकी माता ही हो । तदनन्तर उन लोगोंने प्रिय और अनुकूल बचनोंके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट किया और कहा कि हम लोग ऐसा ही करेंगे । इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर जानेपर उन्हें भीलोंने दुस्वी किया परन्तु वे अपने पुरुषार्थसे युद्धमें भीलोंको हराकर इच्छानुसार आगे बढ़े । आगे चलकर मार्गमें ये सब लोग दूसरे भीलोंके साथ मिल गये और सबने हेमाम नगरमें जाकर वहाँके सेठोंको सूटना शुरू किया । इससे क्षुभित हुए नगरवासी लोगोंने हाथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारको इस कार्यकी सूचना दी । निदान, अचिन्त्य पराक्रमके धारक दयालु जीवन्धर कुमारने जाकर युद्धमें वह भीलोकी सेना रोकी और उनके द्वारा हरण किया हुआ सब धन छीनकर वैश्योंके लिए वापस दिया । इधर मधुर आदिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित वाण चलाये थे उन्हें देखकर जीवन्धर कुमारने उन सबको पहचान लिया । तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप हो गया और सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक सुखसे रहे । इसके बाद वे कुमारको लेकर अपने नगरकी ओर चले । विश्राम करनेके लिए वे उसी दण्डक वनमें आये । वहाँ उन्हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूधसे भरकर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र आँसुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यष्टि अत्यन्त कृशा थी, वह हजारों चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके सिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर गरम श्वास निकलनेसे उसके ओठोंका रंग बदल गया था और पान आदिके न खानेसे उसके दाँवोंपर बहुत भारी मैल जमा हो गया था । जिस प्रकार रुक्मिणी प्रधुन्नको देखकर दुःखी हुई थी उसी प्रकार विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थका बहुत समय बाद देखना सत्कालमें दुःखका कारण होता ही है ॥५५८-५६०॥ पुत्रके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अष्टवका जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी माताको सुखका अनुभव कराते हुए जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलोंमें गिर पड़े ॥५७०॥ हे कुमार ! उठ, सैकड़ों

प्रतिपक्षाद्भवद्विःसंभूतमुखसंगमात् । कुमार भीतभीतं वा मन्ददुर्लभं सहसा गतम् ॥२७३॥  
 एवं देव्यां तुजा साकं निगदन्त्यां तदन्तरे । संप्राप्य सत्वरं यक्षो दक्षः खेहाकुमारजात् ॥२७३॥  
 ज्ञानस्त्रग्लेपनाशेषभूषावस्त्राशानादिभिः । संपूज्य जैनसद्धर्मवात्सल्यात्सकलान्पृथक् ॥२७४॥  
 अपास्य मधुरालापैस्तत्त्वगर्भैः सयुक्तिभिः । मदनादिकथाभिश्च शोकं मातुः सुतस्य च ॥२७५॥  
 जगाम संमुखं धाम्नः स्वस्वत्यापाद्य सत्क्रियाम् । तत्सौहार्दं यदापस्तु सुहृद्विरभुज्यते ॥२७६॥  
 राज्ञी चैष महापुण्यमागीत्यालोच्य तं पृथक् । कुमारमभ्यधादैवं प्रज्ञाचिक्रमशालिनम् ॥२७७॥  
 सत्यधरमहाराजं तव राजपुरे गुरुम् । हत्वा राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥२७८॥  
 पितृस्थानपरित्यागो न योग्यस्त्ये मनस्विन । इत्यसौ च तदाकर्ण्य प्रतिपद्योदितं तथा ॥२७९॥  
 अकालसाधनं शौर्यं न फलदाय प्रकल्पते । धान्यं वा संप्रतीक्ष्यो यः कालः कार्यस्य साधकः ॥२८०॥  
 इति संचित्य संजातक्रोधोप्याच्छाद्य तं हृदि । अम्बैतत्कार्यंपर्याप्तौ बलं नन्दाढ्यनायकम् ॥२८१॥  
 त्वामानेतुं प्रहेषयामि तावदत्र स्वयास्यताम् । दिनानि कानिचिद्वीतशोकपथेति महामतिः ॥२८२॥  
 तद्योग्यसर्ववस्तूनि परिवारं च कचन । तत्संनिधाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम् ॥२८३॥  
 प्राप्य तन्नजभृत्यादीन्पुरः प्रस्थाप्य कस्यचित् । मदागतिनं चाप्येति प्रतिपाद्य पृथक् पृथक् ॥२८४॥  
 वैश्यवेषं समादाय त्रिआसुद्राप्रभावतः । पुरं प्रविश्य कस्मिंश्चिदापणे समवस्थितः ॥२८५॥  
 तत्र तत्संनिधानेन नानारत्नादिभाण्डकम् । अपूर्वलाभसंबुद्धं द्रष्टुं सागरदत्तकः ॥२८६॥

कल्याणोंको प्राप्त हो' इस प्रकार सैकड़ों आशीर्वाद्दोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी स्नेहसे इस प्रकार कहने लगी ॥५७१॥ कि 'हे कुमार ! तुझे देखनेसे जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ उसके समानगरूपी शत्रुसे ही मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मात् भाग गया है' ॥५७२॥ प्रकार वह महादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारके स्नेहसे चतुर यक्ष भी बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचा ॥५७३॥ उसने आकर उत्तम जैनधर्मके वात्स से स्नान, माला, लेपन, समस्त आभूषण, वस्त्र तथा भोजन आदिके द्वारा सबका अलग-सत्कार किया। तदनन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण और तत्त्वसे भरे हुए मधुर वचनोंसे तथा प्रभु आदिकी कथाओंसे माता और पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया। इस प्रकार आदर-सत्कार कर यक्ष अपने स्थानकी ओर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र आपत्तिके समय अनुभव करते हैं ॥५७४-५७६॥ इसके बाद विजयादेवीने 'यह महा पुण्यात् है' ऐसा विचार कर बुद्धि और बलासे सुशोभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा 'राजपुर नगरके सत्यन्धर महाराज तेरे पिता थे उन्हें मारकर ही काष्ठांगारिक राज्यपर था अतः वह तेरा शत्रु है। तू तेजस्वी है अतः तुझे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं है इस प्रकार माताके कहे हुए वचन सुनकर और अच्छी तरह समझकर जीवन्धर विचार किया कि 'समय और साधनके बिना प्रकट हुई शूर-वीरता फल देनेके लिए समर्थ हैं अतः धान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि कार्यका साधक है जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्रोध तो उत्पन्न हुआ था परन्तु उक्त विचार कर उन्होंने उसे ही छिपा लिया और मातासे कहा कि 'हे अम्ब ! यह कार्य पूरा होनेपर मैं तुझे लेनेके । नन्दाढ्यको सेनापति बनाकर सेना भेजना तबतक कुछ दिन तू शोक रहित हो यहींपर रह ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ और कुछ परिवारको उसके समीप रखकर बुद्धिमान् जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये ॥५७७-५८३॥ राजपुर नगरके समीप जा उन्होंने अपने सेवक आदि सब लोगोंको अलग-अलग यह कहकर कि 'किसीसे मेरे खबर नहीं कहना' पहले ही नगरमें भेज दिया और स्वयं विद्यामयी अँगूठीके प्रभा वैश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसीकी दूकानपर जा बैठे ॥५८४-५८५॥ वहाँ उनके स बैठ जानेसे सागरदत्त सेठको अनेक रत्न आदिके पिटारे तथा और भी अपूर्व वस्तुओंका हुआ। यह देख उसने विचार किया कि 'निमित्तज्ञानोने जिसके लिए कहा था यह

वणिगादेशनिर्दिष्टो दैवशैरयमित्यसौ । इतवान्विमलां तस्मै सुतां 'स्वां कमलोज्ज्वाम् ॥२८७॥  
 दिनानि कानिचित्तत्र संबसन् सुखमन्यदा । परित्राजकवेषेण काष्ठाङ्गारिकलंसदम् ॥५८८॥  
 प्रविश्य तं समाकोक्य कृताशीर्वादसत्क्रिय । शृणु राजन्नहं मोक्तुं याचे स्वामतिथिगुणौ ॥५८९॥  
 मां भोजयेत्युवाचैतच्छ्रुत्वा संप्रतिपन्नवान् । मनुद्योगफलस्यैतन्निमित्तं कुसुमं परम् ॥५९०॥  
 हृद्यग्रासनास्थाया सुकृत्वा तस्मात्स निर्गतः । वशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफलमौषधम् ॥५९१॥  
 मत्करे विद्यते यस्मै रुचिर्गुह्यात्सवाविदम् । इति राजकमभ्येत्य पृथक्पृथगभोधयत् ॥५९२॥  
 तच्छ्रुत्वा पश्य नैलङ्गयमस्य वार्धक्यमोदशम् । वशीकरणचूर्णाङ्गनाशिवन्धनमप्यदः ॥५९३॥  
 इति तद्द्वयमाख्यैः कृत्वा हासं द्विजोत्तम । कन्यका गुणमालाख्या पुरेऽस्मिन्नस्ति विश्रुता ॥५९४॥  
 जीवधरेण मघूर्णवांसस्य न कृता स्तुतिः । इति नृद्वेषिणी जाता तां त्वच्चूर्णाङ्गनादिभिः ॥५९५॥ -  
 वशीकृतश्च तद्दोक्ष्य तव मन्त्रौषधादिकम् । मौस्येन बहूना सर्वमाददित्प्यामहे वयम् ॥५९६॥  
 हृत्युकस्तैः सकोपो वा युष्मज्जीवधरो विधोः । चूर्णवासादिभेदं किं स जानाति परीक्षित्सु ॥५९७॥  
 इत्युक्तवांस्ततः सर्वे सकोपा विप्रमब्रुवन् । यथेष्टं किं ब्रवीष्येव नृसारमविवेचयन् ॥५९८॥  
 आत्मस्तवोऽन्यनिन्दा च मरणाश्च विशिष्यते । इति लोकप्रसिद्धं किं न श्रुतं हुःश्रुत्वोद्धत ॥५९९॥  
 इत्यसौ तैरधिष्ठितः किं न सन्ति प्रशंसकाः । युष्मद्विधा मसापीति समाख्यामानमुद्धत ॥६००॥  
 घटदासीं विधास्यामि गुणः । तां सुहृत्ततः । ममेति सङ्गरं कृत्वा प्रस्थितस्तद्गृहं प्रति ॥६०१॥

पुरुष है, ऐसा विचारकर उसने अपनी स्त्री कमलासे उत्पन्न हुई विमला नामकी पुत्री इन्हें समर्पित कर दी ॥५८६-५८७॥ विवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेठके यहाँ सुखसे रहे । तदनुसार किसी अन्य समय परित्राजकका वेष रखकर काष्ठाङ्गारिकी सभामें गये । वहाँ प्रवेश कर तथा काष्ठाङ्गारको देखकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'हे राजन् ! सुनो, मैं एक गुणवान् अतिथि हूँ, तुझसे भोजन चाहता हूँ, मुझे खिला दे' । यह सुनकर काष्ठाङ्गारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया । 'यह निमित्त, मेरे उद्योगरूपी फलको उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल ही है' ऐसा विचारकर उन्होंने अगळे आंसनपर आरूढ़ होकर भोजन किया और भोजनोपरान्त वहाँसे चल दिया । तदनन्तर उन्होंने राजाओके समूहमें जाकर अलग-अलग यह घोषणा कर दी कि 'मेरे हाथमें प्रत्यक्ष फल देनेवाला वशीकरण चूर्ण आदि उत्तम औषधि है जिसकी इच्छा हो वह ले ले' । उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी करते हुए कहने लगे कि 'देखो इसकी निर्लज्जता, इसका ऐसा तो बुढापा है फिर भी वशीकरण चूर्ण, अंजन तथा बन्धक आदिकी ओपधियाँ रखे हुए है' । इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने हँसी कर कहा कि 'हे ब्राह्मण ! इस नगरमें एक गुणमाला नामकी प्रसिद्ध कन्या है । 'जीवन्धर-ने मेरे चूर्णकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की है' इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वेष रखने लगी है । तू अपने चूर्ण तथा अंजन आदिसे पहले उसे वशमें कर ले, बादमें यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा औषधि आदिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगे' ॥५८८-५९६॥ इस प्रकार लोगोंके कहनेपर वह ब्राह्मण क्रोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा जीवन्धर मूर्ख होगा, वह चूर्णकी सुगन्धि आदिके भेदकी परीक्षा करना क्या जाने ॥५९७॥ इसके उत्तरमें सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि 'जीवन्धर मनुष्योंमें श्रेष्ठ है' इसका विचार किये बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है ॥५९८॥ हे मिथ्याशास्त्रसे उद्बुद्ध ! क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें मरणसे कुछ विशेषता (अन्तर) नहीं है अर्थात् मरणके ही समान है ॥५९९॥ इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि, 'तो क्या आप-जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं हैं ? 'मैं भी कोई पुरुष हूँ' इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धत ब्राह्मणने प्रतिज्ञा की कि 'मैं क्षण-भरमें गुणमालाकी अपनी घटदासी बना दूँगा' । ऐसी प्रतिज्ञा कर वह गुणमाल

१ स्वाममलोद्भवाम् इति क्वचित् ।



तत्र तच्चेटिकामेकाभाह्वय स्वाभिनीं निजाम् । ज्ञापयेति स्थितः कश्चिद्विप्रो द्वारीत्यवबुधत् ॥६०१॥  
 सापि स्वस्वाभिनीमेतद्विप्रप्रोक्तमबोधयत् । ततः स्वानुमतायात् बुद्धविप्रं यथोचितम् ॥६०३॥  
 प्रतिगृह्य कुतो वेतो गमिष्यसि कुतोऽथवा । इति तस्याः परिप्रश्ने पद्मवादिह समागतः ॥६०४॥  
 पुनः पुरो गमिष्यामीत्याहासौ तच्छ्रुतेर्जनः । पार्श्ववर्ती व्यधादासं दारिकाया द्विजोऽपि तम् ॥६०  
 न हास्यं कुस्तैवं भो वार्धक्यं विपरीतताम् । उत्पाद्यति युष्माकं किं न मावीति सोऽबद्धत् ॥६०६॥  
 पुनः पुरः क गन्तव्यमिति तत्प्रश्नुदीरणे । कन्यातीर्थपरिभ्रांतेष्विवत्तावद्गतिर्भम ॥६०७॥  
 इति द्विजोदितं श्रुत्वा कायेन वयसाप्ययम् । वृद्धो न चेतसेत्येवं नर्मप्रायोक्तिपूर्वकम् ॥६०८॥  
 अग्रासने विधायैवं स्वयमभ्यवहृत्य सा । इदानीं भवतो यत्र वाञ्छता तत्राग्नौ गम्यताम् ॥६०९॥  
 इत्याह सोऽपि सुष्टूकं त्वया भद्रे ममेति ताम् । प्रशंसन् प्रखलन् कृच्छ्रादुःखायालम्यथ यष्टिकाम् ॥६१  
 तदीयशयनारोहं व्यधादुक् इवैतया । चेटिकास्तद्विकीक्यास्य पश्य निर्लज्जतामिति ॥६११॥  
 हस्तावलम्बनेनैवं निराकृतुं समुद्यताः । युष्माभिः सम्यगेनोक्तं लज्जा स्त्रीविषयैव सा ॥६१२॥  
 न पुंसु यदि तत्रास्ति लज्जा साधारणी भवेत् । ततः स्त्रीभिः कथं पुंसां संगमोऽङ्गसंस्कृतः ॥६१३॥  
 इति वृद्धोक्तिमाकर्ण्य ब्राह्मणोऽथ न केवलः । कोऽपि रूपपरावृत्तिविधया तसुपागतः ॥६१४॥  
 इत्याकलन्त्य को दोषो विप्रः प्रापूर्णिको मम । तिष्ठस्वन्नैति तच्चेटिका निवारयति स्म सा ॥६१५॥  
 तक्षिशावसिखौ शुद्धदेशजस्वरभेदवित् । गीतवान्मधुरं वृद्धश्चिरं श्रोत्रमनोहरम् ॥६१६॥  
 गन्धर्वदत्ताक्षयणकाले सालंक्रियं कलम् । जीवन्धरकुमारस्य गीतं नैतच्छ्रुतेः सुखम् ॥६१७॥

घरकी ओर चल पड़ा । वहाँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कि तुम अ  
 मालकिनसे कहो कि द्वारपर कोई ब्राह्मण खड़ा है ॥६००-६०२॥ दासीने भी अपनी माला  
 की ब्राह्मणकी कही हुई बात समझा दी । गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस  
 ब्राह्मणका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि 'आप कहाँसे आये हैं और यहाँसे कहाँ जावेंगे  
 गुणमालाके इस प्रश्नके उत्तरमें उसने कहा कि 'यहाँ पीछेसे आया हूँ और आगे जाऊँ  
 ब्राह्मणकी बात सुनकर कन्या गुणमालाके समीपवर्ती लोग हँसने लगे । यह देख, ब्राह्मणने  
 उनसे कहा कि इस तरह आप लोग हँसी न करें । बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है,  
 आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा ? ॥६०३-६०६॥ तदनन्तर उन लोगोंने फिर पूछा  
 आप आगे कहाँ जावेंगे ? ब्राह्मणने कहा कि जबतक कन्या तीर्थकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी  
 तक मेरा गमन होता रहेगा ॥६०७॥ इस प्रकार ब्राह्मणका उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए  
 कि यह शरीर और अवस्थासे बूढ़ा है, मनसे बूढ़ा नहीं है । तदनन्तर गुणमालाने उसे  
 आसनपर बैठाकर स्वयं भोजन कराया और फिर कहा कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो  
 शीघ्र ही जाइए ॥६०८-६०९॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि 'हे भद्र ! तूने ठीक कहा'  
 तरह उसकी प्रशंसा करता और ङगमगाता हुआ वह ब्राह्मण लाठी टेककर बड़ी कठिना  
 उठा और उसकी शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी आज्ञा ही दे  
 हो । यह देख, दासियों कहने लगीं कि इसकी निर्लज्जता देखो । वे हाथ पकड़कर उसे श  
 दूर करनेके लिए उद्यत हो गयीं । तब ब्राह्मणने कहा कि आप लोगोंने ठीक ही तो कहा  
 यथार्थमैलज्जा स्त्रियोंमें ही होती है पुरुषोंमें नहीं, यदि उनमें भी स्त्रियोंके समान ही लज्जा होने  
 तो फिर स्त्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ? ॥६१०-६११॥  
 इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल ब्राह्मण ही नहीं  
 किन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा रूप बदलकर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है । ऐसा विचा  
 उसने दासियोंको रोक दिया और उस ब्राह्मणसे कहा कि क्या दोष है ? आप मेरे पाहुने हैं  
 इस शय्यापर बैठिए ॥६१४-६१५॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेदोंको जान  
 वाले उस वृद्ध ब्राह्मणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनको हरण करनेवाले मधुर गीत गाये । गन्ध  
 दत्ताके विवाहके समय जीवन्धरकुमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे उन्हें सु

हति प्रातः समुत्थाय विनयेनोपसृत्य तम् । साम्राज्ञीकेषु शास्त्रेषु प्रबोधो भवतामिति ॥६१८॥  
 धर्मार्थकामशास्त्राणि भूयोऽभ्यस्तानि यत्नतः । तेषु धर्मार्थयोः कामशास्त्रात्फलविनिश्चयः ॥६१९॥  
 कथं तदिति चेत्किञ्चिन्मया तत्र निरूप्यते । पञ्चेन्द्रियाणि तेषां च विषयाः पञ्चधा स्मृताः ॥६२०॥  
 स्पर्शादीयोऽष्टधा स्पर्शाः कर्कशाद्याः भ्रुनोदिताः । रसोऽपि षड्विधः प्रोक्तो मथुरादिर्मनीषिभिः ॥६२१॥  
 कृतकः सहजश्चेति गन्धोऽपि द्विविधो मतः । सर्वः सुगन्धदुर्गन्धचेतनेतरवस्तुगः ॥६२२॥  
 रूपं पञ्चविधं श्वेतकृष्णादिप्रविभागभाक् । षड्जादयः स्वराः सप्त जीवाजीवसमुद्भवाः ॥६२३॥  
 ह्यष्टाविंशतिभूत्वा द्वैगुण्यं पुनरागताः । इष्टानिष्टविकल्पाभ्यां षट्पञ्चाशद्विकल्पनाः ॥६२४॥  
 तेष्विष्टा कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धर्मतः । निषिद्धविषयस्यागो धर्मः सन्निरुदाहृतः ॥६२५॥  
 निषिद्धविषयांस्तस्मात्परिहृत्य विचक्षणाः । शेषाननुभवन्तोऽत्र कामशास्त्रविदो मताः ॥६२६॥  
 स्वयानुभूयमानेषु दोषाः सन्तीह केषुचित् । इति तेनोदितं श्रुत्वा तद्दोषविनिवृत्तये ॥६२७॥  
 स्वयोपदेशः कर्तव्यो यास्यामि तव शिष्यताम् । इत्युदीर्णवर्ती विप्रस्तां न्यनैषीत्कथादिषु ॥६२८॥  
 सर्वे ते पुनरन्येषुविहितं वनमागमन् । स्थितस्तत्रामेकान्तप्रदेशे गुणमालया ॥६२९॥  
 तद्द स्वाभाविकं रूपमात्मकः समदर्शयत् । कन्या इष्टाय तं जातसंशया सत्रया सती ॥६३०॥  
 मौनेनावस्थिता वीक्ष्य तामेव प्राक्तनोक्तिभिः । पूर्णवासादिजातानिः प्रत्यावययदतिद्वयम् ॥६३१॥  
 पुनः प्राक्तनरूपस्यः पुण्यशरयामधिष्ठितः । कुरु मत्पदसंवाहमिति प्रेषयति स्म ताम् ॥६३२॥

कर गुणमालाको जैसा सुख हुआ था वैसा ही सुख इस वृद्धके गीत सुनकर हुआ । सवेरा होने-पर गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान है ? ॥६१६-६१८॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि मैंने बड़े यत्नसे धर्मशास्त्र, अर्थ-शास्त्र और कामशास्त्रका बार-बार अभ्यास किया है । उनमें धर्म और अर्थके फलका निश्चय कामशास्त्रसे ही होता है । वह किस प्रकार होता है ? यदि यह जानना चाहती-हो तो मैं इसका कुछ निरूपण करता हूँ । इन्द्रियों पाँच हैं और उनके स्पर्श आदि विषय भी पाँच ही हैं । उनमें-से स्पर्शके कर्कश आदि आठ भेद शास्त्रोंमें कहे गये हैं । विद्वानोंने मधुर आदिके भेदसे रस भी छह प्रकारका कहा है । सुगन्ध और दुर्गन्ध रूप चेतन अचेतन वस्तुओंमें पाया जाने-वाला सब तरहका गन्ध भी कृतक और सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है । श्वेत, कृष्ण आदिके भेदसे रूप पाँच तरहका कहा गया है और जीव तथा अजीवसे उत्पन्न हुए षड्ज आदि स्वर सात तरहके होते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अष्टाईस विषय होते हैं । इनमें-से प्रत्येकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलाकर छप्पन हो जाते हैं ॥६१९-६२४॥ इनमें जो इष्ट विषय है वे पुण्य करनेवालोंको प्राप्त होते हैं, धर्मसे पुण्य होता है और निषिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सज्जनोंने धर्म कहा है ॥६२५॥ इसलिए जो बुद्धि-मान् मनुष्य निषिद्ध विषयोंको छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते हैं वे ही इस लोकमें कामशास्त्रके जाननेवाले कहे जाते हैं ॥६२६॥ यह कहनेके बाद उस ब्राह्मणने गुणमालासे कहा कि तू जिन विषयोंका अनुभव करती है उनमें-से कितनेमें ही अनेक दोष हैं । इस तरह ब्राह्मण-का कहा सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए उपदेश कीजिए मैं आपकी शिष्य हो जाऊँगी । ऐसा कहनेपर उस ब्राह्मणने गुणमालाको कला आदि-की शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥६२७-६२८॥

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए वनमें गये थे । वहाँ जब वह एकान्त स्थानमें गुणमालाके साथ बैठे था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया । उसे देखकर कन्याको संशय उत्पन्न हो गया और वह सती लज्जा सहित चुप बैठ गयी । यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित चूर्णसे सन्धन्ध रखनेवाली प्राचीन कथाएँ कहकर बहुत ही शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया ॥६२९-६३१॥ तदनन्तर वह उसी ब्राह्मणका रूप धारण कर पुण्यशरयापर बैठ गया और गुणमाला भी

तां च स्नेहेन तत्कर्म कुर्वती वीक्ष्य विस्मयान् । ते राजसुनवः सर्वे तन्मन्त्रादिकमस्मरन् ॥६३३॥  
 श्रथ तस्माद्द्वानाद्गोहमागतो गुणमालया । मातु 'पिनुइव जाव वरागतिः कथिता मिथः ॥६३४॥  
 विवाहविधिना तौ च तां तस्याकृतां प्रियाम् । दिनानि का नचित्तत्र स्थित्वा जीवन्धरस्तया ॥६३५॥  
 सुखानि सह भुञ्जानः सर्वेवन्धुसमन्विताः । जनप्रस्तूयमानांरुमागयो गन्धगजं गिरिम् ॥६३६॥  
 १ विलयाद्रिं स्पमरुह्य चतुरङ्गवलावृतः । गृहं गन्धोत्कटाख्यस्य प्राविशाररमोदयः । ६३७॥  
 तदुत्सवं समाकर्ण्य स काष्ठाङ्गारिकः क्रुवा । पश्य वैश्यात्मजो मत्तो मताइव न विभेति मत् ॥६३८॥  
 इति प्रकाशकोपोऽभूत्तद्दीक्ष्य सचिबोत्तमाः । ज.वधकुमारोऽयं दैवादाविष्कृतोदयः ॥६३९॥  
 गन्धर्वदत्तया साक्षाल्लक्ष्म्येव समुपाश्रितः । यक्षेण कृतसंवृद्धिमित्रेणाम्यसिचारिणा ॥६४०॥  
 मधुरादिसहायैश्च सहितो यत्ततो महान् । अमेघविक्रमस्तेन विग्रहो नैव युज्यते ॥६४१॥  
 बलिना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विद्यते । हृश्यादियुक्तिमद्वाग्मिस्तमाश्रु समशीलाम् ॥६४२॥  
 इदमन्यदितः किंचित्प्रस्तुतं प्रतिपाद्यते । विदेहविषये खयातं विदेहाख्यं पुरं परम् ॥६४३॥  
 गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य पाता पातितविद्धिषः । तुक्पृथिव्यादिबुन्दर्यां राज्यां रत्नवती सती ॥६४४॥  
 चन्द्रकण्ठयने दक्षं माल्यालं करोम्यहम् । नेच्छाम्यन्यं पतिं कंचिद्दकरोदिति सङ्गरम् ॥६४५॥  
 तज्ज्ञास्वास्याः पिता चापवेद्वेद्युदितोदितः । जीवन्धरोऽद्य तत्कन्याभिमां तत्सन्धिभि नये ॥६४६॥  
 इति राजपुरं गत्वा सकन्यः सहस्राधनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधिं प्रति ॥६४७॥  
 तद्घोषणां समाकर्ण्य सर्वे भूखेघरेश्वराः । कन्यापरिग्रहायायानमंश्चु राजदरं प्रति ॥६४८॥

स्नेह वशा उसके पैर दाबने लगी । यह देख, वे सब राजकुमारों आश्चर्यमें पड़कर ब्राह्मणके आदिकी स्तुति करने लगे ॥६३२-६३३॥ इसके बाद ब्राह्मण-वेधवारो जीवन्धर कुमार व अपने घर आ गये और गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जावन्धरकुमारके आनेका स चार कह दिया ॥६३४॥ निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूर्वक विवाह कर उसे जीव कुमारकी प्रिया बना दी । इसके बाद वह जीवन्धर कुछ दिन तक वहींपर गुणमालाके रहा और सब भाई-बन्धुओंके साथ सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर सब लोग जि बड़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे ऐसे, उत्कृष्ट वैभवको धारण करनेवाले जीवन्धर कुम विजयगिरि नामक गन्धगजपर सवार होकर चतुरंग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्र किया ॥६३५-३६॥ इस उत्सवकी बात सुनकर काष्ठांगारिक बहुत कुपित हुआ । वह लगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वैश्यका लड़का मुझसे कुछ भी नहीं डरता है । इस प्रकार कर वह प्रकट रीतिसे क्रोध करने लगा । यह देख श्रेष्ठ मन्त्रियोंने उसे समझाया कि ये जीव कुमार हैं, पुण्यके उदयसे इन्हें अभ्युदयकी प्राप्ति हुई है, साक्षात् लक्ष्मीके समान गन्धर्वद सहित है, यक्षरूपी अखण्ड मित्रने इनकी वृद्धि की है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहि अतः महान् हैं और अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ द्वेष करना योग्य नहीं फिर बलवान्के साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है । इत्यादि युक्ति-पूर्ण वचनोंके मन्त्रियोंने काष्ठांगारिकको शीघ्र ही शान्त कर दिया ॥६३७-६४३॥

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि अब इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कथा और क हैं । विदेह देशमें एक विदेह नामका प्रसिद्धनगर है । राजा गोपेन्द्र उसकी रक्षा करते हैं, शत्रु नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम पृथिवीसुन्दरी है और उन दोनोंके एक रत्नवती ना कन्या है । रत्नवतीने प्रतिज्ञा की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अ कहूंगी—अन्य किसी पुरुषको अपना पति नहीं बनाऊंगी । कन्याकी ऐसी प्रतिज्ञा जानकर उ पिताने विचार किया कि इस समय धनुर्वेदको जाननेवाले और अतिशय ऐश्वर्यशाली जीवन् कुमार ही है अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ । ऐसा विचार कर वह राजा क साथ लेकर अपनी सब सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्व विधिकी घोषणा करा दी ॥६४४-६४७॥ उस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी और वि

स्वयंवरविधौ तस्मिन्शत्रुकथ्यधने नृपान् । रत्नकितांस्तान्बहून्वीक्ष्य जीवंधरकुमारकः ॥६४९॥  
 कृतसिद्धनमस्कारः स्वपुरोक्षार्थवर्षणः । त्रिधाय विनयं बाळमानुवर्षाद्यौलूकाः ॥६५०॥  
 स्थित्वा विभाद्वरस्तस्मिन्नक्षे स्खलनचञ्जितम् । कृतबेधो व्यथस्तिहनादं नादित्जदिकटम् ॥६५१॥  
 साधु विद्वन्मनेनेति प्राशंसन् प्रादिकानस्तदा । कण्ठे माळां कुमारस्य सा समासञ्जयन्मुदा ॥६५२॥  
 साधवस्तत्र योग्योऽयमनयोर्ननु संगमः । क्षरत्समयहंसाद्योरिवेति प्रीतिमागता ॥६५३॥  
 सर्वत्र विजयः पुण्यघतां को वात्र विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापन्ना मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥६५४॥  
 काष्ठाङ्गारिकमुख्यास्ते नीचा प्राप्तपरामयाः । प्राक्तस्मात्तदनुस्मृत्य दुष्प्रकोपप्रचोदिताः ॥६५५॥  
 पापास्तुमुल्युद्धेन कन्यामाहर्तुमुद्यताः । बुद्ध्वा जीवंधरस्तेषां वैषम्यं नचकोविदः ॥६५६॥  
 सत्यंधरमहाराजसामन्ताद्यन्तिकं तदा । प्राहिणोदिति संदिष्टात् दूतात् सोपायनात् बहून् ॥६५७॥  
 अहं सत्यंधराधीशाद्विजयायां सुतोऽभवम् । मत्पूर्वकृतदैवेन ताभ्यामुत्पत्त्यनन्तरम् ॥६५८॥  
 वियुक्तोऽस्मि चण्डिवर्षाणो समवर्षिणि । काष्ठाङ्गारिकपापीऽप्य काष्ठाङ्गारादिष्मिन्मत् ॥६५९॥  
 प्राणसंधारणं कुर्वन्पुण्ड्रवर्षिता कृतः । द्वितीयप्रकृतिर्नाचो लब्धरन्ध्रो दुराशयः ॥६६०॥  
 तमेवाहिरिवाहस्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छेद्यो न ममैवाञ्छु क्नुत्वाञ्जवतामपि ॥६६१॥  
 रसात्क गतोऽप्यद्य मयावश्यं हनिष्यते । सत्यंधरमहीशस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥६६२॥  
 यौघा पुष्टा महामात्र स्तेनान्ये चानुजीविनः । कृतघ्नमसुमुच्छेत्सुमर्हन्ति कृतवेदिनः ॥६६३॥

राजा उस कन्याके साथे विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥६४८॥ स्वयंवरके समय उस चन्द्रक यन्त्रके वेधनेमें अनेक राजा रखलित हो गये—चूक गये । उन्हें देख, जीवन्धर कुमार उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर अपने गुरु आर्यवर्माकी विनय की और फिर जिस प्रकार बालसूर्य उदयाचलके शिखरपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस चक्रपर आरूढ़ हो गये । उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी भूलके चन्द्रकयन्त्रका वेध कर दिया । और दिशाओंके तट तक गूँजेबाला सिंहनाद किया ॥ ६४९-६५१॥ उसी समय क्षत्रिय विधाके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने अच्छा निशाना मारा और कन्या रत्नवतीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहनायी ॥ ६५२॥ उस सभामें जो सबजन पुरुष विद्यमान थे वे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार शरद ऋतु और हंसावलीका समागम योग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोंका समागम भी योग्य हुआ है ॥६५३॥ जो बुद्धिमान् मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी विजय होती ही है इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ॥६५४॥ और जो काष्ठांगारिक आदि नीच मनुष्य थे वे जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट क्रोधसे प्रेरित हो रहे थे । वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे । नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विपत्तता जान ली जिससे उन्होंने उसी समय भेंट लेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुत-से दूत सत्यन्धर महाराजके सामन्तोंके पास भेजे ॥६५५-६५८॥ 'मैं सत्यन्धर महाराजकी विजया रानीसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ । अपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे मैं उत्पन्न होनेके दाद ही अपने माता-पितासे विद्युत् होकर गन्धोत्कट सेठके घरमें वृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ । यह पापी काष्ठांगार (क्रोयला) वेचकर अपनी आजीविका करता था परन्तु आपके महाराजने इसे सन्त्री बना लिया था । यह राजसी प्रकृति अत्यन्त नीच पुरुष है । छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरह उन्हें मार दिया और स्वयं उनके राज्यपर आरूढ़ हो गया । यह न केवल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य है परन्तु शत्रु होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है । यदि आज यह रसातलमें भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायेगा । आप लोग सत्यन्धर महाराजके सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं और कृतज्ञ हैं इसलिए आप तथा अन्य अनुजीवी लोग इस कृतघ्नको अवश्य ही नष्ट करें' ॥६५८-६६३॥

ते तत्संदेशमाकर्ण्य क्रुमारोऽयं नृपात्मजः । सत्यमेवेति संभाष्य बहवस्तेन संगताः ॥ ६६४ ॥  
 ततः संनद्धसैन्यः संस्तस्य गत्वोपरि स्वयम् । युध्वा नानाप्रकारेण चिरं निजित्य तद्बलम् ॥ ६६५ ॥  
 गिर्यन्तविजयं गन्धर्गजं समदमूजितम् । समाकूढः प्रकूढाजं काष्ठाङ्गारिकमुद्वृतम् ॥ ६६६ ॥  
 उपर्यशनिवेगास्त्रविख्यातकरिणः स्थितम् । ह्रस्वा चकार चक्रेण तनुशेषं क्वा द्विषम् ॥ ६६७ ॥  
 विलोक्य तद्बले मङ्गं भयाद्गुपगतेः सति । तदाकार्षीत्समाश्रयासं विधायाभयघोषणाम् ॥ ६६८ ॥  
 बन्धुन् सर्वान् समाहूय विनयेनावलोक्य तान् । तस्काकोचितसंभाषणादिभिः ह्लादमानयत् ॥ ६६९ ॥  
 जिनपूजां विनिर्घृत्य कृतमङ्गलसत्क्रियः । यक्षेण भूसुजैः सर्वैश्चासुराज्याभिवेचनः ॥ ६७० ॥  
 रत्नवत्या च संप्राप्य स विवाहमहोत्सवम् । कृत्वा गन्धर्वदत्ताया महत्याः पट्टबन्धनम् ॥ ६७१ ॥  
 नन्दाद्यादिसनानीतमातृजायादिमिथुनैः । संप्राप्य परमैश्वर्यमूर्तिवो निजितद्विषः ॥ ६७२ ॥  
 यथान्वायं प्रजाः सर्वाः पालयन्हेलयेपि सतान् । लीलायानुभवन् भोगान् स्वपुण्यफलितान् स्थितः ॥ ६७३ ॥  
 सुरादिमलयोद्याने कदाचिद्विहरन् विभुः । वरधर्मयतिं दृष्ट्वा संप्राप्य विहितानतिः ॥ ६७४ ॥  
 ततस्तत्त्वं विदित्वात्तत्रतोऽभूद्दर्शनेऽमलः । नन्दाढ्याद्याश्च सम्भक्तव्रतशीलान्युपागमन् ॥ ६७५ ॥  
 एतैः सुखमसौ स्वाप्तैः साकं कालमजीगमत् । अथाशोकवनेऽन्येद्युष्यमानं परस्परम् ॥ ६७६ ॥  
 करिनां यूथमाक्रीक्य उत्रलक्रीधहुताशनम् । जातसंसारनिर्वेगस्तस्मिन्नेव वनान्वरे ॥ ६७७ ॥  
 प्रहसन्नवक्त्रनामानं चारणं वीक्ष्य सादरम् । पूर्वश्रुतानुसारेण श्रुतात्मभवसन्ततिः ॥ ६७८ ॥

सामन्त लोग जीवन्धरकुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपु है। इस तरह सम्मान कर बहुत-से सामन्त उसके साथ आ मिले ॥६६४॥ तदनन्तर—अपन सेना तैयार कर जीवन्धरकुमारने स्वयं ही उसपर चढ़ाई की और चिरकाल तक नाना प्रकार का युद्ध कर उसकी सेनाको हरा दिया ॥६६५॥ जीवन्धर कुमार, मदनोन्मत्त तथा अतिश बलवान् विजयगिरि नामक हाथीपर सवार थे और जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई थी ऐसा उद्धत काष्ठांगारिक अशनिवेग नामक प्रसिद्ध हाथीपर आरूढ़ था। जीवन्धर कुमार ने क्रोधमें आकर चक्रसे शत्रु काष्ठांगारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भय भागने लगी तब जीवन्धर कुमारने अभय घोषणा कर सबको आश्रयसन् दिया ॥६६६-६६८॥ तदनन्तर कुमारने अपने सब भाई-बन्धुओंको बुलाया और सबको नम्र देखकर उस काल योग्य सम्भाषण आदिके द्वारा सबको हर्ष प्राप्त कराया ॥६६९॥ इसके बाद जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर उत्तम मार्गालिक क्रियाएँ की गयी और फिर यक्ष तथा सब राजाओं मिलकर जीवन्धर कुमारका राज्याभिवेक किया। तदनन्तर रत्नवतीके साथ विवाहका महोत्स प्राप्त कर-गन्धर्वदत्ताको महारानीका पट्टबन्ध बाँधा ॥६७०-६७१॥ नन्दाढ्य आदि जाक माता विजयाको तथा हेमाभा आदि अन्य दिव्यियोंको ले आये। उन सबके साथ जीवन्धर कुमा परम ऐश्वर्यको प्राप्त हुए। उस समय वे अतिशय बलवान् थे और जिसके समस्त शत्रु नष्ट दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाका नीतिपूर्वक पालन करते थे। अपने पुण्यके फलस्वरूप अनाया ही प्राप्त हुए इष्ट भोगोंका लीलापूर्वक उपभोग करते हुए सुखसे रहते थे ॥६७२-६७३॥ किस एक समय महाराज जीवन्धर सुरमलय नामक उद्यानमें विहार कर रहे थे वहाँपर उन्होंने वर धर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वोंका स्वरू जाना और व्रत लेकर सम्यग्दर्शनको निर्मल किया। नन्दाढ्य आदि भाइयोंने भी सम्यग्दर्शा व्रत और शील धारण किये। इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन आप जनोके साथ सुख समय बिताने लगे। तदनन्तर वे किसी एक दिन अशोक वनमें गये वहाँपर जिनकी क्रोधाग्नि प्रज्व लित हो रही थी ऐसे दो बन्दरोंके झुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये। उस वनके मध्यमें एक प्रशस्तवंक नामके चारण मुनि बिराजमान थे इसलिये जीवन्धर महाराजने वे आदरसे उनके दर्शन किये और पहले सुने अनुसार अपने पूर्वभवोंकी परम्परा सुनी ॥६७४-६७८॥

जिनपूजा विधायास्तु वर्धमानविशुद्धिकः । सुरादिमन्त्रोद्यानायानं वीरजिनेशितुः ॥६७९॥  
 श्रुत्वा विभूतिमद्गत्वा संपूज्य परमेश्वरम् । महादेवीतन्त्रज्ञाय दत्त्वा राज्यं यथाविधि ॥६८०॥  
 वसुधरकुमाराय वीतमोहो महामनाः । मातुलादिमहीपालैर्नन्दाह्वयमभुराद्रिभिः ॥६८१॥  
 सर्वसंगपरित्यागास्संयमं प्रत्यपद्यत । मुक्तभोगा हि निष्काङ्क्षा मन्वति भुवनेश्वरः ॥६८२॥  
 सत्वं वरमहादेव्या सहाष्टौ सद्दृशः स्तुषाः । सद्यो गन्धर्वदत्ताद्यास्तासामपि च मातरः ॥६८३॥  
 समीपे चन्दनार्याया जगद्गुः संयमं परम् । महानेकोऽभवद्धेतुर्बहुनामर्थसिद्धये ॥६८४॥  
 भवता परितृष्टोऽयं जीवंधरमुमीश्वरः । महीयान् सुतया राजन् संप्रति श्रुतकेवली ॥६८५॥  
 वालिकर्मणि विध्वंस्य जलित्वा गृहकेवली । सार्धं विहृत्य तीर्थेशा तस्मिन्सुक्तिमधिष्ठिते ॥६८६॥  
 विपुलाङ्गी हताशेषकर्मा शर्माप्रमेथ्यति । इष्टाष्टगुणसंपूर्णो निष्ठितात्मा निरञ्जनः ॥६८७॥  
 इत्याकण्यं सुधर्माख्यगणभृद्भचनामृतम् । प्रीतवान् श्रेणिकः दक्ष्य न धर्मः प्रीतये मवेत् ॥६८८॥

### शार्दूलचिक्रीडितम्

अन्यैर्यैः समवाप पूर्वसुकृतात्कन्याष्टकं दुर्लभं

यः शत्रुं पितृवार्तिर्न-रणमुखे लोकान्तरं प्रापयत् ।

यः प्रव्रज्य विभिन्नकर्मतिमिरोऽनासिष्ट मुक्तिप्रिया

तं वन्दे सुकृतीकृताञ्जलिहं जीवंधरं श्रीवहम् ॥६८९॥

वसन्ततिलका

विश्लेष्य षोडशदिनानि स मन्दसान-

शाचं विश्राय कर्णां विमतिः पितृभ्याम् ।

तदनन्तर उन्होंने जिन-पूजा कर अपनी विशुद्धता बढ़ायी । फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री वीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते ही बड़े वैभवके साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी पूजा की और गन्धर्वदत्ता महादेवीके पुत्र वसुधर कुमारके लिए विधिपूर्वक राज्य दिया । जिनका मोह शान्त हो गया है और जिनका मन अतिशय विशाल है ऐसे उन जीवन्धर महाराजने अपने मामा आदि राजाओं और नन्दाह्वय मधुर आदि भाइयोंके साथ परिग्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो राजा लोग भोग भोग चुकते हैं वे अन्तमें आकांक्षा रहित हो ही जाते हैं ॥६७९-६८२॥ सस्यदर्शनको धारण करनेवाली गन्धर्व-दत्ता आदि आठों रानियोंने तथा उन रानियोंकी भालाओंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्दना आर्याके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि एक ही बड़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥६८३-६८४॥ सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! तूने जिनके विषयमें पूछा था वे यही जीवन्धर मुनि-राज हैं, ये बड़े तपस्वी हैं और इस समय श्रुतकेवली हैं । वालिया कर्मोंको नष्ट कर ये अनपार-केवली होंगे और श्री महावीर भगवान्के साथ विहार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुला-चल पर्वतपर समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोक्षका उत्कृष्ट सुख प्राप्त करोगे—वहाँ ये अष्टगुणोंसे सम्पूर्ण, कृतकृत्य और निर्ञन—कर्म-कालिमासे रहित हो जावेंगे ॥६८५-६८७॥ इस प्रकार सुधर्माचार्य गणधरके वचनान्मृतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि धर्म-किसकी प्रीतिके लिए नहीं होता ? ॥६८८॥ जिन्होंने पूर्वं पुण्य कर्मके उदयसे अन्य लोगोंको दुर्लभ आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करनेवाले शत्रुको युद्धमें परलोक पहुँचाया, जिन्होंने दीक्षा लेकर कर्मरूपी अन्धकारको नष्ट किया और जो मुक्तिरूपी लक्ष्मीसे

संप्राप्य षोडशसमाः स्वसनाभिभेदं

जीवंधरः कुसुत तद्दुरितं न मन्याः ॥६२०॥

मालिनी

क स पितृनुपसृत्युः क इमशाने प्रसूति-

चंगिगुपगमनं क क स्वयक्षोपकारः ।

क तदुदयविधानं शशुघातः क चित्रम्

विधिविकसितमेतत्पश्य जीवंधरेऽस्मिन् ॥६११॥

हृत्पार्श्वे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्दनार्थिका-

जीवंधरचरितं नाम पञ्चसप्ततितमं पर्व ॥७५॥

सुशोभित हुए ऐसे लक्ष्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता ॥६२६॥ जीवन्धर कुमारने पूर्वभ्रममें मूर्खतासे दयाको दूर कर हंसके बच्चेको सोलह दिन उसके माता-पितासे अलग रखा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अ हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ॥६२०॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा सन्धन्धरकी सूर कहाँ इमशानमें जन्म लेना, कहाँ वैश्यके घर जाकर पत्नाना, कहाँ अपने द्वारा यक्षका उपक होना, कहाँ वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहाँ शशुका घात करना । इन जीवन्धर महाराजमें यह विचित्र कर्मोंका विपाक है ॥६६१॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें चन्दना आर्थिका और जीवन्धर स्वामीका चरित वर्णन करनेवाला यह पचहत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

## षट्सप्ततितमं पर्व

अध्याम्येद्युर्महावीरः सुरासुरपरिष्कृतः । विद्वल्य विविधान् देशान् पुनस्तत्पुरमागतः ॥१॥  
 गणैर्द्वादशभिः पूज्यः स्थितः स विपुलाचले । गच्छंस्तं श्रेणिकः स्तोतुं वृक्षमूलशिलातले ॥२॥  
 मुनिं धर्मरुचि नाम्ना निस्तरंगमिबोदधिम् । प्रदीपमिव निष्कम्पं साम्नुं वाग्मोदमुञ्जतम् ॥३॥  
 जितेभिर्द्रयसमाहारं पर्यङ्कविहितासनम् । ईषन्निरुद्धनिःश्वार्त्तं मनाहमीकितलोचनम् ॥४॥  
 ध्यायन्तं वीक्ष्य वन्दिन्वा साशङ्को विकृताननात् । ततो गत्वा जिनें प्राप्य स्तुत्वा मुकुलिताञ्जलिः ॥५॥  
 गौतमं च मया दृष्टः कश्चिदेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्त्वद्द्रूपेण व्यवस्थिता ॥६॥  
 स को मे कौतुकं तस्मिन् ब्रूहि नाथेत्यभाषत । अनुयुक्तो गणी तेन प्रोवाच वचसां पतिः ॥७॥  
 अस्त्यत्र विषयेऽङ्गाख्यः सगतेः सर्ववस्तुभिः । नगरी तत्र चम्पाख्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥८॥  
 श्रुत्वा धर्मं जिनादस्मात्त्रिनिर्वेगाहिताक्षयः । राज्यभारं समारोप्य सुते विमलवाहने ॥९॥  
 संयम बहुभिः-सार्धमत्रैव प्रतिपन्नवान् । चिरं मुनिगणैः सार्कं विद्वत्याखण्डसंयमः ॥१०॥  
 धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्वप्पनिशं जनैः । प्राप्तधर्मरुचिख्यातिः सख्य यत्सर्वजनतुषु ॥११॥  
 अद्य मासोपवासान्ते भिक्षार्थं प्राविशत्पुरम् । पुरुषाः संहतास्त्रत्र तस्मिन्पमित्ताख्यः ॥१२॥  
 नरलक्षणशास्त्रज्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य तं मुनिम् । लक्षणान्यस्य साम्राज्यपदवीप्राप्तिहेतवः ॥१३॥

अथानन्तर—सुर-असुरोंसे घिरे हुए भगवान् महावीर अनेक देशोंमें बिहार कर किसी दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे ॥१॥ बारह सभाओंसे पूज्य वे भगवान् विपुलाचल पर्वतपर विराजमान हुए । राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक शृक्षके नीचे शिलातलपर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा । वे मुनिराज निस्तरंग समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे और जलसहित मेषके समान उन्नत थे, जहाँमें इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यकासनसे विराजमान थे, आसोच्छ्वासको उन्होंने थोड़ा रोक रखा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे ॥२-४॥ इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर श्रेणिकने उनकी वन्दना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिकको कुछ शंका उत्पन्न हो गयी । वहाँसे चलकर वह भगवान् महावीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा । वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो ! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं वे ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात् ध्यान ही विराजमान हो । हे नाथ ! वे कौन हैं ? यह जाननेका मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है सो कृपा कर कहिए । इस प्रकार राजा श्रेणिकके द्वारा पूछे जानेपर वचनोंके स्वामी श्रीगणधर भगवान् इस प्रकार कहने लगे ॥५-७॥

इसी भरत क्षेत्रके अंग देशमें सर्व वस्तुओंसे सहित एक चम्पा नामकी नगरी है । उसमें राजा श्वेतवाहन राज्य करता था । इन्हीं भगवान् महावीर स्वामीसे धर्मका स्वरूप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर बहुत लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया । बहु दिन तक मुनियोंके समूहके साथ बिहारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आ विराजमान हुए हैं ये दश धर्मोंमें सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगोंके द्वारा धर्मरुचिके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जो सर्व जीवोंमें होती है ॥८-११॥ आज ये मुनि एक महीनेके उपवासके बाद नगरमें भिक्षाके लिए गये थे वहाँ तीन मनुष्य मिलकर इनके पास आये । उनमें एक मनुष्य मनुष्योंके लक्षण शास्त्रका जानकार था, उसने इन मुनिराजको देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पदवीके कारण है परन्तु ये भिक्षाके लिए भटकते फिरते हैं इसलिए शास्त्रमें जो कहा है वह भूठ मालूम होता है । इसके उत्तरमें दूसरे



अटत्येष च भिक्षायै शास्त्रोक्तं तन्मृषेत्यसौ । वदन्नभिहितोऽन्येन न मृषा शास्त्रभाषितम् ॥१४॥  
 त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽयमृषिः केनापि हेतुना । निर्विण्णस्त्वनये बाले निचाय व्यापृतिं निजाम् ॥१५॥  
 एवं तपः करोतीति श्रुत्वा तद्बचनं परः । अवोचत्किमनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥१६॥  
 दुरात्मनः कृपां हित्वा बालं तमसंमर्थकम् । लोकसंव्यवहारज्ञं स्थापयित्वा धरातले ॥१७॥  
 स्वयं स्वार्थं संसुद्दिश्य तपः कतुमिहागतः । मन्त्रिप्रभृतिभिः सर्वैः कृत्वा तं शृङ्खलावृत्तम् ॥१८॥  
 राज्यं विमज्य तत्सर्वैरं पापैस्तदनुभूयते । इति तद्बचनं श्रुत्वा स्नेहमानप्रचोदितः ॥१९॥  
 अमुञ्जानः पुरादाशु निवृत्त्यैत्य वनान्तरे । वृक्षमूलं समाश्रित्य बाह्यकारणसंनिधौ ॥२०॥  
 अन्तःक्रोधकषायानुमागोऽस्पृशकोदयात् । संक्षेपाध्यवसानेन वर्धमानत्रिलेख्यकः ॥२१॥  
 मन्त्र्यादिप्रतिकूलेषु हिंसाद्यखिलनिग्रहान् । ध्यायन् संरक्षणानन्दरौद्रध्यानं प्रविष्टवान् ॥२२॥  
 अतः परं सुहृत्तं चेद्देवमेव स्थितिं भजेत् । आयुषो नारकस्यापि प्रायोग्योऽयं भविष्यति ॥२३॥  
 ततस्त्वयाशु संबोध्यो ध्यानमेतत्पञ्चाशुभम् । धमय क्रोधदुर्बुद्धिं मोहजालं निराकुरु ॥२४॥  
 गृहाण संयमं त्यक्तं पुनस्त्वं मुक्तिसाधनम् । दारदारकबन्ध्वादिंसंबन्धनमबन्धुम् ॥२५॥  
 संसारवर्धनं साधो जहीहीत्येवमादिभिः । युक्तिमद्भिर्वचोभिः सप्रत्यवस्थानमाप्तवान् ॥२६॥  
 शुक्लध्यानाग्निनिर्दग्धघातिकर्मघनाटविः । नवकेवललब्धिद्विशुद्धभावो भविष्यति ॥२७॥  
 इत्थसौ च गणाधीशवचनान्मगधाधिपः । गत्वा तदुक्तमार्गेण सद्यः प्रासादयन्मुनिम् ॥२८॥  
 सोऽपि संप्राप्य सामग्रीं कषायक्षयक्षान्तिजाम् । द्वितीयशुक्लध्यानेन कैवल्यमुदपादयत् ॥२९॥

मनुष्यने कहा कि शास्त्रमें जो कहा गया है वह भूठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्त्रका त्याग क ऋषि हो गये हैं। किसी कारणसे विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बालक—छोटे बचको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है और स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपश्चर कर रहे हैं। इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि 'इसका तप पापका कारण है अ इससे क्या लाभ है? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर लोकव्यवहारसे अनभि असमर्थ बालकको राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करने लिए आया है। मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रखा है और राज्य विभाग कर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं'। तीसरे मनुष्यके उ वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह और मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बि ही नगरसे लौटकर वनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बैठे हैं ॥१२-२०॥ बाह्य कारणोंके मिलने उनके अन्तःकरणमें तीव्र अनुभागवाले क्रोध कषायके स्पर्धकोंका उदय हो रहा है। संक्लेश परिणामोंसे उनके तीन अशुभ लेश्याओंकी वृद्धि हो रही है। जो मन्त्री आदि प्रतिकूल हो हैं उनमें हिंसा आदि सब प्रकारके निग्रहोंका चिन्तन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौ ध्यानमें प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि अब आगे अन्तसुहृत्त तक उनकी ऐसी ही स्थिति रही तो वे नर आयुका बन्ध करनेके योग्य हो जावेंगे ॥२१-२३॥ इसलिए हे श्रेणिक! तू शीघ्र ही जाकर उ समझा दे और कह दे कि हे साधो! शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्नि शान्त करो, मोहके जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रखा है उ फिरसे ग्रहण करो, यह स्त्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोह है तथा संसारका बड़ा वाता है। इत्यादि युक्ति पूर्ण वचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर। तेरे उपदेशसे वे पुनः र रूपमें स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया कर्मरूपी सघन अटवीको भस्म देंगे और नव केवललब्धिघोसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभावके धारक हो जावेंगे ॥२४-२७॥ गण महाराजके उक्त वचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिके पास गया और उनके वताये मार्गसे उन्हें प्रसन्न कर आया ॥२८॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके क्षयसे उत्पन्न होनेवाली शा उत्पन्न सामग्री प्राप्त कर द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥२

तदा पूजां समायातैः श्रेणिको वृत्रहादिभिः । सह धर्मैरुचैः कृत्वा पुनर्वीरं समाश्रितः ॥३०॥  
 भरते कोऽत्र पाश्चात्यः स्तुत्यः केवलवीक्षणः । इत्यप्राक्षीद्वृणी चैवं विचक्षुरमवत्तदा ॥३१॥  
 ब्रह्मकल्पमधिपो ब्रह्महृदयस्थविमानजः । विद्युन्माली वृकन्मौलिः प्रियस्वायुक्तिदर्शने ॥३२॥  
 विद्युदादिप्रभावेगे देव्योऽप्यनाश्रयस्य तद्वृतः । जिनमागत्य बन्दिदत्वा यथास्थानमुपाविशत् ॥३३॥  
 तं निरूप्य परिच्छेदीनेन स्यात्केवलद्युतेः । तत्कथं चेद्दृष्टव्यामि दिनेऽस्मात्सप्तमे दिनात् ॥३४॥  
 ब्रह्मेन्द्रोऽयं दिवोऽभ्येत्य पुरेऽस्मिन्नव वारणम् । सरः शालिवनं निर्धुमानलं प्रवृकच्छिखरम् ॥३५॥  
 धुङ्कुमारसमानीयमानजम्बूफलानि च । स्वप्नानेतान् पुरः कुर्वन्महादासमिधानकात् ॥३६॥  
 इभ्यात् कृती सुतो भावी जिनदास्यां महायुतिः । जम्बूवाख्योऽनावृताहेवादासपूजोऽतिविश्रुतः ॥३७॥  
 विनीतो यौवनारम्भेऽप्यनाविष्कृतचिक्रियः । वीरः पावापुरे तस्मिन् काले प्राप्यत्यति निर्दुर्तिम् ॥३८॥  
 तदैवाहमपि प्राप्यं बोधं केवलसंज्ञकम् । सुधर्माख्यगणेशेन सार्धं संसारबन्धिना ॥३९॥  
 करिष्यन्नतितप्तानां ह्लादं धर्माश्रुताम्बुना । इदमेव पुरं भूयः संप्राप्यात्रैव भूधरे ॥४०॥  
 स्थास्याग्येतस्समाकर्ण्यं कुणिकश्रेणिनीसुतः । तत्पुराधिपतिः सर्वपरिचारपरिष्कृतः ॥४१॥  
 आगत्याभ्यर्च्यं बन्दिदत्वा श्रुत्वा धर्मं ग्रहीष्यति । दानशीलोपवासादि साधनं स्वर्गमोक्षयोः ॥४२॥  
 जम्बूनामापि निर्वेदात्प्रव्रज्याग्रहणोत्सुकः । सहैवाल्पेषु वर्षेषु व्यतीतेषु वर्षं त्वया ॥४३॥  
 सर्वे दीक्षां ग्रहीष्याम इति बन्धुजनोदितम् । सोऽग्रकुवन्निराकतुमायास्यति पुरं तदा ॥४४॥  
 मोहं विधिस्तुभिरस्तस्य बन्धुभिः सुखबन्धनः । आरप्यते विवाहस्तैः श्रेयोचिन्ता हि बन्धव ॥४५॥

उसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिक-  
 ने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की और फिर वह भगवान् वीरनाथके पास आया ॥३०॥  
 आते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य  
 केवलज्ञानी कौन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ  
 देदीप्यमान मुकुटका धारक विद्युन्माली नामका ब्रह्मस्वर्गका इन्द्र आ पहुँचा, वह इन्द्र ब्रह्महृदय  
 नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, प्रियदर्शना, सुदर्शना, विद्युद्रेगा और प्रभावेगा ये चार उसकी  
 देवियाँ थीं, उन सबके साथ वह वहाँ आया था । आकर उसने जिनेन्द्र भगवान्की बन्दना  
 की । तदनन्तर यथास्थान बैठ गया । उसकी ओर दृष्टिपात कर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे  
 कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवलज्ञानका विच्छेद हो जायगा अर्थात् इसके बाद फिर कोई केवल  
 ज्ञानी नहीं होगा । वह किस प्रकार होगा यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ,  
 सुनो । आजसे सातवे दिन यह ब्रह्मेन्द्र, स्वर्गसे उच्युत होकर इसी नगरके सेठ अर्हदासकी स्त्री  
 जिनदासीके गर्भमें आवेगा । गर्भमें आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी— हाथी, सरोवर,  
 सावलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है ऐसी धूम रहित अग्नि और देव-कुमारोंके  
 द्वारा लाये हुए जासुनके फल । यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कान्तियान् होगा, जम्बूकुमार  
 इसका नाम होगा, अनावृत देव उसकी पूजा करेगा, वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा,  
 और यौवनके प्रारम्भसे ही वह विकारसे रहित होगा । जिस समय भगवान् महावीर स्वामी  
 मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान प्राप्त होगा । तदनन्तर सुधर्माचार्य गणधरके  
 साथ संसाररूपी अग्निसे सन्तप्त हुए पुरुषोंको धर्माश्रुत रूपी जलसे आनन्दित करता हुआ मैं  
 फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पर्वतपर स्थित होऊँगा । मेरे आनेका समाचार सुनकर  
 इस नगरका राजा चैलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा और पूजा-बन्दना कर  
 तथा धर्मका स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मोक्षका साधनभूत दान, शीलोपवास आदि धारण  
 करेगा ॥३१-४२॥ उसी समय जम्बूकुमार भी विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए उत्सुक  
 होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समझावेगे कि थोड़े ही वर्षोंके व्यतीत होनेपर हम लोग  
 भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे । भाई-बन्धुओंके इस कथनको वह टाल नहीं सकेगा  
 और उस समय पुन नगरमें वापस आ जावेगा । तदनन्तर भाई-बन्धु लोग उसे मोहमें

सुता सागरदत्तस्य पद्मावत्यां सुलक्षणा । पद्मश्रीरपरा श्रीर्वा कनकश्रीः शुभेक्षणा ॥४६॥  
 सुता कुबेरदत्तस्य जाता कनकमालया । वीक्ष्या विनयवत्याश्च या वैश्रवणदत्तजा ॥४७॥  
 विनयश्री रैदत्तस्य रूपश्रीश्च धनश्रियः । आभिः सागरदत्तादिपुत्रिकाभिर्मिथ्याविधि ॥४८॥  
 सौभागारे निरस्तान्धकारे सन्मणिदीप्तिभिः । विचित्ररत्नसंचूर्णरङ्गवल्लीविभूषिते ॥४९॥  
 नानामुरमिपुष्पोपहाराढ्य जगतीतले । स्थास्थत्यास्रविवाहोऽयं पाणिग्रहणपूर्वकम् ॥५०॥  
 सुवो ममार्थं राणेण प्रेरितो विकृतिं भजन् । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिमान् किं भवेन्न वा ॥५१॥  
 इत्यात्मानं तिरोभाय पश्यन्तीं स्थास्यति स्निहा । माता तस्य तदैवैकः पापिष्ठः प्रथमाज्ञकः ॥५२॥  
 सुरम्यविषये ख्यातपौदनाख्यपुरेऽग्निनः । विद्युद्वाजस्य तुग्विद्युत्प्रभो नाम मटाग्रणीः ॥५३॥  
 तीक्ष्णो विमलवत्याश्च क्रुधा केनापि हेतुना । निजाग्रजाय निर्गत्य तस्मात्पञ्चशतैर्मटैः ॥५४॥  
 विद्युत्चोराह्वयं कृत्वा स्वस्थ प्राप्य पुरीसिमाम् । जानन्नदृश्यदेहत्वकवाटोद्घाटनादिकम् ॥५५॥  
 चोरशास्त्रोपदेशेन तन्त्रमन्त्रविधानतः । अर्हद्दासपृहाभ्यन्तरस्थं चोरयितुं धनम् ॥५६॥  
 प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां जिनदासीं विचोक्त्य सः । निवेद्यात्मानमेवं किं विनिद्रासीति वक्ष्यति ॥५७॥  
 सूनुर्ममैक एवायं प्रातरेव तपोधनम् । अर्हं गमीति संकल्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥५८॥  
 धीमानसि यदीमं त्वं ज्ञ्यात्रयस्वाग्रहात्ततः । षपाथैरद्य ते सर्वं धनं दास्याभ्यमीप्सितम् ॥५९॥  
 इति वक्त्री भवेत्सापि सोऽपि संप्रतिपद्य तत् । एवं संपन्नभोगोऽपि किलैष चितिरंसति ॥६०॥

फँसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक ही क्योंकि भाई-बन्धु लोग कल्याणमें विघ्न करते ही हैं ॥४३-४५॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठ पद्मावती स्त्रीसे उत्पन्न हुई उत्तम लक्ष्णोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मी समान जान पड़ती है । इसीप्रकार कुबेरदत्त सेठकी कनकमाला स्त्रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रोंव कनकश्री नामकी कन्या है । इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयवती स्त्रीसे उत्पन्न देखनेके योग्य विनयश्री नामकी पुत्री है और इसके सिवाय धनदत्त सेठकी धनश्री स्त्रीसे उत्पन्न हुई रूपश्री नामकी कन्या है । इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधिपूर्वक विवाह होगा तदनन्तर पाणिग्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकों द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे निर्मित रंगावली सुशोभित है और अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंके उपहारसे सहित है ऐसे महलके भी पृथिवी तलपर बैठेगा । 'मेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुआ म मुसकान तथा कटाक्षावलोकन आदिसे युक्त होता है या नहीं' यह देखनेके लिए उसकी मा स्नेहवश अपने-आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी । उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध पोदनपुर नगरके स्वामी विद्युद्वाजकी रानी विमलमतीसे उत्पन्न हुआ विद्युत्प्रभ नामक च आवेगा । वह विद्युत्प्रभ महापापी तथा नम्बर एकका चोर होगा, शूरवीरोंमें अग्रेसर व तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा । वह किसी कारणवश अपने बड़ेभाईसे कुपित होकर पाँच-सौ योद्धा के साथ नगरसे निकलेगा और विद्युत्चोर नाम रखकर इस नगरमें आवेगा । वह शास्त्रके अनुसार तन्त्र-मन्त्रके विधानसे अदृश्य होकर किवाड़ खोलना आदि सब काय जानकार होगा और सेठ अर्हद्दासके घरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके घर आवे वहाँ जम्बूकुमारकी माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहेगा कि इतनी रात तक क्यों जाग रही है ? ॥४६-५७॥ इसके उत्तरमें जिनदासी कहेगी कि 'मेरे एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सवेरे ही दीक्षा लेनेके लिए तपोवनको जाऊँगा' इसीलिए सुझे शोक हो रहा है । यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायोंसे इसे आग्रहसे छुड़ाता है—इसका दीक्षा लेनेका आग्रह दूर करता है तो आज मैं तुझे तेरा मनचा सब धन दे दूँगी । जिनदासीकी बात सुनकर विद्युत्चोरने यह कार्य करना स्वीकृत किया । तदन-

धिक्क मां धनमिहाहर्तुं प्रविष्टमिति निन्दनम् । स्वस्य कुर्वन् गताशङ्कः संप्राप्यातु तदन्तिकम् ॥६१॥  
कन्यैकानां कुमारं तं तासां मन्थमधिष्ठितम् । विजम्ममाणसद्बुद्धिं पञ्जरस्थमिवाण्डजम् ॥६२॥

जाळकनैपथीभं वा भद्रं वा कुञ्जराधिपम् । अपारकर्दभं मग्नं सिंहं वा कोहपंजरं ॥६३॥

निवृद्धं कब्धनिर्वर्गं प्रत्यासन्नमवक्षयम् । विद्युच्चोरः समीक्ष्यैवं त्रकोष्ठाख्यानकं सुधीः ॥६४॥

कुमारः श्रयतां कश्चिदेकदा स्वेच्छया, चरन् । गिरेः क्रमेककः स्वादु तृणं तुक्त्वात्प्रदेवतः ॥६५॥

पतन्मधुरसोमिभ्रमास्वाद्य सकृदुत्सुकः । तादृगेवाह रिव्यामीत्येतत्पातामिवाण्डया ॥६६॥

तृणान्तरपथोद्यादिपराद्मुखतया स्थितः । मृतस्तथैव च वैतान् भोगान् भोजतुमुपस्थितान् ॥६७॥

अनिच्छन् स्वर्गभोगार्थां मविता रहितो धिया । इत्यैकागारिकप्रोक्तं तदाकर्ण्य वणिग्वरः ॥६८॥

प्रतिवक्ता स तं चोरं स्पष्टदृष्टान्तपूर्वकम् । नरः कश्चिन्महादाहवरेण परिपीडितः ॥६९॥

नदीसरस्तटाकादिपयः पीत्वा सुदुर्मुहुः । तथाप्ययत्तृष्णः किं तृणाग्रस्थाम्बुविन्दुना ॥७०॥

तृप्तिं प्राप्नोत्यसौ वायं जीवो दिव्यसुखं चिरम् । भुक्त्वाऽप्रतृप्तः स्वप्नेऽपि गलकण्ठास्थिरात्मना ॥७१॥

सुखेनासाधुमानेन कथं तृप्तिमवाप्नुयात् । इति तद्वाचमाकर्ण्य चोरोऽनुव्याहरिष्यति ॥७२॥

वने वनेचरक्षण्डः कृत्वाधारं महाद्रुमम् । गण्डान्ताकृष्टकोदण्डः काण्डेनाखण्डय चारणम् ॥७३॥

महीरुट्कोटरस्थेन संदष्टः फणिना स्वयम् । स चाहिं च गर्जं जालो गत्यन्तरमजीगमत ॥७४॥

अथ सर्वान् मृतान् दृष्ट्वा 'तान्कोष्टैकोत्तिल्लब्धकः । तावदेतानहं नाग्निं स्नायुं मौर्वीद्व्याग्रगम् ॥७५॥

वह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भोग-न्सामग्री रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं और मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुझे धिक्कार हो । इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्युच्चोर निःशंक होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए जीवन्धर कुमारके समीप पहुँचेगा । उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, उन कन्याओंके बीचमें बैठा हुआ ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथवा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा हुआ उत्तम जातिवाला गजराज ही हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिंह ही हो । वह अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार-भ्रमणका क्षय-अत्यन्त निकट था । ऐसे उस जम्बूकुमार-को देखकर बुद्धिमान् विद्युच्चोर ऊँटकी कथा कहेगा ॥५८-६४॥ वह कहेगा कि हे कुमार ! सुनिए, किसी समय कोई एक ऊँट स्वेच्छासे मीठे तृण चरता हुआ पहाड़के निकट जा पहुँचा । जहाँ वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पड़ते हुए मधुके रससे भिल जानेके कारण मीठी हो रही थी । उस ऊँटने एक बार वह मीठी घास खायी तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी ही घास खालूँगा । इस संकल्पसे वह मधुके पड़नेकी इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके उपभोग आदिसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तदनन्तर भूखसे पीड़ित हो मर गया । इसी प्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेक्षा कर स्वर्गके भोगोंकी इच्छा करता है सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रहित है । इस प्रकार विद्युच्चोरके द्वारा कही हुई ऊँटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले वरसे पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या तृणके अग्रभागपर स्थित जलकी बूँदसे उसकी तृप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोगे हैं फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ सो क्या हाथीके कानके समान चंचल इस वर्तमान सुखसे यह तृप्त हो जायेगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्युच्चोर फिर कहेगा ॥६५-७२॥ कि किसी वनमें एक चण्ड नामका भील रहता था । उसने एक बड़े वृक्षको आधार बनाकर अर्थात् उसपर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथीको मार गिराया । इतनेमें ही उस वृक्षकी कोटरसे निकल कर एक साँपने उसे काट खाया । काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस साँपको भी मार डाला । इस तरह हाथी और साँप दोनोंको मारकर वह स्वयं मर गया । तदनन्तर उन

खादामीति कृतोद्योगस्तच्छेदमकरोद्विधीः । सचश्चापामनिमित्तगलः सोऽपि वृथा मृतः ॥७६॥  
 ततोऽतिगुञ्जुता व्याज्येयस्थोक्तिविरतौ सुधीः । कुमारः स्मृतिमाधाय सूक्तं<sup>१</sup> प्रत्यभिधास्यति ॥७७॥  
 चतुर्भागसमायोगदेशमध्ये महाद्युतिम् । रत्नराशिं समभ्येत्य सुग्रहं पथिको विधीः ॥७८॥  
 तदानादाय केनापि हेतुना गतवान्पुत्रः । समादिस्सुस्तभागवत्य किं तद्देशं कमेत सः ॥७९॥  
 तथा दुष्प्रापमालोक्य गुणमागिन्वयसंचयम् । अस्वीकुर्वन् कथं पश्चात्प्राप्तुयाद्भववारिधौ ॥८०॥  
 तदुदीरितमेतस्य कृत्वा चित्त परस्त्रहन् । वदिष्यति तदाख्यानमन्यदन्त्यायसूचनम् ॥८१॥  
 शृगाळः कश्चिदास्यस्थं मांसपिण्डं विसृष्टवान् । संकीडमानमोनादानेच्छुर्निपतितोऽम्मसि ॥८२॥  
 तद्गणत्रयवाहेण प्रयंमाणोऽगमन्मृतिम् । ततो मीनोऽपि दीर्वायुञ्जलमध्ये स्थितः सुखम् ॥८३॥  
 एवं शृगालवल्गुभो मुग्धोऽन्योऽपि विनश्यति । इति तस्करमुख्योक्तिमाकण्ठ्यानाकुलारमकः ॥८४॥  
 प्रत्यासन्नविनेयत्वाद्भवः प्रतिमणिष्यति । निद्रालुको वणिक्कश्चिद्रासुखविमोहितः ॥८५॥  
 सुतः परार्धमागिन्वयगर्भकश्रपुटे निजे । चोरैरपहृतोऽनेन दुःखेनामृतदुर्मृतिः ॥८६॥  
 विषयात्पसुखेष्वेवं संसक्तो रागचोरकैः । ज्ञानदर्शनचारित्ररत्नेष्वपहृतेष्वयम् ॥८७॥  
 जन्मो नश्यति निर्मूलमित्यतः स गदिष्यति । स्वमातुलानीदुर्वाक्यकोपाक्कांविन्सुमूर्षुकाम् ॥८८॥  
 वृक्षमूले स्थितं वीक्ष्य सर्वाभरणभूषिताम् । अज्ञातोद्वन्धनोपायामाकुलाकुलचेतसम् ॥८९॥  
 सुवर्णदारको नाम पापी मादंज्जिकस्तदा । तदाभरणमादिस्सुमूर्षुदंष्ट्रं स्वं तरोरथः ॥९०॥

सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया । वह सोचने लगा कि मैं पहले इन सब नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोरपर लगी हुई ताँतको खाता हूँ । ऐसा विचार कर मूर्खने ताँतको काटा ही था कि उसी समय धनुषके अग्रभागसे उसका गला फट गया और व्यर्थ ही मर गया । इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार कहकर चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान् जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा ॥७३-७७॥ कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहेपर महा देदीप्यमान रत्नोंकी राशि मिली, उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था परन्तु किसी कारणवश उसे बिना ही चला गया । फिर कुछ समय बाद उसे लेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहेपर आया क्या वह उस रत्नराशिको पा सकेगा ? अर्थात् नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसा रूपी समुद्रमें दुर्लभ गुणरूपी मणियोंके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा ? अर्थात् नहीं पा सकेगा ॥७८-८०॥ जम्बूकुमारके द्वा कही हुई बातको हृदयमें रखकर विद्युच्चोर अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कहे ॥८१॥ वह कहेगा कि एक शृगाल मुखमें मांसका टुकड़ा दबाकर पानीमें जा रहा था क्रीड़ा करती हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने वह मांसका टुकड़ा छोड़ दिया और पा में कूद पड़ा । पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः वह उसीमें बहकर मर गया उसके मरने बाद दीर्घायुमछली पानीमें सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूर्ख, शृगालके समान लोभी होत है वह अवश्य ही नष्ट होता है । इस तरह विद्युच्चोरकी बात सुनकर निकट भव्य होनेके कार जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई है ऐसा जम्बूकुमार कहेगा कि निद्रालु प्रकृतिका एक वैद नींदके सुखसे विमोहित होकर सो गया और चोरोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य चुरा लिये । इसी दुःखसे वह मर गया । इसी प्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़ेसे सुखों आसक्त हो रहा है और रागरूपी चोर इसके ज्ञान-दर्शन तथा चारित्ररूपी रत्न चुरा रहे हैं इन रत्नोंकी चोरी होनेपर यह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है । इसके उत्तरमें वह चोर कहे कि कोई स्त्री सासके दुर्बचन सुनकर क्रोधित हुई और मारनेकी इच्छासे किसी वृक्षके नीचे बैठी । वह सब आभूषणोंसे सुशोभित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसक चित्त बढ़ा ही व्याकुल हो रहा था ॥८२-८९॥ उसी समय सुवर्णदारक नामका मृदंग बजानेवाला

स्थापयित्वा समाह्वय स्वगलोदबद्धरज्जुकः । उदयन्धनक्रमं तस्या दर्शयन् मृत्युचोदितः ॥११॥  
 मृदङ्गे पतिते भूमौ सद्यः केनापि हेतुना । रज्जुपाताविकीभूतकण्ठः प्रोद्भूतलोचनः ॥१२॥  
 प्राप्येतात्त्रिबासं तद्वीक्षयात्तौ दुर्मूर्तेर्भयात् । आयाद्गृहमतस्तद्ब्रह्मोभौ हेयो महासंख्यया ॥१३॥  
 इत्यस्य सोऽपि वाजाकमसौढोदाहरिष्यति । किल धूर्तवितं वीक्ष्य कलितान्नाभिधानकम् ॥१४॥  
 कस्यचित्सा महादेवी जाता मदनविह्वला । तद्विदानयनोपायनिरन्तरमित्युक्तया ॥१५॥  
 तद्वास्या पुत्रमानीतः पथिकोऽन्तः प्रवेक्षितः । सह तेन महादेवी रसमाणा यथेप्सितम् ॥१६॥  
 अहोमिबहुमिज्ञाता कुर्वेः शुद्धान्तरक्षिभिः । तन्मुखात्तद्दुराचारे राज्ञापि विदिते सति ॥१७॥  
 जारापनयनोपायमाज्ञासाः परिचारिका । अवस्करगृहं नीत्वा सा तं तन्नाक्षिपन्खलम् ॥१८॥  
 स दुर्गन्धेन तज्जन्तुमिश्रं दुःखमवाप्नुवन् । अत्रैव नरकावासमाप्तवान् पापपाकतः ॥१९॥  
 तद्ददृशसुखस्याभिलाषिणो नरकादिषु । सधन्ति दुस्तरापाारघोरदुःखा गतिध्विति ॥२०॥  
 पुनः कुमार एवैकं प्रपञ्चाद्यादित्वा स तम् । येन संसारनिर्गमो जायते सहसा ॥ सताम् ॥२१॥  
 श्राम्यन्संसारकान्तारे मृत्युमत्तद्विप्रेक्षिना । क्वा जिघांसुना जन्तुरनुपातोऽतिभीलुकः ॥२२॥  
 पलायमानो मानुष्यमूहहान्तर्हितात्मकः । तन्मूले कुकभोत्रादिनानावह्योसमाकुले ॥२३॥  
 जन्मकृपं पतिव्याधुर्बह्नीकनशरीरकः । सितासितादिनानेकमषकोच्छेद्यतल्लुकः ॥२४॥  
 नरकन्याचवन्नरोहसर्पससकलनिधिः । तद्भूजेष्टायंसूनोत्थसौख्यक्षौद्रसोऽसुकः ॥२५॥

पापी मृत्युसे प्रेरित हो वहाँसे आ निकला । वह उस स्त्रीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए वृक्षके नीचे अपना मृदंग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे मरनेकी रीति दिखलाने लगा । उसने अपने गलेमें रस्सी बाँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका मृदंग जमीनपर लुढ़क गया । फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया और आँखें निकल आयीं । इस प्रकार वह मरकर यमराजके घर गया । उसका मरण देख वह स्त्री उस दुःखदायी मरणसे डर गयी और अपने घर वापस आ गयी । कहनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस मृदंग यजानेवालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिए ॥१०-२३॥ इस प्रकार उस चोरका वागजाल जन्मकुमार सहन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कहेगा । वह कहेगा कि ललितानां नामके किसी धूर्त व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे विह्वल हो गयी । उसने किसी भी उपायसे उस पथिकको लानेके लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूपसे महलके भीतर ले गयी । महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोने रानीकी यह बात जान ली और उनके कहनेसे राजाको भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ १४-१५॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेवकोंको आज्ञा दी । यह जानकर रानीने उसे दृष्टीमें ले जाकर छिपा दिया । वहाँकी दुर्गन्ध और कीड़ासे वह वहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कर्मके उदयसे इसी जन्ममें नरकवासके दुःख भोगने लगा ॥१८-१९॥ इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं और वहाँके दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥२०॥ इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीघ्र ही निर्वेग हो जाता है ॥२१॥ वह कहेगा कि एक जीव संसाररूपी धनमें धूम रहा था । एक मदनोन्मत्त हाथी क्रोधवशा उसे मारनेकी इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा । वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्यरूपी वृक्षकी आड़में छिप गया । उस वृक्षके नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्मरूपी कुआँ था । वह जीव उस जन्मरूपी कुएँमें गिर पड़ा परन्तु आयुरुपी लतामें उसका शरीर उलझ गया जिससे नीचे नहीं जा सका । वह आयुरुपी लताको शूक्रपक्ष और कृष्णपक्षके दिनरूपी अनेक चूहे कुतर रहे थे । सातों नरकरूपी सर्प ऊपरकी ओर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा

१ पथिकान्तप्रदेक्षिना ल० ( ? ) । २ परिचायका ल० । ३ -मवाप्नुयात् ग० । ४ सतम् ल० । ५ सन्निधिम् ल० ।

तद्रूपहोत्थापितात्युग्रव्यापन्माक्षिकमक्षितः । तत्संसेवां सुखं मत्वा कष्टं सर्वोऽपि जीवति ॥१०६॥  
 विधोर्विषयसंसक्तो धीमानपि कथं तथा । वर्तते त्यक्तसंगः सन्नकुर्वन्दुर्वहं तपः ॥१०७॥  
 इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य माता क्रम्याश्च तस्करः । तनुसंसारभोगेणु ग्रातारोऽतिविरागताम् ॥१०८॥  
 तदा तमः समाधुय भासमानो दिवाकरः । योजयन् प्रियया कोकं कुमारमिव दीक्षया ॥१०९॥  
 कौन्तिजैः कुमारस्य मनो वास्पृश्य रक्षयन् । उद्यमस्तपसीवोच्चैः शिखरैऽङ्गुरुद्वयम् ॥११०॥  
 सर्वसंतापकृतीक्षणकरः क्रूरोऽनवस्थितः । रविः कुवलयध्वंसी मज्जिता कुट्टरीपमाम् ॥१११॥  
 नित्योदयो बुधाधीशो विशुद्धाखण्डमण्डलः । पद्माह्लादी प्रवृद्धोष्मा सुराजानं स ज्येयति ॥११२॥  
 ज्ञात्वा संसारवैसुख्यं कुमारस्यास्य बान्धवाः । तदा कुणिमहाराजः श्रेणयोऽष्टादशपि च ॥११३॥  
 सहानावृतदेवेन परिनिष्क्रमणं प्रति । अभिषेकं करिष्यन्ति संगता मङ्गलैर्जलैः ॥११४॥  
 तत्कालोचितवेधोऽसौ शिविकां देवनिर्मिताम् । आरुह्य भूतिमत्योच्चैर्विपुलाचलमस्तके ॥११५॥

कर रहे थे । उसी वृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा जिसे खानेके लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था । उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुई भयंकर आरूपी मधुकी मन्त्रिखर्यो उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-विन्दुओंके उस सेवनको सुख रहा था । इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टसे जीवन बिता रहे हैं । जो मूर्ख हैं वे ही विषयोंमें आसक्त हो जायें परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो परिग्रहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिए ॥१०२-१०७॥ जन्मकुमारकी यह बात सुन उसकी माता, वे क्रम्याएँ, और वह चोर सब, संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त होंगे ॥१०८॥ तदनन्तर चकवाको चकवीके समान कुमारकी दीक्षाके साथ मिलता हुआ अपनी किरणोंसे कु के मनको स्पर्श कर प्रसन्न करता हुआ, तपश्चरणके लिए श्रेष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको कर उदयाचलके शिखरपर सूर्य उदित होगा ॥१०९-११०॥ उस समय वह सूर्य किसी अन्या राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व संतापकृत होता है व प्रकार वह सूर्य भी सबको संताप करनेवाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्णकर होता अर्थात् कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूर्य भी तीक्ष्णकर था अर्थात् उष्ण किरणोंका धा था, जिस प्रकार अन्यायी राजा क्रूर अर्थात् निर्दय होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी क्रूर अथ अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है—एक समान नहीं रहता कभी सन्तुष्ट रहता है और कभी असन्तुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था एक जगह स्थिर नहीं रहता था और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलयध्वंसी होता है अ पृथ्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलयध्वंसी था अर्थात् नीलकमलों नष्ट करनेवाला था ॥१११॥ अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा क्यों जिस प्रकार उत्तम राजाका नित्योदय होता है अर्थात् उसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है अर्थात् प्रतिदिन उसका उदय होता रहता जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है अर्थात् विद्वानोका स्वामी होता है उसी वह सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात् बुधग्रहका स्वामी था । जिस प्रकार उत्तम राजाका अर्थात् देश विशुद्ध-शत्रुरहित और अखण्ड होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात् भी विशुद्ध और अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माह्लादी होता है अर्थात् लक्ष प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माह्लादी था अर्थात् कमलोंको विकसित करनेवाला और जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्धोष्मा होता है अर्थात् बढ़ते हुए अहंकारको धारण है उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोष्मा था अर्थात् उसकी गरमी निरन्तर बढ़ती जाती ॥११२॥ जन्मकुमार संसारसे विमुख—विरक्त हुआ है यह जानकर उसके भाई-बन्धु, राजा, उसकी अठारह प्रकारकी सेनाएँ और अनाद्युत देव आबेंगे तथा सब लोग मांग जलसे उसका दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥११३-११४॥ उस समयके योग्य वेध धारण कर वह कुमार देवनिर्मित पालकीपर सवार होकर बड़े वैभवके साथ विपुला

मां निविष्टं समभ्येत्य महाशुनिनिपेदितम् । मकत्या प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य यथाविधि ॥११६॥  
 वर्णत्रयसमुद्भूतैर्विनेयैर्बहुभिः समम् । विद्युच्चोरेण तल्पश्चशतमृत्यैश्च संयमम् ॥११७॥  
 सुधर्मगणभृत्पात्रैर्ब समचित्तो ग्रहीष्यति । केवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्यां गोलमाहूते ॥११८॥  
 सुधर्मा केवली जन्वनामो च श्रुतकेवली । भूत्वा पुनस्ततो द्वादशाब्दान्ते निर्द्वैति गते ॥११९॥  
 सुधर्मोप्यन्तितं ज्ञानं जन्वनाम्नो भविष्यति । तस्य शिष्यो भवो नाम चत्वारिंशत्समा महान् ॥१२०॥  
 इह धर्मोपदेशेन धरित्र्यां विहरिष्यति । इत्यवादीतदाकर्ण्य स्थितस्तस्मिन्ननावृतः ॥१२१॥  
 देवो मदीयवंशस्य माहात्म्यमिदमद्भुतम् । अन्यत्रादृष्टमिदं यच्चैरकृतानन्दनाटकम् ॥१२२॥  
 कस्मादनेन वन्धुत्वमस्वेति श्रेणिकोऽभ्यधात् । गौतमं विनयात्सोऽपि न्यगदत्तद्विस्फुटम् ॥१२३॥  
 जन्वनाम्नोऽन्वये पूर्व धर्मप्रियवणिक्पतेः । गुणदेव्याश्च नाम्नाहंदासः पुत्रोऽजनिष्ट सः ॥१२४॥  
 धनयौवनदुर्षेण शिक्षामगणयन् पितुः । निरंकुतोऽमवस्तसन्व्यसनेषु विधेयंशात् ॥१२५॥  
 स दुश्चेष्टितदौर्गत्यात्संजातानुशयो मया । न श्रुता मत्पितुः शिक्षेत्स्यवासाधमभावनः ॥१२६॥  
 किंचिपुण्यं समावर्त्य व्यन्तरस्वमुपागतः । आद्देशानुताख्योऽयं तत्र सन्त्यक्त्वसंपदम् ॥१२७॥  
 हति तद्वचनप्रान्ते गौतमं मगधाधिपः । अन्वयुङ्क्तागतः कस्मात्किं पुण्यं कृतवानयम् ॥१२८॥  
 विद्युन्माली मनेऽतीते प्रमाऽस्यान्तेऽप्यनाहता । इत्यनुग्रहबुद्धयैव भगवानेवमब्रवीत् ॥१२९॥  
 अस्मिन्निवेदेहै पूर्वस्मिन् वीतशोकाह्वयं पुरम् । विषये पुष्कलावल्यां महापयोऽस्य पालकः ॥१३०॥  
 वनमाहास्य देव्यस्थाः सुतः शिवकुमारकः । नवयौवनसंपन्नः सवयोभिः समं वने ॥१३१॥

के शिखरपर पहुँचेगा । वहाँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा । उस समय बड़े-बड़े सुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे । वह आकर बड़ी भक्तिसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक नमस्कार करेगा ॥११५-११६॥ तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूकुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णोंमें उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युच्चोर और उसके पाँच सौ श्रुत्योके साथ सुधर्माचार्य गगधरके समीप संयम धारण करेगा । जब केवलज्ञानके बारह वर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होगा तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बूकुमार श्रुतकेवली होंगे । उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोक्ष चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको केवलज्ञान होगा । जम्बूस्वामीका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीस वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए जम्बूस्वामी पृथ्वीपर विहार करेंगे । इस प्रकार गौतम स्वामीने जम्बूस्वामीकी कथा कही । उसे सुनकर वहींपर बैठे हुआ अनावृत नामका यक्ष कहने लगा कि मेरे वंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता । ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया ॥११७-१२२॥

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गौतम गणधरसे पूछा कि इस अनावृत देवका जम्बूस्वामीके साथ भार्यपना कैसे है ? इसके उत्तरमें गणधर भगवान् स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥१२३॥ कि जम्बूकुमारके वंशमें पहले धर्मप्रिय नामका एक सेठ था । उसकी गुणदेवी नामकी स्त्रीसे एक अर्हदास नामक पुत्र हुआ था ॥१२४॥ धन और यौवनके अभिमानसे वह पिताकी शिक्षाको कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदयसे सातों व्यसनमें स्वच्छन्द हो गया था । इन खोटी चेष्टाओंके कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हुआ और 'मैंने पिताकी शिक्षा नहीं सुनी' यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शान्त हो गयी ॥१२५-१२६॥ तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर वह अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ है । इसी पर्यायमें इसने सन्त्यग्दर्शन धारण किया है ॥१२७॥ इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके तब राजा श्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया । उसने पूछा कि हे भगवन् ! यह विद्युन्माली कहाँसे आया है ? और इसने पूर्वभवसे कौनसा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिस दिनमें भी इसकी प्रमा कम नहीं हुई है । इसके उत्तरमें गणधर भगवान् अनुग्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥१२८-१२९॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत एक वीतशोक नामका नगर है । वहाँ महापद्म नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका



विहृत्यः पुनरागच्छन्संभ्रमेण समन्ततः । गन्धपुष्पादिमाङ्गल्यद्रव्यसद्वरिवस्थया ॥१३२॥  
 जनानाम्रजतो हृष्टा किमेतदिति विस्मयात् । तनूजं पृच्छति स्मासौ बुद्धिसागरमन्त्रिणः ॥१३३॥  
 कुमार शृणु वक्ष्यामि मुनीन्द्रः श्रुतकेवली । ख्यातः सागरदत्ताख्यस्तपसा दीप्तसंज्ञया ॥१३४॥  
 असौ मासोपवासान्ते पारणायै प्रविष्टवान् । पुरं सामसष्टद्धाख्यः श्रेष्ठो तस्मै यथाविधि ॥१३५॥  
 दत्त्वा विष्णुगणं भक्त्या प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । मुनिं मनोहरोद्यानवासिनं तं सकौतुकः ॥१३६॥  
 संपूज्य वन्दितुं यान्ति पौराः परमभक्तितः । इत्याख्यत्सोऽपि तच्छुत्वा पुनरप्यन्वयुक्त सः ॥१३७॥  
 कथं सागरदत्ताख्यां विविधर्द्धांस्तपःश्रुतीः । प्रापदित्यब्रवीन्मन्त्रिसुतोऽप्यनु यथाश्रुतम् ॥१३८॥  
 विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । वज्रदन्तः पतिस्तस्याश्चक्रेणाम्रान्तभूतकः ॥१३९॥  
 देवी यशोधरा तस्य गर्भिणी जातदौहृदा । महाविभूत्या गत्वासौ सीतासागरसंगमे ॥१४०॥  
 महाद्वारेण संप्राप्य जकधि जकजानना । जलकेलीविधौ पुत्रमकल्पाभ्यर्षणनिर्हृतिम् ॥१४१॥  
 तस्मात्सागरदत्ताख्यामस्याकुर्वन्सवामयः । अथ यौवनसंप्राप्तौ स कदाचन नाटकम् ॥१४२॥  
 सार्धं स्वपरिवारेण पश्यन् हर्म्यतले स्थितः । चेटकेनानुकृष्णख्यनामधेयेन भाषितः ॥१४३॥  
 कुमार मन्दराकारस्तित्येष पयोधरः । पद्मशार्च्यमिति प्रीत्या प्रोन्मुखो लोचनप्रियम् ॥१४४॥  
 तं निरीक्षितुमैष्टि नष्टस्तत्काल एव सः । जलदस्तद्विचिन्त्यैवं यौवनं विभवो बधुः ॥१४५॥

नाम वनमाला था । उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था । नवयौवनसे सम्पन्न पर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गया था । वहाँ क्रीड़ा जब वह वापस आ रहा था तब उसने सब ओर बढ़े सम्भ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प मंगलमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए बहुत-से आदमी देखे । उन्हें देखकर उसने आश्चर्यके साथ बुद्धिसागर नामक मन्त्रीके पुत्रसे पूछा कि 'यह क्या है?' ॥१३०-१ इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि 'हे कुमार ! सुनिए, मैं कहती हूँ, दीप्त तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक श्रुतकेवली मुनिराज हैं । उन्होंने एक मा उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिए आज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था । सामसष्टद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपूर्वक भक्तिसे आहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरव लोग बड़ी भक्तिसे उन्हींकी पूजा-वन्दना करनेके लिए जा रहे हैं' । इस प्रकार मन्त्रीके पुत्रने क यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि, इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋ तपश्चरण और शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें मन्त्री- भी जैसा सुन रहा था वैसा कहना शुरू किया । वह कहने लगा कि पुष्कलावती में पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है । उसके स्वामीका नाम वज्रदन्त था । वह वज्र चक्रवर्ती था इसलिए उसने चक्ररत्नसे समस्त पृथिवी अपने अधीन कर ली थी ॥१ १९५॥ जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ और दोहलेके अनुसार वह कमलमुखी बड़े वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिलती है महाद्वारसे जलक्रीड़ा करनेके लिए समुद्रमें गयी । वहाँ उसने निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करने पुत्र प्राप्त किया । चूँकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए परिवारके लोगोंने उ सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर यौवन अवस्था प्राप्त होनेपर किसी दिन वह सागरदत्त की छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रहा था, उसी समय नामक एक सेवकने कहा कि हे कुमार ! यह आश्चर्य देखो, यह बादल मन्दरगिरिके आकारसे सुन्दर बना हुआ है ? यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योंही ऊपरकी ओर मुँह कर नयनाभिराम दृश्यको देखनेके लिए उद्यत हुआ त्योंही वह बादल नष्ट हो गया । उसे हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी

१. विविधर्द्धांस्तपःश्रुती ग० । विविधर्द्धांश्चरो श्रुती ल० । विविधर्द्धांश्च स श्रुतीः इति क्वचित्

आयुरन्यत्र विध्वंसि यथायं स्तनधिरनुकः । इति संसारनिर्वेगयोगभाक्समजायत ॥११६॥  
 स्वपित्रा सममन्त्रेणुः संप्राप्यामृतसागरम् । स्थितं मनोहरोद्याने धर्मवीर्यस्य नायकम् ॥११७॥  
 श्रुत्वा धर्मं तदभ्रमणं निर्णातसकलस्थितिः । संयमं बहुभिः सार्धं कृतवन्धुविस्मर्जनः ॥११८॥  
 प्रतिगृह्य मनःपर्ययादिं प्राप्यद्विसंपदम् । देशान् विहृत्य सद्भर्मदेशेनेह समागतः ॥११९॥  
 इति तच्छ्रवणात्सद्यः प्रतिचैताः स्वयं च सः । गत्वा मुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्वा धर्मामृतं ततः ॥१२०॥  
 नवन्तं भगवन्ट्टवा स्नेहो मे समभूमहान् । हेतुना केन चकष्यमित्यच्छृत्स चाप्रवीत ॥१२१॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये भगधाहृये । धृढग्रामे सुवीं जाती रेवत्यां नरजन्मनः ॥१२२॥  
 ज्येष्ठोऽथ राष्ट्रकूटस्य भगदत्तस्ततः परः । भवदेवस्तयोर्ज्यापान् संयमं प्रत्यपद्यत ॥१२३॥  
 सुस्मिताख्यमुक्तं प्राप्य तेनामा विनयान्वितः । नानादेशान् विहृत्यात्वात् स्वजन्मग्राममेव सः ॥१२४॥  
 तदा तद्वान्धवाः सर्वे समागत्य ससंमदाः । मुनिं प्रदक्षिणीकृत्य संपूजयानन्तुमुद्यताः ॥१२५॥  
 ग्रामे दुर्मर्षणो नाम तस्मिन्नेव गृहाधिपः । तस्य नागवसुमार्था नागश्रीरनयोः सुता ॥१२६॥  
 ताभ्यां सा भवदेवाय प्रादायि विधिपूर्वकम् । अग्रजागमनं श्रुत्वा सद्यः संजातसंमदः ॥१२७॥  
 भवदेवोऽप्युपागत्य भगदत्तामुनीश्वरम् । विनयात्प्रणम्यास्त तत्कृताज्ञासनाद्वितः ॥१२८॥  
 आख्याय धर्मयाथात्म्यं वैरूप्यमपि संरुतेः । गृहीतपाणिरेकान्ते संयमो गृह्यतां स्वया ॥१२९॥  
 इत्याह तं मुनिः सोऽपि प्रत्यवादीदिदं वचः । नागश्रीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितम् ॥१३०॥  
 इति तन्मुनिराकर्ण्य जगदाजनेन जनः । भार्यादिपाशसंलग्नः करोत्यात्महितं कथम् ॥१३१॥

यह यौवन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुल नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसा विचार-  
 कर वह संसारसे विरक्त हो गया ॥१४०-१४६॥ दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें  
 स्थित अमृतसागर नामक तीर्थकरके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धर्मका स्वरूप मुना । समस्त  
 पदार्थोंकी स्थितिका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम  
 धारण कर लिया । तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋद्धियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते  
 हुए सब देशोंमें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ॥१४७-१४९॥ इस प्रकार  
 मन्त्रि-पुत्रके वचन सुनकर वह राजकुमार—शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र ही  
 स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्मरूपी अमृतका पान किया और तदनन्तर  
 बड़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन् ! आपको देखकर मुझे बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है इसका  
 क्या कारण है ? आप कहिए । इसके उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि—॥१५०-१५१॥

इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी भगवदेशमें एक वृद्ध नामका ग्राम था । उसमें राष्ट्रकूट  
 नामका वैश्य रहता था । उसकी रेवती नामक स्त्रीसे दो पुत्र हुए थे । एक भगदत्त और दूसरा भवदेव ।  
 उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली । तदनन्तर उन्हीं  
 गुरुके साथ बड़ी विनयसे अनेक देशोंमें विहारकर वह अपनी जन्मभूमिमें आया ॥१५२-१५४॥ उस  
 समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े हर्षसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूजा कर  
 उन्हें नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए ॥१५५॥ उसी नगरमें एक दुर्मर्षण नामका गृहस्थ रहता था ।  
 उसकी स्त्रीका नाम नागवसु था । उन दोनोंके नागश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । उन दोनोंने  
 अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी । बड़े  
 भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ । वह भी उनके समीप गया और विनयके  
 साथ बार-बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया । उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम  
 बहुत ही आर्द्र हो रहे थे ॥१५६-१५८॥ धर्मका यथार्थ स्वरूप और संसारकी विरूपता बतलाकर  
 मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई भवदेवका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि तू संयम ग्रहण  
 कर ले ॥१५९॥ इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि मैं नागश्रीसे छुट्टी लेकर आपका कहा करूँगा  
 ॥१६०॥ यह सुनकर मुनिराजने कहा कि इस संसारमें स्त्री आदिकी पाशमें फँसा हुआ यह

त्यज तन्मोहमित्येनं भवदेवोऽप्यनुत्तरः । मतिं ज्येष्ठानुरोधेन व्यधादीक्षाविधौ च सः ॥११२॥  
 नीत्वा स्वगुरुसामीप्यं भगदत्तो भवच्छिदे । दीक्षामग्राहयन्मौर्क्षीं सतां सोदर्यमीदृशम् ॥११३॥  
 स द्रव्यसंयमी भूत्वा विधीर्द्वादशवत्सरान् । विहृत्य गुरुभिः सार्धमन्व्युरसहायकः ॥११४॥  
 वृद्धप्राप्तं निजं गत्वा सुव्रतागिणीमभि । समीक्षयास्मिन् किमरत्यन्व नगश्रीनाम काचन ॥११५॥  
 इति संप्रश्नयामास सा तस्येकितवेदिनी । नाहं वेदिमुने सम्यग्दुतं तन्निरवधनम् ॥११६॥  
 इत्यौदासीन्यमापन्ना गुणवत्यार्थिका प्रति । संयमे तं स्थिरीकर्तुमर्थाख्यानकमभवतीत् ॥११७॥  
 वैश्यः सर्वसमृद्धाख्यस्तदासीतनयः श्रुचिः । दारुकाख्यः स्वमात्रास्मच्छ्रेष्ठुच्छिष्टाशितं त्वया ॥११८॥  
 भोक्तव्यमिति निर्बन्धाद्भोजितः स ज्ञुप्सया । वान्तवान् कंसपात्रेण तत्तन्मात्राहितं पुनः ॥११९॥  
 बुभुक्षुर्मातरं भोक्तुं प्रार्थयामास दारुकः । तथापि कंसपात्रस्त्रं पुरस्तादुपहौकितम् ॥१२०॥  
 बुभुक्षापीडितोऽप्येव नाग्रहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादृशः साधुः कथं त्यक्तममीप्सति ॥१२१॥  
 अथाख्यानमिदं वैकं श्रुणु रुधाशयं स्थिरम् । नरेशो नरपाकाख्यः श्वानमेकं सकौतुकः ॥१२२॥  
 मृष्टाशनेन संपीष्य स्वर्णभरणमुधितम् । सदा वनविहृत्यादिगतौ कनककल्पिताम् ॥१२३॥  
 आरोप्य शिबिकामेवं मन्दबुद्धिरपालयत् । कदाचिच्छिविकां रूढो गच्छन्कौलेयकाश्रमः ॥१२४॥  
 विष्टामाकौक्य बालस्य लिप्सुरापतति स्म ताम् । तद्दृष्ट्वापाकरोद्भूतो रुकुडीताडनेन तम् ॥१२५॥  
 तद्वन्मुनिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । श्यक्तामि गच्छया भूयः संप्राप्नोति परामवम् ॥१२६॥

प्राणी आत्माका हित कैसे कर सकता है ? ॥११६१॥ इसीलिए तू स्त्रीका मोह छोड़ दे । बड़े अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया ॥१ अन्तमें भगदत्तने अपने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष करानेवाली दीक्षा ग्रहण करवा दी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका भाईपना ऐसा ही है ॥११६३॥ उस मूर्खने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुओंके साथ विहार किया । दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्रायमें आया और सुव्रता नामकी गणिनीके जाकर पूछने लगा कि हे माता ! इस नगरमें क्या कोई नागश्री नामकी स्त्री रहती ॥११६४-११६५॥ गणिनीने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मैं उसका वृत्त अच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्या मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी आर्थिकासे निम्नलिखित कहनी शुरु कर दी ॥११६६-११६७॥ वह कहने लगी कि एक सर्वसमृद्ध नामका वैश्य था । उ शुद्ध हृदयवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था । किसी एक दिन उसकी माताने उससे कि तू हमारे सेठका जूठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती जूठा भोजन खिला दिया । वह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने वह सब भोजन कर दिया । उसकी माताने वह सब वमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब दारुकको भूख लगी और उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पात्रमें रखा वही वमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि भूखसे पीड़ित था तो भी उसने वह वमन नहीं खाया । जब दासी-पुत्रने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया मुनि छोड़े हुए पदार्थको किस तरह चाहते हैं ? ॥११६८-११७१॥ 'अब मैं एक कथा और कहूँ तू चित्त स्थिर कर सुन' यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने लगी । उसने कहा कि नरपाल नामका राजा था । कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रखा था । वह मीठे-मीठे भोजन के द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्णके आभूषण पहनाता था । जब वह वनवि आदि कार्योंके लिए जाता था, तब वह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले जाता एक दिन वह नीच कुत्ता, पालकीमें बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि बालककी विष्टापर पड़ी । दृष्टि पड़ते ही वह, उस विष्टाको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर पड़ा । यह देख राजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥११७२-११७५॥ इसी प्रकार जो मुनि

इदमन्यत्किञ्चिद्विषयधिकः सद्भवान्तरै । सुगन्धिफलपुष्पादिसेवयाऽयम् सुखं ततः ॥ १२७ ॥  
 गत्वा विहाय सन्मार्गं महागहनसंकटे । दृष्ट्वा क्षुधितमस्युर्ग्रं स चमूर्ं जिवांसुकम् ॥ १२७ ॥  
 भीत्वा धावन् तदैकस्मिन् भीमकूपेऽपतद्बिभीः । तत्र शीतदिभिः पापाहोषत्रितयसंभवे ॥ १२७ ॥  
 बाग्दृष्टिश्रुतिगत्यादिहीनं सर्पादिवाधितम् । तं तस्मिन्मनोपायमज्ञानन्तं यदृच्छया ॥ १२८ ॥  
 कश्चिन्नियन्तरो वीक्ष्य दययाद्वाङ्मृताशयः । निर्गमय्य ततः केनाप्युपायेन महादरात् ॥ १२९ ॥  
 मन्त्रौषधिप्रयोगेण कृतपादप्रसारणम् । सूक्ष्मरूपसमालोकनोन्मीलितविकीचनम् ॥ १३० ॥  
 स्पष्टाकर्णनविज्ञातस्वशक्तिश्रवणद्वयम् । व्यक्तवाक्प्रसरोपेतरसनं च व्यधादनु ॥ १३१ ॥  
 स सर्वैरमणीयाद्यं पुरं तन्मार्गदर्शनात् । प्रास्थापयन्न कस्योपकुर्वन्ति विशदाशयाः ॥ १३२ ॥  
 पुन स विषमासक्तमतिः पथिकदुर्मतिः । प्रकटीकृतदियमेदमोहः प्राक्तनकूपकम् ॥ १३३ ॥  
 संप्राप्य पतितस्वस्तिमस्तथा क्वंचन संसृतौ । मिथ्यात्वादिकपञ्चोषधाधिर्वादीभ्युपागतान् ॥ १३४ ॥  
 जन्मकूपे क्षुधादाहाघातार्त्नं संवीक्ष्य सन्मतिः । गुरुवैद्यो दयालुत्वादधर्माख्योपायपण्डितः ॥ १३५ ॥  
 निर्गमय्य ततो जैनमापौषधनिषेवणात् । सम्यक्त्वनेत्रमुन्मील्य सम्यग्ज्ञानश्रुतिद्वयम् ॥ १३६ ॥  
 समुद्भवत्ययं सद्बन्धुपादौ कृत्वा प्रसारितौ । व्यक्तां दयामयीं जिह्वां विधाय विधिपूर्वकम् ॥ १३७ ॥  
 पञ्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्धमिधाप्य तान् । सुधीरगमयन्मार्गं साधुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ १३८ ॥  
 निजपापोदयाद्दीर्घसंसारस्तत्र केचन । सुगन्धिबन्धुरोऽन्नघ्नचम्पकाभ्याशवर्तिनः ॥ १३९ ॥  
 तत्सौरमावबौधावमुक्ताः षट्चरणा यथा । पाशैश्चाख्वाः सरग्ज्ञानचारित्र्योपाप्तवर्तनात् ॥ १४० ॥

सबके पूजनीय होते हैं वही छोड़ी हुई चस्तुकी इच्छा कर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं । इस कथाके बाद एक कथा और कहती हूँ—

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा था परन्तु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वनमें जा पहुँचा । वहाँ उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और सारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याघ्र देखा । उसके भयसे वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा । वहाँ पाप-कर्मके उदयसे उसे शीत आदिके कारण वात-पित्त-कफ—तीनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा चलने आदिमें बाधा होने लगी । इनके सिवाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी । वह पथिक उस कुएँसे निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था । दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आ निकला । उस पथिकको देखकर उसका हृदय दयासे आर्द्र हो गया । उसने बड़े आदरसे किसी उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया और मन्त्र तथा औषधिके प्रयोगसे उसे ठीक कर दिया । उसके पाँव पसरने लगे, सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्वासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे ॥ १२६-१२९ ॥ यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैद्यने उसे मार्ग दिखाकर सर्वैरमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अभिप्राय निर्मल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥ १३० ॥ इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिरसे विषयो-में आसक्त हो गया, फिरसे दिशा भ्रान्त हो गया, और फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर उसमें गिर पड़ा । इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएँमें पड़कर मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे वाधिर्य-बहिरापन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा क्षुधा, दाह आदिसे पीड़ित हो रहे हैं । उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथा धर्मका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु-रूपी वैद्य दयालुताके कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं । तदनन्तर जैनधर्मरूपी औषधिके सेवनसे इनके सम्यग्दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यग्ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते हैं, सम्यक् चारित्र्यरूपी पैरोंको फैलाते हैं, दयारूपी जिह्वाको विधिपूर्वक प्रकट करते हैं, और पाँच प्रकारके स्वाध्याय रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गमें भेजते हैं । वे गुरुरूपी वैद्य अत्यन्त बुद्धिमान् और उत्तम प्रकृतिके होते हैं ॥ १२९-१३० ॥ उनमेंसे बहुत-से लोग पापकर्मके उदयसे दीर्घसंसारी होते हैं । जिस प्रकार सुगन्धिसे भरे विकसित चम्पाके समीप रहते

कषायविषयारम्भलौकिकज्ञानवेदकैः । जिह्वाषड्भेदसंभन्धाः कुशीलाख्या दुराशयाः ॥१९३॥  
 संसक्तख्या निषिद्धेषु द्रव्यभावेषु लोडुपाः । अवसन्नाह्वया हीयमानज्ञानादिकस्वतः ॥१९४॥  
 समाचारबहिर्भूता मृगचार्यभिधानकाः । महामोहानिवृत्त्याजर्वजवागाधकूपकैः ॥१९५॥  
 पतन्ति स्म पुनश्चेति भवद्भोऽपि तच्छ्रुतेः । संप्राप्तशान्तभावोऽभूद् ज्ञात्वा तत्सार्थिकाग्रणीः ॥१९६॥  
 नागश्रियं च दौर्गत्यभावोत्पादितदुःस्थितिम् । आनाश्यादशंयस्त्रोऽपि तां दृष्ट्वा संसृतिस्थितिम् ॥१९७॥  
 स्मृत्वा भ्रिगिति निन्दित्वा गृहीत्वा संयमं पुनः । आत्रा सहायुषः प्रान्ते क्रमात्स्वाराधनांश्रितः ॥१९८॥  
 सृत्वा माहेन्द्रकल्पेऽभूद्वलमद्रविमानके । सामानिकः सुरः सससागरोपमजीवितः ॥१९९॥  
 ज्यायानहमजाये त्वं कनिष्ठोऽभूस्ततश्च्युतः । इति सोऽपि मुनिप्रोक्तश्रवणेन विरक्तवान् ॥२००॥  
 दीक्षां गृहीतुमुद्युक्तो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविश्य नगरं जातसंविद्प्रासुकान्तम् ॥२०१॥  
 नाहमाहारयामांति कुमारोऽकृतं निश्चितम् । तद्वाताश्रवणाद्भयो यः कश्चिद्धोजयत्यस्यम् ॥२०२॥  
 तस्मै संप्राथितं दास्यामीति संसद्यधोपयत् । तद्ज्ञात्वा दृढवर्मण्यः ससस्थानसमाश्रयः ॥२०३॥  
 श्रावकः ससुपेच्यैर्न कुमारा ज्ञातिशत्रवः । तवैते स्वपरध्वंलकोविदाः पापहेतवः ॥२०४॥  
 भावसंयमविध्वस्तिमकृत्वा प्रासुकान्तैः । करिष्ये मद्रं पयुंष्टिमविसुक्तस्य बन्धुभिः ॥२०५॥  
 दुर्लभा संयमे वृत्तिरित्यबोचद्वितं वचः । सोऽपि मत्वा तदाचाम्लनिर्विकृत्य रसाशनः ॥२०६॥  
 दिव्यस्त्रोस्रिभौ स्थित्वा सदाविकृतचेतसा । तृणाय मन्यमानस्त्रास्तपो द्वादशवत्सरात् ॥२०७॥

हुए भी भ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते हैं उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं ॥१९१-१९२॥ जो कषाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक ज्ञानके वशीभूत होकर जिह्वा, सम्बन्धी छह रसोंमें आसक्त रहते हैं वे दुष्ट अभिप्रायवाले कुशील कहलाते हैं ॥१९३॥ निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं । जिनके ज्ञान, चारित्र्य आघटते रहते हैं वे अवसन्न कहलाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कहलाते ये सब लोग महामोहका त्याग नहीं होनेसे संसाररूपी अगाध कुपमें बार-बार पड़ते गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनिको भी शान्त भावकी प्राप्ति हुई । यह जान गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी ऐसी नागश्रीको बुलवाकर दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने-आपको धिक्कार दि अपनी निन्दा कर फिरसे संयम धारण किया और बड़े भाई भगदत्त मुनिराजके साथ आ अन्तमें अनुक्रमसे चारों आराधनाओंका आश्रय लिया । मरकर अपने भाईके ही साथ माहे स्वर्गके बलभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयुवाला सामानिक देव हुआ ॥१९४-१९६ वहाँसे चयकर बड़े भाई भगदत्तका जीव मै हुआ हूँ और छोटे भाई भवदेवका जीव हुआ है । इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ ॥२००॥ वह दी लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ ऐसा वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मै अप्रासुक आहार ग्रहण करूँगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोई कुमारको भोजन देगा मैं उसे इच्छानुसार धन दूँगा । राजाकी यह घोषणा जानकर सात धर्मक्षेत्रोंका आश्रयभूत द बर्मा नामक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! अपने और दूसरेके आत्मा नष्ट करनेमें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए हे मद्र ! भाव-संयम का नाश नहीं कर प्रासुक भोजनके द्वारा मै तेरी सेवा करूँगा । जो परिवारके लोगोंसे नहीं हुआ है अर्थात् उनके अनुरागमें फँसा हुआ है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना दुर्लभ इस प्रकार हितकारी वचन कहे । कुमारने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचाम्ल आहार किया ॥२०१-२०६॥ वह यद्यपि सुन्दर स्त्रियोंके समीप रहता था तो भी उस

चरन्निव निशातासिधारायां संप्रवर्तयन् । संन्यस्य जीवितप्रान्ते कल्पे ब्रह्मेन्द्रनामनि ॥२०८॥  
 विद्युन्माल्येष देवोऽभूदेहदीप्यासदिकटः । इत्थथं श्रेणिकप्रश्नादिर्दं चोवाच गौतमः ॥२०९॥  
 विद्युन्मालिन पद्माभूद्वेद्योऽत्रैवेभ्यपुत्रिकाः । जम्बूनाम्नश्चतस्रोऽपि भार्यास्तेनाप्य संयमम् ॥२१०॥  
 सहाप्यकल्पे भूदेहे थास्यन्ति परम पद्म् । गत्वा सागरदत्ताख्यो दिवमत्रैव्य निर्द्वितम् ॥२११॥  
 जम्बूनाम्नो गृहत्यागसमये थास्यतीत्यपि । सर्वमेतद्गणाधीशानायकत्याहृतं युदा ॥२१२॥  
 निशाम्य मगधाधीशो जिन्नं तं चान्ववन्दत् । मानयन्ति न के सन्तः श्रेयोमार्गोपदेशिनम् ॥११३॥  
 अथान्वेद्युः पुनः प्राप्य मगवन्तं मवान्तकम्<sup>१</sup> । प्रपूज्य प्रणतस्तस्मिन् सदस्युदिततेजसम् ॥२१४॥  
 दृष्ट्वा तारागणे तारापतिं वा प्रीतिकेतनम् । प्रीतिकरं पुरानेन किं कृत्वा रूपमीदृशम् ॥२१५॥  
 सप्रातमिति सोऽप्राकीर्णगन्धुञ्चैवमब्रवीत् । एतस्मिन् मगधे देशे सुप्रतिष्ठाह्वय पुरम् ॥२१६॥  
<sup>३</sup>जयसेनो महीपालः पालकस्तस्य लीलया । तत्र सागरदत्ताख्यः श्रेष्ठी तस्य प्रभाकरी ॥२१७॥  
 मार्या तयोरभून्नागदत्तो ज्येष्ठः सुविऽनुजः । कुबेरदत्तो वित्तेरासमस्तदगृहवासिनः ॥२१८॥  
 नागदत्तं विवर्ज्याम्ये सर्वेऽभूवन्नुपासकाः । रत्नाकरेऽपि सद्गत्न नामं त्यकृतपुण्यकः ॥२१९॥  
 तेषां काले ब्रजत्येवं गिरौ धरणिभूषणे । वने प्रियंकरोद्याने कदाचित्तमवस्थितम् ॥२२०॥  
 मुनिं सागरसेनाख्यं जयसेनचूपादयः । गत्वा संपूज्य वन्दित्वा धर्मं साध्वन्ययुञ्जत ॥२२१॥  
 सोऽप्येवमब्रवीत्प्राप्तसम्यग्दर्शनकोचनाः<sup>२</sup> । दानपूजावतोपोषितादिभिः प्राप्तपुण्यकः ॥२२२॥

चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुच्छ मानता था । इस तरह उसने चारह वर्ष तक तीक्ष्ण तलवारकी धारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारण कर आयुके अन्त समयमें संन्यास धारण किया जिसके प्रभावसे ब्रह्मस्वर्गमें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाओंको व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है । यह कथा कहनेके बाद राजा श्रेणिकके पूछनेपर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देवकी जो स्त्रियाँ हैं वे सेठोंकी पुत्रियाँ होकर जम्बूकुमारकी चार स्त्रियाँ होंगी और उसीके साथ सयम धारण कर अन्तिम स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगी । सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहाँसे आकर जम्बूकुमारकी दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा । इस प्रकार गणधरोंमें प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ । अन्तमें उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गणधर दोनोंको नमस्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सज्जन हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देनेवालेको नहीं मानते हैं—उसकी विनय नहीं करते हैं ॥२०७-२१३॥

अथानन्तर—दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगाभी भगवान् महावीर स्वामीके समीप पहुँचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया । जहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिकर मुनिको देखकर गणधर देवसे पूछा कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है । राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था । उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम प्रभाकरी था । उन दोनोंको दो पुत्र हुए—उनसे नागदत्त बड़ा था और छोटा कुबेरकी समता रखनेवाला कुबेरदत्त था । नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रत्नको नहीं प्राप्त करता है ॥२१-२१९॥ इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी समय धरणिभूषण नामक पर्वतके प्रियंकर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए । यह सुन राजा जयसेन आदिने जाकर उनकी पूजा-वन्दना की तथा धर्मका यथार्थ स्वरूप पूछा ॥२२०-२२१॥ उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दर्शन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं

१ ब्रह्मेन्द्र-ख० । २ भवान्नागम् ख० । ३ जयसेनमहीपालः ल० । ४ लोचन. ल० ।

प्राप्तवन्ति सुखं स्वर्गं चापवर्गं च संयमात् । मिथ्यादृष्टाश्च दानादिपुण्येन स्वर्गजं सुखम् ॥२२३॥  
 संप्राप्तवन्ति तत्रैते क्षममाहात्म्यतः पुनः । काकादिकृच्छिमश्रित्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥२२४॥  
 सद्धर्मकाभयोग्याश्च भवन्त्यभ्यर्णोचनाः । अभ्ये तु भोगसंस्तका गाढमिथ्यात्वशक्त्याः ॥२२५॥  
 हिंसानृत्वान्यरैरामारव्यारम्भपरिग्रहैः । पापं संचित्य संसारदुष्कृपे निपतन्निव ते ॥२२६॥  
 इति तद्गचनं श्रुत्वा बहवो धर्ममाचरन् । अथ सागरदत्ताख्यश्रेष्ठिना स्वायुषोऽवधौ ॥२२७॥  
 परिपृष्टे मुनिश्चाह दिवसास्त्रिंशदित्यसौ । तच्छ्रुत्वा नगरं श्रेष्ठी प्रविश्याद्याह्निकीं मुदा ॥२२८॥  
 पूजा विधाय दत्त्वात्मपदं ज्येष्ठाय सूनवे । आपृच्छथ बान्धवान् सर्वान् द्वाविंशतिदिनानि सः ॥२२९॥  
 संन्यस्य विधिवल्लोकमवापदमृताशिनाम् । अन्येद्युर्नागादत्तोऽसौ लोभेनाद्येन चोदितः ॥२३०॥  
 कुबेरदत्तमाहूय तव सारधनं पिता । किमदर्शयदित्येवं पृष्टवान् दुष्टचेतसा ॥२३१॥  
 तीव्रलोमविधक्तोऽयमित्यसाववगम्य तत् । किमावाभ्यामविज्ञातं धनमस्ति गुरोः पृथक् ॥२३२॥  
 संन्यस्य विधिना स्वर्गगतस्थोपरि दूषणम् । महत्पापमिदं वक्तुं त्रातस्तव न युज्यते ॥२३३॥  
 श्रोतुं ममापि चेत्याह सोऽप्यपास्यास्य दुर्मतिम् । विभज्य सकलं वस्तु चैत्यचैत्यालयादिकम् ॥२३४॥  
 निर्माप्य जिनपूजाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुर्विधं पात्रत्रये भक्त्या प्रवर्त्य तौ ॥२३५॥  
 कालं गमयतः स्मोद्यन्तीती प्रति परस्परम् । दत्त्वा सागरसेनाय कदाचिन्नक्तिपूर्वकम् ॥२३६॥  
 मिश्रं कुबेरदत्ताख्यः सहितो धनमित्रया । अभिवन्द्य किमावाभ्यां तन्नृजो कृपस्यते न वा ॥२३७॥  
 नैवं चैत्रप्रज्ञिष्याव इत्यप्राक्षीस चाब्रवीत् । युवां सुतं महापुण्यभागिनं चरमाङ्गकम् ॥२३८॥

ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वर्गके सुख पाते हैं संयम धारण कर मोक्षके सुख पाते हैं । यदि मिथ्या-दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो र सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं । वहाँ कितने ही मिथ्या-दृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभा कालादि ललितियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मको प्राप्त होनेके य हो जाते हैं । यह बात निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले मिथ्या-दृष्टि जीवोंकी है परन्तु तीव्र मिथ्या-दृष्टि निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, क्रूड, पर-धनहरण, पर-नारी-आरम्भ और परिग्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दुःखदायी कुपमें गिर ॥२२२-२२६॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर बहुत लोगोंने धर्म धारण कर लिया । पश्चात् सेठ सागरदत्तने अपनी आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दि बतलायी । यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बड़े हर्षसे आष्टाहिक पूजाकर अपना अपने बड़े पुत्रके लिए सौंप दिया । तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुज्योंसे पूछकर उसने वि बाईस दिनका संन्यास धारण किया और अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया । किसी दूसरे अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागदत्तने कुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखला गये हैं ? ॥२६७-२३१॥ 'यह तीव्रलोभसे आ रहा है' ऐसा समझकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्या पिताजीके पास अलगसे ऐसा धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों । वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं उनपर दूषण लगाना पाप है । भाई ! यह बात न तो तुझे कहने योग्य है और न सुझे सु योग्य है । इस तरह कुबेरदत्तने नागदत्तकी सब दुर्बुद्धि दूर कर दी । सब धनका बाँट अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिनपूजाएँ कीं, तीनों प्रकारके पा लिए भक्तिपूर्वक चार प्रकारका दान दिया । इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे । किसी एक दिन कुबेरदत्तने अपनी स्त्री, मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया । आहार देनेके नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा न ॥२३२-२३७॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा धारण कर लें । इसके

कमेधामिति तद्वाक्यश्रवणात्प्रोषिताशयौ । अद्येवं पूज्यपादस्य भवतः क्षुल्लकोऽस्त्वसौ ॥२३९॥  
 तस्मिन्नुत्पन्नवत्येव दास्याव इति तौ सुखम् । सुज्ञानौ कतिचिन्मासान्गमयित्वा सुतोत्तमम् ॥२४०॥  
 कन्धा प्रीतिकराह्वानमेवस्थाकुर्वतां मुदा । करोतु स्वगुणैस्तोष सर्वेषां जगतामिति ॥२४१॥  
 पञ्चसंवत्सराधीतौ तस्मिन्धान्यपुरान्मुनौ । आगते सति गत्वैनमभिवन्ध मुनीन्द्र ते ॥२४२॥  
 क्षुल्लकोऽयं गृहाणेति तस्मै दत्तः स्म ते तदा । प्रतिगृह्य गुरुर्धान्यपुरमेव गतः पुनः ॥२४३॥  
 तत्र तं सर्वशास्त्राणि दत्तावर्षाण्यशिक्षयत् । सोऽप्यासन्नविनेयत्वात्संयमग्रहणोत्सुकः ॥२४४॥  
 गुरुमिनार्यं ते दीक्षाकालोऽयमिति वारितः । तथैवास्विति तान्मक्त्वा बन्दित्वा पितरौ प्रति ॥२४५॥  
 पथि स्वाभ्यस्तशास्त्राणि शिक्षानां समुपादशन् । छात्रवेषधरो गत्वा सर्वबन्धुकदम्बकम् ॥२४६॥  
 विकोक्यानन्तरं राज्ञा सम्यग्विबहितसत्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुलादिभिः ॥२४७॥  
 धनं बहुतरं सारं यावन्नावर्जधान्यहम् । तावन्न संग्रहीष्यामि पत्नीमिति चिन्तयन् ॥२४८॥  
 अन्येषुर्वागैः कैश्चिज्जलयात्रोन्मुखैः सह । यियासुबन्धिवान्सर्वान्पृच्छयैतत्प्रयोजनम् ॥२४९॥  
 संमतस्तेनमस्कृतुं गत्वा गुरुमुदात्तधीः । पत्रमेकं निजामिप्रेतार्थाक्षरसमर्थितम् ॥२५०॥  
 गुरुणापितमादायं कर्णे सुस्थाप्य सादरम् । शकुनाद्यानुकृत्येन ससखः पोतसाधनः ॥२५१॥  
 अवगाह्य पयोराशिं पुनं सूतिलकाह्वयम् । परीतं बलयाकारगिरिणा प्राप पुण्यवान् ॥२५२॥

मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे । इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया । वे प्रसन्नचित्त होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पूज्यपादके चरणोंमें क्षुल्लक होवे । उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे । इस तरह सुखका उपभोग करते हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया । 'यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगा' ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्षसे प्रीतिकर नाम रखा ॥२३८-२४१॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये । कुवेरदत्त और धनमित्राने जाकर उनकी बन्धना की तथा कहा कि 'हे मुनिराज ! यह आपका क्षुल्लक है, इसे ग्रहण कीजिए' इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया । मुनिराज भी उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमें चले गये ॥२४२-२४३॥ वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वर्ष तक समस्त शास्त्रोंकी शिक्षा दी । वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेके लिए उत्सुक हो गया परन्तु गुरुओंने उसे यह कहकर रोक दिया कि हे आर्य ! यह तेरा दीक्षा-ग्रहण करनेका समय नहीं है । प्रीतिकरने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली । तदनन्तर वह भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया । वह अपने द्वारा पड़े हुए शास्त्रोंका मार्गमें शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था । इस प्रकार वह छात्रका वेप रखकर अपने समस्त बन्धुओंके पास पहुँचा । जब राजाको उसके आनेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया । अपने-आपको कुल आदिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिकरने विचार किया कि जबतक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता हूँ तबतक मैं पत्नीको ग्रहण करूँगा ॥२४४-२४८॥

किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयात्रा—समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए । उनके साथ प्रीतिकर भी जानेके लिए उद्यत हुआ । उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई-बन्धुओंसे पूछा । सम्मति मिल जानेपर उल्लूख बुद्धिका धारक प्रीतिकर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया । गुरुने अपने अभिप्रेत अर्थको सूचित करनेवाले अक्षरोंसे परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया । उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँध लिया तथा शकुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जहाजपर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया । तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वह पुण्यात्मा, बलयके आकारवाले पर्वतसे थिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमें



शङ्कुत्प्यादिभिस्तस्मिन् ध्वनद्भिः संमुखान् जनान् । निर्गच्छतो प्रपश्यद्भिराशङ्क्य चणिजां वरैः ॥२॥  
 गत्वैतत्पुरमन्विष्य प्रत्येतुमिह कः सहः । इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रीतिकरकुमारकः ॥ २५४॥  
 कर्मणोऽस्य समर्थोऽहमिति संगीर्णवांस्तदा । चोचवदकजमिष्वरज्ज्वा तैरवतारितः ॥ २५५॥  
 विरमयात्परितः पश्यन्प्रविश्य नगरं पुरा । निरीक्ष्य मवनं जैनं परीत्य विद्विहस्तुतिः ॥ २५६॥  
 ततो गत्वायुधापातविगतायुस्त्रिरूपयन् । समन्तात्कन्यकां कांचिद्गच्छन्तीं सरसो गृहान् ॥ २५७॥  
 केयमित्यनुयातोऽसौ तं साळोक्य गृहाङ्गणे । भद्रागतः कुतो चेति पीठमस्मै समर्पयत् ॥ २५८॥  
 सोऽपि तस्थोपरि स्थित्वा नगरं केन हेतुना । संजातमीदृशं ब्रूहीत्याह तामथ साव्रवीत् ॥ २५९॥  
 तद्वक्तुं नास्ति कालोऽस्माद्भद्र त्वं याहि सत्वरम् । मयं महत्तवेहास्तीत्येतच्छ्रुत्वा स निर्भयः ॥ २६०॥  
 यो भयं मम कर्तान्न स किं बाहुसहस्रकः । इत्याह तद्भयोन्मुक्तवाग्भमीरविजुम्भणात् ॥ २६१॥  
 शिथिलीभूतमीः कन्याप्यवोचद्विस्तरेण तत् । एतत्त्वगाद्भुदीच्यालकेश्वराः सहजास्त्रयः ॥ २६२॥  
 ज्यायान्हरिबलस्तस्य महासेनोऽनुजोऽनुजः । तस्य भूतिलकस्तेषु धारिण्यां ज्यायसोऽभवत् ॥ २६३॥  
 तनुजो भीमकस्तस्मादेव विद्याधरेशिनः । हिरण्यवर्मा श्रीमत्यामजायत सुतोऽपरः ॥ २६४॥  
 महासेनस्य सुन्दर्यामुग्रसेनः सुतोऽजनि । वरसेनश्च तस्यानुजा जाताहं वसुंधरा ॥ २६५॥  
 कदाचिन्मरिपिता मौमविहारे विपुलं पुरम् । निरीक्ष्येदं चिरं चित्तहारीति स्वीचिकीर्तुका ॥ २६६॥  
 एतन्निवासिनीजित्वा रणे व्यन्तरदेवताः । अत्र भूतिलकाख्येन सोदर्येण समन्वितः ॥ २६७॥

पहुँचा ॥२४६-२५२॥ उस समय शंख तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें तथा इस बातका पता चलाकर वापस आनेके लिए कौन समर्थ है ? यह घोषणा प्रीतिकर कुमारने कहा कि, मैं यह कार्य करनेके लिए समर्थ हूँ। वैश्योंने उसी समय उसे चीनीकी छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥२५२-२५५॥ आश्चर्यसे चारों ओर हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया। उसने म की प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगह आघातसे बहुत लोग मरे पड़े हैं। उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी ओर जाती एक कन्या दिखी। यह कौन है ? इस बातका पता चलानेके लिए वह कन्याके पीछे चला घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिकरको देखा तो उसने कहा, 'हे भद्र ! यहाँ कहाँ से हो ?' यह कहकर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ॥२५६-२५८॥ कुमारने उस अ बैठकर कन्यासे पूछा कि कहो, 'यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ?' इसके उत्तरमें कन्याने कि यह कहनेके लिए समय नहीं है। हे भद्र ! तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेवाले कुमारने कहा यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भय गम्भीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्तारसे उसका कारण लगी। उसने कहा कि इस विजयार्ध पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उ स्वामी तीन भाई थे। हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक छोटा था। हरिबलकी रानी धारिणीसे भीमक नामका पुत्र हुआ था और उसीकी दूसरी र श्रीमतीसे हिरण्यवर्मा नामका दूसरा पुत्र हुआ था। महासेनकी सुन्दरी नामक स्त्रीसे उ और वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं वसुंधरा नामकी कन्या हुई ॥२५९-२६५॥ एक समय मेरे पिता पृथिवीपर विहार करनेके लिए निकले थे उस समय इस मन विशाल नगरको देखकर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई। पहले यहाँ व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जीतकर हमारे पिता यहाँ भूतिलक नामक

इह संवासिमिश्रुपैः सेव्यमानः सुखेन सः । कालं गमयति स्मैवं कंचित्संचितपुण्यकः ॥२६८॥  
 इत कनीयसे विद्यां भीमकायाककश्रियम् । दत्त्वा संसारमीरुत्वाक्षिर्विद्य विजितेन्द्रियः ॥२६९॥  
 कर्मनिर्मूलकं कर्तुं दीक्षां हरिबलाह्वयः । विद्वान्विपुलमत्याद्यत्रचारणस्याप्यसंनिधौ ॥२७०॥  
 शुक्लध्यानानलाकीटदुरिताष्टकदुष्टकः । अष्टमीमगमत्पृथ्वीमिष्टामष्टगुणान्वितः ॥२७१॥  
 प्रकृर्वन् भीमको राज्यं विद्याः शास्त्रेण केनचित् । हिरण्यवर्मणो हृत्वा तं च हन्तुं समुद्यतः ॥२७२॥  
 ज्ञात्वा हिरण्यवर्मैतत्समेदाद्रिमशिश्रियत् । भीमकस्तं कुधान्वित्य गिरिं गन्तुमद्यक्तकः ॥२७३॥  
 तीर्थशस्त्रनिधानेन तीर्थैवादागमत्पुरम् । ततो हिरण्यवर्मापि पितृव्यं समुपागतः ॥२७४॥  
 तच्छ्रुत्वा तं निराकर्तुं पूज्यपादोऽर्हतीत्यसौ । महासेनमहाराजं प्राहिणोत्यतिपन्नकम् ॥२७५॥  
 तस्यानिराकृतं तस्माद् ज्ञात्वायातं युयुत्सया । क्रूर एष दुरात्मेति मरिचिता भीमकं रणे ॥२७६॥  
 निजित्य शृङ्खलाक्रान्तमकरोत्क्रमयोर्द्वयोः । पुनः क्रमेण शान्तात्मा नैतद्युवतं ममेति तम् ॥२७७॥  
 मुक्त्वा विधाय संधानं प्रदास्य हितोक्तिभिः । हिरण्यवर्मणा सार्धं दत्त्वा राज्यं च पूर्वंवत् ॥२७८॥  
 विससजं तथावज्रा बद्धवैरः स भीमकः । हिरण्यवर्मणि प्रायो विद्यां संसाध्य राक्षसीम् ॥२७९॥  
 तथा हिरण्यवर्मणं पापी मत्पितरं पुरम् । मद्बन्धनपि विष्वस्य मामुद्दिद्यागमिष्यति ॥२८०॥  
 इति सर्वं समाकर्ण्य कुमारो विस्मयं वहन् । शय्यातलस्थमालोक्य खड्गमेघ सुकक्षणाः ॥२८१॥

साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥२६६-२६८॥ अथर इन्द्रियोंको जीतनेवाले विद्वान् राजा हरिबलको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्माके लिए विद्या दी और बड़े पुत्र भीमकको अन्नकापुरीका राज्य दिया । संसारसे भयभीत होनेके कारण विरक्त होकर समस्त कर्मोंका क्षय, करनेके लिए विपुलमति नामक चारण मुनिराजके पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोंको जलाकर आठ गुणोंसे सहित हो इष्ट आठवीं पृथिवी प्राप्त कर ली ( मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥२६६-२७१॥ इधर भीमक राज्य करने लगा, उसने किसी छलसे हिरण्यवर्माको विद्याएँ हर लीं । यही नहीं, वह उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया ॥२७२॥ हिरण्यवर्मा यह जानकर सम्मैदशित्वर पर्वतपर भाग गया । क्रोधवश भीमकने वहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीर्थकर भगवान्के सन्निधान और स्वयं तीर्थ होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लौट आया । तदनन्तर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेनके पास चला गया ॥२७३-२७४॥ जब भीमकने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं—हमारे पूजनीय हैं इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्माको वहाँसे निकाल दीजिए । महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता । यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ आया । 'यह दुरात्मा बहुत ही क्रूर है' यह समझकर हमारे पिताने युद्धमें भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों पैर साँकलसे बाँध लिये । तदनन्तर अनुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पिताने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है ऐसा विचारकर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हितसे भरे शब्दोंसे उसे शान्त कर हिरण्यवर्माके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया । भीमक उस समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवर्माके साथ वैर नहीं छोड़ा । फलस्वरूप उस पापी भीमकने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्माको, मेरे पिताको तथा मेरे भाइयोंको मार डाला है, इस नगरको उजाड़ दिया है और अब मुझे लेनेके उद्देश्यसे आनेवाला है ॥२७५-२८०॥ यह सब कथा सुनकर आश्चर्यको धारण करते हुए कुमार प्रीतिकरने शय्यातलपर पड़ी हुई एक तलवारको देखकर कहा कि इस तलवारके बहुत ही अच्छे लक्षण हैं । यह तलवार जिसके हाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है । क्या तुम्हारे पिताने इस

१ विद्या शास्त्रेण म०, ख० । २ महाराज ख० । ३ न्यायकृतं ल० ।

यस्य हस्तगतो जेतुं तं शक्रोऽपि न शक्नुयात् । इति मत्वा-पितानेन किं ते केनापि युद्धवान् ॥२  
 इत्यप्राक्षीत्स तां सापि न स्वप्नेऽपीत्यभाषत । तदा प्रीतिकरो हस्तगतमखं विधाय तत् ॥२८३॥  
 तं हन्तुं निर्भयो भीमं गोपुराभ्यन्तरे स्थितः । निगूढतजुराविष्कृतोक्तविर्बसुनं दधत् ॥२८४॥  
 तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्ताद्दीक्ष्य भीमकः । स्वविद्यां प्रेषयामास दृष्ट्वा दुष्टं जहतीति तम् ॥२८५॥  
 सम्यग्दृष्टिर्यं सप्तविधभीतिविक्रमः । चरमाङ्गो महाशूरो नाहं हन्तुमिमं क्षमा ॥२८६॥  
 इति भीत्वा तदभ्यर्णं संचरन्तीमितस्ततः । विकोक्य भीमको विद्यां शक्तिहीनां व्यसज्जयत् ॥२८७॥  
 निस्साराभ्रभ्रंजेत्युक्त्वा साप्यगच्छददृश्यताम् । स्वयमेवासिमुत्खाय भीमकस्तं जिघांसुकः ॥२८८॥  
 संप्राप्तवान्कुमारोऽपि तर्जयन्नतिभीषणम् । तद्वातं वज्रयित्वाहंस्तं प्राणैः सोऽप्यमुच्यत ॥२८९॥  
 ततो विध्वस्य दुष्टारिमाथान्तमभिधीक्ष्य सा । कुमारं कन्याकाम्येत्य व्यधास्तं मद्र साहसम् ॥२९०॥  
 ह्यारोप्यासनं स्वर्णमयं राजगृहाङ्गणे । अमिषिच्य जकापूर्णैः ककशैः ककशौतकैः ॥२९१॥  
 विन्यस्य मणिमामासि मुकुटं चारुमस्तके । यथास्थानमक्षोषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥२९२॥  
 विलासिनीकरोद्भूयमानचामरशोभिनम् । अकरोत्त्रिरीक्ष्याह प्रीतिकरकुमारकः ॥२९३॥  
 किमेतदिति सावोचदस्म्यस्याः स्वामिनी पुरः । दत्त्वा राज्यं मदीयं ते पट्टवन्धपुरस्सरम् ॥२९४॥  
 रत्नमालां गले कृत्वा त्वां प्रेम्णा समभीभवम् । इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्य कुमारः प्रत्यभाषत ॥२९५॥  
 विना पित्रोरनुज्ञानञ्चैव स्वीक्रियसे मया । कोऽपि प्रागेव संकल्पो विहितोऽयमिति स्फुटम् ॥२९६॥  
 यद्येवं तत्समाधोगकालेऽभीष्टं भविष्यति । इति तद्वचनं कन्या प्रतिपाद्य धनं महत् ॥२९७॥

तलवारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा । कन्याने दिया कि इस तलवारसे पिताने स्वप्नमें भी युद्ध नहीं किया है । तदनन्तर प्रीतिकर कुमार तलवार अपने हाथमें ले ली ॥२८१-२८३॥ जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा र और जो देदीप्यमान दिव्य तलवारको धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिकर भीमकको मारनेके गोपुरके भीतर छिप गया । उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सब ओर देखकर तथा कहकर अपनी विद्याको भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार ॥२८४-२८५॥ विद्या प्रीतिकरके पास जाते ही डर गयी, वह कहने लगी कि यह सम्यग्द सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है और महाशूरवीर है; मैं इसे मारनेके लिए स नहीं हूँ । इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी । यह भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है तब उसने 'तू सारहीन है अतः चली जा' यह कर उसे छोड़ दिया और वह भी अदृश्यताको प्राप्त हो गयी । विद्याके चले जानेपर प्रीतिकर मारनेकी इच्छासे भीमक स्वयं तलवार उठाकर उसपर झपटा । इधर प्रीतिकरने भी उसे भयंकर डाँट दिखाकर तथा उसके वारको बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट ॥२८६-२८९॥ तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर आते हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आयी कहने लगी कि हे मद्र ! आपने बहुत बड़ा साहस किया है ॥२९०॥ इतना कहकर राजभवनके आँगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया और जलसे भरे हुए सुवर्णमय कल उसका राज्याभिषेक किया ॥२९१॥ मणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्त बाँधा, यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहनाये और विलासिनी स्त्रियोंके हाथोंसे हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया । यह सब देख प्रीतिकर कुमारने कहा कि यह क्या है ? उत्तरमें कन्याने कहा कि 'मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँधकर आपके देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गलेमें डालकर प्रेमपूर्वक आपकी सहधर्मिणी हो रही यह सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाके विना तुम्हें स्वीकृत नह सकता क्योंकि मैंने पहले ऐसा ही संकल्प कर रखा है । यदि तुम्हारा ऐसा आग्रह ही माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा । कन्याने प्रीतिकरकी बात मान ली और बहुत-सा धन बाँधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा जहाजपर उतारनेके

धवावतरणायामि रज्ज्वा तेन सह स्वयम् । शिवासुरासीद्रज्जुं तां प्रमोदास्तोऽप्यचाकलयत् ॥२९८॥  
 सयस्तत्कालं दृष्ट्वा नागदत्तो बहिर्गतः । समाकृष्याग्रहीत् च तां च द्रव्यं च तुष्टवान् ॥२९९॥  
 पोतप्रस्थानकालेऽस्याः सारारभरणसंहतिम् । विस्मृतं स कुमारस्तामानेतुं गतवान् पुनः ॥३००॥  
 नागदत्तस्तदा रज्ज्वाकृष्य द्रव्यमेतया । सारं संप्राप्तमेतन्मे भोक्तुमामरणान्नवेत् ॥३०१॥  
 कृतार्थोऽहं कुमारेण यद्वा तद्गानुभूयताम् । इति प्रास्थित सार्धं तैर्लक्ष्यरक्षो वणिरजनैः ॥३०२॥  
 नागदत्तेऽङ्घ्रितं ज्ञात्वा कन्यका सीनमब्रवीत् । प्रीतिकराद्दिनात्रान्यैर्न वदाम्यहमित्यसौ ॥३०३॥  
 नागदत्तोऽपि कन्यैषा सूकीर्तिं प्रतिपादयन् । तां द्रव्यरक्षणेऽथौक्षीधीत्या स्वाङ्गुलिसंज्ञया ॥३०४॥  
 क्रमात्स्वनगरं प्राप श्रेष्ठी प्रीतिकरस्त्वदा । गतो भूतिलकं नायात्कुत इत्यवदत्स तम् ॥३०५॥  
 नागदत्तमसौ नाहं जानामोऽप्युत्तरं ददौ । भूषणानि समादाय समुद्रतटमागतः ॥३०६॥  
 नागदत्तेन पापेन स कुमारोऽतिसंघितः । अदृष्ट्वा पोतमुद्दिग्नः पुरं प्रति निवृत्तवान् ॥३०७॥  
 सचिन्तस्तत्र जैनैर्द्वेष्टमेकं विलोक्य तम् । पुष्पादिभिः समन्यर्च्य विधाय विधिवन्दनाम् ॥३०८॥  
 जिनं त्वददृष्टमात्रेण मत्पापं क्राप्यकीयत । निक्षि दीपेन वा धवान्तं समुन्मीकितचक्षुषः ॥३०९॥  
 चेतनः कर्मभिर्ग्रस्तः सर्वोऽप्यन्यदचेतनम् । सर्ववित्कर्मनिर्मुक्तो जिन केनोपमयीसे ॥३१०॥  
 सांख्यादीन् लोकविल्यातान् सर्वथा सावधारणान् । एको भवान् जिनाजैषीचिन्नं निरवधारणः ॥३११॥  
 अबोधतमसाक्रान्तमनाधन्तं जगत्त्रयम् । सुप्तं त्वमेव जागसि शत्रुवद्भिर्न च पश्यसि ॥३१२॥

कुमारके साथ किनारेपर आ गयी । कुमारने भी बड़े हर्षसे वह रस्सी हिलायी । रस्सीका हिलना देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याको तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत सन्तुष्ट हुआ । जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपूर्ण आभरणांको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ॥२६२-३००॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने वह रस्सी खींच ली और 'इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतिकरकुमार जैसा-तैसा रहे' ऐसा विचार कर और छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ॥३०१-३०२॥ कन्याने नागदत्तका अभिप्राय जानकर मीन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाजपर प्रीतिकरके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूँगी ॥३०३॥ नागदत्तने भी लोगों-पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूंगी है और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके साथ द्रव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ॥३०४॥ अनुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया । पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिकर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागदत्तने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ । आभूषण लेकर प्रीतिकर कुमार समुद्रके तटपर आया परन्तु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था । जहाजको न देखकर वह उद्भिन्न होता हुआ नगरकी ओर लौट गया ॥३०५-३०७॥ चिन्तासे भरा प्रीतिकर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया । पुष्पादिक-से उसने वहाँ विधिपूर्वक भगवान्की पूजा-वन्दना की । तदनन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा ॥३०८॥

“हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नेत्रवाले मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥३०९॥ हे जिनेन्द्र ! आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे प्रसित संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य इन सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ॥३१०॥ हे भगवन् ! यद्यपि आप इन्द्रिय-ज्ञानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-ज्ञानसे सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आश्चर्यकी बात है ॥३११॥ हे देव ! आदि और अन्तसे रहित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा

वस्तुबोधे विनेयस्य जिनेन्द्र भवदागमः । निर्मलः शर्मदो हेतुरालोको वा सचक्षुषः ॥३१३॥  
 इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः शुद्धश्रद्धावबोधनः । संभ्यक्संसारसद्भावं भावयन्कर्मनिर्मितम् ॥३१४॥  
 अभिषेचनशालायां सुसवान्किचिदाकुलः । तदा नन्दमहानन्दावागतौ गुह्यकामरौ ॥३१५॥  
 वन्दितुं मन्दिरं जैनं वीक्ष्य तं कर्णपत्रकम् । तौ तदीयं समादाय सधर्मा वा कुमारकः ॥३१६॥  
 इति प्रापयत् देवौ द्रव्येण महता सह । सुप्रतिष्ठं पुरं प्रीतिकरमेनं प्रमोदिनम् ॥३१७॥  
 प्रेषणं युवयोरेतदस्माकमिति तद्गतम् । गुरोः संदेशमालोक्य स्मृत्वा प्राग्भववृत्तकम् ॥३१८॥  
 वाराणस्यां पुरे पूर्वं धनदेववणिक्पतेः । भूत्वावां जिनदत्तायां शान्तवो रमणः सुतौ ॥३१९॥  
 तत्र शास्त्राणि सर्वाणि विदित्वा ग्रन्थतोऽर्थतः । चोरशास्त्रबलात्पापौ परार्थहरणे रतौ ॥३२०॥  
 अभूवास्मद्गुरुस्तस्माज्जिवारयितुमक्षमः । सर्वसङ्गपरित्यागमकरोदितदुस्तरम् ॥३२१॥  
 इतो धान्यपुराभ्यर्णशिक्षिभूधरनामनि । भूधरे मुनिमाहात्म्याद् दृष्टाः शार्दूलकादयः ॥३२२॥  
 भृगाः काश्चिन्न वाधन्त इति श्रुत्वा जनोदितम् । कृततद्भूधरावासौ तत्र भूरितपोधनम् ॥३२३॥  
 दृष्ट्वा सागरसेनाख्यं तस्मिन्निजोदितम् । श्रुत्वा धर्मं परित्यज्य मधुमांसादिमक्षणम् ॥३२४॥  
 तस्मिन्गुरौ ततः सुप्रतिष्ठाख्यनगरं गते । शार्दूलोपद्रवान्मृत्वा देवभूयं गताविदम् ॥३२५॥  
 सर्वभेतद्गुरोरात्तत्रतादित्यभिमत्य तम् । गत्वा संप्राप्य संपूज्य किमावाभ्यां निदेशनम् ॥३२६॥  
 कर्तव्यमिति संप्रष्टो मुनिनायोऽब्रवीदसौ । अतः परं दिनैः कैश्चित्कर्तव्यं यन्नविष्यति ॥३२७॥

है उसमें केवल आप ही जग रहे हैं और समस्त संसारको देख रहे हैं ॥३१२॥ हे जिनेन्द्र ! प्रकार चक्षुसहित मनुष्यको पदार्थका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्य वस्तुतत्त्वका ज्ञान होनेमें आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है ॥३१३॥ प्रकार शुद्ध ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीतिकर कुमारने अपने-द्वारा बनाया हुआ स्तो तथा कर्मके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥३१४॥ तदनन्त व्याकुल होता हुआ वह अभिषेकशाला (स्नानगृह) में सो गया । उसी समय नन्द और नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए आये ॥३१५॥ उन्होंने जिन-म दर्शन कर प्रीतिकरके कानमें बँधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया । पत्रमें था कि 'यह प्रीतिकरकुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस को तुम बहुत भारी द्रव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो । तुम दोनोंके लिए मेरा यही है' इस प्रकार उन दोनों देवोंने उस पत्रसे अपने गुरुका सन्देश तथा अपने पूर्व समाचार जान लिया ॥३१६-३१८॥ पहले वाराणसी नगरमें धनदेव नामका एक वैश्य रह हम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव और रमण नामके दो पुत्र हुए थे ॥ वहाँ हमने ग्रन्थ और अर्थसे सब शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अ होनेसे हम दोनों दूसरेका धन-हरण करनेमें तत्पर हो गये ॥३२०॥ हमारे पिता भी हम को इस चोरीके कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके । इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन परिश्रमका त्याग कर दिया अर्थात् मुनिदीक्षा धारण कर ली ॥३२१॥ इधर धान्यपुर समीप शिक्षिभूधर नामक पर्वतपर मुनिराजके माहात्म्यसे वहाँपर रहनेवाले सिंह, व्याघ्र दुष्ट जीव भी किसीको बाधा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार लोगोंका कहना सुनकर हम पर्वतपर जाकर वहाँ सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी मुनिराजके दर्शन किये, उनके जैनधर्मका उपदेश सुना और मधु, मांस आदिका त्याग कर दिया ॥३२२-३२४॥ तदन मुनिराजके सुप्रतिष्ठ नगरमें चले जानेपर सिंहके उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस देव- प्राप्त हुए हैं ॥३२५॥ 'यह सब गुरु महाराजसे लिये हुए व्रतके प्रभावसे ही हुआ है जानकर हम दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा की और तदनन्तर दोनोंने पूछा कि

भवद्भ्यामेव तज्ज्ञात्वा विधेयमिति सादरम् । स पृष तस्य संदेश इति पत्रं प्रददर्श तत् ॥३२८॥  
 द्रव्येण बहुना सार्धं विमानमधिरोप्य तम् । सुप्रतिष्ठपुराभ्यर्णगिरिं धरणिभूषणम् ॥३२९॥  
 सद्यः प्रापयत्सस्मैतौ किं न कुर्वाद्यथोदयः । तदागमनमाकर्ण्य भूपतिस्तस्य बान्धवाः ॥३३०॥  
 नागराश्च विभूतयैर्न संमदात्समुपागताः । तेभ्यः प्रीतिकरं दत्त्वा स्वावाप्तं जग्मतुः सुरैः ॥३३१॥  
 पुरं प्रविश्य सद्गनैः स महोपासपूजयत् । सोऽपि संभाव्य तं स्थानमानादिमरितोषयत् ॥३३२॥  
 अथान्येषुः कुमारस्य ज्यायसीं प्रियमित्रिकाम् । मातरं स्वतनूजस्य प्राप्य परिणयोत्सवे ॥३३३॥  
 आत्मस्तुषामर्लंकर्तुं रत्नामरणसंहतिम् । गृहीत्वा रथमारुह्य महादर्शनकर्मणे ॥३३४॥  
 यान्तीं द्रष्टुं समयाता रथ्यायां मूकिका स्वयम् । वीक्ष्य स्वभूपासंदोहं स्पष्टमङ्गलिसंज्ञया ॥३३५॥  
 मदीयमेतदित्युक्त्वा जनान् सा तां रथस्थिताम् । रुन्वा स्थितवती सापि प्राहैषा ग्रहिकेति ताम् ॥३३६॥  
 तज्ज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परीक्ष्येयं न भूतोपसृष्टेति व्यक्तमनुवन् ॥३३७॥  
 कुमारोऽपि तदाकर्ण्य न विभेत् कुमारिका । राजाभ्यामां समभ्येतु तत्राह वास्त्युपस्थितः ॥३३८॥  
 इत्यस्याः प्राहिणोत्पत्रं गूढं तद्वीक्ष्य तत्तथा । श्रद्धायाह्लायिता राज्ञः समीपमगमन्सुदा ॥३३९॥  
 वदामरणवृत्तान्तपरिच्छेदाय भूपतिः । धर्माभ्यक्षान्समाह्वय विचाराय न्ययोजयत् ॥३४०॥  
 वसुन्धरां च तत्रैव कृत्वा संनिहितां तदा । राजा कुमारमप्राक्षीद्वेत्तीदं किं सवानिति ॥३४१॥  
 अभिधाय स्वविज्ञातं श्रेयं वेत्तीयमेव तत् । देवता नाहमित्येवं सोऽपि भूपमवोधयत् ॥३४२॥

ए कया आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कार्य गा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराजका वह संदेश ही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥३२६-३२८॥ इसके पश्चात् उन देवोंने बहुत-से नके साथ उस प्रीतिकरको विमानमें बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवर्ती धरणिभूषण मके पर्वतपर उसे शीघ्र ही पहुँचा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यका उदय कया नहीं रता है ? प्रीतिकरका आना सुनकर राजा, उसके भाई-बन्धु और नगरके लोग बड़े हर्षसे पनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये । उन देवोंने वह प्रीतिकर कुमार उन सबके ए सौंपा और उसके बाद वे अपने निवास-स्थानपर चले गये ॥३२९-३३१॥ प्रीतिकरने नगर-प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेट देकर राजाकी पूजा की और राजाने भी योग्य स्थान तथा न आदि देकर उसे सन्तुष्ट किया ॥३३२॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिकर कुमारकी बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके वैवाहोत्सवमें अपनी पुत्रवधूको अलङ्कृत करनेके लिए रत्नमय आभूषणोंका समूह लेकर तथा थपर सवार होकर सबको दिखलानेके लिए जा रही थी । उसे देखनेके लिए वह गूंगी कन्या वयं मार्गमें आयी और अपने आभूषणोंका समूह देखकर उसने अँगुलीके इशारेसे सबको तला दिया कि यह आभूषणोंका समूह मेरा है । तदनन्तर वह कन्या रथमें बैठी हुई प्रिय-मित्राको रोककर खड़ी हो गयी । इसके उत्तरमें रथपर बैठी हुई प्रियमित्राने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली है ॥३३३-३३६॥ तब मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोंने विधिपूर्वक मन्त्र-तन्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया कि न यह पागल है और न इसे भूत लगा है ॥३३७॥ यह सुनकर प्रीतिकर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारी ! तू बिलकुल भय मत कर, राजाके पास आ, मैं भी हूँ उपस्थित रहूँगा । पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हर्षसे राजाके समीप गयी । राजाने भी उसके आभूषणोंका वृत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियोंको बुलाकर नियुक्त किया ॥३३८-३४०॥ राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही आड़में बिठलाकर कुमार प्रीतिकरसे पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं ? ॥३४१॥ इसके उत्तरमें कुमारने अपना जाना हुआ हाल कह दिया और फिर राजासे समझाकर कह दिया कि बाकीका हाल मैं नहीं जानता

गन्धादिभिः समन्वय्यं तां पदान्तरितां नृपः । देव ते ब्रूहि यदृष्टं तत्तयेत्यनुयुक्तवान् ॥३४३॥  
 सा नागदत्तदुश्चेष्टां महीनाथमब्रुवधत् । श्रुत्वा तत्सुविचार्यास्मै कुपित्वानेन पापिना ॥३४४॥  
 कृतः पुत्रवधः स्वामिवधश्चेति महीपतिः । सर्वस्वहरणं कृत्वा निगृहीतं तमुद्यतः ॥३४५॥  
 प्रतिपिद्मः कुमारेण नैतद्युक्तं तवेति सः । सौजन्यतस्तदा तुष्टु कुमाराय निजामजाम् ॥३४६॥  
 पृथिवीसुन्दरीं नाम्ना कन्यकां च वसुंधराम् । द्वात्रिंशद्वैश्यपुत्रीश्च कथयानविधिना ददौ ॥३४७॥  
 सह पूर्वधनस्थानमर्धराज्यं च भावते । पुरा विहितपुण्यानां स्वयमायान्ति संपदः ॥३४८॥  
 प्रीतः प्रीतिकरस्तत्र कामभोगान्सभीप्सिताम् । स्वेच्छया वर्धमानेच्छदिचरायास्तुबभूव सः ॥३४९॥  
 मुनी सागरसेनाख्ये संन्यस्यान्वेष्टुरीयुषि । लोकान्तरं तदागत्य चारिणौ समुपस्थितौ ॥३५०॥  
 ऋजुश्च विपुलाख्यश्च मत्यन्तौ मतिभूषणौ । रम्ये मनोहरीयाने गत्वा स्तुत्वा वणिग्वरः ॥३५१॥  
 धर्मं समन्नशुद्धकैतावित्याहर्जुमतिस्तयोः । धर्मोऽपि द्विविधो ज्ञेयः स गृहगृहभेदतः ॥३५२॥  
 एकादशविधस्तत्र धर्मो गृहनिवासिनाम् । श्रद्धानव्रतभेदादिः शेषो दशविधः स्मृतः ॥३५३॥  
 क्षान्त्यादिः कर्मविध्वंसौ तच्छ्रुत्वा तदनन्तरम् । स्वपूर्वभवसंबन्धं पप्रच्छैवं च सोऽब्रवीत् ॥३५४॥  
 शृणु सागरसेनाख्यमुनिमातपयोगिनम् । पुरेऽस्मिन्नेव भूपाकप्रमुखा बन्दिदंतुं गताः ॥३५५॥  
 नानाविधार्चनाद्रज्यैः संपुण्य पुरमागतः । शङ्कतूपादिनिर्वातं श्रुत्वैकमिह जन्मुक्त् ॥३५६॥  
 कश्चिद्लोकान्तरं यातः पुरेऽद्यैतं जनो बहिः । क्षिप्त्वा यातु ततो भक्षयिष्यामीत्यागतं मुनिः ॥

यह देवी ही जानती है ॥३४२॥ राजाने कपड़ेकी आड़में बैठी हुई उस देवीकी गन्ध पूजा कर पूछा कि देवि ! तूने जो देखा हो वह क्योंका क्यों कह ॥३४३॥ इसके उत्तर देवीने राजाको नागदत्तकी सब दुष्ट चेष्टाएँ बतला दीं । उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ । उसने कहा कि इस पापीने पुत्रवध है और स्वामिद्रोह भी किया है । यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा लिया और निग्रह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिकरने यह कहकर मना कर दिया कि लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है । उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही हुआ और उसने अपनी पृथिवीसुन्दरी नामकी कन्या, वसुंधरा नामकी कन्या तथा वैश्व अन्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दीं ॥३४४-३४७॥ इसके सिवाय प धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्व पुण्य किया है ऐसे मनुष्योंको सम्पदाएँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं ॥३४८॥ इस प्रकार जो अ प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिकर कुमारन वहाँ अपनी इ सुसार चिरकाल तक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया ॥३४९॥

तदनन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर चले गये । उसी समय वहाँ बुद्धि-रूपी आभूषणोंसे सहित ऋजुमति और विपुलमति ना. चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये । प्रीतिकर सेठने जाकर स्तुति की और धर्मका स्वरूप पूछा । उन दोनों मुनियोंमें जो ऋजुमति नामके मुनिराज कहने लगे कि गृहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए । गृहस्थोंक दर्शन-प्रतिमा, व्रत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मोंका क्षय कर मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है । धर्मका स्वरूप सुननेके बाद प्री मुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा । इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कि सुनो, मैं कहता हूँ—किसी समय इसी नगरके बाहर सागरसेन मुनिराजने आ योग धारण किया था—इसलिए उनकी बन्धनाके लिए राजा आदि बहुत-से लो थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शंख तुरही आदि ब साथ नगरमें आये । उन बाजोंका शब्द सुनकर एक शृगालने विचार कि

मन्वोऽयं व्रतमादाय मुक्तिमांशु गमिष्यति । इति मत्वा तमासन्नमसावेवंमाषत ॥३५८॥  
 प्राग्जन्मकृतपापस्य फलेनाभूः शृगालकः । इदानीं च कुक्षीः साद्युसमायोगेऽपि मन्यसे ॥३५९॥  
 दुष्कर्मं विरमैतस्माद्दुष्टुष्टुद्विरितावहात् । गृहाण व्रतमभ्येहि परिणामदुभावहम् ॥३६०॥  
 इति तद्वचनादेव मुनिर्मन्मनसि स्थितम् । ज्ञातवानिति संजातसंमदं स शृगालकम् ॥३६१॥  
 मुनिस्तद्विक्रिताभिः पुनरेवं समव्रवीत् । त्वमन्यस्य न वाक्नोषि व्रतस्याभिवलासः ॥३६२॥  
 गृहाणेद व्रतं श्रेष्ठं रात्रिभोजनवर्जनम् । परलोकस्य पायेयमिति धर्म्यं मुनेर्वचः ॥३६३॥  
 श्रुत्वा भक्त्या परीत्यैर्न प्रणम्य कृतसंमदः । गृहीत्वा तद्व्रत मद्यमांसादीनि च सोऽत्यजत् ॥३६४॥  
 तदा प्रभृति शास्त्रादि विज्ञुद्धाशनमाहरन् । अतिकृच्छ्रं तपः कुर्वन् कांचिकाकमजीगमत् ॥३६५॥  
 शुष्काहारमथान्येद्युर्मुक्त्वा तृष्णातिबाधितः । अर्कास्त्वमयवेलायां पयःपानाभिकाषया ॥३६६॥  
 कूर्पं सोपानमारोगेण प्रविश्यान्तः किमप्यसौ । तत्रालोकमनालोक्य दिनेशोऽस्तमुपागतः ॥३६७॥  
 इति निर्गम्य दृष्ट्वा मां पुनः पातुं प्रविष्टवान् । गोमायुरेवं द्विस्त्रिर्वा कुर्वन्तत्र गमागमौ ॥३६८॥  
 दिनेशमस्तमानीय सोढवृष्णापरीषहः । विशुद्धपरिणामेन भृतिमित्वा दृढव्रतः ॥३६९॥  
 पूर्वं कुबेरदत्तस्य भूत्वा प्रीतिकरः सुतः । व्रतेन धनमित्रायामीदृशैर्व्यंभासवान् ॥३७०॥  
 इति तद्वचनाज्जातसंवेगस्तं यतीश्वरम् । शंसन् व्रतस्य माहात्म्यमभिवन्द्य ययौ गृहम् ॥३७१॥  
 निव्रतः संसृती दीर्घमदनन् दुःखान्यनारतम् । अपारं खेदमायाति दुर्मिक्षे दुर्विधो यथा ॥३७२॥

‘आज कोई नगरमें मर गया है’ इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे खाऊँगा’ ऐसा विचार कर वह शृगाल मुनिराजके समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समझ गये कि यह भ्रम्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकटभ्रम्यसे इस प्रकार कहने लगे कि पूर्वं जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अब शृगाल हुआ है और अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलनेपर भी उसी दुष्कर्मका विचार कर रहा है। हे भ्रम्य ! तू दुःखदायी पापको देनेवाले इस कुकर्मसे विरत हो व्रत ग्रहण कर और शुभ परिणाम धारण कर ॥३५०-३६०॥ मुनिराजके यह वचन सुनकर शृगालको इस बातका बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते हैं। शृगालकी चेष्टाको जाननेवाले मुनिराजने उस शृगालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य व्रत ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है अतः रात्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराजके वचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल (पाथेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपूर्ण वचन सुनकर वह शृगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया और रात्रिभोजन त्यागका व्रत लेकर मद्य-मांस आदिका भी त्याग कर दिया ॥३६१-३६४॥ उस समयसे वह शृगाल चावल आदिका विशुद्ध आहार लेने लगा। इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया ॥३६५॥ किसी एक दिन उस शृगालने सूखा आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीढ़ियोंके मार्ग-द्वारा किसी कुएँके भीतर गया। कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि सूर्य अस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये ही बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएँके भीतर गया। इस तरह वह शृगाल दो-तीन बार कुएँके भीतर गया और बाहर आया। इतनेमें सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान, उस शृगालने अपने व्रतमें दृढ़ रहकर तृषा-परिषह सहन किया और विशुद्ध परिणामोंसे मरकर कुबेरदत्त सेठकी धनमित्रा स्त्रीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ। व्रतके प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर प्रीतिकर संसारसे भयभीत हो उठा, उसने व्रतके माहात्म्यकी बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजको नमस्कार कर वह अपने घर लौट आया ॥३६६-३७१॥ आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्मिक्षे पड़नेपर दरिद्र मनुष्य बहुत ही दुःखी होता है उसी प्रकार इस संसारमें व्रतरहित मनुष्य दीर्घकाल तक दुःख भोगता हुआ निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता रहता है ॥३७२॥ व्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास



व्रतात्प्रत्ययमायाति निर्मलः शङ्कयते जनैः । व्रती सफलवृक्षो वा निर्मलो वन्यवृक्षवत् ॥३७३॥  
अभीष्टफलमाप्नोति व्रतवान्परजन्मनि । न व्रतादपरो बन्धुनाम्रितादपरो रिपुः ॥३७४॥

सर्वैर्वाग्निनिर्वाहो ब्राह्मणो निर्मलवत् न केनचित् । उग्रानिर्देवताभिश्च व्रतवाचासिभूयते ॥३७५॥

जन्तोऽपि नमन्येव व्रतवन्तं वयोनवम् । वयोवृद्धो व्रताद्धीनस्तृणवदगण्यते जनैः ॥३७६॥

प्रवृत्त्यादीयते पापं निवृत्त्या तस्य संक्षयः । व्रतं निवृत्तिमेवाहुस्तदगृह्णात्युत्तमो व्रतम् ॥३७७॥

व्रतेन जायते संपन्नाव्रतं संपदे भवेत् । तस्मात्संपदमाकांक्षन्निःकांक्षः सुव्रतो भवेत् ॥३७८॥

स्वर्गापवर्गयोर्बीजं जन्तोः स्वल्पमपि व्रतम् । तत्र प्रीतिकरो वाच्यो व्यक्तं दृष्टान्तकाक्षिणाम् ॥३७९॥

पूर्वोपातव्रतस्येष्टं फलमत्रानुभूयते । क्वचित्कदाचित्किञ्चित्किञ्चित् जायते कारणाद्विना ॥३८०॥

कारणादिच्छता कार्यं कार्ययोः सुखदुःखयोः । धर्मपापे विपर्यस्ते तदा वान्यत्तदीक्ष्यताम् ॥३८१॥

धर्मपापे विमुच्यान्यद्द्विष्यते कारणं वदन् । को विधीर्व्यसनी नोचेन्निरुणो नास्तिकोऽथवा ॥३८२॥

धीमानुदीक्षते पश्यन् जन्मनोऽस्य हिताहिते । भाविनस्ते प्रपश्यन्तः स्थुर्न धीमत्तमाः कथम् ॥३८३॥

इति मत्वा जिनप्रोक्तं व्रतामादाय शुद्धधीः । स्वर्गापवर्गसौख्याय यतेताविष्कृतोद्यमः ॥३८४॥

अथ प्रियकराख्याय सामिषेकं स्वसंपदम् । वसुंधरातुजे प्रीतिकरोऽदत्त विरक्तधीः ॥३८५॥

एव्य राजगृहं साथं बहुभिर्भृत्यवान्धवैः । भगवत्पादार्द्रमासाद्य संयमं प्राप्तवानयम् ॥३८६॥

करते हैं और व्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शंकित रहते हैं। व्रती फलसहित वृक्षके संमान है और अव्रती फलरहित वन्य वृक्षके समान है ॥३७३॥ व्रती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट फलको प्राप्त होता है, इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीवका व्रतसे बढ़कर कोई भाई नहीं है, और अव्रतसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है ॥३७४॥ व्रती मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु व्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता। बड़े-बड़े देवता भी व्रती मनुष्यका ईर्ष्यारहित नहीं कर पाते हैं ॥३७५॥ व्रती मनुष्य अवस्थाका नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं और वृद्धजन व्रतरहित हो तो उसे लोग तृणके समान तुच्छ समझते हैं ॥३७६॥ प्रवृत्तिसे पापका ग्रहण होता है और निवृत्तिसे उसका क्षय होता है। यथार्थमें निवृत्तिको ही व्रत कहते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य व्रतको अवश्य ही ग्रहण करते हैं ॥३७७॥ व्रतसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है और अव्रतसे कभी सम्पत्ति नहीं मिलती। इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चाहिए ॥३७८॥ इस जीवके लिए छोटाने-सा व्रत भी स्वर्ग और मोक्षका कारण होता है। इस विषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं, उन्हें प्रीतिकरका दृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥३७९॥ जिन्होंने पूर्वभवमें अच्छी तरह व्रतका पालन किया है वे इस भवमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है क्योंकि बिना कारणके क्या कभी कोई कार्य होता है? ॥३८०॥ जो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःखरूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिए अर्थात् धर्मसे सुख और पापसे दुःख होता है, ऐसा मानना चाहिए। जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फलकी ही प्राप्ति होती देखी जाती है ॥३८१॥ यदि वह मूर्ख, व्यसनी, निर्देय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पापको छोड़कर सुख और दुःखका कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कौन कहेगा? ॥३८२॥ जो केवल इसी जन्मके हित-अहितको देखत है वह भी बुद्धिमान् कहलाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-अहितका विचार रखे हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान् क्यों नहीं कहलायें? अर्थात् अवश्य ही कहलायें ॥३८३॥ ऐसा मानक शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषको चाहिए कि वह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्य प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे ॥३८४॥ तदनन्तर विर बुद्धिको धारण करनेवाले प्रीतिकरने अपनी स्त्री वसुंधराके पुत्र प्रियकरके लिए अभिषेकपू अपनी सब सम्पदाएँ समर्पित कर दीं और अनेक सेवक तथा भाई-बन्धुओंके साथ राजगृ

१ वयसा नवो वयोनवस्तम् नवयोनवस्तम् । 'सयौवनम्' इति ववचित्, नवयौवन ( ? )

२ विमुच्यन् ये ल० । ३ पश्य ल० ।

- निश्चयव्यवहाराम्भारनिर्वाणसाधनम् । त्रिरूपमोक्षसन्मार्गभावन् तद्वदोदयात् ॥३८७॥  
 निहृय घातिकर्माणि प्राप्यानन्तचतुष्टयम् । अघातीनि च विध्वंस्य पारमात्म्यं प्रयास्यति ॥३८८॥  
 इति श्रीमद्गणधोषनिवेशान्मरगाधेश्वरः । प्रीतवानभिवन्धायान्मन्वानः स्वकृतार्थताम् ॥३८९॥  
 अथान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकीं दशम् । दधन्नत्वा गणधोषं कुद्मकीकृतहस्तकः ॥३९०॥  
 शेषावसर्पिणीकालस्थितिं निरवशेषतः । आगम्युत्सर्पिणीकालस्थितियप्यनुयुक्तवान् ॥३९१॥  
 गणी निजद्विजाभोपुप्रसरे' प्रीणयन् सभाम् । गिरा गम्भीरया व्यक्तमुक्तवानिति स क्रमात् ॥३९२॥  
 चतुर्थकालपर्यन्ते स्थिते संवत्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्यात् सिद्धः सिद्धार्थमन्दनः ॥३९३॥  
 १. दुष्पमायाः स्थितिवर्षसहस्रान्येकविंशतिः । शतवर्षायुषस्तस्मिन्नुत्कृष्टेन मता नराः ॥३९४॥  
 ससारन्निप्रमाणान्ना रूक्षच्छाया विरूपकाः । त्रिकाकाहारनिरताः सुरतासक्तमानसाः ॥३९५॥  
 परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां द्युः कालदोषतः । यतोऽस्यै पापकर्माणो जनिष्यन्ते सहस्रशः ॥३९६॥  
 यथोक्तभूभुजाभावाज्जाते वर्णादिसंकरे । दुष्पमायां सहस्रान्द्व्यतीती धर्महानितः ॥३९७॥  
 पुरे पाटलिपुत्रास्थे शिशुपाकमहीपतेः । पापी तन्नूजः पृथिवीसुन्दरीं दुर्जनादिमः ॥३९८॥  
 चतुर्मुखाह्वयः कविकराजो वैजितभूतकः । उत्पत्स्यते माघसंवत्सरयोगसमागमे ॥३९९॥  
 सप्तमार्गं सप्ततित्वस्य परमायुः प्रकीर्तितम् । चत्वारिंशत्समा राज्यस्थितिश्चाक्रमकारिणः ॥४००॥  
 पणवस्तुक्तपापण्डितवर्गस्याज्ञाविधायिनः । निजभृत्यत्वमापाद्य महीं कृत्वा स भोक्ष्यति ॥४०१॥  
 अथान्येषुः स्वमिथ्यात्वपाकाविष्कृतचेतसा । पापण्डितु किमस्माकं सन्त्यत्राज्ञापाराङ्मुखाः ॥४०२॥

नगरमें भगवान् महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है ॥३८५-३८६॥ निश्चय और व्यवहाररूप मोक्षका साधन, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप मोक्षमार्गकी भावना ही है ॥ सो इसके बलसे ये प्रीतिकर मुनिराज घातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अघातिया कर्मोंको नष्ट कर परमात्मपद प्राप्त करेंगे ॥३८७-३८८॥ इस प्रकार श्रीमान् गणधरदेवकी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने-आपको कृतार्थ मानता हुआ नगरमें चला गया ॥३८९॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी कालकी स्थिति और आनेवाली उत्सर्पिणी कालकी समस्त स्थिति पूछी ॥३९०-३९१॥ तब गणधर भगवान् अपने द्रौत्योंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको सन्तुष्ट करते हुए गम्भीर वाणी-द्वारा इस प्रकार अनुक्रमसे स्पष्ट कहने लगे ॥३९२॥ उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रह जायेंगे तब भगवान् महावीर स्वामी सिद्ध होंगे ॥३९३॥ दुष्पमा नामक पंचम कालकी स्थिति इकीस हजार वर्षकी है । उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सौ वर्षकी आयुके धारक होंगे ॥३९४॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायेगी, रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे और उनके मन काम-सेवनमें आसक्त रहेंगे ॥३९५॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्योंकि पाप करनेवाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे ॥३९६॥ शास्त्रोक्त लक्षणवाले राजाओंका भ्रम होनेसे लोग वर्णसंकर हो जायेंगे । उस दुष्पमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिवपालकी रानी पृथिवीसुन्दरीके चतुर्मुख नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनोमें प्रथम-संख्याका होगा, पृथिवीकी कम्पायमान करेगा और कल्कि राजाके नामसे प्रसिद्ध होगा । यह कल्कि मघा नामके संवत्सरमें होगा ॥३९७-३९९॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तर वर्षकी होगी और उसका राज्यकाल चालीस वर्ष तक रहेगा ॥४००॥ पापण्डी साधुओंके जो छियानवे वर्ग हैं, उन सबको वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त पृथिवीका उपभोग करेगा ॥४०१॥ तदनन्तर मिथ्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी कल्कि अपने मन्त्रियोंसे पूछेगा कि कहो इन पापण्डी साधुओंमें अब भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी

कथ्यतामिति पापेन प्रष्टव्यास्तेन मन्त्रिणः । निर्ग्रन्थाः सन्ति देवेति ते वदित्व्यन्ति सोऽपि तान् ॥४०  
 आचारः कोदशस्तेषामिति प्रक्षयति भूपतिः । निजपाणिपुटामत्रा धनहीना गतस्त्रुहाः ॥४०४॥  
 अहिंसाव्रतक्षार्थं त्यक्त्वादिदं चराः । साधनं तपसो मत्वा देहस्थित्यर्थमाहृत्य ॥४०५॥  
 एकद्वयुपोचितामन्त्रे भिक्षाकालेऽङ्गदर्शनात् । निर्याचान्स्वशास्त्रोक्तां ग्रहीतुमभिलाषिणः ॥४०६॥  
 आत्मनो चातके त्रायके च ते समदर्शिनः । क्षुत्पिपासादिबाधायाः सहाः सत्यपि कारणे ॥४०७॥  
 परपापिण्डवसानैरदत्तममिलाशुकाः । सर्पा वा विहितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः ॥४०८॥  
 अनृतंचारदेशेषु संवसन्ति मृगैः समम् । इति वक्ष्यन्ति इष्टं स्वैर्विशिष्टास्तेऽप्य मन्त्रिणः ॥४०९॥  
 श्रुत्वा तत्सहितं नाहं शक्नोम्यक्रमवर्तनम् । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः शुभको विधीयताम् ॥४१०॥  
 इति राजोपदेशेन याचिष्यन्ते नियोगिनः । अग्रपिण्डमशुभानाः स्थास्यन्ति मुनयोऽपि ते ॥४११॥  
 तद्वट्टा दर्पिणो सन्ना नाज्ञां राज्ञः प्रतीप्सवः । किं जातमिति ते गत्वा ज्ञापयिष्यन्ति तं नृपम् ॥४१२॥  
 सोऽपि पापः स्वयं क्रोधाददृष्टीभूतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहर्तुं प्रफुरद्दानचच्छदः ॥४१३॥  
 सोढुं तदक्षमः कश्चिदसुरः शुद्धदत्तदा । हनिष्यति तमन्यायं शक्तः सन् सहते न हि ॥४१४॥  
 सोऽपि रत्नप्रभां गत्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुर्मुखो दुःखं लोमादनुभविष्यति ॥४१५॥  
 धर्मनिर्मूलविध्वंसं सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावधलेशेन विना धर्मप्रभावना ॥४१६॥

आज्ञासे पराङ्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कहेंगे कि हे देव ! निर्ग्रन्थ साधु अब आपकी आज्ञासे बहिर्भूत हैं ॥४०२-४०३॥ यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका कैसा है ? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बरतन है अर्थात् हाथमें ही भोजन करते हैं, धनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा व्रतकी रक्षाके वखादिका आचरण छोड़कर दिगम्बर रहते हैं, तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके एक दो उपवासके बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके बिना ही अशास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार आहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग अपना घ करनेवाले अथवा रक्षा करनेवालेपर समान दृष्टि रखते हैं, क्षुधा, तृषा आदिकी बाधाको करते हैं, कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओंके समान दूसरेके द्वारा नहीं दी हुई कभी अभिलाषा नहीं रखते हैं, वे सर्पके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं हैं, ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके सा रहते हैं । इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे ॥४०४-४०६॥ यह सुनकर राजा कहेंगे कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनेके लिए समर्थ हूँ, इसलिए इनके हाथमें जो पहला भोजनका प्रास दिया जाये वही कर रूपमें इनसे ब किया जावे ॥४०७॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम प्रास माँगें और मुनि भोजन किये बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कर्मचा राजासे जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्या हो गया है ? दिगम्बर साधु राजाकी आ माननेको तैयार नहीं हैं ॥४०९-४१२॥ कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र हो जावेंगे और ओठ फड़कने लगेंगे । तदनन्तर वह स्वयं ही प्रास छीननेका उद्यम ॥४१३॥ उस समय शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सके इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायको सहन करता है ॥४१४॥ यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली पृथिवीमें जावेगा, एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगे ॥४१५॥ प्रभावशाली मनुष्य धर्मका निर्मूल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ साव (हिंसापूर्ण) कार्यके बिना धर्म-प्रभावना हो नहीं सकती इसलिए सम्यग्दृष्टि असुर अन्या

धर्मो माता पिता धर्मो धर्मस्नातामिवर्धकः । धर्ता भवभृतां धर्मो निर्मले निश्चले पदे ॥४१७॥  
 धर्मध्वसे सत्तां ध्वंसस्तस्माद्दुर्भदुहोऽधमान् । निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तै सत्तां जगत् ॥४१८॥  
 निमित्तरष्टवाप्रोक्तैस्तपोभिर्जनरञ्जिनैः । धर्मोपदेशनैरन्यवादिदृष्टिनिशान्तनैः ॥ ४१९॥  
 नृपनेतोद्दरै श्रम्यैः काव्यैः शब्दार्थमुन्दरैः । सद्भिः शौर्येण वा कार्यं शासनस्य प्रकाशनम् ॥४२०॥  
 चिन्तामणिसमा. केचित्प्रार्थितार्थप्रदायिनः । दुर्लभा धीमतां पूज्या धन्या धर्मप्रकाशकाः ॥४२१॥  
 रुचिः प्रवर्तते यस्य जैनशासनभासने । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निगद्यते ॥४२२॥  
 स शब्दः स हि तर्कज्ञः स सैदान्तः स सत्तपा । यः शासनसमुद्रासी न चेदिकं तैरनर्थकैः ॥४२३॥  
 भास्वतेव जगद्येन भासते जैनशासनम् । तस्य पादाम्बुजद्वन्द्वं भ्रियते मूर्ध्नि धामिकाः ॥४२४॥  
 उदन्वानिव रत्नस्य मलयश्रन्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान् पुमान् शासनभासनः ॥४२५॥  
 कण्टकानिव राज्यस्य नेता धर्मस्य कण्टकान् । सद्बोद्धरतिसोद्योगो यः स लक्ष्मीधरो भवेत् ॥४२६॥  
 प्रमदप्रसवाकीर्णं मनोरञ्जे महानटः । नटताञ्जैनसद्वर्ममासनाभिनयो मम ॥४२७॥  
 तनूजः कल्किराजस्य बुद्धिमानजितंजयः । पत्न्यां बालनया सार्धं यात्येन शरणं सुरम् ॥४२८॥  
 सम्यग्दर्शनरत्नं च महाधै स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधर्ममाहास्यं दृष्ट्वा सुरविनिमित्तम् ॥४२९॥  
 तदा प्रभृति दुर्दर्पस्याज्यः पाषण्डिपापिभिः । कंचित्कालं जिनेन्द्रोक्तधर्मो वर्तिष्यतेतराम् ॥४३०॥

चतुर्मुख राजाको मारकर धर्मकी प्रभावना करेगा ॥४१६॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोंकी माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही बढानेवाला है, और धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोक्ष पदमें धारण करनेवाला है ॥४१७॥ धर्मका नाश होनेसे सज्जनोंका नाश होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष है वे धर्मका द्रोह करनेवाले नीच पुरुषोंका निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषोंसे सज्जन-जगत्की रक्षा होती है ॥४१८॥ आठ प्रकारके निमित्त-ज्ञान, तपश्चरण करना, मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्तको हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अर्थसे सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरवीरता दिखाना, इन सब कार्योंके द्वारा सज्जन पुरुषोंको जिन-शासनकी प्रभावना करनी चाहिए ॥४१६-४२०॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्थोंको देकर धर्मकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं ॥४२१॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि प्रवर्तमान है मानो मुक्ति उसके हाथमें ही स्थित है, ऐसा जिनागममें कहा जाता है ॥४२२॥ जो जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला है वही वैयाकरण है, वही नैयायिक है, वही सिद्धान्तका ज्ञाता है और वही उत्तम तपस्वी है । यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी उपाधियोंसे क्या लाभ है ? ॥४२३॥ जिस प्रकार सूर्यके द्वारा जगत् प्रकाशमान हो उठता है उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा अपने मस्तकपर धारण करते हैं ॥४२४॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और मलयगिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला श्रीमान् पुरुष धर्मकी उत्पत्तिका कारण है ॥४२५॥ जिस प्रकार राजा राज्यके कण्टकोंको उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार जो सदा धर्मके कण्टकोंको उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है वह लक्ष्मीका धारक होता है ॥४२६॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष-रूपी फूलोंसे व्याप्त मेरे मन-रूपी रंगभूमिमें जिनेन्द्र-प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका अभिनय-रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥४२७॥

तदनन्तर उस कल्किका अजितंजय नामका बुद्धिमान् पुत्र, अपनी बालना नामकी पत्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दर्शनरूपीरत्न स्वीकृत करेगा । देवके द्वारा किया हुआ जिनधर्मका माहात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिरसे

एवं प्रतिसहस्राब्दं तत्र त्रिंशत्केवलिकषु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जलमन्थनः ॥४३१॥  
 राशौ स भविता नाम्ना तदा मुनिषु पश्चिमः । चन्द्राचार्यस्य शिष्यः स्थान्मुनिर्वीरारङ्गाहायः ॥४३२॥  
 सर्वश्रीरार्थिकावर्गे पश्चिमः श्रावकोत्तमः । अग्निः फल्गुसेनाख्या श्राविका चापि सद्गता ॥४३३॥  
 एते सर्वेऽपि साकेतवास्तव्या दुष्प्रमान्त्यजाः । सत्सु पञ्चमकालस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥४३४॥  
 मासेष्वहःसु मासार्धमितेषु च सुमाधवाः । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाह्ने स्वातिसर्गमे ॥४३५॥  
 वीरारङ्गोऽग्निः सर्वश्रीस्यक्त्वा श्राविकापि सा । देहमायुश्च सद्धर्माद् गमिष्यन्त्यादिमां दिवम् ॥४३६॥  
 मध्याह्ने भूभुजो ध्वंसः सायाह्ने पाकमोजनम् । षट्कर्मकुलदेशार्थहेतुधर्माश्च मूलतः ॥४३७॥  
 सार्धं स्वहेतुसंप्राप्ती प्राप्स्यन्ति विजयं धुम् । तत्रोऽतिदुष्प्रमादौ स्युर्विशत्यव्दपरायुवः ॥४३८॥  
 नरोऽर्धाभ्यधिकारत्नित्रयमानशरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिद्वयसंमागता ॥४३९॥  
 पुनस्तदेव यास्यन्ति तिर्यङ्गनारकनामकम् । कार्पासवसनाभावाद् गतेष्वव्देषु कैपुचित् ॥४४०॥  
 पर्णादिवसनाः कालस्यान्ते नग्ना यथेप्सितम् । चरिष्यन्ति फलादीनि दीनाः शाखाभृगोपमाः ॥४४१॥  
 एकविंशतिरुदनां सहस्राण्यल्पवृष्टयः । जलदाः कालदोषेण कालो हि दुरतिक्रमः ॥४४२॥  
 क्रमाद्धीबलकायायुःसिद्धिहासो भविष्यति । प्रान्ते षोडशवर्षाद्युर्जीविनो हस्तदेहाः ॥४४३॥  
 अस्थिराद्यशुभान्येव प्रफलिष्यन्ति नामसु । कृष्णा रूक्षतनुच्छाया दुर्भगा दुस्वराः खलाः ॥४४४॥  
 दुरीक्ष्या विकटाकाशा दुर्बला विरलद्विजाः । निर्मस्रवक्षोगण्डाक्षिदेशाश्चिपुटनासिकाः ॥४४५॥

प्रवर्तमान होगा ॥४२८-४३०॥ इस प्रकार दुष्प्रमा नामक पंचम कालमें एक-एक हजार बाद जब क्रमशः बीस कल्कि हो चुकेगे तब अत्यन्त पापी जलमन्थन नामका पिछला क होगा । वह राजाओंमें अन्तिम राजा होगा अर्थात् उसके बाद कोई राजा नहीं होगा । समय चन्द्राचार्यके शिष्य वीरारंग नामके मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे आर्थिका होंगे, अग्निल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करनेवाली फ सेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी ॥४३१-४३३॥ वे सब अयोध्याके रहनेवाले हों दुष्प्रमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पंचम कालके जब साढ़े आठ माह बाकी रह जाँ तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय स्वातिनक्षत्रका उदय रहते वीरारंग मुनि, अग्निल श्रावक, सर्वश्री आर्थिका और फल्गुसेना श्राविका ये चारों ही जी शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धर्मके प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें जावेंगे । मध्याह्नके समय राजा नाश होंगा, और सायंकालके समय अग्निना नाश होगा । उसी समय षट्कर्म, कुल, देश अर्थके कारणभूत धर्मका समूल नाश हो जावेगा । ये सब अपने-अपने कारण मिलनेपर साथ विनाशको प्राप्त होंगे । तदनन्तर अतिदुष्प्रमा काल आवेगा । उसके प्रारम्भमें मनुष्य ब वर्षकी आयुवाले, साढ़े तीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर आहार करनेवाले पापी, न अथवा तिर्यच इन दो गतियोंसे आनेवाले और इन्हीं दोनों गतियोंसे जानेवाले होंगे । कप और वस्त्रोंके अभावसे कुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आदिके वस्त्र पहनेंगे परन्तु छठे कालके समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे और बन्दरोंके समान दीन होकर फलादिका भक्षण क लेंगे ॥४३४-४४१॥ कालदोषके कारण मेघोंने इक्कीस हजार वर्ष तक थोड़ी-थोड़ी वर्षा की ठीक ही है क्योंकि कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ॥४४२॥ मनुष्योंकी बुद्धि, बल, और आयु आदिका अनुक्रमसे हास होता जावेगा । इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्यों आयु सोलह वर्षकी और शरीरकी ऊँचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥४४३॥ उस समय नामक की प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियों ही फल देगी । उस समयके मनुष्य काले र होंगे, उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, वे दुर्भगा, दुःस्वर, खला, दुःखसे देखनेके योग्य, वि आकारवाले, दुर्बल तथा विरल दाँतोंवाले होंगे । उनके वक्षःस्थल, गाल और नेत्रोंके स्थान, भीतर धँसे होंगे, उनकी नाक चपटी होगी, वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे, भूल-भ्यास आदिसे पी

त्यक्तसर्वसदाचाराः क्षुत्पिपासादिबाधिताः । सरोगा निष्प्रतीकारा दुःखास्वादकवेदिनः ॥४४६॥  
 एवं गच्छति कालेऽस्मिन्नेतस्य परमावधौ । निम्नोषशोषमेताम्बु शरीरमिव संक्षयम् ॥४४७॥  
 अतिरौक्ष्या धरा तत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम् । विनाशचिन्तयेवोत्रिपाश्च प्रम्दानयष्टयः ॥४४८॥  
 प्रलयः प्राणिनामेवं प्रायेणोपजनिष्यते । सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च खेचराद्देश वेदिकाः ॥४४९॥  
 श्रित्वा नदीसमुद्भूतमीनमण्डककच्छपान् । कृत्वा कर्कटकादींश्च निजाहारान्मनुष्यकाः ॥४५०॥  
 विष्टा क्षुद्रभिलादीनि ह्राससत्तिकुलोद्भवाः । हीना दीना दुराचारास्तदा स्थास्यन्ति केचन ॥४५१॥  
 सरसं विरस तीक्ष्णं रूक्षमुष्णं विषं विषम् । क्षारं मेघाः क्षरिष्यन्ति सप्त सप्तदिनान्यलम् ॥४५२॥  
 ततो धरण्या वैषम्यविगमे सति सर्वतः । भवेच्चित्रा समा भूमिः समासाम्रावसर्पिणी ॥४५३॥  
 हतोऽतिदुष्पमोत्सर्पिण्याः पूर्वोक्तप्रमाणमाक् । चर्तिष्यति प्रजावृद्धये ततः क्षीरपयोधराः ॥४५४॥

रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेगे और केवल दुःखके स्वादका ही अनुभव करनेवाले होंगे ॥४४४-४४६॥ इस प्रकार समय बीतनेपर जब अतिदुःषमा कालका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरीरके समान ही नष्ट हो जावेगा ॥४४७॥ पृथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब चीजोंके नाश हो जानेकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जावेंगे ॥४४८॥ प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रलय हो जावेगा । गंगा सिन्धु नदी और विजयार्ध पर्वतकी वेदिकापर कुछ थोड़े-से मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदीके मुखमें उत्पन्न हुए मछली, मेंढक, कछुए और कंकड़ा आदिको खाकर जीवित रहेंगे । उनमेंसे बहत्तर कुलोंमें उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीन-हीन जीव छोटे-छोटे बिलोंमें घुसकर ठहर जावेंगे ॥४४९-४५०॥ तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक क्रमसे सरस, विरस, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, विष-रूप और खारे पानीकी वर्षा करेंगे। इसके बाद पृथिवीकी विषमता (ऊँच-नीचपना) नष्ट हो जायेगी, सब ओर भूमि चित्रा पृथिवीके समान हो जावेगी और यहींपर अपसर्पिणी कालकी सीमा समाप्त हो जायेगी ॥४५१-४५३॥ इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा काल चलेगा, वह भी इक्कीस हजार वर्षका होगा । इसमें प्रजाकी वृद्धि होगी । पहले ही क्षीर

१ अतिरूक्षाधरा ल० । २ क्षामेघाः ल० ।

ः त्रिलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुःषमा कालके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन इस प्रकार किया है—

सवत्सयणामणिलो गिरि तरुमूषहृदि चणुणं करिय ।

भमदि दिसंतं जीवा मरति मुच्छति छट्टते ॥८६४॥

खग गिरि गंग दुवेदी क्षुद्विलादि निसति आसण्णा ।

णैति दया खचरसुरा मणुस्स जुगलादि बहुजीवे ॥८६५॥

छट्टमचरिमे होति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवही ।

अदिसीद खार विसपस्सगीरजघूमवरिसाजो ॥८६६॥

अर्थात्—छठे कालके अन्त समय सर्वतक नामका पवन चलता है जो पर्वत, वृक्ष, पृथिवी आदिको चूर्ण कर अपने क्षेत्रको अपेक्षा दिशाओके अन्त तक भ्रमण करता है । उस पवनके आघातसे वहाँ रहनेवाले जीव मूर्च्छित होकर मर जाते हैं । विजयार्ध पर्वत, गंगा सिन्धु नदी, इनकी वेदिका और इनके शुद्ध विल आदिके वहाँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य युगलको आदि लेकर बहुत-से जीवोको बाधारहित स्थानमें ले जाते हैं । छठे कालके अन्तमें पवन आदि सात वर्षों सात-सात दिन पर्यन्त होती है । वे ये हैं—१ पवन २ अत्यन्त शीत ३ क्षाररस ४ विष ५ कठोर अग्नि ६ धूल और ७ घुमई । इन सात रूप परिणत पुद्गलको वर्षा ४९ दिन तक होती है ।

उत्तरपुराणके ४५१ वें श्लोकमें जो क्रम दिया है उसका क्रम कुछ दूसरा ही है । पं० लालारामजीने श्लोकका जो अनुवाद दिया है वह मालूम होता है त्रिलोकसारके आधारपर दिया है ।

तावद्दिननिबन्धेन निर्विराममहर्दिवम् । पयः पर्यासि दास्यन्ति धात्री त्यज्यति रूक्षताम् ॥४५५॥  
 तस्मिन्धनवर्णादिगुणं चावाप्स्यति क्रमात् । तथैवामृतमेघाश्च तावद्दिवसगोचराः ॥४५६॥  
 वृष्टिमापातयिष्यन्ति निष्पत्स्यन्तेऽत्र पूर्ववत् । ओषध्यस्तरवो गुह्यमृणादीन्यप्यनन्तरम् ॥४५७॥  
 ततो रसाधिकाम्भोदवर्षणात्षड्द्वयोः । यस्यामादौ बिकादिभ्यो निर्गत्य मनुजास्तदा ॥४५८॥  
 तेषां रसोपयोगेन जीविष्यन्त्याससंमदाः । वृद्धिर्गणति कालेऽस्मिन् क्रमात्प्राग्हासमात्मनाम् ॥४५९॥  
 तन्वादीनां पुनर्दुष्पमासमायाः प्रवेशने । आयुर्विधातिवर्षाणि नराणां परमं मतम् ॥४६०॥  
 सार्धारत्नत्रयोस्तेषु देहानां वृद्धिमोयुषाम् । प्राक्प्रणीतप्रमाणेऽस्मिन् काले विमलबुद्धयः ॥४६१॥  
 षोडशाविर्भविष्यन्ति क्रमेण कुलधारिणः । प्रथमस्य मनारूना तनुश्चतुररत्निषु ॥४६२॥  
 अन्त्यस्यापि तनुः सप्तारत्नभिः संमिता भवेत् । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रमः ॥४६३॥  
 ततः कनकराजास्वध्वजश्च । कनकध्वजः । कनकः पुङ्गवान्तोऽस्मात्कलिनो नलिनप्रमः ॥४६४॥  
 ततो नलिनराजास्वध्वजो नवमो नलिनध्वजः । पुङ्गवान्तश्च नलिनः पद्मः पद्मप्रमाह्वयः ॥४६५॥  
 पद्मराजस्ततः पद्मध्वजः पद्मादिपुङ्गवः । महापद्मश्च विज्ञेयाः <sup>३</sup>प्रज्ञापौस्वशाकलिनः ॥४६६॥  
 पूतेषां क्रमशः काले शुभभावेन वर्धनम् । महीसकलकालानां धान्यादीनां च <sup>४</sup>संगतम् ॥४६७॥  
 मनुष्याणामनाचारत्यागो योग्यान्मोजनम् । काले परिमिते मैत्री कजा सत्यं दया दमः ॥४६८॥  
 सन्तुष्टिर्त्रिनयक्षान्ती रागद्वेषाद्यतीव्रता । इत्यादि साधुवृत्तं च बह्विपाकेन भोजनम् ॥४६९॥  
 द्वितीयकाले वर्तते तृतीयस्य प्रवर्तने । सप्तारत्नप्रमाणाङ्गाः सद्बुद्धेकाब्दायुषो नराः ॥४७०॥  
 ततस्तोर्धकरोत्पत्तिस्तेषां नामामिधीयते । आदिमः श्रेणिकस्तस्मात्सुपाथोदङ्कतञ्जकः ॥४७१॥

जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल और दूधकी वर्षा करेंगे जिससे रूक्षता छोड़ देगी और उसीसे पृथिवी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होगी । इसके अमृत जातिके मेघ सात दिन तक अमृतकी वर्षा करेंगे जिससे ओषधियाँ, वृक्ष, पौधे घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥४५४-४५७॥ तदनन्तर रसाधिक जातिके मेघ रसकी करेंगे जिससे छह रसोंकी उत्पत्ति होगी । जो मनुष्य पहले बिलोमै घुस गये थे वे अब उ बाहर निकलेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्षसे जीवित रहेंगे । ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि जावेगी त्यों-त्यों प्राणियोंके शरीर आदिका हास दूर होता जावेगा—उनमें वृद्धि होने ॥४५८-४५९॥ तदनन्तर दुःषमा नामक कालका प्रवेश होगा, उस समय मनुष्योंकी उल्लूख बीस वर्षकी और शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथकी होगी । इस कालका प्रमाण भी इ हजार वर्षका ही होगा । इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह कुलकर उत्पन्न हें उनमेंसे प्रथम कुलकरका शरीर चार हाथसे कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका सात हाथ प्रमाण होगा । कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनक तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पाँचवाँ कनकपुंगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिन आठवाँ नलिनराज, नौवाँ नलिनध्वज, दशवाँ नलिनपुंगव, ग्यारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्म तेरहवाँ पद्मराज, चौदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मपुंगव और सोलहवाँ महापद्म नामका होगा । ये सभी बुद्धि और बलसे सुशोभित होंगे ॥४६०-४६६॥ इनके समयमें क्रमसे भावोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ॥४६७॥ मनुष्य अनाचा त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, दमन, सन् विनय, क्षमा, रागद्वेष आदिकी मन्दता आदि सज्जोचित चारित्र प्रकट होंगे और अग्निमें पकाकर भोजन करेंगे ॥४६८-४६९॥ यह सब कार्य दूसरे कालमें होंगे । इसके तीसरा काल लगेगा । उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बीस व होगी ॥४७०॥ तदनन्तर इसी कालमें तीर्थकरोंकी उत्पत्ति होगी । जो जीव तीर्थकर होंगे नाम इस प्रकार हैं—श्रेणिक १, सुपार्थ २, उदक ३, प्रोष्ठिल ४, कटप्रू ५, क्षत्रियद, श्रेष्ठी ७, शं

प्रोष्ठिलाख्यः कटपुत्र क्षत्रियः ओष्ठिसंज्ञकः । सप्तमः शङ्खनामा च नन्दनोऽथ सुनन्दवाक् ॥ ४३२ ॥  
 शशाङ्कः सेवकः प्रेमकश्चातोरणसंज्ञक । रैवतो वासुदेवाख्यो बलदेवस्ततः परः ॥ ४३३ ॥  
 भगलिर्वागलिर्द्वैपायनः कनकसंज्ञकः । पादान्तो नारदश्चास्वपादः सत्यकिपुत्रकः ॥ ४३४ ॥  
 ऋगोर्विद्यतिरिच्येते सप्तारस्मिप्रमादिकाः । तत्रैवान्येऽपि तीर्थेणाश्रतुर्विद्यतिसमिताः ॥ ४३५ ॥  
 तत्राथः षोडशप्रान्तसत्ताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारस्मितनृत्सेषश्चरमस्तोर्थायायकः ॥ ४३६ ॥  
 पूर्वकीटिमिताब्दायुश्चापपञ्चशतोच्छ्रितिः । तेषामाद्यो महापद्मः सुरदेवः सुपार्थवाक् ॥ ४३७ ॥  
 स्वयंप्रभश्च सर्वात्मभूताख्यो देवपुत्रवाक् । कुलपुत्रस्तथोदङ्कः प्रोष्ठिलो जयकीर्तिवाक् ॥ ४३८ ॥  
 मुनिसुव्रतनामारसंज्ञोऽपापामिधानकः । निष्कपायः सविपुलो निर्मलश्चित्रगुप्तकः ॥ ४३९ ॥  
 समाधिगुप्तसञ्ज्ञश्च स्वयंभूरिति नाममाक् । अनिवर्तो ज्ञ विजयो विमलो देवपालवाक् ॥ ४४० ॥  
 अनन्तवीर्यो विश्वेन्द्रवन्दितास्त्रिप्रसरोरुहः । कालेऽस्मिन्नेव चक्रेशा भाविनो द्वादशोच्छ्रियः ॥ ४४१ ॥  
 भरतो दीर्घदन्तश्च मुक्तदन्तस्तुतीयकः । गूढदन्तश्चतुर्थस्तु श्रीषेणः पञ्चमो मतः ॥ ४४२ ॥  
 षष्ठः श्रीभूतिशब्दाख्यः श्रीकान्तः सप्तमः स्मृतः । षष्ठोऽष्टमो महापद्मो विचित्रादिश्च वाहनः ॥ ४४३ ॥  
 दशमोऽस्मात्परः क्वातश्चक्रो विमलवाहनः । अरिष्टसेनः सर्वान्यः संपन्नः सर्वसंपदा ॥ ४४४ ॥  
 सीरिणोऽपि नवैवात्र तत्रायश्चन्द्रनामकः । महाचन्द्रो द्वितीयः स्यात्तत्रश्चक्रधरो भवेत् ॥ ४४५ ॥  
 हरिचन्द्रामिधः सिंहचन्द्रश्चन्द्रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीचन्द्रः केशवार्चितः ॥ ४४६ ॥  
 केशवाश्च नवैवात्र तेष्वप्यो नन्दिनामकः । नन्दिमित्रो द्वितीयः स्यान्नन्दिपेणस्ततः परः ॥ ४४७ ॥  
 नन्दिमुत्तिश्रतुर्थस्तु प्रतीतः पञ्चमो बलः । षष्ठो महाबलस्तु सप्तमोऽतिबलाह्वयः ॥ ४४८ ॥  
 अष्टमोऽभूत् त्रिपृष्ठाख्यो द्विष्टो नवमो विशुः । तद्द्वैरिणापि तावन्त एव विज्ञेयसंज्ञकाः ॥ ४४९ ॥  
 ततस्तत्कालपर्यन्तं भवेत्सुषमदुष्णमा । आदौ तस्थान् मनुष्याणां पञ्चापपद्मतोच्छ्रितिः ॥ ४५० ॥

नन्दन २, सुनन्द १०, शशांक ११, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४, रैवत १५, वासुदेव १६, भगलि १७, वागलि १८, द्वैपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चास्वपाद २२, और सत्यकिपुत्र २३, ये तेईस जीव आगे तीर्थकर होंगे । सात हाथको आदि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी । इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तीर्थकर होंगे ॥४३१-४३५॥ उनमें-से पहले तीर्थकर सोलहवें कुलकर होंगे । सौ वर्ष उनकी आयु होगी और सात अरबि ऊँचा शरीर होगा । अन्तिम तीर्थकरकी आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी और शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा होगा । उन तीर्थकरोंमें पहले तीर्थकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीर्थकर और होंगे—सुरदेव १, सुपार्थ २, स्वयंप्रभ ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ५, कुलपुत्र ६, उदक ७, प्रोष्ठिल ८, जयकीर्ति ९, मुनिसुव्रत १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कपाय १३, विपुल १४, निर्मल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वयंभू १८, अनिवर्तो १९, विजय २०, विमल २१, देवपाल २२, और अनन्तवीर्य २३ । इन समस्त तीर्थकरोंके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा करेंगे । इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक बारह चक्रवर्ती भी होंगे ॥४३६-४८१॥ उनके नाम इस प्रकार होंगे—पहला भरत, दूसरा दीर्घदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चौथा गूढदन्त, पाँचवाँ श्रीषेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नौवाँ महापद्म, दसवाँ विचित्र-वाहन, ग्यारहवाँ विमलवाहन और बारहवाँ सब सम्पदाओसे सम्पन्न अरिष्टसेन ॥४८२-४८४॥ नौ बलमद्म भी इसी कालमें होंगे । उनके नाम क्रमात्सुरा इस प्रकार हैं—१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७ पूर्णचन्द्र, ८ सुचन्द्र और नौवाँ नारायणके द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥४८५-४८६॥ नौ नारायण भी इसी कालमें होंगे । उनके नाम इस प्रकार होंगे—पहला नन्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्दिपेण, चौथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धबल, छठा महाबल, सातवाँ अतिबल, आठवाँ त्रिपृष्ठ और नौवाँ द्विष्ट नामके विशु होगा । इन नारायणोंके शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे । उनके नाम अन्य ग्रन्थोंसे जान लेना चाहिए ॥४८७-४८९॥ तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्णम काल आवेगा । उसके प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई

१ 'निष्कपाय सविपुलश्चित्रगुप्तसमाह्वयः' इत्यपि पाठ किन्त्वत्रैकतीर्थकरनाम षट्ति भवति ।



साधिका पूर्वकोट्यायुःस्थितिर्यतिषु केषुचित् । वर्षेषु निर्विशेषात्र जघन्यायर्जनस्थितिः ॥ ४९१ ॥  
 ततः पञ्चमकालेऽपि मध्यभोगसुखः स्थितिः । षष्ठकालेऽपि विज्ञेया वर्धभोगसुखः स्थितिः ॥ ४९२ ॥  
 एवं शेषनवस्थानकर्मभूमिषु वर्तनम् । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्वपि च भाविषु ॥ ४९३ ॥  
 एष एव विधिर्ज्ञेयः कल्पेषु जिनभाषितः । विदेहेषु च सर्वेषु पञ्चचापशतोच्छ्रितिः ॥ ४९४ ॥  
 मनुष्याणां परं चायुः<sup>१</sup> पूर्वकोटिमित मत्सम् । तत्र तीर्थकृतश्रद्धवर्तिनो रामदेवशावाः ॥ ४९५ ॥  
 पृथक्पृथक्महत्त्वेन शतं षष्ट्यधिकं स्मृताः । अल्पत्वेनापि ते विशतिर्भवन्ति पृथक्पृथक् ॥ ४९६ ॥  
 उत्कृष्टेन शत सप्तविंशत्युः सर्वभूमिजाः । उत्पद्यन्ते नरास्तत्र चतुर्गतिसमागताः ॥ ४९७ ॥  
 गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवशीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कर्मभूमिसमुद्भवाः ॥ ४९८ ॥  
 मनुष्याः संज्ञितस्तिर्यञ्च यान्युपपादनम् । आदिकल्पद्वये भावनादिदेवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥  
 जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । मनुष्येषूत्तमा भोगभूमिजाः कर्मभूसुवः ॥ ५०० ॥  
 निजवृत्तिविशेषेण त्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । शलाकापुरुषाः कामः खगाश्चान्ये सुरार्चिताः ॥ ५०१ ॥  
<sup>२</sup>सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः षष्ठकालाः कनिष्ठकाः । एकोरुकास्तथा भाषाविहीनाः<sup>३</sup> शङ्कुकर्णकाः ॥  
 कर्णप्रवरणालम्बशशकाश्चादिकर्णकाः । अश्वसिंहमुखश्चान्ये दुष्प्रेक्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३ ॥

पाँचसौ धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयु होगी । इसके बाद कुछ व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जघन्यभोगभूमिके आर्य जनके समान सब स्थिति आ जावेंगी ॥४९०-४९१॥ फिर पंचम काल आवेगा । उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी उसके अनन्तर छठा काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥४९२॥ भरतक्षेत्रके सिवाय और जो बाकी नौ कर्मभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति गयी है अर्थात् उत्सर्पिणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर और अवसर्पिणीके १० कोड़ा-सागर दोनों मिलाकर बीस कोड़ा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह उत्सर्पिणियों तथा अवसर्पिणियोंमें होता है । सभी विदेहक्षेत्रोंमें मनुष्योंकी ऊँचाई धनुष प्रमाण होती है और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्व प्रमाण रहती है । वहाँ तीर्थकर, बलभद्र और नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सौ साठ और कमसे कम हों तो प्रत्येक बीस-बीस होते हैं । भावार्थ—अर्दाई द्वीपमें पाँच विदेह हैं और एक-एक विदेहक्षेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ भेद हो जाते हैं, यदि तीर्थकर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह क्षेत्रमें एक-एक हों तो सौ साठ हो जाते हैं और कमसे कम हों तो एक-एक महाविदेह सम्बन्धी चार-चार न अवश्यमेव होनेके कारण बीस ही होते हैं ॥४९३-४९६॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें व हुए तीर्थकर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैं । भूमियोंमें चारों गतियोंसे आये हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपने-अपने आचारके वशी होकर मोक्षसहित पाँचों गतियोंमें जाते हैं । सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज मनुष्य संज्ञी तिर्यच ही उत्पन्न होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले और दूसरे अथवा भवनवासी आदि तीन निकार्योंमें उत्पन्न होते हैं । यह नियम है कि भोगभूमिके मनुष्य और तिर्यच नियमसे देव ही होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्त हाते है और कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन कहे गये हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य । शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य जघन्य श्रेणीके हैं । सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शंङ्कुके समान कानवाले, कानको ही ओढ़ने-बिछानेवाले अ

१ पूर्वकोटीपरं मतम् क०, ख०, ग०, घ० । २ सन्तो दिव्यमनुष्या स्युः षष्ठकाला कनिष्ठका । ग०, घ० । सन्तो दिव्यमनुष्याश्च षष्ठकालाः कनिष्ठकाः म० । सन्तो दिव्यमनुष्यासु षष्ठकाला कनि ल० । ३ शङ्कु इत्यपि क्वचित् ।

क्रोडध्याप्रमुखाश्चैवसुलूकमुबनामकाः । शाखासृगमुखा मत्स्यमुखाः काकुमुखास्तथा ॥ ५०४ ॥  
 गोमेषमेखवन्त्राश्च विद्युदादर्शवन्त्रकाः । हस्तिवन्त्रा कुमासुप्यजा लाङ्गुळविधाणिनः ॥ ५०५ ॥  
 पृते च नीचका यस्मादन्तर्द्वीपत्रासिनः । स्केच्छलपदेषु सर्वेषु विजयाधेषु च स्थितिः ॥ ५०६ ॥  
 तीर्थकृत्कालवद् द्विहासवत्कर्मभूमिषु । इदं च श्रेणिकप्रदानादिन्द्रभृतिगणाधिपः ॥ ५०७ ॥  
 हस्याह वचनाभीषु निरस्तान्तस्तमस्ततिः । इहान्वयतीर्थनाथोऽपि विहृत्य विषयान् बहून् ॥ ५०८ ॥  
 क्रमात्पावनापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे । बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥  
 स्थित्वा दिनद्वयं वीतिविहारो वृद्धनिर्जरः । कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुर्दश्यां निवारयथे ॥ ५१० ॥  
 स्वातियोगे तृतीयेऽशुक्लपयानपरायणः । कृतत्रियोगसंरोधः समुच्छिन्नक्रियं श्रितः ॥ ५११ ॥  
 हताघातिचतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः । गन्ता मुनिसहस्रेण निर्वाणं सर्ववाञ्छितम् ॥ ५१२ ॥  
 तदेव पुरुषार्थस्य पर्यन्तोऽनन्तसौख्यकृत् । अथ सर्वेऽपि देवेन्द्रा बहूनिद्रमुकुटस्फुरत् ॥ ५१३ ॥  
 हुताशनशिखान्यस्ततद्देहा मोहविद्विषम् । अभ्यर्च्य गन्धमाद्यादिद्रव्यैर्दिव्यैर्याचिषि ॥ ५१४ ॥  
 बन्दिष्यन्ते भवातीतमर्ष्यैर्वन्दारवः स्ववैः । वीरनिर्घृत्तिसंभासदिन एवास्तघातिकाः ॥ ५१५ ॥  
 भविष्यान्वहमप्युद्यत्केवलज्ञानलोचनः । भव्यानां धर्मदेशेन विहृत्य विषयास्ततः ॥ ५१६ ॥  
 गत्वा विपुलशब्दादिगिरीं प्राप्स्यामि निवृत्तिम् । भक्तिर्घृत्तित्पदे लब्धा सुधर्मः श्रुतपारमः ॥ ५१७ ॥  
 कोकालोकावलोकैकालोकमन्यविकोचनम् । तन्निर्वाणक्षणे भावी जन्मनामासकेवकः ॥ ५१८ ॥  
 अन्यः केवलिनार्मास्मिन्मरते स प्रकल्प्यते । नन्दी मुनिरगतः श्रेष्ठो नन्दिमित्रोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥

लम्बे कानवाले, खरोशके समान कानवाले, घोड़े आदिके समान कानवाले, अश्वमुख, सिंहमुख, देखनेके अयोग्य महिषमुख, कोलमुख ( शूकरमुख ), व्याघ्रमुख, उलूकमुख, वानरमुख, मत्स्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, आदर्शमुख, हस्तिमुख, पूँछवाले, और सींगवाले ये कुभोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं । ये सब अन्तर्द्वीपमें रहते हैं । सब म्लेच्छखण्डों और विजयाधि पर्वतोंकी स्थिति तीर्थकरोंके समयके समान होती है और शृद्धिहास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है । इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रद्वनके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने वचनरूपी फिरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहको नष्ट करते हुए यह हाल कहा । उन्होंने थह भी कहा कि भगवान् महावीर भी बहुतेसे देशोंमें विहार करेंगे ॥४९७-५०८॥ अन्तमें वे पावापुर नगरमें पहुँचेंगे । वहाँके मनोहर नामके वनके भीतर अनेक सरोवरोंके बीचमें मणिमयी शिलापर विराजमान होंगे । विहार छोड़कर निर्जराको बढाते हुए वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे और फिर कार्तिककृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्लपञ्चममें तत्पर होंगे । तदनन्तर तीनों योगोंका निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लपञ्चमको धारण कर चारों अघातिया कर्मोंका क्षय कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप होकर एक हजार मुनियोंके साथ सबके द्वारा वाञ्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे ॥५०९-५१२॥ वही उनका, अनन्त सुखको करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा—उनके पुरुषार्थकी वही अन्तिम सीमा होगी । तदनन्तर इन्द्रादि सब देव-आवेंगे और अग्नीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी शिखापर भगवान् महावीर स्वामीका शरीर रखेंगे । स्वर्गसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थोंके द्वारा मोहके शत्रुभूत उन तीर्थकर भगवान्की विधिपूर्वक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थोंसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेवाले उन भगवान्की स्तुति करेंगे । जिस दिन भगवान् महावीर स्वामीको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देता हुआ अनेक देशोंमें विहार करूँगा । तदनन्तर विपुलाचल पर्वतपर जाकर निर्वाण प्राप्त करूँगा । मेरे निर्वाण जानेके दिन ही समस्त-श्रुतज्ञानके पारगामी सुधर्म गणधर भी लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान रूपी अन्तिम लोचनको प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जानेके समय ही जन्मस्वामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे । वह जन्मस्वामी भरत क्षेत्रमें अन्तिम केवली कहलावेंगे ।

गोवर्धनश्चतुर्थोऽन्यो भद्रबाहुर्महातपाः । नानानयविचित्रार्थसमस्तश्रुतपूर्णताम् ॥ ५२० ॥  
 पूते क्रमेण पद्भ्यापि प्राप्स्यन्त्यासत्रिशुद्धयः । ततो भावी विद्याख्ययः प्रोष्ठिकः क्षत्रियान्तकः ॥ ५२१ ॥  
 जयनामानुनागाङ्गः सिद्धार्थो धृतिषेणकः । विजयो बुद्धिलो गङ्गदेवश्च क्रमतो मताः ॥ ५२२ ॥  
 एकादश सह श्रीमद्भसेनेन धीमता । द्वादशाङ्गार्थकुशाका दशपूर्वधराश्च ते ॥ ५२३ ॥  
 भव्यानां कल्पवृक्षाः स्तुजिनधर्मप्रकाशकाः । ततो नक्षत्रनामा च जयपालश्च पाण्डुना ॥ ५२४ ॥  
 दुमसेनोऽनुकंसार्यो विदितेकादशाङ्गकाः । सुभद्रश्च यशोभद्रो यशोबाहुः प्रकृष्टधीः ॥ ५२५ ॥  
 लोहनामा चतुर्थः स्यादाचाराङ्गविदस्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्गीर्णं पावनं पापलोपनम् ॥ ५२६ ॥  
 श्रुतं तपोभृतामेघां प्रणेष्यति परम्परा । शेषैरपि श्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥  
 जिनसेनानुगैर्वीरसेनैः प्राप्तमहर्द्धिभिः । समासे दुष्पमायाः प्राक्प्रायशो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥  
 भरतः सागराख्योऽनु सत्यवीर्यो शनैः स्तुतः । महीशो मित्रभावाहो मित्रवीर्योऽर्थमद्युतिः ॥ ५२९ ॥  
 धर्मदानादिवीर्यो च मघवान् बुद्धवीर्यकः । सीमंधरश्चिपृष्ठाख्यः स्वयंभूः पुरुषोत्तमः ॥ ५३० ॥  
 पुण्डरीकान्तपुरुषो दत्तः सत्यादिभिः स्तुतः । कुनालः पालकः पृथ्व्याः पतिनारायणो नृणाम् ॥ ५३१ ॥  
 सुभौमः सार्वभौमोऽजितंजयो विजयाभिधः । उग्रसेनो महासेनो जिनस्त्वं श्रेणिकेत्यमी ॥ ५३२ ॥  
 सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो धर्मप्रश्नविदां वराः । चतुर्विंशतिवीर्यशां संततं पादसेविनः ॥ ५३३ ॥  
 पुरुरवा सुरः प्राच्यकल्पेऽभूद्भरतात्मजः । मरीचिब्रह्मकरोत्थस्ततोऽभूत्तटिकद्विजः ॥ ५३४ ॥  
 सुरः सौधर्मकल्पेऽनु पुष्यमित्रद्विजस्ततः । सौधर्मजोऽमरस्तस्माद्द्विजन्माग्निसमाह्वय ॥ ५३५ ॥  
 सनत्कुमारदेवोऽस्मादग्निमित्रामिधो द्विजः । मरुन्माहेन्द्रकल्पेऽभूद्भरतात्मजो द्विजान्वये ॥ ५३६ ॥

इनके बाद नन्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और महातपस्वी भद्रबाहु होंगे । ये पाँचों ही मुनि अतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे वि अर्थोंका निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रुतज्ञानको प्राप्त होंगे अर्थात् श्रुतकेवली होंगे । इनके विशाखाय, प्रोष्ठिक, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव बुद्धिमान् धर्मसेन ये ग्यारह अनुक्रमसे होंगे तथा द्वादशांगका अर्थ कहनेमें कुशल और दश धारक होंगे ॥५१३-५२२॥ ये ग्यारह मुनि भव्योंके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जैनध प्रकाश करनेवाले होंगे । उनके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंसार्य ये ग्य अगोंके जानकार होंगे । इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान्, यशोबाहु और लोहाचार्य ये चार आचारांगके जानकार होंगे । इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जिनेन्द्रदे मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेवाले शास्त्रोंका प्ररूपण करेंगे । इ बाद बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले जिनसेन, वीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुतज्ञ एकदेशका प्ररूपण करेंगे । प्रायः कर श्रुतज्ञानका यह एकदेश दुःषमा नामक पंचम कालके तक चलता रहेगा ॥५२३-५२८॥ भरत, सागर, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीर्य, र मित्रभाव, सूर्यके समान कान्तिवाला मित्रवीर्य, धर्मवीर्य, दानवीर्य मघवा, बुद्धवीर्य, सीमन् त्रिपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्यदत्त, पृथिवीका पालक कुनाल, म का स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, अजितंजय, विजय, उग्रसेन, महासेन और चलकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेवाला तू । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणि ये सभी पुरुष श्रीमान् हैं, धर्म सन्बन्धी प्रश्न करनेवालोंमें श्रेष्ठ है, और निरन्तर तीर्थकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं ॥५२६-५३३॥ भगवान् महावीर स्वामीका पहले पुरुरवा नामका भील था, फिर पहले स्वर्गमे देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हु फिर ब्रह्मस्वर्गमें देव हुआ, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुआ ॥५३४॥ फिर सौधर्म स्व देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर अग्निसम नामका ब्राह्मण हुआ ॥५३५॥ फिर सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ, फिर अग्निमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर मा

जातो माहेन्द्रकल्पेऽनु मनुष्योऽनु ततश्च्युतः । नरकेषु त्रसस्थावरेष्वसंख्यातवस्त्रान् ॥५३७॥  
 भ्रान्त्वा ततो विनिर्गत्य 'स्थावरा'ख्यो द्विकोऽभवत् । ततश्चतुर्थकल्पेऽभूद्भिश्चनन्दी ततश्च्युतः ॥५३८॥  
 महाशुक्रे ततो देवस्त्रिखण्डेशस्त्रिपृष्ठवाक् । सप्तमे नरके तस्मात्तस्मात् गतविद्विषः ॥५३९॥  
 आदिमे नरके तस्मात्सिंहः सद्धर्मनिर्भक्तः । ततः सौधर्मकल्पेऽभूत्सिंहकेतु सुरोत्तमः ॥५४०॥  
 कनकोज्ज्वलनामभूत्ततो विद्याधराधिपः । देवः सप्तमकल्पेऽनु हरिपेणस्ततो नृपः ॥५४१॥  
 महाशुक्रे ततो देवः प्रियमित्रोऽनु चक्रभृत् । स सहस्रारकल्पेऽभूदेवः सूर्यप्रमाह्वयः ॥५४२॥  
 राजानन्दाभिधस्तस्मात्पुष्पोत्तरविमानजः । अच्युतेन्द्रस्ततश्च्युत्वा वर्धमानो जिनेश्वरः ॥५४३॥  
 प्राप्तपञ्चमहाकल्याणार्द्धिः प्रस्तुतसिद्धिमाक् । प्रदिश्याद्गुणभद्रेभ्यः स विभुः सर्वमङ्गकम् ॥५४४॥

शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं गौतमचक्रवार्तिनरुसद्भागवच्छ्रुत्वावाक्यमयैः  
 पीयूषैः सुकथारत्नातिमधुरैर्मन्त्रोपयुक्तैश्चिरम् ।  
 सा संसन्मगधाधिपश्च महतीं तृष्टिं समं जगमतुः  
 पुष्टिं दृष्टिविबोधोर्विदधतीं सर्वार्थसम्पत्करीम् ॥५४५॥

वसन्ततिलका

श्रीवर्धमानमनिशं जिनवर्धमानं  
 त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि संप्रथौते ।  
 योऽन्त्योऽपि तीर्थंकरमभिममन्थजैषीत्  
 काले कळौ च पृथुलीकृतधर्मतीर्थः ॥५४६॥

स्वर्गमें देव हुआ, फिर भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँ से च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और त्रस-स्थावर योनियोंमें भ्रमण करता रहा ॥५३६-५३७॥ वहाँसे निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर महाशुक्रेमें देव हुआ, फिर त्रिपृष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी—नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ । वहाँसे निकल कर सिंह हुआ ॥५३८-५३९॥ फिर पहले नरकमें गया, वहाँसे निकलकर फिर सिंह हुआ, उसी सिंहकी पर्यायमे उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधर्म स्वर्गमें सिंह-केतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोज्ज्वल नामका विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिपेण राजा हुआ, फिर महाशुक्रे स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका देव हुआ, वहाँसे आकर नन्द नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे च्युत होकर वर्धमान तीर्थंकर हुआ है ॥५४०-५४३॥ जो पंचकल्याण रूप महाशुद्धिको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें भोक्षलक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा गुणोंसे श्रेष्ठ समस्त पुरुषोंके लिए सर्व प्रकारके मंगल प्रदान करें ॥५४४॥

इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आरवाहित, गौतम स्वामीके मुख-कमलमें सुशोभित सरस्वती-देवीके वचन रूपी अघृतसे, वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक दोनों ही, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले पद्म ज्ञान और दर्शनको पुष्ट करने-वाले बड़े भारी सन्तोषको प्राप्त हुए ॥५४५॥ जो निर्मल भोक्षमार्गमें रात-दिन लक्ष्मीसे बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीर्थका भारी विस्तार किया है, और इस तरह जिन्होंने अन्तिम तीर्थंकर होते हुए भी पूर्व तीर्थंकरोंको जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धमानं जिनेन्द्रको मैं स्तुतिके मार्गमें लिखे जाता हूँ—अर्थात् उनकी स्तुति करता हूँ ॥५४६॥

स्तुत्यं प्रसादप्रितुमर्थिनो विनौति

न त्वयपदस्तव स मोहजयस्तत्रोऽयम् ।

तन्नार्थिनः स्तुतिरिहेश ममास्ति वाढं

स्तुत्यस्तुतिप्रणयिनोऽर्थपराङ्मुखस्य ॥५४७॥

येषां प्रमेयत्रिमुखं सुसुखप्रमाण

ते न स्तुतेर्हितशुषां विषयीभवेयुः ।

त्वं विश्वभावविहितावगमात्मकोऽहंन्

वक्ता हि तस्य तत एव हितैपिवन्धः ॥५४८॥

दातासि न स्तुतिफलं समुपैत्यवश्यं

स्तोता महज्जाडिति शुभ्रमयाचितोऽयम् ।

कुर्यां कृतस्तव न संस्तवनं जिनेश

दैन्यातिभीरुहमभ्यफलाभिलाषी ॥५४९॥

निष्कारणं तृणलवं च ददद्विधीः को

लोकं जिन त्वयि ददाति निरर्थकत्वम् ।

मुक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्तमेव

प्रेक्षावतां प्रथमगण्यमुशान्ति चित्रम् ॥५५०॥

सर्वस्वमर्थिजनताः स्वमिह स्वकीयं

चक्रः परे निरुपधिस्थिरसत्त्वसाराः ।

प्रोच्छ्रय्य तान् जिन वदन्ति वदान्यवर्थ

त्वां वाग्भरेव वितरन्तमहो विदग्धाः ॥५५१॥

हे ईश ! अर्थी लोग—कुछ पानेकी इच्छा करनेवाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थात् स्तुति योग्य पुरुषकी जो स्तुति करते हैं सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं परन्तु यह बात नहीं है क्योंकि आप मोहको जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, प्रयोजनोंसे विमुख हूँ ॥५४७॥ हे सुमुख ! जिनका प्रमाण अर्थात् ज्ञान, प्रमेय अर्थात् प रहित है—जो समस्त पदार्थोंको नहीं जानते हैं वे हिताभिलाषी लोगोंकी स्तुतिके नहीं हो सकते। हे अहंन् ! आप समस्त पदार्थोंको जानते हैं—समस्त पदार्थोंका ही आपका स्वरूप है और आप ही उन समस्त पदार्थोंके वक्ता हैं—उपदेश देनेवाले है इ हिताभिलाषी लोगोंके द्वारा आप ही स्तुति किये जानेके योग्य हैं ॥५४८॥ हे जिनेन्द्र ! आप स्तुतिका फल नहीं देते है तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य बिना किसी याचना ही स्तुतिका बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है इसलिए दीनतासे बहुत डरनेवाला श्रेष्ठ फलकी इच्छा करनेवाला मैं आपका स्तवन क्यों न करूँ ? ॥५४९॥ हे जि यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए बिना कारण तृणका एक टुकड़ा भी देता है मूर्ख कहलाता है परन्तु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते है ( इ आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिए ) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही जाते हैं यह महान् आश्चर्यकी बात है ॥५५०॥ इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने सर्वस्व-धन देकर याचक जनोंके लिए छलरहित स्थायी धनसे श्रेष्ठ बनाया है और हे जि आप केवल वचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चर्यकी बात है कि चतुर उन सबका उल्लंघन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भावार्थ—धन दान करनेवाले पुरुष संसारमें फँसानेवाले है परन्तु आप वैराग्यसे ओत-प्रोत उपदे जीवोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं अतः सच्चे और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं ॥

धीः पौरुषं च विजयार्जनमेव येषां

सौख्यं च विश्वविषया विरतीपभोगः ।

तेषां कथं तदुभयप्रतिपक्षरूपं

त्वच्छासनं श्रवणभिर्जिन मा जनिष्ट ॥५५३॥

पुण्य त्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं

गत्यादिभिः परमनिर्वृत्तिसाधनत्वात् ।

नैवामराखिलसुखं प्रति तच्च यस्माद्

बन्धप्रदं विषयनिष्ठमभीष्टवाति ॥५५३॥

कायादिकं सद्सि ते विफलं किलाहु-

नैतद्वचस्तव निशम्य निशम्य साक्षात् ।

त्वां यान्ति निर्वृत्तिमिहैव विनेयमुख्या

मुख्यं फलं ननु फलेषु परोपकारः ॥५५४॥

यल्लक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कर्म-

नामादिकं किमु निहन्ति तयोपयोगम् ।

तत्सत्तया जिन भवन्तमसिद्धमिच्छ-

न्निच्छेदन्ध्वरामनादतनोरसिद्धिम् ॥५५५॥

साधन्तहीनमनवद्यमनादिसान्तं

सावथमादिरहितानवसानमाहुः ।

हे जिन ! विषयोंका अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विषयोंका निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला आपका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेवाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥५५३॥ हे जिनन्द्र ! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन होनेसे इष्ट है तथा भव्य जीवोंके द्वारा करनेके योग्य है । देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयोंमें फँसानेवाला है और अभीष्ट ( मोक्ष ) का घात करनेवाला है ॥५५३॥ हे भगवन् ! समवसरणमें आपके जो शरीरादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात् आपके दर्शन कर इसी लोकमें परम आनन्दको प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि चित्तने फल है उन सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है ॥५५४॥ हे भगवन् ! ज्ञान दर्शनादिरूप लक्षणोंका घात करनेवाला जो नामादि कर्म आपको आत्मामें विद्यमान है वह क्या आपके उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । हे जिनन्द्र ! आत्मामें कर्मोंकी सत्ता होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर ऊर्ध्वगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान् भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं । भावार्थ— यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं हैं अतः उनकी जीवन्मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है ॥५५५॥ हे प्रभो ! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्तरहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि-अनन्त, पापसहित, पापरहित, दुःखी, सुखी और दुःख-सुख दोनोंसे रहित कहते हैं इसलिये जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ञ है वे आपको नहीं जान सकते हैं— उनके द्वारा आप अब्धेय हैं । भावार्थ—आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिये सिद्ध पर्यायकी अपेक्षा आप सादि हैं तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती इसलिये आप अन्तरहित हैं । आपकी संसारी पर्याय आदिरहित है अतः उसकी

त्वां दुःखिनं सुखिनमप्युभयव्यपेतं  
 तेनैव दुर्गमतमोऽसि नयानमिहः ॥५५६॥  
 संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि भावो  
 जीवस्य योगविगमाद्विगमो तदुत्थः ।  
 स्वोत्थे स्थितिः परमनिवृत्तिरेष मार्गो  
 दुर्गः परस्य तव वाक्यबहिष्कृतस्य ॥५५७॥  
 आस्तामनादि निगलच्छिद्यया ददासि  
 यन्मुक्तिमन्तरहितां तदिहालमेषा ।  
 स्नेहादिहेतुविनिवृत्तसमस्तसत्त्व-  
 संपालनप्रवर्णतैव तवासतायै ॥५५८॥  
 बोधस्तवाखिललोकनविभ्रमी किं  
 किं वाग्मितामितपदार्थनिरूपणायाम् ।  
 किं स्वार्थसंपदि परार्थपराङ्मुखस्त्वं  
 किं नासि सत्सु जिन पूज्यतमस्त्वमेव ॥५५९॥  
 विश्वावलोकनचित्तन्वदनन्तवीर्य-  
 व्यापारपारंसरणं न कदापि ते स्यात् ।  
 विभ्रं तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं  
 सन्तो वदन्ति किमु भक्तिरुतावबोधः ॥५६०॥

अपेक्षा अनादि है और कर्म क्षय हो जानेपर संसारी पर्यायका अन्त हो जाता है  
 अपेक्षा अन्तसहित है । द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वभावसे आप न  
 और न अन्त है अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित है । हिंसादि पापोंका आ-  
 कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं—निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप प्र-  
 का उदय अरहन्त अवस्थामें भी, विद्यमान है अतः सावद्य है—पाप प्रकृतियोंसे स-  
 अरहन्त अवस्थामें, असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुः-  
 मोह कर्मका अभाव हो जानेसे आकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी हैं  
 आप अव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुःखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं  
 प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंकी अपेक्षा आप अनेक रूप हैं । जो इस नयवादको नहीं स-  
 वह आपके इन विविध रूपोंको कैसे समझ सकता है ? ॥५५६॥ हे देव ! जीवोंके भ-  
 प्रकारके हैं—एक संयोगसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे स्वाभाविक । जो संयोगसे उत्-  
 वाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स-  
 विक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति है वही परमनिवृत्ति या परम मुक्ति कहलाती है  
 यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य दर्शनकारोंको कठिन है ॥५५७॥ हे  
 आप अनादि कर्मबन्धनको छेदकर जो अन्तरहित मुक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो  
 रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो  
 दक्षता है वही आपकी आपत्ता सिद्ध करनेके लिए बहुत है ॥५५८॥ हे भगवन् ! क्या  
 ज्ञान समस्त पदार्थोंके देखनेके कौतूहलसे सहित नहीं है ? क्या अपरिमित पदार्थोंके  
 करनेमें आपकी वचन-कुशलता नहीं है ? क्या परपदार्थोंसे पराङ्मुख रहनेवाले  
 स्वार्थरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्जनोंके बीच एक आप ह-  
 नहीं है ? ॥५५९॥ हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाले आपके अनन्-  
 व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग  
 ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथा

मन्यात्मनां परमनिर्द्वैतिसाधनार्थं .

त्वच्छेषितं तव न तत्र फलोपकृष्टिः ।

तस्मात्त्वमेव जिन वागमृताम्बुवृष्ट्या

संतर्पयन् जगदकारणवन्दुरेकः ॥५६१॥

जीवोऽयमुद्यद्गुणयोगीगुणोपलक्ष्य-

स्तस्योपहनन् ननु घातिचतुष्कमेव ।

घातेन तस्य जिन पुष्कललक्षणस्त्वं

त्वां तादृशं वद् वदन्तु कथं न सिद्धम् ॥५६२॥

साधारणास्तव न सन्तु गुणास्तद्विष्टं<sup>१</sup>

दृश्यो न तेषु जिन सत्सु गुणेषु साक्षात् ।

दृष्टे भवेद्भवति नक्तिरसौ यथाय<sup>३</sup>-

श्चेचीयते खवति पापमपि प्रभूतम् ॥५६३॥

देवावगाढमभवत्तवं मोहघाता-

च्छुद्धानमावृत्तिहतेः परमावगाढम् ।

आद्ये चरित्रपरिपूर्तिरथोत्तरत्र

विश्वावबोधविमुत्तासि ततोऽभिवन्धः ॥५६४॥

ध्वस्तं त्वया प्रबलपापबलं परं च

प्रोद्गिनपाळिलजलवत्प्रवहत्यजलम् ।

श्रद्धादिभिस्त्रिभिरभूत्त्रितयी च सिद्धिः

सद्धर्मचक्रसुभवद्भुवनैकनाथः ॥५६५॥

देवो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ-

हक्छोत्रनेत्रविषयत्वमुपेत्य सद्यः ।

है सो जान नहीं पढ़ता है ॥५६०॥ हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोंके मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना पढ़ता है कि वचनामृतरूपी जलकी वृष्टिसे संसारको छत्र करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु हैं ॥५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है और उस उपयोगको नष्ट करनेवाले चार घातिया कर्म हैं । उन घातिया कर्मोंको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है इसलिए हे जिनेन्द्र ! आप ही कहिए कि ऐसे आत्मलक्षणवाले आपको सिद्ध कैसे न कहें ? ॥५६२॥ हे भगवन् ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता हूँ परन्तु उन असाधारण गुणोंके रहते हुए भी आप साक्षात् दिखते नहीं हैं यह आश्चर्य है, यदि आपके साक्षात् दर्शन हो जावे तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा ब्रह्म भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥५६३॥ हे देव ! मोहनीय कर्मका घात होनेसे आपके अवगाढ सम्यग्दर्शन हुआ था और अब ज्ञानावरणका क्षय हो जानेसे परमावगाढ सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है । अवगाढ सम्यग्दर्शनमें चारित्रकी पूर्णता होती है और परमावगाढ सम्यग्दर्शनमें समस्त पदार्थोंके जाननेकी सामर्थ्य होती है इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप बन्धनीय है—बन्धना करनेके योग्य हैं ॥५६४॥ हे भगवन् ! आपने प्रबल घातिया कर्मोंकी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था अब अघातिया कर्म भी, जिसका बाँध टूट गया है ऐसे सरोवरके जलके समान निरन्तर बहते रहते हैं—खिरते जाते हैं । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रत्नत्रयके द्वारा आपको निश्चय-रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है और सभीचीन धर्मचक्रके द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी हुए हैं ॥५६५॥ हे कामदेवके मानको मर्दन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीर विकारसे रहित है

१ तद्विष्टो म०, ख० । २ यस्मिन्ननेपु क०, ग०, घ०, । दृष्टो न तेषु ख० । ३ पुण्यम् । ४ प्रचुरम् ।



त्वामस्तरागमखिलावगमं च कस्य -

न स्थापयेन्मनसि मन्मथमानमर्दिन् ॥५६६॥

किं वस्त्वहाक्षणिकमन्वयरूपमस्ति

व्यस्तान्वयं वद हि किं क्षणिकं च किञ्चित् ।

बुद्धादयो बुधप गर्भगतार्थकाभा

भेदोऽथमर्थविमुखोवगमो ह्यमीषाम् ॥५६७॥

तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं ते

स्वामाविकाद्यतिशयेऽपरोऽपि कश्चित् ।

कस्यापि संभवति किं कपिलादिकानां

केनात्तपङ्क्तिमुपयान्ति तपस्विनोऽमी ॥५६८॥

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमालं

ध्वस्तत्रिवेदमपि किं परमाङ्गसङ्गात् ।

किं मोहमल्लदहनस्किमनन्तवीर्यात्

किं सिद्धतापरिणतेर्गुणगौरवाद्वा ॥५६९॥

देहत्रयापनयनेन विनापि सिद्धि-

स्व शुद्धिशक्त्यतुल्यद्विदितोदितत्वात् ।

आधिक्यमस्त्यधिपते स्वदुदीरितोरु-

सन्मार्गगान्धयसि यत्परमात्मभावम् ॥५७०॥

और आपके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपको देखनेवाले हैं यदि कदाचित् ये दोनों ही नेत्र कर्ण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागद्वेषसे रहित तथा समस्त पदार्थोंको वाले आपको किसके मनमें शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात् सभीके मनमें स्थापि देंगे। भावार्थ—आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका नि करनेवाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने हैं। आपका शरीर निर्विकार इसलिए है कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदा यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थोंको जाननेवाले हैं—सर्वज्ञ हैं ॥५६६ विद्वानोंके पात्रक ! क्या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा नि रूपसे क्षणिक है। कैसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें बैठे हुए व समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थज्ञानसे विमुख है ॥५६५॥ हे आपका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके विषयभूत नहीं है यह बात तो दूर रही परन्तु निर आदि जो आपके स्वभाविक अतिशय हैं उनमेंसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एक सम्भव है ? अर्थात् नहीं है; फिर भला ये वेचारे कपिलादि आपकी पंक्तिमें कैसे बैठ है ? आप कैसे कहला सकते हैं ? ॥५६८॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपने तीनों वेदोंको न दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमौदारिक शरीरकी सं कहते हैं ? या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणमन कहते है या गुणोंके गौरवसे कहते है ? ॥५६९॥ हे भगवन् ! यद्यपि अभी आपने औद तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी शुद्धि, शक्ति और धैर्यके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके है। हे स्वामिन् ! आप अपने द्वारा विशाल, एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंको परमात्म-अवस्था प्राप्त करा दे

१ तपस्विनोऽपि क०, ख०, ग०, घ०, म० । २ सङ्गम् क०, ख०, ग०, घ० । ३-म क०, ख०, ग०, म० ।

अस्यैव देव तव चौदयिकोऽपि भावः

किं त्वेष मोहरहितस्य न बन्धहेतुः ।

योगानुरोधसमवाप्तशुभाणुबन्ध-

बन्धं निबन्धनं मुशन्त्यविरोधकत्वात् ॥१७१॥

त्वत्पादपङ्कजपटकिंघ्रतयात्पुण्याद्

गणयोऽभवत्सुरगणो गणनातिगश्रीः ।

आनन्त्रमौलिरत एव नखीन्मुखांशु-

भास्त्रन्मुखः शतमख सुमुखस्तवाद्भ्रूयोः ॥५७२॥

मासिनी

प्रथमपरमकाष्ठाणिहितोदात्तमूर्तेः

क्रमकरणविहीनज्ञानधामैकधाम्नः ।

द्वितयनयमयोद्यद्द्वारदिव्यध्वनेस्ते

ननु जिन परमात्मप्रानवन् भाति मर्तुं ॥५७३॥

शार्दूलचिक्रीडितम्

ज्ञानं सर्वगतं स्वरूपनियतं ते स्यादहेतुः कृते-

र्वीतिच्छायतनाः स्ववृत्त्यपटवो वाचो विवाचामपि ।

प्रस्थानस्थितयोऽप्यनात्मविहिता मात्मान्यबाधाप्रदा-

स त्वं निर्मलशोधदर्पणतले ज्ञेयाकृति धस्व मे ॥५७४॥

विश्वस्थास्त्रकित प्रभास्ति तव वापथात्मात्म्यमात्मोशिनो

यस्माद्दृष्टविरोधरोधरहिता रागाद्यविद्याच्छिद् ।

यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है ॥५७०॥ हे देव ! यद्यपि आपके औदयिक भाव है परन्तु चूंकि आप मोहसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोध सद्भावसे आपके सात्तावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका कुछ भी विघात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथार्थमें बन्धरहित ही कहते हैं ॥५७१॥ हे भगवन् ! आपके चरण-कमलोका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओं-का समूह गणनीय (माननीय) गिना गया है और उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याके बाहर हो गयी है । यही कारण है कि नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेवाली किरणोंसे जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र मुकुट झुकाकर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है—आपके चरणोंकी ओर निहार रहा है ॥५७२॥ हे जिनेन्द्र ! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रथम भावकी चरम सीमासे परिपूर्ण है, आप क्रम तथा इन्द्रियोसे रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक मात्र स्थान हैं, आपकी गम्भीर दिव्यध्वनि निश्चय और व्यवहारनयसे परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदका प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है ॥५७३॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है तो भी स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्यका कारण नहीं है । आपकी वाणी इच्छाके बिना ही खिरती है तो भी वचनरहित ( पशु आदि ) जीवोंका भी आत्मकल्याण करनेमें समर्थ है । इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है वह भी अपनी इच्छासे किया हुआ नहीं होता है और वह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है । ऐसे हे देव ! आप मेरे निर्मलज्ञानरूपी दर्पणके तलमें ज्ञेयकी आकृतिको धारण करो अर्थात् मेरे ज्ञानके विषय होओ ॥५७४॥ हे भगवन् ! आप आत्माके स्वामी हैं—अपनी इच्छाओंको अपने अधीन रखते हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका उच्छेद कर दिया है इसलिए आपके वचन प्रत्यक्षादि

तस्माद्धीर विकायसायकशिखामौखर्यवीयद्गहो  
 मोहद्रोहजयस्तवैव न परेऽवन्यायविन्यासिषु ॥५७५॥  
 देवो वीरजिनोऽयमस्तु जगतां वन्द्यः सदा मूर्ध्नि मे  
 देवस्त्वं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनाखिलम् ।  
 कारुण्यात्प्रथमानुयोगमवदः श्रद्धामिवृद्ध्यावहं  
 मन्नाभ्योदयतः सतां स सहजो भावो ह्ययं तादृशाम् ॥५७६॥

### मालिनी

इति कतिपयवाग्मिर्वर्धमानं जिनेन्द्रं  
 मगधपतिरुदीर्णश्रद्धया सिद्धकृत्यः ।  
 गणधृतमपि नुत्वा गौतमं धर्मधुर्यः<sup>५</sup>  
 स्वपुरमविशदुद्यत्तुष्टिरागामिसिद्धिः ॥५७७॥  
 अनुष्टुप्छन्दसा ज्ञेया ग्रन्थसंख्या तु विशतिः । सहस्राणां पुराणस्य व्याख्यातृश्रोतृलेखकैः ॥५

इत्यर्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे  
 श्रीवर्धमानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्ततितमं पर्व ।



विरोधसे रहित होकर समस्त संसारके लिए बिना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते है तरह हे वीर ! आपने कामदेवके बाणोंकी शिखाकी वाचालता और शक्ति दोनों ही दी है इसलिए मोहकी शत्रुताको जीतना आपके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य ल नहीं ॥५७५॥ समस्त जगत्के द्वारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी मेरे मस्तकपर विराजमान रहें और हे गणधर देव ! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमा क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे करुणा कर स्पष्ट बाणीके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करने प्रथमानुयोग कहा है सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ॥५७६॥ इस प्रकार जिसे आगामी कालमें मोक्ष होनेवाला है जिसने अपना कार्य सि लिया है, जो धर्मका भार धारण करनेवाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है मगधपति राजा श्रेणिक, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधरकी स्तुति कर अपने प्रविष्ट हुआ ॥५७७॥

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले और लिखनेवाला लोक पुराणकी संख्या अनुष्टुप् छन्दसे बीस हजार समझनी चाहिए ॥५७८॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, आर्ष नामसे प्रसिद्ध, त्रिषष्टिकक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री वर्धमान स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला यह छिहत्तरवां पर्व समाप्त हुआ ॥७६॥



१ जगतः ल० । २ सता इति षडचित् । ३ सिद्धकृत्यं ल० । ४ धर्मधुर्यम् ख० । ५ अनुष्टुप् ज्ञेया चतुर्विंशसहस्रिका । पुराणे ग्रन्थके संख्या व्याख्यातृश्रोतृलेखकैः ॥ क०, ख०, ग० ।

## अथ प्रशस्तिः

यस्यानताः पदनलैन्दवबिम्बबुम्बि-चूडामणिप्रकटसन्मुकुटा सुरेन्द्राः ।

न्यक्कुर्वते स्म हरमर्धशशाङ्कमौकिलीलोद्गतं स जयताञ्जिनवर्धमानः ॥३॥

श्रीमूलसद्वधवाराक्षी मणीनामिव साचिषाम् । महापुरुवरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥२॥

तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः । वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारकी बभौ ॥३॥

ज्ञानचारित्रसामग्रीवा प्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विघातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥४॥

यत्कमानग्रराजन्यसुखाब्जान्यादधुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाद्य नखचन्द्रमरीचिभिः ॥५॥

सिद्धिभूपद्धति<sup>१</sup> यस्य<sup>२</sup> टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते हेकथान्येषां विषमापि पदे पदे ॥६॥

यस्यास्याब्जजवाविच्छ्रया धवलया कीर्येव संश्रान्यया<sup>३</sup>

संप्रीतिं सततं समस्तसुधियां संपादयन्त्या सताम् ।

विद्वव्यासिपरिश्रमादिव चिरं लोके स्थितिं<sup>४</sup> संश्रिताः

श्रीशालीनमलान्यनाद्युपचितान्यस्तानि निःशेषतः ॥७॥

अमवदिव हिमाद्रेद्वैवसिन्धुप्रवाहो

ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रैकमूर्तिः ।

इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे और इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके विम्बका स्पर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तकपर अर्ध चन्द्रको धारण करनेकी लीलासे उन्मत्त हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जयशील हो ॥१॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार मूलसंघरूपी समुद्रमें महापुरुष-रूपी रत्नोंके स्थान स्वरूप एक खेनवंश हो गया है ॥२॥ उसमें समस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियोंको त्रास देनेवाले एवं वीरसेन संघमें अग्रणी वीरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे ॥३॥ वे ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीके समान शरीरको धारण कर रहे थे और शिष्यजनोंका अनुग्रह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे ॥४॥ यह आश्चर्यकी बात थी कि उन वीरसेन भट्टारकके चरणोंमें नख हुए राजा लोगोंके मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रफुल्लित होकर शोभाको धारण कर रहे थे ॥५॥ सिद्धिभूपद्धति ग्रन्थ यद्यपि पद-पदपर विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥६॥ जिन वीरसेन स्वामोके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई वचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीर्तिके समान श्रवण करने योग्य है, समस्त बुद्धिमान सज्जनोंको सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है और समस्त संसारमें फैलनेके परिश्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी वचनरूपी लक्ष्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानोंमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं । विशेषार्थ—श्री वीरसेन स्वामीने षट्खण्डागमके ऊपर जो धवलता नामकी टीका लिखी है वह मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लक्ष्मी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त सन्त्यज्जानो पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त लोकमें फैला हुआ है । और वह लोकमें सिद्धान्त ग्रन्थोंकी सीमाके समान स्थित है । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह धवलता टीका श्रोतृजनोंके अज्ञान रूपी मैलको चिरकाल तक सम्पूर्ण

१ मपुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिक — 'बतुविशतितोयेशा चतुर्गतिनिवृत्तये । वृषभादिमहावीरपर्यन्तान् प्रणमाम्यहम् ।' २-मग्रहीदिव ल० । ३ पदतिर्यस्य ल० । ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ० । ५ संश्रान्यया क०, घ०, म० । ६ स्थिति. म० ।

उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो

मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥८॥

यस्य प्राञ्जुनखांशुजाळचिस्तरद्धारान्तराविर्भवत्

पादाम्भोजरजपिशङ्गमुकुटप्रत्यग्ररलद्युतिः ।

संस्मर्ता स्वममोघवर्षनु गतिः पृथोऽहमद्येत्यलं

स श्रीमान्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥९॥

प्रावीण्य पदवाक्ययो परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे

सद्भाववावगतिः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशलम् ।

ग्रन्थग्रन्थिमिदिः सद्ध्वकवितेत्यग्रो गुणानां गणो

ये संप्राप्य चिरं कलङ्कविकलः काले कलौ सुस्थितः ॥१०॥

उयोस्त्वेव तारकाधीशो सहस्रांशाजिव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सहजास्मिन्सरस्वती ॥११॥

दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा

शशिन इव दिनेवो विद्वलोकैकचक्षुः ।

निखिलमिदमदीकि ज्यापि तद्वाङ्मयूखैः

प्रकटितनिजसाधं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥१२॥

सद्भावः सर्वशास्त्राणां तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितनिम्बानो बालैरप्याशु बुध्यते ॥१३॥

प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिर्विद्वोपविद्या<sup>१</sup> गतः

सिद्धान्ता<sup>२</sup>द्व्यवसानयानजनितप्रागल्भ्यवृद्धीद्धधी ।

रूपसे नष्ट करता रहे । जिस प्रकार हिमवान् पर्वतसे गंगानदीकां प्रवाह प्रकट होता है, सर्वज्ञ देवसे समस्त शास्त्रोंकी मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती है अथवा उदयाचल से देदीप्यमान सूर्य प्रकट होता है उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट ॥७-८॥ श्री जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोंके किरणसमूह धाराके समान फैलते उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-कमलोंकी रज राजा अमोघवर्षके मुकुटमें लगे हुए नवीन रत्नोंकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब वह आपको ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ । आचार्य गुणभद्र हैं कि उन पूजनीय भगवान् जिनसेनाचार्यके चरण संसारके लिए मंगल रूप हों ॥६॥ पद वाक्यकी रचनामें प्रवीण होना, दूसरे पक्षका निराकरण करनेमें तत्परता होना, अ विषयक उत्तम पदार्थको अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमें कु होना, ग्रन्थके गूढ अभिप्रायको प्रकट करना और उत्तम मार्ग युक्त कविताका होना ये गुण जिनसेनाचार्यको पाकर कलिकालमें भी चिरकाल तक कलंकरहित होकर स्थिर ॥१०॥ जिस प्रकार चन्द्रमार्गमें चाँदनी, सूर्यमें प्रभा और स्फटिकमें स्वच्छता स्वभावसे ही है उसी प्रकार जिनसेनाचार्यमें सरस्वती भी स्वभावसे ही रहती थी ॥११॥ जिस समस्त लोकका एक चक्षुस्वरूप सूर्य चन्द्रमाका सधर्मा होता है । उसी प्रकार अ बुद्धिमान् दशरथ गुरु, उन जिनसेनाचार्यके सधर्मा बन्धु थे—एक गुरु-भाई थे । जिस सूर्य अपनी निर्मल किरणोंसे संसारके सब पदार्थको प्रकट करता है उसी प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंसे समस्त जगत्को प्रकाशमान करते थे ॥१२॥ जिस प्रकार द प्रतिबिम्बित सूर्यके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेना के शोभायमान वचनोंमें समस्त शास्त्रोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र समझ जाते थे ॥१३॥ सिद्धान्त-शास्त्ररूपो समुद्रके पारगामी होनेसे जिसकी बुद्धि अ

<sup>१</sup> विम्बोज्ज्सी म०, घ०, ग०, क०, विश्वोपविद्यान्तरात् ग०, घ०, म० । विद्योपविद्यातिगः

<sup>२</sup> सिद्धान्ताद्व्यवहारयान क०, ग०, घ०, म० ।

नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैर्गुणैर्भूषितः

शिल्पः श्रीगुणमद्रसूरिरवयोरासीज्जगद्धिश्रुतः ॥१४॥

पुण्यश्रियोऽयमजयत्सुभगत्त्वदर्प-

मिथ्याय लक्ष्य परिशुद्धमतिस्तपश्रीः ।

मुक्तिश्रिया पट्टतमा प्रहितेव दूती

प्रीत्या महागुणधनं समशिश्रियद्यम् ॥१५॥

तस्य वचनान्मुविसर संततहृतदुस्तरान्तरङ्गतमाः ।

कुचलयपद्याह्लादी जितशिशिराशिशिररदिमप्रसरः ॥१६॥

कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकयामातृकं पुरोदचरितम् ।

सकलच्छन्दोल्हृत्तिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ॥१७॥

व्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् ।

अपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमतिभिरादेयम् ॥१८॥

जिनसेनमगधतोक्त मिथ्याकविदर्पदुलनमतिललितम् ।

सिद्धान्तोपनिबन्धनकर्त्रा मर्त्रा विनेयानाम् ॥१९॥

अतिविस्तरभारुत्वाद्बवशिष्टं सगृहीतममलधिया ।

गुणमद्रसूरिणदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥२०॥

व्यावर्णनादिरहितं सुबोधमखिलं सुलेखमखिलहितम् ।

महितं महापुराणं पटन्तु शृण्वन्तु मक्तिमद्भव्याः ॥२१॥

इदं भावयतां पुंसां भूयो भवविमित्सया । भव्यानां भाविसिद्धोनां शुद्धदम्बुत्तद्विद्वताम् ॥२२॥

ज्ञानिवृद्धिर्जयः श्रेय प्रायः प्रेयः समागमः । विगमो विष्कलव्याप्लेरासिरत्यर्थसंपदाम् ॥२३॥

प्रगल्भ तथा देवीप्यमान (तीक्ष्ण) थी, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानसे निपुण था, अगणित गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगत्में प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्राचार्य, उन्हीं जिनसेनाचार्य तथा दशरथ गुरुका शिष्य था ॥१४॥ 'गुणभद्रने पुण्य-रूपी लक्ष्मीके सौभाग्यशाली होनेका गर्व जीत लिया है' ऐसा समझकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनके पास अत्यन्त चतुर दूतके समान विशुद्ध बुद्धिवाली तपोलक्ष्मीको भेजा था और वह तपोलक्ष्मीरूपी दूती महागुण-रूपी धनसे सम्पन्न रहनेवाले उस गुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी ॥१५॥

उन गुणभद्रके वचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले अज्ञानान्धकारको सदाके लिए नष्ट कर दिया था और वह कुचलय तथा कमल दोनोंको आह्लादित करनेवाला था (पक्षमें महीमण्डलकी लक्ष्मीको हर्षित करनेवाला था) इस तरह उसने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके प्रसारको जीत लिया था ॥१६॥ परमेश्वर कविके द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढपदोंकी रचना है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या कवियोंके दर्पको खण्डित करनेवाला है, और अतिशय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त ग्रन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यजनको चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवान्ने कहा है ॥१७-१९॥ ग्रन्थका जो भाग, भगवान् जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके अनुरोधसे तथा भारी विस्तारके भयसे संक्षेपमें ही संगृहीत किया है ॥२०॥ यह महापुराण व्यर्थके वर्णनसे रहित है, सरलतासे समझा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवोंका हित करनेवाला है, तथा पूजित है—सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण ग्रन्थको भक्तिसे भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह पढ़े तथा सुने ॥२१॥ संसारके छेदकी इच्छासे जो भव्य जीव इस ग्रन्थका बार-बार चिन्तन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रिके धारक

बन्धहेतुफलज्ञानं स्याच्छुभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेयो मुक्तिसद्भावो मुक्तिहेतुश्च निश्चितः ॥२४  
निर्वाणितं योद्धति धर्मश्रद्धाप्रवर्धनम् । असंख्येयगुणश्रेण्या निर्जराशुभकर्मणाम् ॥२५॥

आन्ध्रस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविनोक्षणात् । शुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥२  
तदेतदेव व्याख्येयं श्रव्यं भव्यैर्निरन्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीयं च माकितकैः ॥२

विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः

कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः ।

सततमिह पुराणे प्रार्थ्यं साहाय्यमुच्चै-

गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥२६॥

यस्योत्तुङ्गमतङ्गजा निजमदन्नोत्स्विनीसंगमा-

द्राङ्गं वारि कलङ्कितं कटुं सुदुः पीत्वापगच्छन्नुषः ।

कौमार घनचन्दनं वनमपां पत्युस्तरङ्गानिलै-

मन्दान्दोक्तितमस्तमास्करकरच्छायं समाशिश्रियन् ॥२९॥

दुग्धाब्जौ गिरिणा हरौ हतसुखा गोपीकुचोद्धटनैः

पद्मे भानुकैर्मिदं किमदके रात्रौ च संकोचने ।

यस्योरःशरणे प्रथीयसि भुजस्तम्भान्तरोत्तम्भित-

स्थेये द्वारकणापतोरणुणे श्रीः सौख्यमागाञ्चिरम् ॥३०॥

पुरुषोंको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिलती है, वृद्धि हो विजय होती है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता है, उपद्र नाश होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, शुभ-अशुभ कर्मोंके बन्धके कारण उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका होता है, तीनों प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धर्मकी श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गु निर्जरा होती है, अशुभ कर्मोंका आस्रव रुकता है और समस्त कर्मोंका क्षय होने आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती है जो कि आत्माकी सिद्धि कही जाती है । इसलिए भक्तिसे हुए भव्योंको निरन्तर इसी महापुराण ग्रन्थकी व्याख्या करनी चाहिए, इसे ही सुनना च इसीका चिन्तन करना चाहिए, हर्षसे इसीकी पूजा करनी चाहिए और इसे ही लि चाहिए ॥२२-२७॥

समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रिके धारक मुनिराज लोकसेन गुणभद्राचार्यके शिष्योंमें मुख्य शिष्य थे । इन्होंने इस पुराणको सहायता देकर उत्कृष्ट गुरु-विनयको सत्पुरुषोंके द्वारा मान्यता प्राप्त करायी थी ॥२८॥ जिनके ऊँचे अपने मद रूपी नदीके समागमसे कलंकित गंगा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्या रहित हुए थे तथा समुद्रकी तरंगोंसे जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूर्यकी की प्रभा अस्त हो जाती थी ऐसे कुमारीपर्वतके सघन चन्दनवनमें बार-बार विश्राम लेते भावार्थ—जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरमें गंगा नदी तक कई बार घूमी थी ॥ लक्ष्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं—एक क्षीर-समुद्र, दूसरा नारायणका वक्षःस्थल तीसरा कमल । इनमें-से क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मीको सुख इसलिए नहीं मिला कि वह पर्वतके मथां गया था, नारायणके वक्षःस्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंके स्तनोंका बार आघात लगता था और कमलमें इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्यकी किर दिनोंमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे । इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थ हटकर, भुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुदृढ़ तथा हारोंके समूह रूगी तोरणोंसे सुस जिनके विशाल वक्षःस्थलरूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ॥

अकालवर्षभूपाके पालयस्यसिलामिकाम् । तस्मिन्निवध्वस्तनिशेषद्विषि वीध्रयशोदुषि ॥३१॥

पद्मालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापतलमहसि ।

श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितदानुसंतमसे ॥३२॥

चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनुजे ।

जैनेन्द्रधर्मवृद्धेर्विधायिनि विद्युवीध्रपृथुयशसि ॥३३॥

वनवासदेशमखिलं मुञ्जति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् ।

तत्पितृनिजनामकृते ख्याते बङ्गापुरे पुरेध्वधिके ॥३४॥

शकनृपकालाभ्यन्तरविध्वस्यधिकाष्टशतभिताद्वान्ते ।

मङ्गलमहायकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदे ॥३५॥

श्रीपञ्चम्यां बुधार्द्रायुजि दिवसमजे मन्त्रिवारे बुधांशे,

पूर्वायां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे सैहिकेये तुलायाम् ।

सूर्ये शुके कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भग्यवयैः

प्रासेच्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥३६॥

यानद्धरा जलनिधिगौगनं हिमांशु-

स्तिग्मद्युतिः सुरगिरिः ककुमां विभाग ।

तावत्ततां वचसि चेतसि पूतमेत-

च्छ्रोतस्यतिस्थितिसुपैतु महापुराणम् ॥३७॥

धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र

तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराणे ।

यद्वा कवीन्द्रजिनसेनसुखारविन्द-

निर्यद्वाचसि न मनसि हरन्ति केषाम् ॥३८॥

जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये थे, और जो निर्मल यशको प्राप्त थे ऐसे राजा अकालवर्षे जब इस समस्त पृथिवीका पालन कर रहे थे ॥३१॥ तथा कमलाकरके संमान अपने प्रतितामह मुकुलके वंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप सर्वत्र फैल रहा था, जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शत्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेल्ल प्रताकावाला था— जिसकी पताकामें मथुरका चिह्न था—चेल्लध्वजका अनुज था, चेल्लकेतन (बंकेय) का पुत्र था, जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्वल यशका धारक था ऐसा श्रीमान् लोकादित्य राजा, अपने पिताके नामपर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बङ्गापुर नामके श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त वनवास देशका सुखपूर्वक चिरकालसे पालन करता था ॥३२-३३॥ तब महार्मगलकारी और समस्त मनुष्योंको सुख देनेवाले पिङ्गल नामक ८२० शक संवत्में श्री पंचमी (श्रावण वंदी ५), गुरुवारके दिन, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रमें, सिंह लग्नमें, जब कि बुध आर्द्रा नक्षत्रका, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशिका, राहु तुलाराशिका, सूर्य-शुक्र कर्कराशिका, और बृहस्पति वृष राशिपर था तब यह उत्तरपुराण ग्रन्थ पूर्ण हुआ था, उसी दिन भव्यजीवोंने इसकी पूजा की थी । इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्यरूप यह पुराण संसारमें जयवन्त हैं ॥३५-३६॥ जबतक पृथिवी है, आकाश है, सूर्य है, चन्द्रमा है, सुमेरु है और दिशाओंका विभाग है, तबतक सज्जनोंके वचनमें, चित्तमें और कानमें यह पवित्र महापुराण स्थितिको प्राप्त हो अर्थात् सज्जन पुरुष वचनोंद्वारा इसकी चर्चा करें, हृदयमें इसका विचार करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ॥३७॥ इस महापुराणमें धर्मशास्त्र, मोक्षका मार्ग है, कविता है, और तीर्थकरोंका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके सुखारविन्दसे निकले



महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किञ्चित् ।

कवीक्षिनानेन यथा न काव्यचर्चासु चेतोचिकलाः कवीन्द्राः ॥३९॥

स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः कवीश्वरः

विमलमुनिराणेह्यः भव्यमाकासमीश्वरः ।

सकलगुणसमाह्यो दुष्टवादीमसिंहो-

विदितसकलशास्त्रः सर्वराजेन्द्रवन्द्यः ॥४०॥

यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचार-

श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेवं सखे स्याः ।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्द-

प्रणिमदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥४१॥

स जयति गुणभद्रः सर्वयोगीन्द्रवन्द्यः

सकलकविवराणामग्रिमः सूरिवन्द्यः

जितमदनविलासो दिक्चलकीर्तिकेतु-

दुरिततरुकुठारः सर्वभूपाकवन्द्यः ॥४२॥

धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्

श्रम्याः किन्तु कथास्त्रिषष्टिपुरुषाख्यानं चरित्राणवः ।

हुए वचन किनका मन हरण नहीं करते ? अर्थात् सभीका करते हैं ॥३८॥ महाप्राचीन पुरुष भगवान् आदिनाथके इस पुराणमें कवियोंके स्वामी इन जिनसेनाचार्यने ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि इसके रहते कवि लोग काव्यकी चर्चाओंमें कभी भी नहीं होते ॥३९॥ वे जिनसेनाचार्य जयवन्त रहें जो कि कवियोंके द्वारा स्तुत्य हैं, मुनियोंके समूह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्यजीवोंका समूह जिनका स्तवन जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्टवादी रूपी हाथियोंको जीतनेके लिए सिंहके सम समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त कवियोंके द्वारा कहे हुए सुभाषितोंका समूह सरस है तो तू कवि श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके मुखारविन्दसे कहे हुए इस पुराणके अपने कर्ण निकट कर ॥४१॥ वे गुणभद्राचार्य भी जयवन्त रहें जो कि समस्त यो द्वारा वन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कवियोंमें अग्रगामी हैं, आचार्योंके द्वारा वन्दना योग्य हैं, जिन्होंने कामके विलासको जीत लिया है, जिनकी कीर्तिरूपी पताका दिशाओंमें फहरा रही है, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें कुठारके समान हैं, समस्त राजाओंके द्वारा वन्दनीय हैं ॥४२॥ 'यह महापुराण केवल पुराण ही है, कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अद्भुत धर्मशास्त्र है, इसकी कथाएँ श्रवणीय हैं—

१ कविवरजिनसेनाचार्यवर्यमार्गमासौ मधुरमणिनवाच्यं नामिसुनो. पुराणे । तदनु च गुणभद्राचा विचित्राः सकलकविकरीन्द्राव्रातसिहा जयन्ति ॥ ४०, ४१, ४२, ४३ । २ असी श्लोकः ४०, ४१, ४२ पुस्तके नास्ति ।

कोऽप्यस्मिन्कवितागुणोऽस्ति कवयोऽप्येतद्दृचोब्जाढ्यः

कोऽसावत्र कविः कवोन्द्रगुणभद्राचार्यवर्यः स्वथम् ॥४३॥

इत्याषे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रशस्तिव्यावर्णनं

नाम सप्तसप्ततितम पर्व ॥७७॥

मनोहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही है, इसमें कोई अद्भुत कविताका गुण है, और कविलोग भी इसके वचनरूपी कमलोंपर भ्रमरोंके समान आसक्त हैं, यथार्थमें इस ग्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचार्य स्वयं कोई अद्भुत कवि हैं ॥४३॥

इस प्रकार ऋषि प्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके

संग्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाला सप्तहत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

पुराणाब्धिधरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः ।

सर्वथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम् ॥

पारग्रामो जन्मभूमिर्षदीया ।

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः ।

पन्नालालः स्वल्पबुद्धिः स चाहं

टीकामेतामल्पबुद्धया चकार ॥

मधुमासासितपक्षे शुके वारेऽपराह्ववेलायाम् ।

शून्याष्टचतुर्युगम-वर्षे वीराब्दसंहिते पूर्णा ॥

ते ते जयन्तु विद्वांसो वन्दनीयगुणाकराः ।

यत्कृपाकोणमालम्ब्य तीर्णोऽयं शास्त्रसागरः ॥

येषां कृपाकोमलदृष्टिपातैः सुपुष्पिताभून्मम सूक्तिवल्ली ।

तान्प्रार्थये वर्णिगणेशपादाब् फलोदयं तत्र नतेन मूर्ध्ना ॥

यस्यालुकम्पाशृतपानवृत्ता बुधा न हीच्छन्ति सुधासमूहम् ।

भूयात्प्रमोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशिः स गुरुर्गणेश ॥

उत्तरपुराणस्थल्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

[ अ ]

अंसवारिपथोपेतः	४५	अङ्गं सप्तममाह्वयेयं	१९५	अत्र जम्बूद्वीपमालक्ष्य
अकम्पनाद्या भूपाला	४४६	अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पर्श-	१५०	अत्र नाभद्विगुरं किञ्चि-
अकम्पनोऽन्धवेलाख्यः	४६८	अङ्गरागं समालोच्य	२५४	अत्र पाण्डुतनुजाना
अकम्पिषत् सर्वेऽपि	५०७	अङ्गरागोऽङ्गलम्नोऽस्य	४६३	अत्रामुत्र च मित्रवत् हितकृ
अकरोद्दहृषणं धिग्घङ्	४८७	अङ्गहारैः सकरराैः	१७०	अत्रैव भरते राजा
अकवायमनारम्भ-	१८०	अङ्गाङ्गबाह्यसंद्वाव-	४७३	अत्रैव भरते वङ्ग-
अकारणसमुद्भूत-	५७	अङ्गिनो वत सीदन्ति	१०२	अत्रैव भारते श्रीमान्
अकारपञ्चकोच्चार-	२१०	अचलोऽपि तदुद्वेगात्-	९५	अथ कंसवधुमुक्त-
अकार्यमवशिष्टं यत्-	४१३	अचेतने कथं पूजा	४३२	अथ कश्चित्त्वग्नौ मध्ये
अकालवर्षभूपाले	५७७	अच्छेदो मुक्तियोग्याया	४७६	अथ कृत्वा महापूजा
अकालसाधनं शौर्यं	५२०	अच्युतेन्द्रोऽजनिष्टाम-	५३	अथ कौशाभ्यधीशस्य
अकाले अम्पकाशोक-	४१७	अजनि वैश्रवणो धरणीश्वरः	२३७	अथ क्षेमंकरः पृथ्व्याः
अकीर्तिनिष्फलाऽचन्द्र-	३०७	अजन्यन्धकवृष्ट्याख्य	३५१	अथ गौरीभवं चैवं
अकुर्वन् पञ्चमं देवाः	३२६	अज्ञानतपसानेन	४३६	अथ चक्रपुरीखङ्ग-
अकृत्रिमजिनागारा-	१९०	अज्ञानवीजसंखडा	१२२	अथ चन्द्रप्रभः स्वामी
अकृत्रिमाणि निर्जेतुं	४४६	अज्ञानसंशयैकान्त-	१५८	अथ जम्बूद्वीपमालक्ष्ये
अकृत्वा मे क्रुमारोऽज्ञ-	४३५	अञ्जनात्मालञ्जनी श्रद्धा-	१८९	अथ जम्बूमति द्वीपे
अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं	९४	अटत्येष च भिक्षार्थं	५३०	अथ जम्बूमति द्वीपे
अखण्डे घातकीखण्डे	२५	अणिमादिगुणः सप्त-	५०	अथ तप्तगराधीशः
अख्या क्षणिकत्वं	१७९	अणिमादिगुणोपेतं	१५	अथ तस्माद्द्विनाद्गोह-
अगन्धनस्तु तद्वह्नौ	११२	अणुमानिति हर्षेण	२९७	अथ तौ रेणुकीपुत्रौ
अगमन्पूतना तामु	३६७	अतः परं मुहूर्तं चे-	५३०	अथ तौ सह गच्छन्ता-
अगात्तदनुमार्गेण	४८८	अतिक्रम्य कुतीर्थानि	४४३	अथ वर्षी दुराचारः
अगाङ्गरगिनक्षत्रे	२१०	अतिक्रम्यादिमं मार्गं	२७४	अथ दिव्यध्वनेर्हेतुः
अगाधोऽयं पुराणाब्धिः	४४१	अतिपातनिपीतास-	३२०	अथ नेमिक्रुमारोऽपि
अगुर्गुणा गुणीभाव-	८९	अतिरोक्ष्या घरा तत्र	५५०	अथ पुत्री वनात्पुष्प-
अग्रजं तव पापोऽयं	१०८	अतिवाह्यागतो वीर-	३४३	अथ मौनव्रतेनैते
अग्रजास्यास्तदागत्य	४८६	अतिविस्तरभीक्ष्वा-	५७५	अथ मौनव्रतेनार्थं
अग्रजोऽस्यैव भद्राया	१४४	अतीक्षणखदंष्ट्रोऽय-	४६४	अथ प्रियंकराख्याय
अग्रमन्दरशैलस्य	९०	अतीतान् विश्वभूयेशान्	१४०	अथ भट्टारकोऽप्यस्मा-
अग्रासने विधायैनां	५२२	अतुलबलमलङ्घ्या-	३७३	अथ मन्दरपर्यन्त-
अग्निभूतिरभूत्सुनु-	४०७	अतृप्यदेव भूपाल-	१०२	अथ भ्रान्त्वा भवे दीर्घं
अग्निभूतौ गतप्रायो	४८७	अतोऽन्यत्प्रकृतं ब्रूमो	३६२	अथ युद्धे कुक्षेत्र
अग्निला गृहिणी तोकी	१६०	अतो विजयदेवी च	४९७	अथ वत्साह्वये देशे
अग्निलाया धनश्री-	४२२	अत्यल्पं तृप्तिमापन्न-	२१९	अथ वज्रायुधाधीशो
अग्नेसरस्फुरन्धक-	३१६	अत्र का गतिरन्येषां	२५०	अथवाऽहंमतेनेदं

अथ विद्याधाराधीशः	१५७	अथाभूद्भारते क्षेत्रे	१३३	अनन्यवैद्यमागत्य	२९६
अथ धनुर्न् समुज्जेतुं	३८०	अथासुरो जगत्प्रत्य-	२७५	अनन्यशरणस्याहुः	२८३
अथ क्षीलवती सीता-	३२३	अथास्ति नागलोकाभो-	२७८	अनभिष्यक्तमाह्रात्म्या-	४२९
अथ शौर्यादिभौ राम-	२९१	अथास्मिन्नेव तीर्थेऽभू-	२२१	अनयोरनुहोऽयं	२६१
अथ श्रीनागदत्तोऽपि	४९२	अथास्मिन्भारते क्षेत्रे	२७६	अनपयन्तं सीता त्वा	३१२
अथ सर्वान् मृतान् दृष्ट्वा	५३३	अथास्मिन्भारते वर्षे	१९८	अनादिनिघने बाल-	३७७
अथ स्वज्ञातपूर्वं च	४०७	अथास्मै भोक्तुकामाय	४७५	अनादिबन्धनैर्गर्हि	३३४
अथ स्वविष्टराकम्प-	३७७	अथास्य द्वीपनाथस्य	१३९	अनादौ जन्मकान्तारे	८९
अथ स्वपुण्यकर्मपत्ति-	१९२	अथेतत्त्वा तेन यन्त्रेण	४९८	अनालीढमनोजापि	१४१
अथ स्वपुरमानीय	३६४	अथेष्टोऽयतिरेकेण	१७९	अनावरणमस्थान-	१८०
अथाकस्मि त्पुरे तस्मिन्	३६६	अथेह भारते द्वारवत्या	१२५	अनाहृतस्वसौख्यस्य	२५३
अथाख्यानमिदं वैकं	५४०	अथोपपद्यते तं स्नेहात्	४९९	अनिबन्धन् स्वर्गभोगार्थी	५३३
अथागते मघी मासे	४९५	अदत्त्वा पापबुद्ध्यास्मान्	४९९	अनित्याशुचिदु खत्वं	६०
अथातोऽयकवृष्टिश्च	३४८	अदिति द्वादशग्रामान्	३९३	अनित्ये नित्यबुद्धिर्मे	५९
अथातो रामरूपेण	२९२	अदृष्टं किं किमस्पृष्ट-	३६	अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं	३४०
अथात्र नारदं काम-	४१५	अदृष्टवदनाम्भोज-	४८	अनिलक्षणान्धै-	२८९
अथात्र नागरेष्वात्म-	५०६	अदृष्ट्वान्विष्य सीतां च	२९४	अनीकदत्तस्वामीक-	३९४
अथात्र भारते खेचरा-	५०२	अदृष्ट्वा मत्सुता तत्र	१८२	अनुक्तसिद्धमेतत्	२६७
अथात्रैत्य विहाराय	३४५	अद्य भासोपवासान्ति	५२९	अनुपङ्गं ततो गत्वा	३२३
अथानन्तरमेवैतं	३९५	अद्य पारावतद्वन्द्वं	५१३	अनुगुह्यास्य वक्तव्य-	२२६
अथानन्तरमेवैतं	४०१	अद्य प्रभृति ससार-	४५६	अनुग्रहार्थं स्वस्थाति-	७७
अथान्यदा किलानन्दं	४३३	अद्य सर्वेऽपि जाताः स्मः	४९१	अनुग्रहार्थं स्वस्थाति-	१९३
अथान्यदा कुमारोऽसौ	४४९	अद्रिमस्तकमारुह्य	३५२	अनुजाभ्यां समं चिन्ता-	३४१
अथान्यदा जिनं नेमि	४१९	अद्यस्तादृष्टमाहार-	४३८	अनुत्तरे जयन्ताख्ये	३४२
अथान्यदा मघी मासे	५०५	अद्यस्ताद्योषितं काञ्चि-	४७०	अनुषावपतन्नेव	३५०
अथान्यदा महाराज-	५५५	अधिरत्नायुषं राज्यं	११५	अनुप्रेषा स्वरूपाख्या	२५०
अथान्यदा यगो सार्द्धं	२२५	अधिरुह्याह्विजा खय्या	३६९	अनुभूय दिनान्यत्र	३५६
अथान्यदा समासाद्य	१२१	अधीत्य सर्वथास्त्राणि	९३	अनुभूय महादु खं	४१०
अथान्येद्युः कुमारस्य	५२१	अधीत्यैकादशाङ्गानि	८७	अनुभूय सुखं तस्मिन्	८०
अथान्येद्युर्जगन्नन्द-	१४१	अध्यास्य काममेवाय-	१६	अनुभूयान्न साकेत-	७
अथान्येद्युर्नटप्रेक्षा	३५२	अध्वन्यैरभ्य-	४५३	अनुमानप्रधानस्य	४७७
अथान्येद्युः पुनः प्राप्य	४४३	अनगाराह्यमुख्यैका	७४	अनुयुज्यावचिन्तान-	२१९
अथान्येद्युर्महाराज-	४७९	अनङ्गपूर्वरङ्गस्य	५५	अनुरक्तं व्यधात्कृत्स्न-	३३२
अथान्येद्युर्महावीरः	५२९	अनङ्गस्तद्वधेनैनं	७१	अनुष्टुप्छन्दसा श्लोका	५७२
अथान्येद्युर्ब्रह्मिण्यग्नयो	४९५	अनणीयान स्वपुण्येव	२८४	अनुष्ठाय तथा सोऽपि	२५५
अथान्येद्युर्विलोकयन्	३६१	अनस्तजिनसंताने	१२९	अनुष्ठेयः स षमिष्ठै-	२७६
अथान्येद्युः समासीनं	४८२	अनस्तोऽनन्तदोषाणा	१२१	अनुष्टुप् हृतं ताभ्यां	५१४
अथान्येद्युः स्वभिष्यात्व-	५५५	अनन्तवीर्ययत्यन्ते	३९६	अनुष्टुप्चोदितानन्दो	२०४
अथापराजितोऽप्यात्म-	१७५	अनन्तवीर्यो विद्वेन्द्र-	५६१	अनुष्टुप्चारदेशेषु	५५६
अथाप्य पूज्यं सा प्राज्य-	६८	अनन्तशोऽहमिन्द्रत्वं	६८	अनेनेयमवस्थाभू-	२७४
अथामिव्यज्यते तस्य	२७३	अनन्यभोचरा लक्ष्मी	४५१	अनेनैव विधावेन	१४९

अन्तको दुनिवारोऽत्र	१५७	अन्यैः समवाप पूर्वमुकता	५२७	अप्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा
अन्तःक्रोधकवायानु-	५३०	अन्यैश्च पुत्रपौत्राद्यैः	३२६	अफलम् शक्तयस्तिष्ठः
अन्तःपुरान्वितोज्येद्युः	३४२	अन्योन्यदुःखहेतुत्वा-	१८६	अबुद्ध्वा धर्मभक्तं तत्
अन्त्यः केवलनामस्मिन्	५६३	अन्वभूत् महाशुक्र-	४१०	अबोधतमसाक्रान्त-
अन्त्यद्वयं परित्यज्य	१०	अन्वभूदप्रवीचारं	२१३	अभयाख्यः सुतो धीमा-
अन्त्यस्थापि तनुः सप्ता-	५६०	अन्वभूर्वाञ्छिरं भोगा-	४२३	अभवत्पोदनाख्येऽपि
अन्त्यादप्यस्पसावद्या-	७६	अन्वयुद्धं गणाधीशं	४६९	अभवत्प्रियमित्रायां
अन्तरिक्षसभोमाङ्ग-	१५०	अन्वयुद्धं स तं सोऽपि	२२३	अभवदिव हिमाद्रे-
अन्तर्ग्रन्थपरित्यागा-	४६४	अन्विच्छन्तं विलोक्याह	३४५	अभात्तस्यात्तसौन्दर्यं
अन्तर्मुहूर्तकालेन	४७२	अन्विष्य प्रतियोद्धार-	९४	अभात् सुमनसा वृष्टिः
अन्वसर्पविलायान-	२६४	अन्वेपितारो पुरुषं	२९८	अभादस्य प्रभामध्ये
अन्नमाश्राणयत्तस्मै	४६६	अपक्षपतितान् प्राज्ञान्	५०४	अमानिभामटोन्मुक्त-
अन्यत्संघितसतोऽत्रान्यत्	२५१	अपत्यजननाभावे	२८९	अभाषत द्विजो राजन्
अन्यथा निग्रहीष्यामि	१११	अपथ्यमिति संश्रान्य	३०५	अभिगन्ध्य तमाक्रम्य
अन्यदा नगरे तस्मिन्	४८६	अपदोषचतुष्कात्मा	४९४	अभिजातपरीवारो
अन्यदाऽमिततेजःश्री-	१६५	अपरं च महादुःखं	४५६	अभिजानासि किं
अन्यदा रत्नसेनाख्यो	१८४	अपरस्मिन्दिने व्याघ्र-	३६६	अभिज्ञानं च तस्यैतदि-
अन्यदाराहृतिर्नाम	२८६	अपराजितनामोरु-	२४६	अभिज्ञानैर्दृष्टेन्द्रेण
अन्यदा सुव्रताख्यायै	१७२	अपरायात्तमच्छिन्न-	५२	अभिज्ञानमिदं तस्य
अन्यदासौ निसृष्टार्थं	४३७	अपराह्णे सहस्रेण	४,३३५	अभिज्ञानमिदं भावि
अन्यदासौ महाराज	४९४	अपरित्यक्तसंगस्य	२१५	अभिधाय स्वविज्ञातं
अन्यदेशानकल्पेशो	१९५	अपवत्यग्निषः केचिद्	१०	अभिधाय स्ववृत्तान्त-
अन्यदोपेन्द्रसेनाख्य-	२३१	अपहृत्य सुरङ्गापातिन	४२०	अभिधायाम्ब पापिष्ठां
अन्यवाकृश्वश्रयोः कीर्ति-	१९	अपाच्यां चक्रबालान्तं	१३९	अभिनन्द्य जिनं सर्वे
अन्यायेनान्यवित्तस्य	११०	अपापं सुखमच्छिन्नं	४७	अभिसूताखिलाराति-
अन्ये तावदिहासता भगवतां	२११	अपापप्राप्तितन्विज्या-	४६७	अभियाता पुरारक्षा
अन्येचुरशनेः पातात्	३४३	अपास्यन्ती प्रयत्नेन	३९७	अभिसूयान्यतेजासि
अन्येद्युर्देवताव्यापि	३६७	अपास्य मद्युरालापे-	५२०	अभियुक्ततरैरन्यै
अन्येद्युर्नगरोद्याने	४९९	अपि त्वं वयसाल्पीयान्	५००	अभिलाषातपात्पत्ता-
अन्येद्युर्नन्दगोपस्य	३६७	अपिधाय सरः सद्यः	१८१	अभिवन्द्य जिनाधीश-
अन्येद्युर्नन्दनाख्याद्री	१७७	अपुत्रस्य गतिर्नास्ति	२२३	अभिवन्द्य ततो धर्म
अन्येद्युर्नगिरैः कैश्चिद्	५४५	अपुच्छत्खेचराधीशो	५०२	अभिवन्द्य शर्म याता
अन्येद्युः पुण्डरीकिण्या-	३४१	अपुच्छत् फलमेतेषां	३३३	अभिवन्द्य ततः श्रुत्वा
अन्येद्युर्वसुभाकाश-	२७३	अप्रतीघातगामिन्या	१६४	अभिवन्द्य समारुण्यं
अन्येद्युर्वारिदान्तेऽन्तः	३८३	अप्रतीपप्रतापोऽयं	१७८	अभिवन्द्यात्सामन्तै
अन्येद्युः शरदत्रस्य	४४९	अप्रतीपा प्रभा याति	६४	अभिविच्य त्रिखण्डाधिराठ
अन्येद्युः संजयन्ताख्यं	१०६	अप्रत्याख्यानमिश्राख्य-	१५९	अभिविच्य यथाकाम-
अन्येद्युः सिद्धकूटस्थ-	४०२	अप्रत्याख्यानमोहाना-	१५८	अभिविच्य विश्रुष्यैन
अन्येद्युः सुप्रतिष्ठाख्यो	३४६	अप्रमत्तगुणस्त्राने	४६४	अभिविच्य विश्रुष्यौचै-
अन्येद्युः सूपकारोऽस्य	२२९	अप्रमादोरुचारिनाः	१९९	अभिवेचनशालाया
अन्येद्युस्तपुरे गौतमा-	२५०	अप्राक्षीत्तत्परोक्षोऽयं	१६१	अभिष्टुत्य पुनर्नीत्वा

अभीष्टफलमाप्नोति	५५४	अयोध्यापुरवास्तव्यो	१८६	अवधार्य वचस्तस्य	१४२
अभुञ्जान पुरादाशु-	५३०	अयोध्यामधुनाध्यास्य	३०६	अवधार्य स्वपुत्रेण	३६९
अभ्रन्धिवरयो नाम	३९३	अयोध्येषोऽपि लेखार्थं	२५७	अवन्तिविषयं गत्वा	३८९
अभ्रच्छ्रीविजयोऽप्यथ	१६५	अयोध्याह्यं हृषस्तस्मिन्	५०	अवबोध्य तमात्मानं	४९८
अभ्रुकत्याणयोऽप्य-	३८४	अर्जनानुभवार्थं	९७	अवबोधितवैषम्य-	२९३
अभ्रतपूर्वं तं दृष्ट्वा	१४५	अरजाविरजाश्चैव	१८९	अवमत्य गुरून्काश्चित्	३५४
अभ्रता तद्विलोक्याह	२५३	अरण्यमप्रयागार्थं	५१९	अवमन्ये पुनः किन्तु	४३६
अभ्रता भूतदेवादि-	१८८	अरविन्दमहाराज	४३०	अवरुह्य नभोभागा-	४१०
अभ्रनामेतयोः पुत्री	४२९	अरिजयाह्वस्त्रिपुरे	१४२	अवतिताक्षसूत्रस्य	४३२
अभ्रत् सिंहरो नाम	२१३	अरिजयाह्वयं शत्रु	५१४	अवर्द्धन्त कुमारेण	४९९
अभ्रदखण्डित सख्यं	२२२	अरिष्टसेनाघनल-	१३१	अवर्द्धन्त गुणास्तस्मिन्	०६६
अभ्रद् गुणमयः कि वे-	२२०	अरिष्टाख्यसुरोऽप्येद्यु-	३६७	अवर्द्धितातां तावेवं	१६७
अभ्रदानिन्दितार्योऽयं	१६२	अरीरमन्मनः पत्यु-	४७	अवर्द्धिष्ट वपुस्तस्य	१७७
अभ्रवन्नक्षमास्तत्र	५०५	अरेर्गदस्य चात्मज्ञः	१४६	अवलीक्य स्मराक्रान्त-	४१२
अभ्रवास्मद्वगुरुस्तस्मा-	५५०	अरेशतीर्थसंज्ञाया-	२२८, २३५	अवश्यं भद्रगुरा भोगा	२२
अभ्ययोध्या पुरी सीता	२८०	अरो जिनोऽजनि श्रीमान्-	२१९	अवश्यं युवयोर्मुक्ति-	१७६
अभ्यर्च्य भंजत्या वन्दित्वा	२९७	अर्ककीर्तिसुत, कुर्वन्-	१६४	अवताराद्विमानस्य	४३४
अभ्यर्च्यार्थ्यमुंदा व्यग्र-	५०९	अर्ककीर्तिस्तयोः सुनुः	४५२	अवस्थितिं स संप्राप्य	४३४
अभ्यर्षं यौवने यावद्-	४८७	अर्ककीर्तः कुमारस्य	१४८	अवातरन्पुराः सर्वे-	४६१
अभ्याशे श्रीभ्रमेथस्य	५०९	अथिनः कि पुनर्वाच्याः	४६२	अवादीघरदेकादशा-	२४४
अभ्रिता वाभ्रपदवो	४९	अथिनो घनसंतुष्टया	८०	अवाप्य सह सूनुभ्याम-	१८७
अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं	१६७	अथं वस्तुष्टयी वृत्ति-	२५	अवाप्यसि पदं मुक्ते-	४७९
अभ्येत्य पुण्यकर्माणः	४९४	अथं सत्ये वचः सत्यं	१९	अवार्य निजभार्येण	३४५
अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा	१७१	अर्द्धदग्धशर्वं मत्वा	२२४	अविचार्य तचाविष्टः	४३५
अभ्रैऽमितगुणेनामा	४५४	अर्द्धराज्यं च पूर्वोक्तं	५०८	अविज्ञातफलाभक्षणं	४०५
अमराणा कुमारो वा	३५३	अर्द्धसादिभिः सार्धं	४०८	अविद्विभरिव शास्त्रार्थं	२५२
अमृत्योत्तमविद्वान्स्व	२७१	अर्द्धमभिषिक्तं सुक्त-	४४	अविद्ययैवमाक्रान्तो	५९
अमो च विषया कच्छः	१८९	अलं तदिति तं भक्त्या	४६१	अविभक्तश्रयो प्रीति	२३१
अमृषाम्भारणाद्भाग्य	३५२	अलकार, कुलस्याभू-	४६०	अविभक्तापि दोषाय	१३३
अमृसिमन् भारते वर्षे	१०२	अलंकुर्वन्निजच्छाया-	२०८	अविभक्ता महीमेता-	९३
अमू कूरो प्रहृष्यं व	४३८	अलंकुर्वन्नं वेहि	५१५	अविभक्ततयोरासीद-	९३
अमृतं नि.प्रवोचार्-	२१८	अलङ्घ्य च केनचिच्चात्र	३०२	अविभक्तापि निःशङ्कं	३७०
अमृतैस्तनुपेतस्य	५७	अलङ्घ्यचत्वात्पर, पुण्य	३७८	अवीशुषद्गृहीत्वैव-	३६२
अमेयवीथौ हंसाश-	२५५	अलङ्घ्यारण्यं प्राप्ता-	३५	अवृणोति गुणालिस्तं	३३२
अम्बिकाया सुतोऽस्यैव	१३३	अलमामूलतो दग्धं	३१२	अत्रतस्य मनःकाय-	१५८
अम्भो वाम्भोजपत्रेषु	४१३	अलिपुस्कोकिलालापै-	२९८	अथाक्तयोःरिवाग्योन्यं	४८
अयं चाद्य महाकाले-	२५६	अल्पगोमण्डलस्याजुं	४२१	अथाक्यमिति गोपाल-	३६९
अयं पापी महाकायो	१०६	अल्पगम्य फलं तेषा	१२२	अशिक्षयच्च तद्रक्षा-	३८५
अयं विनिजिताशेषं	२०५	अवगाह्य पयोरशि	५४५	अशीतिचापदेहेस्ता-	८५
अयाचितमनादान-	१४८	अवतीर्णमिव स्वर्गा-	४१२	अशीलभूपणा यत्र	१४०
अयोपपदमादाद्य	६४	अवतीर्थं समुत्पन्न-	३३४	अशोचत्पुत्रमालोक्य	५१९

अश्राणयद्विभूत्यास्मै	५१०
अश्वग्रीवाः खरग्रीवाः	१४६
अश्वग्रीवसुती रत्न-	१८४
अश्वग्रीवश्च संभ्रान्तः	१४६
अश्वग्रीवस्य कनक-	१४२
अश्वग्रीवेण देवेन	१४६
अश्वग्रीवे त एतेऽपि	१४२
अश्वग्रीवोऽग्रिमो नील-	१४२
अश्वकृतिवरं देवं	३७६
अश्वे रथैर्गजेन्द्रैश्च	४५३
अष्टमोऽभूत् त्रिपुष्टाल्यो	५६१
अष्टषष्टिसहस्रोक्त-	१००
अष्टाङ्गानि निमित्तानि	१५०
अष्टादशसमाः लक्षाः	८९
अष्टाधिकसहस्रेण	३७८
अष्टापदमयैः कुम्भैः	१५३
अष्टावङ्गुल्यसतस्य	२०६
अष्टाविंशतिपूर्वाङ्ग	६८
अष्टाविंशतिरस्यासन्	२३६
अष्टोत्तरसहस्रोक्त-	३२३
अष्टोपवासमादाय	३७६
अष्टौ विषयरामाद्याः	३२७
अष्टौ शिष्टतमानि	१८
असंख्यदेवदेवीड्य	१७, १२३
असंख्यातो मरुत्सङ्घ.	२४७
असंयमे सर्व-	५५
असंयमे त्रयं द्वे स्तः	५५
असंहतमनासेव्य-	३७९
असह्यवेदनार्तस्य	४१४
असारप्राग्गृहीतार्थं	१३८
असि दानविभागज्ञो	१९४
असिः बाह्वो वनुरुचकं	१४८
असुरत्वं समासाद्य	१७७
असौ कदाचिदाषाढ-	५०
असौ मनोहरोद्याने	५३
असौ मासोपवासान्ते	५३८
अस्तमभ्युद्यताकौ वा	४३८
अस्ति किं नास्ति वा जीव-	४६७
अस्ति चेद् द्रव्यमेकं ते	१७८
अस्ति तत्रैव देशोऽन्यो-	९१
अस्ति मण्डोदरीनाम	२६३

अस्ति जीवः स चोपात्त-	४६७
अस्ति द्विजतनूजाया	४७३
अस्तु कर्णाभिधानोऽय-	३४६
अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः	८९
अस्तु चेन्मत्स्यदन्वादि-	२७२
अस्तु वा नाहृतव्यक्ति-	२७३
अस्तु साह्य्यादिवादानां-	४७८
अस्मत्कुमारयोस्तत्र	२७६
अस्त्यत्र पुष्करद्वीपः	४४
अस्त्यत्र विषयोऽङ्गाख्यः	५१९
अस्त्यन्योऽपि तदुच्छ्रित्या-	२८६
अस्त्येव देव तत्र चौदयि-	५७१
अस्त्येव सुश्रुताख्यातं	१४२
अस्थानस्थं समीक्ष्यैव	१६८
अस्थिराद्यशुभान्येव	५५८
अस्मिन् खगपुराधीश-	१३२
अस्मिन् जन्मन्यमुं मन्ये	१०८
अस्मिञ्चालाकरालाग्नी	३७६
अस्मिन् त्रिलोकप्रज्ञासि	११७
अस्मिन्नेवाध्वत्तीर्थे	१३२
अस्मिन्निवेहे पूर्वस्मिन्	५३७
अस्मिन्नेवोच्चयिन्याख्य-४०४, ४८८	
अस्मिन्नेरावते ह्यति	१८२
अस्मिन्नेरावते रत्नपुरे	१८६
अस्मिन्नुत्तरश्रेण्याम-	१४२
अस्यात्माबोधसद्भावा-	६४
अस्यावयवभावात्	२०६
अस्यैव तीर्थसंताने	४२८
अस्योत्पत्ती समुत्पत्ति-	३४
अहं किल सुखी सौख्य-	७३
अहं गुरुस्तपस्वीति	४३६
अहं च तन्निमित्तोह	४४७
अहं प्रभुर्ममायं किं	४३६
अहं मम शुभं नित्यं	६९
अहं सत्यधराधीशा-	५२५
अहमन्यदिति द्वाभ्या	६९
अहार्यं तद्विषं ज्ञात्वा	१५४
अहिंसात्रतरक्षार्थं	५५६
अहिंसालक्षणं धर्मं	२६३
अहिंसालक्षणो धर्मो	२०१
अहिर्वा स्वाकृतावासः	१३७

अहो पापस्य कोऽप्येव  
अहो प्रवृद्धमज्ञानं  
अहोभिः कैश्चिदासाद्य  
अहोभिर्बहुभिर्ज्ञाता

[आ]

आकण्ठपूर्णाहारोऽपि  
आकण्ठकृष्टनिर्मुक्त-  
आकर्ण्य तत्पुराणं च  
आकर्ण्य नारदाद्भूत  
आकारेणैव कन्यार्था-  
आक्रोशादिभः सकारुण्यो  
आख्याय धर्मयाथात्म्यं  
आगतः कंसमञ्जूषा-  
आगतमन्तरे ह्यट्टवा  
आगतमेव मत्पुत्री  
आगत्य नृपतेरग्रे  
आगत्याभ्युच्यं वनित्वा  
आगन्तास्यं पुनर्नंतु-  
आगाम्युत्सर्पिणीकाल-  
आग्रहं निग्रहं कृत्वा  
आचारः कौट्यश्लेषा-  
आच्छिद्यहं ग्रहीष्यामि  
आज्ञा यद्यस्ति देवस्य  
आश्चर्यपञ्चकं प्राप्य  
आतृतीयमवात्सल्य  
आतसामायिकः शुद्ध्या  
आत्मना मन्त्रिर्बिम्बन्तु-  
आत्मनो वातके त्रायके  
आत्मप्रदेशसंचारो  
आत्मस्त्वोऽन्यनिन्वा च  
आत्मस्त्वुवा मर्लंकतुं  
आत्मान्यमात्मनास्माय-  
आत्मेन्द्रियाधुरिष्टार्थ-  
आवदे संयमं पद्मा-  
आदाज्जैनेववरं रूपं  
आदातुमिच्छतो गन्तुं  
आदासंयममासाद्य  
आदाय कृत्रिमं रागं  
आदाय तां यथायोग्यं  
आदाय धीमास्ता विद्यां  
आदाय विद्ववान् लक्ष्य

आदाय संयमं प्राप्य	१७६	आप्तैर्दुःखेन तद्दुःखाद्	३०३	आवर्तनी सग्रहणी	१६४
आदाय साधुमूर्धन्यं	१०६	आप्यस्याशुत्वमित्याह	४९५	आवसंस्तत्र-निष्ठाङ्क	४६५
आदावनिन्दिताभोग-	२११	आभावमाणमाक्षिप्य	२८४	आवा तपः करिष्याव	४२४
आदावेवाच्छिनत्तन्त्री	३५६	आभ्यामाद्यन्तदानाभ्या-	७६	आवा त्वाभागतौ	१४६
आदिकल्याणसत्पूजा	७३	आमर्ष्यं रसिकामूला-	२००	आवा संन्यस्य तत्रैव	१७६
आदितीर्थकृतो ज्येष्ठ-	४४६	आमनन्ति पुराणज्ञाः	३१२	आवाभ्यामावयवोः कार्य-	२५३
आदिभट्टारकोत्पल-	४५३	आमुखात्कार्यमाख्याय	४९२	आवाभप्रश्नयावेदं	१७६
आदिमध्यान्तगम्भी-	४३८	आमुलाद् मस्मिर्तं वीक्ष्य	४३३	आवेशिनी दशमन्मन्या	१६४
आदिमनरके तस्मा-	५६५	आभ्राः क्रमाः फलैर्नभ्राः	१९९	आशास्य स्त्रीत्ववद्रात्रा-	३६६
आदित्यपादवैलेन्द्रे-	३१४	आयद्राजपुरं प्रीतिः	५१०	आशास्योऽसौ सुखं सुप्ता	३३९
आदित्याभस्ततो मेरुः	११९	आयसान्यग्निनृप्तानि	४२५	आश्वत्थपञ्चकं चापि	८९
आदित्याभस्तदा दैवो	१०७	आयान्तमवधीत्सोऽपि	४९०	आश्वतो मे भ्रूहेतव्यो	९४
आदित्याभः स एवाहं	१७७	आयान्ती दूरतो दृष्ट्वा	१५५	आश्वत्थयुषिबीभागा-	४५९
आदित्योद्गमवेलायाम्	५१४	आयुः परमसंख्यातः	१४	आवाढमासि ज्योत्स्नायाः	४२५
आद्यचक्रिन्वदेषोऽपि	७	आयुर्वंशसहस्राणि	३३३	आवाढस्य सिते पक्षे	४६०
आद्यमाजन्मनो लोभ-	११०	आयुरन्ते ततस्तस्मिन्ना-	४०	आवाहे स्वातिवोगे तं	३३३
आद्यश्रेणीं समारुह्य	१११	आयुरन्तेऽवधिस्थान-	१४८	आष्टाङ्गिकमहापूजा	३३९
आधानप्रीतिसुप्रीति-	१७७	आयुरन्ते समाधाना-	२६	आसंभ्रकातपत्रासि	२४९
आधारावेयमानोऽय-	६३	आयुरन्यच्च विचवंसि	५३९	आसन्नितस्तैषु चेदस्ति	२२९
आधावन्त विलोक्यासौ	३७१	आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं	१६	आसाद्यैकावशाङ्गोह-	२१८
आधिवचं वधुषोः प्राहुः	२०५	आयुषीते चतुर्भगि	१६	आसीदिद्वैव मलये	२१६
आधिव्याङ्गावलेख्येव	५७	आयुषोऽन्ते स संन्यस्य	१९	आस्ता हावदिवं भद्र	१०८
आधिपत्यं तदावाप्य	१०४	आयुषोऽन्ते समाधान	२	आस्तामन्यत्र-तद्भ्रीत्या	९४
आधिपत्यं त्रिषण्डस्य	१७६	आयुषो वसतिः काये	१	आस्तामनादिनिगल-	५६८
आधिपत्यं द्वयोः श्रेण्यो-	१४८	आरनालेन सम्मिश्रं	४६६	आलवस्य च संरोध-	५७६
आनन्दनाटकं चास्य	५७	आरम्य विरहाद्भुक्तं	३२३	आहस्तुमसमर्थाः स्म-	३६७
आनन्दस्तस्य भाषयिा	४०४	आर्यनत्र श्रुतं चास्त-	७७	आहस्मिन्-सुखं मुह्य-	३६
आनन्नामरभुनभ्ररशिरः	३२९	आर्षोपासकवेदोक्त-	२५८	आहर्तुमुद्यताः सर्वे	३६०
आनाय्य तेन निमयि	२६४	आराधना समाराध्य	२५०	आहारं घर्षमित्राख्या	२१५
आनुषङ्गिकमेतत्	४६४	आरुह्य आम्बव युद्धे	४००	आहारादित्रयोत्सर्ग	१९७
आनेतु तान्यथाक्यानि	२२९	आरुह्य नावमम्भीवि-	४८९	आहितान्यमताः सन्तु	१२१
आपञ्चमक्षितिःप्राप्त-	४३३	आरुह्य शत्रुसैन्यस्य	५०५	आहितो देहिनी देहे	३६
आपञ्चमावनेरास-	२४५	आरुह्य शिविका सूर्य-	६९	आहितो बहुधा मोहा-	७९
आपतद्गृहपक्षानि	३२०	आरुह्यतुर्ध्वारित्र-	२०९	आहूतोऽसि महीधेन	२२८
आपतन्ती विलोक्योत्का-	६८	आरोपयत चापीषान्	३८०	आह्वयद्वा प्रसूनीषैः	४६३
आपत्यं ज्ञादशानिवद्-	३७३	आरोप्य शिविकामेवं	५४०		
आपाण्डुगण्डमाभासि	१४१	आरोह्य शिविका तस्मा-	२९२		
आपूर्णयोगनारम्भा	५११	आलम्ब्य लक्षणैर्लेख्यं	८		
आपेतुर्नभसस्तदा	३७३	आलोच्य मन्त्रिभिः सार्द्ध-	१५६		
आप्तागमीदिनात्नात्वा-	१५८	आवर्जयन्त्या-केशाना	४८५		
आप्ती-कतिपयैरेव	२१४				



इतः कनीयसे विधां	५४७	इति तद्भुमुगाकर्ण्यं	११७	इति निष्प्यायि निविद्य
इतः खेचरभूभर्तु-	४५२	इति तद्वचनं चित्ते	१४४	इति निर्भर्त्सितो भूयः
इतः परिजनों रामं	२९४	इति तद्वचनं श्रुत्वा १४३, ३४४,	३६३, ४०७, ५४४	इति निविद्य याह्यङ्ग
इतः प्रकृतमन्यसु	३६०	इति तद्वचनप्रान्ते ४७४,	५३७	इति निविद्य संसारात्
इतरेऽपि तयोरेव	३९२	इति तद्वचनाज्जात-	५५३	इति निर्वेदसंयोगाद्भो-
इतश्चमरचञ्चवाह्य-	१५३	इति तद्वचनात्सर्वैः	५२१	इति निश्चित्य पापात्मा
इतः सत्यन्वराह्यस्य	४९९	इति तद्वचनात्कोऽपि	३७६	इति नैसर्गिकाशेष-
इतः स विन्ध्यशक्त्याह्यो	९३	इति तद्वचनाद्गीत-	१६३	इति परममवाप्य-
इतः सुतविद्येनेन	४११	इति तद्वचनादेष	५५३	इति पूर्वविवाक्यस्य
इनस्ततो भटा व्यस्ता	३२१	इति तद्वचनान्त्वच-	२९५	इति पृष्टो जिनाधीशो
इतस्तुतीये कन्येषा	५१२	इति तद्धेतुसम्भूत-	६८	इति पृष्ट्वा प्रतोष्येनं
इतः स्वामिस्त्वभेद्गीति	५७	इति तन्मुनिराकर्ण्यं	५३९	इति प्रकाशकोपोऽभू-
इति कतिपयवागिमर्वर्धमानं	५७२	इति तल्लोकभौदर्थं च	४७६	इति प्रतिनिवृत्त्याशु-
इति कामान्नितप्लेन	२८५	इति तस्मिन् मही पाति	५३	इति प्रत्याप्य तं पापः
इति केनाप्युपायेन	४९९	इति तस्मै सुता योभ्या	५०९	इति प्रत्याहृतुः कर्ण-
इति क्षीरकदम्बात्म-	२६८	इति तस्याः परिप्रश्ने	४१७	इति प्रभूतद्रव्येण
इति गर्जेन्समाक्रान्त-	३१५	इति तां जन्मनिर्वाण-	१५९	इति प्रलम्भनं तस्य
इति गोपान्समुत्साह्य	३७१	इति तां माभिवापुण्यः	३०१	इति प्रवृद्धगुण्यानु-
इति चक्री समालोच्य	२३९	इति तान् वारयन् क्रुद्धान्	३०८	इति प्रातः समुत्थाय
इति चित्ते विनम्यैत-	३०३	इति तापसवेषेण	५००	इति प्रापयत् देवी
इति चिन्तयतस्तस्य	८९	इति तीर्थेक्षिणा प्रोक्तं	४१९	इति प्राहैवमुक्तेऽपि
इति चेतसि सम्पद्यन्	२०८	इति तुष्ट्वा निर्वर्षिं द्राक्-	३६०	इति भक्तेन तेनोक्त-
इति चेतोहरैः सीता	२८८	इति तेन खगाः मुग्धाः	१०६	इति भक्त्वा कृतालापा
इति चेतसंसुतौ जन्तौ	३०१	इति तेन स पुष्टः सन्	१८६	इति भावयता पुसा
इति जीवस्य याथात्म्यं	४६८	इति तेनोक्तमाकर्ण्यं	२९८	इति भीत्वा तदभ्यर्णं
इति जैनीमिमा बाणी-	१६३	इति त्वत्क्रान्तया राजन्	१५५	इति भूयो नरेन्द्रेण
इति तं च तसौ देवो	१५८	इति त्रिविधनिर्वेद-	३६	इति मत्वा जिनप्रोक्तं
इति तद्गूढहासोक्ति-	३०८	इति दासीसुतं गैहा-	१६०	इति मत्वानुमानेन
इति तद्गौतमाधीश-	४९४	इति हूतं तदायतं	१४५	इति मत्वापि साशङ्कः
इति तच्छ्रवणात्सद्यः	५३९	इति देवः समभ्येत्य	११	इति मत्वा विरुज्यैतान्
इति तत्कालजं सर्वं	१८७	इति देवोऽप्यसौ तस्य	१८०	इति मत्वा सुते राज्य-
इति तच्छिजनशीताशु-	१६४	इति देव्या कनीयस्याः	१८५	इति मत्वा स्वनामाङ्क
इति तत्र तयोरासीद्	७	इति द्वादशनिदिष्ट-	२३	इति मन्त्रिणं सर्व-
इति तत्रावतीर्थेण	१७२	इति द्वादशभेदोक्त-	१३१	इति मानोदयात्पापी
इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्यं	३०६	इति द्विजोदितं श्रुत्वा	५२२	इति युद्धान्तमासाद्य
इति तत्त्वं जिनोद्दिष्ट-	५५	इति द्वितीयकल्याण-	२०४	इति युष्वा चिरं व्याचा
इति तत्सम्यगाकर्ण्यं	१८७	इति द्विलक्षणञ्चाशत्-	५८	इति रथतं स्वयं शूयो
इति तद्द्वयतद्रूप-	१७०	इति धर्मं विनिश्चित्य	४५८	इति राजपुरं गत्वा
इति तद्देवताप्रोक्त-	४७०	इति धर्मविशेषं तत्	३२६	इति राजोपदेशेन
इति तद्देववाक्सीव-	११८	इति नाम्ना सुपुत्राय	७९	इति वकी भवेत्सापि
इति तद्भ्रासितं श्रुत्वा	५००	इति निर्गत्य दृष्ट्वामां	५५३	

इति वामनरूपेण	३५८	इति स्मरश्च भव्याना	१८६	इत्यप्राप्तं तदावोच-	५०२
इति विज्ञाततत्तत्त्वं	२९५	इति स्तुत्वादिक्लपेसो	१५	इत्यप्राक्षीत्ततोऽग्माभिः	२५३
इति विद्वत्समाध्ये	५०५	इति हस्ततलास्फालनेन	२६७	इत्यप्राक्षीदसौ वास्य	१६८
इति विन्यासिते सैन्ये	३८१	इति हितकृतवेदी	२११	इत्यप्राक्षीत्स ता सापि	५४८
इति विरवशुभं भूय.	२७१	इतीत्यादिकुट्टणान्त-	३९५	इत्यप्राक्षीत्सुपोऽप्यस्य	२१५
इति वृद्धोक्तिमाकर्ण्य	५२२	इतीदं जनतासर्वं	१११	इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्य	१४९
इति सङ्घेन पुरोऽसौ	३९३	इतीदमुचितं कार्य-	३०४	इत्यब्रवीत्तदादाय	३०९
इति शब्दार्थगम्भीर-	६४	इतीमं शपथं गन्तु	२२३	इत्यब्रवीददः श्रुत्वा	१६९
इति श्रीमद्गणाधीश-	५५५	इतो जलनिवेस्तीरे	३७६	इत्यब्रवीदसौ सोऽपि	४५८
इति श्रीविजय दोर्भ्या-	१५५	इतोऽतिदुष्कर्मोत्सर्पिण्याः	५५९	इत्यब्रवीदविर्यं हेतुः	३९०
इति श्रुत्वा मुनेवर्षिक्यं	५१३	इतो घान्यपुराभ्यर्ण-	५५०	इत्यभिष्टूयमानस्य	३७५
इति श्रुत्वा वचो राज्ञा	१४७	इतो नलिनकेतुवच	१८२	इत्यमात्यस्य दुष्टुत्वं	१११
इति श्रुत्वा समागत्य	३६६	इतो लङ्कामभिष्टाय	२८४	इत्यमुञ्चत्सद्वायैस्तै-	३०५
इति संसारसद्भावं	४९७	इतो विनीतानगरात्	२९५	इत्यथेनायतेनैव	५९
इति संगीतवीणादि-	३५८	इतोऽश्वघ्रीवचक्रेशो	१४५	इत्यवादीततः पापी	२६५
इति स चिन्तयन् लब्ध-	८२	इतोऽस्मिन्देशमे भावी	४५६	इत्यवादीत्तदाकर्ण्यं	१९३, २९२
इति चिन्तयती	१७५	इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्-	५६५	इत्यवोचत्तदाकर्ण्यं	१७६
इति चिन्तय्य संजात-	५२०	इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः	५५०	इत्यवोचदसौ चैत्र-	३५८
इति सत्पात्रसम्पन्न-	११६	इत्थं तेनेङ्गितमेन	७७	इत्यवोचन्वचस्तेषा-	२०८
इति सत्पात्रनिष्पन्न-	११६	इत्थं षोडशमावनाहित-	६	इत्यशेषं गणेशोक्त-	४१९
इति सचस्ततो द्वौ	१४७	इत्यग्रानसमास्थाय	५२१	इत्यष्टाविंशतिभूत्वा	५२३
इति सद्युष्य तत्सर्व-	३६६	इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रूहि	२२३	इत्यसभ्यमसोढव्यं	९४
इति संपूर्णराज्याय	१४२	इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा	९२	इत्यसावपि योग्येन	३०६
इति सप्रश्नयामास	५४०	इत्यतोऽलकसुन्दर्या	५१३	इत्यसौ च गणाधीश-	५३०
इति सर्वं मनोहारि	४८०	इत्यत्यलजंयत्सोऽपि	३४४	इत्यसौ तैरविस्मिन्न.	५२१
इति सर्वं समाकर्ण्य	५६९	इत्यत्र परशब्दार्थे	१०९	इत्यसौ सिंहचन्द्रोक्तं	११४
इति सर्वमिदं श्रुत्वा	३५३	इत्यध्यक्षिपता सोऽपि	४०७	इत्यस्य राज्यसंप्राप्तौ	३५
इति सर्वेऽपि संगत्य	२७१	इत्यनालोच्यकार्याङ्गं	९५	इत्यस्य सोऽपि वाग्जाल-	५३५
इति सर्वं समाक्षीना-	४८०	इत्यनुज्ञातसर्वाङ्ग-	४६८	इत्यस्या वेनुमादाय	२२५
इति सा तद्वचः श्रुत्वा	१९५	इत्यनुश्रेणिकप्रश्ना	४७२	इत्यस्य प्राहिणोत्पत्रं	५५१
इति सावेध भूपालं	१०९	इत्यनेन स मन्त्री च	२७६	इत्याकर्ण्यं तदवोचत्	१७९
इति सीतावचः श्रुत्वा	२९२	इत्यन्तस्त्वत्त्वतो ज्ञात्वा	५६	इत्याकर्ण्यं वचस्त्वस्य	५२६
इति सोऽपि कथामित्य	३८८	इत्यन्योऽप्यकथाकाले	३९०	इत्याकर्ण्यं सुघमर्त्य-	५२७
इति सोऽपि दयालुस्त्वा-	४९५	इत्यन्योऽप्यान्वितापत्य-	१४९	इत्याकलय्य कालादि-	३३७
इति सोऽपि समासन्न-	३३४	इत्यन्वतोऽञ्जनासु-	३०७	इत्याकलय्य की दोषो	५२२
इति स्याद्वादसद्वृत्तं	२६६	इत्यन्वयुङ्क्त सुश्रीवः	२९७	इत्याकलय्य यायात्स्य	७४
इति स्वकुलयोग्याय	२५४	इत्यन्वाख्यत् स तच्छ्रुत्वा	१५१	इत्याकोशे विमानैस्त-	२६९
इति स्वगतवृत्तान्त-	२९०	इत्यपश्यत्तदवैन-	२२	इत्सरी सम्पदस्त्यवत्त्वा	१३६
इति स्वपुत्रमाहात्म्य-	६७	इत्यपाय विचिन्त्यैक	९४	इत्याख्यत्तत्समाकर्ण्यं	५००
इति स्वपुत्रपीत्रादि-	१८५	इत्यपुञ्जदसौ चाह	४३२		
इति स्वानुजसंप्रश्ना-	१९३				

इत्याख्यतद्वचः सोढु-	३११	इत्युक्तः संसृतेर्भूपो	९	इदमिति विधिपाकाद्
इत्याख्यत्साप्यदः पापा-	२९१	इत्युक्तः स भवेद्देव	११०	इदमेव किमस्त्यन्य-
इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं	२८६	इत्युक्तस्तेन नागोन्द्रः	१०७	इदं सरस्त्वया केन
इत्याख्यन्नकुलेनामा	४८९	इत्युक्तस्तैः सकोपो वा	५२१	इदानीं पुण्डरीकिण्यां
इत्याख्याताः पुराणज्ञै-	२७७	इत्युक्तिभिरिमां मृकी-	२८७	इदानीमप्यसौ दुष्टो
इत्यास्तत्त्वसारं तं	१६	इत्युक्तिभिर्मनस्तस्य	२७०	इन्द्रः कामयते कांति
इत्यात्मस्वामिनीदाक्ष्य	५०५	इत्युक्तो नैगमाख्येन	३७६	इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तो
इत्यात्मानं तिरोषाय	५३२	इत्युक्त्वा काललब्ध्येष	२२५	इन्द्रकोशैर्वृहद्यन्त्रैः-
इत्यात्मानं विनिन्द्यैः	४९०	इत्युक्त्वा ध्रुतिपसादि-	१५१	इन्द्रजित्प्रमुखान्भूप-
इत्यादि चिन्तयन् राज्यं	१४	इत्युक्त्वा वी.सुरी सूक्तं	१३६	इन्द्रजित्सेन्द्रचर्माति-
इत्यादि चिन्तयन् सद्य-	१६१	इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो	१५३	इन्द्रनीलच्छविं देहं
इत्यादि तत्त्वसर्वत्वं	२४४	इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थ-	२६९	इन्द्रवर्माभिधानेन ३१५,
इत्यादितद्वयो योग्य-	५७	इत्युक्त्वास्तद्विजोद्भूत-	४७५	इन्द्रियाधेयु संसक्तो
इत्यादि तेन गम्भीर-	९५	इत्युक्त्वा स्वयमित्वानु-	४८२	इन्द्रोपेन्द्रादिसेनान्तो
इत्यादियुक्तिमद्वाग्मिः	४९८	इत्युक्ते देव किं सत्य-	११	इन्द्र्यात्कृती सुतो भावी
इत्यादियुक्तिवादेन	२३९	इत्युक्त्यैव परीत्य	१७२	इमा तद्गर्वदुर्भाषा
इत्यादिशाति वा देव-	९४	इत्युग्रवंसघार्थान्दो-	३८४	इमा रम्या महानद्य-
इत्यादिहेतुभिर्जाति-	४७६	इत्युग्रसेनवाचोद्यत्	३८५	इमे द्वे दीक्षिते केन
इत्यादेशं समाकर्ष्य	४१८	इत्युच्चैर्गणनायको	४०५	इमे राज्यस्थिते प्राज्ञैः
इत्याधिपत्यमासाद्य	२०७	इत्युद्वात्तवबोमाला	५२	इमं कन्येति संपृष्टा
इत्यारोपितरत्नोर-	३२५	इत्युद्वात्तो मनोभोधी	४१	इयन्तोऽस्मिन्भवियन्ति
इत्यारोप्य सुते राज्यं	२३८	इत्युदीर्य कुमारं तं	१८८	इवोर्ध्ववाशिना राज-
इत्यारोप्यासनं स्वर्ण-	५४८	इत्युदीर्यापियामास	३६६	इष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो
इत्यार्हंतोक्तं तत्तथ्यं	४७८	इत्युद्धतोदितैः कोप-	२९६	इष्टाष्टादशधान्याना
इत्याविष्कृतसंचिन्तः	३९	इत्युपायमसावाह	२७६	इह क्षत्रपुरे दार-
इत्याक्षापाशमाच्छिद्य	२	इत्युल्लुस्यभावेन स	३३	इह जन्ममति दीपे १, २१३,
इत्याशवासं मुनिस्तस्त-	४९१	इत्येकान्ते वचस्तस्य	३२७	इह धर्मोपदेशेन
इत्याह त मुनिः सोऽपि	५३९	इत्येतदुक्तं ज्ञात्वापि	४३६	इह पूर्वविदेहेऽस्ति
इत्याह तद्वच श्रुत्वा १६२, २६६		इत्येतदुक्तमाकर्ष्य	२८५	इह प्रत्येकमेतेषां
२९०, ३६३		इत्येतदभिधायाशु-	४९६	इह प्रेम्णागतोऽस्मीति
इत्याह तुः खगेशोऽस्तु	१४७	इत्येतदुपदेशेन	३०५	इह लोकादिपर्यन्त-
इत्याह तो ष किं	१४६	इत्येतानि समस्तानि	१९८	इह सवासिभिर्भूयैः
इत्याह वचनानीषु	५६३	इत्येव प्रेरितस्तेन	१६८	इह सचिवतत्तज्ज-
इत्याह सादरं सापि	२८६	इत्यौदासीन्यमापन्ना	५४०	इहाप्यवयमेप्यन्ति
इत्याह सोऽपि तद्वाक्य-	११	इदं च स्वयमाहासी	३०५	इहैव भारते क्षेत्रे
इत्याह सोऽपि सुष्टूक्तं	५२२	इदं चावश्यकर्तव्यं	४८३	इहैव श्रीधराख्यस्य
इत्याहः सोऽपि तच्छ्रुत्वा	४१४	इदं तावद्विचाराहं	२७२	[ई]
इत्याहितद्वचः श्रुत्वा	११८	इदं प्रकृतमत्रान्य-	२६२, ५१३, ५१८	इदस्येतत्प्रमाणानि
इत्येकतं तदमात्यस्य	२३९	इदं प्रत्येयमस्योक्तं	१५१	इदेषां संसृतेर्भावं
इत्युक्तवन्तीं तत्कोप-	१३३	इदमन्यत्त्वचित्करिच-	५४१	इदधी नरवरी ज्ञाता
इत्युक्तवास्तवः सर्वे	५२१	इदमन्यदितः किञ्चि-	५२४	इशानेन्द्रो विदित्वैत-

ईशानोऽन्त्यां दशां यातो	५२
ईषन्निमीलितालोल-	२८८
[उ]	
उग्रसेनस्तदालोक्य	३६५
उद्यताभिनयप्रायं	२०
उच्चैःस्थितमिदं पश्य	३३७
उच्छेद्य कोटिमाहूढो	९४
उज्ज्वलित्याभयान्येद्यु-	४६५
उत्कृष्टजीवितं तत्र	४२४
उत्कृष्टायुःस्थितस्तत्र	४१९
उत्कृष्टेन शतं सप्त-	५६२
उत्तराभिमुखः पीपे	४३७
उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्ता-	८
उत्पन्नं यौवनं तस्य	१४१
उत्पन्नं स्वामिनः किंचिद्	१५५
उत्पन्नमायुषागारे	२९४
उत्पाताश्च पुरेऽभूवन्	२९४
उद्वक्त्रुषु निविष्ट-	४०३
उद्वेगं ध्या खगाधीशो	४५१
उद्वेगमेनैव निवृत्त-	४५१
उदतिष्ठतदैवाग्नी-	३६१
उदन्वानिव रत्नस्य	५५७
उदयादिविकल्पेन	२४४
उदयाद्रिभिराहृष्ट	३१६
उदयाद्यौदास्यदस्य	२४०
उदयास्तमयो नित्यं	२९९
उदरस्पर्शमागं	२३५
उद्वेगमेऽपि प्रतापीऽस्य	२२
उद्वृत्त्याशानिवेगस्य	३५६
उद्वृत्त्येलास्यथाप्यत्रे-	१०६
उद्वृत्तविसमयोऽपुच्छत्	३८४
उन्नतजूर्जितं तेजो	३३७
उन्मादीव मदीवान्वो	६७
उपकारं महान्तं मे	३४२
उपचारबद्धभ्येत्य-	३७७
उपयम्यापरा श्रेष्ठी	४८८
उपयान्तीमिमा वीक्ष्य	२८९
उपयोगक्षमाशेष-	५४
उपर्यशानिवेगाख्य-	५२५
उपलासफाललासेप-	४३०
उपविश्य तदभ्याशो	३५६

उपविष्टानिजाचारं	३९७
उपविष्टो मुदा तेन	३०४
उपसर्गं विजित्यास्य	३४६
उपसर्गं व्यघात्तुपो	५२५
उपसर्गं व्यघान्मन्त्री	३५८
उपाध्यायत्वमध्यास्य	४८९
उपाध्यायोऽपि कालान्तरेण-	५०१
उपायमेकमालोच्य	८
उपायश्चिन्त्यता क्रोऽपि	२९६
उपाया येन संचिन्त्य	४७
उपायोऽयं व्यघात्येवं	२७१
उपायैस्ताभिरुद्बुध-	२९३
उपाजितपराधीरि-	१०८
उपासकद्विदश्याच्यो	७४
उपेक्षितोऽयमर्चैव	१०६
उभयनयभेदाभ्यां	२४
उभयायत्तसिद्धित्वाद्	१४०
उभयोः सेवयोस्तत्र-	१४७
उभया सममाख्याय	४६६
उत्कापातसमालोक्य	३४२
उत्मुकालीरिवायोद्बुधु	३१६

[ऊ]

ऊर्ध्वग्रेवियकस्याघो	१८५
ऊर्ध्ववक्त्रवमद्वक्लि-	३२०
ऊर्ध्वद्रज्यास्वभावत्वा-	३८८

[ऋ]

ऋषोः षष्ठोपवासेन	२०८
ऋषो वेदरहस्यामी-	२६९
ऋजवो धार्मिका वीतदोषाः	४४
ऋजुकृत्स्नानवीतीरे	४६६
ऋजुश्च विपुलाख्यश्च	५५२
ऋजुत्वाञ्जहरे प्राणान्	३१९
ऋणं सवृद्धिकं तावत्	३३१
ऋतं वाचि दयाचिते	५२
ऋद्धयः सप्तसर्वाङ्गा-	४६८

[ए]

एककोऽपि हली सर्वान्	१७१
एकत्रिंशत्समुद्रायु-	३४
एकत्रिंशत्सहस्राब्दे-	३४
एकद्वयुषोषितप्रान्तैः	५५६

एकघमर्त्मक सर्वं	४७९
एकविंशतिरब्दाना	५५८
एकस्त्रिलोकपाण्डुरं	३२९
एकादशविघस्तत्र	५५२
एकादशसह श्रीमद्ध-	५६४
एकादशाङ्गधारी सन्	१४,४०,१२८
एकादशसहस्रावधौ	३१
एकादश्या सिते चैत्रे	३१
एकीकृतयत्तिलान्-	७४
एकोऽपि सिंहुसदृशः	२३०
एतत्सुधैः प्रवालेश्च	२८७
एतत्पूर्वकारतो ज्येष्ठं	२५१
एतदेव कुलीनाना	१६१
एतदेव विधातारं	२७०
एतदेवार्थशास्त्रस्य	१०९
एतद्विद्यमन्त्रैव	४४४
एतद्भ्रातृवध्या बन्वा	१९८
एतद्भ्राज्यं परित्यज्य	२२९
एतन्निवासिनीजित्वा	५४६
एतन्मा मधुरं सत्याः	३०३
एतयोपेन्द्रसेनस्य	१६२
एतस्यानन्दमत्याश्च	१७५
एतस्यैव गुणैर्लक्ष्मी	५८
एतस्मिन् भारते वर्षे-	१२४
एतस्मिन्सम्भवेदेत-	४१३
एतानि सन्ति मे नैव	११०
एतान् सहजशत्रुत्वाद्	४२०
एतास्वपि महाभाग	४७३
एतु गृह्णतु को दोष	१२६
एते क्रमेण पञ्चापि	५६४
एते च नीचका यस्मा-	५६३
एते त्रयोऽपि विद्याना	२६२
एतेन परिहारेण	१७९
एतेषा क्रमशः काले	५६०
एते सर्वेऽपि साकेत-	५५८
एतैः सुखमसौ स्वाप्तैः	५२६
एतौ तत्र त्रयस्त्रिंशत्	१९८
एत्य राजगृह साढं	५५४
एभिर्धर्मोपदेशार्थं	२२१
एवं कर्मवधाञ्जन्तुः	११८
एवं काले प्रयात्येवा	३६०

एवं कुबेरदत्तस्य	५५३	एवं श्रावकसद्धर्म	४९२	कः सामवित्प्रयोक्तव्य-
एवं केवलबोधेन	३२८	एवं संगमयन् कालं	२९	कंचिन्मतगजं वीत-
एवं गच्छति कालेऽस्मिन्	५५९	एवं संबत्सराज्ञीत्वा	३२६	कटकं साङ्गद चूलाम्
एवं चतुर्गतिषु ते विर-	१२०	एवं संसारसारोह-	२२	कटी तटी कटीसूत्र-
एवं बलं चिरं रत्त्वा	२८८	एवं संप्राप्तकल्याणाः	४२१	कण्टकानिव राज्यस्य
एवं तत्र स्थिते तस्मिन्	२५७	एवं सर्वाङ्गशोभास्य	२९	कण्टस्य कः स्तवोऽस्य
एवं तपः करोतीति	५३०	एवं सुखसुखेनैव	१५३	कथं वव कस्माज्जातो
एवं तपस्थतस्तस्य	३८७	एवं सुखेन कालेऽस्य	२३९	कथं तदिति चैत्किंचि-
एवं तपस्थतो याताः	६९	एवं सुखेन भूभर्तुः	१८१	कथं तदिति चेदस्मिन्
एवं तयोर्महाभाग	३२५	एवं सुखेन सर्वेषा	३५३	कथं सागरदत्ताख्यं
एवं तयोः समुद्भूत-	५०५	एवं स्वकृतपुण्यस्य	४२२	कथन्न परलोकश्चे-
एवं तुमुयुद्धेन	३८२	एवं स्वपुण्यपाकात्	२८१	कथमुन्मतकस्येव
एवं त्रिरूपसन्मार्गात्	१५९	एवमन्येऽपि तैरन्ये	३२२	कथाः प्ररूपयन्प्रीत्या
एवं दिनेषु गच्छत्सु	५०३	एवमुक्तवते तस्मि	३५९	कथाकथकयोस्ताव-
एवं दुष्परिणामेन	३६२	एवमेनं स्वयंबुद्धं	१३०	कथ्यतामिति दिव्याव-
एवं देवगती दिव्य-	३४३	एष एव पुरुमुक्ति	४३७	कथ्यतामिति पापेन
एवं देव्या तुजा साकं	५२०	एष एव मम प्रपो	९	कदम्बबालुकाताप-
एवं द्वादशभिर्देवो	४	एष एव विविज्ञेयः	५६२	कदम्बवृक्षमूलस्थ-
एवं द्वादशसंख्यान-	३३५	एष देवोपनीतं तद्राज्यं	३४४	कदलीफलमादर्यं
एवं नित्यं निशाप्रान्ते	१०९	एष पूर्वत्रवे शत्रु-	१८१	कदाचिच्च महीपालः
एवं पञ्चखपक्षाब्धि-	८२	एष राज्यश्रियं भुञ्जन्	२६१	कदाचित्खचरावीश-
एवं परम्परायात-	१५९	एषोऽपि पर्वतो विद्याधर	११९	कदाचिच्चेटकाख्यस्य
एवं पित्रा सशोकेन	२६६			कदाचिच्चेटको गत्वा
एवं पृथग्विनिर्दिश्य	१३९			कदाचिच्छारदाम्भोद-
एवं प्रतिसहस्राब्दं	५५८			कदाचिज्जलयात्रायान-
एवं प्रयाति कालेऽस्य	४१८			कदाचिज्जातवैराग्यः
एवं प्रार्थयमानो मा	३०९			कदाचिज्जिनपित्रामा
एवं बन्धविधानोक्त-	४९४			कदाचित्कानने तस्मिन्
एवं बहिः कृतः सर्वे-	२६७			कदाचित्कार्तिके मासे ७७
एवं भवान्तरावद्ध-	१७५			कदाचित्काललब्ध्यास्य
एवं भवान्तरावर्जितो-	३३			कदाचित्काललासेन
एवं भूखेचरावीशं	३११			कदाचित्केनचिद्धेतु-
एवं महाभूमिस्तत्र	३५९			कदाचित्त्पुरप्रत्या-
एवं रामश्चिरं रत्त्वा	२८७			कदाचित्तेन गत्वामा
एवं राज्यसुखं श्रीमान्	३९			कदाचित्ते सुता दृष्टाः
एवं विनोदैरन्यैश्च	५१८			कदाचित्प्रावृषारम्भे २३३
एवं बिह्वरमाण तं	३५४			कदाचित्सिंहसेनो
एवं वैषयिकं सौख्यं	४५५			कदाचिदिति संचित्य
एवं व्रतेन संन्यस्य	४५७			कदाचिद्धरणीवर्ता
एवं शेषनवस्थान-	५६२			कदाचिद्धर्मसेनाख्य
एवं शृगालवल्गुब्धो	५३४			कदाचिद्गतपेणोऽभूत्
		एवं श्रावकसद्धर्म	४९२	
		एवं संगमयन् कालं	२९	
		एवं संबत्सराज्ञीत्वा	३२६	
		एवं संसारसारोह-	२२	
		एवं संप्राप्तकल्याणाः	४२१	
		एवं सर्वाङ्गशोभास्य	२९	
		एवं सुखसुखेनैव	१५३	
		एवं सुखेन कालेऽस्य	२३९	
		एवं सुखेन भूभर्तुः	१८१	
		एवं सुखेन सर्वेषा	३५३	
		एवं स्वकृतपुण्यस्य	४२२	
		एवं स्वपुण्यपाकात्	२८१	
		एवमन्येऽपि तैरन्ये	३२२	
		एवमुक्तवते तस्मि	३५९	
		एवमेनं स्वयंबुद्धं	१३०	
		एष एव पुरुमुक्ति	४३७	
		एष एव मम प्रपो	९	
		एष एव विविज्ञेयः	५६२	
		एष देवोपनीतं तद्राज्यं	३४४	
		एष पूर्वत्रवे शत्रु-	१८१	
		एष राज्यश्रियं भुञ्जन्	२६१	
		एषोऽपि पर्वतो विद्याधर	११९	
		[ऐ]		
		ऐकत्वसङ्गरेऽप्येतन्न	१७८	
		ऐराघतगजस्कन्ध-	८१	
		ऐरावतीनदीतीरे	१, ८, १६४	
		ऐरावतीसरिदृक्षणान्ते	४८४	
		ऐन्द्रस्याभिमुखो भूत्वा	३२४	
		[औ]		
		औत्पत्तिक्यादिधीयुक्ताः	४६९	
		औत्सुक्यात्तद्वनं गत्वा	१८१	
		औदासीन्यं सुखं तच्च	७४	
		[क]		
		कंसं यथाहूमालोक्य	३६९	
		कंसानाम्ना समाहूतः	३६३	
		कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा	३६९	
		कंसेन निजभृत्येन	३६३	
		कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण	३६३	
		कः कं किं ववित केनेति	४१३	

कदाचिद्विश्ववेगो	११४	करेण क्षुरसेनोऽहं	३९०	कस्मिन् केन कथं कस्मात्	७९
कदाचिद्वार्जसिंहारय-	१३२	क्रेणुमार्गमालोक्य	२६४	कस्य कस्मिन् समीपेति	३५
कदाचिद्विजया देवी	४९४	करैः प्रविकसत्युष्करै-	३१८	कस्य का तुङ्गता नाम	२३३
कदाचिन्मिषि केनापि	५०८	करैर्निजैः कुमारस्य	५३६	कस्यचिद्दृष्टुतभावेन	४५०
कदाचिन्मत्पिता भूमि-	५४६	करोति कुत्सित कर्म	१०३	कस्यचित्ता महादेवी	५३५
कदाचिन्मत्पिता मन्त्र-	४९०	करी प्रसार्थं सस्नेहं	४९८	कस्याभ्यस्य स्थिरीभावो	८२
कदाचिन्मन्दरे दिवां	१७७	कर्णभ्यर्णं प्रवर्तित्वा-	३१७	कांस्यपात्रत्रयापूर्णा-	११०
कदाचिन्मुनिसङ्घस्य	१९७	कर्णो तस्य न वष्यते	२०५	काकमासनिवृत्यासौ	४७०
कदाचिल्लक्षमणो नाग-	३२६	कर्णो लक्षणसंपूर्णो	२७	काकवत्पर्वसु भ्रान्त-	३४९
कदाचित्स द्रुपो दानं	१९४	कर्तव्यमिति संपुष्टो	५५०	काञ्चनाख्यगुह्या	११४
कदाचित्सानुकम्पेन	३९३	कर्मणोऽस्य समर्थोऽह-	५४६	काठिन्यं कुचवारेव	४४४
कनकश्रीः सहाम्भेर्य	१७२	कर्मनिर्मूलनं कर्तुं	५४७	कात्र प्रीतिरहं जन्म-	८७
कनकोज्ज्वलनामाशु-	५६५	कर्मभेदात् फलं तेषा	३२६	कार्तिके कालपक्षस्य	३६
कनकनकचित्रशहो	३३६	कर्म स्यात्किं न वा पुष्यं	७४	कार्तिके मासि रेवत्यां	१२२
कनीयसौ गुणैर्ज्येष्ठा	४०२	कर्माण्यनादिबद्धानि	१५७	का रवं वद कुतस्त्या वे	२८९
कनीयान् जिनवत्तोऽय	४२३	कर्मण्यष्ट सकारणानि	२१०	कान्त- कुचलया ह्लादी	१२८
कन्दमूलफलान्वेषी	१८३	कर्मरिभिरिदं सर्वं	८	कान्ता कल्पलतारम्यो	१९
कन्यकाना कुमारां तं	५३३	कर्मैदमुचितं ख्यात-	३११	कान्ताकल्पलतारोह-	१७०
कन्यकाभि शतं सार्द्धं	१७६	कर्मैव तिष्ठुं गस्यासौ-	२७९	कान्ताभि करणैः सर्वै-	६८
कन्या गवेपलेवेति	५११	कवंटाः खत्रयद्वयेक-	३२५	कार्त्तिके लज्जां धृति कीर्त्ति	५६
कन्याकुञ्जगह्वीधारय	२२२	वल्पामरैः समं सर्वै-	१७	कान्तेः का वर्णना तस्य	२०७
कन्याघात ममास्त्यत्र	२२४	कलङ्कक्षीणते रात्रि	४४४	कान्त्या कुचलया ह्लादा	१६६
कन्याहस्ति सुवर्णवाजिकपिला७८		कलङ्कविकलः कान्तः	१२५	कामकल्पद्रुमोद्भूत	५५
कान्ताभिः कमनीयाभिः	२९	कलापी गतवानेक-	२६५	कामजे व्यसने धृति	१०२
कपिलादित्त्वशिष्याणां	४४७	कलापे पलितं प्राञ्च्यं	२५९	कामधेन्वमिषा विद्या-	२२५
कपीना यूयमालोक्य	५२६	कलाभिरिव बालेन्दु	५४	कामयन्ते स्त्रियः पुंस	३५
कपोलफलकौ श्लक्ष्णौ	२०५	कलाविदग्धविद्येश-	५०३	कामरागकथामेव	११६
कमठः कुक्कुटसर्पं	४४२	कल्पवल्लीव दावेन	२९९	कामशोकभयोन्माद-	६९
कमठ प्रावतन- पापी	४३३	कल्पवृक्षं च दीनेभ्यो	४३३	कामादिशत्रुविनासो	२८२
कम्पमानैरघोवस्त्रै	४९७	कल्पातीता विरागास्ते	८०	कामिनां खण्डयन्मानं	२८१
करं परार्ध्वरत्नानि	१३३	कल्पाभिर्वाणकल्याण-	२३७	कमिनी नलिनीरेज-	२०७
करजालमतिक्रान्त-	२५३	कल्याणविधिपर्याप्तौ	२६१	काम्पित्याया घरावीशो	४२०
करणत्रयसंयोगात्	६०	कल्याणमिषवर्षं कृत्वा	४६०	कामो नाम खलः कोऽपि	७२
करणत्रयसंशान्त-	१५९	कविपरमेश्वरनिगदित-	५७५	काय- सर्वा शुचिप्रायो	४९७
करणप्रावरणालम्ब-	५६२	कश्चिच्छ्रीविजयाधीशं	१४९	कायवाक्चेतसां वृत्ति	१५८
करणानामभीष्टा ये	४४६	कश्चिद्भ्रुवरो वीक्य	५४१	कायस्थितिसमादानं	३०४
करवाणि कथंकारं	१२१	कश्चिद्विप्रसुतो वेदा-	४७४	कायादिकं सदसि ते विकल्पं	५६७
कराग्रकर्परेणोपलक्ष्य-	३४९	कश्चिद्विप्रसुतो वेदा-	४७४	कारणं किं तयोः की च	१८६
करालकरवालाश्र-	३८१	कश्चिद्विप्रसुतो वेदा-	४७४	कारण तीर्थकृद्भ्राम्णो	१८७
करिष्णन्नतितप्ताना	५३१	कश्चिद्विप्रसुतो वेदा-	४७४	कारणं प्रकृतं भावि	२५६
करीन्द्रमकराकीर्णं	३११	करैः प्रविकसत्युष्करै-	३१८		

कारणद्वयसाक्षिभ्या-	४३२	किं तेन यदि शीलस्य	२९३	कुतो ममेति सक्रोधं	३६१
कारणादिच्छता कार्यं	५५४	किं ध्यानात्फणिनः फणीन्द्र-४४१		कुनयघनतमोऽन्वं	१२४
कारणान्यपि पञ्चैव	५५	किं न कुर्वन्त्यमी मुढाः	३८६	कुन्त्या सहाकृतोत्पन्न-	३४६
कास्त्रेन कर्मणां कृत्वा	४८०	किं न वेत्सि ममैवं त्वं	४७५	कुन्थुतीर्थशंसताने	२१९
कार्यकारणतु गुणं च गुणिनो२४८		किं अत्येयमिदं नेति	४१३	कुन्द्वासा गुणास्तस्य	५८
कार्यं साधु करिष्यामि-	३८४	किं चस्त्विहाक्षणिकमन्वय-	५७०	कुन्देन्दुनीलसङ्काशा-	९३
कार्यकारणभावेन	१७९	किं सुखं यदि न स्वस्मा-	५९	कुपिता विषसंमिश्रं	४२२
कार्यमित्येतदेकान्त-	२६६	किं सेष्यं क्रमयुगममवज्रविजया३७		कुपितेयं विना हेतोः	२८७
कार्यकार्यविवेकस्ते	२६६	किंचित्कारणमुद्दिश्य	१८५	कुपित्वा चेटकार्यं तं	५१७
कालं गमयत. स्मोद्य-	५४४	किंचित्कालं समासाद्य	१६५	कुवेरदत्तामाहूय	५४४
कालदष्टस्य वा मन्यो	७८	किंचित्स्त्रिषामित्रातक्ष्य	२८८	कुवेरदिङ्मुखोबद्ध-	२०८
कालमेघमहागन्ध-	३१६	किंचित्पुण्यं समावर्ज्यं	५३७	कुमारं तदनुज्ञानात्	५०७
काललव्वि समाश्रित्य	३६१	किंचित्प्रदक्षिणीकृत्य	४९१	कुमारं भास्वराकार-	४६२
काललव्व्या समासाद्य	३९७	किंचिद्धितं प्रियं चोक्तं	१०	कुमारः श्रूयतां कश्चि-	५३३
काललीलाविलम्बालं	५२	किंतु ध्रुवो विद्योगोऽत्र	८९	कुमार इति संचिन्त्य	३५४
कालसंवरविद्याधरेशः	४१०	किंतु नाकाशगामित्व-	३०५	कुमारकाले निष्कान्ते	२५५
कालादिलव्विमासाद्य	३८८	किंतु विद्याबलादेव	११८	कुमारकाले पूर्वाशा	२९
कालाद्युक्तेचतुर्भेद-	१६०	किमङ्गास्तीति सोऽप्याह	५१०	कुमारत्वे दशाष्टौ च	७
कालान्ते कालद्रुतो वा	३१५	किमनेनेति यक्षिंशं	५१५	कुमारवत्तवैश्यस्य	५०५
कालान्ते कृतसंन्यासविधि.	७	किमन्यप्रतिपाद्यास्यै	४९८	कुमारमन्दराकार-	५३५
कालान्ते केशवोऽयासीद्	११७	किमर्थमिदमेकत्र	३८५	कुमार श्रृणु वक्ष्यामि	५३८
काले गच्छति जीवान्ते	४९३	किमस्त्यघोर्गति यास्य-	४७३	कुमारस्य न भीरुस्ति	५०७
काले गच्छति तस्यैवं	३३१	किमसौ लभ्यते द्रष्टुं	१७०	कुमारान् भस्मराशि वा	१०
काले गच्छति सत्येव	१११	किमित्येष्यामि यातेति	२२५	कुमारायार्पयासास	५१५
काले सुखेन यात्येवं	३७५	किमेतदिति तेऽवोचन्	४८३	कुमारेण समं गत्वा	३६०
कालो माण्डलिकत्वेन	२१५	किमेतदिति सावोच-	५४८	कुमारेति तमभ्यर्थ्यं	५०६
काशिदेशे सुपो	१२६	किमेतेन भवच्छौर्यं	३०८	कुमारेऽस्मिन्मम स्नेहोऽभू-	५००
काशिदेशे समयात-	२८१	किमेतेषां फलं श्रूहि	३६६	कुमारोत्तिष्ठ कल्याण-	५१९
काश्चित्कारकताः काश्चित्२८१		किरातसैन्यरूपाणि	४६५	कुमारोऽपि गृहीताणु-	३४०
काश्चित्प्रस्वित्तसर्वाङ्गाः	३५४	किरातेनेति संपुष्टः	४६९	कुमारोऽपि ततः किंचि-	५०८
काश्मपायाश्च पुत्रौ तौ	४०९	कीर्तिगुणमयी वाचि	८७	कुमारोऽपि तदाकर्ण्यं	५५१
काषायवस्त्रः कक्षाव-	२९७	कीर्तिवल्लीजगतप्रान्तं	२०७	कुमारोऽपि प्रतिज्ञाय	५००
काष्ठाङ्गारिकपापोऽपि	४९६	कीर्तिस्तस्य लता सत्यं	१२९	कुमारोऽपि रविर्वाम्भो	५०१
काष्ठाङ्गारिकपुत्रेण	५०४	कीर्तौ श्रुति. स्तुतौ तस्य	२१	कुमारोऽपि विदित्वैत-	५०४
काष्ठाङ्गारिकमुख्यास्ते	५२५	कुञ्जरो वापितालानो	३३४	कुमारगवारिणो यस्मा-	४२९
काष्ठाङ्गारिकमेवैन-	५०७	कुणालविषये सुकेतु-	१०५	कुम्भपूर्णपयोभिस्ता-	३६५
कासौ किं तां न वेत्सि त्वं	३८३	कुण्डलारूपपुरे राज्ञा	१५०	कुम्भायाद्या गणेशोऽस्य	२२०
किं कृतं भवता पूर्वं	४९०	कुतापसद्वतं दीर्घ-	१६४	कुम्भाहाराय यात तं	१५२
किं कृत्यमत्र संग्रामे	३०८	कुतो जानुक्रियेत्येवद्	२८	कुम्भे नानुयता बण्डहस्ते	१५२
किं भोजः किं गुरुर्भूहि	१५०	कुतो धर्मस्तवेत्येत-	४९०	कुम्भाङ्गलदेशोऽस्मिन्	३९२
किं तेन जन्मना तेन	१९				

कुल्लो मा मवि प्रीता	५१४	कृतसिद्धनमस्कारः	२३६, ४३७, ५२५	कृष्णाचार्य समासाद्य	१३२
कुल्लवमिति संप्रेष्य	२६९	कृताञ्जलिगिरासेव्यो	३२४	कृष्णाम्या वाहणे योगे	८८
कुह-यागं त्रियो वृद्धयै	२५५	कृताञ्जलिखरह याचे	३०२	कृष्णोऽन सह रङ्ग वा	३७१
कुह संश्रुहमन्यच्च	२६९	कृतानुरूपविनया	२१४	केचिदद्गुण्डमातव्यं	३८७
कुर्मस्तथेति सतोष्य	५१९	कृतान्तवदनं सद्यः	५०७	केचिदेव परे नाना	३८७
कुर्युः कुरुहलोत्पत्ति	४८	कृतान्ता रोहणासन्न-	२६८	केचिद्द्वामकरोपात्-	३८२
कुर्वतस्तापसस्योच्चैः	४७६	कृतापराधे भ्राता ते	१०८	केचिद्वश्चानुकूलानि	३१८
कुर्वद्वधतैर्चनाश्लेष	२९१	कृताभिवदनो योग्यं	५१६	केतुमालाचलहोभि-	१४५
कुर्वन् घोरं तपो विश्व-	४५०	कृतार्थः सन् जगत्वातुं	१९३	केनचित् कीलितो वेतो	१७१
कुर्वन् धर्मोपदेशेन	३७	कृतार्थोऽह कुमारेण	५४९	केनचित्पथिकेनामा	४७४
कुर्वन्नेवं महासत्त्व-	११३	कृताष्टाङ्गिकसत्पूजौ	१६५	केनचित्मुनिनाधीत-	५१६
कुर्वन् पर्वशशाङ्काभो	३३७	कृतोपचारा सविध्य	४३४	केनापि तपसा कार्यं	२३९
कुर्वन्ति स्मापराभाणि	३१९	कृतोपायो गृहीत्वैना	४६६	केनापि हेतुनावाप्य	४५६
कुर्वणिः पञ्चमिमांसी-	४३९	कृत्तिकाभिनिश्चिताभि-	४९७	केनाप्यसह्यमापाते	५०१
कुर्वणि समय कति प्रकृतिषु	५	कृत्तिकाया तुतीयाया	२९६	केयमित्यनुयातोऽनी	५४६
कुल कुललयस्यास्य	५७	कृत्याकृत्यविवेकात्ति-	२५२	केवलज्ञानिमानोक्त-	१११
कुलं चैरक्षितुं तिष्ठे-	३००	कृत्याकृत्यविवेकोऽस्य	२५१	केवलावगमं प्रापत्-	१००
कुलनाशोऽगतिर्मुक्ति	२९०	कृत्यानामुपजायेन	२८३	केवलावगमात्प्राप्य	३३८
कुलंपुत्रमहाम्मोषेर्न	३०६	कृत्रिमा. केन जायन्ते	१६९	केवलावगमालोकिता-	४७३
कुल्लेपवय-शील-	२०७	कृत्रिमैणच्छलात्तस्मान्	१५३	केवलावगमास्तत्र	४
कुल्लरूपादय केन	११६	कृत्वा कृष्ण च गोपाल-	३६८	केवलद्युतिरेवैवं	६१
कुला.रोगवयोरूपा-	१४३	कृत्वा जीवन्धरस्तस्य	५०७	केषारोमलवादीना	५०४
कुले महीभुजा ज्येष्ठो	२६०	कृत्वा तज्जगन्निक्षोभ-	४४९	केषावत्या महाभ्राता	२४२
कुलोचिता सुषोषा त्व	५०४	कृत्वा तप समुत्कृष्टं	२४८	केषावाश्र नवैवाश्र	५६१
कुशलाश्वन्दनोद्यौर-	५११	कृत्वा दिग्विजय जित्वा	९५	केषवत्यादिमस्येय	४५२
कुप सोपानमार्गेण	५५३	कृत्वाऽज्येष्ठिं तदाम्भेत्य	१०१	केषवो जीवितान्ते	१२७
कुर्मण्डौ क्रमो तस्य	२०६	कृत्वा नान्दीववरी पूजा	१९२	केषवोऽपि तमन्वेष्टु-	१०४
कुलनाम महीपालो	४६४	कृत्वा निदान संन्यस्य	१०३	केषान्विमोचितास्तस्य	४३७
कुरुवाहू च चेदेव-	१९०	कृत्वा पञ्चमकल्याण-	२४७	केलासपर्वते दीक्षा	१२
कृत. किल्लवमादेवो	५१०	कृत्वा पापमद क्रुधा	२७७	कोकालोकावलोकैका	५६३
कृतक. सहजवचेति	५२३	कृत्वा भगीरथे राज्य	११	कोकिला.ना कला.लापो	१८०
कृत. पुत्रवध स्वामी-	५५२	कृत्वा भवान्ते मन्दोवरी	२७९	कोकिलाप्रथमालापै-	१८३
कृतोपोऽस्थयं नाग-	१०७	कृत्वाऽमिषेचनं दत्त्वा	३४६	कोकिला.लिकला.लापा-	७१
कृतदोषो हत. सीता	३२३	कृत्वा राज्यमनू सहैव	८६	कोकिलाश्र पुरा मूकी	५०९
कृतनिर्वाणकल्याणाः	४३९	कृत्वा राज्येऽनुजन्मानं	११२	कोटिकाश्रमशिला तस्मि-	३२३
कृतपञ्चमकल्याणा	४२	कृत्वा शरीरसंस्कार-	३२७	कोटीर्द्धादशरत्नाना	३८६
कृतमङ्गलनेपथ्या	३२४	कृत्वा स्नानाग्निहोत्रादि-	२६४	कोटीनवसहस्रं पु	४०
कृतमातृपरिव्रजन-	४८९	कृत्वाऽतान् बुद्धिर्दकल्प्यात्	५२	कोऽराजस्तवेवं न-	१२
कृतवर्मा महादेवी	९८	कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षो	२४४	कोऽपिती देवं. संश्रुष्ट	१३६
कृतवीरोऽज्ववीत्सापि	२२५	कृतसम्यक्श मध्य	२८	कोऽभिप्रायो महीशस्य	३६२
कृतशोभो जगन्नाथ-	४२०	कृष्णपक्षे त्रयोदश्या	३४, २५४	कोक्युपमं विहङ्गाश्च	३८१
				कोशल विषये रम्ये	१३४



कोशातकीफलं पक्वं	३९३	क्व तद्वैरं वृथा शान्ति-	४३९	खचतुष्केन्द्रियतूर् कतैः	५९
कोशावन्याय इत्येतत्	१८१	क्व मे श्रीविजय स्वामी	१५४	खचतुष्केन्द्रियत्वविनमित	२२
कीटिल्यकोटयः क्रौर्य-	३९१	क्व सकलपृथुशत्रु-	४२७	खचतुष्केन्द्रियद्वन्द्वे	१२२
कीतस्कुतः किमर्थं वा	२८४	क्व स पितृरुपमृत्युः	५२८	खचराधिपदूतं खादवतीर्ण	१५४
कीमारब्रह्मचारित्वं	२२३	क्व स विदिततत्त्वः	४८१	खचारणत्वं तुयविगमोत्कर्ष	११२
कीमारमिति रूपेण	२९	क्वाचित्कव्यभिचारान्चे-	४७८	खण्डद्वयं ह्यग्रीव-	४५४
कीलीन्यादनुरक्तत्वाद्-	१४१	क्वाद्य वर्तत इत्येतत्	४०९	खत्रयत्वेकसङ्ख्यानिः	२३
कीशले विषयेऽयोध्या-	४३२	क्षणिकत्वे पदार्यानि	४७९	खत्रयाग्निद्विवर्षान्ति	१४
कीशले विषये वृद्धग्रामे	११२	क्षणिकाः सर्वपर्यायाः	३३	खत्रयायनपक्षोक्त-	१२२
कीशाम्ब्या प्रथितस्तुतीयजनने	३३६	क्षणिकैकान्तदुर्वाद.	१७९	खत्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता	२३७
कीशाम्ब्यास्ये सुखिख्यातो	३४३	क्षपक्श्रेणिमारुह्य	१३७	खत्रयैकनिदिष्ट	४२
कीशाम्बीनगरं तत्र	३४२	क्षमा मूर्तिमती वेयं	४८६	खत्रियपञ्चतु बह्व्युक्त-	१००
क्रमात्केवलमप्याप्य	१६०	क्षमावान् क्षमाविमागो वा	१३७	खद्वयद्विनवान्युक्त	९०
क्रमात्पावापुरं प्राप्य	५६३	क्षयी कलङ्की पङ्कोत्थं	२०५	खद्वयत्वं द्विवादीशः	६२
क्रमात्स्वन्नगरं प्राप	५४९	क्षयोपशमसंप्राप्त-	३३४	खद्वयत्वंष्टसंभोक्त-	१००
क्रमादेकादशाङ्गाब्धि-	६७	क्षरन्ति वारिदा काले	२००	खद्वयद्वयष्टवाध्व्युक्त-	८२
क्रमादेवं तपः कुर्वन्तुर्वी	२०९	क्षान्त्यादिः कर्मविध्वंसी	५५२	खद्वयाष्टपदेकाङ्क-	३७
क्रमाद्वीबलकायायु	५५८	क्षान्त्यादिदशधर्मा-	३३९	खद्वयेन्द्रियपक्षोक्ता-	२१६
क्रमाद्राजगृहं प्राप्य	४६९	क्षित्वा लोकान्तिका	६९	खद्वयेन्द्रियपञ्चाविगम्य	१००
क्रमाल्लङ्कामवाप्येता-	२९२	क्षीराभिषेकं भूषान्ते	६८	खद्वयेन्द्रियपञ्चाभिषेय	१००
क्रमेण कृतपुण्योऽसौ	४११	क्षीरोदा च सशीतोदा	१६९	खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रि-	६९
क्रमेण विहरन्देशान्	११८	क्षुत्तुद्भयादिकर्म-	२२१	खद्वयेन्द्रियरत्नाग्नि-	१२३
क्रमेण श्रव्यशब्दार्थ-	२७८	क्षुल्लकोऽर्थं गृह्योति	५४५	खद्वयेन्द्रियसप्ताङ्क-	२४६
क्रमेणैवं तपः कुर्वन्	३६१	क्षेत्राणि सर्वधान्यानि	४५	खद्वयैकेन्द्रियज्ञान-	२१६
क्रमेणोऽं तपः कुर्वन्	१३२	क्षेमं श्रीविजयाचीशो	१५५	खद्विकेन्द्रियसतोक्त-	७४
क्रियमाणा दुरात्माऽऽप्री	५०७	क्षेमं करारुह्यभट्टार	४३१	खपञ्चकनवद्युक्ते.	३०
क्रीडवं जाम्बवत्याप	४११	क्षेमं चेदाप्नुमिच्छास्ति	४५६	खपञ्चकेन्द्रियैकाब्द-	९८
क्रीडार्थं स्वबलेनामा	४३५	क्षेमाख्यपत्तनपति-	४३	खपञ्चकेन्द्रियैकोक्त-	१२२
क्रीडितुं याचते मूढो	१३३	क्षेमाक्षयपत्तनपति-	४३	खपञ्चमुनिवह्निद्वि-	२१४
कृद कटीद्वितय-	३७३	क्षेमाक्षयपत्तनपति-	१८९	खरद्वयणधूमाख्य-	३१५
कृद कुमारैरन्यैश्च	३०८	क्षेमाक्षयपत्तनपति-	५०९	खलखगमकृतोऽपिप्रवं	१२०
कृदात्मभ्रातृपुत्रोर-	२७८	-	[ख]	खसप्तकद्विवाध्व्युक्ता	३२५
कृदात्वा ती युद्धसन्नदा	४३३	खगः संभिन्ननामाऽयं	१५५	खाक्षखद्वयवह्निद्वि-	२३
क्रीडजेपु त्रिपुस्तैषु	१०२	खगाधीछिन्ददत्ताख्यः	१८१	खादामीति कृतीद्योग-	५३४
क्रीडादिभिः सुतपसोऽपि	१०५	खगेशश्च क्रमादाय	१७१	खादित्य नारदोऽप्येद्युः	२८४
क्रीडानातापि सक्रोधा	४९०	खगेशो दक्षिणश्रेण्यां	२७८,४०२	खादेकमानुषं चेति	१५२
क्रीडान्मित्रं भवेच्छत्रु	४९०	खगेशोऽज्ञानिवेगाख्यो	१५४	खाप्टेकहस्तसद्देहा	१२९
क्रीडव्याघ्रमुखाश्चैव	५६४	खगेश्वरोऽपि तत्क्षन्तु-	१४७	खेटकत्था समादाय	४१४
क्रीडयुष्मिण शौर्येण	६१	खचतुष्कनिबह्व्युक्ता	३१	खेचराचलवाराशि-	३८३
क्व गम्यते त्वया राजन्-	३६९	खचतुष्कद्विबह्व्युक्तधर्मा	१७	खेचराधीश्वरो योद्धुं	३१६
क्वचिदात्यन्तिकी पुंसि	४७७	खचतुष्कद्विवाराशि	३७	खेचरोऽपि तच्छ्रुत्वा	१४८
		खचतुष्केण कोटीनां	३५	ख्यातो नन्दपुराणीशो	३९२

[ ग ]

गङ्गामिन्दुक्ष रोहिक्च	१८८	गत्वा तो रामसन्देशात्	३०९	गान्धारविषये पुष्कला-	४०३
गच्छत्येवं चिर काले	२५	गत्वा तो स्वार्गति पूर्व	१४६	गान्धारी गौरी पद्मावती	४०२
गच्छत्येवं क्षणे याम्य	३७८	गत्वात्मपरिवारैण	२४४	गान्धारी च सुता प्रादु-	३४५
गच्छत्येवं तयोः काले	२६७	गत्वात्र युगमास्याम्बे-	४१८	गान्धारीत्याक्षय्या स्वाता	४०३
गच्छन्तो दण्डकारण्ये	४१८	गत्वा द्विषोऽग्निराजस्य	४११	गिर्यन्तविजयं गन्ध-	५२६
गच्छन्त्यदण्ड्या द्योम्नि	४१०	गत्वा नन्दीदक्षद्वीपे	४२४	गुणगुणभिमयन्धे	४८०
गजः बन्दीरयेत्येव	४५४	गत्वा निम्बिनवागंस्वा	२९०	गुणशालाभिधानस्य	५०३
गजराजं च यशत्रं एवं	२१५	गत्वा पश्चरपाभयार्ण	३५८	गुणप्रमयमंरण्या	१११
गजवृंहितवाहीन-	३१६	गत्वा प्रविश्य तामुत्सवं	२८३	गुणवत्यायिकाभयाणे	४२३
गजात्पुत्रं गमीर गोः	५०	गत्वाऽभयं चिर ग्नुत्वा	७९	गुणा सत्यादयस्तस्मिन्	९८
गजादिषोडशदम्बल-	३४	गत्वा रात्रकुलं वैनतेय	४९५	गुणा गुणार्थिभिः प्रार्थ्या	१
गजारिगंजसुधं या	३२१	गत्वा विहाय मर्मार्थं	५४१	गुणाद्यं भावुको मावि	५९
गजेन्द्रपुष्पमिन्दु-	४०	गत्वा दयेनयनीघान	२३६	गुणा वरस्य तेष्योष्वापुरेऽपि	२५९
गजे नाम विगन्तुं	९४	गत्वा गण्डोप रागेन	२१५	गुणास्तस्य धनं लक्ष्मी	८७
गजिनो मयम श्रितया	१८३	गत्वाऽऽरपुरमन्विरप	५४६	गुणिना निरवधेन	१९७
गजिन्याऽन्नदनायैषा.	४८२	गन्धपुष्पादिभिर्विघ्न-	३८१	गुणो गुणमयस्तस्य	८९
गभी निजदिशामोपु प्रमरे.	५५५	गन्धमाधनकुध्रोरय	३९५	गुणैः प्रामेय सम्पूर्णः	२१
गल्लेणा द्यम नस्यामन्	४३९	गन्धयंदेतया साक्षा-	५२४	गुणैः सादंमयदंष्टन-	८१
गर्भद्विदामिः पूज्यः	५२९	गन्धर्षेऽक्षा वत्याण-	५२२	गुरुः प्रथमचक्रदं	१४४
गनधनरिपुरीषः	१७४	गन्धर्षेऽक्षा मंशूरा	५१८	गुरु. श्रुतधरो नाम	२६२
गनयोर्जनकागार	२७६	गन्धर्वेऽक्षा मंप्राप्य	५१०	गुरुणापितभादाय	५४५
गनि प्रयातसंशुद्धा	३१९	गन्धर्वेऽनगरेणैव	२२	गुरुवत्पापान्निविष्टं	२७४
गतिजीवगुणस्वान-	६१	गन्धवाराणसाग्राहा	३५३	गुहरीतमनस्यस्मिन्न-	३९९
गतिमुद्धं त्यया पूर्व-	३४१	गन्धादिभिर्यति दिव्य-	१८५	गुहमिनयिते दीक्षा-	५४५
गतीर्गच्छन्ति पश्चापि	५६२	गन्धादिभिर्विघ्नयेत-	४६४	गुरुमाश्रित्य सम्भावि-	४०४
गतेऽनन्तरमंताने	५७	गन्धादिभिः ममभयर्ष्य	५५२	गुणकयोरिव मन्यम्य	२०६
गतेष्विधवाक्रुमुन्येपु	२५५	गन्धारविषयस्वान-	२०२	गुणवल्लीहृमाः सर्वे	१९९
गते स्वापुत्रमुनिमि	७३	गन्धा मुगन्धा गन्धावान्	१८९	गृहकार्यं भवद्वाय-	२९०
गतोऽमितप्रमाहंरुपः	१६२	गन्धीदकैः स्वय देव्या	४८	गृहाण येन प्राप्नोपि	२२५
गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता	४९८	गम्भीरा दक्षिणावति	२०६	गृहाण वेपमन्यं त्व	४४७
गत्यादिगुणमानानि	७३	गमंमुत्तिसमुत्पन्न-	२९०	गृहाण संयम त्यवतं	५३०
गत्वा कदाचिदेतेन	२९७	गमगिमर्षं द्वादश्या	४२	गृहाणेति बली पाणि-	३५८
गत्वा यमनमालोचय	५१०	गमघानादिनिर्वाण-	१९६	गृहाणैद वतं श्रेष्ठ	५५३
गत्वाऽचलेषु संस्थाप्य	२३५	गमन्वयक्रिया. पूर्व	१९५	गृहिणो तुम्बभूवास्या	११६
गत्वा वैश्वनरीघान	३३५	गमवितारनक्षत्रे	४२	गृहीतधर्मतत्त्वोऽप्यो	१४४
गत्वा जिनगृहे प्रोप-	१६८	गहंरुं स्वदुराचारे	४०९	गृहीतधर्मवपुण्यात्मा	५३
गत्वा ततोऽन्तरं किंचित्	२६४	गलन्ति गमस्तिशाम्ना	९४	गृहीतधर्मव नेत्येत्तन्-	२८६
गत्वा सपोगुरु कृत्वा	३३	गाढं पापेन बध्वाधो	४१५	गृहीतानशान्धेयु-	४२३
गत्वा तत्र मनोहारि	५१३	गान्धर्वादि विकाशेषु	४१९	गृहीत्वा तामसो कृद्ध-	४३३
		गान्धारविषये ख्यातो	४८२	गृहीत्वा याचित्वि तयवत	३९०

गृहीत्वायास्त मायावी	२९५
गृहीत्वा रोहिणी राहौ	२९५
गृहीत्वा शुद्धसम्भक्त्वाः	४३८
गृहीत्वा सत्त्वसरोऽस्थात्	४३८
गृहीत्वा सुष्ठु संतुष्ट-	५०९
गोत्रेण कार्श्यपस्तस्य	२४५
गोधवनमहानाग-	३६९
गोपुरेण प्रविश्यान्नि	३२३
गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य	५२४
गोमि-या सह सीतापि	३०५
गोमेषमेधवक्राश्च	५३३
गोवर्द्धनश्चतुर्थोऽन्यो	५६४
गौतमश्च मया दृष्टो	५२९
गौरीति रूपलावण्य	४०४
गौरी षडङ्गिका श्रीमत्	१६५
ग्रन्थद्वयपरित्यागे	२४४
ग्रन्थान् कथामिव त्यक्त्वा	२१३
ग्रंहीष्यामीति तेनापि	४१०
श्रामाः कुक्कुटसंपात्याः	४५
श्रामान्तरं समं गत्वा	३९७
श्रामान्तरात्समायातं	४०७
श्रामे दुर्गर्वणो नाम	५३९
श्रामे पलाशकृटाब्धे	३५२
श्रीवाभङ्गेन वा पश्यन्	२९२
श्रीष्मार्कमण्डलाभक्त्वा-	२३१

## [ घ ]

घटदासी विधास्यामि	५२१
घटामटति कोकाना	२९४
घटामटति युक्त्यैव	१३८
घनच्छायासमाः सर्व-	२०८
घनश्रुतपरिधानो	३७२
घनान्तरितकायाम-	३८७
घनान् सताडितः कृष्णान्	३१७
घातिकर्मणि निमूल्य	१४९, ४६७
घातिकर्मणि विध्वंस्य	५२७
घातीति नाम तद्घाता-	६१

## [ च ]

चकार षोषणा पुर्या-	३६१
चकार शान्तिपूजा च	३२७
चक्रं शक्तिर्गदा शङ्खो	३८३

चक्रं सुदर्शनाख्यानं	३२५
चक्ररत्नं समुत्पन्नं	२६४
चक्रवर्तित्वसंप्राप्यान्	२२९
चक्रवर्तिश्रियं प्राप्य	१८१
चक्रस्य परिपाकं च	३१२
चक्राद्यवयवैर्भङ्गै-	३२१
चक्रायुवस्ततोऽस्यैव	११५
चक्रायुषादयश्चास्य	२०९
चक्रायुषादयोऽप्येव-	२१०
चक्रायुषादितद्राज्ञा	२०८
चक्रिचक्रं पुरस्कृत्य	३८२
चक्रेण तं कुमारोऽपि	२२८
चक्रेण तस्य युधितं	१७३
चक्रेण विक्रमेणैव	३२२
चक्रमाक्रान्तदिवचक्र-	४१
चक्रुरिक्ष्वाकुवंशस्य	३३१
चचालाकालकालान्त-	३७९
चतुरङ्गबलेनामा	२५९, ३०८
चतुरङ्गबलेनासौ	१४७
चतुरङ्गबलोपेतः	१४१
चतुर्गतिमयः सोऽपि	८९
चतुर्गुणत्वमायातो	१५६
चतुर्ज्ञानो द्वितीयेऽह्नि	७४
चतुर्थकालपर्यन्ते	५५५
चतुर्थज्ञाननेत्रस्य	४६४
चतुर्थज्ञानसंपन्न-	४, ३६, १३०
चतुर्थोऽप्यवबोधोऽस्य	४६४
चतुर्दशमहारत्नभूषणो	१३५
चतुर्दशसहस्रोक्त-	६२
चतुर्मासमायोग	५३४
चतुर्मुखा ह्ययः कल्किराजो	५५५
चतुर्विधामरा. सेन्द्राः	२१०
चतुर्विधामरे. सार्धं	४६७
चतुर्विधोपधाशुद्धं	१०९
चतुर्विधोपसर्गोऽय-	४६५
चतुर्विधवत्पत्योप-	२०४
चतुश्शतानि पञ्चाशदु-	७
चतुश्शतानि संप्रोक्ता	४६८
चतुःशतेषु पञ्चोत्तरैष्वहः	४०
चतुष्टये व्यतिक्रान्ते	२९६
चतुःसहस्रसङ्ख्योक्त-	२१०

चतुस्त्रिंशदतीशेष-	१७, ६१
चत्वारिंशच्चतुर्लक्षाः	१६
चत्वारोऽत्र महीपाला	२७३
चन्दनाच यशस्वत्या	४८४
चन्दन. धार्याकाः शून्य-	४६८
चन्दनायास्तदालोक्य	४८५
चन्दनैषाच्युतात्कल्पात्	४९३
चन्दनोशीरभिमिश्रसलिलै-	११
चन्द्रकव्यधने दर्शनं	५२४
चन्द्रचूलमुनिर्दण्डवा	२५४
चन्द्रप्रमाखपश्चिमिका	४६३
चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो	१८९
चन्द्रस्येवोदयेऽस्यापि	२८
चन्द्रामो मे सखा तस्य	५१७
चन्द्रोदयमलिनातो	५०५
चन्द्रोदयोन्वयाम्भोवेः	४८
चपेटमुष्टिदण्डादि	३६२
चम्पापुरसमीपस्थ-	३५६
चम्पापुरेश्वरो यान्ती	३४६
चरेस्तपः समुत्कृष्ट	२७८
चरन्निव निशातासि	५४३
चरमाङ्गस्य केनेदं	४१०
चरित्वा निरतीचारं	५३
चरोपनीततद्दार्ता-	४५३
चर्यां शैलपुत्रे पुष्प-	६९
चलस्वभावे कुटिले	१३९
चाणूरभेणमिव	४२७
चापाशीतिसमुत्सेवो	८१
चापवाणधरो गत्वा	५१०
चामरैरामरैरेष	६१
चारणत्वं समासाद्य	८
चारणत्वमपि प्राप्य	३३८
चारिन्नस्य न गन्धोऽपि	८९
चाश्वत्थादिभि. श्रोतुं	३५७
चालयन्ति स्थिरामृष्वी	४१३
चित्रं नीचकुलोत्पन्ना-	३९७
चित्रकूटाभिधोद्याने	३८६
चित्रचूल पुनर्वचास्य	३८४
चित्रपचादिकूटाख्यो	१८९
चित्रायां कैवलज्ञान-	३८७

चिन्तामणिसमाः केचित्	५५७
चिन्वन् शुभाश्रवैः पुण्य	३६
चिरं विखण्डताप्राज्यं	९५
चिरं परित्तस्थानं	३८२
चिरं राज्यमुखं भुक्त्वा	२४१
चिरं वने विहृत्यैव	५०६
चिरं सोढ्वा तप क्लेशं	४४६
चिरं सोऽपि तपः कृत्वा	३५३
चिरमेकादशत्रयश्रवणं	३३७
चिरमेव तपः कुर्वन्	४३०
चिरमेवं तपः कृत्वा	२४५
चिरात्ततो विनिर्गत्य	४०४
चिरात्समाद्विनिर्गत्य	४३१
चूडामणिप्रभाभासि-	३७०
चेटकस्ते तदाकर्ण्य	५१७
चेटकाख्यमहोषस्य	४८३
चेटकेन हृतो ह्यसः	५१८
चेतनः कर्मभिर्गस्तः	५४९
चेलिनी कुटिला ज्येष्ठा	४८४
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा	४८२
चेल्कपताके चेतलघ्वजानुजे	५७७
चेष्टामालोकिनीविद्यातो	४८४
चैत्रज्योत्स्नापक्षे पञ्चम्यां	५
चैत्रमासे सिते पक्षे	२३४
चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्या	५६
चैत्रे मासि सिते पक्षे	१८
चैत्रेऽमा मास्यहःप्रान्ते	१२३
चैत्रं स देव स्वर्गाग्रात्	७३
चोदित्तास्तीर्थकृत्त्वामा	४६१
चोदितो वा स तैर्भूपो	१०२
चौरघाःश्रोपदेशेन	५३२
चौर्येण रावणस्यैव	२९६
च्युतप्राणाच्युतेन्द्रस्य	३९७
च्युतो वृद्धरथो जज्ञे	२११
च्युत्वा ततो विदभस्व्य	३९७

[ छ ]

छापस्येन तत काले	३३५
छापस्येन नयन्नदान्	४
छापस्येन समास्तिजो	७४
छेदिनी सर्वविद्याना	१६५

[ ज ]

जगत्त्रयत्रयोत्सिक्त-	३३६
जगाद भवता प्रोक्तं	१५३
जगाम संमुखं घाम्नः	५२०
जघन्यशुक्लद्वयभाग्	९७
जघानेव वन वज्र	३१०
जटाकलापसभूत-	३६१
जनकोवर्तं निवेद्यात्र	२५७
जननमृतितरङ्गाद्	२३७
जनयतु बलदेवो देवदेवो	३३०
जनस्य चैदयं तोप-	८०
जनानात्रजतो दृष्ट्वा	५३८
जनानुरागः प्रागेव	१७८
जन्तुरन्तकदन्तस्थो	१४
जन्तुस्तैर्भ्राम्यते भूपो	१५९
जन्तोः किं कुशलं कस्मान्	२५
जन्मरूपे धुधादाहा-	५४१
जन्मरूपे पतित्वायु-	५३५
जन्मदु खजराभृत्यु-	६९
जन्मान्येवाभ्युपेतैपा	४८७
जन्ममृत्युजरा रोग-	१५९
जन्मसं कातिके कृष्ण-	१७
जन्माद्यन्तर्भूतं चै-	१९०
जन्मान्तरमृत्युतेर्भूच्छी	५१३
जन्मान्तरे फलेनास्य	२६१
जन्माभिपेककत्याण-	९८, ४३५
जन्मी नश्यति निर्मूल-	५३४
जमदग्निमुनेर्दोषं-	२२३
जम्बूद्वीपसुकच्छाख्य-	१८१, २
जम्बूद्वीपेऽत्र कौशाम्ब्या	३४
जम्बुनामापि निर्वेदा-	५३१
जम्बुनाम्नो गृहत्याग-	५४३
जम्बुनाम्नोऽन्वये पूर्वं	५३७
जम्बूवलकितं द्वीपं-	२३३
जम्बूवलकिते द्वीपे १९, १६०, ३४९	
जम्बूविशेषणो द्वीप	४२९
जम्बूसभाविष्टे द्वीपे	४२२
जयं पराजयो हानि-	१५०
जय जीधेति बन्दाख-	३८०
जयनामानुनामाहू	५६४

जयन्तेऽमृतरे जातो	३३८
जयन्तो घरणाघोषो	११९
जयस्यामा महादेवी	१२२
जयसेनो जनैः मेघो	६
जयसेनो महोपाल	५४३
जयाख्यमुख्यपञ्चाशा-	१२३
जयोऽस्मास्त्विति वा मन्द	३१८
जरन्तोऽपि नमन्त्यैव	५५४
जराङ्गनासमासङ्ग-	२६८
जरापनयनोपाय	५३५
जरासम्भं हनोऽजितमिव गज	४२७
जरासन्धोऽपि युद्धेच्छु-	३८०
जरासन्धोऽपि संग्राम-	३८१
जलं गद्गदकण्ठया	३०२
जल पीत्वा मयूराणा	२६४
जलधेर्जलमुल्लङ्घ्य-	३१३
जलधेस्तटमाश्रित्य	३१३
जलाशयस्त्वृषार्तस्य	४११
जलाशयाश्च सूखच्छाः	४५
जात प्राङ्मरुभूमि	४४१
जाड्यं जलेषु नान्येषु	४४५
जातकोप कपोतोऽयु-	५१२
जातजातिस्मृतिर्भूच्छी	५११
जाततोषो वृषस्तस्य	५०८
जातमोक्षस्वय का वे-	४८९
जातरूपच्छवि श्रीमा-	२१९
जातरूपद्युति साह-	३३३
जातवन्तो तदुत्कृष्ट-	२५४
जाड्यस्यमानकोपाग्नि	१६७
जाता पवनवेगामा-	३५६
जाताः शेषाश्च बुद्ध्यादि-	३२८
जातिगोवादिकर्माणि	४७६
जातिमात्रेण सर्वाश्च	३९१
जानु तौ दम्पती वृष्ट्वा	३४४
जातो माहेन्द्रकल्पोऽनु-	५६५
जातो वनेचर काल-	३९५
जातो व्रतघरस्तमिन्	४०५
जातो तृतीयजनने	३३२
जातो मेघो पुनस्तत्रा-	३४७
जातो साकतेपुष्यं-	२४२
जानकी ताभिरित्युक्ता	२९३

जानाम्यनभिजातत्व-	४१२	जिनोपदिष्टनिर्ग्रन्थ-	१९६	ज्ञानदर्शनचारित्र-	१९८
जानाम्यहं महत्त्वाख्य	१८२	जिह्वालोलुपमालक्ष्य	२२९	ज्ञानहीनपरिव्लेशो	४३६
जायते नन्दयज्ञस.	३९४	जीर्णपर्णवदागम्य	७	ज्ञानादिपु च तद्वस्तु	१९७
जाललग्नैरुपोतं वा	५३३	जीव जीवेति जीवन्व-	४९८	ज्ञानेन तपसा जैन-	१९७
जिगृष्व मत्पदं दुष्टा	९६	जीवद्यशाश्च तत्सर्व-	३६४	ज्ञानापयोगीक्षणीसौ	१९७
जितारिभूभुजस्यास्य	३९	जीवन्धरः सहायैः स्वैः	५०१	ज्ञेयमागममन्दाख्यं	२५७
जितेन्द्रियसमाहारं	५२९	जीवन्धरकुमाराव-	५०९	ज्ञेयाः पट्टिसहस्राणि	२२०
जित्वा चिन्तागतिर्वेगात्ता	३४१	जीवन्धरकुमारेण	५१९	ज्यायानहमजाये त्वं	५४२
जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्र-	१३७	जीवन्धरकुमारोऽपि	५१०	ज्यायान् हरिबलस्तस्य	५४६
जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्री	४५१	जीवन्धरेण मन्त्रूर्ण-	५२१	ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां	२१०
जित्वा नरेन्द्रजालाख्य-	४१८	जीवन्धरोऽपि यक्षस्य	५०७	ज्येष्ठसूनोर्विवाहेन	१८५
जित्वा प्रसिद्धखबरान्	१७३	जीवन्धरोऽवदन्मूर्च्छा-	५१३	ज्येष्ठे मासि कलाशेष	२
जित्वा मा विग्रहेषाशु	३०७	जीव पुत्रात्र तिष्ठेति	४८९	ज्येष्ठे मास्यसिते षष्ठ्यां	८०
जित्वास्य कुन्दसौन्दर्यं	२७	जीवाद्याः कालपर्यन्ताः	४७९	ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन	१२३
जित्वा प्रदक्षिणीकृत्य	१५७	जीवाजीवादितत्त्वाधौ	१३८	ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रकूटस्य	५३९
जित्वा मनोहरोद्याने	६७,३२५	जीवितान्ते गुरुस्तस्य	३५०	ज्योतिष्प्रभं कनीयासं	४१५
जित्वा श्रोपच्यनामान	४९	जीवितान्ते नियोगेन	५६२	ज्योतिर्वने वियोगेन-	१५४
जित्वा सागरसेनाख्यं	५०३	जीवितान्तेऽभवद्देवी	४०९	ज्योतिकैः समरो भूत्वा	२२९
जित्वा त्वदृष्टमात्रेण	५४९	जीवितान्ते समासाद्य	४५९	ज्योत्स्नेव तारकाधीशे	५७४
जित्वा दत्तायिकाभ्यांशे	३५१	जीवितान्ते स संन्यस्य	३४३	ज्वलज्ज्वालाकरालोत्था	४५५
जित्वा दत्तायिकोपान्ते	४०१	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलत्यस्य प्रतापानि	१६८
जित्वा पूजा विनिवृत्त्य	५२६	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलनादिजटो ख्यातो	४५३
जित्वा पूजां विधायानु	५२७	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	४४४	ज्वलनादिजटो चाशु	४५३
जित्वा प्रणीतसद्वर्मा-	१९७	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलनादिजटो तस्याः	१४०
जित्वा प्रतिनिधिपूर्व-	४८३	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलनादिजटो पाति	४५३
जित्वा सेनभगवतोक्तं	५७५	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलितचलितनेत्रो	३७२
जित्वा सेनानुगायास्मै	८४	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		
जित्वा सेनानुर्गर्वीर-	५६४	जित्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जित्वा स्याम्यैव तीर्थेऽश्वी	१०५	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		
जित्वा हंसन्दनाभ्यांशे	२६	जित्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जित्वा नरेन्द्रजानीमैरा	२०३	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		
जित्वा नरेन्द्रभवने भूता	४३२	जित्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जित्वा नरेन्द्रवदनेन्दुत्य	१७९	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		
जित्वा नरेन्द्रस्यालयस्तस्य	४३२	जित्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जित्वा नरेन्द्रानहमन्येद्यु-	५०२	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		
जित्वा नरेन्द्रोऽप्यब्रवीदित्यं	३५२	जित्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जित्वा गणनाथेषु	१९७	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		
जित्वा कतवर्मशास्त्रानु-	४९२	जित्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८		
जित्वा नेमिः समुत्पन्नः	३७८	जित्वा तत्तस्य वमुह्य-	८		

[ त ]

तं कदाचिद्विहारार्थं	७३
तं ज्ञात्वा विबोधेन	४३८
तं तदा भोगिनीविद्या	५११
तं तदावाप्य देवेन्द्रः	२०
तं त्रिः परीत्य बन्दिता	१८३
तं दण्डियमुत्क्रोध-	२७०
तं ध्यानानलनिर्दय	७२
तं विरीक्षितुमैहिष्ट-	५३८
तं निरूप्य परिच्छेदोऽ-	५३१
तं निशम्य महाकालः	२६८
तं मनोहारिणं हृष्ट्वा	२९२
तं विक्रम्य महोपासः	२३२
तं बोध्य तद्रूपे दक्षी	३२३

तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य	२३९	ततः पश्चात्तज्जन्म	४०४	ततस्तत्त्वं विदित्वात्-	५२६
तं वीक्ष्य बालवृत्तान्त	४११	ततः परं जिनेन्द्रस्य	४६८	ततस्तदवगम्यायात्	१२६
त शक्यापातयद्रामं-	३२२	ततः परीतदावाग्नि-	१२१	ततस्तथोविवाहेन	५०५
तं सपूर्णकलं प्राप्य	५४	ततः पाथत्सुभद्राया-	४२१	ततस्तीर्थकरोत्यति-	५६०
त सानन्दयशो ज्येष्ठ-	३९२	ततः पुष्यं न पार्यं वा-	४७४	ततस्तुष्टं खगाधीशः	५०३
तं सूनुकृतवृत्तान्त	४१६	ततः पुनर्गते मासे	३६१	ततस्ते तेन रामेण	२८५
त हन्तुं निर्भयो भीमं	५४८	ततः पुरं समानीय	८१	ततस्त्वयाशु संबोध्यो	५३०
त एव लक्षकालादि	४९४	ततः पुरोधसः प्राप्तुं	४७	ततस्त्वमपि केनापि	४७१
तच्चद्रक्रमणवैलाया	३६७	ततः प्रतीचीमागत्य	३२४	ततो गत्वान्तरं किञ्चि-	४१६
तच्चैतिहासवचः श्रुत्वा	१८७	ततः प्रच्युत्य कल्पास्ताद्	१८७	ततो गत्वामुधापात	५४६
तच्छास्त्रच्युत्ताप्यस्य	४४७	ततः प्रच्युत्य भूपस्य	२४१	ततो गन्धोत्कटो भुवत्वा	५००
तच्छिष्येण निमित्तानि	१५०	ततः प्रच्युत्य शङ्खोऽभू-	३९४	ततो गलति नि.शेष	१
तच्छोकात्सीरपाणिश्च	१७६	ततः प्रच्युत्य सूनुस्ते	१४३	ततो गृष्टो न तरपात्र	१९४
तच्छ्रुत्वा सेचराधीश'	१४५	ततः प्रत्यागतः कस्मात्	११६	ततोऽतिगृह्णुता त्याज्ये-	५३४
तच्छ्रुत्वा त निराकर्तुं	५४७	ततः प्रभृति तत्प्राहु'	१५२	ततो दीक्षावने मासे	२२०
तच्छ्रुत्वा मत्प्रभोरेवा	१५४	ततः प्रसन्नया सार्धं	२८७	ततो द्वारवतीपुर्यां	१०२
तच्छ्रुत्वा निवृत्त्या सोऽज्य-	३६९	ततः शीलोपवासादि-	२७१	ततो द्विसगरायुष्को	४५७
तच्छ्रुत्वा पद्य नैर्लज्ज्य-	५२१	ततः श्रीनागदत्तस्य	४९३	ततो धरण्या वैषम्य-	५५९
तच्छ्रुत्वा रविमर्णा चाह	४१८	ततः सश्रद्धसैन्यः स-	५२६	ततोऽननुगुर्यां दैवं	३१२
तच्छ्रुत्वा सुमति. प्राह	१५१	ततः समुचितप्रस्था	५०७	ततो नलिनराजाह्वयो	५६०
तच्छ्रुत्वा सोऽपि कोपाग्नि	९५	ततः सर्वर्तुषु प्रस्था	२८१	ततो नि शेषमंहासि	१४९
तच्छ्रुत्वा स क' प्रैष	९	ततः सर्वे प्रहृष्यास्य	३५९	ततो निर्गत्य तिर्यग्	११८
तच्छ्रीर्षे क्रौंयंसदीप्य	४५७	ततः साकैतमध्यास्य	२६९	ततो निवृत्त्य साकैतं	७
तज्जन्मन. प्रभृत्यार्य-	३३९	ततः सिन्धोस्तेदे गच्छन्	३२४	ततो निवर्तमानोऽसौ	३६१
तज्जन्मवैरसत्कार-	१०३	ततः सुरगणाधीश-	२०८	ततो निविद्य संशारात्	३९१
तज्जानक्षपि पापेन	४९०	ततः रूपकरप्रामा-	३९३	ततोऽनुजर्लबि गत्वा	३२४
तज्जैनभवनान्भयर्ण-	५०९	ततः सूर्योदये राजगहे	३३५	ततोऽनुतत्प्रमार्णेन	२०७
तज्जात्वास्याः पिता चाप	५२४	ततः सेनापति पट्ट-	३०४	ततोऽनुवदन तस्याः	१५
तत एव त्यजन्त्येवो	२३०	ततः सोऽप्यवतीर्यात्र	१०३	ततोऽज्वाहिः समुत्पन्नो	३९६
ततः कनकमालेत्य	१६३	ततः स्वगवितरणकल्पाणा-	१२२	ततोऽप्येवु खगो नाम्ना	२७५
ततः कनकराजाह्वय-	५६०	ततः स्वविष्टराकम्पा	४८	ततोऽपिह समुदभूय	४५५
ततः कपोतमेतं मे	१९३	ततः स्वानुमते तस्मिन्	४५०	ततो भगवतो ध्यान-	४३८
ततः कान्तपुरं लज्जा	४८७	ततश्चक्रधरोऽनङ्गं	४१८	ततो भवद्भिरवार्यं	३५८
ततः कापालिकं शोकान्	१६१	ततश्चपलगात्स्य	३४०	ततो भवन्मत्तं भद्र	१७१
ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः	३८१	ततश्चानिमिषाधीश्वी-	४६३	ततोऽभुवन्वया तस्य	२९६
ततः केनाप्युपायेन	४१२	ततश्च्युतेन श्रुत्वाज-	४३१	ततो श्रुपतिमासाद्य	२५२
ततः क्षीरकदम्बे च	२६७	ततश्च्युत्वा महामत्स्यो	३४९	ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो	२४१
ततः क्षुल्लकवैवेण	४१७	ततश्चौर्थादिदुर्गम-	३४९	ततो मन्दरमालिन्या	१७२
ततः खगाद्रपवाभश्रेणी	४८४	ततस्त स समानीय	४६१	ततो मासावशेषायु	२३७
ततः पञ्चमकालेऽपि	५६२	ततस्तत्कालपर्यन्ते	५३१	ततो मिथुनमेतत्त्वं	३४४

ततो मेघरथो राज्यम्-	१९०	तत्तीर्थे सागरामिहयो	६	तत्र तच्छेटिकाभेका	५२२
ततो रत्नानि शेषाणि	२२९	तत्स्यवत्सैकान्तदुवदि-	४८०	तत्र तन्मातुलुः सोम-	१५१
ततो रसाधिकाम्भोद-	५६०	तत्सर्वं सत्वादिना येन	३९	तत्र तत्संनिधानेन	५२०
ततो राज्ञः पुरं गत्वा	५१६	तत्त्ववर्गमभीरार्थम्-	४५९	तत्र तादात्मिकाः सर्वे	२०२
ततो राज्यभरं पुत्रे	८७	तत्त्वज्ञेऽप्यपचारित्रे	१३८	तत्र ताम्बूलवह्यन्ताः	१९८
ततोऽरिखेपुरोऽगच्छः	३२३	तत्त्वया सर्वथा साध्य	२६०	तत्रत्यं बालिनो दूतः	३०९
ततो युवा जिनाकारान्	२७५	तत्त्ववद्भ्रासमानेषु	१९७	तत्र दिव्यं सुखं भुवस्वा	३५०
ततो यौवनमालम्ब्य	२९	तत्त्वश्रद्धानमासाद्य	४५७	तत्र घन्याह्यसूपाल	४३७
ततो वज्रायुधव्युत्वा	१८५	तत्त्वार्थनिर्णयात्प्राप्य	४४३	तत्र निविष्टदिव्योरु-	४९३
ततोऽवतीर्थं देशेऽस्मिन्	४४९	तत्पञ्जरं विभिधासौ	३२२	तत्र नेमीशितुः सत्यंभामाया-३८३	
ततोऽवतीर्थं वर्षेऽस्मिन्	९३	तत्पतिर्दृढमित्राह्यो	५१०	तत्र पथ्यस्त्रियो वीक्ष्य	४४६
ततो बन्दिबचोयाम-	३७७	तत्पदे तौ समासाद्य	१६७	तत्र पूर्वकृतं पुण्यं	५१०
ततो विध्वंस्य दुष्टारि-	५४८	तत्परीक्षार्थमायान्तु	२२७	तत्र प्रवृत्तवृत्तान्त-	३७५
ततो विभिन्नमर्यादाः-	३५९	तत्परीत्य-स्थितं बाहौ	९५	तत्र प्रवर्द्धमानोऽस्मि	२२२
ततो विहितसंन्यास	१२५	तत्पादपङ्कजश्लेषा-	१४२	तत्र ब्रह्मा महीपाल-	४
ततोऽस्य भोगवस्तूना	४१	तत्प्रियावत्कुवो रन्ता	३८३	तत्र भोगान्ब्रह्मन् युक्त्वा	३४१
ततोऽहं प्रेषितस्तेन	३०६	तत्पुण्यपरिपाकेन	५१	तत्र भोगान्यथायोग्यं	४३०
ततो हृदात्तथायातं	३०९	तत्पुरस्थापनाहेतु	३६८	तत्र मायामये युद्धे	३४२
तत्कण्ठे पत्रमादाय	३५५	तत्पुराधिपतिः खेचरे	५०२	तत्र राज्ञो कृता रक्षा	४९७
तत्कथावसरं लोक-	४३२	तत्पुराधिरसोमप्रभा-	२५४	तत्र वाच्यो मनुष्याणां	३८२
तत्करिष्यामि येनास्य	२८९	तत्पुराधीश्वरारिन्द-	४०९	तत्र विशति वाराशि	४३३
तत्कल्याणस्य देवेन्द्रः	७	तत्पुराधीश्वरो चन्द्रकीर्ति-	३४४	तत्र विनासिताशेष-	५७३
तत्कालखेचरद्वन्द्वं	२९७	तत्पुर्यां सौधकूटाग्र-	२०१	तत्र शाखोपशालाः स्वाः	२३३
तत्कालोचितकायणि	४३९	तत्पूर्वमवसंबद्धा-	२७९	तत्र शस्त्राणि सर्वाणि	२२७, २५०
तत्कालोचितनेपथ्या	२०३	तत्पूर्वपरिसंबन्ध-	२७९	तत्र शोको न कर्तव्यो	२४३
तत्कालोचितवेपोऽसौ	५३६	तत्प्रत्ययसमृत्पन्न-	२४६	तत्र षोडशवाराशि-	२२२, ४५१
तत्कुमारो प्रहेतव्या	२८०	तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा	२६३	तत्र सन्निहतो दैवा-	४८४
तत्कृतं भानुनैवेति	३६९	तत्प्रभावविशेषेण	२०	तत्र स्वभवसंबन्धं	३३४
तत्कृतासह्यकण्डूया-	४७५	तत्प्रमाणबलस्तेजो	१२२	तत्र स्थितः स्वयं धर्म-	३४०
तत्क्षणागतदेवेन्द्र-	४३७	तत्प्रयोजनमुद्दिश्य	९२	तत्र स्वैरेव भुज्यन्ते	२०२
तत्क्षणे संभ्रमाक्रान्तो	२९५	तत्फलान्यवबुद्ध्यात्म-	२६	तत्राकम्पनगुर्वधि-	३५७
तत्क्षमस्वापराधं मे	२५१	तत्फलान्यवबुद्ध्यासौ	८०	तत्राकृत्रिमसंभूत-	६२
तत्क्षेत्रमितभाजक्ति-	२३४	तत्र किं जातमप्येष	५९	तत्रादायाघसंस्थानं	२
तत्क्षेत्रमितवीर्यिमा-	१९८	तत्र कंचित्तनूजं त्वं	४९५	तत्राघः षोडशप्रान्त-	५६१
तत्क्षेत्रविक्रियर्द्धेश	३४	तत्र किन्नरगीताह्या-	२८१	तत्रानुसूयसञ्ज्ञेगान्	४०८
तत्क्षेत्रराचले राजा	४३१	तत्र कृष्णं समालम्ब्य	३६८	तत्रान्यानि च रत्नानि	११०
तत्प्रदक्षिणीकृत्य	२४२, ३८२, ४५४	तत्र कीरवनाथस्य	४२५	तत्राप्रकाशमवैषा	४९८
तत्तनावेव सर्वेषा	३५	तत्र गन्धोत्कटः स्वस्य	४९८	तत्राभूत्पुण्डरीकिण्यां	६६
तत्तीर्थ एव चक्रेषी	२४८	तत्र जन्मान्तरद्वेषात्	३४७	तत्रामरीकलालाप-	८८
तत्तीर्थस्यान्तरं चक्री	१३४	तत्र सर्वंशास्त्राणि	५४५	तत्रावधार्थं निर्वेदेतु	५९
				तत्राष्टादशवाधाद्यु-	५१८

तत्रास्य देव्यां कस्यांश्चिद-	२५५	तथा नानिष्टसंयोगो	२९	तदाखिलमराधोक्षाः	४३५
तत्रैकं चारणं वीक्ष्य	५१६	तथान्यथा प्रयुक्तं त-	२७२	तदा गतामराधोक्ष-	२१९
तत्रैकस्मिन् समासत्र-	२९९	तथा परादय द्रवुद्धीन्	३९५	तदागत्य मरुमुख्या	१२२
तत्रैव कल्पे देवीत्वं	४०५	तथापि यज्ञसेवाज्ञ.	२७५	तदागत्य वणिक्पुत्रो	३७७
तत्रैव चन्दना तस्य	४८५	तथा प्राप्नोषि सन्तोषा-	५११	तदागत्य सुराधोक्षाः	२२१
तत्रैव धनदेवाख्य-	४८८	तथा वस्त्वोकसाराख्य-	१८३	तदामत्यासुरी देवी	१५७
तत्रैव नगरे भूति-	७७	तथा शुभविनोदेषु	८२	तदा गन्धर्वदत्तापि	५०४
तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः	२६२	तथा सीता महादेवो	३२८	तदागमनमाकर्ण्य	४५३
तत्रैव लक्ष्मणोऽप्येवं	२८७	तथास्त्विति तथाशीर्षिः	३६५	तदागमनमात्रेण	२८१
तत्रैवारक्षि पुत्रेण	४८९	तथेन्द्रियततिस्तेन	५४	तदागमनमालोक्य	१७१
तत्रैवासी पुनर्मुत्वा	३९६	तथैव गगनादौपशिखो	१५५	तदागमोपदेशेन	४८०
तत्रैव विश्वभूत्याख्यो	४२९	तथैव रूपपप्यस्य	३५	तदा गच्छदण्डेन	१११
तत्रैव सचिवो विश्वभू-	२५९	तथैव वामुदेवोऽपि	४११	तदा चतुर्थकल्याणपूजा	८२
तत्रैव सुप्रभो रामः	१२४	तथैव सत्यस्यामूच्च	१३२	तदाज्ञयाऽग्रहीद्धर्मं	४७८
तत्रोक्तदेहेह्लेक्ष्याविद्	२०	तदयम् समादाय	२२६	तदाज्ञयाथ भारीचः	२९२
तत्रोत्सवे जनाः पूजा	४६	तदद्रिमस्तक गत्वा	२५२	तदा तच्छ्रुतिमात्रेण	१७०
तत्सर्वं पर्वतेनोक्तं	२७३	तदद्वैरवतार्येनं	५०८	तदा तद्दुत्सवं भूयो	२८०
तत्सन्द्हे गते ताम्यां	४६२	तदधीशो बलीन्द्राख्यो	२९७	तदा तद्दयान्धवा सर्वे	५३९
तत्समायागभूत्पवनः	३३४	तदनुग्रहबुद्धधैव	४७४	तदा तमः समाधूय	५३६
तत्समाप्तौ स्तुतिं कृत्वा	२६२	तदन्तकप्रतीकारे	१५७	तदा तदैव संभूय	३६५
तत्समीपे निधामार्यं	२२६	तदन्तेऽपश्यदन्त्यच्च	४६०	तदा तीर्थकराख्योद-	२०९
तत्समीपेऽनुजा ग्रामे	४९१	तदभिप्रायमाज्ञाय	३०२	तदाच प्रियमिवाया.	१८५
तत्समीपे समादाय	३४१	तदभिप्रायमालोक्य	५०८	तदा दशरथाभ्यर्ण-	२८०
तत्सर्गस्थै सावृत्वा-	३७२	तदस्म्यन्तरभागे स्तो	४४	तदा दानादिनाद्धंस-	५१८
तत्समुत्पत्तिमात्रेण	३४९	तदस्मन्तरवत्ययु-७३, ८८, १२९		तदादिषा विशामीषा	९
तत्साहसेन तत्कीर्ति-	३०३	तदर्पयितुमायासो	३६६	तदा दृष्टापदानस्य	४१२
तत्सिद्धिचिह्नहेतुत्वात्	२७९	तद्वस्त्वोचितश्रव्य-	४९८	तदा द्युमुनय. प्राप्य	२३६
तत्सुतामुपवासेन	५०२	तदा कंसाज्ञया विष्णु-	३७१	तदा द्वारवतीदाह.	४२२
तत्सुता वारुणी संज्ञा	११२	तदाकर्णनकालान्त-	१२६	तदा नर्मिकुमारस्य	४००
तत्सुचकमिद सर्वं	१४६	तदाकर्ण्य तदैवासी	१४६	तदानादाय केनापि	५३४
तत्सोद्धमक्षमो गाढ-	१९१	तदाकर्ण्य नृपा केचि-	३८०	तदा नापितक. कोऽपि	४१७
तत्सौरभाचबोधिव-	५४१	तदाकर्ण्य भवत्प्रोत्था	१८८	तदानिज्ञासनाकम्पाद्	४३५
तत्स्वादलोलुपः पापी	१५२	तदाकर्ण्य महीनाथं	३६६	तदानीमेव कैवल्यं	१८३
तथा करिष्या. पादाभ्यां	२६५	तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः	९	तदानीमेव तं दीक्षा-	१८३
तथा कालगुहाया च	४१४	तदाकर्ण्य विचिन्त्यैत-	५१६	तदानीमेव तं नीत्वा	३०६
तथागत्य कुमारोऽसौ	२२८	तदाकर्ण्यर्ककीर्तिश्च	१४९	तदानीमेव देवेन्द्रा-	३४
तथा चक्रधरे राज्य-	१८३	तदाकर्ण्यैह सन् राजा	१०	तदानीमेव निर्गंत्य	१५५
तथा चोपचय. शत्रो-	३०९	तदाकर्ण्यैव बन्धत्वा-	३६५	तदानीमेव हस्तीन्द्रं	६८
तथा जरत्कुमारश्च	४१९	तदा कुमारसन्देशा-	५०२	तदानन्तमतिश्चाप्तः	१६३
तथा तीर्थगणाधोश-	२५८	तदा कैवलपूजां च	४३८	तदान्यामिश्च रामस्य	२८१
तथा दुष्प्रापमालोक्य	५३४	तदा कैवल्यसंप्राप्ति-	१९१	तदा पर्वतमातापि	२६५



तदा पूजां समाधातः	५३१	तदासौ न समाकर्ण्य	२६०	तदैवाकुचतां तो च	४८८
तदा प्रभृति कन्धायाः	२६०	तदा स्वस्थानमापन्नो	३१०	तदैवागत्य तं नीत्वा	७३
तदा प्रभृति तीर्थत्वं	१२	तदा हरिबले युद्ध-	३८०	तदैवागत्य तो देवो	१८८
तदा प्रभृति से कथ्ये	५०५	तदित्यादाय वन्दित्वा	४६९	तदैवागत्य तन्मुच्छां	५११
तदा प्रभृति दुर्वयं-	५५७	तदिन्द्रियार्थसानिध्य	१२१	तदैवागत्य देवेन्द्राः	२४७, ३३३
तदा प्रभृति नागेन्द्रो	४३०	तदीयशयनारोहं	५२२	तदैवागत्य मद्ग्रामं	४६७
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्	१०१	तद्दुवर्तं ते समाकर्ण्य	५१६	तदैवानिमिषाघोशा-	१२९
तदा प्रभृति शाल्यादि	५५३	तदुक्तमतिलञ्चुचाज्ञः	२३०	तदैवापेत्य नत्वापि-	२१३
तदा प्रभृत्यगात्काम-	५०६	तदुत्तुङ्गमहासीधगेहैः	४६	तदैवाभेत्य नाकीशो-	५६
तदा ब्राह्मणरूपेण	१०	तदुत्पत्तिफलस्थास्या-	२९४	तदैवायातसारस्वतादि-	१९
तदा भक्त्या नताष्टाङ्गा-	२३	तदुत्सवं समाकर्ण्य	५२४	तदैवाशनिषोषाह्यो	१६४
तदाभरणवृत्तान्त-	५५१	तदुद्भवे प्रसन्नानि	८०	तदैवासौ दिवो देव-	२०२
तदा मनोहरोद्यानगतं	३३९	तदुदीरितमेतस्य	५३४	तदैवाहमपि प्राप्य	५३१
तदाभरसदस्यासी-	१७८	तदुपद्रवमाकर्ण्य	५१५	तदैवाहूय संमित्र-	४५२
तदा मलयदेशेशो	७६	तदुपायसहायार्थं च	२६२	तदोदपादि वद्दृषण्ड-	७
तदाभात्योत्तमः पौरान्	२५१	तदेतदेव व्याह्येयं	५७६	तदोदासीन्यमुत्पन्न-	३९२
तदामृताशनाधीशाः	१३१	तदेव पुष्पमाघ्राय	१६२	तद्गतं मार्गमन्त्येय	२२६
तदामृताशिनः सर्वे	२३५	तदेव पुरुषार्थस्य	५६३	तद्गत्वाऽऽशु परीत्येनं	१०४
तदा रामेण संग्रामे	३२२	तदेव सर्ववस्तूना-	४६	तद्गृहं तां स्वयं गत्वा	३८४
तदा लब्धेऽधनो वापिनः	१७१	तदेवादाय सक्रोधः	१०४	तद्गृहीतं घनं सर्वं	५१९
तदा लोष्य किमित्येव	३५१	तदेवानुमतं सर्वे-	१४३	तद्गोत्रे क्षत्रियोऽस्तारिः	३६
तदा लोष्य हरिः क्रुद्धो	३८२	तदैवानुचरादन्त्या-	१२९	तद्ग्रहोत्थापितास्त्युग्र-	५३६
तदा लौकान्तिकाः प्राप्य	२०८	तदैव कातरः शूर्पणखा-	२८६	तद्घोषणां समाकर्ण्य	५२४
तदावशिष्टपीलस्य-	३२२	तदैव खेचरो कौचित्	१५४	तद्ज्ञाषच मन्त्रतन्त्रादि-	५५१
तदा विद्याधरः कञ्चित्	४९१	तदैव गर्भसंक्रान्ति-	४८	तद्दर्शनसमुद्भूत-	१७१
तदा विद्याधरा भूमि	३५८	तदैव तं समुत्साह्य	४१४	तद्दानफलमालोष्य	५१६
तदा विधाय देवेन्द्रा	३	तदैव तीर्थकृज्जाल-	९७	तद्द्रुतप्रेषणादेव	१६
तदा विशाखभूतिश्च	४५०	तदैव तोषो रोषश्च	४१३	तद् वृद्ध्वा वपिणो नग्ना	५५
तदा विस्मयमापन्ना	४१७	तदैव तो समाहूय	१६७	तद् दृष्ट्वा देहितो मुग्धा	२६
तदा शची महादेवी	२०३	तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं	११७	तद् देव्या नन्दयशसः	३९
तदा शरणमायाता-	४०८	तदैव नर्तकीवार्ता	१६८	तद् घाश्या गुप्तमानीतः	५३
तदा शीतक्रिया सीता-	२९५	तदैव निमिषाघोशा.	२१४	तद्घ्नवं मम हन्तव्यो	१०
तदा शक्राज्ञया यज्ञ-	३४०	तदैव भोगनिर्विण्णो	११६	तद्द्वनिर्व्यापि दिक्प्राप्तान्	१४
तदा सभाययामास	३८४	तदैव मङ्गलान्युच्चैः	२३४	तद्वाहुशिखरे मन्ये	
तदा सर्वर्तवस्तत्र	८०	तदैव मदनामोघ-	२९६	तद् भयात्त्वामयं पाप-	१
तदा सविस्मयो राजा	११६	तदैव याममेरी च	२०२	तद् वक्तुं नास्ति कालोऽस्मा	५
तदा साक्षे तवास्तव्य-	२२८	तदैव विजयावार्दि-	४१०	तद्वालालालालीला	४
तदा साधितविद्या. सन्	१५७	तदैव सूरसेनोऽपि	३९०	तद्बुद्ध्वा क्रोधसंतप्तो	१
तदा सुराधिपाः प्राप्य-	४२५	तदैव स प्रसन्नात्मा	४४४	तद् भवान्तरवृत्तान्तं	५
तदा सेनापतिनिम्ना	२७६	तदैव स महीशोऽपि	३४२	तद् यज्ञावसितो जात्यं	२
तदा शूर्पणखागत्य	२२८	तदैव सोऽपि राजाज्ञा	२५१	तदयोयसर्ववस्तूनि	५

तदराजधानीनाथस्य	२०२	तत्रिजैवेन रामोऽपि	२४२	तयो. परस्परप्रेमवृ-	५०५
तद्रूपं वर्णयन्तीथं	२८८	तत्रिवासी सुनन्दाख्यो	३२३	तयो. पराक्रमप्रज्ञा	१८५
तदश्वेन केनापि	४८९	तत्रिशम्भास्तिकाः सर्वे	३८८	तयोः पुण्योदयात्सद्य	१६९
तद्वचःश्रवणात्तो च	१३३	तत्रिशावसितौ शुद्ध-	५२२	तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो	३९३
तद्वचःश्रवणोत्पन्न-	२४६	तन्मध्ये मुष्टिसंभायि	२०६	तयोर्ज्येष्ठजनं प्राप	४०८
तद्वचोऽनसितो प्राज्ञः	१५१	तन्मध्ये लक्ष्मणस्तूर्ण-	३२२	तयोस्तुमूलयुद्धेन	२४२
तद्वद्वत्पसुखस्याभि-	५३५	तन्मासर्षीवित क्रूरः	१५२	तयोर्नरपतिर्दीक्षा-	४०३
तद्वन्मुनिश्च सर्वेषाम्	५४०	तन्मातरीव तज्जन्मतोषः	१७७	तयोर्भक्त्यायात-	२३१
तद्वताकिर्णनाद्वाच-	१५५	तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं	४७९	तयोर्भित्ततेजाश्च	१४८
तद्वता खेचराधोषाः	१७१	तन्मृषा किमसौ वेत्ति	२७०	तयोर्विकलम्रीत्या याति	१४९
तद्वताश्रवणाद्विष्व-	३६९	तन्वादीना पुनर्दुष्ण-	५६०	तयोर्विद्युत्प्रभ. सूनु-	१४३
तद्विकारेण सप्ताचि-	२६७	तन्म्या रोमावली तन्वी	१४१	तयोराख्यानकं धरत्ये	१३२
तद्विघ्नपूर्वकं लङ्का	३१४	तपः कुर्वन्तमालोक्य	४३५	तयोर्विरुद्धचारिस्ता-	४८८
तद्वितीर्णमहामोदको-	४१७	तपः पञ्चानिनमध्येऽसौ	३४८	तर्पकाणि मुखाभ्याहः	१९०
तद्विद्विवाऽतिथिर्युञ्जित-	२६०	तपस्तनूनात्ताप-	९२	तर्पणस्तापनो भीह-	४१५
तद्वियोगमहादुःख-	५१२	तपस्यतश्चिरं घोरं	२४९	तले कपोलयो. स्त्रीणा	५८
तद्वियोगेन भोकाग्नि-	३२७	तपस्यन् सुचिरं सौम्रं	२	तव ज्योति.प्रभाकास्ता-	१६३
तद्विलोक्य महीपालो	१५४	तपोधनस्य चक्रेशो	४३१	तव विद्वद्यप्रतो नीतं	१०
तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः	३६४	तपो नाधिकमस्त्यस्मा-	४३६	तव स्यादित्यभिप्रायो	२५८
तद्विलोक्य समुत्पन्न-	५०९	तपोमाहात्म्यतस्तस्य	३६१	तवाङ्गुत्ते प्रीणन्ति	१५
तद्वीक्ष्य जानकी सर्वे	३०२	तपोरुक्ष्म्या निगूढोऽभू-	४६४	तवाजनि तनूज्यमर्थ	१८३
तद्वृत्तांतं विचार्यासौ	४७०	तपोवगममाहात्म्या-	४८६	तवादेशोऽसित चैद्देव्याः	२९८
तद्विगवत्प्रवाहेण	५३४	तपोवन सता सेव्य-	४६५	तवाद्य तच्छिछलास्तम्भ-	४५१
तद्व्याख्यातं श्रुत सम्यक्	७६	तपोवननिविष्टाना	२२५	तवायं भामिवासकतं	२८७
तनया लक्ष्मणा कामो-	४०२	तपोवनोऽमृखेनाय	२७३	तवाहमिन्द्र हृयेना-	२३४
तनव. कुञ्चिता. स्तिग्वाः	२७	तप्तचामोकरच्छाय.	३३७	तवेदृशीमुपायेन	३५४
तनूजो वेदवेदाङ्गपारसो	३९५	तप्तायसपिण्डनिर्वाति-	४५५	तस्यावेष्टं प्रयास्यस्य	२६४
तनुर्मथेप्सितः सर्वे-	२२	तमःप्रभावधिग्याप्त-	५३	तस्मात्तवाशामुञ्जित्वा	३०१
तनुजः कल्किराजस्य	५५७	तमप्याक्रम्य भोगेच्छं	२९०	तस्मात्तन्नाकलोकाच्च	१३९
तनुजा चानुजास्पासो-	४८८	तमन्येत्ये तदेवास्मै	५०७	तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं	४१०
तनुजस्तस्य सुन्दर्या	३३१	तमयोध्यापती युद्धे	४०१	तस्मास्तांग रदत्ताभ्या-	५३८
तनुजस्पर्शसंभूत-	५१९	तमसत्य पुन. कर्तुं	२६४	तस्मादभन्मुररिपुः	४२६
तनुजो भीमकस्तस्मा-	५४६	तमस्तमः प्रजाताना	३५०	तस्माद्वयुक्तं युष्मार्कं	२५२
तनुजो मित्रसेनाया	१६२	तमस्तम प्रभाया च	४५७	तस्मादस्थानकोपेन	३००
तन्नावापमता चिन्ता	३४०	तमादायोदरं तस्या	२५३	तस्मादागत्य हेमाभ-	५१८
तन्नावापविभागोवत-	९७	तमालारामनिर्भासि	५०१	तस्मादानुपु तच्छ्लेष्ठं	३७८
तन्नामश्रुतमाज्ञेय	२२९	तमुद्ग्रे पिता चास्य	३६५	तस्माद्गुपेहि भोसस्य	७६
तन्निबन्धनचर्पादि	५६०	तमुपासकसद्वर्म	१९६	तस्माद्देव्यलकाकी ते	४१७
तन्निमित्तसमुद्भूत-	४३३	तमेवाहिरिवाहस्य	२२५	तस्माद्द्विसमयापन्ना	४१४
तन्निरीक्ष्य भवन्माता	५१७	तयाहंदासवाबद्धेष्टी	४०८	तस्माद्दिरानुब.चेन	११८
तन्निर्वेगेण वित्राङ्ग-	३९२	तया हिरण्यवर्माणं	५४७		

तस्मान्न प्रतिपेक्ष्योऽह—	२५२	तस्य प्रीतिकरी देवो	३९२	तस्यैवासी सुपेणाख्यो	
तस्मान्नात्मै प्रदातव्या	१४३	तस्य पुत्रः शतश्रीव-	२७८	तस्योपरि मुहुर्वाचं—	३
तस्मान्मद्वचनं यूयं	१०६	तस्य भार्या सुभद्राख्या	४६६	ता किंवदन्तीमाकर्ण्य	५०
तस्मान्महर्षीं महाभागो	२	तस्य भोगोपभोगक-	२८५	वा दुरात्माऽऽत्मसात्कर्तुं	२
तस्मिन् काले बने रक्तुं	१८१	तस्य माताभितर्जनं	३६८	ता भुजङ्गीमिवाग्नीवी-	२९
तस्मिन् कोपं परित्यज्य	१८४	तस्य माता सुमित्राख्या	१११	ता वरीतुं समायात-	२५
तस्मिन्क्षणे समागत्य	५४८	तस्य मध्ये क्षुभस्थाने	४६	ता त्रिधादेवता वाम-	४८
तस्मिन्गते स विप्रोऽपि	३४९	तस्य मे किं करोम्येतत्	३८४	तां वीक्ष्यापूर्णसोऽधयी	४५
तस्मिन्गुरी ततः सुप्रतिष्ठा	५५०	तस्य यावन्न याम्यन्त-	९६	तां च संबोध्य मुखात्पि-	५१
तस्मिन्देशे जनाः सर्वे	४४	तस्य राज्ये रघावेव	३३२	तां च स्नेहेन तत्कर्म-	५२
तस्मिन्नागपुरे ख्याते	२७८	तस्य वचनाशुविसरः	५७५	तादृशं तादृशामासो-	४२
तस्मिन्नुत्पन्नवत्येव	५४५	तस्य विप्रकुलायोग्य-	१६०	तास्वात्साहचर्याद्वा	१५
तस्मिन्नुपद्रवे शास्त्रे	१५३	तस्य शक्राज्ञया गेहे	२	तावत्स्वकायसंरक्षा	२९
तस्मिन्नुपरते तस्य	७७	तस्य शून्यशिकैकद्वि-	२२०	तानभञ्जन् समुद्बुल्य	३१
तस्मिन्नेव पुरे मृत्वा	४२३	तस्य शीर्यनिलो	१६९	तान् स्वयंवरनालायां	३५
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि	२६७	तस्य पट्टिसहस्राणि	७	तापसत्रतमन्तेऽभू-	२२
तस्मिन्नेव पुरे वंशे	५१२	तस्य पण्डोपवासस्य	३३५	तापनाकारमादाय	२७
तस्मिन्नेव पुरे शशित-	१८६	तस्य सत्येन वर्णन्ति	३३	ताः मानामभूत्पत्नी-	३६
तस्मिन्प्रावतनसौहाद्रत्	४३०	तस्य सोमप्रमादीनां	५५	तापसाश्च दयाधर्म-	२७
तस्मिन्भुवं समायाति	७२	तस्य हस्ते स्वरत्नानि	१०८	ताण्शैरम्यघायीति	२७१
तस्मिन्मन्त्रिणि भूपे च	२६२	तस्याः श्मामलता चेट-	५०५	ताभ्या स भवदेवाय	५३९
तस्मिन्वहृषि चेट्टेरं	११	तस्याः स्वानुचरेणोवतं	२५१	तामन्वेष्टुं ध्रजन् रात्रौ	३८९
तस्मिन्पण्मास- ५६, २४५, ४६०		तस्याङ्गतेजसा रत्नदीपिका	४९	तामादाय कुमारण	५०४
तस्मिन् सिद्धिवने	७	तस्यानन्तमतिर्देवो -	४४६	तामादाय महीनाथो	१४२
तस्मिन्मुखाभिलाषित्वं	२९०	तस्या निराकृति तस्माद्	५४७	तामाहरिष्ये तौ हन्तुं	२८६
तस्मै दिव्ये ददौ रत्न-	४१४	तस्यानुपदमेवान्यो	१९३	तारकोऽपि चिर युद्ध्वा	९५
तस्मै वरगुणे. सर्वे.	१४३	तस्यान्यदा वणिग्वर्यः	४९८	तालध्वजः समारुह्य	३१६
तस्मै संप्राथितं दास्या-	५४२	तस्या साराक्षमत्वेन	४८	तावदित्यात्मसंस्कारं	१९५
तस्मै हेमद्युतिर्नन्द-	८२	तस्याभूत्सुप्रभा देवी	४८२	तावदथेव गते काले	२२०
तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य	३५९	तस्यामेवोत्तरश्रेण्या-	३४१	तावद्दिननिबन्धेन	५६०
तस्य कालोऽयमित्येव-	३१९	तस्यावमितविष्यर्थं	४७४	तावन्तः केवलज्ञानाः	२४७
तस्य कालवयोवांछा	४६२	तस्या व्यावर्णयत्सापि	३९७	तावन्तः हृदयान्मन्त्रि-	२२०
तस्य किं प्रेक्ष्यमित्युवती	१४४	तस्याश्चानुपदं कश्चित्	१८१	तावन्तः पञ्चम-२३६, ३३५, ३८	
तस्य जन्मोत्सवस्थालं	२१९	तस्याश्चास्त्युत्तरे भागे	३४०	तावन्पेष्टुरशोकाख्यवने	१०६
तस्य त्रिवर्गनिष्पत्त्ये	१४०	तस्यासीदन्तयोः सूनुः	४५१	तावर्कविद्युसंकाशौ	१४८
तस्य देवी सुभद्राख्या	४८२	तस्यास्तदा तदानीय	२९५	तावर्पितौ मया सोऽपि	२५३
तस्य देवी सुभीमाख्या	३४	तस्मैव सुपेणाख्यः	१२५	तावासन्नविनेयत्वात्	११९
तस्य नाभ्नैव निर्मिन्न-	१६०	तस्यैवानुपदं देव्या	१६६	तावामिव चन्द्रार्की	२३१
तस्य पद्यावती सूनु-	५०३	तस्यैवानुपदं काचिदु-	१८१	तावामि सुचिरं कृत्वा	१८५
तस्य पादौ समालम्ब्य	१८४	तस्यैवामितवत्या स	११९	त्रासा चित्तपरीक्षार्थं	२८९
तस्य पाषण्डमौढ्यं च	४७६	तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि	१८५		

तासा त्वं स्वामिनी भूत्वा	३००	तृतीयोऽपि ततोऽवादी-	२६३	तेषामाद्येषु षट्सु स्यु-	१८८
तासु धोषवतो नाम	३५९	तृतीयो वसुमियस्यः	३४५	तेषु चक्रातपनाति-	२०७
तिरश्चामपि चेद्वैर-	१५७	तुष्टि प्राप्नोत्यसौ वार्यं	५३३	तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां	५२३
तिलकान्दिवीत्यासोत् १४०, १८६		तृष्णी रूपप्रवीचारात्	९७	तेष्वेकोऽभाषतात्मज्ञ	२६२
-तिष्ठतः शशगोमायु-	३१५	ते कालान्तेऽभवन्	३९२	तेष्वेकोऽस्ति स्त्रियः सप्त-	२६४
तिष्ठत्यगोचरमन्तचतुष्टयं तै ५७०		ते च तं च निरीक्ष्यैष	११५	ते सर्वेऽपि पुरोपात्त-	४७२
तिष्ठत्यत्रैव देवोऽहं	३०९	तेजस्वी भास्वतो मत्स्थ-	४३४	ते सर्वे सिद्धसाध्यत्वा-	५१५
तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते	४८३	तेजो महामणिर्वादि-	८१	तौ च गन्वोत्कटेनैव	४९९
तीक्ष्णदंष्ट्राकरालाननः	४५४	ते उत्सन्देजमाकर्ष्य	५०६	तौ च तद्वचनास्पृजा	२९८
तीक्ष्णो विमलवत्यादच	४३२	ते तेन सुचिर युद्धवा	१७१	तौ च सप्रामसन्नदो	१०४
तीक्ष्णलोमशिपावतोऽय-	५४४	ते द्विषष्टिसहस्राणि	२१०	तौ त बालं समाहाय	४१०
तीर्थैकस्कावद्बुद्धि-	५६३	तेन ज्योत्स्नेन तस्कीति-	३६८	तौ तदोदयिनौ श्रुत्वा	१२६
तीर्थैक्यमसंप्रापत्	१९	तेन तत्पादसंस्पर्श	३८९	तौ त्रिषष्ट्याधिपत्येन	१३३
तीर्थैक्यमुद्रितोऽपि	६	तेन तेजस्विना राधा	५१	तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि	४९१
तीर्थैक्येनपि कैवाचिदे-	२३६	तेन यास्यस्यसौ पुथ्वी	४७४	तौ पञ्चदश चापोच्ची-	२५५
तीर्थैक्यमुसंभूतोद्भासि	२८४	तेन सकृद्येव तै ताम्भ्यां	४०८	तौ परस्परसदृशा-	३२३
तीर्थे विमलनाभस्य	१०२	तेन स्थाने यथाकालं	१४०	तौ राजयुवराजौ च	३२८
तीर्थैक्यसनिधानेन	५४७	तेनानर्घ्यं नभो यायि	४१५	तौ समुत्कृष्टचारित्रौ	२५४
तीर्थैक्या. सदयो गुणैरनष्टुभि. ४४०		तेनापि पट्टदन्वेन	४०२	तौ संबोध्य समाशवास्य	३४२
तीर्थैक्या जगदायेन	२५८	तेनापि न प्रवेष्टव्या	२६०	त्यज तन्मोहमित्येनं	५४०
तीर्थे श्रोत्रापुपूज्यस्य	९१	तेनापि न प्रवेष्टव्या	११	त्यज दुर्वासना पापं	४७५
तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान्	८४	ते निदानं विमूढत्वा-	३९४	त्यज सीतागतं मोह-	३०२
तीर्थेऽस्मिन्नेव संभूता-	२५०	ते नैवमधिणा मोक्षाः	३९४	त्यजामोत्यवदसीता	३०३
तीर्थेऽस्मिन्नेव संभूतौ	२४१	तेनैव पाप प्रक्षाल्यं	४७५	त्यजेमामिति मारीच-	१७९
तुषकालाङ्गारिकस्तस्य	४९६	तेनैव भवतो भावि	१४४	त्यगेन तस्य दारिद्र्य-	३३
तुक् तस्य गुणकान्तावा	२५०	तेनैवास्मदभिप्रेत-	५०३	त्यागेऽस्यमेव दोषोऽस्य	४६२
तुक्षु राज्यमनिच्छत्सु	३३७	तेऽप्येच्च. पुनरासाद्य	९	त्यागो भोगाय धर्मस्य	११७
तुङ्गत्वादतिशुद्धत्वात्	१२९	तेऽपि तन्वङ्गवारोह	१७१	त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव-	२२१
तुङ्गेषु कुचयोरेव	४५	तेऽपि तद्वचनास्त्रापन्	१२	त्यक्तसर्वसदाचारा	५५९
तुजेऽपराजिताख्याय	३४०	तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य	१४६	त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽय-	५३०
तुम्बोफलेषु दण्डेषु	३५७	तेऽपि तिस्रश्चतस्रश्च	३५७	त्यक्तवायु-चेष्टैर्वास्था	२९०
तुरङ्गमधुरोद्भूत-	३८५	तेऽपि सीतास्तथा बाढं	४०८	त्यक्तवा सर्वे समागत्य-	८४
तुरासहं पुरोधाय	२१४	तेऽपि सन्नाद्य सैन्य स्व	३७५	चतुर्विधामराधीश-	६९
तुष्टा कतिपयैर्मसि-	५१	ते पुनस्तं सयानीय	२३५	त्रयः साप्ताहिका मेधा	८९
तूर्णं भवत्प्रभावेन	३७९	तेभ्यस्तौ धर्मसद्भावं	२५३	त्रयस्त्रिंशत्पयोऽप्यु-	३३२
तृणान्तरोपयोगादि-	५३३	तेभ्यो नाना मुद्य दत्त्वा	४९२	त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुः	१२८
तृणायमन्यमानाः स्वान्	३२०	तेषा काले जगत्येवं	५४३	त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्त-	२३४
तृतीयजन्मनीत्याह	२५२	तेषा गङ्गा प्रकूर्वीञ्च	१०	त्रयोऽननयः समुद्दिष्टाः	२५८
तृतीयशुक्लसद्ग्यान-	१५९	तेषा तदुदित तस्य	४	त्रयोदशसहस्राब्दे	२५४
तृतीये जन्मनीहासी-	२४४	तेषां पात्रस्यतद्गन्तान्	२२७	त्रयोदशाऽधिमानायु-	४५८
तृतीये पुष्कराख्यात-	१६३	तेषां रसोपयोगेन	५६०	त्रयोविंशतिवार्यायुः स	१४

ब्रह्मरेणुप्रमाणं स्वं	२९७	त्वं जीवादिपदार्थाना	१७८	दमितारेः पिता कीर्तिवरो	१७२
ब्रह्मस्थावररसंभ्रान्तः	१२०	त्वं दुष्टनिग्रहे शिष्टपाळने	१८१	दयामुनिगिरास्यन्ती	४५७
त्रिंशच्चपापतनुत्सेवः	२१९	त्वं मे प्राणसमो बन्धु-	४७७	दयावबोधयोर्मोक्ष-	१४१
त्रिंशच्छतसहस्राब्द-	९९	त्वमेव सत्यवादीति	२७३	दरनिद्रावलोकिष्ट	४६०
त्रिंशच्छरद्भिस्तस्यैवं	४६३	त्वयानुभूयमानेषु	५२३	दरनिद्रासमुद्भूत-	२०२
त्रिंशद्वर्षसहस्रायु-	२३८	त्वया पूज्य यथेद्दिष्ट-	२६६	दशकण्ठान्वयायात-	३२२
त्रिंशत्सहस्रवर्षायु-	२४६	त्वयामिलिषितं कार्यं	३१५	दशति स्म गजोऽप्येतद्दि-	११३
त्रिंशलक्षसमात्मायुः	१२२	त्वया मयोपनोदार्थं	४७०	दशधर्माः पुरैर्वैनं	२०६
त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य	४९	त्वया राज्यस्य यो दीषो	१९६	दशभिर्नित्यपूजायां	३४८
त्रिःपरीत्याभिवन्चैनं	१३५	त्वया वास्त्यावयोरत्र	४५३	दशमासान्तनिद्रासी	४३३
त्रिकालयोगधोरास-	१३७	त्वया संमोगसौख्यस्य	३	दशमोऽस्मात्परः ख्यातः	५६१
त्रिखण्डजातरत्नाना	३८४	त्वयैव रक्षितं पापा-	३०५	दशभ्यां माघमासस्य	३
त्रिखण्डाधिपतित्वं ती	१२७	त्वयैवैकेन कर्मासीन्	६३	दशरथगुरुरासीत्	५७४
त्रिखण्डमण्डिते क्षेत्रे	४५५	त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां	३०५	दशाङ्गभोगसंभोग-	१३६
त्रिखण्डराज्यभागेशी	१४४	त्वयोपदेशः कर्तव्यो	५२३	दशाननबलान्ध्यापन्	३२०
त्रिखण्डवासिदेवांश्च	३२४	त्वच्छ्रवणयोग्यसल्लापैः	२८७	दशाननोऽप्यतिक्रान्ते	३००
त्रिलोकैर्कर्तारणावीक्षै-	२३	त्वंजन्माभिषवोत्सवे सुरगिरौ	४३९	दशार्णविषये राजा	४८२
त्रिजगद्द्रासनालोल-	३१५	त्वत्पादपङ्कजषडङ्घ्रतयाष्ट-	५७१	दशास्ये साम सामोक्त्या	३१०
त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं	२६	त्वत्पादपादपोद्भूत-	६३	दण्डस्त्रजे तुलायां च	४५
त्रिदण्डवारकोऽप्येष	४४७	त्वत्पुरे कारयेत्येन-	५०३	दण्डो दारुषु शस्त्रेषु	२००
त्रिपुष्टस्य धनुः शङ्ख-	८५	त्वद्दर्शनप्रदेशं च	३४०	दण्डोपनतसामन्त-	२८४
त्रिपुष्टाय प्रधातव्या	१४४	त्वद्वक्त्रं दर्पणे वीक्ष्य	२८७	दत्तं जरत्तुणं मत्वा	३५७
त्रिपुष्टो नाम दपिष्ठः	१४६	त्वद्वचो वाचि धर्मस्ते	६३	दत्तं स्वस्यै श्रिताशोक-	४९४
त्रिपुष्टो निष्ठुराराति-	१४९	त्वद्विवाहे व्ययीदकर्तु-	३८५	दत्तादित्रिनवत्युवत-	६२
त्रिभिः शिवं पदं प्राप्य-	६५	त्वा दुःखिनं सुखिनमप्यु-	५६८	दत्ताधिपं किमुद्दिश्य-	१६८
त्रिलक्षश्रावकः पञ्च-	४२	दद्या नमन्नुत्तमः स्तोता-	६३	दत्त्वा गर्जं कुरुपासं	३१०
त्रिलक्षश्रावकभ्यर्च्यः	६२	त्वां मे भावयितुं वष्टि	३०२	दत्त्वाजितंजयास्थाय	३२७
त्रिलक्षश्रावकोपेतः	३७	त्वा लोकः स्नेहसंवृद्धो	१५	दत्त्वा तत्साधनोपाय-	४००
त्रिलक्षा श्राविका देवा	३८७	त्वादृशी वनिता लोके	२९३	दत्त्वा ताभ्यां कुमारभ्यां	२४२
त्रिलोकनायकाभ्यर्च्यः	३७८	त्थमद्य योजयिष्यामः	२८९	दत्त्वा तुष्टिघनं प्राप्त-	२४९
त्रिलोकमातुः पुरतो	२०३	त्वामनादृत्य योग्यां ते	२८५	दत्त्वा निपुणमत्याख्य-	१०९
त्रिवत्सरमिते याते	१००	त्वामानेतु प्रहेष्यामि	५२०	दत्त्वात्नदानमेताभ्यां	१६२, १६३
त्रिविष्टपस्य सिंहेन	४३४	त्वामामनन्ति मुनयः	५७०	दत्त्वा राज्यं सता पूज्यो	२५०
त्रिविष्टपेवरे गर्भे	२०३	त्वामिष्यकन्यके द्रष्टु-	१९५	दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय	१२५
त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्	१२८	[ द ]		दत्त्वा विजयभद्राय	१४९
त्रीन् मासान् जिनकल्पेन	६०	दक्षिणे घातकीखण्डे	५०	दत्त्वा विघ्नणं भक्त्या	५३८
त्रैलोक्यजयिनं जेतुं	५३	ददासि परमं सौर्य-	६२	दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य	९२
त्र्यज्ञानदर्शनोपेत-	१५९	ददौ दन्तद्वयेनासी	११३	दन्ता यस्याशनं भूत्वा	२२७
त्वं कस्यात्रागतः कस्माद्	३४४	दधन् माघमसीवर्णं	३५०	दर्पादिदं न वक्तव्य-	१४७
त्वं कुतस्ते कुतः कोऽयं	३९५	दमितारं यमं वैकं	१७१	दर्शयन्निति सार्वचर्य-	२३३
त्वं च देवी कुबेरस्य	१७६	दमितारिं सभामध्ये	१६८	दर्शयित्वाऽवदत्सर्वं	३९०

दर्शयिष्याऽऽह यद्येनं	१८५	दीक्षां क्षेमकराख्यान-	१८४	दुर्लभा संयमे वृत्ति-	५४२
दद्या वसन्तकालेऽग्न-	३८९	दीक्षा गृहीतुमुद्युक्तो	५४२	दुर्वारा दुःखितोरुशत्रुसुमिति-	४२
दद्ये नष्टसुको जाता	४८८	दीक्षां घनरथाभ्यर्णे	१९२	दुर्वारो दृष्टविभ्वंसी	३६०
दक्षमानेऽधनाम्ःस्य-	३९१	दीक्षा जैनेश्वरीमादात्	२२२	दुर्विदग्धेनसाङ्गयमनेन	१३०
दाता च धावितविज्ञान-	१९३	दीक्षा षष्ठोपवासेन	२२, ३०, ६९	दुर्विधाः सधनाः पुण्यात्	४९२
दातासि न स्तुतिफलं	५६६	दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य	४४८	दुश्चरित्रः(स्महाराभ्या-	४७२
दातुं भानुकुमारस्य	४१६	दीक्षा सागरसेनस्य	४०२	दुस्त्वेष्टस्यास्तपुण्यस्य	३१५
दानं पूजा तथायञ्च	४४	दीक्षाम्बयक्रियाश्चाष्ट-	१९६	दुष्कर्म विरमैतस्मात्	५५३
दानपूजातपःशील-	१३८	दीक्षामादाय निर्वाणमार्ग-	१६३	दुष्टनिशहृशिष्टानु-	२८३
दानयोग्यकुला नाहम्-	११६	दीक्षारूढ्याः स्वर्गं प्राप्ता	६०	दुष्टानुपागतौ दुष्ट्वा	४०७
दानशीलोपवासादि-	२९०	दीनारहंता पूषां	३४८	दुष्टमायाः स्थितिवर्ध-	५५५
दानाहमवराख्याय	१७५	दीयमाना समालोक्य	२५०	दूतं मरीचिनामान-	५५६
दानेषु कतमदानं	७६	दीर्घं तत्र सुख भुक्त्वा	६७	दूतीव मे श्रितवती	३७४
दानद्वयावलोकैः	४३४	दीर्घकालमत्तं सप्तवा	१०३	दूतोऽपि सत्वरं गत्वा	९२
दारिद्र्यं विद्वत् दूरं	३५	दीर्घत्कल्पद्रुमोपेतं	३००	दूतो रामस्य गत्वाऽनः-	२९९
दाष्णामौत्यमिभूपात्न	४६३	दुःख तत्रानुभूयन्ते	४२३	दूरस्यामरविक्रियस्य भवतो	४४०
दिङ्मातङ्गकपोलमूलगदितै-	७५	दुःखं स्वकर्मपाकेन	५१	दूरात् कपिलको दुष्ट्वा	१६०
दिनद्वयोपवास. सन्	६९	दुःखदावाग्भनसंतापो	२८१	दूष्यलक्ष्मणायमित्युक्त्वा	२५५
दिनद्वयोपवासित्वा	६०	दुःखदुःखिनिमित्ताद्य-	७३	दृष्टमिवाह्वय. सर्वे	५१५
दिनद्वयोपवासेन	७४, ८२	दुःखदुःफलसन्नम्रा	१२३	दृष्टतदुर्जययूपीश-	२८४
दिनपटके गते तस्य	२३६	दुःखमेव सुखं मत्वा	१३७	दृष्टौ तत्रार्थ संरम्भ-	१८६
दिनादौ च दिनात्ते च	४३२	दुःशास्त्रश्रुतिदापिष्ठः	१५१	दृष्टं शक्यमपह्नोतु-	३७१
दिनानि कानिचित्तत्र २८०, ५२१		दुःसाध्यैनामयेनाऽज्ञौ	३२७	दृष्टमार्गः पराधृष्यः	३०५
दिनानि कानिचिद्घाता	१६१	दुःपाब्धौ गिरिणा हरी	५७६	दृष्टधन्तो खगाधीश	१७०
दिनानि कानिचिन्नीत्वा	२२६	दुरात्मनः कृपा हित्वा	५३०	दृष्टेस्तदस्तु नेत्रमूल-	४७७
दिनाभ्येवं बहुभ्यासीत्	३२१	दुराशय. सुराधीश-	३८५	दृष्ट्वा केनाप्युपायेन	४६७
दिने तुतीयमन्दाया-	३३५	दुरीक्षया विकटाकारा	५५८	दृष्ट्वा क्षान्तिवसमीपेऽस्याः	४८४
दिने भरणिनक्षत्रे	२०२	दुरुक्तवचनानीव	३१७	दृष्ट्वा जैनेन्द्रविम्बानि	२७६
दिनेऽथमस्तमानीय	५५३	दुर्गमार्गं परेषु सुममभिमगमात् ७०		दृष्ट्वा तं तत्र तेनामा	४०३
दिनेषु कैपुचिन्त्वाचातिषु-	४९	दुर्गण्यासन् यथास्थान	४६	दृष्ट्वा तं तत्र मिथ्यात्वा-	२२२
दिनेषु कैपुचिन्त्वातेषु-	२६२	दुर्गतिप्राप्तिहेतुत्वा-	४७०	दृष्ट्वा तं नितरो तस्य	३६२
दिने समेदेगिर्गणे	३२८	दुर्गपालाः पुरं लङ्का	३०१	दृष्ट्वा तं विस्मयापन्नो	८
दिवसैः सहवासेन	३५०	दुर्जयेन कलिङ्गेशा	३८०	दृष्ट्वा तं स्वोचितं देव	२९०
दिविणो वीरमावद्विद्यो	३६५	दुर्ण्याभिमूखो मूर्ख-	९५	दृष्ट्वा ता स मुनिः प्राह	३६१
दिव्यं सधरसं भोज्यं	४५४	दुर्दमा विद्विपरतेन	१६९	दृष्ट्वा ताम्ना कुतो न्न	३६५
दिव्यभोगाविचरं भुक्त्वा	५३	दुर्द्धरं तव दुर्दुष्टे-	३११	दृष्ट्वा तारागणे तारावति	५४३
दिव्यश्रीमन्जुषो च शोः	२९	दुर्निवारो रिपु कौप-	३१६	दृष्ट्वा तावत्य सर्वया	४०७
दिव्यश्रीसन्निधौ स्थित्वा	५४२	दुर्भगत्वेन कान्ताना	२८९	दृष्ट्वा द्विगुणितामार-	४१२
दिव्याभरणदासेन	१९०	दुर्मर्षणाद्याः सर्वेऽपि	३४६	दृष्ट्वा धर्मस्य यापालर्म	१६५
दिव्यो विलोक्य मा दृष्ट्वा-	१९१	दुर्मार्गो द्विपतानेन	२७१	दृष्ट्वा निगूढतज्जानो	३५६
				दृष्ट्वा भवानहो नागदत्	४९२

दृष्ट्वाऽमात्यमुखाद्भूतो	१६८	देवावगाढमभवत्तव मोहवाताऽ५६९	देहो विकाररहितस्तव वाग्य- ५६९		
दृष्ट्वा. मुनिवराख्यात्	३३१	देवो गरुडयन्त्रस्था	४९६	दोषद्वयानुरूपं त्वं	३१०
दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या	२८०	देवो तद्धेतुता खिन्ना	१९५	द्युकुमारसमानीय	५३१
दृष्ट्वा यथोपचारेण	२२५	देवो परिजनः सर्वः	२९५	द्युतिविनिहृतभिक्षो	१०५
दृष्ट्वा रूपपरावृत्त्या	१७८	देवो त्रिजयसेनाख्या	३	द्युतिस्तस्य द्युतिर्वाभात्	५८
दृष्ट्वा श्रुत्वा विविच्यैव	४९९	देवीति गतवांस्तस्मा-	२२६	द्युतं युधिष्ठिरस्यात्र	४२१
दृष्ट्वा सागरसेनाख्यं	५५०	देवो पञ्चशतेऽप्यस्यां	१२४	द्युतेन मोहविहितेन	१०५
दृष्ट्वा स्वप्नान् फलं तेषां	८८	देवीभिर्दिव्यभावाभिः	८०	द्योतिताखिलदिवचक्रं	३८२
दृष्ट्वेवं सचिरोद्गमोपनयनो	३७३	देवो यशोधरा तस्य	५३८	द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं	४०७
दृष्ट्वोद्योतानवने राज-	४६२	देवो वसुन्धरा जात-	१६६	द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे	१५८
देवं वनविहाराय	३३३	देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा	२६	द्रव्यरूपेण पर्यायैः	४६७
देवः संनिहितः कश्चित्	१९३	देवैतद्वासुदेवेन	३८६	द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेद	६४
देवकी च मुदा पश्चात्	२६४	देवेरन्वकवृष्टिश्च	३४७	द्रव्यार्जनं परित्यज्य	१५१
देवकी वसुदेवश्च	३६४, ३६८	देवो ननोत भोगानां	३३४	द्रव्येण बहुधा सार्धं	५५१
देवक्याः स्तनयोः शात-	३६८	देवोऽपि स्वामुरस्तेऽस्मि-	११९	द्रुपदाद्युग्रवंशोत्थ-	४२१
देवताधिष्ठिता नाम्ना	५११	देवोऽभवदनिर्देश्यः	४७०	द्रुमसेनोऽनुकंसार्या	५६४
देवतेति समस्यर्च्य	३६६	देवो मदीयवंशस्य	५३७	द्रोहान्मूलेः पलपचः	४२६
देवतोपास्यमानाद्भि-	३७७	देवो विचित्रचूलाख्य-	१७८	द्रयेन तेन बध्नाति	१११
देवदत्तां समारुह्य	९९	देवो वीरजिनोऽयमस्तु जगताऽ७२		द्रयोर्वचनमाकर्ण्य	२६७
देवदासुवने पुष्प-	३५५	देवो मेघरथं पश्चात्	१९४	द्वात्रिंशत्खत्रयाब्दानो	२४१
देवदुन्दुभयो बाढं	६२	देव्यः स्वयंप्रनामुष्या ८५, १४८		द्वात्रिंशता चिरं रेपे	५०८
देवदुन्दुभिमुष्याष्ट-	१००	देव्यां तुभुमेघमालिन्यां	१७७	द्वादशाब्दैः समावर्ण्य	३४८
देवदेवः समस्तेन्द्र-	६१	देव्या मानुमहाराज-	१२८	द्वादशो नामतः सप्त	४२८
देवदेवस्तदैवासा-	९९	देव्योऽत्र निवासिन्या	४१४	द्वाविंशतिसहस्राब्दै-	७२
देवदेवस्य को वक्ता	१९०	देव्योऽपि दिव्यवचनं	४०६	द्वाविंश- ७२, १२१, १८७, ४३१	
देवदेव्यस्तवसंख्याता-	२१६	देव्यो दानानुमोदेन	१६२	द्वाविंशत्यब्धिभेयागुः	२३८, ४५९
देव देवी च देवा च	२९५	देव्यो विमलमत्याख्य-	१८४	द्वासप्ततिसमाः कृत्वि-	४६२
देव देवे धराचक्रं	१०	देव्यो स्वं रूपमादाय	१९५	द्वासप्ततिगुणा लक्षाः	३
देवमानुषरक्षोविभागे-	१५०	देवो सारसमुचयै नरपति-	३२९	द्वासप्ततिसमा लक्षाः	९३
देवलोकास्त्रिधाति लैभे	४९५	देवाकोऽस्ति न मागस्य	४७८	द्विगुणाष्टसहस्राणां	८५
देवविद्याधराधीश-	५१	देशार्धेन सप्तं तस्मै	३६३	द्विगुणाष्टसहस्राणि	३२४
देवविद्याधरैः शेष्यः	१३९	देशान्निहृत्य भासायुः	२१६	द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा	१९४
देवसेनस्य चोत्पन्ना-	३९४	देवोऽचित्त्वा परावृष्ये	२६५	द्विजवेषं समादाय	२५५
देवाः खलु सहायत्वं	४७५	देवोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिन्- १७		द्विजाख्या धारिणं याहि	३४९
देवागमनमालोक्य	१८४	देहचूते क्रुमारस्य	५०२	द्वितीयकाले वर्तेत	५६०
देवा द्वितीयकल्याण-	३३३	देशज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः २१७		द्वितीयशानवेदस्य	२५९
देवा देव्यस्तवसंख्याताः	२२७	देहशयापनयनेन विनापिसिद्धि- ५७०		द्वितीयतोर्षसन्तापे	१६
देवा-देव्योऽप्य- २१-, ४३९, ४६८		देहश्रमेव वाग्यस्या ह्लादिन्यापि ४४		द्वितीयनरकं गत्वा	४२३
देवादेशोऽस्ति चेद्गत्वा	३१३	देहाद्यशुचिसद्भावं-	१९६	द्वितीयशुक्लध्यानैः	६१, ४३८
देवानामधुना धूरो	४६२	देहि नापेहि धर्मात्त्वं	४५८	द्वितीयशुक्लसद्गन्धान- १५९, २०९	
देवालीकस्तवैवैकी	४४३				

द्वितीये दिवसेऽविवान् ८९  
द्वितीये घातकीखण्डे ३३  
द्वितीयेऽहनि तद्वाल- ४१०  
द्वितीयेऽहनि साकेतं २३  
द्वितीयेऽह्नि पुरं नन्दनामिषं १००  
द्विप्रुषाचलयोर्वृद्धिं ९४  
द्विप्रुषः सप्तसद्रत्नस्त्रिखण्डेश- ९५  
द्विप्रुषो मत्तमातङ्ग- ९५  
द्विलक्षधावकोपेतः- १०, १००, १३१  
द्विलोकभोगमिथ्यादृक् १९६  
द्विषतो वा न सत्त्वाभि- ३१९  
द्विषदक योजनायामं २६७  
द्विषां भय प्रकुर्वन्ती ३१६  
द्विषो भीषयितुं चोच्चै- ३१७  
द्विसंवरसरमानेन ८२  
द्विसागरोपमं कालं ४२३  
द्विसमुद्रोपमं कालं ४४८  
द्विसागरोपमातीती ४०९  
द्विसागरोपमायुष्का- ३९१  
द्वीपादमुष्मान्निगन्तुं ३५६  
द्वीपायननिदानाव- ४२०  
द्वीपाद्देवक्रवालो वा ४७  
द्वीपे जम्बूद्वीपस्य २१८  
द्वीपेऽपरविदेहेऽस्मिन् १०६  
द्वीपेऽत्र खगभूभर्तुं- ४०३  
द्वीपेऽत्र प्राग्निवदेहस्य ६  
द्वीपेऽत्रैव विनीताया ३४८  
द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मि- १९२  
द्वीपेऽस्मिन् कोसले देशे ४५८  
द्वीपेऽस्मिन्स्त्रिखण्डेष्या १५४  
द्वीपेऽस्मिन्स्त्रिखण्डेष्या भागे १२२  
द्वीपेऽस्मिन्स्त्रिखण्डेष्या पूर्वं- १४  
द्वीपेऽस्मिन्स्त्रिखण्डेष्या भागे ३३७  
द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाभ्यां ४०४  
द्वीपेऽस्मिन् युष्कलावत्या १४४  
द्वीपेऽस्मिन्प्राग्निवदेहस्य- १६६  
द्वीपेऽस्मिन् प्राग्निवदेहस्य २१३  
द्वीपेऽस्मिन् प्राग्निवदेहे- १४३, ३३३  
द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे

८४, ८५, २१९, ३४२, ३४७,  
३९३, ३९६, ५३९

द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचरा १७७  
द्वीपेऽस्मिन् भारते गङ्गा ४५४  
द्वीपेऽस्मिन् भारते चम्पा- ८८  
द्वीपेऽस्मिन् भारते देशः ४४४  
द्वीपेऽस्मिन् भारते रत्न- १२८  
द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे २, १५, २०, ९१, ३३१  
द्वीपेऽस्मिन् भारते शालि- ४०१  
द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंह- १०९  
द्वीपेऽस्मिन् मगधे देशे ४०७  
द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि- १३२  
द्वीपेऽस्मिन् सिन्धुकुट्टस्य ४५४  
द्वीपेऽस्मिन् तेषु लङ्काख्या- २९६  
द्वेषामेदमयाद्वाधि- ३७६  
द्वेषीमावञ्च षट् प्रोक्ता २८२  
द्वौ देवौ युवमागत्य १३६  
द्वन्द्वयुद्धेन तौ जेतु- १४७  
द्वयष्टकारणसंप्राप्त- ५६

[ घ ]

घनं दाने मसिघर्मो ५२  
घनं बहुतरं सारं ५४५  
घनजयोऽस्य सर्वधी- ३९२  
घनमित्रोऽभवत्सन्दि- १९३  
घनयौवनदर्पण ५३७  
घनश्रियोऽयं बन्धेन ३९२  
घनादिदेवपालाख्यौ ३५१  
घनुर्विद्याविदः सर्वे ५१०  
घनेन महता सार्धं ४८५  
घन्यवेषणमहीपालो १३०  
घन्यान्यत्र न सा र्थ्यातुं २८५  
घन्विनः पातयन्ति स्म ३२०  
घरणेन्द्रात् पितुस्तुं ध्वा १७६  
घरणेन्द्रोऽभवन्मुत्वा १०६  
घरागतः कृतमञ्जुषो २७९  
घराकस्मी समाहृतुं २८  
घरित्री सुखसंयोग्या १२९  
घरेयं सर्वभावेन २८  
घर्मं यशो महत्त्वं च १०९  
घर्मं समन्वयुङ्जतैता- ५५२  
घर्मः कश्चिद्विहास्ति नैतदुचितं ५७८

घर्म एवापरे घर्म- ७९  
घर्मजो भीमसेनञ्च ४२४  
घर्मं च कथयामास ४८५  
घर्मतरुं मुनेः सम्मय् ४३०  
घर्मदानादिवीर्यो च ५६४  
घर्मद्वयोपलम्भाभ्यां ४७९  
घर्मध्यानं प्रविश्यासी ४३१  
घर्मध्वंसनिमित्तेषु १९७  
घर्मध्वंसे सता ध्वंस- ५५७  
घर्मनिर्मूलविध्वंस ५५६  
घर्मपापे विमुचयान्यत् ५५४  
घर्मं लाभोऽस्तु तेऽद्येति ४६९  
घर्मशील इति ख्याति ३४८  
घर्मश्चेतातपत्रं ते ४२९  
घर्मसङ्गावमाकर्ण्य ५१३  
घर्मादियस्ततोऽर्वाऽपत्ति १  
घर्मादियो व्यवर्धन्त ५८  
घर्मादिस्मात्वाप्यस्ति १३०  
घर्माद्युत्तमयो वाणीं ४२  
घर्माद्युत्तमयो वृष्टि- ३५१, ४२०  
घर्मार्यकामाशास्त्राणि ५२३  
घर्मा वाचकवृष्टेञ्च ३४५  
घर्मं यस्मिन् समुद्सृता १२८  
घर्मेषु रुचिमातन्वन् ५२९  
घर्मो जैनेन्द्र एवास्मिन् ४६  
घर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र ५७७  
घर्मो दया कथमसी ९१  
घर्मो दयामयो घर्म ४५८  
घर्मो बलः स्वयम्भूञ्च १०३  
घर्मो माता पिता घर्मो ५५७  
घर्मो यागोऽयमित्येतत्- २५७  
घवलाश्वयुजाष्टम्या ७५  
घवले नवमासान्ते १२९  
घातकीखण्डपूर्वादि- १६२, ४०१  
घातकीखण्डप्राग्- १२१, १२८,  
१६२, १८७, ५१७  
घातकीखण्डप्राग्मन्द- ४०४  
घात्री च प्रस्तुतार्थस्य २६०  
घात्री मन्दीदरी नाम २५९  
घारापृष्ठे घने रम्ये ३५४  
घावन्तो देवसंयोगा- ५०८



धिक्कष्टमिष्टमित्येतत्	१९०	न चेतद्द्वानं साध्यं	३०२	नमिच्चमरवैरीचनोद्धृत-	३७७
धिगस्तु संसृतेर्भावं	२४९	न चेदसि विभायत्वा-	३०१	न भस्तरैण न क्रोधात्	३८२
धिग्भोगानीष्ट्यान्	८	न चेद्विनभिवंशीक-	३०६	न मां प्रतिप्रयोगोऽयं	४७७
धिङ्मा धनमिहाहर्तुं	५३३	न चेदेवं सुरेन्द्रत्व-	२१५	नमिताखिलभूगाल	२१
धियेमस्य गुणा प्राप्य	८८	न चौर्येण विना तोषः	११०	नमिताशेषदेवेन्द्रो	२०६
धियोऽस्य सहजन्मना कुशलिनः	४६०	न जाने त्वा विलोक्याद्यं	३०२	नमिर्नमितसामरामरपतिः	३३६
धीः पीरुषं च विजयार्जनमेव	५६७	न ज्ञातः कः करो नाम	१२६	नमेभंगवतस्तीर्थ-	३७८
धीमानसि यदीमं त्वं	५३२	न ज्ञानात्सस्ति दानानि-	७६	नयज्ञैः कार्यसिद्धयर्थ-	३०४
धीमानुदीक्षते पर्यन्	५५४	न तथोविग्रहो यानं	१६६	नयन्स चतुरो मासान्	४३८
धीरो मेघरथो नाम	१९४	नताखिलखगाधीश-	२९८	न युक्तमिति निर्बन्धा-	४९२
धूपानुलेपनैमल्यै-	४५४	न तावदर्थकामाभ्यां	२८	नरकव्याप्तवधभोरु-	५३५
धूमध्वजसखोऽस्थासु	५२	न तु मासादिकं देयं	१९४	नरकायुःप्रभृत्यष्ट-	२७०
धूमोपलम्भनादग्नि	४९९	न त्वयंतु शक्य इत्यादि	४७६	नरके धोरुःखानां	४७०
धृतदण्डप्रवृत्तित्वाद्	३१८	न त्वा कि बहुनोक्तेन	३०८	नरपतिरिह नाम्ना	१३५
धृतराष्ट्राय गान्धारी	३४६	न दान्तोऽयं तुभिर्दन्ती-	२५१	नरलक्षणशास्त्रज्ञ-	५२९
धृतदृढाक्रीतः वीक्ष्य	३७५	नदीमुखेषु संभृता-	२४९	नरादिदृष्टवधः पुरे	१३४
धृतिषेणाय मद्राज्यं	५००	नदीसरस्तटाकादि-	५३३	नरेन्द्रवदसुता दीक्षां	३९४
धैर्यसिंधारानिभ्रम-	२५३	न नोदानकसञ्जातो	४६१	नरेन्द्रवैद्विभिः सार्धं	३९
ध्याति धर्म्येव नैर्मत्य-	३०१	न निवृत्तस्य संसारो	४६७	नरोऽर्थाभ्यधिकारित्ति	५५८
ध्यानद्वयसमुन्मुल्लिता-	१३५	न नेष्यादिभिर्भेद-	२०१	नर्तकी वर्वरीत्येका	१६७
ध्यायन्तं वीक्ष्य त्रन्दित्वा	५२९	नन्दगोपसमीपेऽस्थान्	३७१	नर्तक्योर्न प्रभावोऽयं	१७१
ध्यायन् वैराग्यसम्पत्त्या	२०	नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ	३७०	नैलिनप्रथवामाभू-	७९
ध्रुवं तद्यारदेनोक्त-	२९९	नन्दगोपोऽपि तं बाल-	३६६	नवकेवललब्धीषो	१३५
ध्वजदण्डाग्रनिभ्रम-	२९१	नन्दनं जगदानन्द-	२०३	नवकेवललब्धीद-	२४०
ध्वजीकृतनिशातोष-	२२६	नन्दने नन्दिषोषाल्ये	४०७	नवकोटयन्धिमनोक्त-	७३
ध्वनिरैकोऽपि दिव्योऽस्य	६१	नन्दाढयादिसमानीतः	५२६	न वन्धको कलावन्तो	१६६
ध्वनिश्चेन्निरगतस्तस्मा-	२०५	नन्दाढयाय ददुर्भूरि-	५१६	नवप्रसूतसंक्रुद-	४५१
ध्वस्तं त्वया प्रबलपापबलं परंच	५६९	नन्दासंदर्शनेनासौ	१२४	नवमासान् यथोक्तेन	८०
ध्वस्तो मुक्तिपथः पुरुषप्रभृतिभि-	२१२	नन्दासंवासासिन्यः	४७१	नवमुक्ता फषालोल	३५५
[ न ]		नन्दिभूमिश्चतुर्थस्तु	५६१	नवमे मासि वैशाख-	२१४
न काश्चिच्चेदृशो स्त्रीषु	३००	नन्दिवेणो बलः पुण्डरीको	२३०	नवमे मासि सम्पूर्ण	४३५, ४६०
न कामनीयकं कामे-	३५	नन्दीश्वरे महापूजां	१९४	नवमेदं जिनोद्दिष्ट-	४८८
नकुलं संसृती भ्रान्तवा	४९३	नन्द्यावतंगृहे रत्न-	४६०	नवयोजनविस्तारं	३७९
नकुलः सहदेवश्च	४२४, ४२५	न पुंसु यदि तत्रास्ति	५२२	नवैन्द्रधृतुवपेषु	४२५
न केवलोऽयमित्येहि	३६९	न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं	३०९	नवलसावित्रिकोटीपु	२७
न कीपोऽस्मिस्तवास्त्येव	२५१	न प्राप्यतेऽज्ञ संसारे	३६७	न वाच्यः पृथगुत्साहो	२२
नमरं प्राविशान् कारकटं	१५२	न बुद्धिमान् न दुर्वुद्धि-	२५१	नवापि निधयः पूज्या-	२०७
नमरे पद्मिनीक्षेते	१९३	नभश्चरकुमारारणां	२९७	नवापि विधिना संन्यस्यन्तो	३५१
न गोमित्यां न कीर्त्या वा	४६२	नभसः शुद्धरूपस्य	३१८	नवाभ्युपमसंताने	१२२
नक्तंदिवं निजप्राण-	४९९	नमस्तलयतो देवकुमारी	३३३	नवारत्तिततनुत्सेधो	४३५
नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्च	२६६	नभो न्यरुणदुष्णांशु-	३८१	नवे, वयसि दीक्षित्वा	३९४

न भृगोपि वचः पथ्यं	३११	नानावृषिघातनाद्रव्यैः	५५२	नासुखोऽनेन कोऽप्यासीत्-	५१
नष्टकर्मष्टकोऽभीष्टा	१४९	नानावीरुल्लतावृक्षै-	८४	नास्माकं देव दोषोऽस्ति-	१०७
न सन्ति सहस्रास्तस्य	१६९	नानालकाररम्योक्ति-	४८८	नास्तिकाः पापिनः केचिद्	६३
न स्यान्मु न शुभं किञ्चि-	६९	नानासुरभ्रिषुष्योप-	५३२	नास्ति जातिवृत्तौ भेदो	४७६
न स्थिरं क्षणिकं ज्ञान-	६४	नानिबुधालिकाभूमि-	४४५	नास्ति भट्टारकस्याज्ञा	३०३
न स्वानं भोजनं स्वापो-	१०३	नावोपायप्रवीणोऽय-	४७२	नास्यादिचतं त्वयामेदि	२९१
न ह्यास्यं कुरुतेव भो,	५२२	नान्तरायः परं तस्य	५९	नास्त्याप्तो नागमो नैव	४०७
न हिंसा न भृषा तस्य	२९	नापन्नापन्नभोगेन	२४०	नाहमाहारयामीति	५४२
न हि मूलहृरः कोऽपि	५२	नाभि प्रदक्षिणावर्ता	२८	नि खण्डमण्डलद्वण्डः	२५५
न हि द्वितिमिद् किञ्चि-	४०६	नाभूदस्यास्ततोऽल्पोऽपि	४९७	निःप्रभं निःप्रतापं च	३२०
न ह्यस्यकथनीयं मे	५११	नामग्रहोऽपि यस्यार्थ	४४	नि प्रवीचारसौख्याढघो	१९८
नाकाण्डभृत्यव. सन्ति	२००	नानाक्षराणि तस्यासौ	३६०	नि शङ्कादिगुणोऽस्तन्वन्	१६४
नाक्रामति प्रजा न्यायं	९७	नामादिचतुरर्थेषु	२६६	नि.शेषन्यककृताघाति	३२८
नागतो रावणः केन	३१४	नामुच्यन् केचनानादि-	३८८	नि.सपत्नः श्रियः सोऽभूत्	१९
नागदत्तं विवच्यन्त्ये	५४३	नामूर्ताशोनिशासङ्गा-	२०७	निःसावद्योऽस्ति धर्मोऽन्य-	२६
नागदत्तमसौ नाहं	५४९	नाम्ना धनपतिः याता	११८	निःस्वेदत्वादिसन्नाम	४१
नागदत्तस्तदा रज्जु-	५४९	नाम्ना नन्दीत्यसौ	३५२	निकटे राजिमत्याहय-	४२४
नागदत्तेऽङ्गितं ज्ञात्वा	५४९	नाम्नाचवत्सकोपानां	४३६	निकृष्य कन्या श्रीपेण-	५१४
नागदत्तेन पापेन	५४९	नाम्ना नरपतिर्दत्त्वा-	७४	निकोऽप्यु स्वयमेवोच्यै-	४३५
नागदत्तोऽपि कर्ष्यपा	५४९	नाम्ना नरपतिस्त्वस्य	१४	निगृहीतकपायारि-	६०
नागराश्च विभूत्यैतं	५५१	नाम्ना विभीषणो जातो	११७	निगृहीतुमिवोप्राणु-	३५३
नागराडुपकृतोऽभू-	२५६	नायकान्यां ततः सुग्रीवा-	३१४	निग्रहानुग्रहो तस्य	१२९
नागरेभ्यो महीमर्षं	२५२	नारदं शिलयाच्छाद्य	४१६	निग्रहोऽप्यामि मृत्वेना	४८७
नागविधाश्च विद्यानु-	२७५	नारद. स तदागत्य	४१८	निग्रहेण ग्रहं. क्रूरो	४८५
नागभियं च दोगंत्य	५४२	नारदस्तत्तवा ज्ञात्वा	३७९	निजजन्मदिने चक्रि-	२१५
नागश्रीवितरामं त्वं	४२२	नारदस्तत्समाकर्ण्य	४११	निजजात्यनुरूपाद्ये	५०७
नागश्रीविद्विताकृत्यं	४२३	नारदस्तद्विद्विताशु-	४००	निजते जोऽन्नविष्याम-	२
नागाः शेषेषु वन्नाम-	१८९	नारदागमनाच्चापि	४२१	निजदीक्षावने पठते	२१५
नागामुरैः सदा क्रुद्धै-	२५६	नारदागमहेतुं च	४१६	निजपापादयाद्दोष-	५४१
नागी नागश्च तच्छेदात्	४३६	नारदेन समारुह्य	४१६	निजमल्लं समागच्छे	३७१
नागेन्द्रस्कन्धमारोप्य	४६१	नारदेनैव धर्मस्य	२७५	निजराज्येन सक्तीतं	२३८
नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं	२४६	नारदोक्तमपाकर्ण्य-	२७५	निजवृत्तिविशेषेण	५६२
नातिहृत्सोऽस्य संसार-	९	नारदोऽपि वनं यातोऽ-	२६६	निजागमनवृत्तान्तं	२२४
नायः पण्डवनं प्राप्य	४६३	नारदो विशिखारुढो	२९७	निजागमनवृत्तान्तं	२२४
नायेति राघवं तव्य-	३२१	नारी च नरकान्ता च	१८८	निजास्व्यामिमामेन	३८०
नायो नायकूलस्यैकः	४८२	नाहंतानां विधादाय	४७४	निचाभिमुखमासीनं	२६६
नाधरस्याधराख्या स्या-	२७	नालंप्यते लपस्यास्य	२७	निचांसने सपासीनं	२८४
नासापलिभृगैः काख-	४५५	नावतो मण्डलं राहोः	५८	निचोऽङ्गानुभागाणा-	२१
नानाभुषणफलानत्र-	३०१	नावबोध. क्रियाभृगयो	४४५	नितान्तमर्थक्षामार्थ	२७१
नानाप्रभूतसुखाद-	४६	नाविदग्धाश्च गोपाला-	४४५	नित्यत्वस्वोपचारेण	४७९
नानामवनर्द्धकीर्णं	२९८	नावोचच्छास्त्रयाथात्म्य-	२६४	नित्यत्वेऽपि तयो.	१७८
				नित्यमिष्ट्वेन्द्रवामानि-	२५८

नित्यालोकधुरे श्रीम-	३९१	निर्नामिकमलब्धोक्तं	३६५	निषिद्धावपि तौ तेन	२८२
नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगत-	१७४	निर्मत्स्यन्तो बोद्धुः-	३१६	निषिद्धविषयांस्तस्मा-	५२३
नित्योत्सवाः निरातच्छा-	२००	निर्मुक्तिच्छिद्रमच्छिद्रं	१९९	निष्कम्पं तव शुक्लतामुपगतं	४४०
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्	५१	निर्ममं निरहंकारं	१८०	निष्कषायतयो बद्धा	४४८
नित्योदयो बुधाधीशो	५३६	निर्माय्य जिनपूजाश्च	५४४	निष्कारणं तृणल्यं च	५६६
निदानं मनसा भूढो	१६४	निर्मूर्त्याखिलकर्माणि	३९	निष्ठिता विफलातीति	२२९
निदानदूषितो बालतपा	१६७	निर्यातमिति वैषम्या	२७४	निष्पन्नसारवस्तूनां	२०२
निदानमकरोज्जीवितान्ते	४२४	निर्यातिसंहतश्लेष्मा	५००	निसर्गाद्रावणो हृत्वा-	३०४
निदानशाल्यदोषेण	३२६, ३२७	निलोपोऽम्बुदमार्गो	१३७	निस्त्रिधाशब्दः खड्गेषु	४६
निघाय मुनिपादाब्ज-	३९०	निर्वन्त्याभिमतं यज्ञ-	२८०	निःस्वेदत्वादिनिषिद्ध	४६२
निपत्याकीर्तिभीमार्तु-	३५५	निर्वाणगमनं श्रुत्वा	१२	निःसाराभूज्जेत्युक्ता	५४८
निमित्तैरष्टधा प्रोक्तै-	५५७	निर्वाणप्राघनं तेषां	४३६	निहत्य घातिकर्माणि	५५५
नियुक्ता दर्शयन्ति स्म	२२८	निर्वासितोऽहं निर्भत्स्य	३१३	निहतसकलघाती	१३१
नियोज्य स्वात्मजे राज्यं	२४०	निर्विघ्नं यज्ञनिर्घृत्तौ	२७६	नीतिविक्रमयोर्लक्ष्मी-	१४१
निरङ्कुशं न वैराग्यं	३०	निर्विण्णा सा निवृत्तापि-	३४१	नीतिशास्त्रेषु तत्स्नेह-	२५२
निरचिन्वंश्च सूपेन	२५६	निविद्य संसृतेः शान्ति-	१८३	नीत्वा पयोदभागैर्ण	३७७
निरषाक्षीदधिक्रिय	३१४	निविशेषोपदेशोऽहं	२६४	नीत्वास्वगुरुसामीप्यं	५४०
निरन्तराय संसिद्धौ	२५७	निविश्य तद्गतान् भोगान्	४०१	नीत्वैकवर्णां सर्वां	४४
निरन्तरोष्णेनिःस्वास-	५१९	निर्वेगश्रितयोद्भूति-	५७६	नीलाद्रिमिव गङ्गादे	२९९
निरस्ततद्गतस्नेह-	३२७	निर्वेगात्तापसो भूत्वा	२२२	सुखेचरसुराधीश-	२५४
निरस्ततिमिरादोषो	३६५	निर्वेदकारणं किञ्चि-	३८५	सृत्यत्कवन्धके सद्यः	३२०
निराकरोत्पुरात्तस्मा-	४७१	निर्गतः संसृतौ दीर्घ-	५५२	सुप्तं निवेद्य संगृह्य	२२४
निरीक्ष्य तत्र चेलिन्या	४८३	निर्विष्योदङ्मुखो वीरो	४६६	सुप्तं सामिनिवेद्यात्म-	२०३
निरीक्ष्य स्थाणुरेतस्य	४६४	निषिष्टं तं समाक्रम्य	१९१	सुप्तं स्वभृत्युमाशंस्य	४९६
निरुद्धं लब्धनिर्वेगं	५३३	निषिष्टो मनसालोच्य	४००	सुप्तः कदाचिदास्थानी	२५६
निरुद्धसर्वदुर्वृत्तः	४५७	निवृत्तिमेव संभोहा-	२७६	सुप्तः सुदर्शोद्याने	३५१
निरुध्यतामिति प्रीत्या	२७५	निवृत्तौ व्रतशब्दार्थो	२४४	सुप्तः सुरेन्द्रत्तास्यः	१६
निरुप्येन्द्रवचः सम्यक्	१९५	निवृत्याख्यां समाह्वय	३६	सुप्तचेतोहरैः श्रव्यैः	५५७
निर्गमय्य ततो जैन-	५४१	निवृत्यागत्य साकेतं	२०	सुप्तभावैदयत्स्वप्ना-	२४५
निर्गमेऽथ कुमारस्य	३५३	निवेद्य निजरक्षायां	३१४	सुप्तस्यैकशाय्या-	४९
निर्ग्रन्थो नीरजा वीत-	२०९	निवेद्य पोदनाधीश	१५३	सुप्तस्य मेघनादस्य	४०५
निर्जिता प्राग्विबुधिव्या	३५७	निशम्य मगधाधीशो	५४३	सुप्तस्यैकशाय्या	३३७
निर्जित्य दशरथः स	१३१	निशम्य यामशेयादि	२१४	सुप्तात्स्वप्नफलैस्तुष्टा	२०
निर्जित्य शृङ्खलाक्रान्त-	५४७	निशायाः पश्चिमे यामे	४९५	सुप्तात् भद्रासनालुढान्	२३१
निर्जित्य सिन्धुराराति	३०८	निशिताः पवतोपेत-	२६९	सुप्तेण सह सर्वेषु	५०५
निर्णीय चर्मसङ्क्रान्तं	३३७	निशुम्भो मारकोऽरीणां	२३१	सुप्तेऽनुबन्धवैरः सन्	११०
निदिष्टं च मया स्पष्टं	४६९	निश्चयव्यवहारस्य-	५५५	सुप्तेः खेचराधीशै-	१४८
निर्दोषा दीयतां वीर्ये-	५०४	निश्चितं कामभोगेषु	२९	सुप्तेः समादाय	१९६
निर्दोहं दाक्रमेणासा-	३६२	निश्चितो रावणः शौर्य-	२५६	सुप्तो घनपतिस्तस्य	५०८
निर्धनैः परलोकार्थं	३९५	निश्चेलः कृतभूवासो	१३६	सुप्तोऽप्यहं कथं तत्त्व-	२७४
निर्धय यस्य निजजन्मनि	८३				

सुपो मेघरयो नाम्ना ३५१  
नेत्रगोचरमात्राखिला- २८५  
नेत्रे विलासिनी स्तन्ये २७  
नेतुर्दुर्दुग्धयो हृदाः ८१  
नेन्द्रियैरात्मनस्तृप्ति- ३६  
नेम्यन्तरे खपश्वस्व- ४३५  
नेयानीत्यश्रवीकृष्णां ३७०  
नेया श्रीरागिणी चास्या- २१  
नेते शक्या रिनारकर्तुं २६६  
नेत्रं नेत्रं प्रप्रजिष्याव ५४४  
नेमित्तकं समाहूय १५३  
नोपमानस्तयोः कामो १६६  
न्यदिशन्नप्रतस्तस्मा- ३५६  
न्यषान्चारी तदादाय २९५  
न्यषादेकं प्रसायिष्वे- ३५८  
न्यबोधयन् समस्तं तत् ५०९  
न्यायाजितार्थसंतपि- ७१  
न्याय्यो द्वपः प्रजा धर्म्या- २०१

[ प ]

पङ्के पुनः समुत्थातुं ४३०  
पसादावर्षरूपेण ४६८  
पक्षे चित्राख्यनक्षत्रे ३८६  
पक्षैस्तावत्सहस्राब्दे- ४५९  
पञ्चकन्याणभेदेषु २५९  
पञ्चपत्न्योपमप्रान्ते १६३  
पञ्चप्रकारस्वाध्याय ५४१  
पञ्चसिर्वाप्यते मिथ्या- १५९  
पञ्चभिः सुद्वर्तैः पूज्यः १३६  
पञ्चमः क्षुरदेवाख्यः ३८८  
पञ्चमावगमेकं तं १८  
पञ्चमाधारभारान्त- ८१  
पञ्चमृष्टिमिथिलुञ्ज्य २०८  
पञ्चरत्नमयं रम्यं ३८५  
पञ्चलक्षसमाराज्य- १३०  
पञ्चवर्षसहस्राब्दकाले २०७  
पञ्चवह्न्यष्टपञ्चानिन- २२०  
पञ्चसंवत्सरातीर्षी ५४५  
पञ्चानिमध्यवर्तित्वं ४३६  
पञ्चाप्याराख्य तैःसूच- ४२३  
पञ्चाषाद्विसहस्राणि २२६

पञ्चाषादनुसृच्छायी १२६  
पञ्चाषालक्षपूर्वायुः २१  
पञ्चाश्रयं समापाप्यं १००  
पञ्चोत्तरशतोदितै- १७  
पट्टके सम्यगालिख्य ४८३  
पट्टबन्धं स्वपुण्येन ३५१  
पट्टबन्धेऽस्य सर्वस्य ३५  
पठच्छात्रत्रयस्यास्य २६२  
पतन्ति स्म पुनश्चेति ५४२  
पतन्मधुरसोमिभ्य- ५३३  
पतिः कनकपुङ्खाख्य- ४५८  
पतिः पदारथस्तस्य १२१  
पतिः पवनवेगाख्यो ५१२  
पतिभक्त्या निसर्गत्स- ३८०  
पतिमिक्षा ददस्वेति १११  
पतिमेव न ते तेन ३६४  
पतिर्जनरथस्तस्य १८५  
पतिर्जयधरस्तस्य ५१७  
पतिर्दशरथस्तस्य १२८  
पतिर्महाबलोऽध्यास्य ४९०  
पतिष्यति ततो विद्धि २७०  
पत्युः किन्नरगीतस्य ३५६  
पथि स्वाभ्यस्तथास्वाणि ५४५  
पथाखण्डपुरे श्रेष्ठि १०८  
पथगुल्ममखिलैः स्तुतं ७५  
पथनामश्च तत्रैव ५४  
पथनामः सुतो जातः ५४  
पथनीव तदाकर्ण्य २०२  
पथराजस्ततः पथ- ५६०  
पथलेख्यः दवसन्मासि- ८८  
पथसेनो महीशोऽत्र ९७  
पथानन्दकरी भास्व- १६६  
पथालयमुकुलकुल- ५७७  
पथावती च कौलीन्यं ५०३  
पथावती च देव्योऽमु- ३८३  
पथावतीनिमित्तेन ३०१  
पथावतीवियोगेन ३३७  
पथावत्या द्वितीयस्य ३४५  
पथावत्याश्च पुषोऽय- ३६३  
पद्मेऽस्यास्तुनं सातीव ३३  
पथोत्तरः प्रथमजन्मनि ९१

पप्रच्छ सोऽपि नैतेषु ३८८  
परतेजांसि ते तेजो १५  
परशाप्येवसेवैभि- ३५१  
परशाप्येन्द्रिक्काञ्चै ५५६  
परप्रयोज्यवृत्तित्वा ३१८  
परमेरितवृत्तीना ३२०  
परमात्मपदं प्राप्ता- २५८  
परलोकमनुष्ठातु- २६७  
परस्त्रीग्रहणं धौर्यं ३११  
परस्परानुकूल्येन १३३  
पराभुषात्र किं युक्तं २१२  
पराधर्म्यसुरित्त्वत्वा- ३७९  
पराधर्मग्रहणं नाम ३३२  
पराद्धं यद्धनं लोके २२५  
पराधर्म्यं पञ्चधा प्रोक्तं ४५४  
पराभव्यं परिप्राप्तो ३०२  
पराभवति माभेव ४३६  
परावगाढं सम्यक्त्वं ६१  
पराधृत्या कपर्तुत्यां ३०३  
परा वैश्वसुता सूनु- ४८६  
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं ४७८  
परित्युज्य ह्यं श्रित्वा १९२  
परित्यज्य तपः प्राप्य २६३  
परित्यागयितुं ब्रूहि ३००  
परिनिर्वाणकल्याण- ९०  
परिपीडयितुं बालं ३६७  
परिपृष्टे मुनिश्चाह ५४४  
परिप्राप्तोदयो रामो २८५  
परिस्रुतियदं नैध्या- ४७४  
परिभ्रमणभेतत्ते २६८  
परिभ्रम्य भवे भूयः १९३  
परिरथ्य करो ज्ञुप्ती २८७  
परिवारवना दृष्टा ५१६  
परिवारैश्च स प्रत्यग् २८०  
परिब्राजकदीक्षायाः ४४७  
परिब्राजकदीक्षायां ४४८  
परिब्राजकदीक्षाया- ४४९  
परिब्राजकदीक्षायां ४४८  
परिष्वज्यानुयुज्याङ्ग २९६  
परीक्षितभ्यः सोऽस्मात्सु १४६  
परीक्ष्य सत्या सम्फल्या- २८६

परीतां शिक्षापाक्षमाज-	२९९	पश्चिमे दिवसे सोमखेटे	४२	पिण्डतपिद्विलक्षेणः	७०
परीतः शिचिकां चित्रा-	३८५	पश्यतान्यानि च स्वैरं	१९०	पिण्डीकृतचतुःपष्टि-	१३१
परीतो भग्यपधानां	३८७	पश्यन् स्वदेव्यै राधायै	३४६	पिण्डीकृतत्रिलोकोक्त-	४२
परं च परितः प्रापुः	३१७	पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं	४९२	पितरं तं महीपाल-	४३५
परं चाश्वाद्यः प्रापन्	२५६	पश्यैतो कृतवेदिनी	४४०	पितरं वनराजस्य	५१६
परेण तस्मै भूमतां	३६९	पश्वादिलक्षणः सर्गो	२७२	पितरो तस्य सीधर्मः	८१
परेद्युः पापकर्माणी	४०८	पाकं प्रकल्पयामास	३५८	पिता गन्धर्वदत्ताया	५०५
परैद्युः समये पाणि-	३८५	पाकशासनमुखयाश्च	२०९	पिता तु पुत्रमद्वस्तु	४८९
परेद्युर्वत्सवेयास्य	४६६	पाण्डवा संयमं प्रापन्	४२४	पितामुष्य प्रभावेण	३७०
परेद्युहिमागिर्यंत्रि-	४३१	पातुं प्रविष्टस्तं वीक्ष्य	११३	पितास्यास्तद्वने रन्तुं	५१३
परं निस्तारकेष्वर्था-	३८०	पतितानां परैः सूक्ष्म	३८१	पितुः कैवल्यसंप्राप्ति	१०६
परैऽपि दोषाः प्रायेण	५५५	पाति तस्मिन् भुवं भूपे	८७	पितुर्मरणवृत्तान्तं	२२७
परैषां प्राणपर्यन्ताः	३९१	पाति तस्मिन् महीं नासीद्	१९	पितुर्व्योऽपि च्युतस्तस्मा-	८५
परेषा वास्यरूपादि	३३	पाति यस्मिन् भुवं जिष्णो	४७	पितुलेखार्यमध्याय	२९६
पर्याल्लवाख्यका वेगा-	१६५	पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः	२४६	पितृसल्लालितो घाली	२५०
पर्णादिवसनाः काल-	५५८	पाथेयं दुर्लभं तस्मा-	३९७	पितृस्थानपरित्यागो	२५०
पर्यटम्बहृभिः सार्धं	३५५	पानीयं खननाद्वह्नि	२४३	पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य	३९६
पर्यायिनतितं प्रेक्ष्य	३७१	पापं कल्पान्तरस्थापि	३१२	पिष्टकिष्वादिसंयोगे	२३९
पर्यायेष्वेव सर्वेषां	४९७	पापघर्माभिधानां	१५८	पीडा तिलातलीक्षुणां	४४५
पर्यायो राज्यभोग्यस्य	१६७	पापानुबन्धि कर्मद	३४४	पीडितोऽयं भवद्गुष्टे	१९१
पर्वतं वस्तुराजं च	२७४	पापापापोपलेपाप-	३६	पीतान्धरं समुद्रवृत्त्य	३७०
पर्वतस्तद्विपर्यास-	२७३	पापाभीरोरभद्रस्य	७७	पीनावप्रोभ्रतो मुस्थौ	२०६
पर्वताख्यो विषोः क्रूरो	२६३	पापबुद्धिमिथोऽवादी	४९६	पीत्वा स्वभ्रवसम्बन्ध-	५३
पर्वतोक्तं भयं हित्वा	२७४	पापस्वपतिना सत्यभामा	१६१	पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्वा	२३१
पर्वतोद्दिष्टदुर्माणं	२७६	पापास्तुमुल्लुब्धेन	५२५	पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको	१८८
पर्वतोऽपि पितृस्थान-	२६७	पापिष्ठाऽऽसहमानाऽसी	४८७	पुण्डरीकान्तपुरषो	५६४
पर्वतोऽप्यजशब्देन	२६७	पापिष्ठी श्रीनदीतीरे	१८६	पुण्यं त्वया जिन विनेयविषेय	५६७
पर्वतो मेपरूपेण	४१४	पापेवानेन मसिन	४७०	पुण्यघोषणकृद्दक्ष-	४२०
पलायत निजस्थानात्	४००	पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति	५	पुण्यपापफलेनापि	४७४
पलायमानो मानुष्य-	५३५	पापैः समानकुलाना	४५५	पुण्यप्रसाधनोपेता	५६
पलालवर्त्या सावेष्टथ	३८९	पारणादिवसे तस्मै	३८६	पुण्यवानस्त्वयं किन्तु	६८
पलायानगरे नाग-	४९३	पारताख्यमहीशस्य	२२२	पुण्यश्रियोऽयमजयत्	५७५
पल्थोपमायुष्कालान्ते	४०४	पारिपन्थिकवन्मार्गे	३१०	पुण्यहेतुविनैयाना	४६५
पल्लवोष्ठाः प्रसुनाढ्या-	१९९	पालकस्तस्य हेमाभो	४०३	पुण्याञ्जलायते वह्नि	४९२
पवमानात्मजं वाच्य-	३०५	पालको मारको वेति	५१	पुण्याद् दृढरथो वीर्य-	२०४
पश्चात्पञ्चशतैः सार्धं	४२५	पालनीयो त्वया भद्र	३६७	पुण्यान्ममादा सम्पन्ना	३१३
पश्चात्प्रसारिताप्राङ्गुली	३१८	पालयन्नन्यदा कान्ता	२७८	पुण्यैकबीजमवलम्ब्य	९५
पश्चादन्तर्मुहूर्तायु	१३७	पावनी स्तुत्यतां नीत्वा	५७	पुण्योदयात्क्रमेणाप्य	२३९
पश्चाद्व्यावर्णयामास	४३७	पाश्वर्शतीर्थसंताने	४६२	पुण्योदयात्सुरूपादि	१२१
पश्चात्प्रपुरे नन्द-	१९८	पिङ्गोत्तुङ्गजटाजूट-	२८४		
पश्चात्पदच्छतकोट्यण्डा-	२३०				

पुण्योद्योदितान् भोगान्	३४२	पुराणमपि सन्मार्गं	६६	पूज्यपाद त्वयात्रैव	४४९
पुत्रं पिताम्यनुद्योगं	२८३	पुराणश्रुतसंभूत-	४७२	पूरयन्छंदिगिहंसास	५०१
पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान्	५४	पुरातनमिदं धास्त्र-	२६०	पूरुगंचन्द्रः परित्यज्य	११२
पुत्रपौत्रादिभिः सार्द्धं	३४६	पुरादितीर्थकृत्काले	१०७	पूरुगामास्यं च पुष्यर्क्षे	१३०
पुत्रस्नानावसानेऽयं	५००	पुरा पूरुरवा भूत्वा	४५६	पूर्वकोटिमिताब्दायु-	५६१
पुत्रिकास्तस्य सप्तासन्	३५२	पुराहितः पुनश्चास्मै	२७८	पूर्वं तालपुराधीशो	२४६
पुत्रेणानेन सार्धं-	४७२	पुरी प्रापथ्य कान्तां स्वां	१७६	पूर्वजन्मस्मृत्येर्मघ-	११५
पुनो भूत्वाऽयं भूपस्य	३६२	पुरुषत्रतसंपन्न-	४१२	पूर्वद्वारादशशक्षेपु	२१
पुमानिकः सिन्धयश्चान्यः	२६५	पुरुषार्थत्रयं चैत-	३१९	पूर्वलक्षद्वयात्प्रायु-	६८
पुनः कुमार एवैकं	५३५	पुरुषार्थत्रयं तस्मिन्ने-	३९	पूर्ववैरानुबन्धेन	४३०
पुनः पितृनिवेशेन	३७५	पुस्वोत्तमनामा च	२५४	पूर्वसंभवमाख्याय	११३
पुनः पुरः ष्व गन्तव्य-	५२२	पूरुरवः प्रियास्यासी-	४४४	पूर्वाङ्गविश्रान्त्यूनलक्ष-	४१
पुनः पुरो गमिष्यामि	५२२	पूरुरवावनाधीशो	१४४	पूर्वाणा पश्चिमे भाये	४६८
पुनः प्रवृत्तसंप्रामाः	३८१	पूरुरवाः सुराः भ्राज्यकल्पे	५६४	पूर्वाणा लक्षया द्वीनं	३
पुनः प्राक्तनरूपस्यः	५२३	पुरे तस्मिन्बणिङ्मुख्यो	५०५	पूर्वानुपूर्व्यां वक्ष्येऽहं	३३९
पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षी-	१६५	पुरेऽत्र कवकादिके	९६	पूर्वापरविरोधादि-	७६
पुनः स विषयासक्त-	५४१	पुरे पाटलिपुत्राख्ये	५५५	पूर्वाषाढे माघमासि	७४
पुनः स्नानाविचोदावसाने	१८४	पुरेऽभुङ्क्षत्तश्चेण्यां	१८६	पूर्वाह्निं जन्मनीवाश्च	२३६
पुनरभ्येत्य रत्वानि	१०८	पुरे राजगृहे पुण्या-	३५१	पूर्वापात्तन्नतस्येष्टं	५५४
पुनर्जननमतिक्षान्ति-	४०४	पुरेव पुरुदेवं तं	२०३	पृथक्त्रिगोबनिर्णातिशक्ति-	७९
पुनर्मन्याश्रमं गत्वा	३५०	पुरे श्वेतविकानाम्नि	३९४	पृथक् पृथक्त्वं साक्ष्येयं	२८
पुननिश्नुकम्पश्च	३९४	पुरे सिंहपुरे ख्यातो	३३९	पृथक्पृथक्बहुरत्नेन	५६२
पुनविहृत्य सद्यमं	१३७	पुरेऽस्मिन् पृष्ठीकीकण्यां	२५	पृथिवीसुन्दरी नाम्ना	५२२
पुनस्तदेव यात्यन्ति	५५८	पुरोधसि क्रमात्सुवान्	४२१	पृथिवीसुन्दरीमुख्याः	२३९, ३२५
पुनस्तयोरमुद्युद्धं	३१०	पुरोधः रथपतिः सेना-	२०७	पृथ्वीपथप्रवृत्तान्य-	४२०
पुरं चक्रवर्जस्तस्य	१६३	पुरोहितस्तदाकर्ण्यं	३२६, ४९६	पृथो तस्मिन् रजः क्षोमे	३१९
पुरं प्रत्यागमे सत्य	५१६	पुरोहितो गृहपति	२४९	पृष्ट्वा ता प्राक्तनं वृत्तं	४८६
पुरं प्रविश्य चक्रस्य	२४९	पुष्करद्वीपपूर्वादे-	७१, १७५	पृष्ट्वा विज्ञाय तत्सर्वं	२२६
पुरं प्रविश्य भूपोक्ते	२८०	पुष्करादेन्द्रदिव्यभाये	६६	पृष्ट्वा सहेव गत्वासौ	४९१
पुरं प्रविश्य सन्नतैः	५५१	पुष्करादेन्द्रदिव्यमेघ-	७९, ८७	पोतप्रस्थानकालेऽस्या	५४१
पुरं विनरसंचार	४८९	पुष्कल प्राग्भवायातं	२२	पोतभूतं भवाञ्चि तत्त-	३१२
पुरं विवनावभुस्तस्य	२६२	पुष्कला पुष्कलावत्यो	१८९	पोदानख्यं पतिस्तस्य	१४४
पुरं सुरेन्द्रकान्तार-	१४३	पुष्पकाख्ये वने तौ च	५१३	पोदानख्यपुरे चन्द्र-	४२१
पुरं सीमसलं नाम-	३०	पुष्पचूलाह्वयो तन्दन	३९२	पोदानधिपति स प्रणाम	४५२
पुरः सन्निहितं षड्वा-	२७५	पुष्पदन्तादयः पञ्चाश-	२४७	पोदानधिपतेर्मूर्ध्नि-	१४९
पुरगोपुरनियणि-	४१६	पुष्पनेत्राः समुत्सुङ्गा-	९९	पीरवासकसंधातै-	३५०
पुरमेकं तनुस्थित्यै-	२६१	पुष्पाङ्गरागभूपवि-	२०१	पीर्यामास्या धनिष्ठायां	८३
पुररक्षकमाह्वय	२५१	पुष्पोत्तरविमानेऽसी	८०	पीर्यामास्यामवापायं	१५
पुरा वैपु व्यतीतेषु	२७३	पूजा निर्वर्तयन्म्रष्टु-	४३२	पीपासितैकदश्यां सा	५६
पुराणं तस्य वक्ष्येऽहं	१	पूजां विधाय दत्त्वात्म-	५४४	प्रकटीकृततन्मायो	१२
पुराणभूपमार्गस्य	९४	पूजां द्विस्त्रिंशया विन्दुः	४८३	प्रकटीकृत्य तौ भूतं	१८८
				प्रकाशयन्त्या-स्वात्त-स्वं	४१२

प्रियमित्राय पुत्राय	३३५	फाल्गुने मासि चित्रायां	३७	बली तलप्रहारेण	४५०
प्रियमित्रोऽधो धर्म	३५१	फाल्गुने शुक्लसप्तम्यां	६४	बलीन्द्रामिषया ह्यातो	२४१
प्रियाजनि सुमद्राख्यां	३५२	फाल्गुने श्रवणे कृष्ण-	२४७	बलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा	२४२
प्रियां जयावतीं प्राप्त-	८८	[च]		बलेन महता योद्धुं	५१६
प्रिया तुम्बनराजोऽस्या-	५१३	बज्रायुधे समारोप्य	११५	बलोऽपि तद्द्विगोत्व-	१०४
प्रिया वसन्तसेनापि	१८३	बद्धः सिहरथः कर्म	३६३	बहवोऽस्यायुधोऽभूव-	४९५
प्रीतः प्रीतिकरस्तत्र	५५२	बद्धदेवायुषोन्यायु-	४७२	बहिस्तवया न गन्तव्य-	३५५
प्रीतिः सैवानुभूतिश्च	५९	बद्धो बहुविधैर्बन्धै-	४५५	बहिः स्थितः कुमारोऽसौ	४८७
प्रीतिकरः पुरे चर्या	११६	बद्ध्वा तत्कारणैस्तार्थ-	२१३	बहुबाहुः सहस्राक्षो	२०
प्रीतिकरवने सर्वगुप्त-	९७	बद्ध्वायुः क्रोधलोभाभ्या-	३४७	बहुभिः सह संप्राप्य	२५०,४०८
प्रीतिकरापि निर्वेगात्-	१८३	बद्ध्वानीसवते देश-	३६३	बहुयोनिपरिभ्रान्तो	१२०
प्रीत्यप्रीतिसमुपननः	१०४	बद्ध्वा बलिनमुद्वृत्तं	३५९	बहूनि रत्नाभ्यादाय	३७८
प्रीत्या षोडशमानाभि-	२८१	बद्ध्वायुराप दृशमश्रुय-	४२७	बाजिनोऽत्र समुच्छिन्न-	३२१
प्रीत्या सुरवैरै साद्धं	२०४	बन्दिमागघसूतादि-	३५३	बाणपातानुरेषां च	५०१
प्रीप्रसो तस्य नन्दाख्या	३९५	बन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्-	२४४	बाधाभावादरक्षत्र	४४४
प्रीप्रान् ममैक एवासी	१०	बन्ध्यास्तर्नघयस्येव	२३९	बालकं वर्धयिष्याव	३६५
प्रीरितास्तेन मार्गेण	११०	बन्धवो बन्धनान्येते	१९०	बालक्रीडाविशेषैस्तं	४१७
प्रीषणं युवयोरेत-	५५०	बन्धहेतुफलज्ञानं	५७६	बालकोऽप्यमिति ज्ञान-	२२६
प्रीषितः श्रीमता तेन	१६९	बन्धुः कः को न वा बन्धुः	१०७	बालचन्द्राविसुस्वप्न-	२०२
प्रीषयामास कंसारिः	४०२	बन्धुभिः स परित्यक्तो	१०३	बालवद्वेलया वेलं	९५
प्रीषयामास तं दृष्ट्वा	३६३	बन्धुभिर्यां त्वमेवैका	१७२	बालार्कसंनिभं बालं	२०
प्रीषिताः खचराघोशाः	३१५	बन्धुं विसर्ज्य प्रायोप-	३४२	बाल्लोकान्तरार्पितं	३१४
प्रीषितावनु तेनेत्वा	५१४	बन्धुसर्वान्शमाहूय	५२६	बालिसुग्रीवनामाना-	२९७
प्रीकृताः पञ्चदशैतस्य	१५८	बन्धो मोक्षश्च राढान्ते	४४५	बाली कालानुकारी तं	३१०
प्रीर्द्ध्वन्ताः कंसमल्लाश्च	३७२	बभञ्ज सत्यभामाया	४१६	बाहू बहुतरं तस्य	२०५
प्रीर्द्ध्वन्तैर्वन्तमनोऽजनि	११४	बभार भास्वरां लक्ष्मी	९३	बाह्यं पुरवरोद्याने	४९९
प्रीर्द्ध्वन्तैर्वन्तमनोऽजनि	३२४	बभूव क्षीणपुण्यस्य	३२७	बाह्यैर्येवचः श्रुत्वा-	२६१
प्रीर्द्ध्वन्तैर्वन्तमनोऽजनि	३२८	बभूवतुरहीन्द्रश्च	४३७	बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः	१३७
प्रीर्द्ध्वन्तैर्वन्तमनोऽजनि	३७१	बभूव स्यविरारूप-	२८८	बाह्येतरद्विषद्भेद-	१४८
[फ]		बभूवास्याः पतिः पंक्तैः	४४६	बिलाश्रित्य नागश्च	४१५
फणिवैद्यास्तदाकर्णं	५०८	बभूव प्राणिनः कम्प-	२७४	बीजजासौ पदार्थानां	४७३
फलं चेदस्ति चर्याया	१३२	बलं कलकलं किञ्चि-	३१९	बुद्ध्यादिकर्द्धयस्तस्य	३५०
फलं जैनमूनेवैविच-	२७०	बल परशुरामः स्वं	२२८	बुद्ध्वा ततः स निर्यातो	११८
फलं त्रिलोकसाम्राज्यं	६३	बलकेशवमुख्याव-	३८६	बुद्धिः शक्तिमुपाय च	२८२
फलं स्वानिमिषत्वस्य	१३२	बलते गोमहाविक्रियाभिः	५०	बुद्धिपूर्वा क्रियाङ्गा-	२३९
फलमत्यकार्यचर्वाणा	२२६	बलदेवश्च संप्राप्य	३८७	बुद्ध्वा सपर्यय सर्वं	१३८
फलप्रसवहीनं वा	२८३	बलस्थाष्टसहस्राणि	३८३	बुभुक्षामीडितोऽप्येष	५४०
फलान्यनुक्रमात्तेषां	२१४	बलाख्यमुख्यपञ्चान्त-	४२	बुभुक्षुमतिरं भोवतुं	५४०
फलेनाधोगतीः सर्वाः	४४८	बलाकारेण तां तस्माद्	२८५	बुभुक्षुस्तत्र विप्रोऽसौ	४७५
फलेनापि समासेन	२७१	बलावष्टम्भलिघावनो-	३१८	बोधस्तवाखिलत्रिलोकन-	५६८
फाल्गुने कृष्णसप्तम्या-	६०	बलिना सह युद्धस्य	५२४	बोधादयो गुणा. स्वेऽसौ	१३०

बोधित. समतीतात्म-	३८६	भरतः सागराह्वोऽनु-	५६४	मन्वोऽथ व्रतमादाय	५५१
बोधिता ह्य देवेन्द्रा.	२३६	भरतार्धमहीनाथो	३८३	मन्वोऽप्यमिति तं मत्वा	४७१
बोधी श्रद्धा विशेषस्य	२२४	भरते कोऽथ पाश्चात्स्यः	५३१	मन्वो व्यस्तैः समस्तैश्च	१४७
ब्रह्माकल्पाधिपो ब्रह्मा-	५३१	भरतो दीर्घदन्तश्च	५६९	भागयाचनयात्रादि-	४२२
ब्रह्माकल्पादिहागत्य	११८	भर्ता गन्धर्वदत्ताया-	३५९	भागे ज्यन्तदेवस्य	२१९
ब्रह्माकल्पेऽभवद् देवो	११८	भर्तुः सुवर्णवर्णस्य	३	भागे मनोहरे यामे	२११
ब्रह्मास्तोकात्तदाभ्येत्य	३	भर्त्सयन्ति स्म चापत्यात्	५०६	भागे विशाखनक्षत्रे	४३८, ४३९
ब्रह्मवत्करदौ गैतौ	९४	भर्मस्तुतिर्भवत्त्वसी	४६१	भाजन भोजनं शय्या	५३
ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे	२०२	भवत्. शत्रुरूपज्ञः	२२७	भाण्डागारावलोकार्थं	१११
ब्रह्मोद्भोऽप्य दिवोऽभ्येत्य	५३१	भवता परिपृष्टोऽयं	५२७	भाति पिण्डोद्भूतो भर्तु-	६१
ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्ता	१६३	भवतापि महाश्रीत्या	४८४	भानानुदयमायाति	२९१
ब्रूहि किं कर्म पुण्यं मे	२७०	भवतीभिर्वराकौभि-	३१५	भानुमान् वन्धुपद्माना	४६१
ब्रूह्यन्यमिति तद्ब्रह्म-	२२३	भवतोऽपि नमैः कृच्छ्र-	१४४	भार्या जयावती श्रीमती	४९९
[ भ ]		भवतो विप्रकन्याया	४७२	भार्या तयोर्भूभाग-	५४३
भवत्या दमवराख्याय	१८७	भवत्यचेतन किन्तु	४३२	भार्या तो शङ्खशैलस्था	१९२
भवत्या प्रदक्षिणीकृत्य	४५८, ५०२	भवत्या. स नमिर्नाम्ना	४००	भावयित्वा भवर्ष्वसि	४५९
भगलिर्भागलिर्द्वैपायनः	५६१	भवदेवोऽप्युपागत्य	५३९	भावयित्वा यमो दीक्षा	४५०
भगवन् किञ्चिच्छामि	१६०	भवद्भ्राषा बृहन्नावा	१५७	भावसयमविष्ण्वस्ति-	५४२
भगवत्यत्र को दोषो	३०४	भवद्भ्यामेव तद् ज्ञात्वा	५५१	भावानामनुमानेन	४७७
भगवन्तावह पूज्यौ	३४०	भवद्भिः कैश्चिदप्याभ्या	४०७	भाविचक्रप्रवर विद्धि	३६६
भगवन्मदगृहं द्वौ द्वौ	३८८	भवन्तं भगवन्दृष्ट्वा	५३९	भावि चक्रिप्रभावेन	३६५
भगवन् वासुदेवस्य	४१९	भवन्मृत्यकला कल्या	१७०	भाषितादार्यिकाः शून्य-	२१६
भगवान् वर्धमानोऽपि	४६६	भवत्सुरूपित कार्यं	२८६	भाविनी रावण हन्त्वा	२७७
भगोरथोऽपि तान् गत्वा	१२	भवस्थितिवशाद्बद्ध-	४७३	भाव्यनामान्त्वयाभाषी	४१९
भङ्गेन मार्गात्प्रच्युत्य	२६५	भवत्तपपरिस्नान-	१००	भासमानो नवो बोभो	३१७
भट्टैः परस्परस्त्राणि	३८१	भवत्प्रसापमित्पाह्य-	५००	भास्करस्स्योदयाद्वाञ्छ-	३८२
भट्टारिके खगेन्द्रस्य	३००	भवान् रवत तयोश्चित्तं	४८३	भास्वतेव जगद्येन	५५७
भट्टारिके बदैतत्ते	५११	भविता कथमस्माकं	५०३	भिक्षा कुबेरदत्ताह्यः	५४४
भद्र तमस्थादावृत्य	४३८	भविष्यति कृतप्रेषणस्य	२९८	भिक्षाचरमथान्येद्यु-	१९२
भद्रत्वात् बहुदानत्वात्	१२९	भविष्यति महादेवी	३९६	भिक्षार्थं देवकीगेहं	३६४
भद्र द्वादशवर्षान्ते	४१९	भविष्यतीति यत्प्रोवतं	२४२	भिक्षवत्वेच्छून्यताप्राप्ति	१७८
भद्रमित्रवर्णिक्	१२०	भविष्यद्बलदेवोऽपि	२९७	भिया भियेव कौपेन	२५३
भद्रमिमोऽपि पापेन	१०९	भविष्याभ्यहमप्युद्यत्	५६३	भिया स्नेहेन लोमेन	४१३
भद्रमिमोऽपि पुत्कारं	१०८	भवेच्चिववुकमन्येषा	२०५	भियक्प्रायोऽनितोऽर्यं.	६
भद्रान्तगुणवीराभ्या	३६१	भवे भाव्यत्र नवमे	१६४	भीत्वा धावन् तदैकस्मिन्	५४१
भद्रिलाल्यपुरे देशे	३९४	भवे भ्राम्यत्यविश्राम्यन्	३३४	भीमसेनोऽनुपार्थदेव	३४६
भद्रैया कामरूपस्य	३४६	भव्य सखितपूर्वं ते	४६९	भीमस्य भोजनाद् गन्ध-	४२१
भयंकराक्षयपल्लोक्ष	४८५	भ-यभूपसहस्रेण	४५९	भीमा वैतरणी तत्र	४५५
भयादिव तर्महोऽरि-	२१३	भव्यात्पनापरमनिर्वृत्तिसाध-	५६९	भुवःमेव पुनर्भुवतं	३६
भयेन लज्जयाराम-	२९३	भव्याना कल्गुक्षाः स्यु-	५६४	भुक्त्वा कोपद्वयापेतं	१३
भरत. प्रथमो देश-	१८८	भव्यानुपहृमुक्षयारम-	३२६	भुक्त्वा ततः समागत्य	४४-
		भव्ये भगलिदेशेक्ष-	११	भुज्यमानेषु वैरस्यं	३१



भुञ्जाना इव सप्रास	३१७	भोगभूभूतभोगादि	१३९	मत्वा मर्कटकान् काश्चित्-	३५४
भुञ्जानो निःप्रवीचारं	३४३	भोगानुभव एकास्मै	२१३	मत्सुतां मामिनीवास्य	४५२
भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा	५००	भोगोपभोगद्वारेण	२९१	मत्स्यस्य मन्दिरधामे	३९३
भुवनत्रयसंक्षोभ	४४७	भोगोपभोगयोर्म्योर-	५७	मत्स्वामिनो महादेवी	३०३
भूखेचराः कुमारैण	३६०	भोजनावसरेऽप्येद्यु-	१५१	मथुराया बहिर्भागे	४१६
भूत्वा भवनवासीन्द्र-	४०४	भोजयित्वाय तद्दाना-	४८६	मदनादिलतायाश्च	५१३
भूत्वा वने भ्रमन् मतो	११३	भो भवद्भिः कुतो लब्ध-	३७८	मदनालसंतपत्-	१८२
भूत्वा वृषभसेनस्य	४९३	भोमोपाध्यायसानिध्ये	२६८	मदनोद्दीपनद्रव्यै-	२०१
भूत्वाऽधुरी तमभ्येत्य	१८४	भ्रमन् विशाखनन्दी च	८५	मदनोद्दीपनद्वेषी-	२९९
भूपः कोऽपि पुरा श्रिया	२५०	भ्रमराः कञ्जकं मुक्त्वा	२८८	मदीयमेतदित्युक्त्वा	५५१
भूपतिः पद्मगुल्माख्यो	७१	भ्रमित्वा भवकान्तारे	६७	मदीययागरस्यार्थं	२५६
भूपती तौ तयोर्नृत्यं	१६७	भ्राता तस्य सुमित्राख्यो	५११	मद्भाग्यादिति-निर्मिद्य	३०३
भूपतेरशतैः पातो	१५२	भ्रातो जातिजराभ्यु-	४५६	मद्भर्तुः कुशलोदन्तं	३००
भूपाल भूपतिरसह्य तपो	२३०	भ्रात्वा क्रमेण सन्नित्य	२३१	मद्यमासनिवृत्तेश्च	१४४
भूपालो नाम संग्रामे	२२२	भ्रात्वा ततो विनिर्गत्य	५६५	मद्योग्यवस्तुस्वीकारा-	३०७
भूभूत्वमर्थवत्तास्मिन्	७९	भ्रान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्य-	३४८	मद्युक्तीडवयोरेव	४०९
भूमिसंशोधने लाङ्गलाग्र-	२७९	भ्रामर्या भोगिनीत्यादि	१६५	मद्युपैवचपलैर्लोलै-	५९
भूमिस्थानादिभेदेन	१५०	भ्रामन्सशारकान्तारे	५३५	मधुरं बहुलञ्चान्य-	४९९
				मधुरादिसहायैश्च	५२४
भूमौ सिंहपुरे जातो	३४१			मधुरापि तयोर्जाता	११३
भूमयः संसारभौरूपा	७६	[ म ]		मधुरा रामदत्तानु-	११९
भयोदस्माकमप्येव-	२०९	मकारादिभयं तत्र	१५१	मधुरेण मृगाणा च	५०४
भूयान्मे चक्रवर्तित्व-	२२२	मघवान्नाम पुण्यात्मा	१३४	मधुः सरवं समुत्सृत्य	१०४
भूयो निवर्गयामास	३६८	मघाया चैत्रमासस्य	३०	मघोः केनापि भूपे च	१०४
भूयो विफालनोन्नाद-	३८४	मघाया श्रावणे मासि	२६	मघ्याह्ने भूभृतां ध्वंसः	५५८
भूरिनीरभवानेक-	२०१	मघाश्शशानि वैशाखे	३०	मध्ये तस्य गिरिर्भाति	१३९
भूषणाना कुलं लेभे	२०७	माहृक्षु दूतमुखादेत-	२९५	मध्ये तस्य विनीताख्या	५४५
भूषणायैव सालोऽस्याः	४४५	मगलाभिषवाविष्ट-	४३४	मध्ये प्रवर्तते तस्मा-	३७९
भूसुवर्णादिभूमिष्ठ-	७७	मङ्गलैश्च प्रबुद्धघाशु	४६०	मध्ये रङ्गमुदात्तचित्तविसरो	३७२
भूसुवर्णादिभूमिष्ठ-	७७	मङ्गो बर्वेत्याकुलो माता	३८९	मध्ये वनं परिक्रम्य	२८७
भूत्यान्महीपतिः स्नेहोत्	३५५	मञ्जनन्यनुबादीना-	१५५	मध्ये विधाय गत्वा द्राक्	३१२
भूत्यो दृढप्रहाराख्यः	३८९	मञ्जूषायां विनिक्षिप्य	२६०, ३६२	मन.पदर्थसंज्ञानः	१६, २५२
भूत्यो वृषभसेनस्य	४९३	मणिनेतुः पुनश्चास्य	१०	मन.पदर्थसद्बोध-	२१०
भूत्येस्ततस्तमानाय्य	५०६	मणिमतिः खचरी गुणभूषणा	३३०	मनागदवरारक्षी	३००
भेददण्डो प्रयोजितव्यो	३०४	मतिः श्रुतं तप. शान्तिः	४४८	मनुष्यजन्मनः सारं	८
भेदोऽद्रेः फणिमण्डपः	४४१	मतिरस्तु ममैषाल्पा	४४३	मनुष्यजन्मसंप्रार्त्तं	५१५
भोक्तुं बीरपुरं तस्मै	३३५	मत्करे विद्यते यस्मै	५२१	मनुष्याः संज्ञिनस्तिर्य-	५६२
भोक्तव्यमिति निर्दंन्वा-	५४०	मत्वेति ताम्यो दत्त्वेष्टं	४८	मनुष्याणां परञ्चायुः	५६२
भोक्तव्यमिति विप्राय	४७५	मत्वेति वा द्रुतं पेतु-	३१७	मनुष्याणामनाचार-	५६०
भोगत्तणाभयास्याशु	४४९	मत्प्रिया पुत्रलाभार्थं	३६६	मनोबावकायवृत्तेन	१५८
भोगनिर्वेगयोगेन	४५८	मत्पुत्रस्य युवां क्षन्तु-	१५७	मनोबावकायसंशुद्धि-	१९१
		मत्पाकृष्य घनुषाणि-	२६३		

मनोवेगोऽन्यजन्मोऽद्य- ४९३  
 मनोहरमहोद्याने ८२, ११५  
 मनोहरवनेऽगच्छत् १७६  
 मनोहरवने धर्म ५४  
 मनोहरवनेद्याने ११२, ४९५  
 मनोहरादिवरामभिः ५०३  
 मन्त्रशाला प्रविश्यात्म २८५  
 मन्त्रिणैव कृतं सर्व- २४१  
 मन्त्रिवर्गं समाहूय १४२  
 मन्त्री चिर जननवारिनिधी २४३  
 मन्त्रोत्साहप्रभूता च २८२  
 मन्त्रौषधिप्रयोगेण ५४१  
 मन्त्राधिप्रतिकुलेषु ५३०  
 मन्दागन्धवहोद्भूत २९९  
 मन्धमन्धप्रभे भानी २९९  
 मन्दराग ध्वोतुञ्जे २४०  
 मन्दरादिगणाधीश १००  
 मन्दसान्निधयोः पित्री ५१८  
 मन्दारप्रसवारत्न- ३०१  
 मन्दाशुभानुभागोऽयं ४१  
 मन्दिराब्धेऽपिनिम्नाह्यो ४४८  
 मन्दिराया जगत्ख्यातो ४४८  
 मन्दोदर्या कुर्ण रूपं २५९  
 मन्दोदर्यादितद्देवी ३२२  
 मन्दोदर्युपस्थास्या ३०८  
 मन्मे नैसर्गिकं तस्य ५२  
 मम नेत्रालिनो. प्रोत्थै २८७  
 ममागमनमेतच्च २६८  
 ममापि युवराजत्व- २९७  
 ममायमकरोधीदृक् ३४८  
 ममास्य च गुरुर्नान्यो २७१  
 ममेति मन्थमानोऽन्य. ३१९  
 ममेति शेषमप्याह- १५६  
 ममेदमिति भात्यैव ३०३  
 ममेव सर्वरत्नानि ३०७  
 ममोपकारकावता- २२४  
 मया कृतो महामोक्षः २५४  
 मया तदुत्समित्येत- २६५  
 मया त्रैलोक्यराज्यस्य २७  
 मयानीतमिदं देवी- ३०३  
 मयार्थालभं निश्चित्य १५१

मया विनाऽऽस्यशोभा स्या-२७  
 मयूरशीवसंज्ञस्य ८५  
 मयेयं कन्यका तस्मै ५०८  
 मयेत्येवं यवि त्याज्यं ४६९  
 मयैव सुलसा हेतो- २७६  
 मरीचिरेष दुर्मर्गि- १४४  
 मर्त्याकारं प्रपन्नो वा ५०१  
 मर्यादाकारि यत्तस्मा- २०६  
 मलघारी परिभ्रष्ट- ३५०  
 मलयाधिपचण्डशासनो १२७  
 मलयाधीश्वरो नाम्ना १२४  
 मलयानिलनि.श्वासा ७१  
 मलये कुञ्जकाख्याने ४३०  
 मलिनाः कुटिला मुग्धै. ४६३  
 मल्लिनिजविवाहार्थं २३५  
 मल्लिप्रभृतयोऽभूव- २४७  
 मल्लैर्जनस्य संतानेऽ- २३८  
 महाकालेन दृष्टः सन् २६८  
 महाकालोऽप्यभिप्रेत २७६  
 महाकालोऽभवत्तत्र २६२  
 महागुणेषु यत्सत्य- १०३  
 महाजलाशया नित्य- १९९  
 महाहु खोमिसंकोर्ण- १५७  
 महादेवी च तान् दृष्ट्वा ५१८  
 महाद्वारेण सप्राप्य ५३८  
 महानुदयनस्तस्य ४८२  
 महामर्मैव योगोऽसौ २४१  
 महापुराणवाराधि- ४४३  
 महापुराणस्य पुराणपुंसः ५७७  
 महापुराणिपाद्याश्च २७५  
 महापुरे वायुरथो महीपतिः ९६  
 महापूजा सदा कुर्वन् १६४  
 महाप्रस्थानकर्मणः ४२२  
 महाफलप्रदास्तुङ्गा १९८  
 महावलमहोद्यस्य ४८८  
 महाबलाख्यः पुरि नन्दने नृपः १२७  
 महाबलोऽभवत्सूनु- ७  
 महामये वा संप्राप्ते- ३१९  
 महामयेषु सन्धुं २३३  
 महाभागाहमर्थां त्वा ३५८  
 महाभिमानसाहित्य- ४६७

महाम्युदयसंपादि- २८३  
 महामणिखिवाम्भोवी २०४  
 महामल्लो बहून् जित्वा १३२  
 महामोहग्रहप्रस- १०९  
 महायतिः समुत्तुङ्गः १२५  
 महायोगात् प्रतिज्ञातात् १७७  
 महारत्नपुरे विश्व- १४२  
 महास्तोऽपि तत्रैव ७  
 महावशो मही तस्य २३३  
 महाविभूतिसपन्नः ५८  
 महाविभूत्या प्रत्येत्य १५६  
 महाविभूत्या संप्राप्य १४५  
 महाजतमहासाम- ४६५  
 महाशिलाखिलाङ्गानि- ४१०  
 महाशिलाभिस्तैः सर्व- ४१५  
 महाशुक्रविमानेऽभून्म- ८८  
 महाशुक्ते ततो देवस्त्रि- ५६५  
 महाशुक्ते ततो देवः ५६५  
 महाशुक्ते विमानेऽभूद् ११४  
 महाशुक्ते समुत्पन्नाः ३९४  
 महासेनस्य सुन्दर्या- ५४६  
 महीपतिगृहं देवीं ४९६  
 महीपतिः सुवर्णामः २२०  
 महीभुजः परे चाति- ३५५  
 महीभुजौ निशाम्यैक १६५  
 महीभयोऽप्युपायेन २८६  
 महीघट कोटरस्थेन ५३३  
 महीघंमण्डले सान्नेते २५९  
 महीघोऽस्वपुराधीशो ४३१  
 महेश्वरालकानीत- ४४७  
 महेश्वरविक्रमस्येष्ट- १८२  
 महेश्वरविक्रमाधैषा ४०३  
 महेशीगो विवातस्यो २८२  
 महोपसर्गं पूज्यस्य ३४७  
 मह्यं मनोहरोद्यान ४४९  
 मां निविष्टं समग्येत्य ४३७  
 मा भोजयेत्युवाचैत- ५२१  
 मासाद्याहारसंस्क्तो ४७४  
 मा कृषा पापदुःखाप- ३१२  
 मागवादीन् सुरान् जित्वा ३८२  
 मागवोऽपि धारं वीक्ष्य ३२३

माघज्योत्स्ना त्रयोदश्या	१३०	मासीनवत्सरे याते	२४७	मुहुविभूतमूर्धानः	३१८
माघशुक्लचतुर्थ्यां सा	९८	मासीः षोडशमिः पञ्च-	२, २६	मूढः प्राणो परां प्रौढि-	३०
माघशुक्लचतुर्थ्याहः	९९	मासीः षोडशमिः साह्-	१९८	मूढात्मनः स्वयं चैत-	३३६
माघे मासि सिते पक्षे	४	मा हासः कुलसीरूप्य-	२८९	मूलभेदेन तान्यष्टौ	२२४
मातङ्गास्तुङ्गा देहत्वा-	३१८	माहेन्द्रे दिविजी भूत्वा	४०१	मूलात्प्रभृति भूजस्य	४६२
मातरः केवलं नैताः	३९०	मित्रबीरो वनेशस्य	४८५	मूलान्युत्खन्य संगृह्णन्	३४७
मातापिनला च तस्यैव	४०९	मित्रस्य रुद्रदत्तस्य	३४८	मूले क्षुपविशेषस्या-	३४७
माता ते दाम्भत्यन्ते	११३	मिथिला प्राविशत्तस्मै	२३६	मृगाः काञ्चिन्न बाधन्त	५५०
माताऽपराजिता केशवती	२४१	मिथिलायां महीपालः	३३२	मृगानितस्ततो घोरं	३८५
माता श्रीनामदत्तस्य	४९३	मिथ्यात्वं संयमाभावं	१४८	मृगावत्यामभूत्पुत्र-	४४१
मातृषां यमुनादत्ता	३८८	मिथ्यात्वाज्ज्योतिषा लोके	२२२	मृगोऽगाद्वायुवेगेन	१५३
मात्रा संयोजयत्याह	५१७	मिथ्यात्वोदयसंभूत-	१५८	मृग्यमाणो हि मे वल्ली	५१०
माघे मासि सिते पक्षे	१००	मिथ्यापापपावादाभ्या-	२७४	मृताः केचित्पुनः केचित्	३२०
माघे शुक्लपक्षान्ते	१२८	मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त	४८०	मृतिप्रयोगसंपादौ	२७०
मानभङ्गः सपत्नीषु	२९०	मुक्तावलीमुपोष्यासी-	४०२	मृत्युं वा घर्मचक्रेण	१७१
मानभङ्गेन भग्नः	१३२	मुक्त्वा विधाय संधानं	५४७	मृत्वा जाताष्टमे कल्पे	४०२
मानसः च त्रुर्भेद-	१५९	मुक्तिमार्गं नयन् भग्य-	२३७	मृत्वा तत्रैव कालान्ते	१५१
मानस्त्वस्मा सर्गस्येता	१७२	मुक्तिमार्गं समाश्रित्य	७६	मृत्वात्र खगशैलोदक्	११८
मानुषाणां सुराणा च	४६१	मुखाभ्मोजानि सर्वेषा	४६१	मृत्वा महेंद्रकल्पेऽभू-	५४२
मानुषोत्तरमुघ्नान्ति-	१८८	मुखेनाभ्मोजमक्षिभ्या-	१४१	मृत्वा पुलिन्दीसंजाता	४०२
सा भैषीरिति सीहार्द	४५०	मुख्यसर्वज्ञसंसिद्धि	४७७	मृत्वा संप्राप्य तद्द्वन्द्वं	५१२
सा भैषीरत्वं वराकोऽसौ	३९०	मुखे फणीन्द्रनिश्वास-	२९१	मृत्वासावसुरेन्द्रस्य	२६१
सा माया मा वृथा यामा	११	मुख्यतां मङ्क्षिचर्यं याव-	२९४	मृत्वा ह्रैमवते भूत्वा	४०५
सामिहान्योऽहमप्यन्त-	३८३	मुद्रिकां च प्रसन्नौ ती	४१५	मृदङ्गादिगजेन्द्रादि	१५०
साययाऽसुरपापस्य	२७०	मुनि घर्मरुचि नाम्ना	५२९	मृदङ्गे पतिते भूमौ	५३५
सारीचमानसे स्निग्धः	२७९	मुनिः सागरसेनाख्यं	५४३	मृदवः शीतला इलक्षणा	३९१
सार्गणा गुणजीवानां	३२६	मुनिः संन्यस्य कालान्ते	१७७	मृदवस्तनवः स्निग्धाः	२०४
सार्गशीर्षसितैकादशी-	२३५	मुनिगुप्तामिषं वीक्ष्य	४८८	मृदुवाहुयुगान्तीत्वा	२०३
सार्गशीर्षे सिते पक्षे	६८, २१९	मुनितारागणाकीर्णः	१७	मृष्टाक्षनेन संपोष्य	५४०
सार्गे स्थितां सदा यादवेक्षिनां	३७५	मुनिर्बभाषे भो भूप	११६	मेघनादः, प्रतीन्द्रोऽभू-	२११
सार्गेऽस्मिन्वर्तमानस्य	१९६	मुनिर्बिर्बहुभिः प्राह्णे	२३	मेघमालेव कालेन	४११
सालां वा लुप्तसारां ता	४५८	मुनिमातृपयोगेन	२१५	मेघश्रीरनयोः सृगुः	२७८
सालां सन्तानकारुणानां	३२४	मुनिश्च तद्वचचेत-	४५१	मेघाद्विद्युद्दिशेषो वा	४५९
सालां संप्रापयस्त्रीत्या	३९२	मुनिसुव्रततीर्थेश-	२५९	मेघामरकुमारोप-	४२०
सालात्कनकका सिद्ध-	४०२	मुनिसुव्रततीर्थेशसंताने	३३२	सैत्रीभादः सप्तपिः स्या-	२८२
साम्भाम्नं परित्यज्य	१९८	मुनिस्तद्विज्ञेताभिज्ञः	५५३	सैत्रीभादः महाभिधानको	१२०
सासान्पञ्चदशप्राप्त-	२०३	मुनीनां दुविधानां च	७७	मेखेणाधिकार्थायिकाभि-	२२
सासान् षोडश मासाहं	२३४	मुनीन्द्रादावयोर्यस्याः	४१७	मेखरूपेण संपातात्	४१८
सासाहंक्रुतसंप्रामौ	१५७	मुनेर्धीविनयेनैव	४४५	मोक्षमार्गं हति श्रुत्वा	४७२
सासे भाद्रपदे ज्योत्स्ना	९०	मुनौ सागरसेनाख्ये	५५२	मोक्षमार्गमनुष्ठाय	३२८
सासेष्वर्हः सु मासाध-	५५८	मुमुक्षुर्दृष्टतत्त्वस्य	७६		
		मुहुर्मुहुस्तदाकर्ण्य	१०९		

भोक्षमाणं स्थितः पाता	१९३
भोचयित्वानुबुध्यते	१७३
मोहं विचिस्तु भिस्तस्य	५३१
मोहनिद्रा विहास्यन्ति	३४
मोहमल्लममल्ला यो	२३३
मोहसात्रुहंतच्छायो	३४
मोहोदयोभयाविद्ध-	३९
मौनेनावस्थिता वीक्ष्य	५२३
मौलिभोधिमालां च	४१५

[य]

यः कर्मव्यतिहारेण	१९०
यः पातालमुक्षोवाप्यां	४१५
यः पुत्रवदनाम्भोजं	४७
यः संज्वलनसंज्ञस्य	१५८
यः स्वर्गसारसौह्याब्धि-	६८
यक्षिलाक्ष्योऽनुवस्तस्य	४००
यक्षी भविष्यती राज-	४९५
यक्षो राजमती कात्या-	३८७
यज्ञं कथं चरन्त्यार्या	२५८
यज्ञविष्णं समालोक्य	२७५
यज्ञवाग्दाभिधेयोः-	२५७
यज्ञाय वैषथा सृष्टा	२६९
यज्ञार्थत्वात् तस्यास्ति	२७२
यज्ञेन प्रीणिता देवाः	२७०
यज्ञे पशुवधाद्धर्मो	२७२
यतः परं तदुदभूतैः	३४३
यतैः समुद्रगुप्तस्य	४३३
यतयोऽमुतपूर्वाणि	४३९
यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धि-	२६
यत्किञ्चित् संचितं पार्यं	२०१
यत्कामान्नराजन्य-	५७३
यत्लक्षणक्षतिक्रवात्मनि तद्धि	५६७
यत्सर्वं पाण्डवा. श्रुत्वा	४२२
यथाक्रमं नृपोऽभ्युक्त्वा	२३४
यथा तथाहं कर्तास्मि-	२५९
यथान्याय प्रजाः सर्वाः	५२६
यथाभ्ययोपयुक्तं सः	२७२
यथा ग्यासोऽकृतं हस्ते	१०९
यथा बहुगुणीभूता-	२०८
यथाविधिप्रतीक्ष्येय-	४१५

यथा वृत्तान्तमेवैषु	५१८
यथा शस्त्रादिभिः प्राणी	२७२
यथास्थाननिवेशेन	२०२
यथेष्टे विचरत्येतत्	३५४
यथोक्तं भावयित्वैता-	४३३
यथोक्तभूभुजा भावा-	५५५
यथोक्तविधिना सिह-	४५३
यथोचितमभिष्टुत्य	६०
यदात्तञ्चनतर्कण	२२३
यदि कश्चिच्चतुर्थाऽस्ति	१८०
यदि कुप्येदियं ताप-	४८५
यदि क्षत्रियपुत्राणां	९
यदि निर्मत्सरसि त्वं	५०४
यदि पूज्य प्रिया प्रेक्षे	३८९
यदि रोगजरादुःख-	१३६
यदि वाञ्छेरिति क्रोधात्	४८४
यदि विद्येत चर्यायाः	१२५
यदि सकलकीर्णप्रोक्त-	५७८
यदृच्छयाप्यसमर्धं	२३
यदृच्छया वन यात-	१११
यद्यज्जनपदस्योक्तं	४५
यद्यवालोक्यते तत्तत्त्व-	४६
यद्यद्योच्छिष्टदोषं चे-	४७५
यद्येव तत्समायोग-	५४८
यमान् सोऽपि गतप्राणान्	३६५
यथाः कुन्देन्दुनिर्भासि	१६९
यथा प्रकाशयत्याशाः	९९
यथासा लेखयया चास्य	५७
यथोषरगुरुदृष्टि	७
यथोचरा तयो रत्नायुध.	११५
यत्समादाभ्या कुमाराभ्या	२८९
यस्य जीवादिमावाता	४७९
यस्य नामापि घट्टुणा	३३१
यस्य निष्कममाक्रम्य	४९७
यस्य प्राशुनखासुजाप्रखर-	५७४
यस्य हस्तगतो जेतुं	५४८
यस्याज्ञा मालतीमाला	४४६
यस्थानता पवनस्रै-	५७३
यस्यास्यावज्जवाकिङ्कया-	५७३

यस्योत्तुङ्गमतङ्गजा	५७६
यस्योत्पादमनुप्रसादमगम-	७५
यागः सिद्धयति श्वताना	२५६
यागमृत्युफलं साक्षा-	२७२
यागमृत्युफलैर्नशा	२७०
यागव्याजं समारभ्य	३५८
यागे यज्ञः क्रतुः पूजा	२५७
यातु मत्पादसेवा स	३१०
यातैः कतिपर्यैदेवी	४८
यादवाश्च तदायान-	३७५
यादवी सविराटाख्यैः	३८०
यादृच्छिकं न चेदन्यत्	२८८
यान्ती द्रष्टुं समायाता	५५१
या प्रागवतरद्वात्री	१७५
यामेति दूतेनालप्य	१७०
यावदीदयिको भाव-	५५
यावद्धरा जलनिधि-	५७७
यासौ पञ्चलता सापि	४९३
या स्वर्ग्यैवास्य सा विद्या	२५
युक्तमेतदयुक्तं चे-	१३८
युगपत्त्रितयं कर्म	३६९
युद्धं धनरयाधीशो	१८६
युद्धभूमिमधिष्ठाय	३१६
युद्धवीर्यं प्रहरणावरणं	१५६
युद्धान्ते नौ तदा वीरो	२४२
युद्धायास्फाल्यता मेरी	३१५
युद्धे पुष्यकारेण	५१९
युद्धे मज्जं विधायैन्द्र-	४०३
युद्धे श्रीविजयोऽप्येयं	१५६
युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१६२
युद्धवाचिरं पदातीना	१४७
युद्धवा चिरं हयग्रीव	१४७
युद्धवाऽप्येयं	१८६
युद्धवा बहुविधेनामा	२३१
युद्धवा रणाङ्गणे प्राप्त्-	४८
युधिष्ठिरः समस्तस्य	४२
युयुत्सया ययो वीक्ष्य	५११
युयुत्सवो विपक्षद्वय	५१
युवाभ्यां केन दृष्टव्य-	२२
युवाभ्यामुक्तमेवेदं	२८

युष्मदीयं भुवि ख्यातं	१६९
युष्मद्गृहे महारत्नं	९२
येन तादृग्विचं ग्रन्थं	२६०
येनाप्तानिमिषेष्वैरंरयमयी	२४
येन शिष्टमृहत्रर्तं विमुक्ते	२३७
येन विहो हतः सिन्धुदेशे	१४६
येषां प्रमेयविमुखं सुमुखप्रमाणं	५६६
योगालम्बनसंबृद्धा	१२२
योगस्ताम्ब्यो महास्तस्य	२३३
योगोऽयमृषिभिः प्रोक्तो	२५९
योऽजायत क्षितिभृदत्र	७०
यो ज्ञानज्ञायकज्ञेय-	१५८
योद्धुं प्रक्रममाणं मां	१५४
योद्धुमाभ्यां समं भीम	२४२
योभयं मम हर्ताऽत्र	५४६
यो रत्नसञ्चयपुरेशमहाबलाख्यो	२४
योषितां भूषणं लज्जा	४८
योषित्सु ब्रतशीलादि-	४१३
योषाः पुष्टा महामात्रा	५२५
यीवनं जरसा श्रास्यं	८
यीवनापूर्णसर्वाङ्ग-	१४२
[र]	
रक्तस्य मनसा तृप्तिः	२५
रक्षितास्यारविन्द्याख्यो	४२९
रक्षित्वाऽस्थ्यात्कुमारं तं	२२८
रक्षित्वैतत्सरोऽन्येषां	५१७
रघुः पुरातनो भूप-	३४४
रजस्यैवं नभोभाग-	३१९
रञ्जितस्फटिके तत्र	१५१
रतिरञ्जिष्ठसंताना	६६
रतिषेणा रतिवचैत्य	१९५
रत्नं ममानिवेचेदं	३०७
रत्नतेजाः प्रिया तस्य	५१२
रत्नत्रयेण येनाप्त	६२
रत्नप्रसां प्रविष्यैव	४५४
रत्नप्रसां प्रविष्टः सन्	४७३
रत्नप्रभाबिले सर्पा-	४०९
रत्नमाला गले कृत्वा	५४८
रत्नमाला गदा सीरो	३८३
रत्नमाला तयोरासीत्	११७

रत्नमाला हलं भास्वद्	१४८
रत्नवत्या च संप्राप्य	५२६
रत्नसंनयनामात्र	४०९
रत्नहारं तिरोटं च	३२४
रत्नाद्युपायनोपेतं	९२
रत्नानि चात्मसात्कृत्य	३२४
रत्नानि निघयश्चास्य	५३
रत्नान्युपायनीकृत्य	३७८
रत्नान्येतानि सप्तैव	३२५
रत्नायुधोऽन्यकल्पोत्थ	११९
रत्नावर्तंसिका माला	३२५
रत्नैरपूरयन् देवाः	७२
रथनूपुरनाथेन	१४६
रथनूपुरमुद्दिश्य	१५६
रथनूपुरराजासौ	१४७
रथान्तकनकस्य स्वं	४०९
रथान्तकनकस्यायं	४१०
रथैदिवचक्रमाक्रम्य	३१८
रमणीयाभिर्घं कृत्वा	५०२
रम्भास्तम्भमादयोऽन्येषा-	२८
रम्यरामामुलाम्भोज-	१९
रम्या च रम्यकाख्या	१८९
रश्मिन्नेगसुवेगादि	१५६
रश्मिवेगादिभिः साद्धं	१५६
रसभावसमाविष्टं	४५५
रसातल गतोऽप्यद्य	५२५
रसायनादिपाकाख्य-	१५२
रहस्यकार्यबाह्यत्वं	२९०
राक्षसेन विवाहेन	३२०
राक्षसेन हतस्तस्मात्	४९०
रागादिदोषनिर्मुक्ती	४४३
रागादिदोषहीनत्वा-	४३३
राघव कुशली देवं	३०६
राजगेहं जरासन्ध-	३६१
राजगेहं समीक्ष्येनं	३६४
राजगेहं समुद्दिश्य	४९६
राजगेहाह्निनिर्गन्तु	३५४
राजते स्म तपोराज्ये	११
राजन्तेतानि शास्त्रीवत-	३६८
राजपुत्रममृत्साहं	२८३

राजपुत्रसमूहेन	२२७
राजभिर्बहुभिः सार्धं ५६,	२३४
राजमार्गं विराजन्ते	२०१
राजलक्ष्म्या कुमरोऽपि	५१
राजसिंहचरो लङ्घि-	१३३
राजाऽत्र व्याकुलीभूय	११५
राजा तामिन्द्रसेनस्य	१६२
राजा नन्दाभिषेकस्तस्मात्	५६५
राजा प्रागपरराजितो जितरिपुः	३८
राजा भद्रपुरे वंशे	७२
राजामूर्त्तिलनप्रभः प्रभुतमः	८३
राजा महाबलस्तत्र	१९
राजां राजपुरे सत्य-	५०२
राजापि श्यामलाख्या स्वां	३५५
राजा श्रीधरदेवोऽपि	११४
राजा सिंहपुरस्याह-	५००
राजा सिंहरथः ख्यातः	१४२
राजा सूर्यप्रभस्तस्यं	३४०
राजा स्वयंवरो नाम्ना	२०
राजेव रञ्जिताशेषः	४९४
राजाः काश्यपोगत्रस्य	३७७
राजाः कुण्डपुरेशस्य	४६०
राजाः क्षेमकराख्यस्य	१७७
राजां महाभुषणास्तस्मिन्	३३
राजा स भविता नाम्ना	५५८
राजा तुष्टवतावादि	३५७
राजा त्व प्रतिषिद्धोऽसि	३५४
राजाप्याज्ञापिता युयं	१०
राज्ञी राजा समालोक्य	४९५
राज्ञी चैव महापुण्य-	५२०
राज्ञेव योग्यदण्डेन	२६८
राज्ञोक्ते प्रस्यितो हन्तुं	२५१
राज्यं विनिजित्तराति	२५
राज्यं विभज्य तत्त्वैरं	५३०
राज्यं विभज्य दिक्पालै-	३५३
राज्यभारं परित्यज्य	५१८
राज्यभारं समारोप्य ७२, २१२,	
२४९, ३३१	
राज्यभोगैः स्वकान्ताभि-	१९५
राज्यमस्यैव मे स्नेहाद्	४५०

राज्यलक्ष्मी चित्रं भुक्त्वा ४५५  
 राज्यलक्ष्म्या ग्यभाल्लक्ष्मी १७८  
 राज्यसंप्राप्तिकाखस्ते २३९  
 राज्यस्य कृतमोऽनेति ४७१  
 राज्यस्य दुभरं मार २६  
 राज्यस्याहोऽयमेवेति ४७१  
 राज्ये पञ्चसहस्राणि ३३३  
 रामं वा तुरमारुद्ध- २९२  
 रामदत्ता तसश्च्युत्वा ११४  
 रामभट्टारकेयाहं ३०५  
 रामस्मापि गदा रत्नमाला ८५  
 रामाभिप्रेतकार्यस्य ३०५  
 रामे चेत्रेण तद्विद्धि ३०१  
 रामो नाम बलो भावि २९४  
 रावणस्तेषु न. शत्रु- ३०९  
 रावणाजसुग्रीव- ३२३  
 राष्ट्रैस्त्रिमन्त्रेव विख्याते ५११  
 राशरीरूपमापाद्य ३६७  
 राष्ट्रग्रस्ताकंसपाताद् ३२७  
 रिपुनुपयमदण्डः पुण्डरीकि- ३१  
 रक्षिमाणी सत्यमामा च३८३,४१९  
 रक्षिमथ्याय महादेव्या ३९६  
 रचकाख्ये विमानेऽयं ११५  
 रचि प्रवर्तते यस्य ५५७  
 रूढदत्त त्वया प्रज्ञा- ४९६  
 रूढदत्तोऽममत्त्वान्नी ४९६  
 रचितो रावणो द्रुते ३१३  
 रूपं पञ्चविधं श्वेत- ५२३  
 रूपमालोचय तत्कोऽय- १५३  
 रूपयोवनदीन्दर्यं १३६  
 रूपलावण्यकान्त्यादिः २०१  
 रूपशोभा विना नेम. २८  
 रूपादिगुणसंपत्ति १४१  
 रूपादिगुणसंपत्त्या- २८०, ३३९  
 रूपाद्याः स्त्रीगुणास्तस्याः ४७  
 रूपावयवय. शिक्षा ५४  
 रूपिणी सुभगा नृत्यगीत- ९१  
 रूपीव क्षीर्यमखिलं ३७२  
 रूपेण केवलनेयं १७५  
 रेणुकीत्यभिधां तस्या २२४

रोगोरगाणा तु क्षेत्रं ३६  
 रोधो गुप्यादिभिस्तेषा २४४  
 रोहिण्याः पुण्यभाषण- ३६०  
 रोहिण्यतो मनोवेद्या १६५  
 रौद्रराक्षसगन्धर्व- ४६०  
 रौरवेऽञ्जनि दुष्टात्मा. २७०

[ ल ]

लक्षं त्रयं विनिर्दिष्टा २२१  
 लक्षणैरेव भिक्षाक्षी २६१  
 लक्षत्रयायुःपूर्वोक्त १३५  
 लक्षत्रितयसंपिण्ड- २३  
 लक्षपञ्चप्रमाप्रोक्त २३  
 लक्षपञ्चसुपूर्वाणा ४०  
 लक्षासमापुश्चत्वारिंश २०४  
 लक्षमणं नायकं कृत्वा ३१०  
 लक्ष्मणप्रमुखांस्तुल्यान् ३१३  
 लक्ष्मणश्च जगत्पाद- ३११  
 लक्ष्मणाक्रमविक्रान्ति- २८८  
 लक्ष्मणापि मुनिं नत्वा ४०१  
 लक्ष्मीः परिकरस्तस्य १४०  
 लक्ष्मीः सहचरी तस्य ९८  
 लक्ष्मीरनश्वरी तेषा २५  
 लक्ष्मीरिवादिचक्रैर्वा ५१५  
 लक्ष्मीर्ललाटपट्टेऽस्मि- २०५  
 लक्ष्मीविक्रामस्यायात् ३४  
 लक्ष्मीलाञ्छनेमेवास्य ४५१  
 लक्ष्म्यो कपोलयोर्लक्ष्म्या २७  
 लक्ष्म्यो नवे युवानौ १६७  
 लक्ष्याभ्यर्णास्त्रिवृत्तः सन् ५१०  
 लक्ष्मणोचरसंशुद्ध- ३२४  
 लक्षादाहेन दाहं च ३१३  
 लंकाद्वीपादिषु स्वैर ३४७  
 लंकानगरमाराध २९८  
 लङ्कापुरद्विभूमि २१४  
 लंकापुरेऽप्यणुमतो ३११  
 लता समुत्सुकस्तन्वीं २८७  
 लब्धकालादिरातोऽपि ३९  
 लब्धनिष्क्रान्तिकल्पाण- ४  
 लब्धबोधिमतिज्ञान- २०८  
 लब्धबोधिः समाश्रित्यं १७७

लब्धबोधिः समुत्पन्न- १६  
 लब्धलीकान्तिकस्तोत्रः ७४  
 लब्धा प्रीतिकराह्वान- ५४५  
 लभेयामिति तदाख्य- ५४५  
 ललज्जिङ्गल्लघातात्युग्र- ४६३  
 लामो लाभेषु पुत्राणा ९  
 लिखितौ वा सजीवाना ४५७  
 लिङ्गु यिषवोऽप्योऽयं २२  
 लीलाबलोकनैहृति- ३९०  
 लुब्धो न लभते पुष्यं ५२  
 लुब्ध्या यस्य मृणालनालववला ६५  
 लुक्लुब्धयहितं मत्वा ३२७  
 लुक्लुब्धयहितो नान्य- २५३  
 लुक्लुब्धयान्तरं नत्वा ५०९  
 लोकात्पत्यन्तरस्यापि १२८  
 लोकापालास्त्रिलोकानां २०४  
 लोकमानो नभो राम- २९२  
 लोकमानो विमङ्गेन ४३८  
 लोकेन च विमुह्याकुली- ४७४  
 लोकोऽयं देवलोको वा ८१  
 लोचनाभ्यां हरेवर्ष्ण- ४५६  
 लोभमसुराह्वादि- ३०४  
 लोभाक्रान्ताण्यो देशात् २९७  
 लोभात्सहस्रबाहुश्च २३०  
 लोहनामा चतुर्थः स्या- ५६४  
 लोकांतिकैः समभ्येत्य १२३

[ व ]

वक्तु धारयता यतो २६८  
 वक्तृत्येतन्निमित्तानि ४१३  
 वक्तृश्रोतुकथाभेदान् १३८  
 वक्त्रलीला वधद्राष्ट्र- १३९  
 वक्षोदण्डमसौ वारि २८८  
 वङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरे ३३४  
 वचंस्यवसिते तस्य २५७  
 वचोऽवोचद्विचार्योच्चै- ३१३  
 वचं पातायितात्समा- ३७०  
 वचमुष्टिस्तत्रालोक्य ३९०  
 वज्रायुधकुमारस्य १८०  
 वज्रायुधेऽय भूनाये १८०  
 वज्रेण धटिते जंघे २८  
 वटद्रुमसमीपस्थो- ४७०

वटविम्बप्रवालादि	२०५	वपिला तन्महादेवी	३३३	वसुन्धरकुमाराय	५२
वणिकुसुंधसमाश्रौश-	२५१	वयं युवाभ्यां संयोज्या	१६९	वसुन्धरमहोपति-	३३
वणिगादेशनिदिष्टो	५२१	वरदत्तादयोऽभुवन्	३८७	वसुन्धरां च तत्रैव	५५
वत्सराणां सहस्राणि	२७८	वरधर्मयति प्राप्य	१११	वसुन्धरीनिमित्तेन	४३
वत्सलस्तुभ्यमानोय	४०४	वरधर्मयतेर्वज्रमुष्टिः	३९१	वसुमत्यामभूत्सुनुः	४०
वत्सेति पालयत्येनां	४८६	वंराहाद्वैरसानुग्र-	४१४	वसुषेणोऽप्यशक्तत्वा-	१३
वत्से वेनोरिव स्नेहो	१९८	वरुणा च मृता तस्य	४३०	वसोस्तस्मिन्महारन्ध्रे	२७
वद केन वने भ्राम्यन्	२६५	वरुणा ज्यायसो भार्या	४२९	वस्तुद्वितिवचोमेदा-	६०
वदतीन्द्रयमस्थानं	६६	वर्णत्रयसमुद्भूतै-	५३७	वस्तुबोधे विनेयस्य	५५
वदतेति वदन्तीं तां	२८९	वर्णाकृत्यादिभेदानां	४७६	वस्त्राभरणमाल्यानि	४६३
वदनाब्जप्रसादेन	३०४	वर्तते जिनपूजास्या	४४५	वस्त्रालयपुराधीशो	३४
वदन्ति निपुणाः क्षमाजे	३०२	वर्तते देवपूजायां	२५८	वस्त्रालयपुरे शैत्र-	१९२
वदन्नित्यन्वगात्सोऽपि	२९२	वर्द्धन्ते यत्र धर्मार्थकामाः	१३९	वहन्ती जानकी दुःखं	३२३
वदिव्यामि न भोक्ष्ये च	२९३	वर्द्धन्ते स्म गुणास्तस्मिन्	२०४	वहन् दुःखानि तद्दृष्ट्वा	३३१
वदेति पुष्ट्वा गन्धर्व	५१०	वर्द्धमानश्रियं दृष्ट्वा	३०६	वर्द्धि प्रदक्षिणीकृत्य	३३५
वदेत्याह ततस्तेन	२२५	वर्द्धमानेन गर्भेण	९८	वाक्प्रयोगो न तथ्यः स्या-	४७७
वधिरा कुल्लका काणा	१७२	वर्धमानव्रतः प्रान्ते	४५८	वाक्यं श्रद्धाय तद्योग्य-	४७६
वध्वावतरखायामि	५४९	वर्धमानो जिनः श्रीमान्	४४३	वाग्दृष्टिभृतिगत्वादि	५४१
वनं विशाखनन्दाय	४५०	वर्यः सूर्यप्रभो नाम	३४४	वाग्विस्तरपरित्यागा-	४७३
वनं सर्वतुर्कं नाम	२९९	वर्षद्वयसहस्रेण	५०	वाग्ध्वामिव चाग्राशि-	४६१
वनमालास्य देव्यस्याः	५३७	वल्लभावचितालोल	२०७	वाचं मनोहरार्थेन	३२३
वनराजस्तदाशेषं	५१६	वल्लभेक्षवाकुर्वंशस्य	१५	वाचः परिमिताः स्वल्प-	४८
वनराजस्य तत्कान्ता-	५१४	वशीकुल्व तद्वीक्ष्य	५२१	वाचा कायेन मनसा	४३६
वनराजात्परो नास्ति	५१५	वशीकृतेन सामाज्य-	९	वाजिनः सिंहमुत्रेण	३६३
वनलक्ष्मीमिवालोच्य	२८८	वशीकृत्य ततो बुद्धि-	११७	वाञ्छितेन रसेनेव	३४९
वनवासदेशमखिलं	५७७	वसन्तसमयेऽन्येषु-	३४०	वाहवाग्निरिवाम्भोधौ	३०७
वनस्मरणसंत्यक्त-	२४६	वसन्तोऽचीकरद्वाजा	४२१	वादिनः षट्शतान्येव	४३९
वनान्यपि मनोजाय	१८१	वसन्त्यरण्ये खादन्ति	३८६	वादिप्रवाचुपत्यस्त-	५८
वने खदिरसाराक्ष्यः	४६९	वसु प्रसिद्धं सत्येन	२७३	वाघ्यमानः पुनः प्राण्-	४५५
वनेचरपतिः कश्चि-	४६६	वसु निष्कण्टकां पृथ्वीं	२६३	वायुवेगाजिताशेष	१४०
वने प्रियङ्गुखण्डाख्ये ११७, ३५१	३५१	वसुः सत्यस्य माहात्म्या-	२६४	वायुवेगा प्रिया तस्य	४५२
वनेऽवतार्यं सुस्थाप्य	४९१	वसुदेवकुमारोऽपि	३६०	वाराणसी प्रविष्टाभ्यां	२८५
वने वनेचरश्रण्डः	५३३	वसुदेवमहीशस्य	३७५	वाराणसीपुरादद्य	२८४
वनेऽहं पर्वतेनामा	२६५	वसुदेवसुतोऽप्यास-	३८०	वाराणसीपुराधीशो	२५४
वन्दितुं मन्दिरं जैनं	५५०	वसुदेवोऽन्तिमरुचैवं	३४५	वाराणस्यामभूद्विष्व-	४३४
वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्यं	१४३	वसुदेवोऽमुतो गत्वा	३५५	वारुणी दिक् प्रिये पश्य	२९२
वन्दित्वा स्वोचितस्थाते	६७	वसुधारां सुरैः प्राप्ता	५६	वारुणी पूर्णचन्द्राख्यो	११९
वन्दिमागन्नवृन्देन	३८०	वसुधारादिकी पूजां	२१९	वारुणीपूर्णचन्द्रोऽयं	११३
वन्दिष्यन्ते भवातीते	५६२	वसुधा वसुधा गेहे	२८०	वार्ता जनकयागस्य	२८०
वन्दीकृत्य कुमारोऽपि	५१५	वसुधेव स्थिता भेत्तुं	३००	वार्ता परंपराज्ञात-	१६०
		वसुना नैद् द्वयोवदि	२७३	वामुक्कामुक्निभसिं	११

वाष्पाविलविशाखाक्षी	५१९	विज्ञाय ता निवेद्यैत-	५०७	विद्वत्सचचरित्रत्वे	१३८
वासुदेवस्य रूपेण-	४१८	विज्ञायाद्यात्र विश्रम्य	५१९	विधाय जिनविभ्वानि	४८
वासुपुत्र्यजिनेशस्य	१३४	विडम्बनमिदं सर्वं	२३६	विधाय दशधात्मानं	२९
वासुपुत्र्येशसंताने	९८	वितर्कयन् कदम्बोरु-	३००	विधाय विहृतस्थूण-	४२१
वासोरिन्द्रस्य पूज्योऽर्थं	८७	वितर्कयन्तमित्येनं	१९०	विधाय मद्यमासादि-	५१७
विधाति. स्युः. सहस्राणि	३३५	वितीर्णवान् सुता तुभ्यं	४७१	विधाय यौवराज्यं च	४४९
विधाति वत्सरान्नीत्वा	३०	विदधास्यस्य दुश्चेष्टा	४५०	विधाय वासुपुत्र्यं च	८८
विशत्यवद्युपमात्तापुः	६७	विदभंनानाममुख्याष्टा-	६९	विधाय विद्यया प्राग्ब-	४१६
विकसन्नीलनीरेजसरोजालि-	४६	विदार्यं प्रविधात्याया	२६४	विधाय विधिवद्भक्त्या	१५३
विकासयस्यकैस्तीक्ष्णैः	३४३	वितितसकलशास्त्रो	५७६	विधाय विपुले मार्गे	६६
विकृत्य रूपं स्वं तत्र	४८४	विदुरेण नृपैरस्यै-	३८०	विधाय विमला प्राप	४०९
विकृत्य विविधान् बाहून्	३७८	विदेहे घातकीखण्डे	३९	विधाय सङ्करे मङ्ग	९२
विक्रमेणैव वक्राणा	३३	विदेहे मङ्गलावत्या	४५८	विधाय स महाविद्रा-	४१०
विक्रिपावलतेजोभिः	६७	विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासी-	१०२	विधास्यते ददामीति	५०१
विक्रियावधिवीर्यरिवट्	४०	विद्यां सा भ्रामरीं नाम्ना	१५३	विधाय हृदि योगीन्द्र-	४५६
विख्यातविध्वनयरे	९६	विद्याधराद्दक्षप्राग्भागे	१८३	विद्यायाष्टममाहार-	४३७
विगल्ममालतीमालाः	४६६	विद्याधरीः समाहूय	२९३	विधित्सुगुण्यश्रुषा-	२७३
विग्रहं तद्ग्रहं मत्वा	६	विद्याधरेण केनापि	४१४	विधित्सुनिग्रहं सूर्यं	४७१
विचार्यं ते त्रिदोषोत्थं	११६	विद्याधर्यो वयं लङ्का-	२९३	विधीविषयसंसक्तो	८९, ५३६
विविक्रिसा नदीतीर-	३९७	विद्यापूजा विद्यायास्य	५४	विधीर्वेषा न चैर्दानि	५१
विविक्रकरवस्त्रेण	४६४	विद्याभ्यासाद्दिना चाल्य	४४५	विधुं सोऽधो विधायैव	१८
विविचरञ्जवललीभि-	२३५	विद्याविनाशमायास्ति	३०१	विधूमन्मकैतूप-	४३४
विविन्त्येति यतीन् भक्त्या	२६३	विद्यासाधनविघ्नार्थं	१८२	विध्वस्य विध्वकमाणि	८३
विच्छिन्नचरणाः पेतु-	३८१	विद्युच्चोराह्वयं कृत्वा	५३२	विनम्रविश्वविद्येश-	१६९
विजयाख्यं पुरं गत्वा	३५५	विद्युत्प्रभः सीमनसः	१८९	विनयच्युतसूपाल-	३७१
विजयादागतं देवं	३	विद्युत्प्रभाह्वयः ख्यातो	१८८	विनयश्रीः सुता तस्या	४०४
विजयाब्जं समापूर्य	३२२	विद्युदादिप्रभावेगे	५३१	विनयश्रीरिति ख्याता	४०३
विजयाया हलेशस्य	१७५	विद्युद्द्युतिवल्लक्ष्मी	१६	विनयश्री रैवतस	५३२
विजयाविद्यमाह्व	५२४	विद्युद्दंष्ट्रं च सामोक्तै-	११९	विनयश्री विनयनिर्णीत-	५०६
विजयाद्धं गिरेर्भूधिन	२९७	विद्युद्दंष्ट्रः सुतो जातः	११८	विनयश्रीत न मे क्षीलं	२९३
विजयाद्धंगुहाया तस्मि-	१५२	विद्युद्दंष्ट्राविकान्पञ्च-	४१२	विनयश्रीवदत्तस्य	३४५
विजयाद्धांनिकाश्वेषो	१९१	विद्युद्दंष्ट्राह्वयो विद्याधरो	१०६	विनयस्य मणीभाभासि-	५४८
विजयाद्धांनिकापुण्यां	३९५	विद्युन्मत्याश्च तस्यैव	१६३	विनयस्य राज्ययोग्योद्य-	२८३
विजयाधो सुरीभूत्या	४०१	विद्युन्माला तयोः सुनु	४३१	विना पित्रोरनुज्ञाना-	५४८
विजयेनात्र लब्धेन	४५४	विद्युन्मालिन एवाभू-	४५३	विनाधिभिरपि त्यागी	२१८
विजिगीषु किलाद्याभू-	३७९	विद्युन्माली भवेज्जीते	५३७	विनाशो रावणस्येति	२७९
विजिगीषोर्गुणै र्बुद्धिभिः	१०	विद्युन्मालेति भूत्या सुक्	३४४	विनि. क्रमणकल्याण-	६०
विजृम्भमाणुर्धर्माभ्यो	४६३	विद्युन्माल्येष देवोऽभू-	५४३	विनिहृत्परसेन-	१०१
विजृम्भितमतित्तान-	४३७	विद्युन्माल्येष देवोऽभू-	५४३	विनीतचाररणस्येभु-	४०३
विज्ञापयति मत्स्वामी	३०९	विद्युन्मालेति भूत्या सुक्	३४४	विनीतो यौवनारम्भो-	५३१
विज्ञाप्यादापयन् कन्या	५०२	विद्वत्त्वं सचचरित्रत्वं	१३८	विनेयात्सत्य जन्तूनां	३२८



विन्योऽहं कृतश्राद्धो	४६८	विलोक्य गन्धमाल्यावि-	३६८	विश्वभूतिः पतिस्तस्य	८
विपाकसूत्रपर्यन्त-	७२	विलोक्य चारणद्वन्द्वं	५१७	विश्वभूतिस्तपः प्रायात्	८
विपुलविमललक्ष्मी-	१८	विलोक्य चित्रचूलाख्य	१८४	विश्वभूतेर्विशाखादि	८
विपुलादौ हताशेष	५२७	विलोक्य तं महानाग-	४३०	विश्वस्वस्थालिखितं प्रशस्ति-	५७
विप्रस्त्वं षट्प्रभावादी	४७८	विलोक्य तं भृगं मत्वा	४४४	विश्वान् देशान् विहृत्यान्ते	३८
विफलानिमिषत्वा स्मो	८३	विलोक्य तद्बले भङ्गं	५२६	विश्वान्वैषयिकानभोगान्	४३
विभज्य राज्यलक्ष्मी स्वो	६६	विलोक्य पाण्डुभूपालो	३४५	विश्वान्वलोकनवितन्वदनन्त-	५
विभाति गोपुरोपेत-	२०१	विलोक्य भवति प्रीत्या	४८४	विश्वान् व्यानशो तस्य	१७
विभासि भवतोस्तेजो	२८१	विलोक्य मुद्रामुद्भिद्य	४५२	विषयद्वैमसंकीर्णं	४६
विभीः शक्नोषि किं मरु-	२५२	विलोक्य रागाद् भूपेन	१४५	विषयाधिपतिभूत्वा-	२७
विभीषणशान्तिवने	२७०	विलोक्य विहितक्रोधो	१७३	विषयाल्पसुखेष्वेवं	५३
विभीषणादयः केचित्	३२८	विलोक्य स्वयमायेत-	४७८	विषये पुण्डरीकिण्या-	४०१
विभीषणादिभिश्चामा	३२८	विलोक्यानङ्गनिर्मुक्त-	४८४	विषये पुष्कलावत्यां	३४१, ४४४,
विभूतिमद्वितीयैवं	३६४	विलोक्यानन्तरं राज्ञा	५४५	४५९, ५३८	
विभूष्य पितरौ चास्य	४६१	विलोक्यापातमुल्काया	५०	विषये मङ्गलावत्यां	५३
विभूष्य भूषणैः सर्वै-	५७	विलोक्यास्मात्किञ्चिद्दूरं	४९९	विषये वत्सवासाख्ये	४८२
विभ्यन्त्योस्तमाघावन्	३३४	विलोपितस्तदा पद्म-	४०५	विषयेषु तदैवासो	३
विमलबाहनमाह्वदुर्दूरं	५	विजितातं ध्यानस्य	४३१	विषयेषु विषक्तः सन्	३३७
विमलायाः सुता मङ्गी	३८९	विवादोऽभून्महास्तत्र	२६७	विषयेरेव चेत्यसौख्यं	७४
विमलेऽब्दसमे बोधे	९७	विवादो यदि भङ्गोऽत्र	२७३	विषवल्लीफलान्याशु-	४०५
विमानेऽनुपमे नाम्ना	९३	विवाहविधिना तौ च	५२४	विषस्तनपयःपाय-	३६७
विमाने श्रीधरो देवो	११३	विवाहविधिना-पद्म-	४९२	विष्टामालोक्य बालस्य	५४०
विमाने स्थापयित्वाशु-	४१८	विवाहोचितविन्यासै-	१४५	विष्ट्वा क्षुद्रबिलादीनि	५५९
विमुक्तमन्त्रिभिः सार्धं	४९६	विशाखनन्दः संसारे	४५१	विष्णुयोगो महाभाग-	८०
विमुक्तविहृतिमार्तं	३१	विशाखनन्दस्तं दृष्ट्वा	४४९	विष्णुः स्वयंप्रभायां च	१४८
विशुष्य लोचने तस्मै	२७९	विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा	८५	विष्णोर्जैरत्कुरारेण	४१९
विमुक्तोऽस्मि वरिण्मवयं-	५२५	विशाखनन्दी विहित-	८६	विसर्जनाय मदस्ते	४९८
विद्योगमेतयोः सोढु-	२८१	विशाखभूतिपुत्रेण	८४	विसर्जितवतो नन्द-	३७५
विरक्तः ससुते पूर्व-	९९	विशाखभूतिरेतस्य	४४९	विसर्ज्य बन्धुवर्गेषु	४२४
विरक्ता चेतवया देव	२८६	विशाखभूतिर्भरणीपतिर्यमी	८६	विसर्ज्य तथावज्ञा	५४७
विरजेन शिरोजेन	२६६	विशाखभूतिस्तस्मै	१२३	विसर्ज्य विलोक्येनं	३५३
विरज्य राज्यभोगास्त-	२१८	विशाखसौ चतुर्दश्यां	८९	विसृज्यतामिति श्रोतवोऽ-	३११
विरज्य राज्यभोगेषु	२१५	विशाखसौ च चक्राङ्को	२५५	विस्तरेण किमुक्तेन	३१९
विराटभूषणैर्भूरि-	४२१	विशुद्धपुद्गलारब्ध-	४६१	विस्तृताभिनवानर्थ्य-	३८५
विरन्तव्यमितो धर्मा-	४०८	विशुद्धयोः प्रसिद्धित्वात्	५५३	विस्मयात्परितः पश्यन्	५४६
विरसान् सरसान् मत्वा	१६	विशुद्धिपरिणामाना-	२४०	विहरन्ती बने वीक्ष्य	२९८
विलिङ्घितं बलं विष्णो-	३८२	विश्वभद्राससंस्पर्श-	५५	विहरन्त्यासमाश्रायुः	२१०
विलासिनी करोद्धय-	५४८	विश्लेष्य षोडशदिनानि	५२७	विहृतुं प्रस्थितस्तस्य	५१७
विलासि विभ्रमेर्हृद्वि-	१९४	विश्वकर्म्ममलैर्युक्ता	४२५	विहृतुं विपुलोद्याने	१५४
विलोक्य किल कालेन	८२	विश्वनन्दिनमाहूय	४४९	विहृतुं मुखताः सर्वे	३८९
विलोकितानां क्रान्तानां	५९	विश्वेनन्दी तदाकर्ण्य-	४५०	विहायादिक्रमायातं	७८

विहारमन्ते संहृत्य	६४	वैहृषीधिपतिश्रायं	११४	श्रीडया पीडितः सोऽपि	२२४
विहृत्य मात्तिका कारिच-	४२५	वैराग्यकाष्ठामारुह्य	१३४	[ श ]	
विहृत्य मासमात्रायुः	२४७	वैजयन्ते त्रयस्त्रिंशत्	५६	शंसन्ति निश्रिते कृत्ये	३०८
विहृत्य पुनरागच्छन्	५३८	वैजयन्तो नृपस्तस्य	१०६	शकदं भाण्डसम्पूर्णां	३९४
विहृत्य विविधान् देशान्	७५	वैजयन्त्यां बलो देवो	२३१	शकटाकारमादाय	३६७
विहृत्य विषयान् प्राप	७०	वैरं बहसि ते भ्राता	१०७	शकसुपकालाभ्यन्तर-	५७७
विहृत्य-विहृतिं त्यक्त्वा	३२६	वैराज्यपरिवारो वा	२८८	शक्तयो देवतानां च	३६७
वीक्षते स्म प्रियामीषन्चे-	३८९	वैशाखकृष्णपक्षस्य	४३४	शक्तिनित्यसंपत्त्या	२३८
वीक्ष्य भङ्ग्या परीक्षार्थं	३८९	वैशाखज्योत्स्नपक्षादि-	२१६	शक्तिनाममहेशस्य	३४५
वीक्ष्य वक्ष-स्थले साक्षात्	४३०	वैशाखे मासि कृष्णायाम्	३२६	शक्तिसिद्धयद्योपेतो	१
वीक्ष्य विज्ञातब्रह्मान्तं	१६१	वैशाखस्य षिते पक्षे	२०	शक्तिसिद्धयद्युगमित्वा-	१४०
वीणा घोषवती धामु	३५९	वैश्यवेषं समादाय	५२०	शक्राज्ञया तदा तत्र	३७६
वीणावाद्येन हृद्येन	५८	वैश्यः सर्वसमृद्धाख्य-	५४०	शक्राज्ञया समानीय	४६२
वीणास्वयवरे तस्य	५०२	व्यजिज्ञापन्तुं सोऽपि	२२८	शक्राद्योऽपि कैङ्कर्यं	५८
वीतबण्णादिवाधत्वास्त्रिगमाः	४५	व्यतीतवति सध्यात-	३२८	शक्राद्या व्योम्नि दूरा-	४२५
वीरोति कथ्यया प्रोक्तो	३५७	व्यधात्तदैव सताहा-	४३८	शङ्कमानेति सा वीक्ष्य	३०३
वीतनीहारासज्योत्स्ना-	७१	व्यधामि वैषसां तस्य	२०५	शङ्खं विजयघोषार्थं	४१४
वीतबाह्यविकारोऽ-	७२	व्यरमत् सा समासक्ता	२६१	शङ्खतृषादिभिस्तस्मिन्	५४६
वीतरागोऽपि सोऽप्याह	३४८	व्यस्ताननाभिमीष्माणि	४६५	शङ्खनिर्नामिकाख्याभ्याम्	३५२
वीतलज्जा विमर्यादा	३५४	व्याख्येयानि त्वया सर्व-	२६६	शङ्खनिर्नामिको राज्ञा	३९३
वीतश्रमस्तमस्पर्दनं	५०६	व्याजहार दुरात्मानं	३०७	शङ्खं भेरीमञ्जाराति-	२०३
वीरवत्याश्च नन्दाख्य-	४५९	व्याप्तं त्वत्प्रभया सद्यो विजयते	२४७	शङ्खा च नलिनान्या च	१८९
वीरसेनो महावीरो	४४३	व्याध- श्रुगालवन्नाम	११३	शङ्खिका च परिभ्रम्य	१९२
वीराङ्गजोऽग्निलः सर्व-	५५८	व्याधाधिपैर्षु तामीत	३८५	शङ्खेन्द्रीलसङ्घाषी	८५
बुद्धिवैषो वरादिश्च	४९९	व्याप्तमध्यमणिच्छाया-	२०६	शङ्खो नाम धनद्वर्षी	३९२
ब्रह्मकुले स्थिता वीक्ष्य	५३४	व्यामोहात्सुलसाप्रियस्वसुलस-	२७७	शतक्रतुः शतमखः	२५८
ब्रह्मकं तव वक्ष्यामी	४६९	व्यावर्णनादिरहित	५७५	शतत्रयं स षट्त्वारि-	३७५
ब्रह्मकं तस्य वक्ष्यामी	९१	व्यावर्णवानुसारं	५७५	शतसंवत्सरे यावे	२३५
ब्रह्मकणो सुखस्पर्शो	२०६	व्युच्छिन्नाया तदभ्यन्तरायुः	८१	शतानि त्रीणि पूवर्णा	४६८
ब्रह्माटनं परित्याज्यं	३५४	व्युच्छिन्ने युक्तिसन्मार्गे	२०४	शतानि पञ्च मन्यस्य	१४२
ब्रह्मा त्वं याचितो विप्र-	३५९	ब्रजन्वने स्ववेलाया	४३०	शतानि नव विज्ञेया	३८७, ४६८
ब्रह्ममार्गं निर्जं गत्वा	५४०	ब्रह्मवक्त्रगलद्वारा-	४९७	शतानि षट्सहस्रं च	२२०
ब्रह्मक्रियात्मधर्मस्य	१९७	ब्रह्मवैगन्ध्यसंघ-	३५०	शतानि सप्तपूर्वाणां	३१६
ब्रह्मिण्यस्वपक्षस्य	३७५	ब्रह्मं तपोधनाभ्यांशे	४७०	शत्रुं भ्रम समुत्पन्न-	३६७
ब्रह्मिणापातयिष्यन्ति	५६०	ब्रह्मं नैतस्य सामान्यं	४५७	शत्रुक्षयकरं कर्म	२८२
वेदकोऽसि न वेद्योऽसि	६३	ब्रह्मं प्राणव्ययात्तेन	४५७	शब्दनिष्पादने लोपः	२००
वेदविद्भिरहिसोक्ता	२७१	ब्रह्मं शीलनिविष्टेषु	१९७	शम्भवाख्योऽभवत्स्वामी	१६
वेदान् स सुकमबुद्धित्वा-	१६०	ब्रह्मं तस्याभीप्सितं सौख्यं	४७१	शय्यातले विनिक्षिप्य	२६०
वेद्यां वसन्तसेनाख्या-	४२४	ब्रह्मात्प्रत्ययमायाति	५५४	शरकुन्तादिशस्त्रीषे-	१०८
वेष्टिता रत्नशालेन	१३९	ब्रह्मिणं तं ब्रह्मत्योऽपि	१८४	शरदादिद्वितीयायां	३३
वेत्सि वेद्ब्रूहि सीता-	२८६	ब्रह्मेन जायते संपन्ना	५५४		

शरव्यापितः सरित्स्वैव	३३२	शिवङ्करे तदीशस्य	४९३	शून्यत्रयद्विसप्तोक्त-	५९०
शरासनानि संघार्य	३१७	शिवगुप्ताभिधानस्य	३२७	शून्यत्रयमुनिप्रोक्त-	६९
शरीरं न भिषग्राह्यं	३९	शिवगुप्तमुनेरन्ते	२४१	शून्यत्रययुगाष्टोक्त	८३
शरीरभोगसंसार-	१९६	शिवभूतेः समापन्ना	४८७	शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त-	१२३
शरीरवृद्धिस्तस्यासीद्	४९	शिवभूतेरभूद्भार्या	४८७	शून्यत्रिकर्तुं विख्यात-	९०
शल्येन वृषसेनेन	३८०	शीतलाख्यजिनाधीश-	३९५	शून्यत्रिकदशज्ञेय-	३७
शशस्य सिंहपतेन	२९६	शीतलाम्भस्तटाकं वा	४४४	शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्त	२४६
शशाङ्कः सेवक. प्रेमक-	५६१	शीतलेशस्य तीर्थान्ते	७५	शून्यत्रितयपक्षैक-	१७
शस्त्रेणाहन्तुमुचुक्ता	४०८	शीतलो यस्य सद्धर्मः	७१	शून्यत्रितयरन्ध्रद्वि-	२३६
शाण्डिलाख्यस्य मुखस्य	४४८	शीलदत्तगुरोः पार्श्वे	४८८	शून्यत्रितयसप्तोक्त-	७४
शातङ्करे समुत्पद्य	३५२	शीलमाहात्म्यसंभूत-	४६६	शून्यद्वयचतुःपक्ष-	३०
शान्तचित्तः स निर्वेदो	११३	शीलायुषो गुणव्रात	४६५	शून्यद्वयचतुःशून्य-	६२
शान्तं वपुःश्रवणहारिवचश्चरित्रं ७०		शीलावहा महादेवी	४०५	शून्यद्वयद्विरन्ध्रोद्वि-	७४
शान्तिरभ्येति निद्विष्टं	४७०	शुक्तिभूक्ताविशेषेण	२१४	शून्यद्वययुगाष्टैक-	३१
शान्तिवृद्धिर्जयः श्रेय.	५७५	शुक्लकृष्णत्विषी	१२६	शून्यद्वयतुं रन्ध्रोक्त-	३७
शान्तीशतीर्थसतान-	२१४	शुक्लध्यानं समापूर्यं	४२०	शून्यद्वयधिषुन्याब्धि-	१३१
शाङ्गपञ्चमुखः पार्श्व-	३२५	शुक्लध्यानान्निर्दग्ध	५३०	शून्यद्वयानिपक्षोक्त-	३७
शालयो लीलया वृद्धि-	२००	शुक्लध्यानानलालीढ	५४७	शून्यद्वयाष्टरन्ध्रैक-	१७
शालाख्यवैद्यवेषेण	४१६	शुक्लध्यानोद्धसद्भ्यात्वा-	६०	शून्यद्वयेन्द्रियतृक्त-	८२
शाश्वतं पदमन्विच्छन्	२४७	शुक्लध्यानेन कर्माणि	३७	शून्यद्वयेन्द्रियद्वयुक्त-	६९
शास्त्रवालत्वयोरैक-	२६३	शुक्लफाल्गुनजाष्टभ्यां	१५	शून्यद्वितयवस्वैक-	२०९
शास्त्राभयान्नदानानि	७६	शुक्ललेश्याः श्वसन्मासै-	५३	शून्यद्वितयवस्वैकै	३८७
शास्त्राभ्यासनवीलो-	४४४	शुक्ललेश्यः स्वतेजोऽव-	२६	शून्यद्वितयषड्रन्ध्र-	१७
शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या	४३३	शुक्ललेश्याद्वयः सार्द्ध-	२१८	शून्यद्विरन्ध्रवाध्वंश्वि-	४२
शिक्षकाः स्रद्धयत्नैक-	४	शुक्ललेश्यो द्विहस्ताङ्गको	४०	शून्यं पञ्चाष्टरन्ध्रोक्त	३२५
शिक्षका. षट्शतद्वादश-	३३५	शुक्ललेश्यान्मार्गशीर्षस्य	२२०	शून्यपञ्चकपक्षाब्धि-	३२५
शिक्षकास्तस्य सद्गन्धाः	२४७	शुचिशुक्लचतुर्ध्वन्त	१३१	शून्यपञ्चचतुःश्वैक	३१
शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ	७९	शुचौ कृष्णदशम्यन्त-	९८	शून्यपञ्चचतुर्द्वैक-	४
शिक्षिलीभूतभीः कन्या	५४६	शुद्ध एव चरन्पक्षे	१७	शून्यपञ्चद्विकैकोक्ता	३३५
शिक्षिकां नागवत्ताख्या	१३०	शुद्धदेशजभेदं तत्	४५५	शून्यपञ्चमुनीन्द्रैक-	२३७
शिक्षिका देवकुर्वाख्या-	३८६	शुद्धश्रद्धानचारित्रः	१३५	शून्यपञ्चतुंरुद्रोक्त-	२३
शिक्षिकां देवसंरुद्धा-	८९	शुद्धश्रद्धानमक्षय्य-	२१	शून्यपञ्चैकपक्षोक्त-	१७
शिक्षिका वैजयन्त्याख्यां	२२०	शुद्धश्रद्धानसंपन्नं	१९२	शून्यपञ्चैकरन्ध्रोक्त-	४२
शिरस्तत्पश्यतो भर्तु-	३२१	शुनः स्थाने स्थितो दीनो	५२	शून्यषट्कैकपूव्यु-	५७
शिरोमुखादिसंजात-	१५०	शुभयोगे सितज्येष्ठ-	४०	शून्यषड्युगपक्षोक्त-	४०
शिरो विराजते तस्य	२०४	शुभा शब्दाभिधाना च	१८९	शून्यषड्वाधिपूव्युः	२७
शिलां रुष्ट्वा वृषारुद्धा	१९१	शुभाशुभविपाकानां	३०८	शून्यसप्तकवस्वब्धि-	३२५
शिलां हस्ततलेनाह	१८१	शुभाशुभविभागोक्त-	१५०	शूरो लघुसमुत्थानः	९२
शिलातले निविश्योच्चै-	४५४	शुश्रूषाद्यष्टषीधुर्यान्-	४०	श्रुगालः कश्चिदास्यस्थं	५३४
शिलासलिलहेतोस्ती	३४७	शुष्काहारमथान्येषु-	५५३	श्रुया चित्तं समाधाय	४७०
शिल्पिभिः कारयित्वाक-	४३३	शून्यशैवेऽतिदुःखेव	३९६	श्रुया देव महच्चित्र-	३७८

श्रुषु भट्टारक स्वामिन्	२८६	श्रीचन्द्रार्हं न भोक्ष्येस्म-	५१४	श्रुत्वा तत्तो च गत्वेन	३५२
श्रुषु भव्य भवस्यास्य	१५८	श्रीनिपुष्ठः कुमाराणा	१४५	श्रुत्वा तस्योदनाधीशो	१५५
श्रुषु भद्र प्रवक्ष्यामि	५१७	श्रीदत्ताया कुशास्त्रज्ञः	१९३	श्रुत्वा तस्योर्ष्वं श्यातं	३६८
श्रुषु वैरं विसृज्यास्मिन्	१०८	श्रीधरास्वगुरोः पावर्चं	४४९	श्रुत्वा तस्त्वहिदुं नाहं	१५६
श्रुषु श्रेणिक जम्बूझ	४९४	श्रीधरस्य सुता श्रुत्वा	४०५	श्रुत्वा तस्सात्मजो राम-	२५५
श्रुषु सागरसेनास्य-	५५२	श्रीधराख्या सुता बाता	११४	श्रुत्वा तदैव तं लब्ध-	३७७
श्रुष्वेते जन्मनि प्राचि	४२४	श्रीधरा चागता वाकात्	११५	श्रुत्वा तद्गोपतिः शोका	३७०
शेषयोस्तु चतुर्थं स्या-	४७६	श्रीनाथजिनमासाद्य	२५०	श्रुत्वा तद्वचनं क्रोधे-	३७९
शेषाः कल्पे भवजादौ	३२८	श्रीभागदत्तमातापि	४९१	श्रुत्वा तद्वचनं चक्रौ	३८४
शेषाः प्रकृतयस्तेन	६६	श्रीनाथदत्तसंप्रोक्ता	४९१	श्रुत्वा तद्वचनं चित्ते	४४९
शेषमाला समादाय	५०२	श्रीपञ्चम्या बुधाद्रां-	५७७	श्रुत्वा तद्वचनं तो च	२४१
शेषावसर्पिणीकाल-	५५५	श्रीपुरेशः प्रजापाल-	२३८	श्रुत्वा तद्वचनं मन्द-	२२४
शेषी यथोपविष्टार्थ-	२६२	श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे	५०	श्रुत्वा तद्वचनं राजा २५३, ३४२	३४२
शैलस्तम्भं समुद्धतुं	३७०	श्रीभूतिः सत्यघोषाङ्की	१०८	श्रुत्वा तद्वचनं विप्र-	४७६
शैशवोचितसर्गार्थ-	२७	श्रीभूतिसचिवो नागभ्रमरः	११९	श्रुत्वा तद्वचनं सर्व-	२९१
शोकदावानलम्लाना-	१७३	श्रीमती वज्रजड्घं वा	२९३	श्रुत्वा तन्नागराजोऽपि	१०७
शोकाकुलः सुचिचिण्ण-	३४३	श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठास्यः	३४२	श्रुत्वा तन्नाहमस्य स्या-	४६९
शौर्म्यदेशाधिपः क्षुर-	३८८	श्रीमद्गन्धकुटीमये	६२	श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्या-	२८९
शौर्म्यस्य संभवो याव-	२८२	श्रीमान् जिनेऽजितो जीयाद्	१	श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि ४३४	४३४
शौर्म्योजितत्वाद्दुःसाह-	२८२	श्रीमाचामुक्तिपर्यन्तं	४९८	श्रुत्वा दूतोऽभ्युपेत्यैव-	३१०
शमशाने राक्षसः पापी	१५२	श्रीमानितः खगाधीशो	४५३	श्रुत्वा धर्मं च सम्पत्कृतं	११४
श्रद्धादिगुणसंपन्नः	५३, ३८६	श्रीमूससंज्ञवाराशौ	५७३	श्रुत्वा धर्मं जगत्पूज्य-	५०२
श्रद्धानबोधरदनं	१०१	श्रीवर्धमानमनिर्षं	४६५	श्रुत्वा धर्मं जिनादस्मा-	५२९
श्रद्धाय बौधिसासाद्य	३९३	श्रीवर्धमानमानस्य	४६८	श्रुत्वा धर्मं तदभ्यर्णो	५३९
श्रद्धालुर्धर्ममप्राक्षी-	३२५	श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या	५०	श्रुत्वा धर्मं व्रतैः साहं-	१७६
श्रद्धा सद्यः समुत्पन्ना	४७३	श्रीधर्मा श्रीधरो देवोऽजित-६५		श्रुत्वा धर्मं सतां त्याज्यं	५१
श्रवणाह्लादिवादित्र-	३७१	श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या-	११८	श्रुत्वा धर्मवियादत्त-	३९७
श्रवणो संघमं प्राप्य	८२	श्रीघृक्षस्वत्तिकका	१५०	श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म	११२
श्रव्यं हितमितालापैः	३०६	श्रीषेणः कुरुज. सुरः	२११	श्रुत्वाऽप्ययनसंपन्न-	१६०
श्रावक. कपिरोमास्य-	४७५	श्रीषेणश्चान्यदा गत्वा	५१४	श्रुत्वा रूपो वणिङ्मुह्यो	३८८
श्रावकः समुपेत्येनं	५४२	श्रीषेणाख्यमह्नीशस्य	४२४	श्रुत्वा परशुरामस्त-	२८८
श्रावकाः सुरकीर्त्याद्याः	२१०	श्रीषेणार्थां सुवस्तस्य	१७८	श्रुत्वाऽपरजितो धर्म-	११५
श्रावका लक्षमेकं तु	३३५	श्रीषेणो नाम तस्यासीत्	४७	श्रुत्वापि तीर्थं कृद्वाच	४४७
श्रावकास्त्रीणि लक्षारिणि	४	श्रुतं तपोभूतामेषा	५६४	श्रुत्वा प्रोचदमर्षण	१९३
श्राविकापञ्चलक्षार्थ्यः	७०	श्रुतं त्वयेत्यसौ शास्त्रे-	२७१	श्रुत्वा भक्त्या परीत्येनं	५५३
श्रित्वा नदी समुद्भूत-	५५९	श्रुतं ववतृविशेषेण	४००	श्रुत्वा यथार्थमस्याविभूत	१४५
श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्मं	४१२	श्रुततद्वचना साह	३४१	श्रुत्वा यथावन्मैमित्त-	२२७
श्रियं जिघात्स मे निघ्नन्	१४	श्रुतधर्मकथो जात-	२७८	श्रुत्वा यस्य वचोऽश्रुतं श्रुतिः ४४	
श्रियो माया सुखं दुःखं	८७	श्रुतप्रावृद्धवज्जान-	१५५	श्रुत्वा रामोदयापादि-	३०७
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्	४७	श्रुतस्वप्नफला देवी	४६०	श्रुत्वा लक्षसुखत्तेशो	३५८
श्रीगृहे काकिणीचर्म-	२४९	श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रि	४९६	श्रुत्वावधार्यं तद्राजा	३५३

श्रुत्वा विभूतिमद्गत्वा	५२७
श्रुत्वा याज्ञघ्नः शशु-	३७९
श्रुत्वा श्रीवागदत्तोऽपि	४९०
श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा	४९
श्रुत्वा सप्तश्रयो धर्म-	८७
श्रुत्वा सुव्रतनामार्हृत्पावर्षे	९३
श्रुत्वाहं तत्र गत्वाह्यं	१५४
श्रुत्वैतत्कर्म किं कर्तुं	३६९
श्रुत्वैतत्पितरो कन्या	५११
श्रुत्वैतदतिशोकार्ता	१७३
श्रुत्वैतद्राज्यभारं स्वं	१६९
श्रूयते तत्तथैवास्तं	२२६
श्रेण्ड्याधिपत्येव	१६५, ४५४
श्रेयः श्रेयेषु नास्त्यन्यः	७९
श्रेयस्तीर्थान्तरं पञ्च-	८८
श्रेयो गणधरं, प्राप्य	१२५
श्रेयो वाप्तुं ततो यत्नं	४७५
श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन	२०९
श्रेष्ठिना वयमाहृता-	४९१
श्रेष्ठिनी किं करोतीति	४८६
श्रोतुं ममापि चेत्याह	५४४
श्लाघ्यमानः स्वयं केनचि-	३५६

## [ ष ]

षट्खण्डमण्डतां पृथ्वी	२८१
षट्त्रिंशन्मुनिभिः सार्धं	४३९
षट्पञ्चाशन्महाद्वीपा-	२९६
षट्शून्यवह्नैर्पुत्रयुः	३५
षट्षष्टिमितधर्मादि-	९०
षट्सहस्रचतुर्ज्ञान-	९०
षट्सहस्रप्रमाणोक्त-	८३
षट्सारोपमात्मायु-	२४८
षडङ्गबलसंयुक्तः	२१५
षड्विंशसितनूत्सेधो	२३१
षण्णवत्युक्तपाषण्डि	५५५
षण्मासान् साररत्नानि	४०
षण्मासैर्मौनमास्थाय	३७
षण्मासैरन्तिभैस्तस्मिन्	४३४
षष्टिलक्षमिताब्दायुः	९८
षष्टः श्रीभूषणशब्दाह्वयः	५६१
षष्ट्यामथोत्तराषाढे	३७७
षष्टोपवासयुक्तस्य	३८७

षष्ठोपवासेनाहृत्य	२२०
षाड्गुण्यं तत्र नैर्गुण्य-	१९
षोडशाभ्यांयुषा दिव्य-	८५
षोडशाभ्युपमस्वायु-	३३७
षोडशाविभंविष्यन्ति	५६०

## [ स ]

संक्रुद्धमत्तमातङ्ग-	३८१
संयामाम्भोनिधेः प्रोताः	३१७
संयामासहनात्तत्र	८४
संजयन्ततनुजाय	१०६
संज्ञया सर्वकल्याणी	१५४
संज्ञाप्रज्ञास्वच्छिह्नादि	१७९
संज्ञासर्वमूर्धन्यः	९४
संन्यस्यन्ति सहस्रारं	१२५
संन्यस्येशावकल्पे	१८२
संन्यस्यान्तपरित्यक्त-	३४
संन्यासविधिना त्यक्त-	१४
संन्यस्य विषयवृक्षं च	१०७
संन्यसं बहुभिः सार्धं-	५२९
संन्यसं सम्यसादाय	१८५, ३३७
संन्यसं स्वयमादाय	३३६
संन्यसप्रत्ययोत्पन्न-	२३६
संन्यसस्य परां कोटि-	१९८
संन्यसासंयमाहृष्टं	४५७
संन्यसोऽयं त्वयैवापि	२५४
संन्योगजः स्वज इति द्विविधो	५६८
संन्योगो देहिनां देहे	१२१
संन्यतरं समादाय	१७२
संन्यतरद्वये याते	१२३
संन्यतरसहस्राणां	२४५
संन्याह्यमाना देवीभि-	२१९
संन्यसंबदमानेन	२७५
संन्यसजननं पुण्यं	३३९
संन्यसामस्तथान्येषु-	२६९
संन्यसक्ताख्या निषिद्धेषु	५४२
संन्यसक्तुमुद्धती सा विका-	२३४
संसारभीरुराप्रोक्त-	१३८
संसारवर्धनं सार्धं	५३०
संसारी निवृत्तश्चेति	४६७
संसारी मुक्त इत्यात्मा	२४४

संसारे चक्रकभ्रान्त्या	३९
संसारे पञ्चधा प्रोक्तं	४९४
संसारे प्रलयं याते	५५
स एषोऽभ्यर्णमभ्यत्वा-	४९३
स कदम्बमुखी वाप्या	४१५
सं कदाचिच्छरीरादि-	१२५
सं कदाचित्तनुजाप्ये	५०
सं कदाचित्सभागहे	७६
सं कदाचित्समासाद्य	१०२
सं कदाचित् समासोऽनं	८७
सं कदाचित् समुत्पन्नबोधिः	१
सं कदाचित् सुखासीनः	३
सं कदाचित्सवजामातुः	१४९
सं कदाचिदयोध्यायां	३४९
सं कदाचिदुपश्लोक-	४८९
सं कदाचिदुपाध्यायः	२६५
सं कदाचिद्विंशं गत्वा	१९३
सं कदाचिद् दिवोल्कायाः	२१३
सं कदाचिद्वने रन्तुं	४०१
सं कदाचिद् विलोक्योल्का-	२३८
सं कदाचिन्महावर्षा-	३६८
सं कदाचिन्महीनाथो	४७
सं कलाभरसंदोह-	४६३
सं कोऽपि पापपाको मे	९२
सं को मे कौतुकं तस्मिन्	५२९
सं कौतुकः समन्येत्य	४९४
सं क्रियं धर्ममाकर्ण्यं	३५१
सं क्तो रत्नायुषो भोगे	११५
सं खत्रयसुपक्षतुं-	८१
सं ख्यांथी वनराजस्य	५१४
सं खरश्रक्रवर्त्येषु शेषैः	८
सं खोरतपसा दीर्घं	१३२
सं कलम्य नरेन्द्रोऽपि	३७७
सं कुलीकृतसौषोऽ-	३७८
सं कलेशेन सदाबद्ध-	४७४
सं क्षोपाद्विरुतेरर्था-	४७२
सं चक्रलक्षितां लक्ष्मी	४३१
सं चामरा महीशा वा	३१७
सं चित्तस्तत्र जैनेन्द्र-	५४९
सं चेतकमहाराजः	४८३
सं च्चचारित्र्येऽन्यथास्वज्ञे	१३८

स जयति गुणभद्रः	५७८	सदा त्रिभुवनासेव्यो	१८	स धर्मस्तस्य लाभो यो	४६९
स जयति जयसेनो यो	१३	सदादित्रितयं नदृश्यत्	५५	स धीमान् वृद्धसंयोग	५४
स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः	५७७	स दाय्यादभयाद् गत्वा	५१३	स धीमान् षोडशे वर्षे	५४
स जानि जयसेनाख्यं	३१३	सदा विनिद्रो भुगवत्	१३७	स धीरलक्षितः पूर्वं	३१
स जीवितान्ते संभूय	४४७	सदा शब्दप्रवीचारश्चतुर्थ-	८८	स धृत्वैकाग्रशाङ्गानि	३३१
संज्ञनावर्ण्यं निगिबत-	३८१	स दुर्गन्धेन- तज्जन्तु-	५३५	सन्तुक्कुमारकल्पस्य	२५४
संजयन्तमहावैत्यं-	१५६	स सुरचेष्टितदौर्गत्या-	५३७	सन्तुक्कुमारचक्रेशं	१३६
संजयस्थार्थसंदिहे	४६२	स दूतः सत्वरं गत्वा	१४५	सन्तुक्कुमारदेवोऽस्मा-	५६४
संजातसंमदाः प्राप्य	३७७	स दूतो राजगृहं स्वं	१४५	सन्तुक्कुमारादैराख्या	२०२
संज्ञानेस्त्रिभिरप्येभिः	९९	स देवदेव्यसंख्यात-	३१	स नापितं विकाराणा-	४१८
स तं निरोक्ष्य तर्ज्व	२१५	स देवरमणोद्याने	१९१	स नारद- पुनस्तत्र	२८५
स सधैवाचरन् धोरं	२२२	स देवार्चनवेलाया	४८३	सनिदानोऽभवत्प्रान्ते	४५१
स सदैव सभागव्याप्ति-	१६७	सद्गृहित्वादिसिद्धघन्ताः	१९६	संतत्या मलसंचयः परिणतो	१०१
स सदेतुसमुद्रभूत-	७३	सद्दृष्ट्या सौकुमार्येण	१९९	संतप्यो मायया सीता-	३२१
सति व्ययेऽपि वरघाना	४६७	सद्धर्मलाभयोग्यादश्च	५४४	सन्तस्तद्वाच्यवाश्चाय्ये	२६१
सती प्रीतिमती मेरुगिरेः	३४१	सद्भावप्रतिपन्नाना	१०९	संतानिभ्यः सर्वतानः	१७९
सती विजयदेवस्य	४०४	सद्भावः सर्वशास्त्राणा	५७४	सन्ति तत्सेवकाः सर्वे-	३०४
स तेन मानमङ्गेन	९२	सद्यः कृत्वा समुद्रघात	१००	संतुष्टिबिनयशान्ती-	५६०
स तैः श्लाघ्यषडङ्गेन	२४९	सद्यः प्रापयतः स्मैती	५५१	संतुष्य भूपतिस्तस्मै	११०
स तै सहवाहृत्वास्त्रिार्य-	९०	सद्यः शीलव्रती स्पर्शा-	२९३	सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः	५६२
सत्कर्म भावितैर्भाविः	४४६	सद्यश्चतुर्विधा देवाः	८१	संदधत्सन्तति मुञ्चन्-	५०१
सत्कुलेषु समुद्रतास्तन	४६	सद्यः सम्पक्त्वमादाय	१८०	संधि सपोधनैः साद्धं-	२८०
सत्यं प्रकुर्वता सद्यः	२८५	सद्यः सरसि शुष्काणि	२७४	संधेव भानुमस्ताद्रा-	३८६
सत्यं सार्वदयामयं तव वचः	८३	सद्यः सामयिकीं श्रुद्धि	२०८	संनद्धाः सन्तु नो युद्धे	३१८
सत्यधोषो मृषावादो	११०	सद्यः सीतालता दधु	३०१	संतिधाने च तस्यायः	५०
सत्यं धरमहादेव्या	५२७	सद्यस्तच्च शालनं दृष्ट्वा	५४९	सन्मार्गदूषणं कृत्वा	४५६
सत्यं धरमहाराजं	५२०	सद्यस्तदास्य बालस्य	३६५	संन्यस्य विधिना स्वर्ग-	५४४
सत्यं धरमहाराज-	५२५	सद्यस्तामेत्य तत्कर्म	४०३	संन्यस्य विधिवत्लोक-	५४४
सत्यं धरोऽश्वादेतद्	५०९	सद्यो जयानकानीकं	३८२	सपक्षा इव संपन्न-	३१७
सत्यं धरं रतिर्न स्वात्-	४९७	सद्यो जार्लं जिनेन्द्रं	३२	स पञ्चाग्निस्तपः कुर्वन्	११८
सत्यं ध्यात्मनि कौमारे	२३९	सद्यो जातिस्मृति गत्वा	४५६	स पातु पावर्चनाथोऽस्मान्	४२१
सत्यभामागृहं गत्वा	४१७	सद्यो द्युस्तसमहोऽपि	१२४	स पुनः श्रावणे क्षुब्ध-	३७७
सत्यभामा सुताराऽभूत्	१६४	सद्यो निवर्तते स्मास्थान्	३६१	सप्तपुत्राः सन्नाप्यन्ते	३६४
सत्यभामासुतोद्दिष्ट-	४१८	सद्यो निविद्य ससारात्	१०३	सप्तप्रकृतिनिर्मूल-	४७२
सत्यं भक्त्या सुधीव्यपिञ्ज-	३४५	सद्यो मनोहरोद्याने	३३१	सप्तप्रकृतिनिर्निधि-	१५९
सत्या प्रयाति कालेऽसा-	५९	सद्यो मन्त्रिपदाद् भ्रष्टो	१११	सप्तमः सकला पृथ्वी	३६४
सत्यामुषि मृत्सिन्सिन्धु-	२२	सद्यो यन्वी च सुत्याप्य	४१७	सप्तमीं पृथिवी पायाद्	११७
सत्यु भावितु च प्रीति-	४९७	सद्यो विलोक्य सोऽप्याशु-	१६८	सप्तमे सयमस्थाने	१०६
सत्यु सत्स्वपि भोगेषु	४४९	स द्रव्यसंयमो भूत्वा	५४०	सप्तमेऽह्नि यक्षस्य	१५३
सदसदुभयमेतेनैकधन्वेन	९१	सद्दृ तस्तेजसो मृत्ति-	१०४	सप्तर्षयो वा पुण्यश्च	४८७
सदसद्वादसद्भाव-	१२३	सद्देवोदयसंभूत-	२१८	सप्तविधातिवाद्द्व्यायु-	१३

सप्तविंशतिवाराशि-	४३२	समाधिघत्पुरा गर्व	५०९	संपाद्य तीर्थकृत्साम	२३४
सप्तव्यसनसंपन्ना	३८८	समाधिगुप्तनामानं	४२३	संपूज्य वन्दितुं यान्ति	५३८
सप्तव्यसनसंसकती	१६८	समाधिगुप्तमासाद्य १९२,	४३१	संपूर्णः किमयं शरच्छशशरः	६४
सप्तसप्ततिकुण्डवादि-	८२	समाधिगुप्तयोगीशे	४०४	संपूर्णयोगिबना वासी	४०९
सप्तस्थानगतौ ह्यात-	४०९	समाधिगुप्तसंज्ञरथ	५६१	संपीष्य पालयामास	६६
सप्तापि काननेऽप्येष्टु-	३९१	समानां पञ्चपञ्चाशात्	२३५	संपुच्छन्ति स्म सर्वेऽपि	२७३
सप्ताब्दयुपमितागुष्को	४४८	समानां सप्ततिस्तस्य	५५५	संप्रत्यपि दृक्कतोऽहं	३१३
सप्ताब्दयुपमितायुः सन्	४४८	समापाद्यदाकर्ण्य	३५९	संप्रत्यप्रतिमल्लो वा	१६८
सप्तारत्निप्रमाणाङ्गा	५५५	संमायुतमितात्मायुः	२४८	संप्रविष्यायुषागारं	३८४
सप्रतापा प्रभेवाभात्	३६०	समारोपितकोदण्ड-	४१६	संप्राप्तवान् कुमारोऽपि	५४८
सप्रश्रयं प्रजानाथ-	४५३	समाश्लिष्य सुखप्रश्न-	५११	संप्राप्ताशसिना स्वप्ना-	४६०
सप्रश्रयं समीक्ष्यैन-	४९५	समीक्ष्य तं जनोऽप्योन्य-	३५२	संप्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः	१२३
सफला सर्वदा वृष्टि-	३३९	समीक्षयादेशिकप्रोक्त-	३५५	संप्रान्नुवन्ति तत्रैते	५४४
सबलं पितरं हत्वा	१७२	समीपं प्राप्य भक्त्यातो	४७४	संप्राप्य खेचरेश्वर्य-	३५९
स बालवत्सया धेन्वा	८५	समीपे वन्दनार्थाया	५२७	संप्राप्य गगनाभोगं	१८८
स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं	२३२	समीपे तस्य तत्सूनुः	२६२	संप्राप्य चित्रकूटाख्यं	२९१
सभयस्तानि दृष्ट्वाख्य-	३६८	समीपे रामदत्तापि	११२	संप्राप्य जीवितस्थान्तं	७२
सभव्योऽतिविरक्तः सन्न-	३९०	समुन्वासनमारोप्य	१६०	संप्राप्य धर्ममाकर्ण्य	४५९
सभां भीत्वा खगेशो	१५७	समुत्कृष्टाष्टशूद्रोद्भि-	२२८	संप्राप्य बहवो नोप-	५०८
संभार्यं श्रेष्ठिनं मैव-	४९२	समुत्तानयितुं शकता	२९१	संप्राप्य भुक्तभोगाङ्गी	४५९
समं जनन्या सन्नन्दि-	४७२	समुत्पन्नमहाबोधिः	४६३	संप्राप्य मेरुमारोप्य	४६१
समं प्राणैरियं त्याज्ये-	३०२	समुद्रगतैकछत्रादि-	३२८	संप्राप्य पतितस्तस्मिन्	५४१
समं भानुश्च संजात-	४१७	समुद्रघटय्य सद्बृत्त-	५४१	संप्राप्य युद्धयमानेषु	३१४
समक्षं भूपतेरालम-	२०९	समुद्रभूतेन तपसो	२२६	संप्राप्य यौवनं तन्वो	४५२
समनन्तरमेवास्य	१३५	समुद्रभूतोऽयमाश्लिष्य	२२७	संप्राप्य राघवं सोप-	२९६
समभावनया तृप्यन्	२४७	समुद्रभ्रान्तो निवार्योऽप्यै-	५०६	संप्राप्य संयमं प्राप्य	३४१
समभाषत मायाज्ञो	२२२	समुद्रविजयाख्याय	३५३	संप्राप्य शंभवं प्राप्य	४०९
समयुञ्जत रामेण	३२३	समुद्रविजयादीनां	३४५	संप्राप्य विविधाहारान्	४१७
समधितो महादेवः	३७	समुद्रविजयाधीशं	३६०	संबन्धो बन्धुभिः कोऽसौ	५९
समर्प्यन्ता कलत्राणि	३८०	समुद्रविजये पाति	३५३	संभवे तव लोकानां	१५
समवर्तनिरान् सधन्	३२०	समुद्रसैननामानं	३५०	संभावयतु पिङ्गाक्षं	२६०
समवसरणलक्ष्म्या	५	समुनिस्तोर्धनाथेन	४५४	संभावयन्तमात्मानं	२८४
समश्राणयता वैश्य	५१२	समुन्मूल्य निहन्तुं तं	४५०	संभूतपरिणामेन	२७०
समस्तद्रवसंपन्नो	४७०	समुपाविक्षदेकत्र	२९८	संभूय पौदनपुरे	१२७
समस्ताह्लादकेनासी-	१५	समुपेत्य रथाङ्गेषा	४०२	संभूयेतौ द्वितीयेऽह्नि	३२४
समस्तै शैशवं तस्य	३४	समुल्लङ्घितमयादिः	९५	संमत्स्तेनमस्कर्तुं	५४५
समाः पञ्चसहस्रान-	२१४	समेतमेव सम्यक्त्व-	४८०	संमेदं पर्वतं प्राप्य	१८
समाकर्ण्य समुत्पन्न-	३३१	संभवस्यान्तरे जाते	२०	संमेदगिरिमासाद्य	८३,१२३
समाकर्षणरञ्जनाव-	४९१	संपत्तिर्वा शरित्रस्य	४११	संमेदपर्वते मासं	३७
समागत्य तयोः कृत्वा	२३५	संपद्यते न वेत्येतद्	२९८	संमेदशैलमासाद्य	७५
समाचारबहिर्भूता-	५४२	संपर्कं मनसा मत्वा	४८५	सम्यक्त्वमपरे सद्यः	४६९
				सम्यक्त्वादिचतुष्केण	४७५

सम्यक्वाभावत-	१७२	सर्वभाषा भवद्भाषा	४२९	स विद्यया समाहृता-	२७५
सम्यक्त्वादिवृ बध्वासी	३४२	सर्वभाषास्वभावेन	३५१	स विलजो हयग्रीवो	४५४
सम्यक् प्राथयतेतास्ते	५१९	सर्वमेतद्गुरोरात्-	५५०	सविष वाशन मित्र	४९७
सम्यक् श्रद्धया तत्सर्वं	४१५	सर्वलक्षणसंपूर्णा	११५	सविस्मयो विलङ्घ्येना	३६५
सम्यगाराध्य सभूत-	३९३	सर्वलक्षणसंपूर्णा	३३७	सव्यापसत्यमुषत्तार्थ-	३१९
सम्यगेवं तपः कुर्वन्	२२०	सर्ववित्तगतश्रद्धा	४८०	सन्नतो जीवितस्यान्ते	४०८
सम्यग्ज्ञानविहीनत्वा-	४४७	सर्वविद्याच्छिदा श्रुत्वा	४००	सशत्यः सोऽपि तच्छ्रुत्वा	८५
सम्यग्दर्शनमादाय	१४१	सर्वशस्त्रसमृद्धिज्ञ-	३८२	स शब्दः स हि तर्कज्ञः	५५७
सम्यग्दर्शनरत्नं च	५५७	सर्वशान्तिप्रदो देवः	२०४	स-शीलगुणसंपन्न-	८४
सम्यग्दृष्टिगृहीते दुग्	५०१	सर्वश्रीरायिकावर्गं	५५८	सशोको गृहभागत्य	२६४
सम्यग्दृष्टिर्यं सत्त्वं	५४८	सर्वसङ्गपरित्यागाद्यत्र १३९, ५२७	५३६	स श्रीगोतमनामापि	३५०
सम्यग्भवति विज्ञात-	३५६	सर्वसंतापकृत्तीक्ष्ण-	५३६	स श्रोवृद्धि-च संप्रापत्	२१
स यः षोडशमेदेन	१५८	सर्वस्थानानि दुःस्थानि	४९७	स श्रुतो मद्गुरोर्वर्म-	२७२
सयत्नां शीलमालां वा	२९९	सर्वस्वमधिजनताः स्वमिह-	५६६	स श्रेष्ठो वनमाळा च	३४३
स योगभावपर्यन्ते	४६७	सर्वस्वहरणोद्भूत	१०९	सं श्चद्रूपकृतिभिर्भूष्य-	३३
सरः सूर्येन्दुकलभ-	२५४	सर्वा निर्वण्य विश्वस्य	५१९	स संरम्य चिरं ताभि-	८६
सरवतो गुणमज्जयार्थ-	९२	सर्वाणि जलपुष्पाणि	५०९	स सद्बुद्धिस्तमादाय	५०१
सरत्नकवचं लेह्य-	३४६	सर्वाण्येतानि संभूय	७३	स सर्वरमणोपाख्य-	५४१
सरतारं परं सारं-	२१८	सर्वाभरणद्वयाङ्गी	४८६	स सहस्रसमायुष्को	३८३
सरसं विरसं तीक्ष्ण	५५९	सर्वार्थसिद्धानुत्पत्ते	२५५	स सन्नद्धबलोऽघाव-	५०७
सरसः सागरात्सर्व-	४३४	सर्वार्थसिद्धिदेवस्य	२१४	स सुखीसुखंसन्तश्री-	७७
सरसा शङ्खचक्रादि	५१	सर्वार्थसिद्धि सिद्धिका-	२०८	स सुवर्णवसुगर्हं	१६१
स राजपूजिषस्तत्र	१६०	सर्वार्थसिद्धी देवेन्द्र	११९	स स्नेहामृतसंपुक्त-	९७
स राजा तेन पुत्रेण	४९	सर्वार्थसिद्धी सत्सौख्यं	१२८	स स्नेहाद्रामवत्तया-	१११
स रामचरणाम्भोज	२९८	सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो	५६४	सह ताभ्या समप्राणी-	३०४
सरोगाः प्रापुरारोयं	८०	सर्वे ते पिण्डताः सग्तो	४	सह तेन महीपालाः	८९
सरोजं बोधयाद्भानो	४८	सर्वे ते पुनरन्येषु-	५२३	सहदेवोऽपि संभ्रम्य	४९३
सर्पशय्या धनु शङ्खो	३६८	सर्वे ते सुचिरं कृत्वा	१२	सह देव्याश्च संभूत-	१३५
सर्वं निषाय तच्चित्ते	४७२	सर्वे दीक्षा ग्रहीष्याम	५३१	सह पूर्वधनस्थान-	५५२
सर्वं स्वयंप्रभाख्येन	३४१	सर्वे निर्वण्यव ल्याण-	१७७	सहयोगो युवाभ्या च	४११
सर्वकर्मचणोऽमात्य-	४९४	सर्वेन्द्रियसमाहृ लाव-	३५	सह विष्णुकुमारेण	३५७
सर्वज्ञः सर्वलोकेशः	६१	सर्वे वाग्धतितो ग्राह्या	५५४	सह संजात इत्येत-	४१८
सर्वज्ञस्य विरागस्य	४७७	सर्वेषां दक्षिता व्यक्तं	२७१	सहसा वेष्टते चार्क	४१६
सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन	४७२	सर्वेषां दिव्यभूषामिः	५०६	सहस्रेत्यद्भूत कर्म	३८४
सर्वज्ञ विजयः पुष्य-	५२५	सर्वैरगुणैर्गण्यो	२६०	सहस्रं सुभ्रीमस्था-	२२८
सर्वज्ञ सर्वदा सर्वं	६३	सलक्षान्तसहस्रोक्त-	१२३	सहस्रैवात्मनो राग	५०९
सर्वथात्वाहितत्वामां	४७९	सलज्जः संयमी भूत्वा	२५५	सहस्रोद्भन्वराख्येन	३९६
सर्वदानिष्टसंयोगो	८	सल्लं वा सुषासंस्प	२५२	सहस्रवेवतारक्ष्यं	२२८
सर्वदोषमयो भावो	४१३	सल्लं प्राभूतं दत्त्वा	४५२	सहस्रपत्रमम्भोज-	३७०
सर्वप्रकृतिसालिष्ये	३२७	सल्लं प्राभूतं दत्त्वा	२५७	सहस्रबाहू सभाष्य	२२५
सर्वमव्यहित वाञ्छन्	१९५	सल्लं प्राभूतं दत्त्वा	२५७	सहस्रबाहुमाहृत्य	२२६
		सल्लं प्राभूतं दत्त्वा	३१८	सहस्रबाहुरिक्ष्वाकुः	२२२



सहस्रभूयः सायाह्ने	२४६	साङ्ख्य्यादीन् लोकविख्यातान्	५४९	साम्राज्यसारसीख्यं	१२७
सहस्रमन्त्रिणां-	४३९	साङ्ख्याद्यातप्रवादानां	४७६	सारभूतानि वस्तूनि	१६८
सहस्रमूनिभिः साद्धं ७०,	२२१	सा जिह्वा तौ मनःकर्णौ	४४	सारमाभोदमादाय	२८१
सहस्रमेकं त्रिज्ञान-	४६८	सातंकरे विमानेऽभू-	३४२	सारसीख्यास्समागच्छन्	४७०
सहस्रयश्ररक्षाणि	२३०	सातपञ्चशुभैः सौख्य-	२	सारस्वतादिसंस्तोत्र-	२१५
सहस्ररश्मिना साद्धं	१५६	सां तेषां फलमाकर्ण्य	१५	साराधनाचतुष्कः सन्	४३३
सहस्राश्रवणेऽनन्त-	७९	सा देवैर्वसुधारादियुजां	६७	साथेन सममागच्छ-	३४३
सहस्रारं करे कृत्वा	२२८	साद्यन्तहीनमनवद्यमनादि-	५६७	साद्धं त्रिकोटिसंख्यातं	३०६
सहस्रारविमानेश-	९७	साधनं क्रमद्यो मुक्ते	१९३	साद्धं द्विचत्वारिंश-	१३५
सहस्राद्धं सहस्रं तु	२४७	साध्यन्त्वन्वयथा दर्पादिभे	११९	साद्धं षोडशमासान्-	३४३
सहस्रेण समाशय	३८६	साधयामासमासास्ते	४००	साद्धं रत्नित्रयोत्सेध	५६०
सहस्रेणाप तुर्थावबोधं	२१५	साधवस्तत्र योग्योऽय-	५२५	साधं कनकवत्यासौ	४५८
सहस्रेणाप्य नैर्ग्रन्थं	६०	साधारणास्तत्र न सन्तु	५६६	साधं स्वपरिवारेण	५३८
सहस्रैः सप्तभिः साद्धं	१४९	साधिका पूर्वकोट्यायुः	५६२	साधं स्वहेतुसंप्राप्तौ	५५८
सहस्रैर्व्यानिर्मास्थाय	२३७	साधुविद्धमनेनेति	५३५	साधंभौमी श्रियं सम्भक्	२२७
सह स्वाभाविकं रूप-	५२३	साध्यार्था इव साध्यन्ते	४६	सा लक्ष्मीः सकलामरावितपदा	४२
सहानावृतदेवेन	५३६	साध्यसाधनसंबन्धो	४७८	सावधिर्विजयं तेन	३७९
सहान्यकल्पे भूत्वेह	५४३	सा नागदत्तबुद्धेष्टां	५५२	सावष्टम्भं वचः श्रुत्वा	१५०
सहान्मयेतु मया लङ्का	३०९	सान्त्वहं कुर्वती वृद्धि	१७५	साऽविशश्चन्द्ररेखाभा-	२०३
सहायांश्चाविद्यत्तस्य	३१३	सापि कालानिलोद्धृता	७२	सा विहर्तुं वनं याता	५०८
सहाया बान्धवाश्चास्य	५०७	सापि गर्भाभिक्रम्यन्ति	३६३	सा वीतरागता प्रीति-	२३५
सहायीकृत्य संपूज्य	३०५	सापि दृष्ट्वा-महोनाथमभ्युत्पत्तौ	४९	सा सुवतायिकाम्भर्णे	३३६
सहायैः सह संविश्य	५००	सापि पञ्चनमस्कारः	४८४	सा स्त्रीत्वाभावबुद्धयेत्	४१४
सहायैः साधितं कार्यं	३१५	सापि पद्यावती क्षान्ति	४०५	साहसं पश्य भुञ्जेऽहं	९९
सहाय्यमहं ताम्या	३१५	सापि स्वस्वामिनीमेत-	५२२	सिंहकेतोविद्यायामिषेकं	३४५
सहासौ विद्यते नान्य-	४७५	साप्यात्ताम्रणाऽऽगत्य	४८४	सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य	११५
सहोत्पत्तौ श्रियोऽनेन	५८	साप्याह तेषु मे बाळा	२२३	सिंहचन्द्रोऽभवद्राजा	११२
सा कथा या समाकर्ण्य	३४३	साप्याह सुजने देशे	५१८	सिंहचन्द्रो मृनीन्द्रोऽपि	११४
साकल्पेन तदाख्यातं	१६५	साप्याह सुप्तवान् राजा	४९६	सिंहनादं तदा कुर्वन्	३२२
साकेतनगरं गत्वा	२६१	सा प्रबुध्य फलान्वात्मपते	१२९	सिंहनिःक्रीडितायुषं	५६
साकेतनगराद्यो-	४३७	साभिषेकं सुरैः प्राप्य	३३५	सिंहभद्रः सुकम्भोजो	४८३
साकेतपतिना किं ते	२६०	सामग्रीसंनिधानेन	४७७	सिंहविष्टरमध्यस्थे	४६८
साकेतपुरमन्थेद्यु-	११६	सामभेदविधानज्ञाः	५१५	सिंहशौर्योऽयमित्येषो	४५१
साकेतपुरमन्थेत्य	३२७	साम वाचि दया चित्ते	८७	सिंहसेनमहाराज-	१०९
साकेतस्य विभूतिं ते	४३७	सामानिकादिभिर्देव-	४६०	सिंहसेनादयस्तस्य	४
साक्षात्लक्ष्मीरिवाक्षणा	५०९	सामानिकादिसर्वद्वि	४३३	सिंहसेनोऽपि कालान्ते	११२
सागरीं धनपालाक्ष्य-	४९९	सामायिकं समादाय	३०, १०४	सिंहसेनोऽयनिषोषप्रान्तः	११९
सागरोऽनन्तकान्तरं	६३	सामायिकादिषट्कस्य	१९७	सिंहकृतिः स सहसा	३७३
सागरीपमकोटीनां	३, ६९	सामायिकादिषट्कस्य	१९७	सिंहासनं समारोप्य	३२४
सागरीपमविशत्या-	२४५	सामायोपप्रदां भेदं	२८२	सिंहासने समासीनं	१९५
साग्निचुल्लोगतस्थूल-	२२६	सामोप्याद्रक्षणानन्द-	२७४	सिंहासने समासीनो	१७५
		साम्राज्यसन्धनान्यस्य	२०७	सिंहाद्विचिद्धाहिन्धो	१४५

सिंहेनैव मया प्राप्तं	४६४	सुखं नाम तदेवात्र	२९	सुतो यक्षादिवलायां	३९३
सितपक्षत्रयोदश्या	१२९	सुखं विषयजं प्राप्तुं	३९०	सुतो राजपुरे जाति	५१७
सिते पीषे चतुर्दश्या	२३	सुखगर्भा जयश्यामा	१२२	सुतो विजयराभाख्यो	३२६
सिद्धकृतमगात्तोतुं	५४३	सुखकुं खादि संवेधं	२३९	सुतोऽस्यास्तव भतरं	३६४
सिद्धभूपद्धति यस्य	५७३	सुखानि धर्मसाराणि	१२८	सुतो तौ यौवनपूर्णा	१८५
सिद्धराक्षसविद्यत्वा-	४८९	सुखानि सह भुञ्जानः	५२४	सुतो समुदभूता ताव-	४०८
सिद्धार्थं कदाचित्तं	१८४	सुखस्य तस्य को वेत्ति	९९	सुवत्तस्तेन निविष्णः	१८२
सिद्धार्थंशिविकामुखा	१६	सुखेन नवमे मासि	२३५	सुवत्तो नाम तस्यासी-	१८२
सिद्धार्थं सुरसंबोध-	४१९	सुखेनासाधुनानेन	५३३	सुदर्शनायिकाभ्यर्णो	३५१
सिद्धार्थो व्याप्तसम्यक्त्वो	३३१	सुखेनासाधुनानेन	५३३	सुदूतमिन्दुनामानं	१४४
सिद्धे वैकत्र धातोवते	२५७	सुगुरुदमषेणाख्यः	३५२	सुधर्ममणभूत्पादर्वे	५३७
सिन्धुसिन्धुखगाद्रघन्त-	३८२	सुग्रह ललहस्तेन	२९१	सुधर्मण्यन्तितं ज्ञानं	५३७
सिन्ध्वाख्यविषये भूभूद्	४८२	सुग्रीवः क्रुम्भकर्णेन	३२१	सुधर्मनाम्नि स ज्येष्ठे	१३०
सिरावनद्वदुष्कायो	३४९	सुग्रीवाणुमदाद्यात्म-	३२१	सुधर्मा केवली जन्मू	५३७
सीता नेति विनिश्चित्य	३१२	सुग्रीवानिलपुत्रादि-	३१६	सुधर्मार्चयामासाद्य	३४८
सीता नेतुमतोऽस्माक-	३११	सुघोषः शतघोषाख्याः	१५६	सुधीः कथं सुखांशेषुः	३०
सीता मियः श्रिताभावि	३०२	सुघोषविद्युद्वंष्ट्राख्यो	१७३	सुधीर्मदनवेगा च	१९२
सीता शीलवती कश्चिदपि	३२१	सुघोषाहेतुना प्राप्त-	५०४	सुधीर्मनीहरोद्याने	१३५
सीताद्यष्टसहस्राणि	३२५	सुज्ञानमप्यविज्ञेय	३१२	सुनन्दो नन्दिषेणश्च	३९२
सीता वैश्वस्युधि प्राप्य	३०१	सुत योग्यतमं मत्वा	३४२	सुनीताख्या च सीता च	३४५
सीता श्यथेति नीता सा-	३०६	सुतं समर्पयामास	५०१	सुन्दर्यामभवत्तस्य	११६
सीता मया हूतयेतत् किं-	३०८	सुतं स्वराज्ये संस्थाप्य	४३१	सुपादर्वो मौनमास्थाप्य	४२
सीतासाधने दाहोऽसौ	२९६	सुतस्य सूरवीरस्य	३४५	सुपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं	३४४
सीता शीलवती सेयं	२९४	सुता च स्यन्दनीरुद्धा	१७५	सुप्तः परार्ध्यमाणिवय-	५३४
सीतोत्सुकस्तथा गच्छन्	२९१	सुता कचकमालेति	१८३	सुप्रकारपुराधीशः	४०२
सीतोदोदकते दुर्ग-	४४	सुता कुबेरदत्तस्य	५३२	सुप्रतिष्ठजिनाभ्यर्णो	३५३
सोमकरमूनि श्रित्वा	१८२	सुता दृढरथायाश्च	४२४	सुप्रतिष्ठमहाराजो	४०
सीरपाणिश्च तद्दुःखात्-	८६	सुता मम सुकान्ताया-	१८२	सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये	३४२
सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य	३६८	सुताममितवेगस्य	२७९	सुप्रभागिनीपादर्वे	१७३
सीराविप्रभृतिप्रसिद्धविलसद्-	३२९	सुतायाजितसेनाय	४	सुप्रभायदियः सप्त	३३५
सीरिणोऽपि मर्वेवात्र	५६१	सुताय मेघसेनाय	१९६	सुप्रभूतमिर्वं लब्धं	३४७
सुकण्डान् शायकान्	४०	सुताय श्रुतशास्त्राय	३३१	सुप्रभोऽपि प्रमाजालं	१२६
सुकुमारी च निविष्णा	४२४	सुतारया सह ज्योतिर्वनं	१५३	सुजन्वाख्यायो भूषं स्वास्थ्य-	२२७
सुकुमारीति सज्ञास्या	४३३	सुतारां भेऽनुजामेव	१६०	सुजोऽपि सुप्रभूतं च	७७
सुकुमार्याः सुबौर्गन्ध्या-	४२३	सुता सागरदत्तस्य	५३२	सुजोजमत्पमप्युप्तं	७०
सुकुम्भेन सिक्कुम्भेन	३१५	सुता हिरण्यवत्यासीत्	११२	सुभानुरभक्ततः	४२८
सुकेतुरिति सर्वस्व	१०३	सुते निःस्तिग्धता भर्तु-	२५२	सुभानुसन्निनामानं	३६
सुकेतोरेव दृष्टान्तो	१०३	सुतो गगनसुन्दर्या	३४१	सुभोयः सार्वभौमोऽजि-	५६
सुकेतुजातो द्युतेन	१०३	सुतो गोतमपुत्रस्य	३४९	सुभोऽपि विपद्यान्ते	२३
सुकेतोविजयाधार्द्रो	३९६	सुतो दशरथाख्यस्य	२८४	सुमार्ति गणिनीं प्राप्य	१८
सुकैत्यायमशक्येन	२३०	सुतो देव्या प्रसंकर्या-	४३२	सुमन्दरजिनाभ्याशो	३०
		सुतो ममायं रागेण	५३२	सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो	१३

सुमित्रो घनमित्रोऽप्य-	५१०	सुविहितमहापाथी	१७३	सोऽपि तण्डायते किञ्चि-	५०८
सुमुखाक्षरपद्मैश्च	३८०	सुव्रताख्यायिकाम्याशे	३९४	सोऽपि तत्तत्त्वसद्भाव-	२४४
सुमुखो नाम तत्रैव	३४३	सुसप्तपरमस्थान-	१९२	सोऽपि तत्संभ्रमं दृष्ट्वा	४९१
सुरः सौधर्मकल्पेऽनु-	५६४	सुसिद्धमृतिनिदिष्ट-	२२७	सोऽपि तद्गणिकावार्ता	११६
सुरङ्गे समवस्थाय्य	५१४	सुसीमा कुण्डला सार्द्ध-	१८९	सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा	१३३
सुरतेषु विलज्जत्वं	२००	सुसीमानगरं तस्मिन्	१, ३३	सोऽपि तस्थोपरि स्थित्वा	५४६
सुरदुःसुभिनिर्घोष	४८६	सुस्थिताख्यमुहं प्राप्य	५३९	सोऽपि तैनैव दण्डेन	२२९
सुरदेवादिगुर्वन्त-	३४७	सुस्थिताऽर्द्धासने सापि	२३४	सोऽपि तेनोपरुद्धः सं-	३६४
सुरम्यविषयान्तःस्थ-	३६२	सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठी	४१०	सोऽपि दिव्यो गजो गत्वो-	३४४
सुरम्यविषये ह्यात-	५३२	सूनवे घनदाख्याय	६७	सोऽपि दुश्चरित्तस्यास्य	३१३
सुरम्यविषये पोवनेशः	३४८	सूनुः कुणिकभूपस्य	४७१	सोऽपि पापः स्वयं क्रोधाः	५५६
सुरम्यविषये रम्ये	४५१	सूनुर्ममैक एवायं	५३२	सोऽपि प्रकटितात्मीय	४१८
सुरलोकादिर्म लोकमिन्द्रे	९८	सूनुविजयभद्रोऽस्य	१४३	सोऽपि प्रागेव बध्वायु	३२२
सुराः केऽत्र नराः के वा	४४६	सूनुस्तयो. प्रतीन्द्रोऽभूत्	१७८	सोऽपि स्रोतो गतो हूरं	३७१.
सुराः पश्चावती वीक्ष्य	१६३	सूनी वनरथे राज्यं	१२१	सोऽपि यद्येवमेतस्य	११९
सुराः सर्वेऽपि नत्वेन-	४६४	सूपकारोऽपि कालान्ते	३९३	सोऽपि यक्षमनुस्मृत्य	५०८
सुराः सौधर्ममुख्यास्तं	८८	सूरसेनो महाराजः	२१४	सोऽपि विप्रोऽतिवारिद्रथ-	१६१
सुराक्षस्तस्य नामूवन्	२३८	सूर्यकान्तसमुद्भूत-	१५४	सोऽपि व्यापारयामास	३९५
सुरादिमलयोद्याने	५२६	सूर्याबन्धमसौ जित्वा	६	सोऽपि रत्नप्रभां गत्वा	५५६
सुराधीशः स्वहस्तेन	४६४	सूर्याबन्धमसौ सैहिकेयो	१६७	सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा	३६२
सुरा निर्वाणकल्याण-	६४	सूर्यावर्ते तपो याते	११४	सोऽपि श्रौचरसाग्निष्वे	५५
सुराष्ट्वर्धनाख्यस्य	४०१	सेनयोश्मयोरासीत्	१२६	सोऽपि संतुष्य सिद्धार्थो	१२
सुरास्तत्र समागत्य	४४५	सेनापतिं समप्राणीत्	२५६	सोऽपि संनिहितस्तत्र	५१६
सुरूपां बालिकां वीक्ष्य	२७९	सेव्यमानः सदा रक्तैः	२९	सोऽपि संप्राप्तसमान-	४५३
सुरूपाख्यसुता विद्यु-	४०३	सेव्यस्तेजस्विभिः सर्व-	१२६	सोऽपि संप्राप्य सामग्रो-	५३०
सुरूपा बसुधा देवी	२५६	सेन्योरुभयोरासीत्	१०४	सोऽपि सर्वसहिष्णुः	१०७
सुरेन्द्रजालं जालान्त-	४१५	सैहिकेयनिर्गोर्णार्क-	३२६	सोऽपि स्वावधिबोवे	५६
सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाब्धि-	१२	सोढुं तदक्षमः कश्चि-	५५६	सोऽप्यदान्मुद्रिकां काम-	४१८
सुरेन्द्रैर्मन्वरस्यन्ते	४०	सोढुं तनुजयोदुःख-	१६२	सोऽप्यथ तव सोदर्योऽ-	५१३
सुरैः संप्राप्ततत्पूजो	३०	सोढसिंहोपसर्गोऽसौ	४४३	सोऽप्यव्यश्च मुनेर्जातिं	५०३
सुरैरूढां समारुह्य	४१	सोढ्वा व्याघ्रकृतं	११७	सोऽप्येवमब्रवीत्प्राप्त-	५४३
सुरैस्तद्दानसंतुष्टै-	६०	सोस्त्वः सहस्रोदस्या-	३२०	सोऽब्रवीत्तव नियणकाले	३५४
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां	१२३	सोस्त्वयाः प्रापयन्ति स्म	२३६	सोमदत्तो नृपस्तस्मै	३६
सुलक्षणार्थां तस्याभूत्	१८२	सोऽनुत्तरविमानेषु	२३४	सोमदत्तो नृपो गौरः	६०
सुलोचनाद्याः षट्त्रिंशत्	४३९	सोऽन्वीतस्तद्भयान्मुक्त्वा	३५६	सोमदेवः सुनिविध-	४२२
सुवर्णजवत्यो च	१०६	सोपदेशं घृतं सर्व-	२६३	सोमदेवो द्विजोऽत्रैव	४२२
सुवर्णतिलकासाद्धं	१८७	सोऽप्यवासो गिरो सम्म-	३११	सोमभूतिश्च वेदाङ्ग-	४२२
सुवर्णतेजसा प्रीति-	५१४	सोऽपि कालान्तरे बुद्धि-	४८८	सोमवंशसमुद्भूतः	२१९
सुवर्णतेजा नाम्नाभू-	५१२	सोऽपि कोपब्रह्माविष्ट-	९२	सोमश्रीस्तत्प्रिया	१५२
सुवर्णतेजास्तस्माच्च	५१६	सोऽपि गत्वा भवद्वार्ता	११	सोमिलाभोजयत्तस्यै	४८७
सुवर्णदारको नाम	५३४	सोऽपि भ्रातानुभावत्वा-	३१३	सोमिलायां कृतद्वेष-	४९३
सुविरभतां वचेशोऽसौ	५१४	सोऽपि तं प्रसिगुह्यैव	४९८	सोमन्यं बन्धवो धर्मो-	१०३

सौजन्यं हन्यते अंशो	१११	स्थित्वा दिनद्वयं वीत-	५६३	स्वनामश्रवणादेशं	२८४
सौषर्मकल्पे चित्राङ्ग-	३४८	स्थित्वा विभासरस्तास्मि-	५२५	स्वनामश्रुतिसंगुण्यन्	२०७
सौषर्मकल्पे देवीत्व-	४०३	स्थित्वा पद्योपवासेन	४६६	स्वपादनखसंक्रान्त-	४१
सौषर्मकल्पे देवोऽम्-	४७८	स्थिरवरणविवेको	३७२	स्वपादनटनुतार्थ-	३१७
सौषर्मकल्पे श्रीवेणे	१६३	स्थिररीडरसः सद्यः	४५७	स्वपादधारणी भद्रां	४८६
सौषर्ममूष्यदेवेन्द्रा	९०	स्थिरावत्युन्नतो शुक्लनौतो	९३	स्वपितामहसंत्यागे	४४६
सौषर्मविपतिर्भक्त्या	३७७	स्थूणागाराभिधानेऽम्-	४४८	स्वपित्रा सममग्येद्युः	५३९
सौषागारे निरस्तान्त्व-	५३२	स्यूपास्थूलपक्वफलाः प्रोद्यद्	१९९	स्वपुत्रछात्रयोर्भाव-	२६५
सौषाग्रा दोलिता लोल-	३७९	स्थूलवेतालरूपाणि	४६५	स्वपुण्यफलसारेण	३८८
सौन्दर्यस्य समुद्रोऽय-	२१९	स्नानसंग्लेपनाशेष-	५२०	स्वपूर्वकृतपुण्यस्य	३८३
सौमुख्यं लोकविज्ञान	१३८	स्नातामलंकृतां शुद्ध-	२६१	स्वपूर्वजन्यपापेन	१८६
स्कन्वाना क्षणिकत्वेऽपि	१७९	स्नाहि चित्तं समाधेहि	४९८	स्वपूर्वभवसंबन्धं	१८८
स्तनप्रसूतिमित्येवं	३०२	स्तुपाम्यसूयया कार्यं	३८९	स्वपूर्वभवसंबन्ध-	४२२, ५११
स्तनयोर्वलवत्पीडां	३६७	स्नेहमोहग्रहप्रस्तो	१३०	स्वप्नान् कृष्णद्वितीयया	२४५
स्तिमिततमसमाधिष्वस्त्र-	१०१	स्नेहादन्योन्यसंशयतं	५१२	स्वप्नानन्तरमेवास्या	३३९
स्तुतस्तदैव संस्तोत्रै-	३०	स्पष्टमानशुभाग्राम्या	२०५	स्वप्नान् षोडश संबीक्ष्य	४०
स्तुत्यं प्रसाद्यितुमधिजनो	५६६	स्पषादियोऽष्टधा स्पषाः	५२३	स्वप्ने किं फलमेतस्ये-	२९५
स्तुत्वा सतामभिष्टुत्य	१९०	स्पष्टमद्य मया दृष्टं	६८	स्वप्ने दृष्ट्वा समुत्थाय	३२६
स्तुत्वा स्वजन्मसंबन्धं	१८६	स्पष्टाकर्णनविज्ञात-	५४१	स्वप्नेऽपि केनचित्तादृग्	१३६
स्तोतुमारिभरे भक्त्या	४३३	स्फुरदुत्खातखङ्गाशु-	३१७	स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य	२६९
स्त्रियः संसारवलयं	४७	स्मरन् देवकृमाराख्ये	१३६	स्वप्रागजन्माकृतिं तस्य	२३०
स्त्रीगुणैः सकलैः शस्या	४२०	स्मरन् सहस्रविधात्या	६७	स्वषाद्वृत्तयेवं	२५९
स्त्री तामनुभवन्तीभि-	२८९	स्मरस्यावा वदिव्यावस्तत्वं	८	स्वषवान्तरसंबन्ध-	४०१
स्त्रीत्वं सतीस्वमेवैक-	२९०	स्मर्तव्या देवता चित्ते	२५३	स्वषातुलानीपुत्राय	४८९
स्त्रीलक्षणानि सर्वाणि	४५२	स्मितभेदाः सरस्वत्याः	२०५	स्वयं गुहं समापत्य	५१२
स्त्रीश्च तादृग्गुणोपेता	४१	स्मिताद्यैः स्वं जयं सोऽपि	३७९	स्वयं गुहागतां लक्ष्मीं	२९४
स्त्रीसुतादिभ्यया शक्यते-	११०	स्मितपूर्वमथा राज्ञा	४०३	स्वयं गुहीतुमारब्धः	४४७
स्त्रीसृष्टिमपि जेतार-	३०१	स्मृत्वा धिगिति निन्दित्वा	५४२	स्वयं चैत्या प्रदेशं तं	५१२
स्थानं ता एव निन्दायाः	३९०	स्या समाहितमोहोऽहं	२१३	स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं	५१२
स्थानभ्रंशास्त्रुडोच्छेद्यो	३१३	स्याच्छब्दलांछितास्तित्व-	३२६	स्वयं पठितपणदि-	४३६
स्थापयित्वा समारुह्य	५३५	स्थासद्रामाय शक्याय	२५६	स्वयं परिजनेनापि	२९५
स्थापितः स शिरोभागे	४१८	स्थाद्धीस्तत्त्वविमशिनोऽकृतवियः	४८१	स्वयंप्रभस्य सवर्तमभू-	५६१
स्थानानु नाशानवैराग्य-	२२४	स्थाद्धेयनस्यं वेऽवश्यं	५००	स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि	४११
स्थानानुद्भवा विभूषत्वा-	२३८	स्व करोष्यमिलापात्म-	३१२	स्वयंप्रसाह्यदेवस्य	४०५
स्थास्याभ्येतत्समाकर्ण्य	५३१	स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा	१९४	स्वयं प्रागपि तं ह्यनु-	४१२
स्थित पिण्डीह्रमस्याधो	४९४	स्वचक्रामिव तस्यासी-	१०२	स्वयं रक्तो विरक्त्याया	१६१
स्थितस्तत्पीपणोद्योगे	५१७	स्वचन्द्रकलापाम्भो-	२६५	स्वयंवरं समुद्घोष्य	५०३
स्थिता कुबकुटसर्पेण	१५४	स्वच्छन्द विरमाक्रोडय-	४८४	स्वयंवरविधौ तस्मि-	५२५
स्थिता जीवधरस्तस्या	५०४	स्वस्थास्तित्छन्तु तत्प्र	१५५	स्वयंवरविवाहोक्त-	४२४
स्थितो मोक्षमुसो नन्द-	३९३	स्वदोक्षापसनसत्र-	२४७	स्वयं संप्राप्य देवेन्द्रैः	२१५
स्थित्ववियतिमुन्मत्त-	२५८	स्वदुःखेनापि निविण्ण-	३८६	स्वयं सखलपितुं चेतः	४६५
स्थित्वाऽत्र निष्क्रियं मार्स	९०	स्वद्विजोत्सपिभाभार-	४७९	स्वयं स्वपरिवारेण	२२६

स्वयं-स्वयंप्रभाख्यान-	१६७	स्वाचार्यवयमनुसृत्य हितानु-	२७७	हलायुधं महारत्न-	३२५
स्वयं स्वार्थं समुद्दिश्य	५३०	स्वाचिरीमं तृतीयैश्च	५६३	हलायुधोऽपि तच्छोका-	१३३
स्वयं च बोद्धवो नाम	४८४	स्वानुरक्तान् जनान् सर्वान्	६६	हसन्त्याश्च रुदन्त्याश्च	३०१
स्वयमादाय बन्धस्वी	३६३	स्वान्तःपुरपरोवार-	३३९	हस्तप्राह्मविवात्मानं	२९२
स्वयमुत्पाद्य दैवेन	७१	स्वाभ्रिजात्यमरोगत्वं	१४२	हस्ताचित्राख्यानानि-	२२
स्वयमेव खगाधोद्यः	१४५	स्वाम्यमात्यो जनस्थानं	२८३	हस्ताग्रमितमध्यानि	३१६
स्वयंप्रभाख्यतीर्थेश-	९१	स्वाम्यमात्यो जनस्थानं	४५५	हस्ताभ्यां हन्तुमुक्तोर्याद्	२२३
स्वयंप्रभा च तं दृष्ट्वा	१५६	स्वायुरन्ते समाराध्य	३३१	हस्तावलम्बनेनेन	५२२
स्वयंप्रभा पतिभानो	१४४	स्वायुरन्ते समुत्पन्नः	३९४	हस्तिनाख्यपुराधीशो	३५७
स्वयंप्रभापि सद्धर्म	१४१	स्वायुराद्यष्टवर्षस्यः	४१	हस्तोत्तरक्षयोर्मध्यं	४६३
स्वयंप्रभायाः कश्चेतो-	१४४	स्वायुश्चतुर्थभागवशेषे	७३	हस्तोत्तरान्तरं याते	४६६
स्वयंभुवं समुद्दिश्य	३०४	स्वार्थं मृगारिखन्दोऽसौ	४५७	हानिर्जनस्य सत्यात्रे	४५
स्वयंभूकेशवैश्वर्यं	३९५	स्वार्थः सागरमेरुणां	६२	हावो वचनाम्बुजस्यास्य	२८
स्वयंभूत्वं भवेन्मेरुः-	२५७	स्वावधिदोत्रनिणीत-	२१८	हासेनापि भुनिप्रोक्त-	३६४
स्वरंप्रामादिमद्वाद्यं	५०४	स्वावधिदोत्रसंचार-	१४	हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य	४१६
स्वरजधान्यां संसेव्यः	२४९	स्वीक्रुर्वन्त्यत एवान्य-	३२०	हास्तिनाख्या पुरी तस्य	२०१
स्वं राज्यं दत्तवांस्तुभ्यं	४७१	स्वीकृत्य प्राक्तनं वेप-	४४८	हिसादिपञ्चकं धर्मः	३७
स्वराज्यं युवराजाय	२४६	स्वीचकार मधुः शोका-	४०९	हिसादि दोषदूरेभ्यो	७६
स्वराज्यग्रहणे बाहु	३८६	स्वोक्तप्रमाणदेवीभि-	१३५	हिसायमं परित्यज्य	४०८
स्वर्गः किमोदृशो वेति	४६	स्वोत्पत्त्यनन्तरं लोकान्तरं	३९७	हिसायमं विनिश्चित्य	२६३
स्वर्गमस्वीव यागेन	२७४	स्वोपकारोऽप्यसंबुद्धिः	७७	हिसानुतान्यरेरामा-	५४४
स्वर्गलोकं च तद्गोह-	४३५	स्वोपयोगनिमित्तानि	४८८	हिसाप्रधानशास्त्राद्वा	४१३
स्वर्गलोकजयाज्जात-	१३९	स्वोपाध्यायं तदापुञ्ज्य	३५७	हिसायामिति चात्वर्य-	२५८
स्वर्गलिखदिरसरोऽपि	४७१	[ ह ]		हिसायो यज्ञशब्दश्चे-	२५८
स्वर्गात्तदैव देवेन्द्राः	२०३	हंसावलीति संदेहं	२९१	हिंसव धर्म इत्ययो	२६३
स्वर्गादित्यात्र भृष्टानां	८४	हठात्कृष्ण तदाकर्ण-	४००	हितो लङ्केश्वरायास्मै	३०५
स्वर्गापवर्गयोर्वीजं	५५४	हतः कुक्कुटसर्पोऽपि	११३	हितवत्सागराघाट-	१३६
स्वर्गावतारकथयाण-	३७७	हताघातिततुष्कः सन्-	५६३	हितवान् महाहितवान्	१८८
स्वर्लोकं शान्तचित्तेन	४९३	हताऽसौ भीतवताली	१५४	हितवान् विजयो विद्वान्	३४५
स्वर्लोकः क्रियतेऽस्माभि-	२५६	हतो लकृटपाषाणो	३९६	हितानीपटलच्छन्न-	९९
स्ववचनान्प्रविष्टेभ-	३३३	हत्वा विमार्गमुल्लङ्घ्य	२२५	हितानीपटलोन्मुक्तं	२८१
स्ववचनान्प्रविष्टोरु-	४३४	हननावरणीं विद्या	३१४	हिरण्यवर्मणः पद्मा-	४०५
स्ववाक्चिकरणजालेन	४०१	हन्तुं तत्तेऽपि विज्ञाय	४२०	हिरण्यवर्मणोऽरिष्ट-	३५९
स्ववृत्त्यनुगमेनेव	२१८	हन्याहन्तान्तसंक्रान्तं	३९१	हीनभासोऽभवन्केचि-	४०४
स्वनृद्धो शत्रुहानो वा	२८३	हयप्रोयोऽपि जन्मान्त-	१४७	हीने षोडशपूर्वाङ्ग-	३५
स्ववृत्त्युत्वाऽनन्तमत्याख्या	१६३	हर्षि शान्तान्तरङ्गत्वा-	४५६	हीयते बद्धते चापि	१६६
स्वसमुद्भूतसुदम्भित-	२०९	हरिश्चन्द्राभिधः सिंह-	५६१	हुताशनशिखान्यस्त-	५६३
स्वसा नप्ता भवेत्का वा	११८	हरिणैर्हरिरोरुदः	३१५	हृदि गन्धर्वदत्तैः	५०४
स्वसंन्यं समुपायेन	३६१	हरियथेष्टमञ्जनि	३७०	हेतुना केन दोषयं	३९१
स्वस्मिन् स्वस्मिन् गुणस्थाने	५५	हरिवंशामलम्बोम-	३४४	हेतुवादीऽप्रमाणं चे-	४७७
स्वस्य दानं प्रशंसन्ति	७७	हरिवर्माभिधोऽन्येषु-	२४४	हे नारद ! त्वमेवात्र	२६६
स्वस्य रत्नप्रभावाप्ते	४७३	हरिचक्रमतः पश्चा-	५१४	हेमप्रभेण भूभर्त्रा	३८०
स्वस्य स्वामिहिवाख्यस्य	४३२	हरिषेणः कृताशेष-	४५८	हेमाभयुक्ताथयि	५१९
स्वस्याः स्वयंवरार्येत्य	३५९	हरिषेणोऽप्युपादाय	२४५	हेमोपलब्धिवुद्धिर्वा	४३६
स्वस्यामेवं स्वयं तुप्ता	२८७	हरेर्हरिदिवादित्यं	४९	हेरण्यवतसंज्ञद्व	३८४
स्वस्याश्चेष्टितमेतेन	३६४	हतुं भव्यं व सीतां वा	३०६	हेरण्यवतसंज्ञद्व	१८८
स्वहस्ताखिलभूपाल-	२२७	हर्म्यपुष्टे समामध्ये	२४९	होमवेनुरियं तात !	२२५
स्वाः स्वास्तथाविधाः सर्वाः	३५४	हलभूतद्विभोगेन	२३२	हुदा षोडशसङ्ख्याः स्युः	१८८
स्वाग्रजाङ्गेशोद्भूत-	१०७			हुदा हृदवतीसजे	१८९

## उत्तरपुराणस्थितद्वन्द्वतयः

लक्ष्मीमभ्यर्णमोक्षाणा क्षेपुं किं वा न कारणम् ४८।३३	प्रादुर्भावस्तनूजस्य न प्रतोषाय कस्य वः । ५४।६०
केनापि हेतुना किं वा न मृत्योर्हेतुता व्रजेत् ॥ ४८।६१	तनूज कुलभूषणम् ५४।९३
लब्धवरम्प्रा न तिष्ठेयुरकृत्वापकृति द्विपः । ४८।६३	पुष्य पुण्यानुबन्धि यत् ५४।९९
तद्वि युक्त मनस्विनाम् । ४८।६५	स्वयोनिदाहिना कोऽपि क्वचित् केनापि रक्षितः ।
हितेनापि न कुर्वन्ति विप्रिय क्रमवेदिनः । ४८।८५	५४।१०३
योवनं जरसा ग्रास्य गलत्यायुः प्रतिक्षणम् ।	अनाप्यं, किं सदनुष्ठानतत्परं ५४।१२१
हेयः कायोऽशुचि पापी दुर्धरो दुःखभाजनम् ॥ ४८।९१	किं सुखं यदि न स्वस्मात् का लक्ष्मीश्चेदिय चला ।
उपायो निष्फलः कस्य न विषादाय धीमतः । ४८।९५	किं योवन यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि । ५४।२०५
कामिना कान्तरक्षता । ४८।९६	सद्वृद्धि सिद्धिदायिनी । ५४।२१३
विधेया हि, पितृणा शुद्धवंशजा । ४८।१०४	को न कालबले बली । ५६।११
किं कुर्वन्ति न गविताः । ४८।११७	रागो वध्नाति कर्मणि बन्ध' संसारकारणम् । ५८।३४
तावदेव गृहे सन्तो न हेतुयविदोक्षयते । ४८।१२८	गते पुण्ये, कस्य किं कोऽत्र माहरत् । ५८।७३
मायापि शुद्धदा हिता । ४८।१३१	दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दष्ट्रामङ्गो गजद्विप' ।
पराधीसावन प्रायो ज्यायसां परितुष्टये । ४८।१३६	मानसङ्गो महीभर्तुर्महिमानमहनुते ॥ ५८।७४
जन्तुरन्तःकदन्तस्थो हन्त जीवितमोहते ।	दुष्टमाशोविप गेहे बर्धमान सहेत व । ५८।१००
मोहात्तन्निर्गमोपार्थं न चिन्तयसि धिक्वतम् ॥ ४९।४	परोपकारवृत्तीना परतृप्ति स्वतृप्तये । ५९।६७
आयुरेवात्तकोऽन्तस्थ आन्त्योक्तोऽयोऽन्तक परैः ।	नापर व्यसन क्षुत्तान्निग्रह प्राहुरागमा । ५९।७५
अन्तवस्तदजानन्तो प्रियन्तेऽजन्तयोऽन्तकात् ॥ ४९।३१	तस्माल्लोक द्वय वाञ्छन् दूरतो हृतमुत्सृजेत् । ५९।८१
विरसान् सरसान् मत्वा विषयान् विषसन्निभान् ।	प्रौढ्यप्रीतिसमुत्पन्नः सस्कारो जाय स्थिरः ।
भुङ्क्ते रागरसाविद्धो धिग् धियोऽनादिविप्लवम् ॥	तस्मादप्रीतितामसो न क्रुयत्स्ववापि कस्यचित् ॥
४९।३३	५९।९१
पर्जन्यवत्सता चेष्टा विश्वलोकमुत्स्रजदा । ४९।५४	किं न स्यात्सुकृतोदयात् । ५९।९७
किं नाप्यन्ति मनस्विनः । ५०।१२	अत्यल्पं बहुमौल्येन गृह्णते न हि दुर्लभम् । ५९।११५
ता एव शक्तयो या हि लोकद्वयहितावहाः । ५०।३७	संबद्धं विपवृक्ष व छेत्तु स्वयमवैतु कः । ५९।१२५
समानं बद्धमानाना स्पर्धा वैभ निविध्यते । ५०।४३	बन्धु क को न वाक्वन्तु बन्धुताभ्युत्ताद्वयम् ।
सप्राप्य सावकाः स्थान नाभितिष्ठन्ति के स्वम् । ५१।५४	ससारे परिवर्तेत विदामन्नाश्रयः कृतः ॥ ५९।१३९
मध्यस्थ कस्य न प्रिय । ५१।६२	एतदेवार्थेक्षात्मस्य निद्रयमध्ययने फलम् ।
अस्वस्थस्य कुत सुखम् । ५१।६७	यत्परावति सन्धते नात्सिन्धीयते परैः । ५९।१६०
सकृत्पाटो मरुमेरुं क्षमः कम्पयितुं व किम् । ५२।८	सद्भावप्रतिपन्नाना वञ्चने का विदग्धता ।
सौभाग्यं नाल्पभाभ्वैरवाप्यते । ५२।३१	अङ्कमारुह्य सुप्तस्य हन्तुं किं नाम पौषयम् ॥ ५९।१६२
सर्वेव राज्यं राज्येषु प्रजाना यत्सुखावहम् । ५२।४०	कृत्ये कृच्छ्रेऽपि सत्सवाध्या न त्यजन्ति ममुद्यमम् ।
किं वा, पात्रदानान्न जायते । ५२।५४	५९।१६५
स्त्रिय ससारवत्सल्यं सत्युवास्तत्फलायिता । ५४।४५	अन्यायेनान्यवित्तस्य स्त्रीकारकचोर्मोमृच्यते । ५९।१७८
य पुत्रवदनाममोर्ज नापश्यद्द्वैवयोगत ।	चित्रं किं नाशयमङ्गनाम् । ५९।१९१
पट्खण्डश्रीमुखाब्जेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम् ॥ ५४।४६	किं न कुर्वन्ति सात्त्विका' ५९।२४६
योपिता भूपर्तुं लज्जा इलाध्य नान्यद्विभूषणम् । ५४।५४	त्यागो भोगाय धर्मस्य क.वायेव महामणैः ५९।२६९

विषकामं धर्मदूषकम् -	५९।२७०	बन्धवो बन्धनान्धेते संपदो विपदोऽङ्गिनाम् ।
धर्म एव परं मित्रम्	५९।२७०	न चेदेवं क्रुतः सन्तो वनान्तं प्राक्तनाः गताः ॥
मानप्राणा हि मानिनः	६१।६१	
... बुद्धचित्तानां, बुद्धचै निखिलमप्यलम् ।	६१।७३	कोपोऽपि क्वापि कोपोपलेपनापनुदे मतः । ६३।२५
विद्वत्त्वं सञ्चरित्रत्वं दयालुत्वं प्रगल्भता ।		प्रायः कल्पद्रुमस्यैत्र परार्थं चेष्टितं सताम् । ६३।२९९
वामसौभाग्येऽङ्गितत्वे प्रश्नकोदसहिष्णुता ॥		त्याज्यं तच्चेद् गृहीत्वापि प्रागेवाग्रहणं वरम् । ६३।३०८
सौमख्यं लोकविज्ञानं ख्यातिपूजाद्यभोक्षणम् ।		प्रक्षालनाद्भिः पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं वरम् । ६३।३०९
मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेशरि ॥	६२।३-४	सन्तानघातिनः पुंसः का गतिर्नरकाद्विना । ५५।७८
संसारभीरुराप्लोक्तवाग्धारणपरायणः ।		समाग्याश्चोदयत्येव काले कल्याणकृद्द्विधिः । ६५।१३७
शुकमुद्गसंसर्पेः प्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥	६२।१०	किञ्च स्यात्समुखे विधौ । ६५।१४८
स्वाभिजात्यमरोगत्वं वयः शीलं श्रुतं वपुः ।		प्रक्षीणपुण्याना, विनश्यति विचारणम् । ६५।१६४
लक्ष्मीः पक्षः परीवारी वरे नव गुणाः स्मृताः ॥		कस्यात्र वद्भूलुत्वं कस्य का वात्र वितृतिः । ६६।११
	६२।६४	दुष्करो विषयत्यागः कौमारं महतामपि । ६६।४४
अरेगंदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्भावनिषेधनम् । विदधाति - ।		जितश्रेयो हि तुष्यति । ६६।७९
	६२।११९	सम्पत्सु सर्वविद्विदसु का स्वैर्यास्था विवेकिनः । ६६।८२
चक्रवर्तिनि संक्रुद्धे महान्तः के न विभ्यति ।	६२।१३७	न्यायानुवर्तिनां युवत न हि स्नेहानुवर्तनम् । ६७।१००
न स्यात्किं श्रीमदाश्रयात् ।	६२।१४७	विनेयाः पितृभिः सुताः । ६७।१०२
अभ्यर्णे मूलनाशे कः क्रुयत्कालविलम्बनम्	६२।१९८	दुष्टानां निग्रहः क्षिप्रपालनं भूभुजा मतम् । ६७।१०९
नाथिनां स्थितिपालनम्	६२।३३६	दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महीभुजा । ६७।१११
दुष्टानां नास्ति दुष्करम्	६२।३३९	न पश्यन्त्याथिनः पापं वञ्चनासंचितं महत् ।
		६७।२३८
पापिष्ठानां विजातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ।		गुणैरेव, प्रीतिः सर्वत्र धीमताम् । ६७।३१८
	६२।३४४	कुर्वियामोदुशी गतिः । ६७।३२१
स्वयं रक्तो विरक्तायां योऽनुरागं प्रयच्छति ।		शौर्यस्य संभवो यावद्वावत्पुण्यस्य च स्थितिः ।
हरिनोलमणी वासो तेजः काङ्क्षन्ति लोहितम् ॥		तावदुत्साहसहाहं न मुञ्चत्युदयाथिनः ॥ ६८।५७
	६२।३४६	पुत्रं पिताप्यनुचोगं मत्वायोग्यं विधौदति । ६८।७७
धर्म्यां न सहन्ते स्थितिक्षातिम् ।	६२।३४७	इच्छा पश्यति नो वक्षुः कामिनामित्युदीरितम् ।
किं न स्यात्साधुसङ्गमात् ।	६२।३५०	६८।१०१
विचित्रा विधिचोदना ।	६२।३५६	मन्दाकिन्याः स्थितिः न्व स्यात्प्रविहृत्य महाम्बुधिम् ।
कथं सहा, पादे चूडामणिस्थितिः ।	६२।४३९	६८।१०३
कालहानिनं कर्तव्या हस्तासन्नेऽतिदुर्लभे ।	६२।४४२	महीयसोऽप्युपायेन श्रीरस्यांहियते दुर्वैः । ६८।११२
चित्रं विलसितं विधेः ।	६२।५०८	अन्यदाराहृतिनां पातकेऽवतिपातकम् । ६८।११७
खलो ह्यभ्यस्तवासहः ।	६३।४९	कोपोऽपि सुखद वचिन् । ६८।१३८
क्वापि कोपो न धीमताम् ।	६३।१२९	तीव्रः कस्यात्र शान्तये । ६८।१४०
नीचानां वृत्तिरिदृशी ।	६३।१३०	इङ्गितज्ञा हि नागराः ६८।१४६
वर्द्धयन्ति महात्मानः पादलग्नानपि द्विपः ।	६३।१३३	अशक्यारम्भवृत्तीनां क्लेशादन्यत् कुतः फलम् ।
पुण्ये, सति किं न घटाभटेत् ।	६३।१३७	६८।१८०
हेतुरासन्नभयानां मानं च हितसिद्धये ।	६३।१७५	गजकर्णचला स्त्रीणा चित्तवृत्तिर्न वेत्ति किम् ।
यः कर्मव्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत् ।		६८।१८५
स जोवन्नपि निर्जीवो निर्गन्धप्रसवोपमः ॥	६३।२२२	समुत्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्धरा ।
मोहः कोऽप्यसिद्धुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ।	६३।२२६	भेत्तु शीलवतीचित्तं न शक्यं मन्मथेन च ॥ ६८।१९०

कुतः कृत्यपरामर्शः स्त्रीवशीकृतचेतसाम् ६८।२०२  
 प्राणा. सता न हि प्राणा गुणाः प्राणाः प्रियास्ततः ।  
 ६८।२२१  
 अग्निभूति' सद्योलानामत्रैव फलदायिनो । ६८।२३०  
 स्वयं मुद्रागतं लक्ष्मीं हन्यात्पादेन को विधोः । ६८।२३५  
 सत्यमासन्नमृत्यूनां सद्यो विध्वंसन यतैः । ६८।२६३  
 महापापकृतां पापमस्मिन्नेव फलिष्यति । ६८।२६७  
 प्रारब्धकार्यसिद्धानुद्यतस्य विवेकिनः ।  
 प्राहुर्नीतिविदः कोपं व्यसन कार्यविघ्नकृत् ॥ ६८।३१५  
 भेत्तु के वा भक्ताः पतिव्रताम् । ६८।३२८  
 बलद्वय केनचिच्चित्र प्रायेण विधिचेष्टितम् । ६८।३५०  
 सर्वस्य साधनो देहस्तथाहार. मुसाधनम् । ६८।३५७  
 अपुण्य. स्वयमेव विनङ्क्ष्यति । ६८।४०१  
 शुभाशुभविपाकाभौ भाविनां को निवारक. । ६८.४३५  
 संसृति निश्चिते कृत्ये कृतज्ञा. मिश्रकारिताम् ।  
 ६८।४३८  
 विना देवात् कुत. श्रियः । ६८।४८४  
 परस्त्रीहरणं नाम पापं पापेषु दुस्तरम् । ६८।४८४  
 सहायैः साधितं कार्यं लज्जायै ननु मानिनाम् । ६८।५२८  
 दुश्चेष्टयास्तपुण्यस्य भूतं भावि विनश्यति । ६८।५२९  
 अथवासन्नमृत्यूना भवेत्कृतिविभ्रमः । ६८।५३०  
 पापिना कापरा गति । ६८।६३०  
 अण्योऽप्यसुखदुःखानि निवेद्य सुखिन. प्रियाः । ६८।६४१  
 सन्तो विचारानुचराः सदा ६८।६४२  
 के न तुष्यन्ति सत्सुतैः । ७०।१२९  
 स्नेहयोकार्त्तचेतसा का विचारणा ७०।२१  
 न विदन्ति खला. स्वैरा युक्तायुक्तविचेष्टितम् । ७०।२८६  
 ननु प्राक्कृतपुण्याना स्वय सन्ति महर्षयः । ७०।३०४  
 सन्तो हि हितभाषिण. । ७०।३२५  
 किं न कुर्वन्ति घोषनाः । ७०।३४३  
 किं न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यत्रि तपस्विनाम् ।  
 ७०।३४८  
 निसर्गैर्कीर्यदपिष्ठः सैश्वेऽपि निरर्गलः । ७०।३६४  
 विचारविकला. पापा कोपिता. किं न कुर्वते ।  
 ७०।३६८  
 अवश्यम्भाविकार्येषु मुह्यन्त्यत्रि मुनीश्वराः । ७०।३७९  
 शक्तयो देवताना च नितसाराः पुण्यवज्जने ।  
 आयुधानामिवेन्द्रास्त्रे परस्मिन् दृष्टकर्मणाम् ॥ ७०।४२६  
 प्रजाना रक्षितारस्ते कष्टमह हि मारका । ७०।४६४  
 विगनीक्षितचेष्टितम् । ७१।१७  
 सति पुण्ये न क. सखा । ७१।२१

भेद्यो वीशक्तियुक्तेन सङ्घातोऽपि जलात्मनाम्  
 रागाहंकारयोल्लोकोऽप्यवदर्थं विकृति नयेत् । ७१।१४०  
 वाधा खलेन कामेन कस्य न स्यात् सकर्मणः । ७१।१४४  
 कष्टं दुष्टविचेष्टितम् । ७१।१६६  
 विधेविलसितं चित्रमगम्यं योगिनामपि । ७१।२९९  
 विचित्रा द्रव्यशक्तयः ७१।३४६  
 अनालोचितकार्याणां किं मुक्तवान्प्यत्रराभवम् ।  
 ७१।३७४  
 को न गच्छति संतोपमुत्तरोत्तरवृद्धितः ॥ ७१।३९८  
 हिंसाप्रधानशास्त्राद्वा राज्याद्वा नयवजितात् ।  
 तपसो वापमार्गद्वयाद्दुःकलत्राद् ध्रुवं क्षतिः ॥  
 ७२।८८  
 विचारयति धीमाश्व न कार्यं दैवचोदितः । ७२।१०३  
 सपुण्यानां, वव वा लामो न जायते । ७२।११०  
 पापिनो हि स्वपायेन प्रःप्नुवन्ति परामवम् । ७२।१२६  
 सर्वेन पूर्वपुण्यानां विजयो नैव दुर्लभ. । ७२।१७५  
 न मिथ्यावादिनो जिनाः । ७२।२२२  
 तिर्यञ्चोऽपि सुहृद्भ्रातृ पालयन्त्येव बन्धुषु । ७३।१८  
 कारणद्वयान्निध्यात्सर्वकार्यसमुद्भव' । ७३।५३  
 किं करोति न कल्याण कृतपुण्यसमागम. । ७३।८९  
 प्राज्ञा हि क्रमेदेन. ७३।१२२  
 अनुरूपं विद्यते हि वेद्याः सङ्गममङ्गिनाम् । ७४।१६  
 जलैः किं शुद्धिरात्मन ७४।१३  
 अपकारोऽपि नोचानामुपकारः सता भवेत् । ७४।११०  
 कालस्य बलमप्राप्य को विषयं निरस्यति । ७४।२०९  
 प्रायेण स्वामिशीलत्वं संश्रिताना प्रवर्तते । ७४।२१७  
 महाभये समुत्पन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति । ७४।२९३  
 पुण्यात्स्वर्गे सुखं परम् । ७४।३९३  
 देवाः खलु सहायत्वं यान्ति पुण्यवता नृणाम् ।  
 न ते किञ्चित्करा. पुण्यं विलये भृत्यसन्निभाः ॥  
 ७४।४७८  
 सद्ब्रह्मो हितमन्त्रे स्यादात्तुरायैव भेषजम् ।  
 समारिष्यां न चेत्के वा न स्तुवन्ति गुणान् सताम् ।  
 ७४।५४६  
 सत्सङ्गम. किं न कुर्यात् । ७४।५४८  
 तदैवोत्कृष्टपुण्यानि फलन्ति विपुल फलम् । ७५।६३  
 दैवस्य कुटिला गति' ७५।७५  
 क्रोधान्मित्रं भवेच्छत्रु क्रोधाद्धर्मो विनश्यति ।  
 क्रोधाद्वाज्यपरिभ्रश. क्रोधान्मोमुग्धेऽसुमि' ॥  
 ७५।१२५



क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्क्रोधादधोगतिः ।

ततः श्रेयोर्द्विनां त्याग्यः स सदेति जिनोदितम् ॥

७५।१२६

छिद्रमासाद्य तन्नास्ति दयादा यन्न कुर्वते ।

७५।१३५

अतिस्नेहोऽपथं नयेत् ।

७५।१६५

खेदो न हि सतां वृत्तेर्वज्रुः श्रोतुश्च चेतसः ।

७५।१८७

प्रीतिः पर्यङ्गतापिनी ।

७५।२३३

गतयो भिन्नव्रतमानः कर्मभेदेन देहिना ।

७५।२४०

क्षेत्रे बीजमिव स्थाने योग्ये किं नार्पयेत्सुधी ।

७५।२८४

अये सम्मुखे किं न जायते ।

७५।३३६

नाधिकं प्रीतयेऽत्रान्यत्प्रतिषोदर्यसङ्गमात् ।

७५।४३७

किं न कुर्वन्ति कृच्छ्रेषु सुहृदो हिताः ।

७५।४४३

प्रोक्तं चूडामणिं मूढं को नामात्रावमन्यते ।

७५।५०१

तत्सौहार्दं यदापत्सु सुहृद्भिरनुभूयते ।

७५।५७६

अकालमाघनं शौर्यं न फलाय प्रकल्पते ।

७५।५८०

आत्मस्तवोऽन्यनिन्दा च सरणान्न विशिष्यते ।

७५।५९९

बलिना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विद्यते ७५।५९९

सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । ७५।६५४

भुक्त्वाभोगा हि निष्काङ्क्षा भवन्ति सुवनेश्वराः ।

७५।६८२

कस्य, न धर्मः प्रीतये भवेत् ।

७५।६८८

श्रेयोविघ्ना हि बन्धवः ।

७६।४५

मानयन्ति न के सन्त श्रेयोमार्गोपदेशिनम् । ७६।२१३

रत्नाकरेऽपि सद्गत्तं नाप्नोत्यकृतपुण्यकः । ७६।२१९

किं न कुर्यादयोदयः ७६।३३०

वचिक्तवचिक्तवचिक्त जायते कारणाद्विना

७६।३८०

धर्मनिर्मूलविध्वंस सहन्ते न प्रभावकाः ।

नास्ति सावद्यलेशेन विना धर्मप्रभावना । ७६।४१६

धर्मो माता पिता धर्मो धर्मस्त्राताभिरर्धकः ।

धर्मो भद्रभूनां धर्मो निर्मले निद्रवले पदे ॥ ७६।४१७

धर्मध्वंसे सता ध्वंसस्तस्माद्धर्मद्रुहोऽवमान् ।

निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सत्ता जगत् । ७६।४१८

## पारिभाषिक शब्द-कोश

[ अ ]

अघाति-१ वेदनीय २ आयु ३ नाम और ४ गोत्र ये चार अघातिकर्म हैं। ५४।२२८  
अणिमादिगुण-१ अणिमा २ महिमा ३ गरिमा ४ लघिमा ५ प्राप्ति ६ प्राकाम्य ७ ईक्षित्व और ८ वक्षित्व ये आठ अणिमादि गुण हैं ४९।१३  
अनुयोग-शास्त्रोक्त विषयवार विभागको अनुयोग कहते हैं। वे चार हैं—(१) प्रथमानुयोग-महापुरुषको जीवदक्रमको प्रकट करनेवाला (२) करणानुयोग-जीवोकी विशेषता तथा लोक बालोकका वर्णन करनेवाला (३) चरणानुयोग-गृहस्व और मुनियोंके चरित्रका वर्णन करनेवाला (४) द्रव्यानुयोग-जीवादि सात तत्त्व अथवा छह द्रव्योका वर्णन करनेवाला ५४।६  
असीक्षणज्ञानोपयोग- सोलह कारणभावनाओमें एक भावना ६३।३२३  
अमूढदृष्टि-सम्यग्दर्शनका एक अङ्ग ६३।३१७  
अवगाढदृक्- आज्ञासमुद्भव, मार्गसमुद्भव आदि सम्यक्त्वके दश भेदोंमेंसे भेद ५४।२२६  
अज्ञानमिथ्यात्व-गुण्य, पाप और धर्मके ज्ञानसे दूर रहनेवाले जीवोके जो मिथ्यात्वरूप परिणाम हैं वह अज्ञानमिथ्यात्व है ६२।२९८  
अर्थज्ञ-सम्यग्दर्शनका एक भेद ७४।४४०, ४४७  
अवसन्न-एक प्रकारके अष्ट-

मुनि ७६।१९४  
अष्टगुण-सिद्ध अवस्थामें ज्ञाना-वरणादि कर्मोंका क्षय हो जानेसे निम्नांकित आठ गुण प्रकट होते हैं—१. ज्ञान, २. दर्शन, ३. अव्यावाध सुख, ४. सम्यक्त्व, ५. अवगाहनत्व, ६. सूक्ष्मत्व, ७. अगुरुलघुत्व और ८. वीर्यत्व ४८।५२  
अष्टाङ्ग निमित्तज्ञान-१. अन्तरिक्ष, २. भोम ३. अङ्ग ४. स्वर ५. व्यञ्जन, ६. लक्षण ७. छिन्न और ८. स्वप्न ६२।१८१-१९०  
अहमिन्द्र-सोलहवें स्वर्गके आगे के देव अहमिन्द्र कहलाते हैं उनमें राजा प्रजाका व्यवहार नहीं होता। सब एक समान वैभवके धारक होते हैं। ४२।९  
[ आ ]  
आगमभक्ति-प्रवचनभक्ति-एक भावना ६३।३२७  
आचाम्लवर्धन-उपवासका द्रव विशेष ७१।४५६  
आज्ञासमुद्भव-सम्यग्दर्शनका एक भेद ७४।४३९, ४४१  
आदिर्यहनन-वज्रपभनाराच सहनन ६७।१५३  
आदिम संस्थान-समचतुरस्र संस्थान ६७।१५३  
आद्य संस्थान-प्रथम समचतुरस्र संस्थान जिसमें क्षीर सुडौल सुन्दर होता है ४८।१४  
आवस्यकारिहाणि-एक भावना ६३।३२८  
आश्रय पञ्चक-सौर्षकरादिमहान् पृथ्याधिकारी मुनियोंको आहार-

दान देनेके समय होनेवाले पाँच आश्चर्यजनक कार्य— १. रत्नवृष्टि, २. देवदुन्दुभिका बजना, ३. पुष्पवृष्टि, ४. मन्द-सुगन्ध पवनका चलना और ५. अहोदानं अहोदानंका शब्द होना ८४।४१  
आष्टाङ्गिकी पूजा-कार्तिक, फाल्गुन और आपाढके अन्तिम आठ दिनोका आष्टाङ्गिक पर्व होता है इसमें सासक नन्दी-धर द्वारमें स्थित ५२ जिनालयोकी पूजा होती है। वही आष्टाङ्गिकी पूजा कहलाती है। ५४।५०

[ ई ]

ईर्ष्यादिपञ्चक-१. ईर्ष्या, २. माया, ३. ऐषणा, ४. आदान निक्षेपण और ५. प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ ईर्ष्यापञ्चकके नामसे प्रसिद्ध हैं। ६१।११९

[ उ ]

उपदेशोत्थ-सम्यग्दर्शनका एक भेद ७४।४३९, ४४३  
उपबृंहण-सम्यग्दर्शनका एक अंग ६३।३१८  
उपासकक्रिया-श्रावकाचारकी विधि ६३।२९९  
उभयमथ-पदार्थमें रहनेवाले परस्पर विरोधी अनेक धर्मोंसे विवक्षावश एकको ग्रहण करनेवाला ज्ञान तय कहलाता है। इसके व्यवहार और निश्चय अथवा द्रव्याधिक और पर्याधिकके भेदसे दो भेद हैं। ५०।७०

## [ ए ]

एकान्त मिथ्यात्व-द्रव्य-पर्याय रूप पदार्थमे एक अन्त-धर्म-का निश्चय करना ६१।३००  
एकादशाङ्ग-द्वादशाङ्गके भेद स्वरूप ग्यारह अङ्ग-१. आचाराङ्ग, २. सूत्रकृताङ्ग, ३. स्थानाङ्ग, ४. समवायाङ्ग, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, अङ्ग, ६. ज्ञातृधर्मकथाङ्ग, ७. उपासकाध्ययनाङ्ग, ८. अन्तकृद्-शाङ्ग, ९. अनुत्तरोपपादिक दशाङ्ग, १०. विपाक सूत्राङ्ग, और ११. प्रश्नव्याकरणाङ्ग, इनमें १२वाँ दृष्टिवादाङ्ग मिलावेसे द्वादशाङ्ग कहलाने लगते हैं। ४८।१२

## [ क ]

कणशीकर-अस्सी दिन तक मेघ बरसना कणशीकर कहलाता है। ५८।२८  
कनकावली-उपवासका एक व्रत ७१।३९५  
करणत्रय-१. अधःकरण, २. अपूर्वकरण, ३. अनिवृत्तिकरण, जिनमें सम-समयवर्ती तथा भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और असदृश दोनो प्रकारके होते हैं उन्हें अधःकरण कहते हैं। जिनमें सम-समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और असदृश दोनो प्रकारके तथा भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम असदृश ही होते हैं उन्हें अपूर्वकरण कहते हैं। और जहाँ समसमयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश ही और भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम असदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तिकरण कहते हैं ५४।२२५

कर्मान्वय-एक क्रिया, इनका विस्तृत वर्णन महापुराण द्वितीय भागमें द्रष्टव्य है। ६३।३०२

कल्पवृक्ष-गृहस्थ चक्रवर्तीके द्वारा की जानेवाली एक विशिष्ट पूजा ७२।५९  
कामके पाँच बाण-१. तर्पण, २. तापन, ३. मोहन, ४. विलापन, ५. मारण, ७२।११९  
कुम्भील-एक प्रकारके भ्रष्ट मृत्ति ७६।१९३  
कृतकादित्रिक-कृत, कारित, अनुमोदन। ७३।१११  
केवल-केवल ज्ञान, समस्तद्रव्यो और उनको पर्यायोको जानने वाला सर्वोत्कृष्ट ज्ञान। ६१।४३  
कैवल्यनवक-नव कैवल लब्धियाँ ७२।१९१

क्षीरास्रवद्धि-एक ऋद्धि जिसके प्रभावसे शुष्क आहारसे भी दूध शरने लगती है। ५९।२५७

## [ ग ]

गणनाथमक्ति-आचार्यभक्ति एक भावना। ६३।३२७  
गतिचतुष्टय-नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव यह गति-चतुष्टय कहलाता है। ५३।८  
गर्भान्वयक्रिया-इनका विस्तृत वर्णन महापुराण द्वितीय भागमें प्रष्टव्य है। ६३।३०२  
गुप्त्यादिषट्क-गुप्ति, सभिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह, जप और चारित्र्य ये गुप्त्यादिषट्क कहलाते हैं। इनसे सवर होता है। ५२।५५

ग्रन्थद्वय-अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग-के भेदसे दो प्रकारका परिग्रह ६७।१३

## [ घ ]

घाति-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोर और अन्तराये ३।८ व.

तिया कर्म है। इनमेंसे मोहका दशम गुणस्थानके अन्तमें और शेष तीनका बारहवें गुणस्थानके अन्तमें क्षय होता है। ५४।२२८

## [ च ]

चक्रेट् ( नारायण ) के सात रत्न-१. अक्षि, २. शङ्ख, ३. धनुष, ४. चक्र, ५. शक्ति, ६. दण्ड और ७. मदा, ६२।१४८  
चतुर्दश महारत्न-चक्रवर्तीके निम्नाङ्कित १४ रत्न होते हैं- १. सुदर्शन चक्र, २. छत्र, ३. खड्ग, ४. दण्ड, ५. काकिणी, ६. चर्म, ७. चूडामणि, ८. पुरोहित, ९. सेनापति, १०. स्वपति, ११. गृहपति, १२. कन्या, १३. गज और १४. अश्व ६१।९५

चतुर्विध बन्ध-१. प्रकृति २. स्थिति ३. अनुभाग और ४. प्रवेश ये चार प्रकारके बन्ध हैं। ५८।३१

चतुर्विधामर-१. भवनवासी २. व्यन्तर ३. ज्योतिष्क और ४. वैमानिक ये चार प्रकारके देव हैं। ५५।५१

चतुर्थज्ञान-मनःपर्ययज्ञान ज्ञानोके निम्नलिखित पाँच भेद हैं- १. मतिज्ञान २. श्रुतिज्ञान ३. अर्वाचिज्ञान ४. मनःपर्ययज्ञान और ५. केवलज्ञान। दूसरेके मनमें स्थिति रूपी पदार्थको इन्द्रियोकी सहायताके बिना मर्यादा लिये हुए दृष्ट जानना मनःपर्ययज्ञान है। इसके ऋजुमति और विपुलमति ये दो भेद हैं। ४८।४०

चतुर्थशुक्लध्याय-व्युत्पत्तिक्रिया निर्वात ६३।४९८

चतुर्थीविद्या—आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनोति इन चार विद्याओंमें चतुर्थी विद्या—दण्डनोति ५१।५  
चतुर्मुख—गृहस्थके द्वारा की जानेवाली एक पूजा ७३।५८  
चतुस्त्रिंशदतीशेष—चौतीस अति-शय । दश जन्मके, दश केवल-ज्ञानके और चौदह देव रचित—इस तरह सब मिलाकर तीर्थ-कर अर्हन्तके चौतीस अतिशय होते हैं । ५१।२३१  
चतुष्टयीवृत्ति—अर्जन, रक्षण, वर्धन और व्यय-धनकी यह चार वृत्तियाँ होती हैं । ५१।७  
चतुर्भेद प्रायोग्य—काललब्धि, प्रायोग्यलब्धि, क्षयोपशमलब्धि, देशनालब्धि, ये चार लब्धियाँ । इनके साथ करणलब्धिको मिला देनेसे पाँच लब्धियाँ होती हैं । ६२।३२२  
चन्द्रायण—एक व्रत जिसमें चन्द्रमाकी कलाओंकी वृद्धि तथा हानिके अनुसार बढते और घटते हुए प्रास लिये जाते हैं । ६३।१९  
चारणत्व—आकाशगामी ऋद्धिसे युक्त मुनिपद ४८।८२

[ छ ]

छाद्यस्थ—तीर्थकर, दीक्षा लेनेके बाद जबतक केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तकका काल छाद्यस्थकाल कहलाता है । इस छाद्यस्थकालको तीर्थ-कर मोनसे ही व्यतीत करते हैं । ४८।४२

[ ज ]

जिनगुणव्याप्ति—उपवासका एक व्रत ६३।२४७  
जिनगुणसम्पत्ति—एक व्रत ७१।४३८

जिनमक्ति—अर्ह-वृत्तित—एक भावना ६३।३२७  
जीवादिङ्ग—जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, सबर, निर्जरा और मोक्ष ये सात द्रव्य अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छः द्रव्य ५४।२७५

[ त्त ]

तपस्—एक भावना ६३।३२४  
तुरीयचारित्र—सूक्ष्म साम्प्रदाय चारित्र, यह चारित्र संज्वलन लोभका अत्यन्त मन्द उदय रहते हुए दशम गुणस्थानमें होता है । ५४।२२५  
सुर्यगुणस्थान—चतुर्थ गुणस्थान-अविरत सम्यग्दृष्टि ५४।७७  
सुर्यध्यान—अपुपरत क्रिया निवर्ति नामका चौथा क्षुल्लध्यान-। यह ध्यान चौदहवें गुणस्थानमें होता है । ४८।५२  
तीर्थ—तीर्थकरकी प्रथम देशनासे तीर्थशुरू होता है और आगामी तीर्थकरकी प्रथम देशनाके पूर्व समय तक पूर्ण होता है । ६१।५६  
व्याग—एक भावना ६३।३२३  
त्रय—सात दिन तक भेषोका वरसना त्रय कहलाता है । ५८।२७  
त्रितयतनु—ओदारिक, तैजस और कार्मण ये तीन शरीर ६१।५५  
त्रिभेदनिर्बन्ध—संसार, शरीर और भोग इन तीनसे वैराग्य

[ द ]

दशाधर्मा—१. उत्तम क्षमा २ माद्व ३. धार्जव ४. शौच ५. सत्य ६ संयम ७. तप ८ त्याग ९. आकिञ्चन्य और १०. ब्रह्मचर्य ये दशधर्म हैं । ६१।१  
दशाङ्गभोग—१ भाजन २.

भोजन ३. शय्या ४. सेना ५. यान ६. आसन ७. निधि ८. रत्न ९. नगर और १०. नाट्य ये दशभोग हैं । ६६।७९

दण्डादिक—दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण नामक केवलिसमुद्धातसे भेद जिस केवलियों के आयुकरमेंकी स्थिति थोड़ी और शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है उनके स्वत. केवलिसमुद्धात होता है । इस समुद्धातको दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक-पूरण ये चार अवस्थाएँ होती हैं । ४८।५२

दर्शन विद्युद्धि—तीर्थकर प्रकृतिके बन्धयोग्य एक भावना । ६३।३१२

दिव्य विनाद—दिव्यध्वनि—तीर्थकरका दिव्य उपदेश ४८।५१

दीक्षान्वय क्रिया—इसका विशेष वर्णन महापुराण द्वितीय भाग-में द्रष्टव्य है । ६३।३०२

देशावधि—अवधिज्ञानका एक भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थों-को इन्द्रियादिकी सहायताके बिना प्रत्यक्ष जानना अवधिज्ञान है । इसके तीन भेद हैं—१. देशावधि २. परमावधि और ३. सर्वावधि । देशावधि चारो गतियोंमें हो सकता है पर शेष दो भेद मनुष्य गतिमें मुनियोंके ही होते हैं । ४८।२३  
देहत्रय—ओदारिक, तैजस और कार्मण ये तीन शरीर ४८.५२  
द्वाविंशति परीपह—१. ध्रुवा २ तृषा ३ शीत ४. लण्य ५. दंशमशक ६. नाग्य ७.

अरति ८. स्त्री ९. चर्चा १०.  
निषद्या ११. श्रद्धा १२.  
आक्रोश १३. वध १४. याज्या  
१५. अलाम १६. रोग १७.  
तृणस्पर्श १८. मल १९.  
सत्कार पुरस्कार २०. प्रज्ञा  
२१. अज्ञान और २२. अद-  
र्शन ये बाईस परोपह हैं ।

६२।१९१

द्वादश सभा—तीर्थकरके समव-  
धारणमें उनकी गन्धकुटीको  
घेरकर बारह कोष्ठ होते हैं ।  
देव, देवियाँ तथा मनुष्य  
बैठते हैं । एक कोष्ठमें तिर्यञ्च  
भी बैठते हैं । ये बारह कोष्ठ  
ही बारह सभाएँ कहलाती हैं ।  
४८।४९

द्वितीय शुक्लध्यान—एकत्व  
वितर्क नामका शुक्लध्यान ।  
यह बारहवें गुणस्थानमें होता  
है ६१।१००

[ घ ]

धनुष—चार हाथका एक धनुष  
होता है ४८।२८

[ न ]

नय—पदार्थके परस्पर विरोधी  
निरप अनित्य धर्मोंसे विवक्षा  
वश किसी एक धर्मको ग्रहण  
करनेवाला ज्ञान ६२।२८

नवकेवलविधि— १. केवलज्ञान  
२. केवलदर्शन ३. क्षायिक  
सम्यक्त्व ४. क्षायिक चारित्र्य  
५. क्षायिक दान ६. लाभ ७.  
भोग ८. उपभोग और ९.  
वीर्य ये नौ केवलविधियाँ हैं  
६१।१०१

नवपुण्य—१. प्रतिग्रहण-पडगा-  
हना २. उच्यस्थान देना ३.  
पाद-प्रक्षालन ४. अर्चन ५.  
नमस्कार ६. मनःशुद्धि ७.  
वचनशुद्धि ८. कायशुद्धि और

९. एषण—अन्न जल शुद्धि  
ये नौ पुण्य कहलाते हैं । मुनि-  
को आहार देनेके लिए इनकी  
अनिवार्यता है ५४।२१८

नान्दीवरी पूजा—आष्टाह्निक  
पूजा, यह पूजा कार्तिक, फाल्गुन  
और आषाढके अन्तिम आठ  
दिनोंमें की जाती है । ६३।२५८  
नाम्नोऽन्त्य—नामकर्म के ९३  
भेदोंमें अन्तिम भेद—तीर्थकर  
नाम कर्म । ४८।१२

निक्षेप—प्रमाण और नयके अनु-  
सार प्रचलित लोक-व्यवहार-  
को निक्षेप कहते हैं । ६२।२८

निधि—चक्रवर्ती निर्म्माकित नौ  
निधियोंका स्वामी होता है—  
१. काल, २. महाकाल, ३.

पाण्डु, ४. माणव, ५. शङ्ख,  
६. नैसर्ग, ७. पद्म, ८. पिङ्गल  
और ९. नाना रत्न ६१।९५

निर्विचिकित्सा—सम्यग्दर्शनका  
एक अङ्ग ६३।३१५-३१६

नि.कांक्षित अङ्ग—दर्शन-विशुद्धि-  
का एक रूप ६३।३१४

नि.शाङ्कित अङ्ग—दर्शन-विशुद्धि-  
का एक रूप ६३।३१३

निष्कामित कल्याणक—दोषा-  
कल्याणक तीर्थंकरोंके तप धारण  
करनेके समय होनेवाला देव-  
कृत विशिष्ट उत्सव ४८।३७

[ प ]

पञ्चनमस्कार—णमोकार मन्त्र  
७०।१३७

पञ्चविध मिथ्यात्व—१. अज्ञान  
२. संशय, ३. एकान्त, ४. विप-  
रीत और ५. विनयप ये पाँच  
मिथ्यात्वके भेद हैं ६२।२९७  
पञ्चविंशति दुस्त्वत्व—संख्यधर्म-  
में श्लोकृत प्रकृति आदि २५  
तत्त्व ७४।७२

पञ्चसद्वत्—१. अहिंसा, २. सत्य,  
३. अचौर्य, ४. ब्रह्मचर्य और  
५. अपरिग्रह १०।१११९

पञ्चसूना—१. कूटना, २. पीसना,  
३. बुराहना, ४. पानी भरना  
और ५. चूरहा जलाना  
६३।३७४

पञ्चप्रकार संसार—१. ब्रह्म, २.  
क्षेत्र, ३. काल, ४. भव और  
५. भाव ये ही पाँच परिवर्तन  
कहलाते हैं । इनके स्वरूपके  
लिए सर्वार्थसिद्धिका 'संसारिणो  
मुक्ताश्च' सूत्र द्रष्टव्य है ।  
६७।८

परमेष्ठी—परमपदमें स्थित रहने-  
वाले—१. अरहन्त, २. सिद्ध,  
३. आचार्य, ४. उपाध्याय  
और ५. सर्वसाधु, ये पाँच  
परमेष्ठी कहलाते हैं ४८।१३

परावगाढ—सम्यग्दर्शनके दश  
भेदोंमें-से एक भेद । इनका  
वर्णन गुणभद्राचार्यने अपने  
आत्मानुशासन ग्रन्थमें 'आज्ञा-  
मार्ग-समुद्भव' आदि श्लोकमें  
किया है ५४।२२९

पार्श्वस्थ—एक प्रकारके भ्रष्ट  
मुनि ७६।१९२

पूर्व—चौरासी लाखमें चौरासी  
लाखका गुणा करनेपर जो  
लब्ध आता है उसे पूर्वाङ्ग  
कहते हैं, ऐसे चौरासी लाख  
पूर्वाङ्गका एक पूर्व होता है ।  
४८।२८

पूर्वधात्रिन्—ग्यारह अङ्ग और  
चौदह पूर्वोंके ज्ञात मुनि ४८।४३

प्रकृति—कर्मोंके भेद प्रभेद ।  
४८।५२

प्रभावना—सम्यग्दर्शनका एक  
अंग ६३।३२०

प्रज्ञप्ति आदि विचार्य—१. प्रज्ञप्ति,  
२. कामरूपिणी, ३. अग्नि,

स्तम्भिनो ४. उदकस्तम्भिनो  
 ५. विष्वक् प्रवेशिनो ६ अन्नप्रत्तात  
 गामिनी ७. आकाशगामिनी  
 ८. उत्पादिनी ९. वशीकर्णी  
 १०. आर्दक्षिनी ११. माननीय  
 प्रस्थापिनी १२. प्रमोहनी १३.  
 प्रहरणी १४. सक्तामनी १५.  
 आवर्तनी १६. संग्रहणी १७.  
 मञ्जनी १८. विपाटिनी १९.  
 प्रावर्तकी २०. प्रमोदिनी २१.  
 प्रहापनी २२. प्रभावती २३.  
 प्रलापनी २४. निक्षोणी २५.  
 शर्यरी २६. चाण्डाली २७.  
 मातङ्गी २८. गौरी २९. षड-  
 ङ्गिका ३०. श्रीमरकण्या ३१.  
 रातसंकुला ३२. कुभाण्डी ३३.  
 विरलवेगिका ३४. रोहिणी  
 मनोवेगा ३६ महावेगा ३७.  
 चण्डवेगा ३८. चपलवेगा ३९.  
 लघुकरी ४०. पणलघु ४१.  
 वेगावती ४२. शीतदा ४३.  
 ३५. उष्णदा ४४. वेताली ४५  
 महाज्वाला ४६. सर्वविद्या  
 छेदिनी ४७. युद्धवीर्या ४८.  
 बन्धमोचिनी ४९. प्रहारावरीणी  
 ५०. आमरो ५१. अमोनिनी  
 इत्यादि । ६२।३९१-४००  
 प्रतिमायोग-कायोत्सर्गं मुद्रा-  
 खडे होकर ध्यान करना ४८।५३  
 प्रमाण-पदार्थके परस्पर विरोधी  
 नित्य अनित्य आदि सब धर्मो-  
 को ग्रहण करनेवाला ज्ञान  
 ६२।२८  
 प्राजापत्य-विवाहका एक भेद,  
 त्रिसमें माता-पिता आदि  
 परिजनको सम्मति पूर्वक वर  
 और कन्या परस्पर विवाहित  
 होते हैं ७०।११५  
 प्रातिहार्याष्टक-आठ प्रातिहार्य-  
 १. अशोक वृक्ष २. सिंहासन  
 ३. छत्रत्रय ४. भामण्डल  
 ८२

५. दिव्यध्वनि ६. पुष्पवृष्टि  
 ७. चौसठ चमर और ८.  
 दुन्दुभि बाजे ये आठ प्रातिहार्य  
 तीर्थकर अरहन्तके होते हैं ।  
 भगवान्को जिस वृक्षके नीचे  
 केवलज्ञान प्राप्त होता है वही  
 समवसरणमें अशोकवृक्ष  
 कहलाता है ५४।२३१  
 प्रायोपगमन-मकत प्रत्याख्यान,  
 प्रायोपगमन और इंगिनीमरण ।  
 संन्यासके दोन तीन भेदोंमें से  
 एक भेद । जिस संन्यास मरण  
 में क्षणक अपने शरीरकी  
 टहल स्वयं करता है दूसरेसे  
 नहीं करता उसे प्रायोपगमन  
 कहते हैं ६२।४१०

[ब]

बलभद्रके चार रत्न-१. रत्न-  
 माला २. देदीप्यमान हल  
 ३. मूसल और ४. गदा  
 ६२।१४९  
 बहुशास्त्र भक्ति-बहुश्रुत भक्ति-  
 एक भावना ६३।३२७  
 बाह्येतर द्विषद् भेद तप-बाह्य  
 और आभ्यन्तरके भेदसे बारह  
 प्रकारका तप-१. मनशन  
 २. अवमौदर्य ३. वृत्तिपरि-  
 संख्यान ४. रस परित्याग  
 ५. विविक्त शय्यासन और  
 ६. कायबलेष ये छह बाह्य  
 तप हैं । और १. प्रायश्चित्त  
 २. विनय ३. वैयावृत्य ४.  
 स्वाध्याय ५. न्युत्सर्ग और ६.  
 ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप  
 हैं ६२।१५६  
 बीजसमुद्भव-सम्यग्दर्शनका  
 एक भेद ७४।४३९, ४४४,  
 ४४५

[भ]

भन्य-जिसके सम्यग्दर्शन, सम्य-  
 ग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र

हो सकें उसे भग्न कहते हैं  
 ५९।२१४  
 भावना-तीर्थकर नामकर्मका  
 बन्ध करानेवाली सोलह  
 भावनाएँ-१. दर्शन विशुद्धि  
 २. विनय सपन्नता ३. शील-  
 न्नतध्वनतिचार ४. अभीक्षण  
 ज्ञानोपयोग ५. संवेग ६  
 शक्तितत्त्वस्था ७. शक्तितत्त्वतप  
 ८ साधु समाधि ९. वैयावृत्य-  
 करण १०. अर्हद्वृत्ति ११.  
 आचार्यभक्ति १२. बहुश्रुत  
 भक्ति १३. प्रवचनभक्ति  
 १४. आवश्यकापरिहारिणी १५.  
 मार्ग प्रभावना और १६  
 प्रवचन वात्सल्य ४८।१२

[म]

महामह-एक विशिष्ट पूजा  
 ७५।४७७  
 मानसाहार-देवोकी जितने  
 सागरकी आयु होती है उतने  
 हजार वर्ष बाद उन्हें आहार-  
 की इच्छा होती है । इच्छा  
 होते ही कण्ठमें अमृत भुञ्ज  
 जाता है और उनको क्षुधा हूर  
 हो जाती है । यही मानसाहार  
 कहलाता है ६१।१११  
 मार्गप्रभावना-एक भावना  
 ६३।३२९  
 मार्गसमुद्भव-सम्यग्दर्शनका एक  
 भेद ७४।४३९, ४४२  
 मिथ्यात्वादि पञ्चक-कर्मबन्धके  
 निम्नाङ्कित पाँच कारण होते  
 हैं-१. मिथ्यात्व २. अविगति  
 ३. प्रमाद ४. कृपाय और  
 ५. योग ५४।१५१  
 मुक्तावली-एक उपवासका नाम ।  
 ७१।४०८

[य]

योग-आत्मके प्रदेशोके परि-  
 ष्पन्द-हलन-चलनको योग

कहते हैं। संक्षेपमें इसके काय, वचन और मन ये तीन भेद हैं। तेरहवें गुणस्थानमें मनो-योग और वचनयोगका नाश हो जानेपर अन्तमें काययोग की सूक्ष्म दशा रह जाती है, उसीसे सूक्ष्म क्रिया-प्रतिपाती नामका तीसरा शुक्लध्यान होता है। अन्तमें यह-सूक्ष्म काय योग भी नष्ट हो जाता है ४८।५२

## [ र ]

रत्नचतुष्टय-१. रत्नमाला २. गदा ३. सीर-हल और ४. मूसल। ये बलभद्रके चार रत्न थे ७१।१२५

रत्नावली-एक उपवास। ७१।३६७

रथावर्त-गृहस्थके द्वारा की जाने वाली एक पूजा ७३।५८

## [ ल ]

लक्षण-भगवान्‌के धारीमें १०८ शुभ लक्षण होते हैं तथा मसूरिका आदि ९०० व्यञ्जन होते हैं। ५१।५२

## [ व ]

वर्गत्रितय-धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंका समूह त्रिवर्ग अथवा वर्गत्रितय कहलाता है। मोक्ष पुरुषार्थ उक्त त्रिवर्गसे पृथक् होनेके कारण अपवर्ग कहा जाता है ५१।८ वात्सल्य-सम्यग्दर्शनका एक अङ्ग ६३।३२०

वात्सल्य-एक भावना ६३।३३० विनयसम्पन्नता-एक भावना ६३।३२१

विनयमिथ्यात्व-सब देवोंकी एक सा मानना तथा सब वस्तुओंकी मुक्तिका उपाय समझना विनयमिथ्यात्व है। ६२।३०२

विपरीतमिथ्यात्व-ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञायक तत्त्वोंकी यथार्थता में विपरीत निर्णय करना ६२।३०१

विस्तारज-सम्यग्दर्शनका एक भेद ७४।४४०, ४४६ वैधावृत्त्यक्रिया-एक भावना ६३।३२६

## [ श ]

शक्तित्रय-१. उत्साह शक्ति २. मन्त्र शक्ति और ३. प्रभुत्वशक्ति ४८।६

शीलव्रतानतीचार-एक भावना ६३।३२२

शुक्ललेश्याः-शुनललेश्या वाला-कवायके उदयसे अनुरजित योगीकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। इसके १. कृष्ण २. नील ३. कापोत ४. पीत ५. पद्म और ६. शुक्ल ये छह भेद हैं। द्रव्यलेश्या और भाव-लेश्याकी अपेक्षा दो भेद हैं। ५१।१७

शुक्लध्यान-मोहकी अत्यन्त मन्दता अथवा मोहके अभावमें होने वाला ध्यान शुक्लध्यान कहलाता है। इसके १. पृथक्त्व वितर्कवीचार २. एकत्व वितर्क ३. सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती और ४. व्युपरत-क्रियानिर्वृति ये चार भेद होते हैं ५४।२२६

## [ ष ]

षट्प्रमा-१. प्रत्यक्ष २. अनुमान ३. शब्द ४. उपमान ५. अर्थापत्ति और ६. अभाव ये छह प्रमाण हैं ७४।५१४

षडावश्यक-१. समता २. बन्धना ३. स्तुति ४. प्रतिक्रमण ५. स्थाध्याय और ६. कायोत्सर्ग ये षडावश्यक कहलाते हैं ६१।११९

षट्कोपवास-दो दिनका उपवास ४८।३९

षाडगुण्य-१. सन्धि २. विग्रह ३. यान ४. आसन ५. द्वेषी-भाव और ६. समाश्रय-बड़े राजाका आश्रय लेना ये छह गुण हैं ५०।५

षोडशस्वप्न-तीर्थकरके गर्भमें आनेके पूर्व उनकी माताको दिखने वाले सोलह स्वप्न-१. ऐरावत हाथी २. सफेद बैल ३. सिंह ४. लक्ष्मीका अभिषेक ५. दो मालाएँ ६. सूर्यमण्डल ७. चन्द्रमण्डल ८. मनोहर मछलियोंका युगल ९. सुवर्ण कलश युगल १०. कमलसे सुशोभित सरोवर ११. लहराता हुआ समुद्र १२. सिंहासन १३. सुन्दर देव विमान १४. नागेन्द्र सवन १५. रत्नराशि और १५. देदीप्यमान अग्नि ४९।२२

## [ स ]

समा-बीच-बीचमें आतप-वृष प्रकट करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक बरसना समावृष्टि कहलाती है ५८।२७

समाधि-एक भावना ६३।३२५ सम्मुच्छिन्नक्रियापाति-चौथा शुक्लध्यान। यह ध्यान १४वें गुणस्थानमें होता है ५२।६७ संक्षेप-सम्यग्दर्शनका एक भेद ७४।४४०, ४४५

सप्तपरमस्थान-१. सज्जातित्व २. सद्गृहस्थत्व ३. पारिव्राज्य ४. सुरेन्द्रता ५. साज्ञान्य ६. परमार्हन्त्य और ७. परम-निर्माण ६३।२५७

सप्तप्रकृति-१. स्वामी २. अमात्य ३. जनस्थान ४. कोश ५. दण्ड-सेना ६. सुरसाके साधन और ७. मित्रवर्ग ६८।७२

सप्तप्रकृति संख्य-१. मिथ्यात्व  
२. सम्यग्मिथ्यात्व ३. सम्यक्त्व  
और अनन्तानुबन्धो १. क्रोध  
२. मान ३. माया और ४.  
लोभ ये सात प्रकृतिया हैं।  
६२।३१७

सप्त रत्न-१. उक्र २. चकित  
३. गदा ४. शंख ५. घनुष  
६. दण्ड और ७. नन्दक  
(खड्ग) ये कृष्णके सात रत्न  
ये ७१।१२४

सर्वतोमद्-एक उपवासका व्रत  
७३।२८

सर्वतोमद्-गृहस्थके द्वारा की  
जानेवाली एक विशिष्ट पूजा  
७३।५८

संज्वलन-यथाख्यात चारित्रको  
घातनेवाली एक कपाय। चारित्र-  
मोहके भेद, कपाय वेदनीयके  
चार भेद हैं-१. अनन्ता-

नुबन्धो-सम्यक्त्वको घातनेवाली  
कपाय २. अप्रत्याख्यानावरण-  
देश चारित्रको घातनेवाली  
कपाय ३. प्रत्याख्यानावरण-  
सकल चारित्रको घातनेवाली  
कपाय और ४. संज्वलन-  
यथाख्यात चारित्रको घातने-  
वाली कपाय ४८।८

संयमासंयम-त्रय हिंसाका त्याग  
होनेसे संयम और स्थावर  
हिंसाका त्याग न होनेसे  
असंयम। इस प्रकार पंचम  
गुणस्थानकी अवस्था संयमा-  
संयम कहलाती है ५९।२१४

संशय-एक भावना ६३।३२३  
संशय मिथ्यात्व-अ.प.न, आगम  
आदि नाना तत्त्वोंमें श्रद्धाही  
नो चलता है उसे संशय  
मिथ्यात्व कहते हैं ६२।२९९  
संसक्त-एक प्रकारके अष्ट मुनि  
७६।१९४

सामादि-साम, दान, दण्ड और  
भेद ये चार उपाय प्रसिद्ध हैं  
६२।३२

सिद्धित्रय-१. उत्साह सिद्धि  
२. मन्त्र सिद्धि और ३.  
प्रभुत्व सिद्धि ४८।६

सिंहनिष्क्रीडित-मुनियोंके तप-  
का एक भेद ६१।६२

सूक्ष्मध्यान-शुक्लध्यानका-  
तीसरा भेद। जिसका पूर्णनाम  
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती है। यह  
ध्यान तेरहवें गुणस्थानके अन्त-  
में होता है ४८।५२

सूत्रसमुद्भव-सम्यग्दर्शनका एक  
भेद ७४।४३९, ४४४

स्याद्वाद-पदार्थमें रहनेवाले  
परस्पर विरोधी धर्मोंमें विवक्षा-  
वश प्रधानतासे किसी एकका  
कथन करना स्याद्वाद कह-  
लाता है ५१।३९



## भौगोलिक शब्दकोष

[ अ ]

अङ्गवती—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२२४  
अङ्गदेश—विहारप्रान्तके भागल-  
पुरका समीपवर्ती प्रदेश ५८।१७  
अचलग्राम—मगध देशका एक  
ग्राम ६२।३२५  
अच्युत—सोलहवा स्वर्ग  
६३।१७८  
अञ्जन—एक वक्षारगिरि  
६३।२०३  
अञ्जनाम—एक वक्षारगिरि  
६३।२०३  
अन्तिम-अनुत्तर—सर्वार्थसिद्धि  
विमान ६४।१०  
अपराजित—एक अनुत्तर विमान  
६९।४१  
अपराजिता—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१६  
अमरभूधर—सुमेरुपर्वत ६१।१९  
अमळकण्ठ—एक नगर ७२।४०  
अमृतवती—विजयार्धकी दक्षिण  
श्रेणीका एक देश ७२।५४  
अयोध्या—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१७  
अयोध्या—घातकी खण्डके पूर्व-  
भरतकी नगरी ७१।२५५  
अयोध्या—घातकी खण्ड द्वीपके  
पश्चिम विदेह क्षेत्रमें स्थित  
गन्धिलादेशकी एक नगरी  
५९।२७७  
अयोध्या—ऐरावतक्षेत्रकी एक  
नगरी ५९।२८२  
अयोध्या—घातकीखण्डके भरत  
क्षेत्र सम्बन्धी अलका देशका  
एक नगर ५४।८७  
अयोध्यापुर—एक नगर ६३।१६०

अरजा—विदेहकी एक राजधानी  
६३।२१६  
अरिन्दमपुर—पुष्करार्धके पश्चिम  
विदेह सम्बन्धी गन्धिलदेशके  
विजयार्धपर्वतकी उत्तरश्रेणी  
पर स्थित एक नगर ७०।३०७  
अरिष्टनगर—भगवान् शीतलनाथ-  
के प्रथम आहारका नगर  
५६।४६  
अरिष्टपुर—एक नगर ७०।३०७  
अरिष्टपुरी—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१३  
अरिष्टा—विदेहकी एक राजधानी  
६३।२१३  
अर्कप्रभ—कापिष्ठ स्वर्गका एक  
विमान ५९।२३८  
अलका—घातकीखण्ड द्वीपके  
भरतक्षेत्रका एक देश ५४।८६  
अलका—विजयार्धकी उत्तरश्रेणी-  
पर स्थित एक नगरी ६२।५८  
अवध्या—विदेहकी एक राजधानी  
६३।२१७  
अवन्ति—उज्जैनका समीपवर्ती  
देश ७१।२०८  
अशोक—एक वन ७५।३७  
अशोकपुर—घातकीखण्डके पूर्व-  
मेरुसे पश्चिम दिगामें स्थित  
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी एक नगर  
७१।४३२  
अशोका—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१६  
अश्वपुर—विजयार्धका एक नगर  
६२।६७  
अश्वपुर—जम्बूद्वीप सम्बन्धी  
विदेहक्षेत्रके पश्चिमदेशका एक  
नगर ७३।३२  
अश्वपुरी—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१५

असना—एक अटवी ५९।१८८

[ आ ]

आदित्यपाद—एक पर्वत  
६८।५१९  
आदित्याम—घातकीखण्डके पूर्व-  
मेरुसे पूर्वकी ओर स्थित  
पुष्कलावती देशके विजयार्ध  
पर्वतकी दक्षिणश्रेणीका एक  
नगर ६२।३६१  
आदिमद्वीप—जम्बूद्वीप ४९।२  
आनत—तेरहवाँ स्वर्ग ७०।१९५  
आर्यक्षेत्र—गङ्गा और सिन्धु  
नदी तथा विजयार्ध पर्वतके  
कारण भरतक्षेत्रके छह खण्ड  
हो जाते हैं, इनमें बीचका  
खण्ड आर्यक्षेत्र कहलाता है  
और शेष पाच म्लेच्छखण्ड  
कहलाते हैं। तीर्थंकरोंका  
बिहार आर्यखण्डमें ही होता  
है ४८।५१  
आवर्त—विदेहका एक देश  
६३।२०८  
आशीविष—एक वक्षारगिरि  
६३।२०३  
[ अ ]  
इन्द्रपुर—एक नगर ६५।१७९  
इला—भरतक्षेत्रका एक पर्वत  
५९।११८  
[ उ ]  
उन्मत्तजला—एक विभङ्गा नद  
६३।२०६  
इलासुखी—मीलोंका एक  
निवासस्थान ७०।१५६  
[ ऊ ]  
ऊर्जयन्तगिरि—गिरनारपर्वत  
७१।२७५  
ऊर्मिमालिनी—एक विभंगा नद  
६३।२०७

[ ऋ ]

ऋतुकूला—एक नदी जिसके तटपर भगवान् महावीरकी कैवल्यज्ञान प्राप्त हुआ था ।  
७४।३४९

[ ए ]

एकनौल—एक वखारगिरि  
६३।२०२

[ ऐ ]

ऐरावत—एक सरोवर ६३।१९९  
ऐरावत—जम्बूद्वीपका सातवाँ क्षेत्र ६९।७४  
ऐरावती—एक नदी ६१।३८०

[ औ ]

औषधी—विदेहकी एक राजधानी ६३।२१३

[ क ]

कच्छ—विदेहका एक देश  
६३।२०८  
कच्छ—काठियावाड़का समीप-वर्ती प्रदेश ७५।११  
कच्छकावती—विदेहका एक देश  
६३।२०८  
कनकपुर—भारतवर्षका एक नगर  
५८।६१  
कनकपुर—जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी उत्तरश्रेणीका एक नगर  
६३।१६५  
कनकप्रभ—विदेहके मङ्गलावती देश सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी उत्तरश्रेणीपर स्थित एक नगर ७४।२२१  
कनकप्रभ—सानतकुमार स्वर्गका एक विमान ६७।१४६  
कपिस्थ—एक घन ७५।४७९  
कलिङ्ग—भारतका एक देश, खण्डगिरि, उदयगिरि (भुव-नैश्वर)का समीपवर्ती प्रदेश ७०।६५

कान्दवी—भगवान् पुष्पदन्तकी बन्मनगरी ५५।२३

कान्चनगुहा—एक गुफा  
५९।२३५

कान्चनतिलक—जम्बूद्वीप सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके कच्छ-देशमें स्थित विजयार्धपर्वतकी उत्तरश्रेणीका एक नगर  
६३।१०५

कान्चना—एक नदी ६३।१५८  
कान्ची—कलिङ्ग देशकी एक नगरी ७०।१२७

कान्तपुर—बङ्गदेशका एक नगर  
७५।८१

काम्पिल्य—भरतक्षेत्रकी एक नगरी । भगवान् विमलनाथकी जन्मनगरी ५९।१४

काम्पिल्या—एक नगरी ७२।१९८  
कापिल—आठवाँ स्वर्ग ५९।२३७

कारकट—एक नगर ६२।२११  
कालक—एक वन ५९।१९६

कालगुहा—विजयार्धकी एक गुहा ७२।१११  
काशीदेश—वाराणसीका समीप-वर्ती प्रदेश ५३।१८

किन्नरगीत—विजयार्धका एक नगर ६३।९३

किन्नरपुर—विजयार्धका एक नगर  
७१।३७२

किलकिल—विजयार्धकी दक्षिण-श्रेणीका एक नगर ६८।२७१

किष्किन्ध—एक नगर ६८।४६७  
कुटज—विन्ध्याचलका एक वन ।  
७४।३८९

कुण्ड—विदेहका एक नगर  
७५।७

कुण्डपुर—विदेहका एक नगर ।  
भगवान् महावीरकी जन्म-नगरी ७४।२५२

कुण्डलपुर—विदर्भ देशका एक नगर ७१।३४१

कुण्डला—विदेहकी एक राजधानी ६३।२१४

कुणाल—भारतका एक देश  
५९।७२

कुण्डक—मलयदेशका एक सत्वकी वन ७३।१२

कुमुदा—विदेशका एक देश  
६३।२११

कुम्भकारकट—नरमासभोजी कुम्भके सम्पर्कसे कारकट नगर ही कुम्भ कारकट नामसे प्रसिद्ध हो गया था ६२।२१२

कुरू—एक देश ७०।२००

कुरुजाङ्गल—उत्तरप्रान्तका एक देश—हृस्तिनापुर और मेरठके आसपासका क्षेत्र ६१।७४

कुशार्धविषय—भारतका एक देश ७०।९२

कुसुमवती—भरत क्षेत्रकी एक नदी ५९।११८

कूलग्रामपुरी—एक नगरी  
७४।३१८

केशरी—एक सरोवर ६३।१९७

कैलास—भारतवर्षके उत्तरमें स्थित प्रसिद्ध पर्वत हिमालयका एक भाग ४८।१३९

कौशल—श्वधदेश, जिसकी राजधानी साकेत-शयोध्या थी ४८।७१

कौशाभरी—जम्बूद्वीप भरतक्षेत्रकी एक नगरी जहाँ पद्यप्रभ भगवान्ने जन्म लिया था  
५२।१८

कौसला—एक नगरी ७१।३४२

क्षीरीदा—एक विभंगा नदी  
६३।२०७

क्षेमपुर—जम्बूद्वीपके कच्छदेशका एक नगर ६५।२

क्षेमपुर—दक्षिण भारतका एक नगर ७५।४०२

क्षेमपुर-विदेहक्षेत्रगत सुकच्छ  
देशका एक नगर ५३।२  
क्षेमपुर-विदेहक्षेत्रके कच्छदेश-  
का एक नगर ५७।२  
क्षेमपुरी-विदेशकी एक राज-  
धानी ६३।२१३  
क्षेमा-विदेहकी राजधानी  
६३।२१३

[ ख ]

खगनग-विजयार्ध पर्वत  
७१।३७६  
खगपुर-एक नगरका नाम  
६१।७०  
खचराचल-विजयार्ध पर्वत  
६२।२४१  
खङ्गपुर-एक नगर ६७।१४१  
खङ्गपुरी-विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१७  
खङ्गा-विदेहकी राजधानी  
६३।२१३  
खदिर-एक वन ७२।५३  
खादिर-एक वन ६८।४६१

[ ग ]

गगनवल्लभ-जम्बूद्वीपके विज-  
यार्धकी उत्तरश्रेणीका एक  
नगर ६३।२९  
गगनवल्लभ-जम्बूद्वीपके विदेह  
क्षेत्रे सम्बन्धी पुष्कलावती  
देश, विजयार्धपर्वतकी उत्तर-  
श्रेणीपर स्थित एक नगर  
७०।३९  
गगनवल्लभ-जम्बूद्वीपके विज-  
यार्ध सम्बन्धी दक्षिणश्रेणीका  
एक नगर ७५।३०१  
गङ्गा-चीदह महानदियोंमें एक  
महानदी ६३।१९५  
गङ्गा-भारतकी प्रसिद्ध नदी  
७०।३२२  
गजवती-भरतक्षेत्रकी एक नदी  
५९।११९  
गन्धमादन-एक वक्षारगिरि  
६३।२०४

गन्धमादनकुम्भ-गन्धमादनपर्वत  
७१।३०९  
गन्धमादनपर्वत-विदेहका एक  
पर्वत ७०।१८  
गन्धमालिनी-जम्बूद्वीपके पश्चिम  
विदेहक्षेत्रमें सीतोदा नदीके  
उत्तर तटपर स्थित एक देश  
५९।१०९  
गन्धमालिनी-एक विभंगा  
नदी ६३।२०७  
गन्धमालिनी-विदेहका एक  
देश ६२।२१२  
गन्धा-विदेहका एक देश  
६३।२१२  
गन्धार-एक देश ६३।३८४  
गन्धावती-एक नदी ७०।३२२  
गन्धिल-घातकी खण्ड द्वीपके  
पश्चिम विदेहक्षेत्रका एक देश  
५९।२७४  
गन्धार-गन्धार देशका एक  
नगर ६३।३८४  
गन्धारविषय-ऐरावतक्षेत्रका  
एक देश ६३।९९  
गिरितट-एक नगर ६७।२७०  
गिरिनगर-सुराष्ट्र देशका एक  
नगर ७१।२७०  
गुल्मखेटपुर-एक नगर जहाँ  
पादर्वनाथ भगवान्का प्रथम  
आहार हुआ था ७३।१३२  
गोधा-नजका एक वन  
७०।३४१  
गोवर्धन-सथुराके पासका एक  
पर्वत ७०।४३८  
गौतम-इन्द्रभूति गणधरका  
ग्राम ७४।३५७  
ग्रीवैयक-सोलहवें स्वर्गके ऊपर  
नौ ग्रीवैयक विमान हैं। ये  
एकके ऊपर एक हैं। प्रारम्भ-  
से तीन तक आदिम या अधो  
ग्रीवैयक, चारसे छह तक  
मध्यम ग्रीवैयक और सातसे  
नौ तक उपरिम ग्रीवैयक कह-

लाते हैं। इनमें रहनेवाले  
अहमिन्द्र कहलाते हैं ४९।

[ च ]

चक्रक-माहेन्द्रकल्पका  
विमान ६२।७८  
चक्रपुर-भरतक्षेत्रका एक न  
६५।१७६  
चक्रपुर-एक नगर जहाँ भगवा  
अरहनाथका प्रथम आहा  
हुआ था ६५।३५  
चक्रपुरी-विदेहकी एक रा  
धानी ६३।२१७  
चक्रपूर (चक्रपुर) एक नग  
५९।२३९  
चण्डवेगा-भरतक्षेत्रकी एक नद  
५९।११८  
चन्दन-एक वन ६२।४०६  
चन्द्र-एक सरोवर ६३।१९९  
चन्द्रपुर-विजयार्धकी दक्षिण  
श्रेणीका एक नगर ७१।४०  
चन्द्रपुर-चन्द्रप्रथ भगवान्क  
जन्मनगरी। वाराणसीके पास  
स्थित चन्द्रपुरी ५४।१६३  
चन्द्रमाल-एक वक्षारगिरि  
६३।२०४  
चन्द्राम्भ-एक नगर ७५।३९०  
चन्द्रोदयगिरि-एक पर्वत  
७५।३६२  
चमरचञ्जापुर-एक नगर  
६२।२२९  
चम्पानगर-भागलपुरके समीप  
नाथनगर नामसे प्रसिद्ध स्थान  
५८।१७  
चम्पापुर-वन-बिहार प्रान्तके  
भागलपुर नगरके समीपवर्ती  
नाथनगरका समीपवर्ती वन  
७०।८३  
चारणयुगल-भारतका एक नगर  
६७।२१३  
चारणोत्तुङ्गकट-सम्भेदशिखरका  
एक कूट ६९।९०

चित्रकूट-वाराणसीका एक

छान ६५।१२६

चित्रकूट-एक वक्षारगिरि

६३।२०२

चित्रपुर-विजयाधिका एक नगर

६२।६६

चैत्रवन-मिथानाका एक वन

६९।५४

[ छ ]

छत्रपुर-भारतदेशका एक नगर

५९।२५४

छत्राकारपुर-एक नगर

७५।२४२

[ ज ]

जगत्पादगिरि-एक पर्वत

६८।४६८

जटकाँतिक-तापगोकी वमनि

७०।३२३

जम्बूद्वीप-जम्बूद्वीप ४८।३

जयन्त-एक क्षुत्तर विमान

७०।५९

जयन्तपुर-भारतदेशका एक

नगर ७१।४५२

जयन्ती-विदेहकी एक राजधानी

६३।२१६

जात्यव-जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र

सम्बन्धी विजयाधिका पर्वतकी

उत्तरश्रेणीपर स्थित एक

नगर ७१।३६८

जम्भिकग्राम-एक ग्राम, जहाँ

भगवान् महावीरकी केवलज्ञान

हुआ था ७४।३४८

ज्योति प्रम-त्रिजयाधिका दक्षिण-

श्रेणीका एक नगर ६२।२४१

ज्योतिर्वन-विजयाधिका एक

वन ७१।३७०

[ त ]

तनुवात-लोकके अस्तका तनुवा-

तवलय । ऊर्ध्वलोकके अन्तमे

यह १५७५ धनुष मोटा है,

उसमें अन्तिम ५२५ धनुष

प्रमाण सिद्धोका निवास क्षेत्र

है ६६।६२

तप्तजला-एक त्रिशङ्गा नदी

६३।२०६

तालपुर-एक नगर ६७।३४

तिगिन्ड-एक नरोधर

६३।१९७

तिलक-धानकी खण्डके पूर्व

ऐरावन क्षेत्रका एक नगर

६३।१६८

त्रिकूट-एक वक्षारगिरि

६३।२०२

त्रिपुर-विजयाधिका एक नगर

६३।१४

त्रिलोकेश्वर-जम्बूद्वीपके पूर्व

विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पुष्कला-

वती देशके विजयाधिका पर्वतरा

एक नगर ७३।२६

[ द ]

दन्तपुर-कलिङ्गदेशका एक

नगर ७०।६५

दशार्ण-एक देश-विदिशाका

समीपवर्ती प्रदेश ७५।१०

दशार्णपुर-मृगावती देशका एक

नगर ७१।२९१

दिशागिरि-कपित्थवनमें स्थित

एक पर्वत ७५।४७९

द्वेषकुर-एक सरोवर ६३।१९८

द्वेषदारु वन-एक वनका नाम

७०।२५२

द्वेषमाल-एक वक्षारगिरि

६३।२०४

द्वेषरमण-एक वन ६३।१८६

देवाद्रि-सुमेरुपर्वत ५०।२१

दुस्तिलक-विजयाधिका एक नगर

६२।३६

द्वारवती-द्वारिकापुरी ७१।२७

द्वारावती-एक नगरी ५८।८३

[ घ ]

धरणिभूषण-सुप्रतिष्ठपुरका एक

पर्वत ७६।२२०

धरणीतिलक-एक नगर

५९।२२८

धवलदेश-जम्बूद्वीपका एक देश

६७ २५६

धातकीलण्ड-दूमरा द्वीप । यह

द्वीप चार लाख योजन

विस्तारवाला है तथा लवण

समुद्रकी घेरे हुए चूल्हिके

आकारका है ५१।२

धान्यपुर-मगध देशका एक नगर

७६।२४२

[ न ]

नगरसोमा-एक नगर ७५।५२०

नन्दन-सुन्दरद्वीपके पूर्वविषमरत

क्षेत्रका एक नगर ६३।१२

नन्दन-मेहरवर्तका नन्दनवन

७१।३६२

नन्दन-नन्दनगिरि ६३।३३

नन्दनपुर-एक नगर, जहाँ

विमलनाथ भगवान्का प्रथम

आहार हुआ था ५९।४२

नन्दपुर-धातकीलण्डके पूर्वमरत

क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधिका

दक्षिण श्रेणीका एक नगर

७१।२५४

नन्दिग्राम-एक ग्राम, जहाँके

लोगोंने राजपुत्र ऐरिणकको

आवास नहीं दिया था

७४।४२२

नन्दिग्राम-एक गाँव ७५।१०५

नन्दिद्वीप-एक वन ७५।५

नन्द्यावर्त-तेरहवें स्वर्गका एक

विमान ६२।४१०

नभस्तिलक-एक पर्वत

६३।३३६

नरकान्ता-एक महानदी

६३।१९६

नलिन-एक नगर, जहाँ भगवान्

चन्द्रप्रभका प्रथम आहार हुआ

था ५४।२१७

नलिनकूट—एक वक्षारगिरि  
६३।२०२  
नलिना—विदेहका एक देश  
६३।२११  
नागपुर—सार समुच्चय देशका  
एक नगर ६८।४  
नागमाल—एक वक्षारगिरि  
६३।२०४  
नाभेयसीम—एक पर्वत ६२।२८१  
नारी—एक महानदी ६३।१९६  
नित्यालोकपुर—घातकीखण्ड द्वीप-  
के पूर्वे भरतक्षेत्र सम्बन्धी  
विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण  
श्रेणीका एक नगर ७१।५०  
निषध—एक सरोवर ६३।१९८  
निषध—जम्बूद्वीपका तीसरा  
कुलाचल ६३।१९३  
नील—जम्बूद्वीपका चौथा  
कुलाचल ६३।१९३  
नीलवान्—एक सरोवर  
६३।१९९  
नृलोक—अर्द्ध द्वीप : जम्बूद्वीप,  
लवणसमुद्र, घातकीखण्ड द्वीप  
कालोदधि समुद्र और पुष्क-  
रार्धद्वीप । ये सब मिलकर  
नृलोक—मनुष्यलोक कहलाते  
हैं । मनुष्योका निवास इन्हीमें  
है ६१।१२

[ प ]

पङ्कप्रभा—शैवा नरक ५९।२३८  
पङ्कवती—एक विभंगानदी  
६३।२०६  
पषा—एक सरोवर ६३।१९७  
पषा—जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह  
का एक देश ७३।३१  
पषाकूट—एक वक्षारगिरि  
६३।२०२  
पषाखण्डपुर—भारतका एक देश  
५९।१४८  
पषा—विदेहका एक देश  
६३।२१०

पद्मावती—विदेहका एक देश  
६३।२१०  
पद्मावती—विदेहकी एक नगरी  
६३।२१४  
पश्चिमीखेट—एक नगरका नाम  
६२।१९१  
पश्चिमीखेट—जम्बूद्वीप सम्बन्धी  
मेरुपर्वतकी उत्तर दिशाका  
एक नगर ६३।२६३  
पर्णकान्ता—एक नदी ६३।२६६  
पलाशकूट—जम्बूद्वीपके भरत-  
क्षेत्रका एक ग्राम ७१।२७८  
पलाशनगर—पलाशद्वीपका एक  
नगर ७५।९७  
पल्लव—एक देश ७२।१९६  
पाटलिपुत्र—पटना नगर  
७६।३९८  
पाटलिपुत्र—एक नगरका नाम,  
जिसमें भगवान् धर्मनाथका  
मुनि अवस्था सम्बन्धी प्रथम  
आहार हुआ था ६१।४०  
पावापुर—बिहारका पावापुर,  
जहाँसे भगवान् महावीरको  
मोक्ष हुआ था ७६।३८  
पुण्डरीक—एक सरोवर ६३।९८  
पुण्डरीकिणी—विदेहके पुष्कला-  
वती देवकी एक नगरी  
६२।८६  
पुन्नागपुर—जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र  
का एक नगर ७१।४२९  
पुष्पकरण्डक—पोदनपुरका एक  
कुसुमोद्यान ७४।१४२  
पुष्करद्वीप—मध्यलोकका तीसरा  
द्वीप । इसके ठीक बीचमें चूड़ी-  
के आकारका मानुषोत्तर पर्वत  
पड़ा हुआ है । वहीतक  
मनुष्योका संचार होता है ।  
५४।८  
पुष्करपुर—एक नगर ५९।२३०  
पुष्कलावती—जम्बूद्वीपके विदेह-  
का एक देश ६३।१४२  
पुष्कलावती—गन्धारदेशका एक

नगर ७१।४२५  
पुष्पक—राजपुरका एक वन  
७५।४६९  
पुष्परम्य—कमलोंसे सुशो  
एक तालाब ७०।२५३  
पृथिवीतिलक—एक नगर  
५९।२४१  
पृथिवीनगर—विदेह  
वत्सकावती देशका एक न  
४८।५८  
पोदन—सुरम्यदेशकी राज  
पोदनपुर ५९।२०९  
प्रमङ्गला—विदेहकी एक राज  
६३।२१४  
प्रमाकरी—वत्सकावती दे  
एक नगरी ६२।७५  
प्रत्यन्तनगर—एक नगर ७५।  
प्राग्निदेह—पूर्व विदेह क्षेत्र  
४८।५८  
प्रियङ्कर—वररिणभूषण पर्वत  
स्थित एक वन ७६।२२०  
प्रियङ्गुखण्ड—वाराणसीका  
वन ७०।१९१  
प्रियङ्गुखण्ड—एक वन ५९।२  
प्रीतिङ्कर—एक वन ५९।७  
प्रीतिङ्कर—ऊर्ध्वश्रेयकके ऊ  
विमान ५९।२२७  
प्रीतिवर्धन—राजपुरका  
उद्यान ७५।३१५

[ फ ]

फेनमालिनी—एक विभंगा  
६३।२०७

[ व ]

वङ्ग—बंगला ६९।१८  
वलमद्—मद्देह स्वर्गका  
विमान ७६।१९९  
ब्रह्मलोक—पाँचवाँ स्वर्ग ४८

[ भ ]

भालिदेश—एक देश ४८।१२  
भगली—घोडोका एक देश  
७३।१२०

मद्रपुर-मालवाका एक देश, जिसे कोई भद्रपुर या भेलसा (विदिशा) कहते हैं। ५६।२४  
 मद्रिल-मङ्गलावती देशका एक नगर ७०।१८३  
 मद्रिल-एक नगर ७०।३८५  
 मद्रिलपुर-मलयदेशका एक नगर ५६।६४  
 मद्रिलपुर-शीतलताय भगवान्-की जन्मभूमि ७।१३०३  
 भरत-जम्बूद्वीपका पहला क्षेत्र ६३।१९१  
 भास्कर-महाशुक्र स्वर्गका एक विमान ५९।२२६  
 भीमकूट-एक पर्वत ७५।४७  
 भीमारण्य-मनोहरपुरका निम्न ट-वर्ती एक भयकर वन ५९।११६  
 मुजङ्गसैलपुरी-कीचकोकी नगरी ७२।२१५  
 भूतरमण-२क वन ६३।१८६  
 भूतिलक-एक नगर ७६।२५२  
 भोगपुर-भारतके हरिवर्ष देशका एक नगर ७०।७४  
 भोगपुर-एक नगर ६७ ६३  
 भोगवर्द्धन-भरतक्षेत्रका एक नगर ५८।१९१  
 [ म ]  
 मगध-वर्तमान बिहारप्रान्तका एक भाग जिसकी राजधानी राजगृही नगरी थी ५७।७०  
 मङ्गल-जम्बूद्वीप भरतक्षेत्रका एक देश ७१।२७८  
 मङ्गलावती-विदेहक्षेत्र का एक देश ५०।२  
 मङ्गला-विदेहकी एक राजधानी ६३।२१३  
 मत्तजला-एक विमङ्गा नदी ६३।२०६  
 मथुरा-उत्तर प्रान्तका प्रसिद्ध नगर ५७।७९  
 मथुक-पुण्डरीकिणी नगरीका एक वन ६२ ८६

मथुक-विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीका एक वन ७४।१५  
 मनुजोदय-रत्नद्वीपका एक पर्वत ७५।३०३  
 मनोरम-एक बडा उद्यान ६६।२४८  
 मनोहर-कौशाम्बीका एक उद्यान ६९।४  
 मनोहर-एक वन ६७।६६  
 मनोहरगिरि-विदेहक्षेत्रके वत्स-कावती देशका एक पर्वत ५८।६  
 मनोहरपुर-एक नगर ५९।११६  
 मनोहरवन-एक वन ५९।२०४  
 मन्दर-मेरु पर्वत ५१।२  
 मन्दरपुर-विजयार्घ पर्वतका एक नगर ६६।१०९  
 मन्दरसैल-मन्दारगिरि क्षेत्र (बिहार प्रान्त) ५८।५२  
 मन्दार-विजयार्घकी दक्षिणश्रेणी सम्बन्धी एक नगर ६३।१७७  
 मन्दिर-भारतका एक नगर ७४।७७  
 मन्दिरधाम-एक गाँव ७१।३२६  
 मरुद्गारि-मेरु पर्वत ७१।४२१  
 मलय-मालव देश ५६।२३  
 मलय-एक देश ७१।२९३  
 महाकच्छा-विदेहका एक देश ६३।२०८  
 महागन्धवती नदी - गन्धमादन पर्वतसे निकली हुई एक नदी ७१।३०९  
 महानगर-एक नगर, जहाँ भग-वान् वासुपुत्र्यका प्रथम आहार हुआ था ५८।४०  
 महानगर- धातकीखण्डद्वीपके विदेहक्षेत्र सम्बन्धी रम्यकावती देशका एक नगर ५९।२  
 महापद्म-एक सरोवर ६३।१९७  
 महापद्मा-विदेहका एक देश ६३।१९०

महापुण्डरीक-एक सरोवर ६३।१९८  
 महापुर-भारतका एक नगर ५८।८०  
 महापुरी-विदेहकी राजधानी ६३।२१५  
 महारत्नपुर-विजयार्घका एक नगर ६२।६८  
 महावत्सा-विदेहका एक देश ६३।२०९  
 महावप्रा-विदेहका एक देश ६३।२११  
 महाशुक्र-वसवी स्वर्ग ५९।२२६  
 महाहिमवान्-जम्बूद्वीपका दूसरा कुलाचल ६३।१९३  
 महीपुर-गन्धारदेशका एक नगर ७५।१३  
 महीपालपुर-एक नगरका नाम ६१।११  
 मानुषोत्तर-पुष्करवरद्वीपके ठीक बीचमें पड़ा हुआ एक गोला-कार विशाल पर्वत ७०।२९२  
 माल्यवान्-एक सरोवर ६३।१९९  
 माल्यवान्-एक वक्षारगिरि ६३।२०४  
 माहेन्द्र-चतुर्थ सर्ग ६१।६५  
 मिथिला-एक नगरी ६६।२०  
 मुनिसागर-एक पर्वत ६३।९४  
 मृगावती-एक देश ७१।२९१  
 मेघकूट-विजयार्घकी दक्षिण-श्रेणीपर स्थित अमृतवती देश-का एक नगर। ७२।५४  
 मेघपुर-घातकीखण्डद्वीपके पूर्व-भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्घ पर्वतकी दक्षिणश्रेणीका एक नगर ७१।२५२  
 मेघपुर-विजयार्घका एक नगर ६२।६६  
 [ य ]  
 यूपकैसरिणी-एक नदी ५९।२१६

[ र ]

रक्ता—एक महानदी ६३।१९६  
 रक्तोदा—एक महानदी ६३।१९६  
 रजतमालिका — मन्दारगिरिकै  
 सभीपवर्ती एक नदी ५८।५१  
 रत्नद्वीप—भारतका रत्नव्यव-  
 सायका एक प्रमुख स्थाव  
 ५९।१४८  
 रत्नपुर—भारतका एक नगर  
 ५९।८८  
 रत्नपुर—मलयदेशका एक नगर  
 ६७।९०  
 रत्नपुर—मगधदेशका एक गाँव  
 ६२।३२८  
 रत्नपुर—भारतवर्षका एक नगर  
 जहाँ भगवान् धर्मनाथका जन्म  
 हुआ था ६१।१३  
 रत्नपुर—जम्बूद्वीपके ऐरावतक्षेत्र-  
 का एक नगर ६३।१५७  
 रत्नपुर—पुष्करार्द्ध द्वीपके वत्स-  
 कावती देशका एक नगर  
 ५८।२  
 रत्नपुर—एक नगर ६३।१२७  
 रत्नसञ्जय—विदेहक्षेत्रके मङ्ग-  
 लावती देशका एक नगर ५०।३  
 रत्नसञ्जया—विदेहकी एक राज-  
 धानी ६३।२१५  
 रथनपुर—रथनपुर चक्रवाल नाम-  
 का नगर ६२.९६  
 रथनपुरचक्रवाल— विजयार्धकी  
 दक्षिण श्रेणीका एक नगर  
 ६२।२५  
 रथावर्त—एक पर्वत । ७४।१५७  
 रथावर्ताद्रि—एक पर्वत ।  
 ६२।१२६  
 रमणीय—रत्नद्वीपके मनुजोदय  
 पर्वतपर बसा हुआ एक  
 नगर ७५।३०३  
 रमणीया—विदेहका एक देश ।  
 ६३।२१०  
 रम्यक—जम्बूद्वीपका पाँचवाँ  
 क्षेत्र । ६३।१९१

रम्यकावती — घातकीखण्ड द्वीप  
 सम्बन्धी विदेह क्षेत्रका एक  
 देश । ५९।२  
 रम्यकावती—विदेहका एक देश  
 ६३।२१०  
 रम्या—विदेहका एक देश  
 ६३।२१०  
 रविप्रिय—सहस्रार स्वर्गका एक  
 विमान ५९।२१८  
 राजगृह—बिहार प्रान्तका एक  
 प्रसिद्ध नगर, जहाँ राजा  
 रहता था ६१।५६  
 राजपुर—हेमाङ्गद देशकी राज-  
 धानी ७५।१८८  
 रूमी—जम्बूद्वीपका पाँचवाँ  
 कुलाचल ६३।१९३  
 रुचक—कपिष्ठ स्वर्गका विमान  
 ५९।२३८  
 रूप्यकूका—एक महानदी  
 ६३.१९६  
 रूप्यशैल—विजयार्ध पर्वत  
 ६७।१७६  
 रोरुक—कच्छदेशका एक नगर  
 ७५।११  
 रोहित्—एक महानदी ६३।१९५  
 रोहितास्या—एक महानदी  
 ६३।१९५  
 रैवतकगिरि—गिरिनार पर्वत  
 ७१।१७९  
 [ ल ]  
 लक्ष्मी—एक देवी ६३।२००  
 लक्ष्मीग्राम—जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र  
 सम्बन्धी मगध देशका एक  
 ग्राम ७१।३१७  
 लङ्कानगर—रावणकी राजधानी  
 ६८।२९८  
 लङ्कापुर—लङ्का ६८।९  
 लाङ्गला—विदेहका एक देश  
 ६३।२०८  
 लान्तव—साँतवाँ स्वर्ग ५९।२८०

लोकनाली—लोकके बीचमें प  
 हुई चौदह लाख ऊँची थी  
 एक राजू घोड़ी एक नाड़ी  
 जिसे त्रस नाड़ी खथवा लो  
 नाड़ी कहते हैं । सामान्  
 रूपसे त्रस जीवोंका निवा  
 इसी त्रस नाड़ीमें रहता  
 ४८।१६

[ व ]

वङ्गापुर—प्रशस्ति उत्तरपुराणक  
 रचना स्थल ३४  
 वङ्गाविषय—वङ्गालप्रान्त  
 ६६।२०  
 वत्स—विदेह क्षेत्रका एक दे  
 ५२।२  
 वत्स—पुष्करार्धद्वीपके विदेहक्षे  
 सम्बन्धी एक देश ५६।२  
 वत्स—जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षे  
 सम्बन्धी एक देश ६४।२  
 वत्सकावती—विदेह क्षेत्रका ए  
 देश ४८।५८  
 वत्सकावती—विदेहका एक दे  
 ६२।७५  
 वत्सदेश—जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र-  
 का एक देश ७०।६३  
 वत्सा—विदेहका एक देश  
 ६३।२०९  
 वत्सा—मगध देशकी एक नगरी  
 ७५।७१  
 वनगिरि—एक पर्वत ६७।११५  
 वनवास—प्रशस्ति दक्षिण भारत  
 का एक देश ३४  
 वप्रकावती—विदेहका एक देश  
 ६३।२११  
 वप्रा—विदेहका एक देश  
 ६३।२११  
 वराहाद्रि—विजयार्धका एक  
 पर्वत ७२।१०८  
 वर्द्धमान—एक नगरका नाम,  
 जहाँ पद्यप्रम भगवान्का मुनि  
 व्यवस्था सम्बन्धी प्रथम  
 आहार हुआ था ५२।५३

वस्त्रोकरसार—एक नगर  
६३।११८

वस्त्रालय—विजयाघंठा एक  
नगर ६३।२५१

वस्त्रालय—भारतका एक नगर  
७०।७६

वारणसी—भारतवर्षकी प्रसिद्ध  
नगरी । इसे बनारस भी  
कहते हैं ५३।१९

विख्यात—एक सरोवर  
६३।१९९

विजय—विजय, वैजयन्त,  
अयन्त, अपराजित और  
सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुत्तर  
विमानोंमेंसे एक विमान  
४८।१३

विजय—पुष्कलावती देशका एक  
नगर ७१।३६३

विजयपुर—एक नगर ७१।४४०

विजयपुर—एक नगर जिसके  
अधोकवृक्षके नीचे वसुदेवने  
निवास किया था ७०।२४९

विजयपुरी—विदेहकी एक नगरी  
६३।२१५

विजया—विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२१६

विजयावती—एक वक्षारगिरि  
६३।२०३

विदुर्भ—एक देश ७१।३४१

विदेह—जम्बूद्वीपका चौथा क्षेत्र  
६३।१९१

विनीता—अयोध्या नगरी ६१।  
१०४

विनीता—जम्बूद्वीपकी अयोध्या-  
नगरी ७०।१४७

विन्ध्यपुर—मलयदेशका एक  
नगर ५८।६३

विन्ध्यपुर—ऐरावतक्षेत्रके गान्धार  
देशका एक नगर ६३।९९

विन्ध्यादि—भारतका एक प्रसिद्ध  
पर्वत ७४।३८९

विपुलादि—विपुलाचल, राजगृही-  
की प्रसिद्ध पहाड़ी । जीवन्धर  
स्वामीका मोक्षस्थान ७५।६८७

विमलकान्तार—एक पर्वत  
५९।१८८

विमलप्रम—सौधमं स्वर्गका एक  
विमान ६२।३७६

विरजा—विदेहकी एक राजधानी  
६३।२१६

विराट्—एक नगर ७२।२१६

विशाला—उज्जैन ७१।२०८

वियुक्तान्त—विजयाघंठाके दक्षिण  
श्रेणीका एक नगर ६८।२७५

वियुक्तम—एक वक्षारगिरि  
६३।२०५

वियुक्तम—एक सरोवर ६३।१९९

वीतशोक—गन्धमालिनी देशका  
एक नगर ५९।१०९

वीतशोक—पुष्करवर्दीपके विदेह-  
का एक नगर ६२।३६४

वीतशोकपुर—जम्बूद्वीपके पूर्व  
विदेह सम्बन्धी पुष्कलावती  
देशका एक नगर ७१।३६०

वीतशोकपुर—एक नगर ७१।४३९

वीतशोका—एक नगरी ६१।६६

वीतशोका—विदेहकी एक  
राजधानी ६३।२१६

वीरपुर—मिथिलाका समीपवर्ती  
एक नगर ६९।५६

वृद्ध—मगधदेशका एक ग्राम  
७६।१५२

वृद्धग्राम—कौशलदेशका एक  
ग्राम ५९।२०७

वेगवती—एक नदी ७३।२२

वैजयन्त—विषय, वैजयन्त, अयन्त  
अपराजित और सर्वार्थसिद्धि  
इन पाँच अनुत्तर विमानोंमेंसे  
एक विमान ५१।१५

वैजयन्त—एक गोपुरका नाम  
६८।६५१

वैजयन्ती—विदेहकी एक राजधानी  
६३।२१६

वैदूर्य—महाशुक स्वर्गका एक  
विमान ५९।२२६

वैभारवर्षत—एक पर्वत ६३।१४०

वैशाली—सिन्ध देशका एक नगर  
७५।३

वैश्रवणकूट—एक वक्षारगिरि  
६३।२०२

[ श ]

शङ्ख—जम्बूद्वीप भरतक्षेत्रका एक  
नगर ६२।४९४

शङ्खवौल—धातकीखण्ड द्वीपके  
ऐरावतका एक पर्वत ६३।२४७

शङ्खा—विदेहका एक देश  
६३।२११

शङ्खजय—एक पर्वत ७२।२६२

शंकराग्राम—दूसरी पृथिवी ५९।  
२८०

शातङ्कर—श्रानत स्वर्गका एक  
विमान ७०।१९६

शालिग्राम—भारतका एक ग्राम  
७१।३९०

शाल्मलिग्राम—मगधदेशका एक  
ग्राम ७१।४४६

शिखरनक—एक वनका नाम  
६२।२४३

शिखरी—जम्बूद्वीपका छठी  
कुलाचल ६३।१९३

शिशिभूषर—वायपुरका निकट-  
वर्ती एक पर्वत ७६।३२२

शिवमन्दिर—विजयाघंठाके दक्षिण  
श्रेणीका एक नगर ६३।१९६

शिवमन्दिरनगर—एक नगर जहाँ  
राजा क्षमितारि रहते थे  
६२।४३३

शिवकर—विजयाघंठा पर्वतका एक  
नगर ७५।१६४

शीतोदा—एक विभंगा नदी ६३।  
२०७

शुक्रभ्रमपुर—जम्बूद्वीप विदेह  
क्षेत्रके सुकच्छा देशके विजयाघं  
पर्वतकी उत्तर श्रेणीका एक  
नगर ६३।१९१



कुमा-विदेहकी एक राजधानी  
६३।२।५  
शैलपुर-एक नगर, जहाँ भगवान्  
पुष्पदन्तका प्रथम आहार हुआ  
था ५५।४८  
शौर्यपुर-कुशार्थ देशका एक  
नगर ७०।९३  
श्रद्धावान्-एक वक्षारगिरि  
६३।२०३  
श्रावस्ति-भरत, क्षेत्रका एक  
नगर, जहाँ भगवान् सभवनाथ-  
का जन्म हुआ था। यह  
उत्तरप्रान्त गोण्डा जिलेमे  
सेहडमेहडके नामसे प्रसिद्ध  
है। ४९।१४  
श्रावस्ती-भारतके कुख्यात देश-  
की एक नगरी ५९।७२  
श्रीनागनग-श्रीनाग नामका  
पर्वत ६६।१३  
श्रीनिलय-श्रीधर्म स्वर्गका एक  
विमान ६२।३६५  
श्रीपुर-पुष्करवरद्वीप सम्बन्धी  
विदेह क्षेत्रके सुगन्धिशेका  
एक नगर ५४।२५  
श्रीपुर-एक नगर ६३।३३३  
श्रीपुर-जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु  
पर्वतसे पूर्वकी ओर स्थित  
सुकच्छ देशका एक नगर  
६६।६८  
श्रीपुर-ऐरावत क्षेत्रका एक  
नगर ६९।७४  
श्रीप्रभ-एक पर्वतका नाम  
५४।८१  
श्रीप्रभ-प्रथम स्वर्गका एक  
विमान ५४।८२  
श्वेतवन-एक वन, भगवान्  
मल्लिनाथका दीक्षावन  
६६।४७  
श्वेतवाहन-हस्तिनापुरका सेठ  
७१।२६०  
श्वेतविका-एक नगर ७१।२८३

[ स ]

सनत्कुमारकल्प-तीसरा स्वर्ग  
६७।१४६  
सम्मद-भारतवर्षका सम्मद  
शिखर नामका प्रसिद्ध पर्वत।  
यह बिहार प्रान्तके हजारी-  
बाग जिलेमें पारस पर्वतके  
नामसे प्रसिद्ध है। यहाँसे  
बीस तीर्थकरों तथा असंख्य  
मुनियोने मोक्ष प्राप्त किया है,  
इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध  
तीर्थक्षेत्र है ४८।५१  
सरिता-विदेहका एक देश  
६३।२।१  
सर्पावत-रत्नप्रभा पृथिवीका  
एक बिल ७२।३१  
सर्वरमणीय-एक नगर  
७६।१८४  
सर्वतुङ्क-एक वन जिसमें चन्द्र-  
प्रभ भगवान्ने दीक्षा ली थी।  
५४।२१६  
सर्वतुङ्क-लङ्कानगरका एक वन  
६८।३०७  
सर्वतोल-एक पर्वत ६२।४९६  
सर्वार्थसिद्धि-पाँच अनुत्तर  
विमानोंसे एक विमान  
६१।१२  
सहस्राश्रवण-भूनागढ़का एक  
बाग ११।१६९  
सहस्रार-बारहवाँ स्वर्ग  
६१।६८  
सहेतुक-एक वन, जहाँ कुन्धु-  
नाथ भगवान्ने दीक्षा ली थी  
६४।३८  
सहेतुकवन-अयोध्याका वह  
वन जिसमे भगवान् अजित-  
नाथने दीक्षा ली थी  
४८।३८  
संभूतरमण-एक वनका नाम  
६२।३७९  
साकेत-कौशल देशकी एक  
नगरी-अयोध्या ६५।५७

साकेतपुर-एक नगर ५९।२५८  
सातंकर-सोलहवें स्वर्गका एक  
विमान ७०।५०  
सारसमुच्चय-एक देश ६८।३  
सारसौख्य-एक गाँव, जहाँ  
खदिरसार भीलका सासा  
रहता था ७४।४०१  
सिद्धकूट-विजयार्थ पर्वतका  
एक कूट, जहाँ अकृत्रिम चैत्या-  
लय है ६२।७३  
सिद्धाचल-एक पर्वत ६३।१२६  
सिद्धार्थ-अयोध्याका एक वन  
६८।७०७  
सिद्धार्थ-एक वन ७१।४१७  
सिद्धार्थनगर-एक नगर, जहाँ  
भगवान् श्रेयासनाथका प्रथम  
आहार हुआ था ५७।४९  
सिन्धु-एक महानदी ६३।१९५  
सिन्धु-एक देश ७५।३  
सिन्धुगोपुर-एक गोपुरका नाम  
६८।६५३  
सिंहगिरि-एक पर्वत ७४।१६९  
सिंहपुर-नाराणसीके पास स्थित  
सिंहपुरी जिसे आजकल  
सारनाथ कहते हैं ५७।१७  
सिंहपुर-जम्बूद्वीपके पश्चिम  
विदेह क्षेत्रके सुगन्धिश देशका  
एक नगर ७०।५  
सिंहपुरी-विदेहकी एक राज-  
धानी ६३।२।५  
सीतासरित्-जम्बूद्वीपकी चौदह  
महानदियोंमेंसे एक महानदी  
जो विदेहक्षेत्रमे बहती है  
४८।३  
सीमन्ताचल-एक पर्वत  
६७।८५  
सुकच्छ-विदेहका एक देश  
५७।२  
सुकौशल-जम्बूद्वीपका एक देश  
७१।४१६  
सुखावह-एक वक्षारगिरि  
६३।२०३

सुगन्धा-विदेहका एक देश  
६३।२।२

सुगन्धि-पुष्करवर्द्धीप सम्बन्धी  
विदेह क्षेत्रका एक देश  
५४।१०

सुजन-एक देश ७५।४२०

सुदर्शन-एक वन ७०।१८७

सुदर्शन-२१म ग्रैवेयकका विमान  
४९।९

सुपन्ना-विदेहका एक देश  
६३।२।१०

सुप्रकार-एक नगर ७१।४०९

सुपतिष्ठ-मगध देशका एक  
नगर ७६।२।६

सुभद्र-मगध ग्रैवेयकका एक  
विमान ७३.४०

सुरकान्तार-विजयार्धकी दक्षिण  
श्रेणीका एक नगर ६६.१।१४

सुरनिपात-एक वन ६३।१२८

सुरमलय-राजपुरका एक  
उद्यान ७५।३।४६

सुरम्भ-एक देश ६२।८९

सुराद्रि-सुमेरुपर्वत ५८।२।१

सुराष्ट्र-भारतका सौराष्ट्र नाम-  
से प्रसिद्ध देश ७१।२७०

सुरेन्द्रकान्तार-विजयार्धका एक  
नगर ६२।७।१

सुलस-एक सरोवर ६३।१९८

सुवत्सा-विदेहका एक देश  
६३।२०९

सुवप्रा-विदेहका एक देश  
६३।२।१।१

सुवर्णकूला-एक महानदी  
६३।१९६

सुवर्णवती-भरतक्षेत्रकी एक  
नदी ५९।१।१९

सुवर्णाभपुर-विजयार्ध पर्वतकी  
दक्षिण श्रेणीका एक नगर  
७५।३६

सुविशाल-सौधर्म स्वर्गका एक  
विमान ६६।१०५

सुसीमा-पुष्करार्ध द्वीपके वरध  
देशकी एक नगरी ५६।२

सुसीमा-जम्बूद्वीप विदेह क्षेत्रके  
वत्स देशका एक नगर  
४८।४

सुसीमानगर-विदेह क्षेत्रके वत्स  
देशका एक नगर ५२।३

सूतिका-भारतका एक ग्राम  
७४।७४

सूर्य-एक सरोवर ६३।१९८

सूर्यप्रमपुर-पुष्करार्ध द्वीपके  
पश्चिम भाग सम्बाधी सुमेरु-  
पर्वतसे पश्चिम दिशामे स्थित  
गन्धिल देशके विजयार्ध पर्वत-  
की उत्तर श्रेणीपर स्थित एक  
नगर ७०।२७

सूर्यमाल-एक वक्षारगिरि  
६३।२०४

सेनारम्य-एक सरोवर  
७५।५।१०

सीमखेट-एक नगर, जहाँ  
भगवान् सुपावर्णनाथका मुनि  
अदस्था सम्बन्धी प्रथम आहार  
हुआ था ५३।४३

सौधर्म-प्रथम स्वर्ग ६२।८८

सौमनस-एक नगरका नाम  
५१।७२

सौमनस-ऊर्ध्व ग्रंथेयकका नीचे-  
का विमान ६३।१४१

सौमनस-एक वक्षारगिरि  
६३।२०५

सौम्यमहीश्रृत्व-श्रृतिनापुरका  
एक पर्वत ७०।२०९

स्थालक-विजयार्ध पर्वतका एक  
नगर ६८।१३

स्थूणागर-भारतका एक नगर  
७४।७१

स्वर्णप्रभ-एक द्वीप ७१.४५१

स्वस्तिक-तेरहवें स्वर्गका एक  
विमान ६२।४।११

स्वस्तिकावती-बबल देशकी  
एक नगरी ६७।२।५६  
स्रोतोऽन्तर्वाहिनी-एक विभगा  
नदी ६३।२०७

[ ह ]

हरवती-भरत क्षेत्रकी एक नदी  
५९।१।१८

हरिकान्ता-एक महानदी  
६३।१९५

हरिवि-एक महानदी ६३।१९५

हरिवर्ष-जम्बूद्वीपका तीसरा  
क्षेत्र, जहाँ मध्यम-भोगभूमि-  
की रचना है ७१।३९२

हरिवर्ष-भारतका एक देश  
७०।७४

हस्तक्षीर्षपुर-एक नगर  
७१।४।४४

हस्तिनापुर-भारतके कुुरुनाङ्गल  
देशका एक नगर ७०।५१

हास्तिनापुर-कुुरुनाङ्गल देशका  
प्रसिद्ध नगर ६६।७४

हिमवान्-जम्बूद्वीपका पहला  
कुुराणल ६३।१९३

हेमकच्छ-दशार्ण देशका एक  
नगर ७५।१०

हेमाङ्गद-जम्बूद्वीपका एक देश  
७५।१८८

हेमामपुर-एक नगर ७५।४७२

हेमवत-जम्बूद्वीपका दूसरा क्षेत्र  
जहाँ अधन्य भोगभूमिकी  
रचना है ७१।४।५

हेरण्यघन-जम्बूद्वीपका छठी  
क्षेत्र ६३।१९२

हृद्वती-एक विभंगा नदी  
६३।२०६

हृदा-एक विभङ्गा नदी  
६३।२०६

होमन्त-एक पर्वत ६२।२७४

## साधारण शब्दकोष

[ अ ]

अध्यागबोध-केवलज्ञान ६११५५  
 अद्यविपाक-पापोदय ५९१२३६  
 अचलेश-सुमेरु पर्वत ६६१३४  
 अधमर्ण-कर्जदार ६९१६  
 अधिराजता-राज्य ६८१२७३  
 अधीश्वर-मगवान् नेमिनाथ  
 ७११९३  
 अनभिजातत्व - अकुशीलत्व  
 ७२१८४  
 अनवम-श्रेष्ठ ६६११००  
 अनावरण-वस्त्रादि आवरणसे  
 रहित ६३१७३  
 अनाश्वान्-मुनि ७०११६६  
 अनिमिष-मछली ५११६५  
 अनिमिष-देव ७४१२२  
 अनिमिषाङ्गना-देवाङ्गना ५४१  
 १७७  
 अनिमिषाधीश-इन्द्र ६१११९  
 अनिष्ठित-अपूर्ण ४८१७  
 अनुजिष्टिका-अनुग्रह करनेकी  
 इच्छा ५६१६९  
 अनुपदं-पीछे ही ६३१८८  
 अनुयोजन-प्रदान पूछना ७०१४२  
 अनुद्भव-छोटा ६२१२६५  
 अनेकपाराति-सिंह ६८३२६  
 अन्तकोपम-यमके तुल्य ७११९  
 अन्य-अनुत्तर - सर्वार्थसिद्धि  
 विमान ६१११७  
 अन्य-केशव-कृष्ण ७१११८९  
 अन्तेवासिता-शिष्यता ६६११०५  
 अन्तेवासिस्व-शिष्यता ४९१७  
 अन्धस्-भोजन-५८१४०  
 अन्धयमानिनी-कुलका अभिमान  
 रखनेवाली ६२१३४२  
 अपदान- ( खवदान ) साहस  
 ७२१७४

अपवर्ग-मोक्ष ४८११०  
 अपवर्त-अकाल-मरण ५६१३३  
 अपागमाग-पश्चिम प्रदेश ४८१३  
 अपावी-दक्षिण दिशाकी श्रेणी  
 ६२१२५  
 अप्रवीचार - मैथुनसे रहित  
 ४८१७  
 अद्द-वर्ष ४८११५  
 अद्दमार्ग-आकाश ७२१५१  
 अद्दसम-दपणके समान ५९११  
 अर्थ-निकटवर्ती ७११२०५  
 अम्याश-समीप ७०१२६३  
 अम्रपदवी-आकाश ५४१६३  
 अम्रिता-मेघसे युक्त ५४१६३  
 अमिजात-कुलीन ५४१३३  
 अमिवज्रायुधं-वज्रायुधके समुच्च  
 ६३१४९  
 अमिषवपूर्वकं - अमिषकेपूर्वक  
 ७०१२१३  
 अमन्न-पान ७६१४०४  
 अमरद्वय-कल्पवृक्ष ४८१६२  
 अमरपरिवृद्ध-देवोके स्वामी-इन्द्र  
 ७२१२७६  
 अमराधिनाथ-इन्द्र ७११४५  
 अमा-साथ ६३१२४३  
 अमृतामीधु-चन्द्रमा ६४१२१  
 अमृतांशु-चन्द्रमा ६३१४७  
 अमृताशन-देव ६८१७  
 अमृताशनाधीश-देवेन्द्र ६११५३  
 अय-पुण्य ४८१७  
 अयुत-दश हजार वर्ष ७११३८९  
 अयोदय-पुण्योदय ६३१८५  
 अयोध्येश-राजा दशरथ ६७११८२  
 अर-शकके दण्ड ७०११  
 अरलि-एक हाथ प्रमाण ६३१३३८  
 अरिजय-शत्रुओंको जीतनेवाला  
 ७२१२५

अर्कजित्-सूर्यको जीतनेवाला  
 ७४१३५  
 अर्चा-प्रतिमा ७२१५५  
 अर्जुनोत्तर-नकुल और सहदेव  
 ७२१२७  
 अर्द्धचक्री-नारायण (अनन्तवीर्य)  
 ६३११  
 अलकाली-केश समूह ७२११५६  
 अवगम-ज्ञान ६३१२३४  
 अवधिस्थान-सातवाँ नरक  
 ६११८२  
 अवनी-पृथिवी ५२११७  
 अवमति-तिरस्कार ७४१४७१  
 अवस्करगृह-विष्ठागृह ७६१९८  
 अवाच्य-निन्दा ६७११०७  
 अवाप-परराष्ट्र चिन्ता ६२१३४  
 अविवेक-अभेद ५८१८८  
 अशनि-वज्र ७०१७४  
 अष्टमीक्षिति-मोक्ष ६३११०८  
 अष्टमी पृथिवी-ईश्वरप्रामारनाम-  
 की बाठवीं पृथिवी जिसके  
 उपरितन प्रदेशार सिद्धोका  
 निवास है ७६१२७१  
 अष्टमी महो-मोक्ष ६२११७०  
 अष्टापदप्रम-सुवर्णके समान  
 कान्तिवाला ५९१२४  
 अष्टापदमय-स्वर्ण निर्मित  
 ६२२२६  
 अष्टोपवास-त्रैला-तीन दिनका  
 उपवास ७११९९  
 अस्तारि-शत्रु रहित ५११२०  
 अहंपति-सूर्य ६११७७  
 अहिबिद्धिद्वाहिनी-गण्डवाहिनी  
 ६२११२  
 अहिनैरिवाहिनी- गण्डवाहिनी,  
 एक विद्या ७११३८१-  
 अंशुमाली-सूर्य ४८१३५

[ आ ]

आजवंजव-संसार ५११९८  
आदि-कल्याण-गर्भकल्याणक  
६११९७  
आदिकल्पेश-प्रथम स्वर्गका  
हन्द्र-सौधमन्द्र ४९,२५  
आदित्योद्गमवेला-सूर्योदयका  
समय ७५४९०  
आद्यचक्रिवद्-प्रथम चक्रवर्ती  
भरतके समान ४८१७६  
आद्यश्रेणी-क्षपक श्रेणी ६३,२३४  
आनन्दनाटक-भगवान्के जन्मो-  
त्सवके समय हन्द्रके द्वारा  
किया जानेवाला एक विशिष्ट  
रूप ४९,२५  
आसला-आनावरण, दशंभावरण  
मोह और अन्तराय इन चार  
घातिकांमके नष्ट होनेपर  
आप्त-अरहन्त अवस्था प्रकट  
होती है। ४८१४२  
आभिगामिक-उत्तम ५०,३९  
आमय-रोग ७४,४०७  
आमर-देवों सम्बन्धी ४८१७०  
आरनाल-काबी ७४,३४२  
आरातीय-आचार्य परम्परासे  
प्राप्त ५६,१५  
आर्द्रतण्डुलारोपण-गीले चावले  
पर चटना, विवाहके समय  
होनेवाला एक नंग ( दस्तूर )  
७१,१५१  
आवाप-परराष्ट्रकी विन्ता  
७०,१७  
आदानकेप-दिग्गज ६८,५४१  
आज्ञसुक्षणि-अग्नि ७१,१६  
आइवयुज-आसोज, कुंवारका  
महीना ५६,१५८  
आहव-युद्ध ४८,५४  
आहार्य-आभूषण ७२,१७५

[ इ ]

इल-सूर्य ६२,३०९  
इभ्य-वैश्य ७६,३७

इभ्य-वनाद्य ७२,२४३

[ ई ]

ईडा-स्तुति ७३,१६५  
- [ उ ]  
उत्कीच-बुध ७५,२८  
उत्सेध-शरीरकी ऊँचाई ४८,१७३  
उदर्क-श्रेष्ठ ५१,१११  
उद्यन्-उगता हुआ ६९,२०  
उद्गम-उत्पत्ति ५४,२३  
उद्गम-कूल ५६,८  
उपधि-परिश्रम ६६,४८  
उपरत-घृत ६८,२७३  
उपशल्यं-नगरके समीप ६६,७  
उपांशु-एकान्त ७२,८५  
उपासक-आवक ७६,२१९  
उपासकव्रत-आवकके व्रत  
५४,१४४

[ ऊ ]

ऊर्जयन्ताचल-गिरिनार पर्वत  
७२,१९०  
ऊर्ध्वत्रय्या-ऊर्ध्वगमन ७१,१९७

[ ए ]

एकपति-एकपतिव्रत ६२,४१  
एकमार्थत्व-एकपत्नीव्रत ६२,४१  
एनस्-नाप ४८,१०१  
[ ऐ ]  
ऐकागारिक-चौर ७६,६८  
ऐलविल-कुवेर ४८,२०

[ औ ]

औरग-उरग-सर्प सम्बन्धी ५९,३७

[ क ]

कण्ठीरवत्व-सिंहपना ७३,६७  
कण्ठीरवादि-सिंहादि त्रिव्यंश्व  
६६,५९  
कदर्य-अत्यन्त कृपण ५४,११६  
कनकोपल-सुवर्णपापण ४८,९३  
कनीयस्-छोटा ६६,१०३  
कपिरोमाख्यवल्ली-करंषकी  
सता, जिससे खुजली सठने  
लगती है ७४,४७३  
कमलोपमा-लक्ष्मीके तुल्य  
५९,२५५

कन्न-मनोहर ६३,३४६  
कराखुक-छल्लूर ७१,३२१  
करेणु-हृत्तिनी ७३, १३  
कलचौत-स्वर्ण ६१,१२९  
कलिन्दकन्या-यमुना नदी  
७०,३४६  
कल्प-स्वर्ग ७०,७९  
कल्पाग-कल्पवृक्ष ५९,३  
कल्याणयोग्य-विवाहके योग्य  
७१,१४४  
कल्याणविधिपूर्वक-विवाहपूर्वक  
६३,११७  
कलापी-मयूर ६४,२९९  
कंसमैथुन-कंसका साला  
७०,४४७  
कान्तवावधि-सौन्दर्यकी सीमा  
६२,३५१  
काममन्त्र-कामशास्त्र ६३, ७८  
कामनीयक-सौन्दर्य ५२,२९  
कामसौन्दर्य-प्रद्युम्नका भाई  
७२,१७०  
कायस्थिति-प्राहार ७४,३८  
कार्तस्वरघट-स्वर्णघट ६१,१९  
कालालुकारिता-यमका अनु-  
करण ६६,११३  
कालिन्दी-यमुना ७०, १०१  
कीचकद्वन्द्वता-चिडो-चिडवाका  
जोडा ६५,६७  
कुक्कुटसंपाल्य-पास-पासमे बसे  
हुए गाँव इतने पासमें कि  
त्रिससे एक गाँवका मुर्गा उड-  
कर वहाँ अनायास पहुँच सके  
५४, १५  
कुन्धु-एक प्रकारके जीव ६४,१  
कुशाश्रीयता-वीर्यवृता ७४,५४७  
कुनीशय-कमल ६३,१९७  
कूल-किनारा ५२,२  
कुवाह-मुर्गा ६३,१५०  
कृतान्त-यम ४८, ६१  
कृतान्तवक्त्र-यमराजका मुण  
७०,१५५

कृती-कुशल-भाग्यशाली  
७१२  
केवलवगम-केवलज्ञानी ४८१४५  
केशव-नारायण ७६ ४८७  
कोपारुणितविग्रह-क्रोधसे जिस-  
का शरीर लाल हो रहा था ।  
६१८०  
कोशातकी फल-तूमा ७१२२७५  
कौरव-कुरुवंशी ७२।२२७  
कौसुम्म-कुसुमानी रंग-लाल  
रंग ७१।८१  
क्रमुकम्भ-सुपारीके वृक्ष  
६३।३४३  
क्रमपङ्कज-चरण कमल ५८।४७  
क्रामम्बुज-चरण कमल  
६८।५००  
क्रव्याद-मौल ७५।५६०  
क्रोधा-सियार ७६।७५  
क्षान्ति-आयिका ७५।३३  
क्षुपविशेष-एक झाड़ी ७०।१२९  
क्षेम-प्राप्त वस्तुको रक्षा ६२।३५  
क्षौद्ररस-रसधुका रस ७६।१०५  
क्षमाज-वृक्ष ६८।३५८

[ ख ]

खगाधीश-विद्याधरोके राजा  
६२।८१  
खगी-विद्याधरी ६३।८७  
खराभीषु-तीक्ष्ण किरण, सूर्य  
५४।२२  
खल्लरिका-वह स्थान जहाँ धातु  
खलानेका ध्वसास किया  
जाता है ७५।४२२  
खागता-आकाशसे आती हुई  
६३।९

[ ग ]

गगनगोचर-विद्याधर राजा  
७०।२६७  
गण्य-संख्यात ६६।५९  
गतप्राण-मृत ७५।७४  
गतासु-मृत ४८।१२३

गन्धसिन्धुर-मत्त हाथी ४८।२२  
गर्भाभंक-गर्भका बालक  
७०।३४२  
गलन्तिका-भारी ७१।९१  
गवलोत्तम-उत्तम भैया ६३।१६०  
गहन-वन ७०।१०५  
गान्धार-कान्धार ७५।१३  
गायकानीक-गवैयोका समूह  
७४।२७०  
गिरीश-सुमेरुवर्त ७१।४३  
गुरु-पिता ७५।५७८  
गोमायु-गुगाब ७६।३६८  
गोमिनी-लक्ष्मी ६२।१६१  
ग्रन्थ-परिग्रह ६४।१

## [ घ ]

घातिघाता-घातियाकर्मोंका क्षय  
करनेवाले ६३।१२९

## [ च ]

चक्रिन्-चक्रवर्ती और नारायण  
७०।२  
चक्रेट्-चक्रवर्ती ६९।८७  
चण्ड-अत्यन्त क्रोधी ६७।१५८  
चण्डशुति-सूर्य ५४।१०२  
चण्डरोचिष्-सूर्य ७३।६०  
चण्डविक्रम-अत्यन्त पराक्रमी  
५५।३  
चतुरङ्गबल-हाथी, घोड़ा, रथ  
और पदाति-पैदल सेना, इसे  
चतुरङ्ग सेना कहते हैं ६२।५१  
चतुर्थलेश्य-चौथी पक्षलेश्याका  
धारक ५४।८३  
चन्द्रोपराग-चन्द्रग्रहण ६१।५  
चपेट-घण्ट-चाँटा ७०।३५०  
चरमाङ्गधरा-तजूवमोक्षगामी  
४८।१३२  
चामीकर-सुवर्ण ६१।१०६  
चामीकरच्छवि-सुवर्णके समान  
कान्तिवाला ४८।७३  
चारणद्वन्द्व-चारणऋद्धिधारी दो  
मुनि ७५।५३१

चित्तज-काम ७४।१३८  
चिताघकः-पापोंका संचय करने  
वाला ५७।९८  
चिपुटनासिका-चपटी नाकवा  
७६।४४५

## [ छ ]

छाया-कान्ति ७०।२२५

## [ ज ]

जन्मवाराशि-संसार सागर  
६२।२९३  
जम्बुक-शुगल ७६।३५६  
जयध्वज-विजय पताका  
७२।१५  
जलजानना-कमलमुखी  
७६।१४१  
जातसंवेद-जिसे वैराग्य उत्पन्न  
हुआ है ४८।८  
जातरूप-सुवर्ण ५६।१५३  
जातरूपता-दिगम्बरमुद्रा  
७४।९०  
जामदग्न्य-जमदग्निका पुत्र  
६५।१४९  
जाम्बवस्विष्-जामुनके समान  
कान्तिवाले, काले ५१।२८  
जित्वरी-जीतनेवाली ५१।३४  
जिघांसा-मारनेकी इच्छा  
५९।२१३  
जिन-तीर्थकर ७०।२  
जीमूत-मेघ ५२।५  
जोषम्-चुप ७५।२७  
ज्वालाकारालग्न-ज्वालाओसे  
मयंकर अग्नि ७१।१५

## [ झ ]

झपकेतु सुखावहा-कामसुखको  
देनेवाली-स्त्री ६३।११७

## [ त ]

तनुस्थिति-आहार ७१।४३३  
तन्त्र-स्वराष्ट्र चिन्ता ६२।३४  
तपस्वनूनपात्-तपस्वपी अग्नि  
५८।७८

तलप्रहार-घण्ट ७४।१०८  
 तलवर-कोतवाल ७०।१५४  
 तानव-कृशता ६६।९८  
 तानव-शरीर सम्बन्धी ६६।९८  
 तुङ्ग-पुत्र ७०।१५  
 तुष्यकल्याण-ज्ञानकल्याणक  
 ६१।४३  
 तुष्याविगमोत्कर्ष- मनःपर्ययज्ञान-  
 की उत्कृष्टता ५९।२०३  
 तोक-पुत्र ५७।८६  
 तुण्यभुक्कल-पण्यभुक्का समूह  
 ७१।१६२  
 तृतीयवर्गम-अवविज्ञान ६३।२७  
 त्रयस्त्रिगलसमुद्रायु- तैतीस  
 सागरकी आयुवाला असंख्यात  
 वर्षोंका एक सागर होता है।  
 यहाँ छन्दकी अनुकूलतासे  
 सागरका पर्यायवाची समुद्र  
 शब्दका प्रयोगहुआ है ४८।१३  
 त्रायक-रक्षक ७६।४०७  
 त्रिजगत्पति-तीर्थंकर ६७।२४  
 त्रिज्ञानलोचन-ब्रह्मविज्ञानी  
 ४८।४४  
 त्रिभ्रान्ति-तीन प्रदक्षिणा ७०।३१  
 त्रिशुद्धि-मन, वचन, कायकी  
 शुद्धि ७०।२  
 त्वष्ट्योग-ब्रह्मयोग ७१।३८  
 [ द ]  
 दम्भजूममण-राक्षण्डका विस्तार  
 ४९।१  
 दर-अल्प ४८।२१  
 दरनिद्रा-थोड़ी निद्रा ६३।३८७  
 दम्पिष्ठ-अहकारी ६२।१२२  
 द्विज-पक्षी ६६।८  
 द्विज-दाँत ७६।३९२  
 द्विजावली-दन्तपक्ति ७५।५६८  
 द्वितीयकल्याण-जन्म कल्याणक  
 का उत्पन्न ६९।३१  
 दुगायक-स्वर्गके गायक  
 ५७।२९  
 दुसुनि-लोकान्तिक देव ६६।४३

धुम्नद्युति-स्वर्णके समान कान्ति-  
 वाला ६६।५०  
 धुसद्-देव ५७।३०  
 दाक्ष्य-चतुराई ७५।३५०  
 दासेर-दासीका पुत्र ६२।३२६  
 दिवसावसिति-सायंकाल  
 ७४।३०४  
 दिव्यसदस्-समवसरण ६२।४८६  
 दिविज-देव ७०।३८५  
 दिविजेन्द्र-देवेन्द्र ६८।३८  
 दिवोकस्-देव ७०।११  
 दुर्गत-दर्शक ७०।२००  
 द्यूयलक्ष्मा-दूषित लक्षणोंसे युक्त  
 ६७।१५९  
 द्यस-अहकारी ६३।१६१  
 देवभूय-देवपर्याय ७४।७५  
 देवद्वि-सुपेरुपर्वत ७०।२९२  
 दैष्टिक-भाग्यवाची ५४।२६२  
 दोर्दण्ड-मुजदण्ड ५५।३  
 दोष्-मुजा ६२।२६३  
 दोहद-दोहला ७०।३४३  
 द्वीपार्थचक्रवाल-मानुषोत्तर पर्वत  
 ५४।३५  
 [ घ ]  
 घनेश-कुवेर ७१।४२  
 घरागोचर-भूमिगोचर राजा  
 ७०।२६७  
 घर्माव्यक्ष-न्यायाधीश ७६।३४०  
 घर्माधिकरण-न्यायाधीश ५९।  
 १७४  
 घर्मार्थ-धर्मयुक्त ६३।३७५  
 घृतायति-सुन्दर भविष्यसे युक्त  
 ४८।६६  
 घ्याति-ध्यान ६१।५२  
 घ्वजिनी-सेना ६८।५४८  
 [ न ]  
 नमोयार्थी-विधावर ७०।१०४  
 नाकीश-देवेन्द्र ५४।१७१  
 नागराड-घरखोन्द ६७।१७५

नार्पत्य-राज्य ( तुल्यः कर्म  
 नार्पत्यम् ) ४८।३०  
 निकुत्त-छिन्न, कटा हुआ  
 ७१।१०१  
 निषीश-कुवेर ७१।२४  
 निःश्रीचार-मैथुन रहित ६१।१२  
 निबन्धन-कारण ७२।७  
 निघृण-निर्दय ६८।२०  
 निर्विण-छिन्न ४८।१३८  
 निर्वृति-मोक्ष ४८।९४  
 निर्वर्ग-त्रैराग्य ६३।१०९  
 निर्वद-त्रैराग्य ४९।३  
 निर्व्यामि-युद्धके विस्तारसे रहित  
 ६१।३  
 निरिम्प-देव ६३।११३  
 निरिम्पेश-इन्द्र ५९।३८  
 निष्ठा-समाप्ति ५४।२९  
 निष्ठितार्थ-कृतकृत्य ६३।२७३  
 निःप्यन्द-निश्चयेष्ट ४८।१२३  
 निखिंश-तलवार, क्रूर ५४।२२  
 निस्सृष्टार्थ-राजदूत ७३।१२१  
 निःसङ्गत्व-निर्ग्रन्थ अवस्था  
 ७०।४६  
 निहतसकलघाती - ज्ञानावरण,  
 दर्शनानवरण, मोह और अन्त-  
 राय इन चार घातियाकर्मी-  
 को नष्ट करनेवाले ६३।५५  
 नैर्गुण्य-निष्कलता ५०।५  
 नैःसङ्गच-निर्ग्रन्थ दशा ६१।७  
 न्यग्रोध-वटवृक्ष ६६।८  
 न्याय्य-न्याययुक्त ६३।३७५  
 [ प ]  
 पञ्चवर्ग-पाँचका वर्ग अर्थात् ५ ×  
 ५ = २५ पञ्चास-६३।४५५  
 पञ्चबाण-काम ७५।३३६  
 पञ्चमनक्षत्र-भृगुशिरा नक्षत्र  
 ४९।१६  
 पञ्चमावारापर-पाँचवाँ क्षीर-  
 समुद्र ५७ ३३  
 पञ्चमाशुधि-क्षीरसागर ६७।४३

पञ्चमावगमेश - पञ्चमज्ञान -  
केवलज्ञाचके स्वामी ४९।५७  
पञ्चमीगति-मोक्षस्थान ४९।५७  
पथ्या-द्वन्द्व ७५।३७५  
पथा-लक्ष्मी ५२।१  
पथोज-शंख ७१।१३९  
पथोघरपथ-शाकाश ६७।२७६  
परमाज्ञ-खीर ५६।४७  
परस्वहृत्-बीर ७६।८१  
परार्थ-श्रेष्ठ ७५।४६  
परार्थमणि-श्रेष्ठमणि ६८।१९७  
परामुता-गृह्य ७०।३४१  
परिवृत्त-स्वामी ७४।२९९  
परिषद्दल-समामें बखवान्  
६१।५६  
पर्व-पूणिमा ६३।४१७  
पल-मांस ७१।२७१  
पलित-सफेद बाल ६७।२१६  
पाठीन-मच्छ ७३।१६१  
पात्रेलमिततादैन्यं-केवल भोजन  
मे शामिल होने लगी दोनता.  
४८।१०१  
पाद-चौथाई माग ४८।२९  
पाणा-व्रतके बाद होनेवाला  
भोजन ७६।१३४  
पारमात्म्य-परमात्मपद-मोक्ष  
७५।१७७  
पाषाण-बीछाका एक दोष  
-७०।२७२  
पिण्ड-ग्रास ७६।४१०  
पिण्डित-एकमित ५१।८०  
पिण्डीद्रुम-अशोकवृक्ष ६८।१३०  
पितृवन-भगवान् ७५।२२७  
पीयूषाग्नि-देव ६६।२१  
पुरुषकार-पुरुषार्थ ६२।३७  
पुरुषार्थत्रय-धर्म, अर्थ, काम-ये  
तीन पुरुषार्थ ५३।५  
पुलस्तिपुत्र-रावण ६८।३२५  
पुलिन्दी-भिल्लकी स्त्री ७१।४०३  
सुष्येपुत्रवर-कामध्वर ६२।४६

पूर्वानुपूर्वी-पूर्वाचार्योका अनु-  
सरण करते हुए ७०।३  
प्रकीर्णक-चमर ६३।१  
प्रज्ञा-जवता ४८।६  
प्रज्ञापति-ब्रह्मा ५४।११७  
प्रज्ञसि-एक विद्या ६३।३१  
प्रतिक्रिया-प्रतिकार ६२।११८  
प्रतिच्छन्द-आदर्श ५४।४२  
प्रतिदत्त-बदलेका उपहार  
६२।१०५  
प्रतिष्ठमी-विरोधी ६६।१११  
प्रतिष्ठाकल्प-प्रतिष्ठाभास्व  
५४।४९  
प्रतीक्ष्य-पढिगाहकार ४९।३९  
प्रलय-मूर्च्छा ४८।६३  
प्रज्या-दीक्षा ६५।७  
प्रश्रयाश्रय-विनयका आधार  
७३।४५  
प्रहेतव्या-भैजने योग्य ५८।६८  
प्राकृत-साधारण ७२।५७  
प्राग्ज-पहले अथवा हुआ  
७२।१५५  
प्राच्य-पहला ७६।४१०  
प्राणवेन्द्र-चौदहवें स्वर्गका इन्द्र  
५५।२२  
प्रान्तकल्प-अच्युतस्वर्ग ४८।१४३  
प्रान्तकल्पेश्वर-अच्युतस्वर्गका  
स्वामी ६६।१०१  
प्राभृत-उपहार ५९।९०  
प्रीणित-संतोषित ७५।१  
प्रेतनाथ-ग्रम ६८।३३५  
प्रैष-काय ४८।१०१  
प्रोषितयोषित-असकी स्त्री  
प्रवासमें गयी है ६३।७८

[ ब ]

बल-बलभद्र ७०।२  
बल्लव-गोपाल-अहीर ६३।१६०  
बहुलपक्ष-कृष्णपक्ष ६७।४१  
बाह्यपरिच्छद-सैना आदि बाह्य  
परिकर ५२।४  
बोध्य-ज्ञानने योग्य पदार्थ ६२।१

[ भ ]

बल्लङ्गी-भौलोंका एक वृत्ति  
७१।३०९  
बवान्त-मोक्ष ६४।५५  
भागिनेय-भानेज ७२।२६८  
भावितद्रव्यकारण-मीचहकार  
भावनाथोका चिन्तन करते  
वाला ६१।८  
भास्वर-दैवीप्यमान ६१।२३३  
भूमिज-मंगल ७५।४८९  
भूयसी-बहुत भारी ४८।१०३  
भोगिभोगामै-सांपके फणके  
समान ४८।८३

[ म ]

मगधाधिप-जरासंध ७१।६९  
मङ्गु-श्रीम ६५।७  
मणिकर-जौहरी ७५।४५४  
मत्तित्तम-अत्यन्त बुद्धिमान्  
६२।८१  
मधुमास-चैत्रमास ६३।७७  
मनःपर्ययवीक्षण-मनःपर्ययज्ञान-  
के धारक ४८।४६  
मन्द-शानि ७५।४८९  
मन्दराग-मन्दर + अग-मेघ  
पर्वत ६६।१००  
मन्दराग-मन्द रागके धारक  
६०।१००  
मन्दसान-हंस ७५।५४७  
मनोरजस-मनके विकार स्त्री  
बुली ६३।१२२  
मनोरमा-स्त्री ७०।७५  
मरुत्-वेध ५४।३०  
मरुत्तद्वय-देवीका समूह ६७।५४  
मरुत्तद्वय-देवसेमा ६३।२८२  
मरुत्तमार्ग-आकाश ४८।६०  
महादेवी-प्रधानरानी ५१।२०  
महिषीमण्डल-भैंसोका समूह  
६३।१६०  
मातङ्ग-चाण्डाल ७२।३१  
मातङ्गी-चाण्डाली ७२।२४१  
भाधव-वैशाख ६१।५

मार्दंगिक-पूदंग बजानेवाला  
७६।९०

मिथुन-दम्पती ७०।८२

मुष्टि-मुक्ता ७०।३५०

मूर्धन-केश ५१।२८

मृगौत्कर-मृगौका समूह

७१।१५७

मृतिनिर्वन्ध-मृत्युकी हठ

७०।२०८

मृतिमूलघन-मृत्युलुपी मूलघन

६९।६

मेघान्त-शरद् ऋतु ६१।२४

मैथुन-साला ७५।४३०

[ य ]

यतिवाल-मुनिसमूह ५६।५४

यम-गुगल ७०।३८४

युयुत्सा-युद्ध करनेकी इच्छा

७६।२७६

योग-अप्राप्तकी प्राप्ति ६२।३५

[ र ]

रथ्या-गली ७६।३३५

राजवाचल-विषयाद्यं पर्वत

६२।२१

राजवृषभ-चक्रवर्ती ६७।८८

राजसिंहचर-राजसिंहका जीव

जो श्व मधुक्रीड ह्रथा

६१।७५

रुद्रबुद्धि-विशाल बुद्धि ७१।२

रुद्रवैभव-विशाल वैभवका

धारक ५६।१८

[ ल ]

लप-मुख ५१।३७

लवसत्तम-बहुमिन्द्र ६९।९१

लिम्बु-प्राप्त करनेका इच्छुक

७६।१७५

लोमांस-बीणाका एक दोष

७०।२७१

लोक-सन्तुष्टा ४८।११७

लोलालिता-बचल अमरपना

५१।३८

[ ख ]

वक्षोदर्शन-छाती प्रमाण

६८।१४६

वकीहर-हूत ६८।४०७

वदान्य-दानवीर, उदार हृदय

५२।३९

वणिग्ध्वंशारण-सेठ गन्धोत्कटक

घर ७५।६५९

वनज-कमल ७०।२५२

वनजाकर-कमलाकर, तालाब

७०।२५२

वनवारण-जंगली हाथी

६३।१५९

वन्दारु-स्तुति पाठक, चारण

७१।९०

वर्णत्रय-क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र

विदेह क्षेत्रमें ये ही तीन वर्ण

होते हैं। ब्राह्मण वर्ण नहीं

होता ५४।११

वस्त्रमापी-सत्य बोलनेवाला

६३।२५६

वल्लकि-बीणा ७०।२६४

वसुधादा-रत्नोंकी धारा

५१।२०

वसुधागेह-भूमिगृह-सलघर

६८।२८

वस्तक-पदरा ६७।३०६

वाग्विलसर्ग-दिव्यस्वनि ६३।७६

वाचाट-घट्टत बोलनेवाला

७०।२२९

वाचिक-सन्देश ६२।१०३

वाचारितक-परण्डका वृक्ष

६३।६४

वादकण्डूति-वादकी छुजली

७२।१४

वादकण्डूया-वाद करनेकी

छुजली ६३।५०

वायुमार्ग-ब्याकाश ७१।४११

वाष्णीदिक-पश्चिम दिशा

६८।२०५

वास्तुक्कामुंकिनीर्वासि-इन्द्रबनुव-

के समान नक्षत्र ४८।१२६

वासु-इन्द्र ५८।१

बि-पक्षी ६८।३४३

विकायसायक-कामके बाण

७०।६८

विकृच-बाङ्गी मूँछसे रहित

७०।४८८

विकृतार्द्ध-विक्रिया ऋद्धिके

धारक ४८।४५

विक्रम-डग ७०।२९०

विगतासुता-मृत्यु ६२।१५६

विग्रह-शरीर ५९।१०२

विग्रह-युद्ध ६८।४१७

विवात-उपसर्ग ६३।१२८

विचिकित्सा-नलानि ६२।५०१

विजयाब्ज-विजयका शंख

६८।६३१

विदसुता-वैश्यपुत्री ७५।७२

वितर्क-विचार ५१।१०

विदुष्यणी-सभा ७०।२८०

विद्वर-श्रेष्ठ विद्वान् ६२।१२४

विधा-भोजन ५९।२६८

विधी-मूल ७४।८८

विधूतवैकल्य-पूर्ण ६३।४१७

विनम्यन्वय-विनमिका वंश

६८।८

विनरसञ्चार-मनुष्योंके संचारसे

रहित ७५।११३

विपक्षक-पंखसे रहित ६८।३४३

विपाशित-धन्वन् रहित किया

हुया ७१।४

विपुत्र-पुत्र रहित ७०।८४

विपुण्यक-मुण्यहीन ७०।२०१

विप्रलम्भन-ठगना ६७।३४७

विप्रंश-विनाश ७४।८९

विबन्दिपु-बन्धना करनेके

इच्छुक ६७।३

विद्यापति-प्रजापति-राजा

४८।३२

विग्रसावधि-मरणान्त ५८।९

विग्रम्भ-विश्रवांस ५४।१४५



विश्वसितीश-समस्त राजा  
६२।१२२  
विश्वनाथिन्-भोजनाभिलाषी  
६५।१३३  
विषमर्तु-साय ७१।२१४  
विषय-देश ४८।३  
विष्टपनालिका-लोकनाड़ी अथवा  
घसनाडी। यह लोकनाड़ी लोकके  
बोधमें स्थित है। चौदहराज  
ऊँची और एक राज चौड़ी  
है ५।१।७  
विष्णुविधेय-कृष्णके सेवक  
७०।४८२  
विष्वग्न-भोजन ७६।१३६  
वीतघ्न-निर्दय ६७।३०९  
वीध-शुक्ल। प्रवृत्ति १३३  
वृत्रहा-इन्द्र ७६।३०  
वेजित-कम्पित ७६।३१९  
वैशुख्य-प्रतिक्रमता ७१।८  
वैयाल्य-वृष्टता ७०।२६५  
वैराग्यकाष्ठा-वैराग्यकी उच्च-  
सीमा ६१।९०  
वैश्रवणोपम-कुवेरके समान  
७०।१४७  
व्यसु-मृत ७१।१५

[ झ ]  
शकटकार-गाड़ीका आकार  
रखनेवाली कंसकी पूर्वभवकी  
एक विद्या ७०।४१९  
शचीपति-इन्द्र ७४।३५७  
शब्दशास्त्र-उपकरण ५४।२१  
शम्फली-हूती ६३।१२३  
शसु-शजगर ५९।३१३  
शरद-वर्ष ६९।८०  
शरव्यासि-गौंदरा नामक वृण-  
का फैलाव। पक्षमें बाणोंका  
विस्तार ६९।२४  
शराव-मिट्टीका सकोरा  
७४।३४२  
शरीर संन्यास-शरीर त्याग,  
समाधिभरण ६९।१२

शर्म-मुख ६१।१  
शर्मपरम्परा-मुखकी मन्त्रति  
४८।५५  
शालाहु-कच्चा फल ४८।११७  
शल्य-वीर्याका एक दोष  
७०।२७१  
शंकर-शान्ति या सुखके करने  
वाले ७०।१  
शाकटिक-गाड़ी चलानेवाले  
६३।१५७  
शास्त्रामृग-वानर ७६।४४१  
शिक्षक-उपाध्याय, परमेष्ठी  
४८।४४  
शीतक-ढोला, कार्य करनेमें  
मन्थर ६८।४३७  
शुक्लपद्मान्त-पूणिमा ६१।५  
शुक्ललेखाह्वय-द्रव्य और भाव  
दोनों प्रकारकी शुक्ल लेखाओं  
से सहित ६१।११  
शुचिशुक्ल-ज्येष्ठशुक्ल ६१।५२  
शुल्क-देनस ७६।४१०  
शुल्कमीलक-देनससे ढरनेवाले  
७०।१२८  
शोकाशनि-शोकरूपी वज्र  
४८।६२  
शौण्डिकारिणी-कलारन  
७०।३४७  
श्वाम्नी-सरकगति ७५।२१६

[ ष ]  
षष्ठोपवास-दो दिनका उपवास  
६४।३९  
षोडशसमा-शोलह वर्ष  
७५।६९०

[ स ]  
सजानि-स्त्रीसहित ६५।२२  
सञ्चितायाः-पुष्पका संचय  
करनेवाले ४९।५७  
सपथी-पूजा ६७।४  
सप्तच्छद-सप्तपर्ण ६१।४२  
सप्रेक्ष-विचारवान् ७०।२१२  
समवर्त-यमराज ६१।७८  
समवर्ती-यमराज ६८।६०६

समा-वर्ष ६१।९३  
समाधान-चित्तकी एकप्रवृत्ति  
अथवा समाधि ४८।१३  
समासजनिद्वैत-त्रिसका मोक्ष  
शीघ्र होने वाला है ४९।३  
सम्प्रधारण-प्रतिज्ञा ४८।७०  
सम्फली-हूती ५४।२१२  
सन्मिन्नश्रोतु-एक निमित्तज्ञानी  
६२।८३  
सम्भूय-मिलकर ६२।११२  
सम्भ्रान्त-प्रवृद्धाया हुआ  
६२।११५  
सम्भद-दुर्ष ५१।२२  
सम्भुलीन-दर्पण ४९।१  
सम्भुलीनतलोपम-दर्पणतलके  
समान ६६।३०  
संयुग-युक्त ५७।७६  
संरम्भसम्भृत-क्रोधसे परिपूर्ण  
६३।६६  
सर्पशय्या-नागशय्या। कृष्णका  
एक रत्न ७०।४४१  
सर्पाशन-मयूर ६७।२९  
सर्वगोविण-सब देव ६३।४१०  
संवेगजनक-भय उत्पन्न करने-  
वाला ७०।२  
सहसाधन-सेनासहित ७५।६४  
सहस्रसमायुक्त-हजारवर्षकी  
आयु वाला ७१।२२३  
सहस्राक्ष-इन्द्र ५०।२३  
संहत-मिले हुए ६४।३  
साधन-सेना ६१।८०  
सामज-हाथी ५९।१९७  
सामथ-रोगसहित ५८।९  
सामवाधिकता-सहायता ६८।४  
सार्व-सब हितकारी ५३।११  
सावध-पाप सहित ५१।१०  
सावधम्भ-अभिमानपूर्ण  
६२।१७६  
सिद्धार्थ-कृतकृत्य ४८।१३६  
सिंहवाहिनी-एक विद्या ६२।११  
सिंहविष्टर-सिंहासन ६३।१४९

सीतापारभागभूषण—सीता नदीके  
दक्षिण तटके आभूषण स्वरूप  
४८।५८  
सीरपाणि—बलभद्र—अपराजित  
६३।२६  
सीरी—बलभद्र ७६।४८५  
सुदना—अत्यन्त दुःखी ६८।२१९  
सुधाकान—देव ७३।७३  
सुधाशिन्—अमृतभोगी देव  
७०।२९५  
सुनासीर—इन्द्र ६२ ४९०  
सुप्रतिष्ठ—अच्छी प्रतिष्ठासे मुक्त  
७०।५२  
सुप्रभूत—बहुत भारी ७०।१३१  
सुरलक्षिका—अप्सरा ६२।३६८  
सुरेद्—इन्द्र ५०।३५  
सुमत—वत्तम ब्रतोसे युक्त  
६७।१  
सूपशास्त्र—शाकशास्त्र ५९।२६६

सैहिकेय—राहु ६२।४३१  
सोदर्य—सगे भाई ६३।१५७  
सौंदर्या—सगी वहिन ७५।८२  
सौगत—बौद्ध ६३।५८  
सौग्रान्तिक—बौद्धोका एक भेद  
६३।५०  
सौधवृष्टि—अमृतकी वर्षा  
५९।२९५  
सौरी—सूर्यकी ७०।३२०  
स्तनथिस्तुक—मेघ ७६।१४६  
स्थलपत्र गुलाब ७१।१०३  
स्थाणु—रुद्र ७४।३३२  
स्थितिक्रिया—सम्यग्दर्शनका एक  
अङ्ग ६३।३१९  
साव—निर्जरा ४८।५२  
स्वप्रजासमाः—अपनी सन्तानके  
समान ४८।३  
स्वसंचिति—स्वसंचेदन ६६।९१

स्वास्थ्य—आरोग्यता, पक्षमें मृत्यु  
५८।१०६

[ ह ]

हरि—इन्द्र ५१।८६  
हरि—सिंह ७१।११२  
हरि—घोड़ा ७१।८४  
हरिनोल—इन्द्रनीलमणि ६२।४८  
हरिबल—कृष्णकी सेना ७१।८१  
हरिविष्टर—सिंहासन ७५।३९  
हरिसुत्रु—प्रद्युम्न ७२।१२७  
हरेहरित्—इन्द्रकी दिशा, पूर्व  
दिशा ५४।६९  
हलायुध—बलभद्र ६१।८३  
हली—बलभद्र ५९।२८०  
हलेश—अपराजित बलभद्र ६२।४  
हारिणी—मनोहर ६३।४३७  
हृद्य—हृदयको प्रिय ५४।१९२  
हैमनी—हैमन्त सम्बन्धी ५९।३२

## व्यक्तिवाचक शब्दकोष -

[ अ ]

अकम्पन-भगवान् महावीरका गणधर ७४।३७४  
 अकम्पन-बाराणसीका राजा, सुलोचनाका पिता ७४।४६  
 अकम्पन-राजा चेटकका पुत्र ७५।५  
 अकम्पनगुरु-सात सी मुनियोंके नायक एक मुनि ७०।२७९  
 अकालवर्ष-आचार्य गुणभद्रका समकालीन राजा । प्रशस्ति ३१  
 अक्षर-यादव पक्षका एक राजा ७१।७४  
 अगन्धन-एक साँपका नाम ५९।१७७  
 अग्निभूति-धरणीजट ब्राह्मणका पुत्र ६२।३२६  
 अग्निभूति-व्रथापुरीका एक ब्राह्मण ७५।७४  
 अग्निभूति-चम्पापुरके सोमदेवका साला ७२।२२९  
 अग्निभूति-सूतिका ग्रामका एक ब्राह्मण ७४।७४  
 अग्निभूति-शालिग्रामके निवासी सोमदेव ब्राह्मण और अग्निला ब्राह्मणीका पुत्र ७२।४  
 अग्निभूति-भगवान् महावीरका गणधर ७४।३७३  
 अग्निमित्र-भगवान् महावीरके पूर्वभवका जीव ७६।५३६  
 अग्निमित्र-व्रसापुरीका एक ब्राह्मण ७५।७१  
 अग्निमित्र-मन्दिरग्राम निवासी गौतमका पुत्र ७४।७७  
 अग्निराज-हेमकूट नगरके राजा कालसंवरका एक शत्रु ७२।७३  
 अग्निरत्न-पञ्चमकालका अग्निम श्रावक ७६।४३३

अग्निरत्न-अग्निभूतिकी स्त्री ७२।२३०  
 अग्निरत्न-धरणीजट ब्राह्मणकी स्त्री ६२।३२६  
 अग्निरत्न-शालिग्रामके निवासी सोमदेव ब्राह्मणकी स्त्री ७१।३  
 अग्निशिल्प-बाराणसीका एक राजा ६६।१०६  
 अग्निसम-भगवान् महावीरके पूर्वभवका जीव ७६।५३५  
 अग्निसह - अग्निभूति और गौतमीका पुत्र ७४।७४  
 अग्रकुम्भ-रावणके पक्षका एक विद्याधर ६८।४३०  
 अङ्गद-यादव पक्षका एक राजा ७१।७३  
 अङ्गारवेग-अशनिवेगका दामाद ७०।२५६  
 अचल-अन्धकवृष्टि और सुभद्राका पुत्र ७०।९६  
 अचल-द्वारावतीके राजा ब्रह्मकी सुभद्रा पत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र । यह बलभद्र है ५८।८३  
 अच्युतेश-अपराजित बलभद्रका जीव ६३।३१  
 अजगर-जारक-श्रीभूति-सत्यघोषका जीव तीसरे नरकसे निकलकर अजगर हुआ ५९।२३६  
 अजित-द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ ४८।१  
 अजितज्ञथ-घातकीलण्ड द्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी अलका देशके अयोध्यानगरका राजा ५४।८७  
 अजितज्ञथ-गान्धार नगरके राजा ६३।३८४  
 अजितञ्जय-कल्किराजका पुत्र ७६।४२८

अजितज्ञथ-एक चारण ऋद्धिधारी मुनि ७४।१७३  
 अजितज्ञथ-भगवान् मुनिमुव्रतनाथका मुख्य प्रद्वनकर्ता ७६।५३  
 अजितसेन-हस्तिनापुरके राजा ६३।३८२  
 अजितसेन-भगवान् अजितनाथका पुत्र ४८।३६  
 अजितसेन-काञ्चनतिलकनगरके राजा महेश्वरविक्रमका पुत्र ६३।१०६  
 अजितसेन-एक मुनि ६३।११४  
 अजितसेन-राजा अजितज्ञथ और रानी अजितसेनाका पुत्र-श्रीधरदेवका जीव ५४।९२  
 अजितसेना-अयोध्याके राजा अजितञ्जयकी स्त्री ५४।८७  
 अजितसेना-अरिन्दमपुरके राजा-अरिञ्जयकी स्त्री ७०।३०  
 अजिता-गान्धार नगरके राजा अजितज्ञथकी स्त्री ६३।३८४  
 अजनपर्वत-रामका हाथी ६८।५४५  
 अजनादेवी-प्रभञ्जनकी स्त्री ६८ २७६  
 अजनासूनु-हनुमान् ६८।२८०  
 अशुमान्-प्रभञ्जन और अञ्जनादेवीका पुत्र,—हनुमान्का दूसरा नाम ६८ २८०  
 अतिकन्यार्क-रावणके पक्षका एक विद्याधर ६८.४३१  
 अतिथि-चारणयुगल नगरके राजा सुयोधनकी स्त्री ६७।२१४  
 अतिबल-आगामी सातवाँ वाराण्य ७६।४८८  
 अतिबल-एक अक्षर-रत्नकण्ठका जीव ६३।१३६

अतिवल-हरिविक्रमका-सेवक  
७५।४८१

अतिशुक्र-एक मुनि ७०।३७०

अतिरथ-पुण्डरीकिणी नगरीके

राजा रतिषेणका पुत्र ५१।११२

अतिरूपक-देवरमण चनका

व्यन्तरदेव ६३।२७८

अतिरूपा-एक देवी ६३।२८५

अतिवेग-अरणीतिलक नगरका

राजा विद्याधर ५९।२२८

अतिवेग-पुथिवीतिलकपुरका

राजा ५९।२४१

अतिशयमति-दशरथका एक

मन्त्री ६७।१८५

अतोरण-आगामी चौदहवें

तीर्थकरका जीव ७६।४७३

अधोक्षण-कृष्ण ७१।३५३

अनगार-भगवान् क्षीतलनाथका

प्रमुख गणधर ५६।५०

अनङ्ग-प्रद्युम्न ७२।१६८

अनङ्गपताका-राजा सत्यन्धरकी

एक स्त्री ७५।२५४

अनन्त-एक गणधर ६८।४

अनन्त-एक मुनि ६३।१७७

अनन्त-एक मुनि ५८।२८३

अनन्तजिन-विदेहक्षेत्रके एक

जिनेन्द्र ५७।८

अनन्तमति-श्रीकान्ताके साथ

आयी हुई सामान्य स्त्री-दासी

६२।३५२

अनन्तमति-भरतचक्रोकी एक

स्त्री ७४।५०

अनन्तवीर्य-एक मुनि ६७।६६

अनन्तवीर्य-एक मुनि ६७।३

अनन्तवीर्य-मथुराका राजा

५९।३०२

अनन्तवीर्य-शम्भुहोपकी विनीता

-अयोध्यानगरीका

राजा ७०।१४७

अनन्तवीर्य-अयोध्याका राजा,

सनत्कुमार चक्रवर्तीका पिता

६१।१०४

अनन्तवीर्य-राजा स्तिमित-

सागर और अनुमति रानीका

पुत्र। यह मणिचूलाका भीव

है ६२।४१४

अनन्तवीर्य-एक मुनि ७१।३१२

अनन्तवीर्य-आगामी चौबीसवें

तीर्थकर ७६।४८१

अनन्तसेन-बलभद्र और नारा-

यणका भेजा योद्धा ६२।५०३

अनन्तसेन-क्षपराजित बलभद्र-

का पुत्र ६३।२६

अनन्तसेना-भरत चक्रवर्तीकी

एक स्त्री ६२।८८

अनन्तश्री-नन्दन नगरके राजा

क्षमितविक्रम और रानी

आनन्दमतीकी पुत्री ६३।१३

अनाहुत-शम्भुहोपका एक देव

७६।३७

अनिन्दिता-रत्नपुरके राजा

श्रीषेणकी स्त्री ६२।३४०

अनिरुद्ध-प्रद्युम्नका पुत्र

७२।१८९

अनिलवेगा-विद्युद्दंष्ट्रकी स्त्री

६३।२४१

अनिलनन्दन-स्युमान् ६८।४६५

अनिलात्मज-अणुमान्-हनु-

मान् ६८।४३२

अनिवर्ती-आगामी बीसवें तीर्थ-

कर ७६।४८०

अनीकदत्त-वसुदेव और देवकी-

का पुत्र ७१।२९६

अनीकपाल-वसुदेव और देवकी

का पुत्र ७१।२९६

अनुकूल-राजा बज्रदन्तका एक

जेटक ७६।१४३

अनुन्दरी-रत्नसंघय नगरके

राजा विश्वदेवकी स्त्री

७१।३८७

अनुन्दरी-चन्द्रपुरके राजा महेन्द्र

की स्त्री ७१।४०५

अनुन्धरो-पोदरपुरके विश्वभूति

ब्राह्मणकी स्त्री ७३।८

अनुन्धरी-हस्तिनापुरके कपि-

ष्ठल ब्राह्मणकी स्त्री

७०।१६१

अनुनाग-दशपूर्वके धारक-एक

मुनि ७६।५२२

अनुपमा-मत्तिसागरकी स्त्री

७५।२५८

अनुपमा-राजपुरके सेठ रत्न-

तेजा और सेठानी रत्नमाळा-

की पुत्री ७५।४५१

अनुमति-प्रभाकरी पुरीके राजा

स्तिमितसागरकी द्वितीय स्त्री

६२।४१४

अन्धकवृष्टि-शूरवीर और

धारिणीका पुत्र ७०।९४

अन्धकेल-भगवान् महावीरका

गणधर ७४।३७४

अपराजित-सिंहपुरके राजा

बर्हदास और रानी जितदत्ता-

का पुत्र ७०।१०

अपराजित-एक श्रुतकेवली

७६।५१९

अपराजित-सिंहपुरका राजा

७०।४३

अपराजित-पूर्व विदेहके तीर्थकर

६९।३९

अपराजित-चक्रपुरका राजा

जिसने भगवान् अरहनाथको

सर्वप्रथम आहार दिया था

६५।३५

अपराजित-जरासन्धका एक पुत्र

७१।९

अपराजित-विदेह क्षेत्रके वत्सदेव

सम्बन्धी सुश्रीमानगरीका राजा

५२।३

अपराजित-प्रभाकरीपुरीके राजा

स्तिमितसागर और वसुधरा

रानीका पुत्र। यह रञ्जितदेव-

का जीव है ६२।४१३

अपराजित-चक्रपुरके राजा

५९।२३९

अपराजिता-भगवान् मुनिमुवत्र-  
नाथकी पालकी ६७।४०  
अपराजिता-भाराणसीके राजा  
खनिशिलकी स्त्री । नन्दि-  
मित्रकी मत्ता ६६।१०७  
अपराजिता-उज्जयिनीके राजा  
विजयकी स्त्री ७१।४४३  
अपाप-आगामी तेरहवें तीर्थकर  
७६।४७९  
अमय-राजा श्रेणिकका पुत्र  
७४।४२९  
अमयघोष-एक केवली, जिनके  
पास भगवान् चक्रवर्तिने दीक्षा  
ली थी ६१.९७  
अमयघोष-घातकीखण्डके पूर्व-  
ऐरावत क्षेत्रमें स्थित तिलक-  
नगरका राजा ६३।१६८  
अमयनन्दी-एक आचार्य  
७१।२०५  
अमययान-भगवान् सुमतिनाथ-  
की पालकी ५१।६९  
अभिनन्दन-शब्दकवृष्टि और  
सुभद्राका पुत्र ७०।९६  
अभिनन्दन-चतुर्थ तीर्थकर  
५०।१  
अभिमन्यु-श्रुतिका सुभद्रा स्त्री-  
के उत्पन्न हुआ पुत्र ७२।२१४  
अमख्यारु-एक मुनि ६२.४०३  
अमित-विद्युद्दंष्ट्रके विमानका  
नाम ६३।२४२  
अमितगुण-एक मुनिराज  
७४।१७३  
अमिततेज-शर्ककीति और  
ज्योतिर्माताका पुत्र ६२।१५२  
अमिततेजस्-गगनवल्लभ नगर-  
के राजा गगनचन्द्र और रानी  
गगनसुन्दरीका पुत्र ७०.४०  
अमितप्रभ-पुण्डरीकिणी नगरीमें  
स्थित अमितप्रभ तीर्थकर  
६२।३६१  
अमितमति-पद्मिनीखेटके सागर-  
सेनकी स्त्री ६३।२६३

अमितमति-गगनवल्लभ नगरके  
राजा गगनचन्द्र और रानी  
गगनसुन्दरीका पुत्र ७०।४०  
अमितवती-मयुराके राजा  
बनन्तवीर्यकी दूसरी स्त्री  
५९।३०३  
अमितविक्रम-पुष्करार्थके पूर्वार्ध  
भरतके नन्दन नगरका राजा  
६३।१२  
अमितवेग-स्थालकपुरका  
राजा-एक विद्याधर ६८।१४  
अमितसागर-एक मुनि ७१।४३३  
अमितसेना-एक गणिनी-  
धार्मिका ६२।३६७  
अमृतरसायन-राजा चित्ररथका-  
रसोद्भवा ७०।२७१  
अमृतरसायन-पुत्रीम चक्रवर्ती  
का रसोद्भवा ६५।१५६  
अमृतसागर-एक तीर्थकर  
७६।१४७  
अमोघजिह्व-एक मुनि ६२।१९६  
अमोघजिह्व-पोदनपुरके निमित्त-  
ज्ञानी ६२।२५३  
अमोघमुखी-लक्ष्मणकी शक्ति  
६८।६७५  
अम्बिका-खगपुरके राजा सिंह-  
सेनकी द्वितीय पत्नी ६१।७१  
अर-शठारहवें तीर्थकर ६५।१  
अर-आगामी धारहवें तीर्थकर  
७६।४७९  
अरविन्द-गोदनपुरका राजा  
७३।७  
अरविन्दकुमार-भगवान् अर-  
नाथका पुत्र ६५।३२  
अरिञ्जय-अरिन्दमपुरका राजा  
७०।३०  
अरिञ्जय-चित्रपुरका राजा  
६२।६७  
अरिञ्जय-कौशलदेशके साकेत-  
नगरका राजा ७२।२५  
अरिञ्जय-एक मुनि, जो रेणुका-  
के बड़े भाई थे । ६५.९३

अरिञ्जय-एक चारण ऋद्धिधारी  
मुनि ६२।३४८  
अरिञ्जय-द्वारविक्रमका सेवक  
७५।४८१  
अरिन्दम-साकेतके राजा अरि-  
ञ्जयका पुत्र ७२।२८  
अरिन्दम-एक मुनि, जिन्होंने  
एक माहके उपवास किये थे  
५४।१२०  
अरिष्ट-एक असुर ७०।४२७  
अरिष्टसेन-आगामी बारहवाँ  
चक्रवर्ती ७६।४८४  
अरिष्टसेन-भगवान् धर्मनाथका  
प्रमुख गणधर ६१।४४  
अर्ककीर्ति-राजा चन्द्राभ और  
रानी सुभद्राका पुत्र ७४।१३५  
अर्ककीर्ति-ज्वलनजटी और  
वायुवेगाका पुत्र ६२।४३  
अर्कतेजस्-अमिततेजका पुत्र  
६२।४०८  
अर्थस्वामिनी-नागदत्तकी छोटी  
बहिन ७५।९७  
अर्हदत्त-घनदत्त और नन्दयशा-  
का पुत्र ७०।१८५  
अर्हदास-धर्मप्रिय और गुणदेवी-  
का पुत्र ७६।१२४  
अर्हदास-घनदत्त और नन्दयशा-  
का पुत्र ७०।१८५  
अर्हदास-जम्बूद्वीपके पश्चिम-  
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी सुगन्धिल-  
देशके सिंहपुर नगरका राजा  
७०.४  
अर्हदास-राजगृहीका एक सेठ-  
जम्बूस्वामीका पिता ७६।३६  
अर्हदास-हस्तिनापुरका राजा  
७२।३८  
अर्हदास-घातकीखण्डके पश्चिम  
विदेह सम्बन्धी गन्धिल देशकी  
अयोध्यानगरीका राजा  
५९।२७७



उत्तरकुरु-भगवान् नेमिनाथकी  
पालकी ६९।५३

उदङ्ग-आगामी तृतीय तीर्थकर  
का जीव ७६।४७१

उदङ्ग-आगामी खाठवें तीर्थकर  
७६।४७८

उदयन-कच्छदेशके रोहक नगर  
का राजा ७५।१२

उद्व-मादव पक्षका एक राजा  
७१।८३

उपेन्द्र-राजा चेटकका पुत्र  
७५।४

उपेन्द्रसेन-रत्नपुरके राजा  
श्रीषेणका पुत्र ६२।३४१

उपेन्द्रसेन-इन्द्रसेनका भाई  
६२।३५३

उपेन्द्रसेन-इन्द्रपुरके राजा  
६५।१७९

उषा-सद्वकी स्त्री ७४।३३७

उषा-द्वारावतीके राजा ब्रह्मकी  
दूसरी स्त्री ५८।८४

[ ऋ ]

ऋजुमति-एक चारण ऋद्धि-  
घारी मुनि ७६।३५१

[ ऐ ]

ऐरा-अजितजय राजा और  
अजितारानीकी पुत्री। यही  
राजा विद्वसेनकी स्त्री और  
भगवान् शान्तिनाथकी माता  
हुई-६३।३८५

ऐरा-भोजपुरके राजा पथनाभ-  
की स्त्री ६७।६४

[ क ]

कनक-आगामी पहला कुलकर  
७६।४६३

कनकचित्रा-अश्वश्रीवकी स्त्री  
६२।६०

कनकचित्रा-रत्नसंचय नगरके  
राजा सेमंकरकी स्त्री ६३।३८

कनकचूल-एक व्यन्तर देव  
६३।१८६

कनकतेजस् - राजपुरका एक  
वैश्य ७५।४५२

कनकध्वज-आगामी चौथा  
कुलकर ७६।४६४

कनकपाद्-आगामी द्वितीयके  
तीर्थकरका जीव ७६।४७४

कनकपुङ्ग - शिवमन्दिरनगरके  
राजा दमितारिके पिता

कीतिघरके पिता ६२।४८८

कनकपुङ्ग-कनकप्रभ नगरका  
राजा ७४।२२२

कनकपुङ्गव-आगामी पाँचवाँ  
कुलकर ७६।४६४

कनकप्रभ-रत्नसंचय नगरका  
राजा ५४।१३०

कनकप्रभ-आगामी दूसरा कुल-  
कर ७६।४६३

कनकमाला-राजा कनकप्रभकी  
स्त्री ५४।१३०

कनकमाला-मेघवाहन और  
विमलाकी पुत्री ६३।११७

कनकमाला-चन्द्रपुरके राजा  
महेन्द्र और अनुन्दरीकी पुत्री  
७१।४०६

कनकमाला-अमलकण्ठ नगरके  
राजा कनकरथकी स्त्री ७२।४१

कनकमाला-कनकपुरके राजा  
कनकपुङ्गकी स्त्री ७४।२२२

कनकमाला-राजगृहीके कुबेरदत्त  
सेठकी स्त्री ७६।४७

कनकमालिका-श्रीतशोकपुरके  
राजा चक्रध्वजकी स्त्री  
६२।३६५

कनकरथ-अश्वपुरका राजा  
६२।६७

कनकरथ-अमलकण्ठ नगरका  
राजा ७२।४१

कनकराज-आगामी तीसरा कुल-  
कर ७६।४६४

कनकलता-चक्रध्वज और कनक  
मालिकाकी पुत्री ६२।३६५

कनकलता-चम्पापुरके राजा  
श्रीषेण और वनश्रीकी पुत्री-

सोमालिका जीव ७५।८३

कनकवती-कनकोज्ज्वलकी स्त्री  
७४।२२३

कनकोज्ज्वल-राजा कनकपुङ्ग  
और रानी कनकमालाका पुत्र

७४।२२२

कनकोज्ज्वल-भगवान् महावीर-  
का पूर्वभवका जीव ७६।५४१

कनकशान्त-राजा सहस्रायुध  
और रानी श्रीषेणका पुत्र

६३।४६

कनकशान्ति-एक राजा ६३।११

कनकशान्ति-एक मुनि ६३।१२

कनकश्री-राजा दमितारिकी पु-  
त्री ६२।४६५

कनकश्री-राजगृहीके कुबेरदत्त  
सेठ और कनकमालाकी पुत्री

७६।६४

कटप्र-आगामी पञ्चमतीर्थकर-  
का जीव ७६।४७२

कपिल-धरणीजट ब्राह्मणका  
दासीपुत्र २६।३२६

कपिल-साकेत का एक ब्राह्मण  
७४।६८

कपिलक-कपिल का नाम  
( नीच कपिल ) ६२।३४३

कपिल्ल-हस्तिनापुर का एक  
ब्राह्मण ७०।१६१

कमठ-विश्वभूति और अनुन्दरी  
का पुत्र ७३।९

कमला-चित्रमति मन्त्री की  
स्त्री ५९।२५५

कमला-भद्रिलपुर के भूतिधर्मा  
ब्राह्मण की स्त्री ७१।३०४

कमला-राजपुर के सागरदत्त  
सेठ की स्त्री ७५।५८७

कमलोदर-कृष्ण ७१३७५  
 कलिङ्ग-कलिङ्ग का राजा,  
 क्षरासंघ के पक्ष का ७१८०  
 कलिन्दसेना-जरासन्धकी स्त्री  
 ७०३५४  
 कर्ण-पाण्डु और कुन्ती के  
 प्रचन्द्र संगम से उत्पन्न पुत्र  
 ७०११०  
 कर्ण-जरासन्ध के पक्ष का एक  
 राजा ७११७७  
 कंस-वशिष्ठ शापस का जीव,  
 मयुर के राजा उग्रसेन और  
 पद्मावती का पुत्र ७०३४७  
 कंसारि-कृष्ण ७१४१३  
 कंसाय-न्यारह बच्चों के जान-  
 कार एक मुनि ७६५२५  
 काकजल-एक चाण्डाल जो  
 धमिनीभूति, वायुभूतिके पिता  
 सोमदेव ब्राह्मणका जीव था  
 ७२३१  
 काञ्चनमाला-मेघकूटनगर के  
 राजा कालसंवरकी स्त्री  
 ७२५५  
 काञ्चनलता-महाबलकी स्त्री  
 ७५१९८  
 काञ्चनलता-महाबलकी स्त्री  
 ७५११८  
 काञ्चना-मनोरमाकी दासी  
 ६३१५२  
 कात्यायनी-भगवान् नेमिनाथके  
 संघ की प्रमुख धार्मिका  
 ७११२६  
 कान्तधन-जरासंघ का एक  
 पुत्र ७१११  
 काम-प्रद्युम्न ७२११२  
 कामधेनु-एक विद्या का नाम  
 ६५१९  
 कामरूपिणी-प्रद्युम्न की एक  
 जैषठी ७२११६  
 काल-भल्लकी नामक पल्लिका  
 एक मील ७१३१०

कालक-उल्कामुखी में रहनेवाला  
 एक भीतोका राजा ७०११५  
 कालक-एक मील, जिसे चन्दमा  
 ने धपने वायुषण दिये थे।  
 ७५४६  
 कालिका-पुरवा मील की स्त्री  
 ७४१६  
 कालकूट-मीलों का स्वामी  
 ७५१२७  
 कालमेघ-रावण का हाथी  
 ६८५४०  
 कालसंवर-मेघकूटनगर का  
 राजा, एक विद्याधर ७२५५  
 कालसौकरिक-राजगृह का वासी  
 एक पुरुष ७४४५५  
 कालाङ्गारिक-काष्ठाङ्गारिक का  
 पुत्र ७५१२९२  
 कालिङ्गी-पूरिताथीच्छ की स्त्री  
 ७०१९९  
 काश्यपा-हस्तिनापुर के राजा  
 षष्ठ्यास की स्त्री ७२३९  
 काष्ठाङ्गारिक-राजा सत्यन्धर का  
 मन्त्री ७५१९०  
 किन्नरमित्र-श्रीचन्द्रा का भाई  
 ७५४९१  
 कीचक-मुजङ्गशैल नगरी के  
 राजपुत्र ७२११५  
 कीर्ति-एक देवी ६३२००  
 कीर्तिधर-राजा दमितारि का  
 पिता ६२४८९  
 कुक्कुटसर्प-श्रीभूति सत्यघोष  
 का जीव ५९१२१७  
 कुणिक-राजा श्रेणिकका पिता  
 ७४४१८  
 कुणिक-राजा श्रेणिक का  
 चेलिनी रानी से उत्पन्न पुत्र  
 ७६४१  
 कुनाल-भगवान् धामिनाथ का  
 मुख्य प्रवक्तृता ७६५३१  
 कुन्ती-बन्धकवृष्टि और सुमद्रा  
 की पुत्री ७०१९७

कुन्धु-भगवान् श्रेयांसनाथ के  
 प्रथम गणधर ५७५४  
 कुन्धु-सत्रहवें तीर्थंकर ६४१२  
 कुवेर-रत्नपुर का एक सेठ  
 ६७१९३  
 कुवेरदत्त-सागरदत्त और प्रभा-  
 करी का पुत्र ७६१२१८  
 कुवेरदत्त-राजगृही का एक सेठ  
 ७६१४७  
 कुवेरदत्त-रत्नपुर नगर के  
 कुवेर सेठ की पुत्री ६७१५४  
 कुमार-राजा श्रेणिक का पुत्र  
 क्षम्यकुमार ७५१२४  
 कुमारदत्त-राजपुर का एक सेठ  
 ७५३३१  
 कुसुद-एक विद्याधर ६८३९०  
 कुम्भ-सिंहपुर नगर का स्वामी  
 ६२१२०५  
 कुम्भ-मिथिला के राजा—  
 भगवान् मल्लिनाथ के पिता  
 ६६१२०  
 कुम्भ-रावणके पक्षका एक  
 विद्याधर ६८४३०  
 कुम्भार्य-भगवान् धरनाथका  
 प्रमुख गणधर ६५३९  
 कुरङ्ग-एक मील-कमठका जीव  
 ७३३७  
 कुर्यवर-दुर्योधनका भानेज  
 ७२१२६८  
 कुलपुत्र-यागामी सातवें तीर्थ-  
 कर ७६४७८  
 कुलवाणिज-एक वैश्य ७५११०५  
 कुशलमति-राजा जनक का  
 सेनापति ६७१६९  
 कुसुमचित्रा-कृष्णकी समा  
 ७११४१  
 कुसुमश्री-राजपुरके पुरुषदन्त  
 मालाकारकी स्त्री ७५१२८  
 कुल-कुलनामका राजा, भगवान्  
 महावीरकी सर्वप्रथम ब्याहार  
 देनेवाला ७४३१९



कुतवर्मा—काम्पिल्यनगरके राजा-  
 भगवान् विमलनाथके पिता  
 ५९।१५  
 कुतवीराधिप—राजा सहस्रबाहु  
 और चित्रमतिक्रम पुत्र ६५।५८  
 कृप—जरासंधके पक्षका एक  
 राजा ७१।७८  
 कृपवर्मा—जरासंधके पक्षका एक  
 राजा ७१।७८  
 कृष्णाचार्य—इस नामके गुरु  
 ६१।६२  
 केशव—नारायण ५९।६३  
 केशव—लक्ष्मण ६८।६३१  
 केशव—श्रीकृष्ण ७१।७६  
 केशवती—वाराणसीके राजा  
 अग्निशिखकी स्त्री, दत्तकी  
 माता ६६।१०७  
 केसरिविक्रम—सुरकान्तर नगर-  
 का राजा—एक विद्याधर  
 ६६।११६  
 कैकेयी—वाराणसीके राजा  
 दशरथकी स्त्री ६७।१५०  
 कौन्तेय—युधिष्ठिर, भीम और  
 अर्जुन ये तीव पाण्डव  
 ७२।२७०  
 कौमुदी—लक्ष्मणकी गदा  
 ६८।६७३  
 कौरवनाथ—दुर्योधन ७२।२६८  
 कौशिक—एक तापस ६२।३८०  
 कौशिकी—मन्दिरग्रामके गीतम  
 ब्राह्मणकी स्त्री ७४।७७  
 कौस्तुभ—दक्षमणकी मणि  
 ६८।६७६  
 क्रीडव—हस्तिनापुरके राजा  
 अर्हदास और रानी काश्यपी-  
 का पुत्र—वायुसूक्तिका जीव  
 ७२।३९  
 क्षत्रिय—आगामी षष्ठ तीर्थकर  
 का जीव ७६।४७२  
 क्षत्रियान्तक—दशपूर्वके धारक  
 एक मुनि ७६।५२१

क्षान्ति—एक आर्यिका ७२।२४९  
 क्षीरकदम्ब—स्वस्तिकावतीका  
 एक अध्यापक ६७।२५८  
 क्षेमंकर—मङ्गलावती देशके  
 रत्नसंचय नगरका राजा  
 ६३।३८  
 क्षेमङ्कर—एक तीर्थकर ६३।११२  
 क्षेमङ्कर—विदेह क्षेत्रके एक  
 तीर्थकर ७३।३४  
 क्षेमङ्कर—एक तीर्थकर ७४।२३८  
 क्षेमसुन्दरी—सुभद्रसेठ और  
 निवृत्ति सेठानीकी पुत्री  
 ७५।४११  
 खदिरसार—एक भील, राजा  
 श्रेणिकके तृतीय पूर्वभवका  
 जीव ७४।३९०  
 खर—रावणके पक्षका एक विद्या-  
 धर ६८।४३१  
 खरदूषण—रावणके पक्षका एक  
 विद्याधर ६८।४३१  
 [ ग ]  
 गगनचन्द्र—गगनवल्लभ नगरका  
 राजा ७०।३९  
 गगनचर—चन्द्रचूल और मनोहरी  
 का पुत्र ७१।२५२  
 गगननन्दन—चन्द्रचूल और  
 मनोहरीका पुत्र ७१।२५२  
 गगनसुन्दरी—गगनवल्लभ नगर  
 के राजा गगनचन्द्रकी स्त्री  
 ७०।४०  
 गङ्ग—गङ्गदेव और मन्दयशाका  
 पुत्र ७१।२६२  
 गङ्गदेव—हस्तिनापुरका राजा  
 ७१।२६२  
 गङ्गदेव—गङ्गदेव और मन्दयशा-  
 का पुत्र ७१।२६२  
 गङ्गदेव—दशपूर्वके धारक एक  
 मुनि ७६।५२२  
 गङ्गमित्र—राजा गङ्गदेव और  
 रानी मन्दयशाका पुत्र  
 ७१।२६२

गणबद्ध—एक प्रकारके देव  
 ६७।७६  
 गन्धमित्र—साकेतपुरका राजा  
 ५९।२६६  
 गन्धर्वदत्ता—एक कन्या जो  
 वसुदेवको विवाही जावेगी  
 ७०।२६६  
 गन्धर्वदत्ता—राजा गरुडवेग और  
 रानी धारिणीकी पुत्री  
 ७५।३०४  
 गन्धोक्कट—राजपुरका एक सेठ  
 ७५।१९८  
 गरुडध्वज—चन्द्रचूल और मनो-  
 हरीका पुत्र ७१।२५१  
 गरुडवाहन—चन्द्रचूल और मनो-  
 हरीका पुत्र ७१।२५१  
 गरुडवेग—कचकपुरका राजा  
 ६३।१६५  
 गरुडवेग—विजयार्थके गगनवल्लभ  
 नगरका राजा ७५।३०२  
 गान्धारी—नरद्वष्टि और पचा-  
 वतीकी पुत्री ७०।१०१  
 गान्धारी—शृङ्गाराङ्गीकी स्त्री  
 ७०।११७  
 गान्धारी—कृष्णकी एक पट्टरानी  
 ७१।१२६  
 गान्धारी—पुरुकलावती नगरके  
 राजा हृद्रगिरि और रानी  
 मेरुमतीकी पुत्री, कृष्णकी पट्ट-  
 रानी ७१।४२६  
 गुणकान्ता—रत्नपुरके राजा  
 प्रजापतिकी स्त्री ६७।९१  
 गुणदेवी—धर्मप्रिय सेठकी स्त्री  
 ७६।१२४  
 गुणपाल—एक मुनि ७५।३१९  
 गुणप्रभ—एक तीर्थकर ५४।१२२  
 गुणमद्र—एक चारण मुनि  
 ७०।३२४  
 गुणमद्र भदन्त—उत्तरपुराणके  
 कर्ता ५७।६७

गुणमञ्जरी-कनकपुरके राजा  
सुपेणकी नर्तकी ५८।६१  
गुणमाला-कुमारदत्त वैश्य और  
विमलाकी पुत्री ७५।३५१  
गुणमित्र-जीवन्धरका एक साला  
७५।४२९  
गुणमित्र-राजपुरके एक खोहरी-  
का पुत्र ७५।४५४  
गुणवती-एक धारिका ५९।२३२  
गुणवती-एक धारिका ७२।२२६  
गृहदन्त-जागामी चौथा चक्र-  
वर्ती ७६।४८२  
गोतम-शुभावषण तापस और  
विशालाका पुत्र सुवत्तका जीव  
७०।१४२  
गोतम-हस्तिवापुरके कपिष्ठल  
ब्राह्मण और अनुन्धरी ब्राह्मणी  
का पुत्र-रुद्रदत्तका जीव  
७०।१३१  
गोदावरी-गोपेन्द्र और गोपश्री  
की पुत्री ७५।२९१  
गोपश्री-राजपुरके गोपेन्द्रकी  
स्त्री ७५।२९१  
गोपेन्द्र-राजपुरका एक गोपो-  
का राजा ७५।२९१  
गोपेन्द्र-विदेह देशके विदेह नगर  
का राजा ७५।६४४  
गोवर्द्धन-एक मुनि ६३।१८४  
गोवर्द्धन-एक श्रुतकेवली  
७६।५१९  
गौतम-मन्दिर शिवका एक  
ब्राह्मण ७४।७७  
गौतमी-सूतिकाग्राम निवासी  
अग्निभूति ब्राह्मणकी स्त्री  
७४।७४  
गौरी-कृष्णकी एक पट्टरानी  
७१।१२६  
गौरी-वीतशोकपुरके राजा मेघ-  
चन्द्र और रानी चन्द्रापतीकी  
पुत्री-कृष्णकी पट्टरानी  
७१।४४०

[ घ ]

घनतुण्ड-प्रियमित्राकी खेटी  
सुपेणाका मुर्गा ६३।१५०  
घनरथ-महापुरके राजा वासु-  
रथका पुत्र ५८।८१  
घनरथ-हेमाङ्गद और मेघ-  
मालिनीका पुत्र ६३।१८१  
घनरथ-पृष्ठरीकिया जगरीका  
राजा ६३।१४३  
घोषा-एक घोषा ७०.२९५  
घोषार्या-भगवान् पुष्पदन्तके संघ  
की प्रमुख धारिका ५५।५६  
घोषावती-एक धीणा ७०।२९६

[ च ]

चक्रधर-कृष्ण ७२।१६८  
चक्रधर-जागामी तीसरा दल-  
भद्र ७६।४८५  
चक्रध्वज-वीतशोकपुरका राजा  
६२।३६४  
चक्रनाथ-कृष्ण ७१।१४२  
चक्रायुध-चक्रपुरके राजा अण-  
राजित और इनकी सुन्दरी  
रानीका पुत्र-सिंहचन्द्रका  
जीव ५९।२३९  
चक्रायुध-विवस्वैन और यश-  
स्वतीका पुत्र ६३।४१३  
चक्री-कृष्ण ७१।४१३  
चञ्जलान्पित्तिका-सुवर्णतिलका  
की दासी ६३।१७२  
चण्डकौशिक-कुम्भकारकट नगर-  
का एक ब्राह्मण ६२।२१३  
चण्डदण्ड-काष्ठाङ्गारिकका  
मुख्य नगर रक्षक ७५।३७७  
चतुर्मुख-पटनाके राजा शिशु-  
पाल और रानी पृथिवी-  
सुन्दरीका पुत्र जो कल्कि नाम  
से प्रसिद्ध हुआ ७६।३९९  
चन्दन-पद्मगुलम राजाका पुत्र  
५६।१५  
चन्दना-राजा चेटककी छोटी  
पुत्री ७४।३३८

चन्दनार्या-भगवान् महावीरके  
संघकी प्रमुख धारिका ७५।२  
चन्द्र-सोम तापस और श्रीदत्ता  
तापसीका पुत्र ६३।२६६  
चन्द्र-जागामी पहला बलभद्र  
७६।४८५  
चन्द्रकीर्ति-चम्पापुरका राजा  
७०।८४  
चन्द्रचूल-रत्नपुरके राजा प्रजा-  
पति और रानी गुणकान्ता-  
का पुत्र ६७।९१  
चन्द्रचूल-एक मुनि ६७।१४५  
चन्द्रचूल-मिथ्यालोक नगरका  
राजा ७१।२५०  
चन्द्रतिलक-कनकपुरके राजा  
गदहवैग और रानी धृतिवेशा-  
का पुत्र ६३।१६६  
चन्द्रदत्त-पोदनपुरका एक राधा  
७२।२०४  
चन्द्रप्रभ-अष्टम तीर्थकर ५४।१  
चन्द्रप्रभा-भगवान् महावीरकी  
पालकी ७४।२९९  
चन्द्रमाला-राजपुरके कनकतेजा  
वैश्यकी स्त्री ७५।४५२  
चन्द्रवती-चन्द्रमाकी एक देवी  
७१।४१८  
चन्द्रवती-वीतशोकपुरके राजा  
मेघचन्द्रकी स्त्री ७१।४३९  
चन्द्राचार्य-एक मुनि ७६।४३२  
चन्द्रानना-सोमशर्माकी पुत्री  
६२।१९२  
चन्द्रांश-द्युतिलक नगरका राजा  
६२।३६  
चन्द्राश-राजपुरके निवासी  
वनदत्त और नन्दिनीका पुत्र  
७५।५२९  
चन्द्राश-द्युतिलकपुरका राजा  
७४।१३४  
चन्द्रोदय-सुरमञ्जरीका चूर्ण  
७५।३४९

चपलगति—सूर्यप्रभपुरके राजा  
सूर्यप्रभ और रानी धारिणीका  
पुत्र ७०।२९

चपलवेग—विद्याधरका एक  
राजा ६२।३८१

चपलवेग—एक विद्याधर ६८।६  
चपलवेगा—कौशिक तापसकी  
स्त्री ६२।३८०

चमर—श्रीभूति—सत्यवोध मन्त्री-  
का जीव ५९।१९६

चमर—असुरकुमारोके हृद्र  
७।१४२

चमर—यादव पक्षका एक राजा  
७।१७५

चाणूर—कंसका प्रमुख मल्ल  
९०।४८६

चाणूरान्त—कृष्ण ७।१२७

चारदत्त—एक प्रसिद्ध पुरुष  
७०।२६९

चारुपाद—आगामी तेईसवें तीर्थ-  
करका जीव ७६।४७४

चारुवेण—भगवान् संभवनाथके  
१०५ गणधरोमें प्रमुख गणधर  
४९।४३

चित्रगुप्त—आगामी सत्रहवें तीर्थ-  
कर ७६।४७९

चित्रचूल—किलरगीत नगरका  
राजा ६३।९३

चित्रचूल—एक विद्याधर—वसन्त  
सेनाका भाई ६३।१२८

चित्रमति—छत्रपुरके राजा प्रीति-  
भद्रका मन्त्री ५९।२५५

चित्रगति—साकेतके राजा सहज-  
बाहुकी स्त्री ६५।५७

चित्रमाला—राजा अपराधितकी  
दूसरी स्त्री ५९।२४०

चित्ररथ—गिरिनगरका राजा  
७।२७१

चित्रवर्ण—प्रद्युम्नका धनुष  
७२।११६

चित्रसेन—हरिविक्रमका सेवक  
७५।४८०

चित्रसेना—अग्निमित्र ब्राह्मणकी  
वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न पुत्री  
७५।७२

चित्रा—भगवान् नेमिनाथकी  
पालकी ७।११६०

चित्राङ्गद—सौधर्म स्वर्गका एक  
देव—वीरदत्त सेठका जीव  
७०।७२

चित्राङ्गद—नित्यालोक नगरके  
राजा चन्द्रचूल और रानी  
मनोहरीका ज्येष्ठ पुत्र—वज्र-  
मुष्टिका जीव ७।१२५०

चित्राङ्गददेव—सौधर्म स्वर्गका  
देव—सुप्रतिष्ठका जीव  
७०।१३८

चिन्तागति—अश्वश्रीवका दूत  
६२।१२४

चिन्तागति—सूर्यप्रभपुरके राजा  
सूर्यप्रभ और रानी धारिणीका  
पुत्र ७०।२८

चूडादेवी—ब्रह्मादत्त चक्रवर्तीकी  
माता ७२।२८८

चेटक—वैशालीका राजा ७५।३  
वेलिनी—राजा चेटककी पुत्री  
७५।७

वेलिनी—राजा श्रेणिककी स्त्री  
७६।४१

चेल्लकेतन—राजा लोकादित्यका  
पिता । प्रशस्ति ३३

चेल्लध्वज—राजा लोकादित्यका  
भग्न । प्रशस्ति ३३

[ ज ]

जगन्नन्दन—एक चारणऋद्धिवारी  
मुनि ६२।५०

जगन्नन्दन—एक मुनि जिनके पास  
ज्वलननदीने दीक्षा ली थी  
६२।१४८

जगन्नाथ—भगवान् नेमिनाथ  
७२।१९३

जटिल—कपिल ब्राह्मण का  
उसकी स्त्री कालीका  
७४।६८

जटिल—भगवान् महावीरका  
भवका जीव ७६।५३४

जनक—मिथिलाके राजा ६७।  
जनकाल्यजा—सीता ६८।१६६  
जमदग्नि—शतबिन्दु और श्रीम  
का पुत्र ६५।६०

जम्बूवेणा—जम्बूवनगरके जाम्  
राजाकी स्त्री ७।१३६९

जम्बू—रत्नपुरके सत्यक ब्राह्म  
की स्त्री ६२।३२९

जम्बू—अग्निम कैवली ७६।३७  
जम्बूस्वामी—अग्निम कैवली  
७६।५१८

जय—नन्दनपुरके राजा, जिस  
भगवान् विमलनाथको प्रथ  
आहार दिया था ५९।४२

जय—यादव पक्षका एक रा  
७।१७३

जय—दशपुर्वके धारक एक मु  
७६।५२२

जयकीर्ति—आगामी दशवें ती  
कर ७६।४७८

जयगिति—जीवन्धरका एक हा  
७५।३४१

जयगुप्त—एक निमित्तज्ञानी  
६२।९८

जयगुप्त—पीदनपुरके नि  
ज्ञानी ६२।२५३

जयदेवी—राजा कनकपुत्र  
रानी ६२।४८८

जयदेवी—मन्दारनगरके राजा  
बाहुकी स्त्री ६३।१७७

जयद्रथ—जरासंधके पक्षका ए  
राजा ७।१७८

जयद्रथ—राजा जयन्धर की  
रानी जयावतीका पुत्र जीव  
न्धरका पूर्वभवका जीव  
७५।५३४

जयन्त-वीतशोकनगरके राजा  
वैजयन्तका पुत्र ५९।११०  
जयन्त-अभयघोष और सुवर्ण-  
तिलकाका पुत्र ६३।१६९  
जयन्त-भगवन् मल्लिनाथकी  
पालकी ६६।४६  
जयन्धर-घातकीषण्ड द्वीपके  
पूर्वमेरुसे पूर्व दिशामे स्थित  
विदेह क्षेत्रसम्बन्धी पुष्कला-  
वती देशकी पुण्डरीकिणी  
नगरीका राजा ७५।५३४  
जयपाल-न्यारह अङ्गके जान-  
कार एक मुनि ७६।५२४  
जयरामा-काकन्दीके राजा  
सुग्रीवकी स्त्री भगवान् पुष्पदन्त-  
की माता ५५।२४  
जयवती-राजा जयन्धरकी स्त्री  
७५।५३९  
जयश्यामा-काम्पित्यनगरके  
राजा कृतवर्माकी रानी—  
भगवान् विमलनाथकी माता  
६९।१५  
जयसेन-विदेहक्षेत्रके वत्सकावती  
देशसम्बन्धी पृथिवीनगरका  
राजा ४८।५९  
जयसेन-कौशाम्बीके राजा  
विश्रय और रानी प्रभाकरकी  
पुत्र ६९।८०  
जयसेन-साकेत—अयोध्याका  
राजा ७३।१२०  
जयसेन-सुप्रतिष्ठतपुरका राजा  
७६।११७  
जयसेना-विदेहक्षेत्रके वत्सकावती  
देशसम्बन्धी पृथिवीनगरके  
राजा जयसेनकी रानी ४८।५९  
जयसेना-प्रभाकरपुरीके राजा  
नन्दनकी स्त्री ६२।७६  
जयसेना-समुद्रसेनकी स्त्री  
६३।११८  
जयावती-पोवनपुरके राजा  
प्रजापतिकी स्त्री ५७।८६

जयावती-राजा वसुपुज्यकी  
स्त्री—भगवान् वासुपुज्यकी  
माता ५८।१८  
जयावती-राजा उग्रसेनकी स्त्री—  
राजीमतिकी माता ७१।१४५  
जयावती-विजयमतिकी स्त्री  
७५।२५८  
जररुकुमार-कृष्णका 'एक भाई  
७२।१८१  
जरा-यादव पक्षका एक राजा  
७१।७४  
जरासन्ध-प्रतिनारायण  
७०।३३७  
जरासन्धारि-कृष्ण ७१।३४६  
जलधिलुता-हस्तिनापुरके राजा  
दुर्योधनकी सदधिक्रुमारी नाम-  
की पुत्री ७२।१३४  
जलमन्थन-अग्निम कल्कि  
७६।४३१  
जातिमट-राजपुरके पुष्पदन्त  
मालाकारका पुत्र ७५।५२८  
जानकी-सीता ६८।४४३  
जाम्बव-जाम्बवनगरका राजा  
७१।३६८  
जाम्बवती-कृष्णकी एक पट्टरानी  
७१।१२६  
जाम्बवती-राजा जाम्बव और  
रानी जम्बुवेयाकी पुत्री  
७१।३६९  
जितशत्रु-भरतक्षेत्रके साकेत-  
नगरका एक राजा—भगवान्  
अजितनाथके पिता ४८।१९  
जितशत्रु-भगवान् अजितनाथके  
पिता ४८।२३  
जितशत्रु-राजा अजितसेनका  
पुत्र ५४।१२३  
जितशत्रु-बसुदेव और देवकी-  
का पुत्र ७१।२९६  
जिनदत्त-वनवत् और नन्दयशा  
का पुत्र ७०।१८५

जिनदत्त-वनदेव और अशोक-  
दत्ताका पुत्र ७२।२४५  
जिनदत्त-राजपुरके सेठ वृषभदत्त  
और सेठानी पचावतीका पुत्र  
७५।३१५  
जिनदत्ता-अयोध्याके राजा  
अर्हहासकी दूसरी स्त्री  
५९।२७८  
जिनदत्ता-सिंहपुरके राजा अर्ह-  
हासकी स्त्री ७०।५  
जिनदत्ता-एक धार्मिका  
७१।२०६  
जिनदत्ता-बन्धुयशाकी सखी—  
जिनदेवकी पुत्री ७१।३६५  
जिनदत्ता-दक्ष धार्मिका  
७१।३९५  
जिनदत्ता-वाराणसीके धनदेव  
वैश्यकी स्त्री ७६।३१९  
जिनदास-सिंहपुरका निवासी  
६३।२७२  
जिनदासी-राजगृहीके अर्हहास  
सेठकी स्त्री—जम्बूस्वामीकी  
माता ७६।३७  
जिनदेव-धनदेव और नन्दयशा  
का पुत्र ७०।१८५  
जिनदेव-एक मुनि ७१।३६२  
जिनदेव-जिनदत्ताका पिता  
७१।३६५  
जिनदेव-धनदेव और अशोक-  
दत्ताका पुत्र ७२।२४५  
जिनपाल-वनदत्त और नन्दयशा  
का पुत्र ७०।१८५  
जिनमसिखान्ति-एक धार्मिका  
७१।४३८  
जिनसेन-महापुराणके कर्ता  
५७।६७  
जिनसेन-गुणभद्राचार्यके गुरु  
७४।७  
जिनसेन-आचार्य गुणभद्रके गुरु  
७६।५२८

जीवधरा—हरासंघ और कलि-  
न्दसेनाकी पुत्री ७०।३५४  
जीवन्धर—एक मुनिराज  
७५।१८४  
जीवन्धर—राजा सत्यन्धर और  
विजया रानीका पुत्र ७५।२५०  
जैनी—राजगृहनगरके विध्वंसति-  
की स्त्री ५७।७२  
ज्येष्ठा—धनदत्त और नन्दयशाका  
पुत्र ७०।१८६  
ज्येष्ठा—राजा चेटककी पुत्री ५७।७  
ज्योतिर्माला—मेघवाहन और  
मेघमालिनीकी पुत्री ६२।७२  
ज्योतिर्माला—विद्युत्प्रभकी बहन  
६२।८०  
ज्योतिर्माला—राजा पुरुबलकी  
स्त्री ७१।३११  
ज्योतिष्प्रभ—राजा कालसंवरके  
विद्युद्वंष्ट्र आदि पाँच सौ  
पुत्रोंमें सबसे छोटा पुत्र  
७२।१२६  
ज्योतिःप्रभा—त्रिपुष्टनारायण  
और स्वयंप्रभाकी स्त्री  
६२।१५३  
ज्वलनजटी—रथतूरचक्रवाल  
नगरका राजा ६२।३०

[ त ]

तक्षक—एक धिला ७२।५३  
ताम्रकर्ण—एक हाथी ६३।१५८  
ताम्रचूल्—एक व्यन्तरदेव  
६३।१८६  
तारक—भोगवर्धन नगरके राजा  
श्रीधरका पुत्र—यह विन्ध्य-  
शक्तिका जीव था जो अब  
प्रतिनारायण हुआ है ५८।१९१  
तिलकचन्द्रिका—श्रीचन्द्राकी  
सखी अलकमुन्दरीकी माता  
७५।४४४  
तिलोत्तमा—एक देवी ६३।१३६  
तिलोत्तमा—चन्द्राभनगरके राजा  
धनपतिकी स्त्री ७५।३९१

तृणपिङ्गल—पोदनपुरका राजा—  
सुयोधनकी स्त्री अतिथिका  
भाई ६७।२२४  
त्रिपुष्ट—पोदनपुरके राजा प्रजा-  
पति और रानी मृगावतीका  
पुत्र ६२।९०  
त्रिपुष्ट—आगामी आठवाँ  
नारायण ७६।४८९  
त्रिपुष्ट—भगवान् श्रेयान्सनाथका  
मुख्य प्रवचकर्ता ७६।५३०  
त्रिपुष्ट—भगवान् महावीर स्वामी  
के पूर्वभवका जीव ७६।५३९  
त्रिलालिका—एक नर्तकी ६२।४२९

[ द ]

दण्डगर्भ—दस नामका मधुक्रीड-  
का प्रधान मन्त्री ६१।७६  
दत्त—भगवान् चन्द्रप्रभका प्रमुख  
गणेश ५४।२४४  
दमक—वीतशोकपुरका एक सेठ  
७१।३६२  
दमवर—एक मुनि ६२।४०२  
दमवर—एक चारण ऋद्धिधारी  
मुनि ६३।६  
दमवर—चारण ऋद्धिधारी एक  
मुनि ६३।२८०  
दमवर—एक मुनि ७०।३६  
दमितारि—शिवमन्दिर नगरका  
राजा ६२।४३४  
दशक—अलका नगरीका एक  
राजा विद्याधर ५९।२२९  
दध—यादव पक्षका एक राजा  
७१।७३  
दशकन्धर—रावण ६८।४२५  
दशरथ—विदेहगत वरसदेशके  
सुसीमानगरका राजा—  
भगवान् धर्मनाथका तृतीय  
पूर्वभवका जीव ६१।३  
दशरथ—वाशपासीका राजा  
६७।१४८  
दशरथ—हेमकच्छका राजा  
७५।१०

दशानन—रावण—पुलस्त्य की  
मेघश्रीका पुत्र ६८।१२  
दशस्थ—रावण ६८।२  
दानवीर्य—भगवान् सुपावर्धना  
का मुख्य प्रवचकर्ता ७६।५३  
दान्तमति—एक आथिका ज  
रानी रामदत्ताकी संबोधने  
लिए सिंहपुर धायी थी  
५९।१९९  
दान्तमति—एक आथिका  
५९।२१२  
दारुक—सर्वसमृद्ध सेठका सेवक  
७६।१६८  
दारुण—छत्रपुरका एक व्याध  
५९।२७३  
दाह्यरथि—राम ६८।४२३  
दिवितिलक—कचकपुरके राज  
गरुडवेग और रानी घृतिषेण  
का पुत्र ६३।१६६  
दिग्बन्धु—साकेतका राजा  
५९।२०८  
दीपशिख—ज्योतिःप्रभनगरके  
राजा संभिन्न और उसका  
स्त्री कल्याणीका पुत्र ६२।२  
दीर्घदन्त—आगामी दुसरा  
चक्रवर्ती ७६।४८२  
दुर्जय—हरासंघके पक्षका ए  
राजा ७१।८०  
दुर्धर्षण—घृतराष्ट्र और गान्धारी  
का तृतीय पुत्र ७०।११७  
दुर्धर्षण—हरासंघके पक्षका एक  
राजा—कौरव ७१।७९  
दुर्मुख—रावणके पक्षका ए  
विद्याधर ६८।४३१  
दुर्मर्षण—हरासंघके पक्षका एक  
राजा—कौरव ७१।७९  
दुर्मर्षण—वृद्धग्रामका एक गृहस्थ  
७६।१५६  
दुर्धर्षण—घृतराष्ट्र और गान्धारी-  
का ज्येष्ठ पुत्र ७०।११७

दुःशासन-चूराष्ट्र और  
गान्धारीका द्वितीय पुत्र

७०।११७

दृढमाही-एक राजा ६५।६२

दृढमित्र-देवाभनगरका राजा  
७५।४२१

दृढमित्र-नगरक्षोभ नगरका  
राजा ७५।४३८

दृढप्रहार्य-दृढप्रहार - उज्जैनके  
राजा वृषभउज्जका एक ओटा  
७१।२१०

दृढरक्ष-नौटपालका पुत्र ७५।१०३

दृढरथ-भद्रपुरके राजा-भगवान्  
शीतलनाथके पिता ५६।२४

दृढरथ-पुण्डरीकिनी नगरीके राजा  
धनरथ और रानी अनोरमा-  
का पुत्र-सहस्रायुषका जीव  
६३।१४४

दृढरथ-भद्रिलपुरके राजा मेघ-  
रथ और रानी सुभद्राका पुत्र  
७०।१८३

दृढरथा-राजा द्रुपदकी स्त्री  
७२।१९८

दृढराज-श्रावस्तिके राजा-  
भगवान् संभवनाथके पिता  
४९।१४

दृढवर्मा-एक श्रावक ७६२०३  
देवकी-कानकी छोटी बहिन  
७०।३६९

देवकी-दशार्णपुरके राजा देव-  
सेनकी धनदेवी रानीसे उत्पन्न  
हुई पुत्री-नन्दयशका जीव  
७१।२९२

देवकुमार-सनत्कुमार चक्रवर्ती-  
का पुत्र ६१।११८

देवकुल-भगवान् नेमिनाथके  
ताप कल्याणकके समयकी  
पालकी ७१।१६९

देवकुल-एक मुनि ६२।४०३

देवकुल-एक चारण ऋद्धिधारी  
मुनि ७०।१३७

देवदत्त-वसुदेव और देवकीका  
पुत्र ७१।२९५

देवदत्त-प्रद्युम्नका नाम ७२।६०

देवदत्ता-भगवान् विमलनाथकी  
पालकी ५९।४०

देवपाल-धनदत्त और नन्दयशा-  
का पुत्र ७०।१८५

देवपाल-वसुदेव और देवकीका  
पुत्र ७१।२९५

देवपाल-आगामी तेईसवें तीर्थ-  
कर ७६।४८०

देवपुत्र-आगामी छठे तीर्थकर  
७६।४७८

देवमत्ति-वीतशोकपुरके दमक  
सेठकी स्त्री ७१।३६१

देवशर्मा-विजसेनाका पति  
७५।७३

देवसेन-नरवृष्टि और पद्मावती-  
का पुत्र ७०।१००

देवसेन-दशार्णपुरका राजा  
७१।२९२

देवसेन-विजयमति और जया-  
वतीका पुत्र ७५।२५८

देवसेना-शालिग्रामके निवासी  
यक्ष गृहस्थकी स्त्री ७१।३९०

देविला-शाल्लनगरका वैश्य  
६२।४९४

देविला-वीतशोक नगरके दमक  
सेठ और देवमत्ति सेठानीकी  
पुत्री ७१।३६१

देविला-शाल्लग्रामके विजय-  
देवकी स्त्री ७१।४४६

देविला-पोदनपुरके राजा चन्द्र-  
दत्तकी स्त्री ७२।२०४

द्रुपद-यादव पक्षका एक राजा  
७१।७४

द्रुपद-काम्पिल्या नगरीका राजा  
७२।१९८

द्रुमपेण-एक मुनि ७०।२०७

द्रुमसेन-एक अवधिसानी मुनि  
७१।२६८

द्रुमसेन-गगारह-खड्गके घारी  
एक मुनि ७६।५२५

द्रोण-नारासंधके पक्षका एक  
विशिष्ट पुरुष ७१।७७

द्रौपदी-राजा द्रुपद और रानी  
दृढरथकी पुत्री जो अर्जुनकी  
विवाही गयी ७२।१९८

द्विजट्टि-एक तापस ७२।४२

द्विष्टुष्ट-श्वलनस्तोकनगरके राजा  
ब्रह्मर्षी उषा नामक पत्नीसे  
उत्पन्न हुआ पुत्र। यह सुपेण-  
का जीव था। यह नारायण  
है ५८।८४

द्विष्टुष्ट-आगामी नौवां नारायण  
७६।४८९

द्वीपायन-एक मुनि ७२।१८०

द्वीपायन-आगामी बीसवें तीर्थ-  
करका जीव ७६।४७४

[ छ ]

घनञ्जय-महारत्नपुरका राजा  
६२।६८

घनञ्जय-हस्तिनापुरका राजा  
७०।१६०

घनञ्जय-मेघपुरका राजा  
७१।२५२

घनद-पुण्डरीकिणी नगरीके  
राजा महीपक्षका पुत्र ५५।१८

घनदत्त-भद्रिलपुरका एक सेठ  
७०।१८४

घनदत्त-राजा चेटकका पुत्र  
७५।४

घनदत्त-राजपुरका एक निवासी  
७५।५२८

घनदत्त ( रैदत्त )- राजगृहीका  
एक सेठ ७६।४८

घनदेव-उज्जयिनीका एक सेठ  
७५।६६

घनदेव-वाराणसीका निवासी  
एक वैश्य ७६।३१९

घनदेवी-दशार्णपुरके राजा देव-  
सेनकी स्त्री ७१।२९२

धनदेवी—चम्पापुरके सुबन्धुसेठ-  
की स्त्री ७२।२४३  
धनपति—क्षेमपुरके राजा नन्दि-  
षेणका पुत्र ५३।१२  
धनपति—क्षेमपुरका राजा ६५।३  
धनपति—धन्नाम नगरका राजा  
७५।३९१  
धनपाल—रत्नसञ्चयनगरके राजा  
महाबलका पुत्र ५०।१०  
धनपाल—धनदत्त और नन्दयथा-  
का पुत्र ७०।१८५  
धनपाल—राजपुरका एक श्रावक  
७५।२५८  
धनमद्र—राजा चेटकका पुत्र  
७५।४  
धनमित्र—रत्नपुरके राजा पद्मो-  
त्तरका पुत्र ५८।११  
धनमित्र—राजसेठ ५९।२२१  
धनमित्र—विन्ध्यपुरनगरका एक  
वणिक् ६३।१००  
धनमित्र—सागरसेन और अमित  
यतिका पुत्र ६३।२६४  
धनमित्र—जीवन्धरका एक साला  
७५।४३०  
धनमित्रा—उज्जयिनीके सेठ धन-  
देवकी स्त्री ७६।९६  
धनमित्रा—कुबेरदत्तकी स्त्री  
७६।२३७  
धनश्री—नन्दनपुरके राजा अमित  
विक्रम और रानी आनन्दमती  
की पुत्री ६३।१३  
धनश्री—मेषपुरके राजा धनञ्जय  
और रानी सर्वश्री की पुत्री  
७१।२५३  
धनश्री—अग्निभूति और अग्निला  
की पुत्री ७२।२३०  
धनश्री—चम्पापुरके राजा श्रीषेण  
की स्त्री ७५।८२  
धनश्री—राजगृहीके धनदत्त सेठ-  
की स्त्री ७६।४८  
धन्य—रत्नपुरका एक गाड़ी  
चलानेवाला ६३।१५७

धन्य—गुल्मसेठपुरका राजा  
७३।१३३  
धन्यषेण—पाटलिपुत्र का एक  
राजा—जिसके यहाँ भगवान्  
धर्मनाथका प्रथम आहार हुआ  
था ६१।४१  
धरण—कौशाम्बीके राजा—भग-  
वान् पद्मप्रभके पिता ५२।१८  
धरणीजट—मगध देशके अचल-  
ग्रामका एक ब्राह्मण ६२।३२५  
धरात्मजा—सीता ६८।३१२  
धरासुता—सीता ६८।२०७  
धर्म—भगवान् वासुपूज्यका प्रमुख  
गणधर ५८।४४  
धर्म—भगवान् विमलनाथके तीर्थमें  
होनेवाले एक बलभद्र ५९।६३  
धर्म—पद्महर्षे तीर्थकर धर्मनाथ  
६१।१  
धर्म—एक मुनिराज ७१।४५४  
धर्मज—युधिष्ठिर ७२।२६१  
धर्मपुत्र—पाण्डु और कुन्तीका  
ज्येष्ठ पुत्र जिसका दूसरा नाम  
युधिष्ठिर प्रचलित है ७०।११५  
धर्मप्रिय—राजगृहीका एक सेठ  
७६।१२४  
धर्ममित्र—जिसने भगवान् कुन्धु-  
नाथको प्रथम आहार दिया  
था ६४।४१  
धर्मवीर्य—भगवान् पद्मप्रभ का  
मुख्य प्रहकर्ता ७६।५३०  
धर्मरुचि—एक मुनि ५९।२५६  
धर्मरुचि—धनदत्त और नन्दगण-  
का पुत्र ७०।१८६  
धर्मरुचि—एक मुनि ७२।२३१  
धर्मरुचि—एक मुनि ७६।३  
धर्मशील—विनीता—अयोध्याके  
सुरेन्द्रदत्त सेठका दूसरा नाम  
७०।१५०  
धर्मसिंह—एक मुनि ७०।७३  
धर्मसेन—एक मुनि ७१।३९१

धर्मसेन—दशपूर्वके धारक एक  
मुनि ७६।५२३  
धर्मिल—एक ब्राह्मण जिसे राजा  
सिंहसेनने श्रीभूति—सत्यबोध  
का पद दिया था ५९।१८७  
धारण—अन्धकवृष्टि और सुभद्रा  
का पुत्र ७०।९६  
धारणा—भगवान् श्रेयांसनाथके  
संचकी प्रमुख आर्थिका ५७।५८  
धारिणी—सूर्यप्रभपुरके राजा सूर्य-  
प्रभकी स्त्री ७०।२८  
धारिणी—राजा सूरवीरकी स्त्री  
७०।९४  
धारिणी—राजा गरुडवेगकी स्त्री  
७५।३०३  
धारिणी—हरिबल की स्त्री  
७६।२६३  
धार्मिकी—कौशाम्बीके सुमति सेठ  
और सुभद्रा सेठानीकी पुत्री  
७१।४३७  
धूमकेतु—एक देव, राजा कनक-  
रथका जीव, जिसकी स्त्रीका  
अपहरण प्रद्युम्न ने मधु-  
पर्यायमें किया था ४२।४७  
धृतराष्ट्र—व्यास और सुभद्राका  
पुत्र ७०।१०३  
धृति—एक देवी ५४।१६९  
धृति—एक देवी ६३।२००  
धृतिषेण—पृथिवी नगरके राजा  
जयसेन और रानी जयसेनाका  
पुत्र ४८।५९  
धृतिषेण—मन्दरगिरिके दनमें  
स्थित एक धारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ६३।२०  
धृतिषेण—एक मुनि ६३।२४८  
धृतिषेण—सिंहपुरके राजा धार्म्य  
वर्माका पुत्र ७५।२८१  
धृतिषेण—दशपूर्वके धारक एक  
मुनि ७६।५२२  
धृतिषेणा—कनकपुरके राजा गरु-  
डवेगकी स्त्री ६३।१६५

धृतीश्वरा—स्तिमितसागरकी स्त्री  
७०।९८

धृष्टार्जुन—यादव पक्षका एक  
राजा ७१।७५

ध्रुवसेन—राजा शम्बर और  
श्रीमतीका पुत्र ७१।४०९

[ न ]

नकुल—पाण्डु और माद्रीका

ज्येष्ठ पुत्र ७०।११६

नकुल—वनदेवकी दूसरी स्त्रीका  
पुत्र ७५।११०

नक्षत्र—नगरह अङ्गके ज्ञाता  
एक मुनि ७६।५२४

नन्द—एक गोप जिसके यहाँ  
कृष्णका पालन हुआ ७०।३८९

नन्द—राजा गङ्गदेव और रानी

नन्द्यथाका पुत्र ७१।२६२

नन्द—राजा नन्दिवर्धन और

श्रीरक्षतीका पुत्र ७४।२४३

नन्द—एक यज्ञ जातिका देव  
७६।३१५

नन्द—भगवान् महावीरका पूर्व-  
भवका जीव ७६।५४३

नन्दक—प्रद्युम्नका खड्ग ७२।११६

नन्दन—वसुकावती देश स्थित  
प्रगाकरीपुरीका एक राजा  
६२।७५

नन्दन—एक मुनि ६२।४०९

नन्दन—सिद्धकुटुम्बे स्थित नन्दन  
नामक मुनिराज ६३।१३

नन्दन—नन्दपुरका राजा  
६३।३३४

नन्दन—आगामी नीचे तीर्थकर-  
का जीव ७६।४७२

नन्दभूपति—सिद्धार्थ नगरका

राजा, जिसने भगवान् श्रेयान्श-  
नाथको प्रथम आहार दास  
दिया था ५७।५०

नन्द्यशा—भद्रिलपुर नगरके

धनदत्त सेठकी स्त्री ७०।१८४

नन्द्यशा—हस्तिनापुरके राजा

गङ्गदेवकी स्त्री ७१।२६२

नन्द्यशा—श्वेतविकाके राजा

वासव और रानी वसुन्वरीकी

पुत्री—निरनुक्रम्यका जीव  
७१।२८३

नन्दा—विह्वपुरके राजा विष्णु-  
की स्त्री—भगवान् श्रेयान्श-  
नाथकी माता ५७।१८

नन्दा—भद्रिलपुरके राजा मेघ-  
रथकी स्त्री ७१।३०४

नन्दा—गन्धोत्कट वैश्यकी स्त्री  
७५।२४६

नन्दाख्य—गन्धोत्कट और

सुनन्दाका पुत्र ७५।२६१

नन्दिनी—राजपुरके निवासी

धनदत्तकी स्त्री ७५।५२८

नन्दिभूति—आगामी चौथा

नारायण ७६।४८८

नन्दिमित्र—अयोध्याका एक

गोपाल ६३।१६०

नन्दिमित्र—आगामी दूसरा

नारायण ७६।४८७

नन्दवर्द्धन—मेघरथ और प्रिय-  
मित्राका पुत्र ६३।१४८

नन्दिवर्धन—एक चारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ७१।४०३

नन्दिवर्धन—छत्राकारपुरका राजा  
७४।२४२

नन्दिपेण—सुकच्छ देशके क्षेम-  
पुर नगरका राजा ५३।२

नन्दिपेण—राजा गङ्गदेव और

रानी नन्द्यथाका पुत्र  
६३।२६३

नन्दिपेण—सागरसेन और

अमितगतिका पुत्र ६३।२६४

नन्दिपेण—एक बलभद्र ६५।१७४

नन्दिपेण—भगवान् मलिनार्थकी

सर्वप्रथम आहार देनेवाला  
मिथिलाका एक राजा  
नन्दिपेण—आगामी तीसरा  
नारायण ७६।४८७

नन्दी—सोमशर्मा ब्राह्मणका पुत्र  
७०।२०१

नन्दी—आगामी पहला नारायण  
७६।४८७

नन्दीमित्र—एक श्रुतकेवली  
७६।५१९

नन्दीमुनि—एक श्रुतकेवली  
७६।५१९

नन्द्यावर्त—राजा सिद्धार्थका

महल ७४।२५४

नमि—कच्छका पुत्र ६२।९३

नमि—भगवान् आदिनाथके

सालेका लड़का ६७।१७५

नमि—इक्ष्वाकुसर्वे तीर्थकर नमि-  
नाथ ६९।१

नमि—पवनवेग और श्यामलाका  
पुत्र ७१।३७०

नन्देव—सारसमुच्चय देशके नाग-  
पुर नगरका राजा ६८।४

नरपति—एक राजा—मघवान्

शक्रवर्तीका तृतीय पूर्वभवका  
जीव ६१।८९

नरपति—तालपुरका राजा  
६७।३४

नरपाल—एक राजा ७६।१७२

नरवृषभ—वीतशोका नगरीका  
राजा ६१।६६

नरवृष्टि—शूरवीर और धारिणी-  
का पुत्र ७०।९४

नलिन—आगामी छठवाँ कुलकर  
७६।४६४

नलिनकेतुक—विन्ध्यपुरके राजा

विन्ध्यसेन और रानी सुन-  
क्षणाका पुत्र ६३।१००

नलिनज्वज—आगामी नीचाँ  
कुलकर ७६।४६५

नलिनप्रसन्न—आगामी दशवाँ  
कुलकर ७६।४६५

नलिनप्रसन्न—विदेहस्थितकच्छदेश  
के क्षेमपुर नगरका राजा  
५७।३

नलिनप्रसन्न—आगामी सातवाँ  
कुलकर ७६।४६४



नलिनराज—आगामी अठवाँ  
कुलकर ७६।४६५  
नलिना—हेमाभनगरके राजा  
हृदमित्रकी स्त्री ७५।४२१  
नवमिका—सौमर्षकी एक देवी  
६३।१८  
नागदत्त—उज्जयिनीके घनदेव  
सेठ और घनमित्रा सेठानीका  
पुत्र—महाबलका जीव ७५।९६  
नागदत्त—सागरदत्त और प्रभा-  
करीका पुत्र ७६।२१८  
नागदत्ता—भगवान् धर्मनाथकी  
पालकी ६१।३८  
नागवसु—दुर्मर्षणकी स्त्री  
७६।१५६  
नागश्री—अग्निभूति और अग्नि-  
लाक्षी पुत्री ७२।२३०  
नागश्री—दुर्मर्षण और नागवसु-  
की पुत्री ७६।१५६  
नागी—कृष्णकी सुसीमा पट्टरानी  
का जीव—योगभूमिसे निकल  
कर नागकुमारी हुई ७१।३९३  
नागोन्द्र—संजयन्त वैश्लीका  
पूर्वभवका भाई ५९।१२८  
नागोन्द्र—मरुभूमिका जीव वज्र-  
घोष हाथी ७३।२०  
नामिनन्दन—नामिनन्दन नामक  
चारणकृद्धिचारी मुनि ६२।५०  
नारद—प्रसिद्ध षालाकापुरुष  
६२।४३०  
नारद—क्षीरकदम्बका एक शिष्य  
६७।२५९  
नारद—पदवीधर एक पुरुष  
६८।९१  
नारद—एक पदवीधर पुरुष  
७१।६७  
नारद—एक पदवीधर पुरुष—  
कृष्णका मित्र ७२।६६  
नारद—आगामी धार्दिवसे तीर्थ-  
करका जीव ७६।४७४

नारायण—भगवान् कुन्थुनाथका  
मुख्य प्रद्वकता ७६।५३१  
निकुम्भ—र.वणके पक्षका एक  
विद्याधर ६८।४३०  
निधीश्वर—नन्दीश्वर द्वीपका  
कुवेर नामका देव ७२।३३  
निपुणमति—रानी रामदत्ताकी  
धाय ५९।१६८  
निपुणमति—समुद्रविजयका एक  
चेटक ७०।२२९  
निरसुकम्प—यक्षदत्त और यक्ष-  
दत्ताके पुत्र यक्षका दूसरा  
प्रचलित नाम ७१।२८०  
निर्नामक—राजा गङ्गदेव और  
नन्दयथाका अपेक्षित पुत्र  
७१।२६५  
निर्नामिक—एक मुनि ७०।२०६  
निर्मल—आगामी सोलहवें  
तीर्थकर ७६।४७९  
निर्बृति—क्षेमपुर नगरके सुभद्र  
सेठकी स्त्री ७५।४१०  
निर्बृत्ता—एक ध्यायिका ७०।३५  
निर्बृत्ति—भगवान् पद्मप्रभकी  
पालकी ५२।५१  
निष्कुम्भ—चक्रपुरका अधिपति—  
सुकेतुका जीव धृतिनारायण ।  
यह पुण्डरीक नारायणके द्वारा  
भारा गया ६५।१८३  
निष्कषाय—आगामी चौदहवें  
तीर्थकर ७६।४७९  
नील—रामके पक्षका विद्याधर  
६८।६२१  
नीलकण्ठ—अलकाके राजा मयूर-  
श्रीवका पुत्र ६२।५९  
नीलरथ—अलकाके राजा मयूर-  
श्रीवका पुत्र ६२।५९  
नीलवेगा—महेन्द्रविक्रमकी स्त्री  
६३।१०६  
नीलाजना—अलकाके राजा  
मयूरश्रीवकी स्त्री ६२।५८

नेमि—धार्दिवसे तीर्थकर नेमि-  
नाथ ७०।१

नैगम—एक देव ७१।२१

नैगमर्ष—एक देव ७०।३८५

[ प ]

पञ्चमुख—लक्ष्मणका शङ्ख

६८।६७६

पञ्चशर—प्रद्युम्न ७२।१६७

पञ्चाशदश्रीव—शतश्रीवका पुत्र

६८।१०

पतङ्गक—राजा चेटकका पुत्र

७५।५

पद्म—सौमनस नगरका राजा—

भगवान् सुमतिनाथको सर्व-

प्रथम धाह्यर देनेवाला ५१।७२

पद्म—एक चक्रवर्ती ६६।६७

पद्म—वसुदेवकी रोहिणी नामक

स्त्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र—

शङ्ख मुनिका जीव, नौवाँ

बलभद्र ७०।३१८

पद्म—यादव पक्षका एक राजा

७१।७४

पद्म—आगामी ग्यारहवाँ कुलकर

७६।४६५

पद्म—आगामी आठवाँ चक्रवर्ती

७६।४८३

पद्मगुल्म—वत्सदेशकी सुसीमा

नगरीका राजा ५६।३

पद्मदेवी—शाल्मलिग्रामके राजा

विजयदेव और रानी देविला-

की पुत्री ७१।४४७

पद्मध्वज—आगामी चौदहवाँ

कुलकर ७६।४६६

पद्मनाभ—राजा कनकप्रभ और

रानी कनकमालाका पुत्र

५४।१३१

पद्मनाभ—कनकप्रभका पुत्र

५४।१४४

पद्मनाभ—राजा पद्मसेनका पुत्र

५९।८

पद्मनाभ-नारायणकी राजा  
६६।७०  
पद्मनाभ-भोगपुरका राजा  
६७।६४  
पद्मपुद्गव-पद्महर्षा कुलकार  
७६।४६६  
पद्मप्रभ-छठवें तीर्थकर ५२।१  
पद्मप्रभ-आगामी वारहर्षा कुल-  
कर ७६।४६५  
पद्मरथ-मेघपुरका राजा ६२।६६  
पद्मरथ-हस्तिनापुरके राजा  
मेघरथ और पद्मावतीका पुत्र  
७०।२७४  
पद्मराज-आगामी तेरहर्षा कुल-  
कर ७६।४६६  
पद्मलता-चक्रवर्ज और कनक-  
मालिकाकी पुत्री ६२।३६५  
पद्मलता-राजा महावल और  
रानी काचनलताकी पुत्री—  
कनकलताका जीव ७५।१८  
पद्मलता-महावल और काचन-  
लताकी पुत्री ७५।११८  
पद्मश्री-राजगृहीके सागरदत्त  
सेठ और उसकी स्त्री पद्मा-  
वतीकी पुत्री ७६।४६  
पद्मसेन-घातकीलण्डके विदेह-  
क्षेत्र सम्बन्धी रम्यकावती  
देशके महानगरका राजा ५९।३  
पद्मावती-नीतशोकपुरके राजा  
चक्रवर्ज और विद्युन्मतिकी  
पुत्री ६२।३६६  
पद्मावती-इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्र-  
सेनकी पुत्री, जो पुण्डरीक  
नारायणको विवाही गयी  
६५।१७९  
पद्मावती-श्रीपुरके राजा जसु-  
न्दरकी स्त्री ६९।७५  
पद्मावती-नरवृष्टिकी स्त्री  
७०।१००  
पद्मावती-हस्तिनापुरके राजा  
मेघरथकी स्त्री ७०।२७४

पद्मावती-अरिष्टपुरके राजा  
हिरण्यवर्माकी स्त्री ७०।३०७  
पद्मावती-मथुराके राजा उग्र-  
सेनकी स्त्री ७०।३४१  
पद्मावती-कृष्णकी एक पट्टरानी  
७१।१२७  
पद्मावती-अरिष्टपुरके राजा  
हिरण्यवर्मा और रानी श्रीमती  
की पुत्री ७१।४५८  
पद्मावती-राजपुरके वृषभदत्त  
सेठकी स्त्री ७५।३१५  
पद्मावती-राजगृहीके सागरदत्त  
सेठकी स्त्री ७६।४६  
पद्मावतीशान्ति-पद्मावती श्वा-  
यिका ७१।४५६  
पद्मोत्तमा-चन्द्राभ नगरके राजा  
धनपति और रानी तिलोत्तमा-  
की पुत्री ७५।३९१  
पद्मोत्तर-गुडकराह्नी द्वीपके वत्स-  
कावती देश सम्बन्धी रत्नपुर  
नगरका राजा ५८।२  
परमेश्वर-कवि-महापुराणके श्वा-  
धारभूत वागर्थ संग्रह पुराण-  
के कर्ता प्रशस्ति।१७  
परावार-हस्तिनापुरके राजा  
शक्ति और रानी शतकीका  
पुत्र ७०।१०२  
पर्वत-सीरकदम्बका शिष्य  
६७।२५९  
पवनवेग-एक मुनि ६३।११४  
पवनवेग-विजयार्धका एक विद्या-  
धर ७१।३६९  
पवनवेग-एक विद्याधर ७१।४१०  
पवनवेग-शिवकरनगरका राजा  
एक विद्याधर ७५।१६४  
पवनवेग-गुणमित्रका जीव—  
एक कन्नूर ७५।४५७  
पवनवेग-किन्नरगीत नगरके  
राजा अशनिवेगकी स्त्री  
७०।२५५

पवनात्मज-अणुमान्—हनुमान्  
६८।३७०  
पाञ्चाल-द्रोपदीके पुत्र ७२।१४  
पाण्डव-यादव पक्षके राजा—  
१. युधिष्ठिर, २. भीम, ३.  
अर्जुन, ४. सहदेव, ५. नकुल  
७१।७४  
पाण्ड-व्यास और सुमन्नाका  
पुत्र ७०।१०३  
पाण्ड-नयारह अज्ञोके आनकार  
एक मुनि ७६।५२४  
पारत-कान्यकुब्जका राजा  
६१।५८  
पारशरी-राजगृह नगरके निवासी  
शाण्डिल्य ब्राह्मणकी स्त्री  
७४।८३  
पार्थ-पाण्डु और कुन्तीका तृतीय  
पुत्र जिसका दूसरा नाम  
अर्जुन प्रसिद्ध है ७०।११६  
पार्थिव-भारतवर्षके वत्सदेशकी  
कौशाम्बी नगरीका राजा  
६९।२  
पार्वनाथ-तेईसवें तीर्थकर,  
भगवान् पार्वनाथ ७३।१  
पिहितारव-विदेहके एक तीर्थ-  
कर, जिनके पास राधा अपरा-  
जितने दीक्षा ली थी ५२।१३  
पिहितारव-एक मुनि ५९।२४४  
पिहितारव-एक मुनि ६२।७७  
पिहितारव-एक मुनि ६२।१५४  
पिहितारव-एक मुनि ६३।१३९  
पुण्डरीक - एक नारायण  
६५।१७४  
पुत्र-भगवान् महावीरका गण-  
धर ७४।३७३  
पुनर्वसु-अरिष्टनगरका राजा,  
भगवान् शीतलनाथको प्रथम  
आहार देनेवाला ५६।४७  
पुरु-भगवान् वृषभदेव ७३।१२२  
पुरुदेव-भगवान् आदिनाथ  
६३।४०४

पुहत्रु - वेतासिनी प्रसूती-  
का राजा ७१।३११  
सुरवा-मधुकवनका एक भिल्ल-  
राज ६२।८७  
सुरवा-भगवान् महावीरका  
पूर्वभंवका जीव ७६।५३४  
सुरुषपुण्डरीक-भगवान् अनन्त-  
नाथका मुख्य प्रवक्तृता  
७६।५३१  
सुरुषोत्तम-लङ्कापुरके राजा  
सोमप्रभकी रानी सीताका  
पुत्र ६७।१४३  
सुरुषोत्तम-भगवान् विमलनाथ-  
का मुख्य प्रवक्तृता ७६।५३०  
सुलस्थ - पञ्चाशद्गीवका  
पुत्र ६८।११  
पुष्पकाधिपति-रावण ६८।४२८  
पुष्पचूल-चन्द्रचूल और मनो-  
हरी का पुत्र ७१।२५२  
पुष्पदत्ता-स्थूणागार नगरके  
भारद्वाज ब्राह्मणकी स्त्री  
७४।७१  
पुष्पदन्त-घातकी खण्डके पूर्व  
भरतक्षेत्र सम्बन्धी अयोध्याका  
राजा ७१।२५६  
पुष्पदन्त-राजपुरका एक घनी  
मालाकार ७५।५२७  
पुष्पदन्ता-भगवान् मुनि सुव्रत-  
नाथके संघकी प्रमुख धार्मिका  
६७।५३  
पुष्पमित्र-शैलपुरके राजा,  
जिनके यहाँ भगवान् पुष्पदन्त-  
का प्रथम बाह्यार हुआ था ।  
५५।४८  
पुष्पमित्र-भारद्वाज और पुष्प-  
दत्ता ब्राह्मण दम्पतीका पुत्र  
७४।७१  
पुष्पमित्र-भगवान् महावीरके  
पूर्व भवका जीव ७६-५३५  
पूतना-कंसकी पूर्वभवकी एक  
विद्या ७०।४१६

पूतिहा-पत्न्यधीवर और मण्डूकी  
धीवरीकी पुत्री ७१।३२६  
पूरण-अन्वक वृष्टि और सुभद्रा-  
का पुत्र ७०।९६  
पूरितार्थच्छ-अन्वकवृष्टि और  
सुभद्राका पुत्र ७०।९६  
पूर्णचन्द्र-रामदत्ता रानीका पुत्र,  
सिंहचन्द्रका छोटा भाई  
५९।१९२  
पूर्णचन्द्र-एक मुनि ५९।२००  
पूर्णचन्द्र-पोदनपुर का राजा,  
जिसे हिरण्यवती विवाही गई  
५९।२०९  
पूर्णचन्द्र-ब्राह्मीका जीव  
५९।२११  
पूर्णचन्द्र-आगामी सातवाँ बल-  
भद्र ७६।४८६  
पूर्णभद्र-साकेतके अर्हंदास सेठ  
और उसकी स्त्री वप्रश्रीका  
पुत्र-अग्निभूतिका जीव  
७२।२६  
पृथिवी-द्वारवतीके राजा भद्र-  
की स्त्री-स्वयंभू नारायणकी  
माता ५९।८६  
पृथिवीचन्द्र-लक्ष्मणका पुत्र  
६८।६९०  
पृथिवीतिलक-शङ्ख और जय-  
देवीकी पुत्री-अश्वघोषकी  
स्त्री ६३।१७७  
पृथिवीदेवी-लक्ष्मणकी स्त्री  
६८।४७  
पृथिवीषेणा-वाराणसीके राजा  
सुप्रतिष्ठकी रानी-भगवान्  
सुपाशर्वनाथकी माता ५३।१९  
पृथिवी सुन्दरी-पद्म षष्ठवर्तीकी  
षाठ पुत्रियोंमें प्रमुख पुत्री  
६६।८०  
पृथिवीसुन्दरी-लक्ष्मणकी प्रमुख  
स्त्री ६८।६६६  
पृथिवीसुन्दरी-विदेह नगरके  
राजा गोपेन्द्रकी स्त्री ७५।६४४

पृथिवीसुन्दरी-राजपुत्री जो  
प्रीतिचक्रकी विवाही गयी  
७६।३४७  
पृथिवी सुन्दरी-पटनाके राजा  
विशुपालकी स्त्री ७६।३९८  
प्रदुब्जा-भगवान् अजितनाथके  
संघकी प्रमुख धार्मिका ४८।४७  
प्रजापति-सुरम्यदेश-पोदनपुर  
के राजा ६२।९०  
प्रजापति-मलय देशके रत्नपुर  
नगरका राजा ६७।९०  
प्रजापति-भगवान् ध्यादिनाथ  
७३।७  
प्रजापति महाराज-उज्जयिनीका  
राजा-७५।९५  
प्रजापाल-श्रीपुर नगरका राजा  
६६।६८  
प्रजावती-मिथिलाके राजा कुम्भ  
की स्त्री-भगवान् मल्लिनाथ-  
की माता ६६।२१  
प्रज्ञसिन्धु-एक विद्या ७२।७८  
प्रद्युम्न-श्रीकृष्णकी रुमिणी  
रानीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ७२।२  
प्रमञ्जन-विद्युत्कान्त नगरका  
राजा-एक विद्याधर ६८।२७  
प्रमञ्जन-हरिवर्ष देशके भोगपुर  
का राजा ७०।७४  
प्रमञ्जन-राजा चेटकका पुत्र  
७५।५  
प्रमङ्करी-अयोध्याके राजा बज्र-  
बाहुकी स्त्री ७३।४३  
प्रमाकरी-कौशान्ती के राजा  
विजयकी स्त्री ६९।७९  
प्रमाकरी-सुप्रतिष्ठपुरके सागर-  
दत्त सेठकी स्त्री ७६।२१७  
प्रमावती-पुरणकी स्त्री ७०।९९  
प्रमावती-राजा चेटककी पुत्री  
७५।६  
प्रमावेगा-विद्युम्नाली इन्द्रकी  
देवी ७६।३३  
प्रमास-सिन्धु गोपुरका अवि-  
च्छाता एक दिव ६८।६५३

प्रभास-भगवान् महावीरका  
गणधर ७४।३७४  
प्रभास-राजा चैटकका पुत्र  
७५।५  
प्रयास्तवङ्क-रुक धारण ऋद्धि-  
घारी मुनि ७५।६७८  
प्रसेनिक-वत्सा नगरीका राजा  
७५।७१  
प्रस्तरविद्या-पशुमनकी एक विद्या  
७२।१३५  
प्रहरणवरण-एक विद्या ६२।२७१  
प्रियकारिणी - पृथिवीतिलकपुरके  
राजा अतिवेशकी स्त्री ५९।२४१  
प्रियकारिणी-राजा चैटककी पुत्री  
७५।६  
प्रियङ्कर-प्रीतिङ्करका पुत्र  
७६।३८५  
प्रियङ्गुसुन्दरी-फिलकिल नगरके  
राजा बलीन्द्रकी स्त्री ६८।२७२  
प्रियदर्शना-अजितसेनकी स्त्री  
६३।३८३  
प्रियदर्शना-अनदत्त और नन्द-  
यथाकी पुत्री ७०।१८६  
प्रियदर्शना-एक आर्यिका ७२।३५  
प्रियदर्शना-विष्णुमाली इन्द्रकी  
देवी ७६।३३  
प्रियमित्र-मलयवाम् चक्रवर्तीका  
पुत्र ६१।९९  
प्रियमित्र-अनदत्त और नन्दयथा  
का पुत्र ७०।१८६  
प्रियमित्र-एक अवधितानी  
मुनि ७४।२२३  
प्रियमित्र-सुमित्र और सुव्रताका  
पुत्र ७४।२३७  
प्रियमित्र-भगवान् महावीरका  
पूर्वभवका जीव ७६।५४२  
प्रियमित्रा-मेषरथकी स्त्री  
६३।१४७  
प्रियमित्रा-एक गणिनी-आर्यिका  
६३।२५३

प्रियमित्रा-मेषरथकी स्त्री  
६३ २८८  
प्रियमित्रिका-प्रीतिङ्करकी बड़ी  
माता ७६।३३३  
प्रियवाक्-धारणकी स्त्री ७०।९९  
प्रीतिङ्कर-छत्रपुरके राजा प्रीति-  
भद्र और रानी सुन्दरीका  
पुत्र ५९।२५५  
प्रीतिङ्कर-मिहपुरके राजा अण-  
राजितका पुत्र ७०।४८  
प्रीतिङ्कर-एक मुनि ७६।२१५  
प्रीतिङ्करा-सुदत्तकी स्त्री  
६३।१०१  
प्रीतिङ्करा-सुदत्तकी स्त्री  
६३ १०९  
प्रीतिङ्गरी-अयोध्याके राजा  
पृष्पदन्तकी स्त्री ७१।२५७  
प्रीतिभद्र-छत्रपुरका राजा  
५९।२५४  
प्रीतिमती-अरिन्दमपुरके राजा  
अरिञ्जय और रानी अजित-  
सेनाकी पुत्री ७०।३१  
प्रेमक-आगामी तिरहर्व तीर्थकर  
का जीव ७६।४७३  
प्रोष्ठिल-एक मुनि ७०।७१  
प्रोष्ठिल-एक मुनि ७४।२४३  
प्रोष्ठिल-आगामी अतुर्थ तीर्थकर-  
का जीव ७६ ४७२  
प्रोष्ठिल-आगामी तीर्थकर  
७६।४७८  
प्रोष्ठिल-दशपूर्वके धारक एक  
मुनि ७६।५२१

[ फ ]

फल्लसेना-पंचमकालकी अन्तिम  
आविका ७६।४३३

[ ब ]

बन्धमोचन-एक विद्या ६२।२७१  
बन्धुमती-हस्तिनापुरके सेठ  
बनेतवाहनकी स्त्री ७९।२६०

बन्धुमती-नन्दयथाकी बड़ी  
बहिन ७१।२६५  
बन्धुमती-विजयपुरके मधुपेण  
वैश्यकी स्त्री ७१।३६४  
बन्धुयथा-मधुपेण और बन्धुमती  
की पुत्री ७१।३६४-  
बन्धुश्री-शाहजुनगरके देविल  
वैश्यकी स्त्री ६२।४९५  
बवरी-एक नर्तकी ६२।४२९  
बल-सुपाह्वनायके प्रथम गण-  
धर ५३।४६  
बल-बलराम ७१।७६  
बल-आगामी पाचवा नाारायण  
७६।४८८  
बलदेव-आगामी सत्रहर्व तीर्थ-  
करका जीव ७६।४७३  
बली-हस्तिनापुरके राजाका  
मन्त्री ७० २७७  
बलीन्द्र-विश्वयार्थके मन्दरपुर  
नगरका राजा --- साकेतके  
मन्त्रीका जीव ६६।११०  
बलीन्द्र-फिलकिलनगरका  
राजा ६८।२७२  
बहुमित्र-जीवन्धरका एक साला  
७५।४२९  
बहुश्रुत-उच्चलनजटोका एक मन्त्री  
६२।६३  
वालनया-कलिकुंराजकेपुत्र अजि-  
तजयकी स्त्री ७६।४२८  
वाहुवली-भगवान् आदिनाथके  
पुत्र ६२।९३  
बुद्धवीर्य-भगवान् पृष्पदन्तका  
मुख्य प्रथमकर्ता ७६।५३०  
बुद्धार्थ-एक मुनि ७९।४१७  
बुद्धि-रुक देवी ६३।२००  
बुद्धि-दशपूर्वके धारक एक  
मुनि ७६।५२२  
बुद्धिपेण-सागर और श्रामती-  
का पुत्र ७५।२५९  
बुद्धिपेणा-साकेतपुर की एक  
गणिका-वेश्या ५९।२५८

बुद्धिसागर-राजा महापद्मका  
मन्त्री ७६।१६३  
ब्रह्म-द्वारावतीका स्वामी ५८।८३  
ब्रह्मदत्त-वारहवीं चक्रवर्ती  
७२।२८७  
ब्रह्मा-श्रयोध्याका एक राजा,  
जिसने भगवान् अजितनाथको  
दीक्षा धारण करनेके बाद सर्व-  
प्रथम आहार दिया था ४८।४१  
ब्रह्मा-ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीका पिता  
७२।२८७  
ब्राह्मी-वाराणसीके राजा विश्व-  
सेनकी स्त्री-भगवान् पार्व-  
नाथकी माता ७३।७५

[ भ ]

भगदत्त-जरासन्धके पक्षका एक  
राजा ७१।८०  
भगदत्त-राष्ट्रकूट और रेवतीका  
पुत्र ७६।१५३  
भगलि-आगामी अठारहवें तीर्थ-  
करका जीव ७६।४७४  
भगीरथ-सगर चक्रवर्तीकी विदवा  
नामक स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र  
४८।१२७  
भट्टारक-भगवान् नेमिचाथ  
७२।२७१  
भद्र-द्वारावतीका राजा-धर्म  
बलभद्रके पिता ५९।७१  
भद्र-रत्नपुरका एक गाड़ी चलाने  
वाला ६३।१५७  
भद्रक्षीर-नन्दिमित्र और दत्तका  
एक उत्तम हाथी ६६।११०  
भद्रबाहु-एक मुनि ५९।२११  
भद्रबाहु-एक श्रुतकेवली  
७६।५२०  
भद्रमित्र-पद्मसेटपुरके सुदत्तसेठ  
और सुमित्रा सेठानीका पुत्र  
५९।१४८  
भद्रमित्र वणिक्-जो आगे चल-  
कर सिंहचन्द्र हुआ ५९।२१०

भद्रा-कोशल देशगत साकेत  
नगरके राजा सुमित्रकी स्त्री-  
मद्यवान् चक्रवर्तीकी माता  
६१।९२  
भद्रा-पोवनपुरके राजा प्रजा-  
पतिकी एक स्त्री ६२।११  
भद्रा-कौशाम्बीके वृषभसेन सेठ  
की स्त्री ७५।५६  
भरत-राजा दशरथका पुत्र  
६७।१६५  
भरत-भगवान् आदिनाथके पुत्र  
७४।७५  
भरत-आगामी पहला चक्रवर्ती  
७६।४८२  
भरत-भगवान् आदिनाथकी सभा  
के प्रमुख प्रवक्तृ ७६।५२९  
भव-ब्रह्मस्वामीका एक प्रमुख  
शिष्य ७६।१२०  
भवदेव-राष्ट्रकूट और रेवतीका  
पुत्र ७६।१५३  
भालु-रत्नपुरनगरके राजा, भग-  
वान् धर्मनाथके पिता ६१।१४  
भालु-कंसके साले सुभानुका पुत्र  
७०।४४८  
भानुकीर्ति-सेठ भानुदत्तका  
द्वितीय पुत्र ७१।२०३  
भानुकुमार-श्रीकृष्णकी सत्य-  
भामा पट्टरावीका पुत्र  
७२।१३५  
भानुदत्त-मथुराका एक सेठ  
७१।२०२  
भानुपेण-सेठ भानुदत्तका तृतीय  
पुत्र ७१।२०३  
भानुसूर-सेठ भानुदत्तका चतुर्थ  
पुत्र ७१।२०३  
भामारति-राजा सत्यन्वरकी एक  
स्त्री ७५।२५४  
भारद्वाज-स्थूणागरनगरका एक  
ब्राह्मण ७४।७१  
भारद्वाज-शालङ्कायन और  
मन्दिराका पुत्र ७४।७९

भारद्वाज-भगवान् महावीरके  
पूर्वभवका जीव ७६।५४६  
भाविता-भगवान् कुण्ठनाथके संघ  
की प्रमुख अ धिका ६४।४९  
भास्कर-महाशुक्रस्वर्गके भास्कर  
विमानका देव-रामदत्ताका  
जीव ५९।२२६  
भीम-सिंहपुर नगरका अधिपति  
६२।२०५  
भीमक-हरिवलकी धारिणी स्त्री  
से उत्पन्न पुत्र ७६।२६४  
भीमसेन-पाण्डु और कुन्तीका  
मध्यम पुत्र ७०।११६  
भीष्म-जरासन्धके पक्षका राजा  
७१।७७  
भूतरमण-एक वन ७५।४३  
भूतहित-विदेहके तीर्थकर  
५५।१३  
भूतानन्द-एक तीर्थकर  
७१।२५८  
भूतिलक-दलकाका निवासी  
एक विद्याधर ७६।२६३  
भूतिवर्मा-भद्रिलपुर नगरमें  
रहनेवाला एक ब्राह्मण ५६।५  
भूधर-धरश्रेष्ठ ७३।१  
भूपाल-भरतक्षेत्रका एक राजा  
६५।५२  
भूसूता-सीता ६८।३३६  
भेषज-कोसला नगरीका राजा  
७१।३४२  
भोगदेव-नागपुरके राजा  
नरदेवका पुत्र ६५।५  
भोगिनी-पद्मावती ७३।१  
भोगिनी-एक विद्या ७५।४३६  
भ्रमरी-एक विद्या ६२।२७८

[ म ]

मघवा-कौशाम्बीका राजा  
७०।६४  
मघवा-भगवान् चन्द्रप्रभका  
मुख्य प्रवक्तृ ७६।५३०

मधवान्-सीमरा ऋक्षवर्ती ६१।८८  
 मङ्गल-साकेत-अयोध्याके  
 राजा मेघरथकी पत्नी—  
 भगवान् सुमतिनाथकी माता  
 ५१।२०  
 मङ्गिनी-भगवन् नमिनाथके  
 संघकी प्रमुख आर्यिका ६९।६४  
 मङ्गी-छत्रपुरके व्याधकी स्त्री  
 ५९।२७३  
 मङ्गी-उज्जैन के विमलचन्द्र  
 सेठ और विमला सेठानी की  
 पुत्री—वज्रमुष्टि की स्त्री ।  
 ७१।२११  
 मञ्जरिका-रावणकी एक दूनी  
 ६८।३२१  
 मणिकुण्डल-आदित्यामनगरके  
 राजा मुकुण्डलीकी मित्रसेना  
 स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र ६२।३६२  
 मणिकेतु-त्रयसेनके साले महा-  
 रथका जीव, जो कि अच्युत  
 स्वयंसे देव हुआ ४८।६९  
 मणिकेतु-राजा सगरका  
 हितैषी एक देव ४८।१०९  
 मणिचूल-एक देव ६७।१४६  
 मणिचूल-एक देव—छद्मगणका  
 जीव ६७।१५२  
 मणिचूल-चन्द्रचूल और मनो-  
 हरीका पुत्र ७१।२५१  
 मणिचूलक-विजयका जीव,  
 स्वस्तिक विमानमें देव हुआ  
 ६२।४११  
 मणिचूला-सौधमें-द्रुकी एक  
 देवी ७२।३६  
 मणिमद्र-सानेत निवासी अर्ह-  
 दास और वयश्रीका पुत्र—  
 वायुमुक्तिका जीव ७२।२६  
 मणिमति-स्थालकपुरके राजा  
 अमितवैगकी पुत्री ६८।१४  
 मण्डूकी-मन्दिरग्रामके मत्स्य  
 नामक धीवरकी स्त्री ७१।३२६  
 मण्डोदरी-कौशाम्बी की एक  
 कन्या र न ७०।३४७

मतिवाक्सार-राजा मेघरथका  
 मन्त्री ५६।६६  
 मलिसागर-एक मन्त्री ६२।२१७  
 मलिसागर-राजपुरका एक  
 श्रावक ७५।२५७  
 मलिसागर-राजा गरुडवैगका  
 मन्त्री ७५।३०६  
 मत्स्य-एक धीवर ७१।३२६  
 मदनलता-राजपुरके रज्जुतेजा  
 नटकी स्त्री ७५।४६८  
 मदनवेगा-वस्वालयके राजा  
 सेन्द्रकेतु और सुप्रभाकी पुत्री  
 ६३।२५१  
 मधु-रत्नपुरका राजा ५९।८८  
 मधु-हस्तिनापुरके राजा अर्ह-  
 दास और रानी काश्यपाका  
 पुत्र—अग्निभूतिका जीव  
 ७२।३९  
 मधुकील-हस्तिनापुरका राजा  
 ६१।७४  
 मधुपिङ्गल-एक कुमार ६७।१५८  
 मधुपिङ्गल-तृणपिङ्गल और  
 सर्वयशाका पुत्र ६७।२२४  
 मधुसुख-मलिसागर और अनु-  
 पमाका पुत्र ७५।२५९  
 मधुर-राजा सत्यधरकी मामा-  
 रति स्त्री से उत्पन्न पुत्र  
 ७५।२५५  
 मधुरा-कौशाठ देशके बृद्ध ग्राम-  
 में रहनेवाले मृगयण ब्राह्मण  
 की स्त्री ५९।२०७  
 मधुविद्धि-कृष्ण ७१।३५२  
 मधुपेण-विश्वम्भपुरका एक  
 वैश्य ७१।३६४  
 मधुसूदन-एक प्रतिनारायण  
 ६७।१४३  
 मधुसूदन-कृष्ण ७०।४७०  
 मनोगति-अर्धश्रीधका एक दूत  
 ६२।२२४  
 मनोगति-सूर्यप्रभपुरके राजा  
 सूर्यप्रभ और रानी धारिणी-  
 का पुत्र ७०।२८

मनोभव-प्रद्युम्नकुमार  
 ७५।५६९  
 मनोत्मा-दुहरथकी दूसरी स्त्री  
 ६३।१४४  
 मनोरमा-मेघरथकी स्त्री  
 ६३।१४७  
 मनोरमा-सिहरथकी स्त्री  
 ६३।२४४  
 मनोवैग-एक विद्याधर  
 ६८।३९०  
 मनोवैग-विजयावर्धकी दक्षिण  
 श्रेणी के सुवर्णभद्रपुरका राजा  
 ७५।३६  
 मनोवैग-शिबंकर नगरके राजा  
 पवनवैग और रानी सुवैगाका  
 पुत्र ७५।१६५  
 मनोवैगा-सुवर्णभद्रपुरके राजा  
 मनोवैगकी स्त्री ७५।३६  
 मनोहर-गन्धर्वविद्याका गुरु  
 ७०।२६२  
 मनोहर-कृष्ण के खन्तःपुरका  
 एक सरोवर ७१।३०  
 मनोहरा-पुण्डरीकिणी नगरीके  
 राजा धनरथकी स्त्री ६३।१४३  
 मनोहरा-सेठ जिनदत्तकी प्रमुख  
 स्त्री ७५।३२१  
 मनोहरी-नित्यालोक नगरके  
 राजा चन्द्रचूलकी स्त्री  
 ७१।२५०  
 मन्दर-भगवान् विमलनाथका  
 प्रमुख गणधर ५९।४८  
 मन्दर-विमलनाथ भगवान्के  
 तीर्थके एक गणधर ५९।१०८  
 मन्दर-मधुरा के राजा खन्त-  
 वीर्य और रानी अमितवैगका  
 पुत्र—धरणीद्रका जीव  
 ५९।३०३  
 मन्दरमालिनी-द्विमतिारिणी स्त्री  
 ६२।५००  
 मन्दिन्द्रधरि-मुदर्शन वनमें  
 चिराजमान एक मुनि  
 ७०।१८७

मन्दिरा—मन्दिरनगरके शालङ्का-  
यनकी स्त्री ७४।७९  
मन्दोदरी—राजा सगरकी धाय  
६७।२१७  
मन्दोदरी—रावणकी स्त्री  
६८।१७  
मयूरभ्रीव—अलकाका राजा  
६२।५८  
मरीचि—भरत चक्रवर्तीका एक  
पुत्र ६२।८९  
मरीचि—अमिततेजका दूत  
६२।२६९  
मरीचि—भरत चक्रवर्ती और  
रानी अनन्तमतिकों पुत्र—  
७४।५१  
मरीचि—भगवान् महावीरके पूर्व  
भवका जीव ७६।५३४  
मरुभूति—विश्वभूति और अनु-  
न्धरी का पुत्र ७३।९  
मर्कट—एक व्यन्तर देव ७२।१२०  
मल्लि—उल्लोसर्वे तीर्थकर भगवान्  
मल्लिनाथ ६६।१  
मल्लि—भगवान् मुनिसुव्रतका प्रथम  
गणधर ६७।४९  
महति—भगवान् महावीरका नाम  
७४।३३६  
महदादिवल—महाबल — सगर  
चक्रवर्तीकी पूर्व देव प्रयाग  
४८।१४३  
महाकाल—मधुपिङ्गलका जीव  
एक असुर ६७।२५२  
महाकाल—एक राक्षस देव  
७२।१११  
महाकालासुर—मधुपिङ्गलका जीव  
६७।१६०  
महाचन्द्र—आगामी दूसरा बल-  
भद्र ७६।४८५  
महाज्वाला—एक विद्या ६२।२७३  
महानन्द—एक यक्ष जातिका देव  
७६।३१५  
महापद्म—आगामी प्रथम तीर्थ-

कर—राजा श्रेणिकका जीव  
७४।४५२  
महापद्म—विदेह क्षेत्रके वीतथोक  
नगरका राजा ७६।१३०  
महापद्म—सोलहवाँ कुलकर  
७६।४६६  
महापद्म—आगामी प्रथम तीर्थ-  
कर ७६।४७७  
महापद्म—आगामी नौवाँ चक्रवर्ती  
७६।४८३  
महाबल—राजा जयसेनका जीव  
एक देव ४८।६८  
महाबल—मङ्गलावती देशके रत्न-  
संचय नगरका स्वामी ५०।३  
महाबल—रत्नसञ्चयपुरका राजा  
—भगवान् क्षमिनन्दननाथ  
का तृतीय पूर्वभवका जीव  
५०।६९  
महाबल—कौशाम्बीका राजा  
६२।३५१  
महाबल—एक असुर—रतनायुध  
का जीव ६३।१३५  
महाबल—एक गणधर ६७।११९  
महाबल—दशरथका सेनापति  
६७।४६३  
महाबल—एक केवली ६९।१३  
महाबल—सुवर्णवर्मा और विष्णु-  
ल्लेखाका पुत्र ७५।८१  
महाबल—पलाशद्वीपके पलाश-  
नगरका स्वामी ७५।९८  
महाबल—आगामी छठवाँ नारा-  
यण ७६।४८८  
महासुल—रावणके पक्षका एक  
विद्याधर ६८।४३१  
महारथ—महापुरका राजा ५८।८०  
महारथ—वत्सदेश गत सुसीमा-  
नगरके राजा दशरथका पुत्र  
६१।७  
महारथ—राजा जयसेनका साला  
४८।६७

महावीर—चौबीसवें तीर्थकरका  
नाम ७४।२९५  
महासेन—चन्द्रपुरके राजा—  
भगवान् चन्द्रप्रथके पिता  
५४।१६४  
महासेन—चक्रवर्ती हरिषेणका  
पुत्र ६७।८४  
महासेन—नरवृष्टि और पचावती  
का पुत्र ७०।१००  
महासेन—अलकाका निवासी एक  
विद्याधर ७६।२६३  
महासेन—भगवान् पार्श्वनाथका  
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।५३२  
महीपद्म—पुष्कलावती देशकी  
पुण्डरीकिणी नगरीका राजा  
५५।३  
महीपाल—महीपालपुरका राजा  
कमठका जीव ७३।९७  
महीसुता—धीता ६८।३७४  
महेन्द्र—चन्द्रपुरका राजा  
७१।४०५  
महेन्द्र—सिद्धार्थ वनमें स्थित एक  
मुनि ७२।२७  
महेन्द्रदत्त—सोमखेट नगरका  
राजा ५३।४३  
महेन्द्रविक्रम—काश्वान तिलक  
नगरका राजा ६३।१०६  
महेन्द्रविक्रम—नित्यालोकपुरका  
राजा ७१।४२०  
साक्षिक लक्षिता—एक विद्या  
७१।३७१  
मागध—भरतक्षेत्रके प्रमुख व्यन्तर  
६२।१४६  
मागध—लवण समुद्रका अवि-  
ष्ठाता देव ६५।६४८  
माद्री—अन्धकवृष्टि और सुभद्रा  
की पुत्री ७०।९७  
माद्री—कौसला नगरीके राजा  
शेपज की स्त्री ७१।३४२  
माघव—कृष्ण ७१।४२९  
मारीच—रावणका एक मन्त्री  
६८।१९

माकण्डेय-ईदृकेतुका चम्पा-  
नगरमें परिवर्तित नाम ७०।९०  
मित्रनन्दी-विदेह क्षेत्रका एक  
राजा ५९।६४  
मित्रभाव-भगवान् अभिनन्दन-  
नाथका मुख्य प्रदनकर्ता  
७६।५२९  
मित्रवीर-कौशाम्बीके वृषभसेन  
सेठका एक कर्मचारी ७।१५३  
मित्रवीर्य-भगवान् सुमतिनाथ-  
का मुख्य प्रदनकर्ता ७६।५२९  
मित्रश्री-अग्निभूति वीर अग्निभ-  
लाकी पुत्री ७२।२३०  
मित्रसेना-मुकुण्डजी विद्याधर-  
की स्त्री ६२।३६२  
मित्रसेना-हस्तिनापुरके राजा  
सुदर्शनकी स्त्री—भगवान्  
अरनाथकी माता ६५।१५  
मीनार्य-भगवान् धृपार्द्धनाथके  
संघकी प्रमुख आर्थिका ५३।५०  
मुचन्दन्त-आणामी तीसरा चक्र-  
वर्ती ७६।४८२  
मुण्डशालायन-भद्रिलपुरके भूति  
धर्मा ब्राह्मण और उसकी स्त्री  
कमलाका पुत्र ७१।३०४  
मुनिगुप्त-एक मुनि ७५।९०  
मुनिचन्द्र-एक मुनिराज  
५९।२३१  
मुनिवर-एक मुनि ६९।५  
मुनिसुत-आणामी ग्यारहवें  
तीर्थंकर ७६।४७९  
मुनिसुत-बीसेवें तीर्थंकर ६७।१  
सुरारि-कृष्ण ७१।४६०  
सृकण्ड-हरिवर्ष देशके भोगपुर  
नगरके राजा प्रभञ्जनकी स्त्री  
७०।७५  
सृगधारी-एक प्रकारके भ्रष्ट  
मुनि ७६।१९५  
सृगष्टक-कौशिक तापस और  
षडवैयाका पुत्र—यह कपिल  
का पुत्र था ६२।३८०

सृगायण-कौशल देशके द्वा-  
ग्राममें रहनेवाला एक ब्राह्मण  
५९।२०७  
सृगायण-सिन्धु नदीके तीरपर  
स्थित एक तापस ७०।१४२  
सृगावती-पीदनपुरके राजा प्रजा-  
पतिकी स्त्री ६२।९०  
सृगावती-राजा चेटककी पुत्री  
७५।६  
सृष्टु-हरिविक्रमका सेवक  
७५।४८०  
मेघनाद-गगनवल्लभ नगरके  
राजा मेघवाहन और रानी  
मेघमालिनीका पुत्र—अनन्त-  
वीर्य नारायणका जीव ६३।३०  
मेघनाद-भद्रिलपुरका एक राजा  
७१।४५४  
मेघमालिनी-गगनवल्लभ नगर-  
के राजा मेघवाहनकी स्त्री  
६३।३०  
मेघमालिनी-हेमाङ्गदकी स्त्री  
६३।१८१  
मेघरथ-साकेत-बयोध्याका एक  
राजा—भगवान् सुमतिनाथ-  
का पिता ५१।२०  
मेघरथ-मलय देशके भद्रिलपुर  
नगरका स्वामी ५६।६४  
मेघरथ-पुण्डरीकिणी नगरीके  
राजा घनरथ और रानी मनो-  
हराका पुत्र—बच्चायुषका जीव  
६३।१४३  
मेघरथ-भगवान् शान्तिनाथके  
पूर्वप्रवका जीव ६३।३८८  
मेघरथ-भद्रिलपुरका राजा  
७०।१८३  
मेघरथ-हस्तिनापुरका राजा  
७०।२७४  
मेघरथ-राजा सुषर्माका पुत्र  
७१।२७३  
मेघरथ-भद्रिलपुरका राजा  
७१।३०३

मेघवाहन-सुरेन्द्रकान्तार नग-  
का राजा ६२।७१  
मेघवाहन-गगनवल्लभ नगर-  
राजा ६३।२९  
मेघवाहन-शिवमन्दिर नगर  
राजा ६३।११६  
मेघवाहन-अम्बुद्वीप बङ्ग-  
चम्पापुरीका राजा ७२।२९  
मेघविजय-राजाका एक हा-  
५९।२४९  
मेघश्री-गुलस्त्वकी स्त्री ६८।  
मेघसेन-मेघरथका पुत्र ६३।  
मेरु-विमल भगवान्के तीर्थ,  
एक गणधर ५९।१०८  
मेरु-मथुराके राजा अनन्तर्व  
और रानी मेरुमालिनीका पु-  
५९।३०२  
मेरुचन्द्र-वीतशोकपुरका रा-  
७१।४३९  
मेरुमती-गुल्कलावती नगर  
राजा इन्द्रगिरिकी स्त्री  
७१।४२५  
मेरुमालिनी-मथुराके रा-  
अनन्तवीर्यकी स्त्री ५९।३०  
मैत्रेय-भगवान् महावीरका ग-  
धर ७४।३७३  
मौण्डकौशिक-चण्डकौशिक आ-  
सोमश्रीका पुत्र ६२।२१४  
मौन्द्र-भगवान् महावीरका ग-  
धर ७४।३७३  
मौर्य-भगवान् महावीरका गण-  
धर ७४।३७३

[ य ]

यक्ष-पलाशकूटके यक्षवत्त गृहस  
की यक्षदत्ता नामक स्त्री  
उत्पन्न पुत्र ७१।२७९  
यक्ष-शास्त्रामका रहनेवाला  
एक गृहस्थ ७१।३९०  
यक्षदत्त-पलाशकूटका राजा  
७१।२७८



यक्षदत्ता—पलाशकूटके राजा यक्ष-  
दत्तकी स्त्री ७१।२७९  
यक्षदेवी—शालिग्रामके विवासी  
यक्ष और देवसेनाकी पुत्री  
७१।३९०  
यक्षमाली—किन्नरपुरका राजा,  
नमिका मामा ७१।३७२  
यक्षमित्र—श्रीचन्द्राका भाई  
७५।४९१  
यक्षिल—यक्षदत्त और यक्षदत्ता-  
का दूसरा पुत्र ७१।२७९  
यक्षिल—कृष्णका पूर्वभवका भाई  
जो महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ  
था ७१।३७९  
यक्षिला—भगवान् धरनाथके संभ  
की एक प्रमुख आयिका ६५।४३  
यक्षी—भगवान् नेमिनाथके संभ-  
की एक प्रमुख आयिका  
७१।१८६  
यतिवर—एक मुनि ६७।३६६  
यतिवृषभ—एक मुनि ६४।७  
यमधर—एक मुनि ७१।४७७  
यमुनादत्ता—मथुराके भानुदत्त  
सेठकी स्त्री ७१।२०३  
यशस्वती—राजा विश्वसेनकी  
स्त्री ६३।४१४  
यशस्वती—पुष्पागपुरके राजा  
हेमामकी स्त्री ७१।४३०  
यशस्वती—एक आयिका  
७५।३२  
यशोधर—एक मुनिका नाम  
४८।६७  
यशोधर—एक मुनि, जिनके पास  
अपराजित बलमन्त्रने वीक्षा  
ली थी ६३।२६  
यशोधर—एक मुनि ७०।५४  
यशोधर—एक चारणशुद्धिधारी  
मुनि ७१।४३०  
यशोधरा—वैदूर्य देवका जीव—  
श्रीधराकी पुत्री ५९।२३०  
यशोधरा—इन्द्रदत्तकी स्त्री  
६३।९२

यशोधरा—राजा वज्रदत्तकी स्त्री.  
७६।१४०  
यशोबाहु—आचाराङ्ग के ज्ञाता  
एक मुनि ७६।५२५  
यशोमद्—आचाराङ्गके ज्ञाता  
एक मुनि ७६।५२५  
यादव—श्रीकृष्ण आदि ७१।७  
युगन्धर—विदेहके एक तीर्थंकर  
५८।७  
युद्धवीर्य—एक विद्या ६२।२७१

## [ र ]

रघु—कौशाम्बीके राजा मधवा  
और रानी वीतशोकाका पुत्र  
७०।६४  
रघु—सुमुखका मित्र एक राजा  
७०।७९  
रङ्गतेजस्—राजपुरका एक नट  
७५।४६७  
रत्ति—कुवेर की एक देवी  
६३।१६  
रति—एक देवी ६३।२८९  
रतिवेगा—अनुपमाका जीव—  
एक कबूतरी ७५।४५७  
रतिपेण—पृथिवीनगरके राजा  
जयसेन और रानी जयसेना  
का पुत्र ४८।५९  
रतिपेण—विदेहक्षेत्रके पुष्कला-  
वती देश सम्बन्धी पुण्डरीक  
किणी नगरीका राजा—भग-  
वान् सुमतिनाथका तृतीय  
पूर्वभवका जीव ५१।३  
रतिपेणा—एक देवी ६३।२८९  
रत्नकण्ठ—अश्वश्रीवका पुत्र  
६३।१३५  
रत्नश्रीव—अश्वश्रीव—कनकचित्रा  
का पुत्र ६२।६०  
रत्नचूड—अश्वश्रीव और कनक-  
चित्राका पुत्र ६२।६०  
रत्नतेजस्—राजपुरका एक सेठ  
७५।४५१

रत्नमाला—राजा अतिवेग और  
प्रियकारिणी की पुत्री, वज्रा-  
युधकी स्त्री—श्रीधराका जीव  
रत्नमाला—राजपुरके सेठ रत्न-  
तेजकी स्त्री ७५।४५१  
रत्नरथ—अश्वश्रीव और कनक-  
चित्रा का पुत्र ६२।६०  
रत्नवती—विदेह नगरके राजा  
गोपेन्द्र और उनकी स्त्री  
पृथिवीसुन्दरीकी पुत्री  
७५।६४४  
रत्नसेन—रत्नपुरका राजा  
६३।१२७  
रत्नाङ्गद—अश्वश्रीव और कनक-  
चित्राका पुत्र ६२।६०  
रत्नायुध—वज्रायुध और रत्न-  
मालाका पुत्र — यशोधरा  
आयिकाका जीव ५९।२४३  
रत्नायुध—वज्रायुधका पुत्र  
५९।२४६  
रत्नायुध—अश्वश्रीवका पुत्र  
६३।३५  
रमण—वाराणसीके वनदेव वैश्य  
और उसकी स्त्री जिनदत्ताका  
पुत्र ७६।३१९  
रम्भा—एक देवी ६३।१३६  
रविकीर्ति—रावणका सेनापति  
६८।३३१  
रविचूल—उेरहवें स्वर्गके मन्द्या-  
वर्त. विमानमे उत्पन्न हुए  
अमितेज विद्याधरका जीव  
एक देव ६२।४१०  
रश्मिवेग—सूर्यवर्त और यशो-  
धराका पुत्र—राजा सिंहसेनका  
जीव, जो श्रीधर देव था  
५९।२३१  
रश्मिवेग—पीदनपुरके राजा  
विजयका पुत्र ६२।२७५  
रश्मिवेग—त्रिलोकोत्तम नगरके  
राजा विद्युद्गत विद्याधरकी  
स्त्री विद्युत्मालाका पुत्र—मर-

भूतिके जीव वज्रघोष हाथी-  
 षा जीव ७३।२६  
 रसायनपाक-सिंहपुरके स्वामी  
 कुम्भका रसोद्घा ६२।२०६  
 राक्षस-पलाशपुरका राजा  
 ७५।११६  
 राघव-रामचन्द्र ६८।४२४  
 राघवानुज-लक्ष्मण ६८।६४५  
 राजगुप्त-शङ्खपुरका राजा  
 ६३ २४६  
 राजसिंह-एक राजा जिसने  
 राजगृहीके राजा सुमित्रको  
 जीता था ६१।५९  
 राजीमति-राजा उग्रसेन और  
 रानी जयावतीकी पुत्री  
 जिसका विवाह भगवान्  
 नेमिनाथ के साथ होना  
 निश्चित हुआ था ७१।१४५  
 राम्रिपेणा-पद्मप्रभ भगवान्के  
 संघस्थ आधिकाओमें प्रमुख  
 आधिका ५२।६३  
 राधा-चम्पापुरके राजा आदि-  
 त्यकी स्त्री ७०।११३  
 राम-बलभद्र ५७।९७  
 राम-शब्द बलभद्र ६७।८९  
 राम-वाराणसीके राजा दशरथ  
 और सुबाला रानीका पुत्र  
 ६७।१५०  
 रामदत्ता-सिंहपुरके राजा सिंह-  
 सेनकी स्त्री ५९।१४६  
 रामदत्ता-पोदनपुरके राजा पूर्ण-  
 चन्द्र और हिरण्यवतीकी  
 पुत्री-यह मथुराका जीव था  
 ५९।२१०  
 रावण-लङ्काका राजा ६७।१७७  
 रावणानुज-विभीषण ६८।६३६  
 राष्ट्रकूट-बृहन्नमका एक वैश्य  
 ७६ १५३  
 रक्सिणी-कृष्णकी एक पट्टरानी  
 ७१।१२६

रुक्मी-जरासन्धके पक्षका एक  
 राजा ७१।७७  
 रुद्रि-जरासन्धके पक्षका एक  
 राजा ७१ ७८  
 रुद्र-सुकौशल देशकी अयोध्या  
 नगरीका राजा ७१।४१६  
 रुद्रदत्त-विनीता नगरीका एक  
 ब्राह्मण ७०.१५२  
 रुद्रदत्त-राजा सत्यन्धरका पुरो-  
 हित ७५।१९०  
 रूपश्री-राजगृहीके घनदत्त सेठ  
 और जनश्रीकी पुत्री ७६।४८  
 रेणुकी-राजा पारतकी एक  
 छोटी कन्या ६५।९०  
 रेवती-नन्दयथाकी चात्री  
 ७१।२६४  
 रेवती-बृहन्नमके राष्ट्रकूट  
 वैश्यकी स्त्री ७६।१५२  
 रैवत-आगामी पन्द्रहवें तीर्थकर-  
 का जीव ७६।४७३  
 रोहिणी-अरिष्टपुरके राजा  
 हिरण्यवर्मा और रानी पद्मा-  
 वतीकी पुत्री ७०।३०७  
 रोहिणी-चन्द्रमाकी देवी  
 ७१।४४५

[ ल ]

लक्ष्मण-शत्रुघ्न नारायण ६७।८९  
 लक्ष्मणा-चन्द्रपुरके राजा महा-  
 सेनकी स्त्री-भगवान् चन्द्र-  
 प्रभकी माता ५४।१६४  
 लक्ष्मणा-विद्यालभूतिकी स्त्री  
 ५७।७३  
 लक्ष्मणा-कृष्णकी एक पट्टरानी  
 ७१।१२६  
 लक्ष्मणा-सुप्रकारपुरके राजा  
 शम्बर और रानी श्रीमतीकी  
 पुत्री-कृष्णकी एक पट्टरानी  
 ७१।४१०  
 लक्ष्मणा-राजगृहके राजा विश्व-  
 भूतिके छोटे भाई विशाखभूति  
 की स्त्री ७४।८८

लक्ष्मीमति-लक्ष्मीग्रामके सोम  
 ब्राह्मणकी स्त्री ७१।३१७  
 लक्ष्मीमती-वज्रापुष्पकी स्त्री  
 ६३।४४  
 लक्ष्मीमती-चक्रपुरके राजा  
 वरसेनकी स्त्री ६५।१७७  
 ललितान्न-एक धूर्त विद ७६।९४  
 ललितान्नद-त्रिपुरका राजा  
 ६२।६७  
 लोकायल-पद्मावतीका भाई  
 ७५।४००  
 लोकसेन-गुणभद्रका विद्य  
 प्रशस्ति।२८  
 लोकादित्य-वनवासका राजा  
 प्रशस्ति।३२  
 लोह-आषारान्नके ज्ञाता एक  
 मुनि ७६।५२६  
 लोहजङ्घ-हिरविक्रमके पुत्र वन-  
 राजका मित्र ७५।४८१

[ व ]

वकुल-राजा सत्यन्धरकी  
 श्वशुरताका स्त्रीसे उत्पन्न  
 पुत्र ७५।२५५  
 वज्र-पुण्डरीकिणी नगरीका  
 एक वैश्य ७१।३६६  
 वज्रकण्ठ-श्लोकाके राजा मयूर-  
 शीवका पुत्र ६२।९  
 वज्रघोष-एक हाथी-महभूति-  
 का जीव ७३।१२  
 वज्रचाप-वत्सालयका राजा  
 ७०।७६  
 वज्रचामर-भगवान् पद्मप्रभका  
 प्रमुख गणधर ५२।५८  
 वज्रतुण्ड-काञ्चनाका सुर्गा  
 ६३।१५२  
 वज्रदन्त-एक महामुनि  
 ५९।२४८  
 वज्रदन्त-पुष्कलावती देशकी  
 पुण्डरीकिणी नगरीका राजा  
 ७६।१३९

वज्रनाभि—अश्वपुरके राजा	वप्रश्री—साकेतके बहूदास सेठकी	वरुण—कंसका निमित्तज्ञान
वज्रवीर्य और रानी विजया-	स्त्री ७२।२६	७०।४१२
का पुत्र ७३।३२,	वपिला—मिथिलाके राजा	वरुणा—कमठकी स्त्री ७३।१०
वज्रबाहु—कौशल देशमें स्थित	विजय महाराजकी स्त्री—	वरुणार्थ—एक मुनि ७२।२३५
अयोध्याका राजा ७३।४२	भगवान् नमिनाथकी माता	वर्धमान—भगवान् महावी
वज्रमालिनी—त्रिपुर नगरके	६९।२५	७४।१
राजा वज्राङ्गदकी स्त्री	वरचन्द्र—चन्द्रप्रथम भगवान्का	वसन्तसेना—समुद्रसेन और जय
६३।१५	पुत्र ५४।२१३	सेनाकी पुत्री ६३।११९
वज्रमाली—एक विद्याधर	वरचन्द्र—आगामी छठवाँ बल-	वसन्तसेना—चम्पापुरकी ए
७०।१०४	भद्र ७६।४८६	वेश्या ७२।२५८
वज्रमुष्टि—राजा सिंहसेनका एक	वरचर्म—एक केवली ६९।७५	वसिष्ठ—जठरकौशिक वस्तीक
मल्ल ५९।१७५	वरतल्लु—वैजयन्त गोपुरका अधि-	स्वामी एक तापस ७०।३२३
वज्रमुष्टि—दृढप्रहार्य (दृढगहार)	ष्ठाता एक देव ६८।६५१	वसु—राजा विश्वावसु और श्री
और वप्रश्रीका पुत्र ७१।२१०	वरदत्त—सगर चक्रवर्तिके पुत्र	मतीका पुत्र ६७।२५७
वज्रवीर्य—ब्रम्हद्वीप सम्बन्धी	भगीरथका पुत्र ४८।१३८	वसुगिरि—चम्पापुरके राज
विदेहक्षेत्रके पद्मदेशमें स्थित	वरदत्त—एक केवली ६९।८८	मार्कण्डेयकी सन्तति ७०।९२
अश्वपुरका राजा ७३।३२	वरदत्त—एक राजा, जिसने भग-	वसुदेव—अश्वकवृष्टि और सु
वज्रसेन—साकेत नगरका एक	वान् नेमिनाथकी मुनि अत्र-	का पुत्र ७०।९७
राजा ७४।२३१	स्थामे प्रथम आहार दिया था	वसुदेवसुत—श्रीकृष्ण ७१।८९
वज्राङ्गद—त्रिपुर नगरका राजा	७१।१७५	वसुधा—मिथिलाके रा
विद्याधर ६३।१५	वरदत्त—भगवान् नेमिनाथका	जनककी स्त्री। ६८।२७
वज्रायुध—चक्रपुरके राजा क्षप-	प्रमुख गणधर ७१।१८२	वसुन्धर—ऐरावत क्षेत्रके श्रीपु
राजित और रानी चित्रमाला	वरदत्त—भगवान् , नेमिनाथके	नगरका राजा ६९।७४
का पुत्र—यह रविमवेगका	गणधर ७२।२	वसुन्धरकुमार—जीवन्धर का
जीव था ५९।२४०	वरदत्त—वनपाल और श्रीदत्ता-	गन्धर्वदत्तासे उत्पन्न पुत्र
वज्रायुध—चक्रायुधका पुत्र	का पुत्र ७५।२५९	७५।६८१
५९।२४५	वरधर्म—एक मुनि ५९।१८९	वसुन्धरा—प्रभाकरीपुरीके रा
वज्रायुध—रत्नसंघय नगरके	वरधर्म—एक चारण ऋद्धिचारी	स्तिमितसागरकी स्त्री
राजा क्षेमंकर और रानी	मुनि ६२।७३	६२।४१३
कनकचित्राका पुत्र ६३।३९	वरधर्म—उज्जैनके श्मशानमें	वसुन्धरा—राजा सुमित्रकी
चटवृक्ष—हरिविक्रमका सेवक	स्थित एक मुनि ७१।२१७	७५।४३९
७५।४८०	वरधर्म—एक मुनि ७१।३१०	वसुन्धरा—महासेन और सुन्दर
वनमाला—कौशाम्बीके सुमुख	वरधर्मयति—एक मुनि ७५।६७४	की पुत्री ७६।२६५
सेठकी स्त्री ७०।६७	वरसेन—दृढरथ और सुमतिक	वसुन्धरा—बहू कन्या जो भू
वनमाला—श्रीतशोक नगरके	पुत्र ६३।१४८	बनकर रहती थी और प्रीति
राजा महापद्मकी, स्त्री ७६।	वरसेन—एक राजपुत्र ६३।१६२	करकी विवाही गयी ७६।३४
१३१	वरसेन—चक्रपुरका राजा	वसुन्धरी—इवेतविकाके रा
वनराज—हरिविक्रम भीलोंने	६५।१७६	वासवकी स्त्री ७१।२८३
राजाका पुत्र ७५।४८०	वरसेन—महासेन और सुन्दरी-	वसुन्धरी—अरविन्दकी स्त्री
वप्रश्री—दृढप्रहार्य (दृढप्रहार)	का पुत्र ७६।२६५	७३।१०
की स्त्री ७१।२१०		

वसुपूज्य-भगवान् वासुपूज्यके  
पिता ५८।१  
वसुमती-अरिष्टपुरके राजा  
वासवकी स्त्री ७१।४०१  
वसुभिन्न-देविलाका पति  
७१।३६१  
वागलि-भागामी उन्नोसर्वे तीर्थ-  
ङ्करका जीव ७६।४७४  
वासुभूति-सोमदेव और अग्नि-  
ला नामक ब्राह्मण दम्पतिकी  
पुत्र ७२।४  
वासुभूति-भगवान् महावीरका  
गणधर ७४।३७३  
वासुवेग-इन्द्रदत्त और यणोधरा  
का पुत्र ६३।९२  
वासुवेगा-द्वुतिलकपुर नगरके  
रामा चन्द्राम और रानी सुभद्रा  
की पुत्री ६२.३७  
वासुवेगा-उदयनजटीकी स्त्री  
७४।१३४  
वारुणी-द्वुद्वग्रामके दृगामण  
ब्राह्मण और मधुरा ब्राह्मणी-  
की पुत्री ५९।२०८  
वालि-त्रलीन्द्र और प्रियङ्गु-  
सुन्दरीका पुत्र ६८।२७३  
वासव-श्वेतविका नगरका राजा  
७१।२८३  
वासव-विदर्भ देशके कुण्डलपुर-  
का राजा ७१।३४१  
वासव-अरिष्टपुरका राजा  
७१।४००  
वासुदेव-कृष्ण ७१।१६३  
वासुदेव-भागामी सोलहवें  
तीर्थङ्करका जीव ७६।४७३  
वासुपूज्य-मातृहृद्वे तीर्थङ्कर  
६१।८९  
विचित्रचूल-एक देव ६३।४९  
विचित्रमति-मन्त्री चित्रमति  
और उसकी स्त्री कमलाका  
पुत्र ५९।२५६  
विचित्रवाहन-भागामी दसवाँ  
चक्रवर्ती ७६।४८४

विजय-पोदनपुरके राजा प्रजा-  
पतिकी जयावती स्त्रीका पुत्र  
५७।८६  
विजय-पोदनपुरके राजा प्रजा-  
पति और उनकी भद्रा स्त्रीका  
पुत्र ६२।९२  
विजय-तिलक नगरके राजा  
अभयघोष और रानी सुवर्ण-  
तिलकाका पुत्र ६३।१६९  
विजय-भगवान् मुनिमुन्नतका  
पुत्र ६७।३९  
विजय-रत्नपुरके राजा प्रजा-  
पतिके मन्त्रोक्ता पुत्र ६७।९१  
विजय-एक देव ६७ १४६  
विजय-एक विद्याधर ६८।३९०  
विजय-वत्सदेशकी कौशाम्बी  
नगरीका राजा ६९।७९  
विजय-अश्वकवृष्ट और  
सुभद्राका पुत्र ७०।९६  
विजय-यादव पक्षका एक राजा  
७१।७३  
विजय-उज्जयिनीका एक राजा  
७१।४४३  
विजय-एक चारण ऋद्धिके  
घारक मुनि ७४।२८२  
विजय-भागामी इन्कीसर्वे तीर्थ-  
कर ७६।४८०  
विजय-इक्ष्वाकुके घारक एक  
मुनि ७६।५२२  
विजय-भगवान् नमिनाथका मुख्य  
प्रणकर्ता ७६।५३२  
विजयगिरि-जीवन्धरका एक  
हाथी ७५।३८२  
विजयघोष-प्रद्युम्नके एक शत्रु-  
का नाम ७२।११०  
विजयदेव-मगधदेशके शात्मलि  
ग्रामका राजा ७१।४४६  
विजयमन्दन-विश्वपुरका राजा  
७१।४४०  
विजयपर्वत-लदमणका हाथी  
६८।४६

विजयमद्र-प्रभाकरीपुरीके राजा  
नन्दनका पुत्र ६२।७६  
विजयमद्र-त्रिपुष्ठना रायण और  
स्वयंप्रभाका पुत्र ६२।१५३  
विजयमद्र-विजय बलमद्रका  
द्वितीय पुत्र ६२।१६६  
विजयमति-राजपुरका एक  
श्रावक ७९।२५६  
विजयमहाराज-मिथिलाका  
राजा ६९।१९  
विजयराम-रामचन्द्रका पुत्र  
६८।६९०  
विजयसेना-साकेत-अयोध्याके  
राजा जितशत्रुकी रानी—  
भगवान् अजितनाथकी माता  
४८।२२  
विजया-खगपुरके राजा सिंह-  
सेनकी रानी ५१।७०  
विजया-अपरारिज बलमद्रकी  
स्त्री ६३।४  
विजया-भगवान् कुन्धुनाथकी  
पालकी ६४ ३८  
विजया-अश्वपुरके राजा वज्र-  
वीर्यकी स्त्री ७३।३२  
विजया-राजा सत्यन्धरकी स्त्री  
७५।१८९  
विजयी-विजय नामक अनुत्तर-  
का वासी अहमिन्द्र-भगवान्  
अभिनन्दननाथका पूर्वभवका  
जीव ५०।६९  
विदर्भ-भगवान् पुष्यदन्तका  
प्रमुख गणधर ५५।५२  
विदुर-व्यास और सुभद्राका  
पुत्र ७०।१०३  
विदुर-यादव पक्षका एक राजा  
७१।७६  
विद्युच्चोर-पोदनपुरके राजा  
विद्युद्राजका पुत्र विद्युत्प्रभ  
'विद्युच्चोर' नामसे प्रसिद्ध  
हूया ७६।५५

- विद्युद्गति-त्रिलोकोत्तम नगर-  
का राजा एक विद्याधर  
७३।२६.
- विद्युत्प्रम-भेषवाहन और भेष-  
मालिनीका पुत्र ६२।७२
- विद्युत्प्रम-पोदनपुरके राजा  
विद्युद्वाजका पुत्र ७६।५३
- विद्युत्प्रसा-श्रीषेण राजाकी  
सिंहनन्दिता रानीका जीव,  
सौधर्म स्वर्गके श्रीनिलय  
विमानमे देवी हुई ६२।३७५
- विद्युद्दंष्ट्र-एक दुष्ट विद्याधर  
५९।११७
- विद्युद्दंष्ट्र-ननकश्रीका भाई  
६२।५०३
- विद्युद्दंष्ट्र-अलकाका राजा  
६३।२४१
- विद्युद्दंष्ट्र-राजा कालसंवरके  
पाँचवी पुत्रोमे प्रमुख पुत्र  
७२।८५
- विद्युद्देग-गगनवल्लभ नगरका  
राजा ७१।४१९
- विद्युद्देगा-गगनवल्लभ नगरके  
राजा विद्युद्देगकी स्त्री  
७१।४२०
- विद्युद्देगा-विद्युन्माली इन्द्रकी  
देवी ७६।३३
- विद्युद्वाज-सुरम्यदेशके पोदन-  
पुरका राजा ७६।५३
- विद्युन्मति-वीतशोक नगरके  
राजा चक्रवर्जकी दूसरी स्त्री  
६२।३६६
- विद्युन्माला-वत्सालयके राजा  
वज्राचाप और रानी सुभद्राकी  
पुत्री—वनमालाका जीव  
७०.७७
- विद्युन्माला-विद्युद्गतिकी स्त्री  
७३।२७
- विद्युन्माली-ब्रह्मस्वर्गका इन्द्र  
७६।३२
- विद्युल्लता-गुणमालाकी दासी  
७५।३५२
- विद्युल्लेला-कान्तपुरके राजा  
सुवर्णवर्माकी स्त्री ७५।८१
- विनमि-भगवान् आदिनाथके  
सालेके लड़के
- विनयन्धर-श्रीपुरके राजा  
वसुन्धरका पुत्र ६९।७६
- विनयन्धर-एक मुनिराज  
७२।१५४
- विनयन्धर-एक मुनि ७५।४१२
- विनयवती-राजगृहीके वैश्रवण  
दत्त सेठकी स्त्री ७६।४७
- विनयश्री-अधोष्ठाके राजा  
रुद्रकी स्त्री ७१।४१७
- विनयश्री-उज्जयिनीके राजा  
विजय और रानी अपरा-  
जिताकी पुत्री—हृस्तिशीर्षपुर  
के राजा हरिवेणकी स्त्री  
७१।४४४
- विनयश्री-राजगृहीके वैश्रवण-  
दत्त सेठ और विनयवतीकी  
पुत्री ७६।४८
- विन्ध्यशक्ति-मलयदेशके  
विन्ध्यपुरका राजा ५८ ६३
- विन्ध्यसेन-गान्धार देशके  
विन्ध्यपुर नगरका राजा  
६३।९९
- विपुल-आगामी पन्द्रहवें तीर्थ-  
कर ७६।४७९.
- विपुलमति-एक चारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ६२।१६९
- विपुलमति-एक मुनि ६२।४०७
- विपुलमति-एक मुनिराज  
७३।४५
- विपुलमति-एक चारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ७५।३०८
- विपुलमति-एक चारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ७६।२७०
- विपुलमति-एक चारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ७६।३५१
- विभीषण-अर्द्धास और जिन-  
दत्ताका पुत्र—रत्नायुषका  
जीव ५९।२७८
- विभीषण-नारायणका जीव—  
दूसरी पृथिवीमें स्थित  
५९।२८१
- विभीषण-रावणका भाई  
६८।३९२
- विमल-तेरहवें तीर्थकर विमल-  
नाथ ५९।१
- विमल-आगामी बाइसवें तीर्थ-  
कर ७६।४८०
- विमलकीर्ति-विदेहक्षेत्रगत कच्छ  
देश सम्बन्धी क्षेमपुर नगरके  
राजा विमलवाहनका पुत्र  
४९।७
- विमलचन्द्र-उज्जैनका सेठ  
७१।२११
- विमलप्रभ-राजा श्रीषेणकी स्त्री  
अनिन्दिता सौधर्म स्वर्गके  
विमलप्रभ विमानमे विमलप्रभ  
नामका देव हुई ६२।३७७
- विमलप्रभ-एक मुनि ६३।१२१
- विमलप्रभ-एक मुनि ७२।४०
- विमलप्रभा-भगवान् श्रेयान्स-  
नाथकी पालकी ५७।४७
- विमलमति-एक मुनि ६२।४०७
- विमलमति-एक गणिनी  
६३।१२४
- विमलवती-पोदनपुरके राजा  
विद्युद्वाजकी स्त्री ७६।५४
- विमलवाहन-नत्स्यदेशके सु-  
सोमानगरका राजा ४८।४
- विमलवाहन-भगवान् अजित-  
नाथका जीव—सुधीमानगर-  
का राजा ४८।५४
- विमलवाहन-विदेह सम्बन्धी  
कच्छ देशके क्षेमपुर नगरका  
राजा ४९।२
- विमलवाहन-एक मुनि ५०।११
- विमलवाहन-तेरहवें तीर्थकर  
विमलनाथ ५९।२२

बिमलबाहन-विदेहक्षेत्रके एक तीर्थकर ७०।१२  
 बिमलबाहन-एक मुनि ७२।४३  
 बिमलबाहन-बनारसपुरके राजा श्वेतबाहनका पुत्र ७६।९  
 बिमलबाहन-आगामी ग्यारहवाँ चक्रवर्ती ७६।४८४  
 बिमलध्री-नयनपुरके राजा धीधर और रानी श्रीमतीकी पुत्री-मद्रिलपुर नगरके स्वामी मेघनादकी स्त्री ७९।४५३-४५४  
 बिमला-भगवान् चन्द्रप्रभकी पालकी ५४।२१५  
 बिमला-मेघनाहनकी स्त्री ६३।११६  
 बिमला-उज्जैनके बिमलचन्द्र सेठकी स्त्री ७१।२११  
 बिमला-सौधर्म स्वर्णके इन्द्रकी देवी ७२।६५१  
 बिमला-भगवान् पार्श्वनाथकी पालकी ७३।१२७  
 बिमला-राजपुरके सेठ कुमार-दत्तकी स्त्री ७५।३५१  
 बिमला-राजपुरके सागरदत्त सेठकी पुत्री ७५।५८७  
 बिराट-यादव पक्षका राजा ७१।७५  
 बिराट-बिराट नगरका राजा ७२।२१६  
 बिराट-भगवान् मच्छिनाथका प्रमुख गणधर ६६।५०  
 बिराटनन्दी-विशालभूमि और लक्ष्मणाका पुत्र ५७।७३  
 बिराटनन्दी-बिराटभूमि और लक्ष्मणाका पुत्र ७४।८८  
 बिराटभूमि-बिराटभूमि का छोटा भाई ५७।७४  
 बिराटभूमि-राजा विश्वभूमि-का छोटा भाई ७४।८८  
 बिराटभूमि-रत्नपुरके घरके एक मुनि ७६।५२१

बिराला-सिन्धुनदीके बासी युगायण तापसकी स्त्री ७०।१४२  
 विश्वदेव-मङ्गलायती देशके रत्नसञ्चय नगरका राजा ७१।३८७  
 विश्वनन्दी-विश्वभूमि और जैनीका पुत्र ५७।७२  
 विश्वनन्दी-राजगृह नगरके राजा विश्वभूमि और रानी जैनीका पुत्र ७४।८७  
 विश्वनन्दी-भगवान् महावीरके पूर्वभवका जीव ७६।५३८  
 विश्वभू-राजा सगरका मन्त्री ६७।२१८  
 विश्वभूमि-राजगृहका राजा ५७।७४  
 विश्वभूमि-पोदनपुरका एक ब्रह्मण ७३।८  
 विश्वभूमि-राजगृह नगरका राजा ७४।८६  
 विश्वसेन-अजितसेन और प्रियदर्शनाका पुत्र ६३।३८३  
 विश्वसेन-जम्बूद्वीपके विदेह-क्षेत्रकी चाराणसी नगरीका राजा ७३।७५  
 विश्वाचसु-स्वतिकावतीका राजा ६७।२५७  
 विष्णु-सिन्धुका राजा-भगवान् श्रेयान्सनाथके पिता ५७।१८  
 विष्णु-हस्तिनापुरके राजा मेघरथ और रानी पद्मावतीका पुत्र ७०।२७४  
 विष्णु-कृष्ण ७२।१८१  
 वीरमय-जह्दाम और सुवना-का पुत्र-रत्नमालका जीव ५९।२७८  
 वीरशोका-कौशाम्बीके राजा मघवाकी स्त्री ७०।६४

वीरदत्त-कविज्ञ देशके दन्तपुर-नगरका एक सेठ ७०।६६  
 वीरनन्दी-एक मुनि ७५।२८१  
 वीरमद्-एक चारण ऋद्धि-धारी मुनि ७०।३२४  
 वीरवती-छत्राकारपुरके राजा नन्दिवर्धनकी स्त्री ७४।२४३  
 वीरसेन-भगवान् महावीर ७३।३  
 वीरसेन-जिनसेनके गुरु ७६।५२८  
 वीरराज-चन्द्राचर्यके शिष्य एक मुनि-पञ्चमकालके अन्तिम मुनि ७६।४३२  
 वृषभ-एक रथ ७२।१११  
 वृषभदत्त-एक सेठ ७४।३४०  
 वृषभदत्त-राजपुरका एक सेठ ७५।३१४  
 वृषभध्वज-विद्याला-उज्जैनका राजा ७१।२०९  
 वृषभसेन-भगवान् मुनिमुत्रव-नाथको प्रथम आहारदान देने वाला ६७।४५  
 वृषभसेन-कौशाम्बीका एक सेठ ७५।५२  
 वृषसेन-जरासन्धके पक्षका एक राजा ७१।७८  
 वैजयन्त-गन्धमालिनी देशके वीरशोक नगरका राजा ५९।११०  
 वैजयन्त-सञ्जयनका पुत्र ५९।११२  
 वैजयन्ती-भगवान् अरनाथकी पालकी ६५।३३  
 वैजयन्ती-बनपुरके राजा बर-सेनकी स्त्री ६५।१७७  
 वैदूर्य-महाशुक स्वर्णके वैदूर्य विमानका देव-पूर्णचन्द्रका जीव ५९।२२६  
 वैरीचन्-अरुण वृन्तारोके देव ७१।४२

वैश्रवण-जम्बूद्वीप सम्बन्धी कच्छ-  
कावती देशके वीतशोकपुरका  
राजा ६६।२  
वैश्रवण-एक सेठ ७० १७४  
वैश्रवण-राजपुरका एक सेठ  
७५।२४८  
वैश्रवणदत्त-राजगृहीका एक सेठ  
७६।४७  
चोद्रक-अभयकुमारका एक  
बनावटी वैष व्यापारी ७५।२९  
व्यास-पराशरकी स्त्री सत्यवती  
का पुत्र ७०।१०३

[ श ]

शक्ति-हस्तिनापुरका राजा  
७०।१०२  
शक्तिसैन-एक राजपुत्र ६३।१६२  
शङ्ख-मन्दार नगरका राजा  
६३ १७७  
शङ्ख-एक मुनि ७०।२०६  
शङ्ख-श्वेतवाहन और बन्धुमती-  
का पुत्र-सुभानुका जीव  
७१।२६१  
शङ्ख-आगामी आठवें तीर्थकर-  
का जीव ७६।४७२  
शङ्खिका-शङ्खपुरके राजा राज-  
गुप्तकी स्त्री ६३।२४६  
शतकी-हस्तिनापुरके राजा शक्ति-  
की स्त्री ७०।१०२  
शतश्रीव-सहस्रश्रीवका पुत्र  
६८ १०  
शतघोष-अशनिघोषका पुत्र  
६२।२७६  
शतबली-सहस्रयुधका पुत्र  
६३।१३८  
शतबली-बलीन्द्रका पुत्र  
६६।११७  
शतबिन्दु-अश्वश्रीवका निमित्त-  
ज्ञानी ६२।६१  
शतबिन्दु-अश्वश्रीवका निमित्त-  
ज्ञानी ६२।११५

शतबिन्दु-राजा सहस्रबाहुका  
काका ६५।५९  
शतानीक-कौशाम्बीका राजा  
७५।९  
शत्रुघ्न-राजा दशरथका पुत्र  
६७।१६५  
शत्रुघ्न-वसुदेव और देवकीका  
पुत्र ७१।२९६  
शत्रुमर्दन-हरिविक्रमका सेवक  
७५।४८१  
शम्भव-क्रीडवका जीव-कृष्ण  
का जाम्भवती रानीसे उत्पन्न  
पुत्र ७२।१७४  
शम्बर-सुप्रकार नगरका राजा  
७१।४०९  
शम्बर-कमठका जीव-एक  
ज्योतिष्क देव ७३।११७  
शल्य-जरासन्धके पक्षका एक  
राजा ७१।७८  
शशाङ्क-आगामी ग्यारहवें तीर्थ-  
करका जीव ७६।४७३  
शाण्डिल्य-विश्वमतिकका बड़ा  
भाई एक तापस ६५।११५  
शाण्डिल्य-राजगृहका एक वेदज्ञ  
ब्राह्मण ७४।८३  
शान्तव-वाराणसीके वनदेव और  
त्रिनदत्ताका पुत्र ७६।३१९  
शान्ति-सोलहवें तीर्थकर शान्ति-  
नाथ ६२।१  
शान्तिमति-वायुवेग और  
सुकान्ताकी पुत्री ६३ ९४  
शाङ्ग-लक्षणका घनुष ६८।६७६  
शाङ्गधर-कृष्ण ७१।६८  
शालङ्कायन-एक ब्राह्मण ७४।७८  
शाल्मलिदत्ता-दिन्नर नगरके  
राजा अशनिवेग और रानी  
पवनवेयाकी पुत्री ७०।२५५  
शिवकुमार-विदेह क्षेत्रके वीत-  
शोक नगरके राजा महापद्म  
और रानी वनमालाका पुत्र  
७६।१३१

शिवगुप्त-एक मुनि ४८।१३९  
शिवगुप्त-एक मुनिराज जिनके  
पास सनत्कुमार चक्रवर्तिनि  
कोशा ली थी ६१।११८  
शिवगुप्त-विदेहके एक तीर्थकर  
६६।७३  
शिवगुप्त-एक मुनिराज ६६।१०५  
शिवगुप्त-एक बबली ६८।७०८  
शिवगुप्त-एक मुनिराज ७५।७८  
शिवघोष-एक मुनि ६५।१९०  
शिवघोष-एक मुनि ६८।४६८  
शिवदेवी-द्वारवतीके राजा  
समुद्रविजयकी स्त्री-मगवान्  
नेमिनाथकी माता ७१।३०  
शिवभूति-अग्निमित्रका ब्राह्मण  
स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र ७५।७२  
शिञ्जुपाल-कोसला नगीके  
राजा शेषज और रानी मद्र-  
का पुत्र ७१।३४२  
शिञ्जुपाल-पटनाका राजा  
७६।३९८  
शीतल-दशम तीर्थकर शीतल-  
नाथ ५६।१  
शीता-अचलकी स्त्री ७०।९९  
शीलगुप्त-राजपुरके निकट  
विद्यमान एक मुनि ७५।१९८  
शीलदत्त-एक मुनि ७५ १००  
शीलदत्त-एक मुनि ७५।१३८  
शीलवती-साकेतनगरके राजा  
बज्रसेनकी स्त्री ७४।२३१  
शुक्लप्रभा-सत्यभामा ब्राह्मणी-  
का जीव-विमलप्रभ विमान-  
से देवी हुई ६२।३७६  
शुभा-राजगृहके एक ब्राह्मणकी  
पुत्री ७४।४५५  
शूरदेव-सेठ मानुवत्ताका पञ्चम  
पुत्र ७१।२०४  
शूरवीर-शौर्यपुरके राजा शूर-  
सेनका पुत्र ७०।९३  
शूरवीर-क्षविरसार शीलका  
साला ७४।४०१

शूरसेन—हस्तिनापुरके राजा—  
भगवान् कुन्धुनाथके पिता  
६४।१९

शूरसेन—शौर्यदेशका राजा  
७१।२०२

शूरसेन—मेठ भानुदत्तका सातवाँ  
पुत्र ७१।२०४

श्यामलवत्—एक व्याघ्र ५९।२२१

श्यामलता—सुरमञ्जरीकी दासी  
७५।३४९

श्यामलता—मगधदेशके राजा की  
पुत्री ७०।२५१

श्यामला—पवनवेग विद्याघरकी  
स्त्री ७१।३६९

श्वेनक—विनीता—अयोध्याका  
कोतवाल ७०।१५४

श्री—एक देवी ५४।१६९

श्री—एक देवी ६३।२००

श्रीकान्त—श्रीवर्माका पुत्र ४४।८०

श्रीकान्त—आगामी सातवाँ चक्र  
वर्ती ७६।४८३

श्रीकान्ता—मुगल्वि देशके श्रीपुर  
नगरके राजा श्रीपेणकी स्त्री  
५४।३९

श्रीकान्ता—कौशाम्बीके राजा  
महाव ४ नोर श्रीमतकी पुत्री  
६२।३५१

श्रीकान्ता—हस्तिनापुरके राजा  
शूरसेनकी स्त्री—भगवान्  
कुन्धुनाथकी माता ६४।१३

श्रीकान्ता—नन्दपुरके राजा हरि-  
पेणकी स्त्री ७१।२५४

श्रीकान्ता—पुण्डरीकिणी नगरीके  
राजा अशोक और सोमश्रीकी  
पुत्री—कृष्णकी सुभीमा पट्ट-  
रानीका जीव ७१।३९४

श्रीकान्ता—साकेतनगरके राजा  
श्रीपेणकी स्त्री ७२।२५४

श्रीचन्द्र—कुडवाङ्गल देशके  
हस्तिनापुरका राजा ७०।५१

श्रीचन्द्र—आगामी नौवाँ बख्श  
७६।४८६

श्रीचन्द्रा—राजा सुमित्र और  
रानी वसुन्धराकी पुत्री  
७५।४३९

श्रीचन्द्रा—नन्दाडचकी स्त्री  
७५।५२०

श्रीदत्त—विजयका पुत्र ६२।४०८

श्रीदत्त—रत्नपुर वैश्वर्या सेठ  
और गोतमा सेठानीका पुत्र  
६७।९३

श्रीदत्त—राजा सिद्धार्थका पुत्र  
६९।१४

श्रीदत्ता—शङ्खनगरके देविल  
वैश्य वन्धुश्रीकी पुत्री—घन-  
श्रीका जीव ६२।४९५

श्रीदत्ता—विन्ध्यपुर नगरके घन-  
मित्र वणिक्की स्त्री ६३।१००

श्रीदत्ता—पर्णकान्ता नदीके सट-  
पर रहनेवाले सोमतापसकी  
स्त्री ६३।२६७

श्रीदत्ता—घनपाल ठी स्त्री  
७५।२५८

श्रीधर—प्रथमस्वर्गके श्रीप्रभ  
विमानका देव—श्रीवर्माका  
जीव ५४।८२

श्रीधर—एक मुनिराज ५४।१४३

श्रीधर—भोगवर्द्धन नगरका  
राजा ५८।९१

श्रीधर—सह्यारस्वर्गके रविगिय  
विमानका एक देव—राजा  
सिंहसेनका जीव ५९।२१९

श्रीधर—जयन्तपुरका राजा  
७१।४५३

श्रीधर—एक मुनिराज ७४।९१

श्रीधरा—रामदत्ताका जीव—  
अतिवेग विद्याघरकी पुत्री  
५९।२२९

श्रीधर—अयोध्याके राजा  
श्रीवर्मा और रानी सुंसीमाका  
पुत्र—विभीषण नारायणका  
जीव ५९।२८३

श्रीधर—एक नदी ६३।१५८

श्रीनाग—एक मुनि ६६।१३

श्रीनागजिन—एक मुनि ६७।८५

श्रीनागदत्त—एक वैश्य ७५।१२३

श्रीपद्म—एक चारण ऋद्धिधारी  
मुनि ५४।७३

श्रीपद्म—सुवकारपुरके राजा  
शम्बर और श्रीमतीका पुत्र  
७१।४०९

श्रीप्रभ—एक मुनिराज ५४।८१

श्रीप्रभ—श्रीधर्म रवर्गका एक  
देव, जो कि राजा श्रीपेणका  
जीव था ६२।३६५

श्रीभूति—राजा सिंहसेनका  
मन्त्री, इसीका दूसरा नाम  
सत्यघोष प्रसिद्ध था ५९।१४७

श्रीभूति—आगामी छठवाँ चक्र-  
वर्ती ७६।४८३

श्रीमती—कौशाम्बीके राजा  
महावल्की स्त्री ६२।३५१

श्रीमती—शतबिन्दुकी स्त्री—  
राजा पारतकी बहिन ६५।६०

श्रीमती—स्वस्तिकावतीके राजा  
विश्वामसुकी स्त्री ६७।२५०

श्रीमती—हस्तिनापुरके राजा  
श्रीचन्द्रकी स्त्री ७०।५२

श्रीमती—विदर्भ देशके कुण्डल-  
पुरके राजा वासवकी स्त्री  
७१।४४१

श्रीमती—मुपकारनगरके राजा  
शम्बरकी स्त्री ७१।४०९

श्रीमती—जयस्तपुरके राजा  
श्रीधरकी स्त्री ७१।४५३

श्रीमती—अरिष्टपुरके राजा  
हिरण्यवर्माकी स्त्री ७१।४५७

श्रीमती—राजा कुणिककी  
स्त्री—श्रेणिककी माता  
७४।४१८

श्रीमती—सागरकी स्त्री  
७५।२५८

श्रीमती—हरिवल्की दूसरी स्त्री  
७६।२६४



श्रीवर्धमान-भगवान् महावीर  
७४।२७८  
श्रीवर्मा-राजा श्रीषेण और  
रानी श्रीकान्ताका पुत्र ५४।६८  
श्रीवर्मा-ऐरावत क्षेत्रकी खंयो-  
घ्यानगरीका राजा ५९।२८३  
श्रीविजय-त्रिपुष्टनारायण और  
स्वयंत्रभाका पुत्र ६२।१५३  
श्रीविजय-विजय बलभद्रका पुत्र  
६२।१६५  
श्रीषेण-मुगन्धि देशके श्रीपुर  
नगरका राजा ५४।३६  
श्रीषेण-रत्नपुरका राजा  
६२।३४०  
श्रीषेण-श्रीपुरका राजा  
६३।३३३  
श्रीषेण-साकेत नगरका राजा  
७२।२५४  
श्रीषेण-अङ्गदेशकी चम्पापुरी-  
का राजा ७५।८२  
श्रीषेण-हरिविक्रमके पुत्र वन-  
राजका मित्र ७५।४८२  
श्रीषेण-आगामी पंचवर्षी चक्र-  
वर्ती ७६।४८२  
श्रीषेणा-सहस्रायुषकी स्त्री  
६३।४६  
श्रीषेणा-साकेत नगरके राजा  
श्रीषेण और रानी श्रीकान्ता-  
की पुत्री ७२।२५४  
श्रुतधर-एक मुनि ६७।२६२  
श्रुतसागर-ज्वलनजटीका मन्त्री  
६२।६९  
श्रुतसागर-एक मुनि ७४।२३३  
श्रेणिक-भगधका राजा-भग-  
वान् महावीरके समवशरणका  
प्रधान श्रोता ४८।५७  
श्रेणिक-आगामी प्रथम तीर्थकर-  
का जीव ७६।४७१  
श्रेणिक-भगवान् महावीरका  
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।५३२  
श्रेयस्-ग्यारहवें तीर्थकर ६२।९१

श्रेयस्कर-भगवान् श्रेयांसनाथ-  
का पुत्र ५७।४६  
श्रेयांस-नयारहवें तीर्थकर  
५७ १  
श्रेष्ठी-आगामी सातवें तीर्थकर-  
का जीव ७६।४७२  
श्वेतकर्ण-एक हाथी ६३।१५८  
श्वेतराम-जमदग्नि और रेणुकी  
का पुत्र ६५।९२  
श्वेतवाहन-चम्पापुरका राजा  
७६।८

## [ ष ]

षण्डवन-एक वन जहाँ भगवान्  
महावीरने दीक्षा ली थी  
७४।३०२

## [ स ]

सगर-डूधरा चक्रवर्ती । यह  
भगवान् अजितनाथके तीर्थमे  
हुआ है । प्रत्येक उत्सपिण्डी  
और अवशपिण्डीके युगमें बारह-  
बारह चक्रवर्ती होते हैं ४८।५७  
सगर-श्रयोध्याका राजा ६७।  
१५७  
सङ्गमक-एक देव ७४।२८९  
सञ्जय-एक चारण ऋद्धिधारी  
मुनि ७४।२८२  
सञ्जयन्त-वीतशोक नगरके  
राजा वैजयन्तका पुत्र ५९।११०  
सञ्जयन्त-एक ध्यानस्थ मुनि  
५९।११६  
सञ्जयन्त-एक कैवली ६२।२७४  
सत्यक-रत्नपुरका एक ब्राह्मण  
६२।३२९  
सत्यक-यादव पक्षका एक राजा  
७१।७४  
सत्यक-नन्दिवर्धन नामक मुनि-  
राजके संघके एक मुनि  
७२।१०  
सत्यक-गान्धार देशके महीपुर-  
का राजा ७५।१३

सत्यदत्त-भगवान् धर्मनाथका  
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।५३१  
सत्यन्धर-हेमाङ्गद देशके राज-  
पुर नगरका राजा ७५।१८९  
सत्यमामा-रत्नपुरके सत्यक  
ब्राह्मणकी पुत्री-कपिलकी  
स्त्री ६२।३३१  
सत्यमामा-कृष्णकी एक पट्ट-  
रानी ७१।१२६  
सत्यवती-गराशरकी स्त्री  
७०।१०३  
सत्यवीर्य-भगवान् संसवनाथ-  
का मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।५२९  
सनत्कुमार-सनत्कुमार नामका  
चक्रवर्ती ६१।१०५  
सन्तानक-एक माला जो  
दिग्विजयके समय लक्ष्मणकी  
मिली ६८।६५४  
सन्मति-भगवान् मंहावार  
७३।२  
समाधिगुप्त-एक मुनि ६३।२४९  
समाधिगुप्त-एक तीर्थकर  
६६।९४  
समाधिगुप्त-एक मुनि ७१।३१८  
समाधिगुप्त-एक मुनि ७१।४४५  
समाधिगुप्त-एक मुनि ७२।२४२  
समाधिगुप्त-एक मुनि ७३।२८  
समाधिगुप्त-एक मुनि ७४।३९०  
समाधिगुप्त-एक मुनि ७५।४७०  
समाधिगुप्त-आगामी अठारहवें  
तीर्थकर ७६।४८०  
समुद्रगुप्त-एक मुनि ७३।६३  
समुद्रविजय-कौशल देशके  
साकेत नगरका राजा ४८।७१  
समुद्रविजय-अग्धकवृष्टि और  
सुभद्राका पुत्र ७०।९४  
समुद्रविजय-द्वारवतीके राजा-  
भगवान् नेमिनाथके पिता  
७१।३०  
समुद्रसेन-वस्त्वोकसारपुरका  
स्वामी एक विद्याधर राजा  
६३।११८

समुद्रसेन-एक मुनि ७०११७४  
 सम्भव-तृतीय तीर्थंकर ४९११  
 सम्भिन्न-ज्योतिःपत्र नगरका  
 राजा ६२१२४१  
 सम्भिन्न-अमिततेजका सेवक  
 एक विद्याधर ६२१२६४  
 सम्भूत-एक मुनि ५७१७८  
 सम्भूत-एक मुनि ६५ ५३  
 सम्भूत-एक तीर्थंकर ६६१२३  
 सम्भूत-एक मुनि ७४१११०  
 सर्वकल्याणी-ज्योतिःप्रभ नगर-  
 के राजा सम्भिन्नकी स्त्री  
 ६२१२४२  
 सर्वगुप्त-एक केवली ५९१७  
 सर्वगुप्त-एक मुनिराज ६३१२४७  
 सर्वमित्र-प्रियमित्रका पुत्र  
 ७४१२३९  
 सर्वगुप्त-एक केवली ६२१४९६  
 सर्वयशस्-तृणपिङ्गलकी स्त्री  
 ६७१२२४  
 सर्वश्री-वीतशोक नगरके राजा  
 वैश्वन्तकी स्त्री ५९१११०  
 सर्वश्री-मेघपुरके राजा धनञ्जय  
 की स्त्री ७११२५३  
 सर्वश्री-पञ्चमकालकी अन्तिम  
 आर्षिका ७६१४३३  
 सर्वसम्पन्न-एक वैश्य ७६११६८  
 सर्वासम्पन्न-आगामी पाँचवें  
 तीर्थंकर ७६१४७८  
 सर्वार्थसिद्धि-भगवान् शान्ति-  
 नाथकी पालकी ६३१४७०  
 सहदेव-पाण्डु और माद्रीका  
 द्वितीय पुत्र ७०१११६  
 सहदेव-धनदेवकी हृमरी स्त्री-  
 का पुत्र ७५१११०  
 सहदेवी-अयोध्याके राजा धनन्त-  
 वीर्यकी स्त्री-सप्तकुमार  
 बनवतीकी माता ६१११०५  
 सहस्रमीश-मेघकृष्णका राजा  
 एक विद्याधर ६८१८  
 सहस्रयोध-अशनिघोषका पुत्र  
 ६२१२७६

सहस्रवाहु-कौशलदेशकी साकेत  
 नगरीका राजा ६५१५७  
 सहस्ररश्मि-विजयका बड़ा पुत्र  
 ६२१२७३  
 सहस्रायुध-वज्रायुध और लक्ष्मी-  
 मतिका पुत्र ६३१४५  
 सागर-एक मुनि ७११४३५  
 सागर-राजपुरका एक श्रावक  
 ७५१२५७  
 सागर-भगवान् अजितनाथके  
 समयका मुख्य प्रश्नकर्ता  
 ७६१५२९  
 सागरदत्त-राजपुरका एक सेठ  
 ७५१५८६  
 सागरदत्त-राजगृहीका एक सेठ  
 ७६१४६  
 सागरदत्त-एक केवली मुनि  
 ७६११३४  
 सागरदत्त-सुप्रसिद्धपुरका एक  
 सेठ ७६१२१७  
 सागरसेन-एक मुनि ६२१८७  
 सागरसेन-पश्चिमीखेट नगरका  
 एक सेठ ६२१२६३  
 सागरसेन-एक मुनि ७११४०२  
 सागरसेन-एक मुनि ७४११७  
 सागरसेन-एक जिनन्द्र ७५१३१६  
 सागरसेन-एक मुनि ७६१२२१  
 सागरसेन-शिखिभूषण पर्वत-  
 पर रहनेवाले एक मुनिराज  
 ७६१३२४  
 सात्रुकम्प-पक्षदत्त और यक्ष-  
 दत्ताके यक्षिल नामक पुत्रका  
 प्रचलित दूसरा नाम ७११२८०  
 सामसम्पन्न-राजगृहका एक सेठ  
 ७६११३५  
 सारण-यादव पक्षका एक राजा  
 ७१७३  
 सारस्वत-लौकान्तिक देव जो  
 संसारसे विरक्त रहते हैं, ऐसे  
 पञ्चम स्वर्गवासी देव । इनकी  
 आठ जातियाँ होती हैं :-

१ सारस्वत  
 २ आदित्य  
 ३. वह्नि  
 ४. अरुण  
 ५ गर्दंतोय  
 ६. तुषित  
 ७ अथवावाध और  
 ८ अरिष्ट ।  
 ये देव भगवान्के सिर्फ दीक्षा-  
 कल्याणकमे आते हैं ४८ ३४  
 सार्वभौम-भगवान् मल्लिनाथ-  
 का प्रमुख प्रश्नकर्ता ७६१५३२  
 सिद्धार्थ-कौशाब्दीके राजा  
 पाण्डि और जनकी रानी  
 सुन्दरीका पुत्र ६९१४  
 सिद्धार्थ-कृष्णपुरके राजा-  
 भगवान् महावीरके पिता  
 ७४१२५२  
 सिद्धार्थ-दशपूर्वके धारक एक  
 मुनि ७६१५२२  
 सिद्धार्थनन्दन-भगवान् महावीर  
 ७६१३९३  
 सिद्धार्थ-राजा स्वयंवरकी  
 स्त्री-भगवान् अभिनन्दन-  
 नाथकी माता ५० १७  
 सिंह-भयकर पल्लोडा स्वामी  
 एक भीलका राजा ७५१४८  
 सिंहकेतु-भोगपुरके राजा प्रभ-  
 ञ्जन और रानी मृगशृङ्गा  
 पुत्र-तेठ सुमुखका जीव  
 ७०१७५  
 सिंहकेतु-भगवान् महावीर स्वामी  
 का पूर्वजका जीव ७६१५४०  
 सिंहचन्द्र-भद्रमित्रका जन्म  
 रानी रामदत्ताका पात्रा  
 ५९११९२  
 सिंहचन्द्र-एक मुनि ५२१२०७  
 सिंहचन्द्र-रागनीर्षानर्षान्-  
 मद्र ७६१८८६  
 सिंहचन्द्रिता-राजा भद्रकी  
 स्त्री ६२१३४०

सिंहमद्र-राजा चेटकका पुत्र ७५।५	राजा चित्रचूल विद्याधरकी पुत्री ६३।९३	सुदत्त-अयोध्याके राजा पुष्प दन्त क्षीर रानी प्रीतिकारीक पुत्र ७१।२५७
सिंहरथ-गगनवल्लभ नगरका राजा ६२।६६	सुकान्ता-वायुवेगकी स्त्री ६३।९४	सुदत्त-राजा चेटकका पु ७५।४
सिंहरथ-कुण्डलपुरका राजा ६२।१७८	सुकुण्डली-आदित्याभनगरका राजा ६२।३६२	सुदर्शन-भगवान् धर्मनाथ तीर्थमें होनेवाला एक बलभ ६१।५६
सिंहरथ-विद्युद्दंष्ट्र और अनिल- वेगका पुत्र ६३।२४९	सुकुमारी-नागश्रीका जीव ७२।२४४	सुदर्शन-हस्तिनापुरका राजा भगवान् धरनाथका पित ६५।१५
सिंहरथ-राजा राजगुप्तका जीव ६३।२४९	सुकुम्भोज-राजा चेटकका पुत्र ७५।५	सुदर्शन-लक्ष्मणका चक्ररत् ६८।६७५
सिंहरथ-व्रह्मदेशकी सुसीमा- नगरीका राजा ६४।३	सुकेतु-राजा चेटकका पुत्र ५९।७२	सुदर्शन-एक देव, जिसने गन्ध मादन पर्वतपर प्रतिमायोग स्थित सुप्रतिष्ठ मुनिक उपसर्ग किया था ७०।१२३
सिंहरथ-पोदानपुरका राजा— जरासन्धका शत्रु ७०।३५३	सुकेतु-एक राजा ६५।१८०	सुदर्शन-एक यक्ष—कुत्ताक जीव ७५।३६२
सिंहरथ-एक राजा ७१।४४९	सुकेतु-रथनूपुर नगरका राजा ७१।३१३	सुदर्शन-खड्गपुरके राजा सोम प्रभकी स्त्री ६७।१४२
सिंहविक्रम-सगर चक्रवर्तीकी विदर्भा नामक स्त्रीका पिता ४८।१२७	सुभीष-काकन्दीका राजा— भगवान् पुष्पदन्तके पिता ५५।२४	सुदर्शना-एक ७०।१९०
सिंहशब्दान्तपुरुष-पुरुषसिंह नामका नारायण ६१।५६	सुभीष-बलीन्द्र क्षीर प्रियङ्गु- सुन्दरीका पुत्र ६८।२७३	सुदर्शना-विद्युन्माली इन्द्रक देवी ७६।३३
सिंहसेन-भगवान् अजितनाथ- का प्रमुख गणधर ४८।४३	सुघोष-अशनिघोषका पुत्र ६२।२७६	सुदर्शनाचार्य-एक मुनि ५९।८२
सिंहसेन-सिंहपुरका राजा ५९।१४६	सुघोष-कनकश्रीका भाई ६२।५०३	सुदृष्टि-सुप्रतिष्ठका पुत्र ७०।५
सिंहसेन-जगपुर नगरका राजा ६१।७०	सुघोषा-एक वीणा ७५।३२७	सुदृष्टि-यादवपक्षका एक राज ७१।७४
सिंहसेन-पुण्डरीकिणी नगरीका राजा ६३।३३४	सुचन्द्र-आयामी आठवाँ बल- भद्र ७६।४८६	सुदृष्टि-मद्रिलपुर नगरका से ७१।२९३
सीता-खड्गपुरके राजा सोम- प्रभकी स्त्री ६७।१४२	सुज्येष्ठा-सुराष्ट्रवर्धन राजाकी स्त्री—सुसीमा पट्टरानीकी माता ७१।३९७	सुधर्म-भगवान् धर्मनाथका ६१।३७
सीता-मिथिलाके राजा जनक क्षीर उनकी वसुधा देवी रानी- की पुत्री ६७।१६७	सुतारा-अर्ककीति और ज्योति- र्मालाकी पुत्री ६२।१५२	सुधर्म-एक मुनि ६२।३७२
सीता-गणधर और उसकी रानी मन्दोदरीकी पुत्री ६८।२७	सुदत्त-पद्मखेटपुरका एक सेठ ५९।१४८	सुधर्म-एक मुनि ७१।२७२
सीमङ्कर-एक मुनि ६३।१०८	सुदत्त-विन्ध्यपुरके वनमित्र वणिक् और श्रीदत्ता स्त्रीका पुत्र ६३।१०१	सुधर्म-भगवान् महावीरक गणधर ७४।३७३
सीमन्धर-भगवान् शीतलनाथ- का मुख्य प्रश्नकर्ता ७६।५३०	सुदत्त-कलिङ्गदेशकी काची- नगरीमें रहनेवाला एक वशिष्क पुत्र ७०।१२७	सुधर्मा-भगवान् महावीर स्वामीके एक गणधर ७५।१८५
सुकण्ठ-अलकाके राजा मयूर- श्रीवका जीव ६२।५९		सुधर्माचार्य-एक मुनि ७०।१४१
सुकान्ता-किन्नरगीत नगरके		

सुनन्द-कोटिशिलापर रहने-  
वाला यक्ष ६८६४६  
सुनन्द-राजा गङ्गदेव और  
नन्दयशका पुत्र ७१२६३  
सुनन्द-आगामी दसवें तीर्थकर-  
का जीव ७६४७२  
सुनन्दा-भद्रपुरके राजा दृढरथ-  
की रानी—भगवान् शीतल-  
नाथकी माता ५६१२४  
सुनन्दा-सुप्रतिष्ठकी स्त्री  
७०१५२  
सुनीता-विजयकी स्त्री ७०१९९  
सुन्दर-महानगरका राजा,  
जिसने भगवान् वासुपूज्यको  
प्रथम आहार दिया था  
५८१४०  
सुन्दरी- चक्रपुरके राजा अण-  
राजितकी स्त्री ५९१२३९  
सुन्दरी-छत्रपुरके राजा भीति-  
श्रद्धकी स्त्री ५९१२५५  
सुन्दरी-कौशाम्बीके राजा  
पायिककी स्त्री ६९१४  
सुन्दरी-हरिविक्रम भिल्लराज-  
की स्त्री ७५४७७  
सुन्दरी-महासेनकी स्त्री  
७६१२६५  
सुपाहर्ष-सत्त्वम तीर्थकर  
५३११  
सुपाहर्ष-आगामी द्वितीय तीर्थ-  
करका जीव ७६४७१  
सुपाहर्ष-आगामी तीसरे  
तीर्थकर ७६४७७  
सुपुत्र-शेमपुरके राजा नलिन-  
प्रभका पुत्र ५७१२२  
सुप्रसिद्ध-बाराणसीके राजा—  
भगवान् सुपाहर्षनाथके पिता  
५३११९  
सुप्रसिद्ध-हस्तिनापुरके राजा  
श्रीचन्द्र और रानी श्रीमतीका  
पुत्र ७०१५२  
सुप्रसिद्ध-एक मुनिराज ७०११९

सुप्रबुद्धा-अरिन्दम राजा और  
श्रीमती रानीकी पुत्री—अग्नि-  
भूति, वायुभूतिकी माता  
अग्निलाका जीव ७२३४  
सुप्रभ-खड्गपुरके राजा सीमप्रभ  
की स्त्री सुदर्शनाका पुत्र  
६७१४४  
सुप्रभ-भगवान् नमिनाथका पुत्र  
६९१५२  
सुप्रभ-भगवान् नमिनाथका  
प्रमुख गणधर ६९१६०  
सुप्रभा-राजा भानुकी पत्नी—  
भगवान् धर्मनाथकी माता  
६१११४  
सुप्रभा-एक गणिनी ६२१५०  
सुप्रभा-वस्वालयके राजा सेन्द्र-  
केतुकी स्त्री ६३१२५१  
सुप्रभा-अमिनन्दनकी स्त्री  
७०१९९  
सुप्रभा-पुण्डरीकिणी नगरीके  
वज्र वैश्यकी स्त्री ७११३६६  
सुप्रभा-सौषमैन्द्रकी देवी  
- ७२१२५१  
सुप्रभा-राजा चेटककी पुत्री  
७५१६  
सुप्रभाशीविका-भगवान् अजित-  
नाथकी वह पालकी जिसमें  
वैठकर वे तपके लिए गये थे  
४८१३८  
सुवन्धु-एक मुनि ६५११६  
सुवन्धु-चम्पापुरका वैश्य  
७२१२४३  
सुवाल-कौशल देशके साकेत  
नगरके राजा समुद्रविजयकी  
रानी ४८१७१  
सुवाल-बाराणसीके राजा दश-  
रथकी स्त्री ६७१४८  
सुबुद्धि-एक मन्त्री ६२१२०१  
सुमद्र-शेमपुर नगरका एक शैठ  
७५१४१०

सुमद्र-आचारारङ्गके ज्ञाता एक  
मुनि ७६१५२५  
सुमद्रा-द्वारावतीके राजा ब्रह्म-  
को स्त्री ५८१८३  
सुमद्रा-द्वारवतीके राजा भद्रकी  
स्त्री—धर्म बलभद्रकी माता  
५९१७१  
सुमद्रा-द्यूतिलकनगरके राजा  
चन्द्राभकी स्त्री ६२१३६  
सुमद्रा-अश्वकवृष्टिकी स्त्री  
७०१९५  
सुमद्रा-अपासकी स्त्री ७०११०३  
सुमद्रा-भद्रिलपुरके राजा मेघ-  
रथकी स्त्री ७०११८३  
सुमद्रा-एक आर्यिका ७११४२३  
सुमद्रा-कौशाम्बीके सुमति सेठ  
की स्त्री ७११४३७  
सुमद्रा-अर्जुनकी एक स्त्री  
७२१२१४  
सुमद्रा-द्यूतिलकनगरके राजा  
चन्द्राभ विद्याधरकी स्त्री  
७४१३३४  
सुमद्रा-वृषभदत्त सेठकी स्त्री  
७४१३४१  
सुमद्रा-त्रैशालीके राजा चेटक-  
की स्त्री ७५१४  
सुमा-वस्वालयके राजा वज्र-  
चापकी स्त्री ७०१७६  
सुमानु-कसका साला ७०१४४८  
सुमानु-यानुदत्त सेठका बड़ा  
पुत्र ७११२०२  
सुमानु-कृष्ण और सत्यभामा-  
का पुत्र ७२११७४  
सुमौम-एक चक्रवर्ती ६५१५१  
सुमौम-भगवान् अरनाथका  
मुख्य प्रथमकर्ता ७६१५३२  
सुमौमकुमार-पार्श्वनाथ ७३११०३  
सुमति-पञ्चम तीर्थकर ५११११  
सुमति-भगवान् पुष्पदन्तका पुत्र  
५५१४५

सुमति-साकेतके राजा दिव्यबल  
की स्त्री ५९।२०८

सुमति-जलनजटोका मन्त्री  
६२।८१

सुमति-अपराजित बलभद्रकी  
विजया रानीसे उत्पन्न पुत्रो  
६२।४

सुमति-टडरथकी स्त्री ६३।१४७

सुमति-एक आर्थिका ६३।१७५

सुमति-बन्धु शीर सुप्रभाकी पुत्री  
७१।३६६

सुमति-कौशाम्बीका एक सेठ  
७१।४३७

सुमन्दर-एक मुनि ७०।५३

सुमन्दर-विदेहके एक तीर्थंकर  
७०।५७

सुमित्र-वत्सदेशगत सुसीमा  
नगरके राजा अपराजितका  
पुत्र ५२।१२

सुमित्र-राजगृह नगरका एक  
राजा ६१।५७

सुमित्र-कौशलदेश स्थित साकेत  
नगरका राजा—मघवान्  
षड्वर्तीका पिता ६३।१९२

सुमित्र-एक राजा, जिसके यहाँ  
भगवान् शान्तिनाथका प्रथम  
आहार हुआ था ६३।४७९

सुमित्र-राजगृह नगरके राजा—  
भगवान् मुनि सुव्रतनाथके पिता  
६७।२०

सुमित्र-घातकी खण्डकी पूर्व-  
दिशा सम्बन्धी पुष्कलावती  
देशमें स्थित पुण्डरीकिणी  
नगरीका राजा ७४।२३६

सुमित्र-त्रीवन्धरका साला  
७५।४३०

सुमित्र-नगरशोभ नगरके राजा  
दृढमित्रका भाई ७५।४३९

सुमित्रा-पद्मखेटपुरके सुदत्त  
सेठकी स्त्री ५९।१४८

सुमित्रा-भद्रमित्रकी माता  
५९।१८९

सुसुख-कौशाम्बीका एक सेठ  
७०।६५

सुसुख-यादवपक्षका एक राजा  
७१।७४

सुयोधन-चारणयुगल नगरका  
राजा ६७।२१३

सुरकीर्ति-भगवान् शान्तिनाथ-  
के सघका एक प्रमुख श्रावक  
६३।४९४

सुरगुरु-कुण्डलपुरके राजा सिंह-  
रथका पुरोहित ६२।१७८

सुरगुरु-एक चारणशूद्रिचारी  
मुनि ७०।१३७

सुरदेव-आगामी द्वितीय तीर्थ-  
ंकर ७६।४७७

सुरम्बजरी-राजपुरके वैश्रवण  
सेठ और आश्रमजरी सेठानी-  
की पुत्री ७५।३४८

सुराष्ट्रवर्धन-सुमीमा पट्टरानी-  
का पिता ७१।३९६

सुरूप-देवरमण वनका व्यन्तर  
देव ६३।२७८

सुरूपा-एक देवी ६३।२८५

सुरूपा-गगनवल्लभ नगरके  
राजा विद्युद्देव और रानी  
विद्युद्देवाकी पुत्री ७१।४२०

सुरेन्द्रदत्त-जम्बूद्वीपकी विनीता-  
अयोध्या नगरीका एक सेठ  
७०।१४७

सुरेन्द्रदत्त-श्रावस्तीका एक  
राजा, जिसने भगवान् संभव-  
नाथको सर्वप्रथम आहारदान  
दिया था ४९।३९

सुलक्षणा-अतिवेग विद्याधरकी  
स्त्री ५९।२२९

सुलक्षणा-एक गण्डिनी  
६२।११२

सुलक्षणा-विन्ध्यपुरके राजा  
विन्ध्यसेनकी स्त्री ६३।१००

सुलक्षणा-पोदनपुरके राजा  
सुस्थितकी स्त्री ७०।१३९

सुलसा-एक कन्या, जो आ  
चलकर राजा समरकी र  
हुई ६७।१५८

सुलसा-राजा सुयोधन की  
अतिथिकी पुत्री ६७।२१४

सुलोचना-भगवान् पार्वनाथ  
संघकी एक प्रमुख आर्थि  
७३।१५३

सुवर्णकुम्भ-एक मुनि ५७।९

सुवर्णकुम्भ-एक मुनि, जिन  
पास विजय बलभद्रने दो  
ली थी ६२।१६७

सुवर्णतिलक सिंहरथका पु  
६३।२५२

सुवर्णतिलका-तिलकनगरके  
राजा अभयधोषकी र  
६३।१६९

सुवर्णतेजस्-राजपुरके वैश्र  
कनकतेजस् और चन्द्रमा  
का पुत्र ७५।४५३

सुवर्णदारक-एक मृदङ्ग बजा  
वाला ७६।१९०

सुवर्णनाभ-राजा कनकप्रभ  
पुत्र ५४।१४१

सुवर्णयक्ष-एक व्यन्तर दे  
७२।१७

सुवर्णवर्ण-धीरपुरका रा  
६९।५६

सुवर्णवर्मा-बङ्ग देशके कान्तपु  
का राजा ७५।५१

सुविधि-नवमतीर्थंकर। इन्हीं  
दूसरा नाम पुण्डरीक प्रची  
है ५५।१

सुवेग-विजयका  
६२।२७२

सुवेगा-शिवंकरनगरके रा  
पवनवेगकी पुत्री ७५।१६४

सुव्रत-सुव्रत नामक जि  
५८।८१

सुव्रत-विदेहके एक तीर्थ  
५९।६५

सुव्रत-एक जिनेन्द्र ६३।१०३  
 सुव्रत-एक मुनि ७२।२४६  
 सुव्रतजिनाधिप-सुव्रतनामक  
 जिनेन्द्र ५८।७६  
 सुव्रात-घातकीखण्डके पश्चिम  
 विदेहमें स्थित गन्धिल देशकी  
 बयोध्या नगरीके राजा अर्ह-  
 हासकी स्त्री ५९।२७७  
 सुव्रता-एक गणिनी ६२।४९८  
 सुव्रता-एक आर्थिका ६३।२३  
 सुव्रता-एक आर्थिका ६३।१०९  
 सुव्रता-एक आर्थिका ७०।४०८  
 सुव्रता-एक आर्थिका ७१।२८८  
 सुव्रता-एक आर्थिका ७१।३६७  
 सुव्रता-एक आर्थिका ७२।२४९  
 सुव्रता-पूर्वघातकीखण्डकी  
 पुण्डरीकिणी नगरीके राजा  
 सुमित्रकी स्त्री ७४।२३६  
 सुव्रता-एक गणिनी ७६।१६५  
 सुव्रताक्षान्ति-एक आर्थिका  
 ७५।३१९  
 सुपेण-कनकपुरका राजा  
 ५८।६१  
 सुपेण-अरिष्टपुरका राजा  
 वासव और रानी वसुमतीका  
 पुत्र ७१।४०१  
 सुपेणा-श्रावस्तीके राजा वृद्ध  
 राजकी स्त्री-भगवान्  
 समवनाथकी माता ४९।१५  
 सुपेणा-मेघरथकी स्त्री प्रिय-  
 मित्राकी चेटी ६३।१५०  
 सुसीमा-कौशाम्बीके राजा  
 धरणकी रानी-भगवान्  
 पद्मप्रभकी माता ५२।१९  
 सुसीमा-ऐरावत क्षेत्रस्य  
 बयोध्याके राजा श्रीवर्माकी  
 स्त्री ५९।२८३  
 सुसीमा-कृष्णकी एक पट्टरानी  
 ७१।१२६  
 सुस्थित-पीढनपुरका राजा  
 ७०।१३९

सुश्रुत-ज्वलनजटी विद्याधरका  
 मन्त्री ६२।५७  
 सूरदक्ष-कलिङ्गदेशकी काञ्ची-  
 नगरीमें रहनेवाला एक वणिक्  
 पुत्र ७०।१२७  
 सूरदत्तचर-सूरदत्तका शीत्र  
 ७०।१४१  
 सूर्वाणखा-रावणकी बहिन  
 ६८।१२४  
 सूरसेन-शौर्यपुरका राजा  
 ७०।९३  
 सूर्यप्रभ-पुष्करार्थके पश्चिम  
 विदेह सम्बन्धी सूर्यप्रभ नगर-  
 का राजा ७०।२८  
 सूर्यप्रभ-राजा रघुका जीव जो  
 सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ था  
 ७०।८०  
 सूर्यप्रभ-एक देव, भगवान्  
 महावीरका पूर्वभवका जीव  
 ७६।५४२  
 सूर्यप्रभा-भगवान् पुष्यवन्तकी  
 पालकी ५५।४६  
 सूर्यावर्त-पुष्करपुरनगरका राजा  
 ५९।२३०  
 सूर्योदय-गुणमालाका चूर्ण  
 ७५।३५२  
 सैन्द्रकेतु-वस्वालय नगरका राजा  
 ६३।२५१  
 सेवक-आगामी बारहवे तीर्थकर-  
 का जीव ७६।४७३  
 सैन्धव-हृरविक्रमका सेवक  
 ७५।४८०  
 सोम-सिंहपुरका निवासी एक  
 परिव्राट् ६२।२०२  
 सोम-पर्यङ्कान्ता नदीके तीरपर  
 रहनेवाला एक तापस ६३।२६७  
 सोम-लक्ष्मीग्रामका एक ब्राह्मण  
 ७१।३१७  
 सोमदत्त-वर्द्धमाननगरका राजा,  
 जिसके यहाँ भगवान् पद्मप्रभ-  
 का प्रथम आहार हुआ था  
 ५२।५४

सोमदत्त-मलिन नगरका राजा,  
 जिसने भगवान् चन्द्रप्रभको  
 प्रथम आहार दिया था  
 ५४।२१८  
 सोमदत्त-चम्पापुरके सोमदेव  
 ब्राह्मण और सोमिला स्त्रीका  
 पुत्र ७२।२२८  
 सोमदेव-मगधदेशके शालि-  
 ग्राममें रहनेवाला एक ब्राह्मण  
 ७१।३  
 सोमदेव-चम्पापुरका एक  
 ब्राह्मण ७२।२२८  
 सोमप्रभ-खड्गपुरका राजा  
 ६७।१४२  
 सोमप्रभा-राजा कनकप्रभकी  
 स्त्री ५४।१४१  
 सोमभूति-चम्पापुरके सोमदेव  
 ब्राह्मणका पुत्र ७२।२२९  
 सोमशर्मा-निमित्तज्ञानीके शिष्य  
 का मामा ६२।१९२  
 सोमशर्मा-पलाशकूट ग्रामका  
 एक ब्राह्मण ७०।२००  
 सोमशर्मा-शिवभूतिकी स्त्री  
 सोमिलाका पिता ७५।७३  
 सोमश्री-कुम्भकारकट नगरके  
 निवासी चण्डकीशिक विप्रकी  
 स्त्री ६२।२१४  
 सोमश्री-पुण्डरीकिणी नगरीके  
 राजा अशोककी स्त्री ७१।३९४  
 सोमा-राजगृहके राजा सुमित्र-  
 की स्त्री-भगवान् मुनिमुसुव-  
 नाथकी माता ६७।२१  
 सोमिल-चम्पापुरके राजा सोम-  
 देवका एक पुत्र ७२।२२८  
 सोमिला-चम्पापुरके सोमदेव  
 ब्राह्मणकी स्त्री ७२।२२८  
 सोमिला-सोमदेव ब्राह्मणकी  
 स्त्री ७४।२२९  
 सोमिला-शिवभूतिकी स्त्री  
 ७५।७३  
 सौनन्दक-लक्ष्मणका खड्ग  
 ६८।६४६

स्तिमितसागर-जम्बूद्वीप—वत्स-  
कावती देश की प्रभाकरिपुत्रीका  
राजा ६२।४१२  
स्तिमितसागर—श्रन्धकवृष्टि और  
सुभद्राका पुत्र ७०।९५  
स्थावर—षाण्डिल्य और पार-  
शरीका पुत्र ७४।८३  
स्थावर—भगवान् महावीरके पूर्व  
भवका जीव ७६।५३८  
स्थूणगन्धर्व—भोवनपुरके राजा  
चन्द्रदत्तके पुत्र इन्द्रवर्माका  
प्रतिद्वन्द्वी ७२।२०५  
स्मर—प्रद्युम्न ७२।१६९  
स्मरतरङ्गिणी—एक शय्या  
७५।४३४  
स्वयम्भ्रम—विदेहके एक तीर्थ-  
कर ४९।७  
स्वयम्भ्रम—एक तीर्थकर ५४।९४  
स्वयम्भ्रम—विदेहके एक तीर्थ-  
कर ६२।४२५  
स्वयम्भ्रम—विदेहके तीर्थकर  
६२।५०७  
स्वयम्भ्रम—जम्बूद्वीप विदेहक्षेत्र-  
की पुण्डरीकिणी नगरीके एक  
तीर्थकर ७०।४२  
स्वयम्भ्रम—स्वयम्भ्रमद्वीपका एक  
देव ७१।४५२  
स्वयम्भ्रम—विदेहके एक तीर्थकर  
७२।६९  
स्वयम्भ्रम—आगामी चौथे तीर्थ-  
कर ७६।४७८  
स्वयम्भ्रमा—जबलनजटी और  
वायुवेगाकी पुत्री ६२।४४  
स्वयम्भ्रमा—हिमवान्की स्त्री  
७०।९८  
स्वयम्भ्रमा—रथतूपुर नगरके  
राजा सुकतुकी स्त्री—सत्य-  
भामाकी माता ७१।३१३  
स्वयम्भ्रमा—स्वयम्भ्रमभद्रैकी एक  
देवी ७१।४५१

स्वयम्भ्रमा—राजा चन्द्राभ और  
सुभद्राकी पुत्री ७४।१३५  
स्वयम्भ्रू—भगवान् विमलनाथके  
समयमें होनेवाले एक चक्रवर्ती  
५९।६३  
स्वयम्भ्रू—विदेहके तीर्थकर  
५९।१११  
स्वयम्भ्रू—भगवान् कुन्थुनाथका  
प्रमुख गणधर ६४।४४  
स्वयम्भ्रू—भगवान् पार्वर्नाथका  
प्रमुख गणधर ७३।१४९  
स्वयम्भ्रू—आगामी उत्तीसवें  
तीर्थकर ७६।४८०  
स्वयम्भ्रू—भगवान् वासुपूज्यका  
मुख्य प्रदणकर्ता ७६।५३०  
स्वयम्भ्रूकेशव—स्वयम्भ्रूनामका  
नारायण ७१।२९८  
स्वयंवर—भारत क्षेत्रके साकेत  
नगरका राजा—भगवान्  
अभिनन्दननाथका पिता  
५०।१७  
स्वर्णचूल्—एक देव—विजयका  
जीव ६७।१४६  
स्वर्मानु—सुभानुका नामान्तर  
७०।४५१  
स्वामिहित—शयोष्याके राजा  
वज्रबाहुका मन्त्री ७३।४४

[ ह ]

हयकन्धर—अश्वघ्रीवका दूसरा  
नाम ५७।१००  
हयग्रीव—अश्वघ्रीवका दूसरा  
नाम ६२।१४२  
हरि—श्रीकृष्ण ७१।५  
हरिगिरि—चम्पापुरके राजा  
मार्कण्डेयकी सन्तान ७०।९१  
हरिचन्द्र—एक चारण ऋद्धि-  
धारी मुनि ५९।२३३  
हरिचन्द्र—आगामी चौथा बल-  
मन्त्र ७६।४८६  
हरियुत्र—प्रद्युम्न ७२।११३

हरिवल—राजा पुरुबल और  
ज्योतिर्मालाका पुत्र ७१।३११  
हरिवल—अलकाका निवासी  
एक विद्याधर ७६।२६३  
हरिवर्मा—अङ्गदेश—चम्पापुरका  
राजा—मुनिसुव्रतनाथका  
तृतीय पूर्वभव ६७।२  
हरिवाहन—नन्दपुरके राजा  
हरिषेण और रानी श्रीकान्ता-  
का पुत्र ७१।२५४  
हरिवाहन—एक विद्याधर जिसे  
कनकमालाने स्वयंवरमें बरा  
था ७१।४०६  
हरिक्रम—एक भीलका राजा  
७५।४७८  
हरिशर्मा—एक ब्राह्मण ६५।६१  
हरिश्मश्रु—अश्वघ्रीवका मन्त्री  
६२।६१  
हरिषेण—भगवान् मुनिसुव्रतनाथ-  
के तीर्थमें हुआ एक चक्रवर्ती  
६७।६१  
हरिषेण—नन्दपुरका राजा  
७१।२५४  
हरिषेण—हस्तिशीर्षपुर नगरका  
राजा ७१।४४४  
हरिषेण—राजा वज्रसेन और  
रानी शीलवतीका पुत्र  
७४।२३२  
हरिषेण—भगवान् महावीरका  
पूर्वभवका जीव ७६।५४१  
हरिषेणगुरु—एक मुनि ६७।२३६  
हरिषेणा—एक आर्यिका  
६३।४९३  
हरिषेणा—श्रीषेण और  
श्रीकान्ताकी पुत्री ७२।२५४  
हिमगिरि—चम्पापुरके राजा  
मार्कण्डेयकी सन्तान ७०।९१  
हिमवान्—अश्वकवृष्टि और  
सुभद्राका पुत्र ७०।९६  
हिरण्यमति—एक आर्यिका, जो  
रानी रामवतीका सम्बोधनेके  
लिए आयी थी ५९।१९९

हिरण्यलोमा—सोमशर्माकी स्त्री  
६२।१९२

हिरण्यवती—साकेतके राजा  
दिव्यवल और सनकी रानी  
सुमतिकी पुत्री—यह मृगायण  
ब्राह्मणका जीव था ५९।२०९  
हिरण्यवर्मा—अरिष्टपुरका  
राजा ७१।४५८

हिरण्यवर्मा—हरिवलकी श्रीमती  
स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र  
७६।२६४

हेमप्रभ—अरासन्धके पक्षका एक  
राजा ७१।७७

हेमरथ—दमितारिके युद्धमें दृढ-  
रथके द्वारा मारा गया एक  
राजा ६३।२६५

हेमाङ्गद—एक राजा ६३।१८१

हेमा—पुष्पागपुरका राजा  
७१।४३०

हेमामनगर—सुजनदेशका एक  
नगर ७५।४२०

हेमामा—राजा हृदमित्र और  
नलिनाकी पुत्री ७५।४२१

ही—एक देवी ५४।१६९







**BHĀRĀTĪYA JÑĀNAPĪṬHA**  
**MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ**

*General Editors :*

Dr. H. L. JAIN, Jabalpur : Dr. A. N. UPADHYE, Kolhapur.

The Bhāratiya Jñānapīṭha, is an Academy of Letters for the advancement of Indological Learning. In pursuance of one of its objects to bring out the forgotten, rare unpublished works of knowledge, the following works are critically or authentically edited by learned scholars who have, in most of the cases, equipped them with learned Introductions etc. and published by the Jñānapīṭha.

**Mahābandha or the Mahādḥavalā :**

This is the 6th Khaṇḍa of the great Siddhānta work *Ṣaṭkhaṇḍāgama* of Bhūtabālī : The subject matter of this work is of a highly technical nature which could be interesting only to those adepts in Jaina Philosophy who desire to probe into the minutest details of the Karma Siddhānta. The entire work is published in 7 volumes. The Prakṛit Text which is based on a single Ms. is edited along with the Hindī Translation. Vol I is edited by Pt. S. C. DIWAKAR and Vols. 2 to 7 by Pt. PHOOLACHANDRA. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Prakṛit Grantha Nos. 1, 4 to 9 Super Royal Vol. I : pp. 20+80+350 ; Vol. II : pp. 4+40+440 ; Vol. III : pp. 10+496 ; Vol. IV : pp. 16+428 ; Vol. V : pp. 4+460 ; Vol. VI : pp. 22+370 ; Vol. VII : pp. 8+320. Bhāratiya Jñānapīṭha Kashi, 1947 to 1958. Price Rs. 11/- for each vol.

**Karalakkhana :**

This is a small Prakṛit Grantha dealing with palmistry just in 61 gāthās. The Text is edited along with a Sanskrit Chāyā and Hindī Translation by Prof. P. K. MODI. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Prakṛit Grantha No. 2. Third edition, Crown pp. 48 Bhāratiya Jñānapīṭha Kashi, 1964. Price 75 nP.

**Madanaparājaya :**

An allegorical Sanskrit Campū by Nāgadeva (of the Saṃvat 14th century or so) depicting the subjugation of Cupid. Edited critically by Pt. RAJKUMAR JAIN with a Hindī Introduction, Translation etc., Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 1. Second edition. Super Royal pp. 14 + 58 + 144. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 8/-.

**Kannaḍa Prāntīya Tāḍapatrīya Grantha-sūci :**

A descriptive catalogue of Palmleaf Mss. in the Jaina Bhaṇḍāras of Mōodbidri, Karkal, Alīyoor etc. Edited with a Hindī Introduction etc. by Pt. K. BHUJABALI SHASTRI. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 2. Super Royal pp. 32 + 324. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1948. Price Rs. 13/-.

**Tattvārtha-ṛtī :**

This is a critical edition of the exhaustive Sanskrit commentary o Śrutasāgara (c. 16th century Vikrama Saṃvat) on the Tattvārthasūtr of Umāsvāti which is a systematic exposition in Sūtras of the fundamentals of Jainism. The Sanskrit commentary is based on earlier commentaries and is quite elaborate and thorough. Edited by Pts MAHENDRAKUMAR and UDAYACHANDRA JAIN. Prof. MAHENDRA KUMAR has added a learned Hindī Introduction on the exposition of the important topics of Jainism. The edition contains a Hindī Translation and important Appendices of referential value. Jñānapīṭha Mūrtidev Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 4. Super Royal pp. 108 + 54 Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1949, Price Rs 16/-.

**Ratna-Manjūṣā with Bhāṣya :**

An anonymous treatise on Sanskrit prosody. Edited with a critical Introduction and Notes by Prof. H. D. VELANKAR. Jñānapīṭha Mūrtidev Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 5. Super Royal p 8 + 4 + 72. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1949. Price Rs. 2/-.

**Nyāyaviniścaya-vivarana :**

The Nyāyaviniścaya of Akalaṅka (about 8th century A. D.) with an elaborate Sanskrit commentary of Vādirāja (c. 11th century A. D.) is repository of traditional knowledge of Indian Nyāya in general and Jaina Nyāya in particular. Edited with Appendices etc. by P MAHENDRAKUMAR JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā Sanskrit Grantha Nos. 3 and 12. Super Royal Vol. I : pp. 68 + 54 Vol. II : pp. 66 + 468. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1949 and 195 Price Rs. 15/- each.

**Kevalajñāna-praśna-cūḍāmani :**

A treatise on astrology etc. Edited with Hindī Translation, Introduction, Appendices, Comparative Notes etc. by Pt. NEMICHANDRA JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 7. Super Royal pp. 16+128. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1950. Price Rs. 4/-.

**Nāmamālā :**

This is an authentic edition of the Nāmamālā, a concise Sanskrit Lexicon of Dhananīyaya (c. 8th century A. D.) with an unpublished Sanskrit commentary of Amarakīrti (c. 15th century A. D.). The Editor has added almost a critical Sanskrit commentary in the form of his learned and intelligent foot-notes. Edited by Pt. SHAMBHUNATH TRIPATHI, with a Foreword by Dr. P. L. VAIDYA and a Hindī Prastāvanā by Pt. MAHENDRAKUMAR. The Appendix gives Anekārtha nighaṇṭu and Ekākṣarī-kośa. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 6. Super Royal pp. 16+140. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1950. Price Rs. 3.50 nP.

**Samayasāra :**

An authoritative work of Kundakunda on Jaina spiritualism. Prākṛit Text, Sanskrit Chāyā. Edited with an Introduction, Translation and Commentary in English by Prof. A CHAKRAVARTI. The Introduction is a masterly dissertation and brings out the essential features of the Indian and Western thought on the all-important topic of the Self. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, English Grantha No. 1. Super Royal pp. 10+162+244. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1950. Price Rs 8/-.

**Jātakatthakathā :**

This is the first Devanāgarī edition of the Pāli Jātaka Tales which are a store-house of information on the cultural and social aspects of ancient India. Edited by Bhikshu DHARMAKASHITA. Jñānapīṭha Mūrtidevī Pāli Granthamālā No. 1, Vol. 1. Super Royal pp. 16+384. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1951. Price Rs 9/-.

**Kural or Thirukkural :**

An ancient Tamil Poem of Thevar. It preaches the principles of Truth and Non-violence. The Tamil Text and the commentary of Kavirājapaṇḍita. Edited by Prof. A. CHAKRAVARTI with a learned Introduction in English. Bhāratīya Jñānapīṭha Tamil Series No. 1. Demy pp. 8+36+440. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1951. Price Rs. 5/-.

**Mahāpurāna :**

It is an important Sanskrit work of Jinasena-Guṇabhadra, full of encyclopaedic information about the 63 great personalities of Jainism and about Jain lore in general and composed in a literary style. Jinasena (837 A. D.) is an outstanding scholar, poet and teacher; and he occupies a unique place in Sanskrit Literature. This work was completed by his pupil Guṇabhadra. Critically edited with Hindi Translation, Introduction, Verse Index etc. by Pt. PANNALAL JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 8, 9 and 14. Super Royal Vol. I : Second edition, pp. 8 + 68 + 746 Varanasi 1963 ; Vol. II : pp. 8 + 556 ; Vol. III : pp. 8 + 16 + 640 ; Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1951 to 1954. Price Rs. 10/- each.

**Vasunandī Śrāvakācāra :**

A Prakrit Text of Vasunandī (c. Saṃvat first half of 12th century) in 546 gāthās dealing with the duties of a householder, critically edited along with a Hindi Translation by Pt. HIRALAL JAIN. The Introduction deals with a number of important topics about the author and the pattern and the sources of the contents of this Śrāvakācāra. There is a table of contents. There are some Appendices giving important explanations, extracts about Pratiṣṭhāvidhāna, Sallekhanā and Vratas. There are 2 Indices giving the Prakrit roots and words with their Sanskrit equivalents and an Index of the gāthās as well. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Prakrit Grantha No. 3. Super Royal pp. 230. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1952. Price Rs. 5/-.

**Tattvārthavārttikam or Rājavārttikam :**

This is an important commentary composed by the great logician Akalaṅka on the Tattvārthasūtra of Umāsvāti. The text of the commentary is critically edited giving variant readings from different Mss. by Prof. MAHENDRAKUMAR JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 10 and 20. Super Royal Vol. I : pp. 16 + 430 ; Vol. II : pp. 18 + 436. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1953 and 1957. Price Rs. 12/- for each Vol.

**Jinasahasranāma :**

It has the Svopajña commentary of Paṇḍita Āśādhara (V. S. 13th century). In this edition brought out by Pt. HIRALAL a number of texts of the type of Jinasahasranāma composed by Āśādhara, Jinasena, Sakalakīrti and Hemacandra are given. Āśādhara's text is accompanied by Hindi Translation. Śrutasāgara's commentary of the same is also given here. There is a Hindi Introduction giving information about Āśādhara etc. There are some useful Indices. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 11. Super Royal pp. 288. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1954. Price Rs. 4/-.

**Purānasāra-Saṅgraha :**

This is a Purāṇa in Sanskrit by Dāmanandī giving in a nutshell the lives of Tīrthaṅkaias and other great persons. The Sanskrit text is edited with a Hindī Translation and a short Introduction by G. C. JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 15 and 16. Crown Part I : pp. 20+198 ; Part II : pp. 16+206. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1954, 1955. Price Rs. 2/- each.

**Sarvārtha-Siddhi :**

The Sarvārtha-Siddhi of Pūjyapāda is a lucid commentary on the Tattvārthasūtra of Umāsvatī called here by the name Ḡṛhṛapiccha. It is edited here by Pt. PHOOLACHANDRA with a Hindī Translation, Introduction, a table of contents and three Appendices giving the Sūtras, quotations in the commentary and a list of technical terms. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 13. Double Crown pp. 116+506. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1955. Price Rs. 12/-.

**Jainendra Mahāvṛtti :**

This is an exhaustive commentary of Abhayānandī on the *Jainendra Vyākaraṇa*, a Sanskrit Grammar of Devānandī alias Pūjyapāda of circa, 5th-6th century A. D. Edited by Pts. S. N. TRIPATHI and M. CHATURVEDI. There are a Bhūmikā by Dr. V. S. AGRAWALA, *Devānandīkā Jainendra Vyākaraṇa* by PREMI and *Khilapāṭha* by MIMĀNSAKA and some useful Indices at the end. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 17. Super Royal pp. 56+506. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1956. Price Rs. 15/-.

**Vratatithi Nirṇaya :**

The Sanskrit Text of Śiṃhanandī edited with a Hindī Translation and detailed exposition and also an exhaustive Introduction dealing with various Vratas and rituals by Pt. NEMICHANDRA SHASTRI. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 19. Crown pp. 80+200. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1956. Price Rs. 3/-.

**Pauma-cariu :**

An Apabhraṁśa work of the great poet Svayambhū (677 A. D.). It deals with the story of Rāma. The Apabhraṁśa text up to 56th Sandhi with Hindī Translation and Introduction of Dr. DEVENDRAKUMAR JAIN, is published in 3 Volumes. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Apabhraṁśa Grantha Nos. 1, 2 & 3. Crown size, Vol. I. pp. 28+333 ; Vol. II : pp. 12+377 ; Vol. III : pp. 6+253. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1957, 1958. Price Rs. 3/- for each Vol.

**Jivāmdhara-Campū :**

This is an elaborate prose Romance by Haricandra written in Kāvya style dealing with the story of Jivāmdhara and his romantic adventures. It has both the features of a folk-tale and a religious romance and is intended to serve also as a medium of preaching the doctrines of Jainism. The Sanskrit Text is edited by Pt. PANNALAL JAIN along with his Sanskrit Commentary, Hindī Translation and Prastāvanā. There is a Foreword by Prof. K. K. HANDIQUI and a detailed English Introduction covering important aspects of Jivāmdhara tale by Drs. A. N. UPADHYE and H. L. JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 18. Super Royal pp. 4+24 +20+344. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1958. Price Rs. 8/-.

**Padma-purāṇa :**

This is an elaborate Purāṇa composed by Raviṣeṇa (V. S. 734) in stylistic Sanskrit dealing with the Rāma tale. It is edited by Pt. PANNALAL JAIN with Hindī Translation, Table of contents, Index of verses and Introduction in Hindī dealing with the author and some aspects of this Purāṇa. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 21, 24, 26. Super Royal Vol. I : pp. 44+548 ; Vol. II : pp. 16+460 ; Vol. III : pp. 16+472. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1958-59. Price Rs. 10/- each.

**Siddhi-viniścaya :**

This work of Akalaṅkadeva with Svopajñāvṛtti along with the commentary of Anantavīrya is edited by Dr. MAHENDRAKUMAR JAIN. This is a new find and has great importance in the history of Indian Nyāya literature. It is a feat of editorial ingenuity and scholarship. The edition is equipped with exhaustive, learned Introductions both in English and in Hindī, and they shed abundant light on doctrinal and chronological problems connected with this work and its author. There are some 12 useful Indices. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos. 22, 23. Super Royal Vol. I : pp. 16+174+370 ; Vol. II : pp. 8+808. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1959. Price Rs. 18/- and Rs. 12/-.

**Bhadrabāhu-Saṁhitā :**

A Sanskrit text by Bhadrabāhu dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with a Hindī Translation and occasional Vivecana by Pt. NEMICHANDRA SHASTRI. There is an exhaustive Introduction in Hindī dealing with Jain Jyotiṣa and the contents, authorship and age of the present work. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 25. Super Royal pp. 72+416. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1959. Price Rs. 8/-.

**Pañcasāgraha :**

This is a collective name of 5 Treatises in Prākṛit dealing with the Karma doctrine the topics of discussion being quite alike with those in the Gōmmatasāra etc. The Text is edited with a Sanskrit commentary, Prākṛit Vṛtti by Pt. HIRALAL who has added a Hindī Translation as well. A Sanskrit Text of the same name by one Śrīpāla is included in this volume. There are a Hindī Introduction discussing some aspects of this work, a Table of contents and some useful Indices. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Prākṛit Grantha No 10 Super Royal pp. 64+804. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1960. Price Rs. 15/-.

**Mayana-parājaya-carīu :**

This Apabhraṁśa Text of Harideva is critically edited along with a Hindī Translation by Prof. Dr. HIRALAL JAIN. It is an allegorical poem dealing with the defeat of the god of love by Jina. This edition is equipped with a learned Introduction both in English and Hindī. The Appendices give important passages from Vedic, Pāli and Sanskrit Texts. There are a few explanatory Notes, and there is an Index of difficult words. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Apabhraṁśa Grantha No. 5. Super Royal pp. 88+90. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1962. Price Rs. 8/-.

**Harivaṁśa Purāṇa :**

This is an elaborate Purāṇa by Jināsena (Śaka 705) in stylistic Sanskrit dealing with the Harivaṁśa in which are included the cycle of legends about Kṛṣṇa and Pāṇḍavas. The text is edited along with the Hindī Translation and Introduction giving information about the author and this work, a detailed Table of contents and Appendices giving the verse Index and an Index of significant words by Pt. PANNALAL JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No 27 Super Royal pp 12+16+812+160. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1962 Price Rs 16/-.

**Karmaprakṛti :**

A Prākṛit text by Nemīcandra dealing with Karma doctrine, its contents being allied with those of Gōmmatasāra. Edited by Pt. HIRALAL JAIN with the Sanskrit commentary of Sumatikīrti and Hindī Tikā of Paṇḍita Hemarāja, as well as translation into Hindī with Viśeṣārtha. Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Prākṛit Grantha No. 11 Super. Royal pp. 32+160. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 6/-.



**Jpāsakādhyayana :**

It is a portion of the Yaśastilaka-campū of Somadeva Sūri. deals with the duties of a householder. Edited with Hindi Translati Introduction and Appendices etc. by Pt. KAILASHCHANDRA SHAST Jñānapīṭha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 2 Super Royal pp. 116 + 539, Bhāratīya Jñānapīṭha, Kashi, 196 Price Rs. 12/-.

**Bhojacaritra :**

A Sanskrit work presenting the traditional biography of the Paramā Bhoja by Rājavallabha (15th century A. D.). Critically edited by D B. Ch. CHHABRA, Jt. Director General of Archaeology in India an S. SANKARANARAYANA with a Historical Introduction and Explanator Notes in English and Indices of Proper names. Jñānapīṭha Mūrtide Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 29. Super Royal p 24 + 192. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 8/-.

**Satyasāsana-parikṣā**

A Sanskrit text on Jain logic by Ācārya Vidyānandi, criticall edited for the first time by GOKULCHANDRA JAIN., It is a critiqu of selected issues upheld by a number of philosophical schools of Indian Philosophy. There is an English compendium of the text, by Dr. NATHMAL TATIA. Jñānapīṭha Mūrtidevi Jain Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 30. Super Royal pp. 56 + 34 + 62. Bhāratīya Jñānapīṭha, Kashi, 1964. Price Rs 5/-.

**Karakaṇḍa-carīi**

An Apabhraṃśa text dealing with the life story of king Karakaṇḍa, famous as 'Pratyeka Buddha' in Jaina & Buddhist literature. Critically edited with Hindi & English Translations, Introductions, Explanatory Notes and Appendices etc. by Dr. HIRALAL JAIN. Jñānapīṭha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, Apabhraṃśa Grantha No. 4. Super Royal pp. 64 + 278. Bhāratīya Jñānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 10/-.

*For Copies Please write to—*

BHARATIYA JNANPITH,  
3620/21 Netaji Subhas Marg, Dariyaganj,  
Delhi (India).

. or

BHARATIYA JNANPITH,  
Durgakund road, Varanasi (India).

